

ओ३म्

अथ सत्यार्थप्रकाशः ॥

वेदादिविविधसच्छास्त्रप्रमाणैः समन्वितः

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिविरचितः

सर्वथा राजनियमे नियोजितः

अजमेरनगरे

वैदिकग्रन्थालये मुद्रितः

संवत् १९४८

चतुर्थवारम् ५०००

मूल्यम् २।॥

अथ सत्यार्थप्रकाशस्य सूचीपत्रम्

विषयाः	पृष्ठतः—पृष्ठम्
भूमिका	१—६
१ समुल्लासः	
वरनामव्याख्या	७—२४
मङ्गलाचरणसमीक्षा	२४—२६
२ समुल्लासः	
वालग्निकाविषयः	२७—३५
भूतप्रेतादिनिषेधः	३०
नक्षत्रसूर्यादिग्रहसमीक्षा	३०—३५
३ समुल्लासः	
अध्ययनाध्यापनविषयः	३६—७७
गुरुमन्त्रव्याख्या	३७—३८
प्राणायामशिक्षा	३८
सन्ध्याग्निहोत्रोपदेशः	४०—४१
यज्ञपात्राकृतयः	४१
होमफलनिर्णयः	४२
उपनयनसमीक्षा	४२
ब्रह्मचर्योपदेशः	४४—४५
ब्रह्मचर्यकृत्यवर्णनम्	४६—५३
पञ्चधापरीत्याध्यापनम्	५४—६६

विषयाः	पृष्ठतः—पृष्ठम्
पठनपाठनविशेषविधिः	६७—७१
ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यवि०	७२—७४
स्त्रीशूद्राध्ययनविधिः	७४—७७
४ समुल्लासः	
समावर्तनविषयः	७८
दूरदेशे विवाहकरणम्	७८
विवाहे स्त्रीपुरुषपरीक्षा	८०
अल्पवयसिविवाहनिषेधः	८१—८७
गुणकर्मानुसारेण वर्णव्यवस्था	८६—८९
विवाहलक्षणानि	८२—८४
स्त्रीपुरुषव्यवहारः	८५—८८
पञ्चमहायज्ञाः	८८—१०३
पाखण्डितिरस्कारः	१०३
प्रातरुत्थानादिधर्मकृत्यम्	१०४—१०५
पाखण्डिलक्षणानि	१०६
गृहस्थधर्माः	१०७—१०८
पण्डितलक्षणानि	१०८—११०
मूर्खलक्षणानि	१११
विद्यार्थिकृत्यवर्णनम्	१११
पुनर्विवाहनियोगविषयः	११२—१२२

विषयाः पृष्ठतः—पृष्ठम्

गृह्याश्रमश्रौतव्यम् ... १२२—१२३

५ समुल्लासः

वानप्रस्थाश्रमविधिः ... १२४—१२५

सन्न्यासाश्रमविधिः ... १२६—१३०

६ समुल्लासः

राजधर्मविषयः ... १३८—१७८

सभान्त्यकथनम् ... १३८—१३९

राजलक्षणानि ... १३९—१४१

दण्डव्याख्या ... १४२—१४४

राजकर्तव्यम् ... १४४

अष्टादशव्यसननिषेधः १४५—१४६

मन्त्रिदूतादिराजपुरुष-

लक्षणानि ... १४६—१४८

मन्त्र्यादिषु कार्यनियोगः १४८—१४९

दुर्गनिर्माणव्याख्या ... १५०

युद्धकरणप्रकारः ... १५०—१५२

राज्यप्रजारक्षणादिविधिः १५२—१५४

ग्रामाधिपत्यादिवर्णनम् १५४—१५६

करग्रहणप्रकारः ... १५६—१५७

मन्त्रकरणप्रकारः ... १५८

आसनादिषाड्गुण्यव्याख्या १५८—१६१

राज्ञो मित्रोदासीनशत्रुषु वर्तनम्

शत्रुभिर्युद्धकरणप्रकारश्च १६२—१६५

व्यापारादिषु राजभागकथनम् १६६

अष्टादशविवादमार्गेषु धर्मण

न्यायकरणम् ... १६७—१६९

साक्षिकर्तव्योपदेशः १६९—१७१

साध्यानृते दण्डविधिः ... १७२—१७३

चौर्यादिषु दण्डादिव्याख्या १७३—१७८

विषयाः पृष्ठतः—पृष्ठम्

७ समुल्लासः

ईश्वरविषयः ... १७९—२०३

ईश्वरविषये प्रश्नोत्तराणि १७९—१८४

ईश्वरस्तुतिप्रार्थनीयासनाः १८४—१८८

ईश्वरज्ञानप्रकारः ... १८९—१९०

ईश्वरस्यास्तित्वम् ... १९०—१९२

ईश्वरावतारनिषेधः ... १९२

जीवस्य स्वातन्त्र्यम् ... १९४

जीवेश्वरयोर्भिन्नत्ववर्णनम् १९४—२०२

ईश्वरस्य सगुणनिर्गुणकथनम् २०२—२०३

वेदविषयविचारः ... २०३—२०८

८ समुल्लासः

सृष्ट्युत्पत्त्यादिविषयः ... २०९—२३३

ईश्वरभिन्नायाः प्रकतेरुपा-

दानकारणत्वम् ... २१०—२१७

सृष्टौ नास्तिकमत-

निराकरणम् ... २१७—२२४

मनुष्याणामादिसृष्टेः

स्थानादिनिर्णयः ... २२५—२२६

धार्म्यस्तेकादिव्याख्या २२७—२२८

ईश्वरस्य जगदाधारत्वम् २२९—२३३

९ समुल्लासः

विद्याऽविद्याविषयः ... २३४—२३७

बन्धमोक्षविषयः ... २३८—२५०

१० समुल्लासः

आचाराऽनाचारविषयः २५८—२६५

भक्त्याऽभक्त्यविषयः ... २६६—२७२

उत्तरार्द्धः

— 365 —

विषयाः

पृष्ठतः—पृष्ठम्

११ समुल्लासः

अनुभूमिका	२७३-२७४
आर्यावर्षदेशीयमतमतान्तर-	
खण्डनमण्डनविषयः	२७५-३८८
मन्त्रादिसिद्धिनिराकरणम्	२७७-२८१
वाममार्गनिराकरणम्	२८२-२८७
अद्वैतवादसमीक्षा	२८८-२९८
भस्मरुद्राक्षतिलकादिस०	२९८-३०२
वैष्णवमतसमीक्षा	३०३-३०५
मूर्तिपूजासमीक्षा	३०८-३१४
पञ्चायतनपूजासमीक्षा	३१४-३१५
श्याम्राजसमीक्षा	३१७
जगन्नाथतीर्थसमीक्षा	३१८-३१९
रामेश्वरसमीक्षा	३१९
कालियाकन्तसोमनाथादिसमीक्षा	३२०
हारिकाज्वालामुखीसमीक्षा	३२१
हरद्वारधरीनाराय-	
णादिसमीक्षा	३२२-३२४
गङ्गास्नानसमीक्षा	३२५
नामस्मरणतीर्थशब्दयोर्व्याख्या	३२६
गुरुमाहात्म्यसमीक्षा	३२६-३२७
अष्टादशपुराणसमीक्षा	३२७-३४८
शिवपुराणसमीक्षा	३२९-३३०
भागवतसमीक्षा	३३१-३३६
सूर्यादिग्रहपूजासमीक्षा	३३७-३३८

विषयाः

पृष्ठतः—पृष्ठम्

श्रीऋदेहिवादानादिस०	३३९-३४४
एकादश्यादिव्रतदाना-	
दिसमीक्षा	३४५-३४७
भारणमोहनोच्चाटनवाम-	
मार्गसमीक्षा	३४८-३४९
शैवमतसमीक्षा	३५०
शाक्तवैष्णवमतसमीक्षा	३५१-३५४
कवीरपन्थसमीक्षा	३५६
नानकपन्थसमीक्षा	३५६-३५८
दादूरामस्नेह्यादिपन्थ-	
समीक्षा	३५८-३६१
गोकुलिंगोस्वामिमतस०	३६१-३६८
स्वामीनारायणमतसमी०	३६९-३७२
माध्वलिङ्गाङ्कितत्रास्यप्रा-	
र्थनासमाजादिसमीक्षा	३७३-३७८
आर्यसमाजविषयः	३७९
तन्त्रादिविषयकप्रश्नोत्त-	
राणि	३८०-३८३
ब्रह्मचारिसन्ध्यासिसमी०	३८४-३८८
आर्यावर्तीयराजवंशावली	३८९-३९२

१२ समुल्लासः

अनुभूमिका	३९३-३९४
नास्तिकमतसमीक्षा	३९५-४५७
चारवाकमतसमीक्षा	३९५-४००
चारवाकादिनास्तिकमेदाः	४००-४०२

विषयः	पृष्ठतः—पृष्ठम्
बौद्धसौगतमतसमीक्षा ...	४०२-४०७
सप्तभङ्गीस्याहादौ ...	४०८
जैनबौद्धयोरैक्यम् ...	४०९-४१२
आस्तिकनास्तिकसंवादः ...	४१३-४१६
जगतोऽनादित्वसमीक्षा ...	४१६-४१८
जैनमते भूमिपरिमाणम्	४१९-४२०
जीवादन्यस्य जडत्वं, पुद्ग- लानां पापे प्रयोजकत्वं च	४२१-४२३
जैनधर्मप्रशंसादिसमीक्षा ...	४२४-४४०
जैनमतसुक्तिसमीक्षा ...	४४१-४४३
जैनसाधुलक्षणसमीक्षा ...	४४३-४४९
जैनतीर्थङ्कर (२४) व्याख्या	४४९-४५१
जैनमते जख्वहीपादिवि०	४५२-४५७

१३. समुल्लासः

अनुभूमिका ...	४५८-४५९
---------------	---------

विषयः	पृष्ठतः—पृष्ठम्
बुद्धीनमतसमीक्षा ...	४६०-५११
लयव्यवस्थापुस्तकम् ...	४७९-४८१
गणनापुस्तकम् ...	४८२
समुएलाख्यस्य द्वितीयं पुस्तकम् ...	४८२
रात्रां पुस्तकम् ...	४८२-४८३
कालवृत्तस्य १ पुस्तकम् ...	४८३
ऐयूबाख्यस्य पुस्तकम् ...	४८३-४८४
उपदेशस्य पुस्तकम् ...	४८४
मत्तोरचितं, इञ्जीलाख्यम्	४८४-४९८
मार्करचितं, इञ्जीलाख्यम्	४९८
लूकरचितं, इञ्जीलाख्यम्	४९८-४९९
योह्नरचितसुसमाचारः ...	४९९
योह्नप्रकाशितवाक्यम् ...	५००-५११

१४. समुल्लासः

अनुभूमिका ...	५१२
यवनमतक्षुरानाख्यसमीक्षा	५१३-५०४
खमन्तव्यामन्तव्यविषयः ...	५०५-५८२

इत्युत्तरार्धः

ओ३म् ।

सखिदानन्देश्वराय नमो नमः ॥

भूमिका ॥

—३*६—

जिस समय मैंने यह ग्रन्थ "सत्यार्थप्रकाश" बनाया था उस समय और उस से पूर्व संस्कृत भाषण करने, पठन पाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण से मुझ को इस भाषा का विशेष परिज्ञान न था इस से भाषा अशुद्ध बन गई थी । अब भाषा बोलने और लिखने का अभ्यास ही गया है इस लिये इस ग्रन्थ को भाषा व्याकरणानुसार शुद्ध करके दूसरी बार छपवाया है । कहीं २ शब्द, वाक्य, रचना का भेद हुआ है सो करना उचित था क्यों कि इस के भेद किये बिना भाषा की परिपाटी सुधरनी कठिन थी परन्तु अर्थ का भेद नहीं किया गया है प्रत्युत विशेष तो लिखा गया है । हाँ जो प्रथम छपने में कहीं २ भूल रही थी वह निकाल शोध कर ठीक २ कर दी गई है ॥

यह ग्रन्थ १४ चौदह समुहों अर्थात् चौदह विभागों में रचा गया है । इस में १० दश समुहों पूर्वार्ध और ४ चार उत्तरार्ध में बने हैं परन्तु अन्त्य के दो समुहों और पश्चात्पक्षसिद्धान्त किसी कारण से प्रथम नहीं छप सके थे अब वे भी छपवा दिये हैं ॥

प्रथम समुहों में ईश्वर के आँकाराऽऽदि नामों की व्याख्या ।

द्वितीय समुहों में सन्तानों की शिक्षा ।

तृतीय समुहों में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्या-
सत्य ग्रन्थों के नाम और पढ़ने की रीति ।

चतुर्थ समुहों में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार ।

पञ्चम समुहों में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम की विधि ।

छठे समुह्यास में राजधर्म ।

सप्तम समुह्यास में वेदेश्वरविषय ।

अष्टम समुह्यास में जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ।

नवम समुह्यास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या ।

दशवें समुह्यास में आचार, अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य विषय ।

एकादश समुह्यास में आर्यावर्तीय मतमतान्तर का खण्डन मण्डन विषय ।

द्वादश समुह्यास में चार्वाक, बौद्ध और जैन मत का विषय ।

त्रयोदश समुह्यास में ईसाईमत का विषय ।

चौदहवें समुह्यास में मुसलमानों के मत का विषय ।

और चौदह समुह्यासों के अन्त में आर्यों के सनातन वेदविहित मत की विशेषतः व्याख्या लिखी है जिस को मैं भी यथावत् मानता हूँ ॥

धेरा इस ग्रन्थ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्यर अर्थ का प्रकाश करना है अर्थात् जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है । वह सत्य नहीं कहता जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाय किन्तु जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना लिखना और मानना सत्य कहता है । जो मनुष्य पक्षपाती होता है वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मतवाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है इस लिये वह सत्यमत को प्राप्त नहीं हो-सकता इसी लिये विद्वान् आर्षों का यही मुख्य काम है कि उपदेश वा लेख द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का स्वरूप समर्पित कर दे, पश्चात् वे स्वयं अपना हितहित समझ कर सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परित्याग कर के सदा आनन्द में रहें । मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि हठ दुराग्रह और अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में भुक्त जाता है परन्तु इस ग्रन्थ में ऐसी बात नहीं रखी है, और न किसी का मन

दुखाना वा किसी की हानि पर तात्पर्य है। किंतु जिससे मनुष्य जाति की उन्नति और उपकार ही सत्यासत्य को मनुष्य लोग जान कर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें क्योंकि सत्योपदेश के बिना अन्य कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है ॥

इस ग्रन्थ में जो कहीं २ भूल बूक से अथवा शोधने तथा छापने में भूल बूक रह जाय उस को जानने जनाने पर जैसा यह सत्य होगा वैसाही कर दिया जायगा और जो कोई पक्षपात से अन्यथा शंका वा खंडन मण्डन करेगा उस पर ध्यान न दिया जायगा। हां जो वह मनुष्यमात्र का हितही होकर कुछ जनाविगा उस को सत्य २ समझने पर उसका मत संगृहीत होगा। यद्यपि आज कल बहुत से विद्वान् प्रत्येक मतों में हैं वे पक्षपात छोड़ सर्वतन्त्र सिद्धान्त अर्थात् जो २ बातें सब को अनुकूल सब में सत्य हैं उन का ग्रहण और जो एक दूसरे से विरुद्ध बातें हैं उन का त्याग कर परस्पर प्रीति से वर्षे बर्सावे तो जगत् का पूर्ण हित होवे। क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ़ कर अनेकविध दुःख की वृद्धि और सुख की हानि होती है। इस हानि ने जो कि स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय है सब मनुष्यों को दुःखसागर में डुबा दिया है। इन में से जो कोई सार्वजनिक हित लक्ष्य में धर प्रवृत्त होता है उससे स्वार्थी लोग विरोध करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार विघ्न करते हैं। परंतु 'सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन पन्थाविततो देवयानः', अर्थात् सर्वदा सत्य का विजय और असत्य का पराजय और सत्यही से विद्वानों का मार्ग विस्तृत होता है इस दृढ़ निश्चय के आलम्बन से आमलोग परोपकार करने से उदासीन हो कर कभी सत्यार्थप्रकाश करने से नहीं चूठते। यह बड़ा दृढ़ निश्चय है कि 'ग्रहादयो विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्', यह गौता का वचन है इस का अभिप्राय यह है कि जो २ विद्या और धर्मप्राप्ति के कर्म हैं वे प्रथम करने में विष के तुल्य और पश्चात् अमृत के सदृश होते हैं ऐसी बातों को चिन्त में धर के मैने इस ग्रंथ को रचा है। श्रोता वा पाठकगण भी प्रथम प्रेम से देख के इस ग्रंथ का सत्य २ तात्पर्य जान कर यथेष्ट करें। इस में यह अभिप्राय रखा गया है कि जो २ सब मतों में सत्य २ बातें हैं वे २ सब में अविरोध होने से उन का स्वीकार करके जो २ मत-मतान्तरों में मिथ्या बातें हैं उन २ का खण्डन किया है। इस में यह भी अभिप्राय रखा है कि जब मतमतान्तरों की गुप्त वा प्रकट दुरी बातों का प्रकाश कर विद्वान् अविद्वान् सब साधारण मनुष्यों के सामने रखा है जिस से सब से सब का विचार हीकर परस्पर प्रेमी होके एकसत्य मतस्थ होवें। यद्यपि मैं आर्यावर्ष देश में उत्पन्न हुआ और बसता हूँ तथापि जैसे इस देश के मतमतान्तरों की झूठी बातों का

पक्षपात न कर याथातथ्यप्रकाश करता हूँ वैसे ही दूसरे देशस्थ वा मतोन्नतिवालों के साथ भी वर्त्तता हूँ जैसा स्वदेश वालों के साथ मनुष्योन्नति के विषय में वर्त्तता हूँ वैसे विदेशियों के साथ भी तथा सब सज्जनों को भी वर्त्तना योग्य है। क्योंकि मैं भी जो किसी एक का पक्षपाती होता तो जैसे आज काल के स्वमत की स्तुति मण्डन और प्रचार करते और दूसरे मत की निन्दा, हानि और बन्द करने में तत्पर होते हैं वैसे मैं भी होता, परन्तु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर हैं। क्योंकि जैसे पशु बलवान् हो कर निर्बलों को दुःख देते और मार भी डालते हैं। जब मनुष्य शरीर पा के वैसे ही कर्म करते हैं तो वे मनुष्य स्वभावयुक्त नहीं किन्तु पशुवत् हैं। और जो बलवान् हो कर निर्बलों की रक्षा करता है वही मनुष्य कहा जाता है और जो स्वार्थवश होकर पर हानिमात्र करता रहता है वह जानों पशुओं का भी बड़ा भाई है। अब आर्यावर्षियों के विषय में विशेष कर ११ ग्यारहवें समुल्लास तक लिखा है इन समुल्लासों में जो कि सत्यमत प्रकाशित किया है वह वेदाक्त होने से मुक्त को सर्वथा मन्तव्य है और जो नवीन पुराण तंत्रादि ग्रंथोक्त बातों का खंडन किया है वे त्यक्तव्य हैं। जो १२ बारहवें समुल्लास में दर्शाया चार्वाक का मत यद्यपि इस समय जीणाऽस्तसा है और यह चार्वाक बौद्ध जैन से बहुत संबंध अनौखरवादादि में रखता है यह चार्वाक सब में बड़ा नास्तिक है उस की चेष्टा का रोकना अवश्य है, क्योंकि जो मिथ्या बात न रोकी जाय तो संसार में बहुत से अनर्थ प्रवृत्त होजाय चार्वाक का जो मत है वह तथा बौद्ध और जैन वा जो मत है वह भी १२वें समुल्लास में संक्षेप से लिखा गया है और बौद्धों तथा जैनों का भी चार्वाक के मत के साथ मेल है और कुछ थोड़ासा विरोध भी है और जैन भी बहुत से ग्रंथों में चार्वाक और बौद्धों के साथ मेल रखता है और थोड़ी सी बातों में भेद है। इस लिये जैनों की भिन्न शाखा गिनी जाती है वह भेद १२ वारहवें समुल्लास में लिख दिया है यथायोग्य वहीं समझ लेना जो इस का भेद है सोर बारहवें समुल्लास में दिखलाया है बौद्ध और जैनमत का विषय भी लिखा है। इन में से बौद्धों के दीपवंशादि प्राचीन ग्रंथों में बौद्धमत संग्रह सर्वदर्शन संग्रह, में दिखलाया है उस में से यहाँ लिखा है और जैनों के निम्न लिखित सिद्धान्तों के पुस्तक हैं उन में से ४ चार मूलसूत्र, जैसे १ आवश्यकसूत्र २ विशेष आवश्यकसूत्र, ३दशवैकालिकसूत्र, और ४पाचिकसूत्र। ११ ग्यारहवें अङ्ग जैसे १ आचारांग सूत्र, २सूर्यंडांगसूत्र, ३शाणांगसूत्र, ४समवायांगसूत्र, ५भगवतीसूत्र, ६ज्ञाताधर्मकथा सूत्र, ७उपासकदशासूत्र, ८अन्तगड् दशासूत्र, ९अनुत्तरोववाइसूत्र, १० विपाकसूत्र, और ११ प्रयुव्याकरणसूत्र। १२ बारह उपांग, जैसे १ उपवाइसूत्र, २ रावसेनीसूत्र ३ जीवाभिगमसूत्र, ४ पन्नगणासूत्र, ५ जंबुहीपपन्नतीसूत्र, ६ चन्दपन्नतीसूत्र,

७ सूरपन्नतीसूत्र, ८ निरियावलीसूत्र, ९ कप्रियासूत्र, १० कपवड़ीसयासूत्र, ११ पृष्पियासूत्र और १२ पय्यबूलिया सूत्र ॥ ५ पांचकल्प सूत्र जैसे १ उत्तराध्ययन सूत्र, २ निशीथसूत्र, ३ कल्प सूत्र, ४ व्यवहार सूत्र और ५ जीतकल्प सूत्र ॥ ६ क्लृः क्लृद, जैसे १ महानिशीथहृहवाचनासूत्र, २ महानिशीथलघुवाचनासूत्र, ३ मध्यमवाचनासूत्र, ४ पिंडनिरुक्तिसूत्र, ५ औघनिरुक्तिसूत्र, ६ पर्यूर्षणासूत्र । १० दशपय-त्रसूत्र, जैसे १ चतुस्सरणसूत्र, २ पंचखाणसूत्र, ३ तदुलवेयालिकसूत्र, ४ भक्ति-परिज्ञानसूत्र, ५ महाप्रत्याख्यानसूत्र, ६ चंदाविजयसूत्र, ७ गणीविजयसूत्र, ८ मरण-समाधिसूत्र, ९ देविन्द्रस्तनसूत्र और १० संसारसूत्र तथा नन्दीसूत्र योगीधारसूत्र भी प्रामाणिक मानते हैं ॥ ५ पञ्चाङ्ग जैसे १ पूर्व सब ग्रंथों की टीका २ निरुक्ति ३ चरणी ४ भाष्य ये चार अवयव और सब मूल मिल के पंचांग कहते हैं इन में ढूँढिया अवयवों को नहीं मानते और इन से भिन्न भी अनेक ग्रंथ हैं कि जिन को जैनीलोग मानते हैं । इन के मत पर विशेष विचार १२ बारहवें समुह्लास में देख लीजिये । जैनियों के ग्रंथों में लाखों पुनरुक्त दोष हैं और इन का यह भी स्वभाव है कि जो अपना ग्रंथ दूसरे मत वाले के हाथ में हो वा कृपा हो तो कोई २ उस ग्रंथ को अप्रमाण कहते हैं यह बात उन की मिथ्या है क्योंकि जिस को कोई माने कोई नहीं इस से वह ग्रंथ जैनमत से बाहर नहीं हो सकता । हां जिस को कोई न माने और न कभी किसी जैनी ने माना हो तब तो अग्राह्य हो सकता है परन्तु ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है कि जिस को कोई भी जैनी न मानता हो इस लिये जो जिस ग्रन्थ को मानता होगा उस ग्रन्थस्थविषयक खण्डन मण्डन भी उसी के लिये समझा जाता है। परन्तु कितने ही ऐसे भी हैं कि उस ग्रन्थ को मानते जानते ही तो भी सभा वा संवाद में बदल जाते हैं इसी हेतु से जैन लोग अपने ग्रन्थों को छिपा रखते हैं दूसरे मतस्थ को न देते न सुनाते और न पढ़ाते इस लिये कि उन में ऐसी २ असम्भव बातें भरो हैं जिन का कोई भी उत्तर जैनियों में से नहीं दे सकता । भूठ बात को छोड़ देना ही उत्तर है ॥

१२ वें समुह्लास में इसादर्यों का मत लिखा है ये लोग बायबिल को अपना धर्मपुस्तक मानते हैं इन का विशेष समाचार उसी १३ तेरहवें समुह्लास में देखिये और १४ चौदहवें समुह्लास में मुसलमानों के मतविषय में लिखा है ये लोग कुरान को अपने मत का मूल पुस्तक मानते हैं इन का भी विशेष व्यवहार १४ वें समुह्लास में देखिये । और इस के आगे वैदिकमत के विषय में लिखा है जो कोई इस ग्रन्थकर्ता के तात्पर्य से विरुद्ध मनसा से देखे गा उस को कुछ भी अभिप्राय विहित न होगा क्योंकि वाक्यार्थबोध में चार कारण होते हैं;

(प्रश्न) केवल देवी का ग्रहण इन नामों से करते हो वा नहीं (उत्तर) आप के ग्रहण करने में क्या प्रमाण है ? (प्रश्न) देव सब प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हैं इस से मैं उन का ग्रहण करता हूँ । (उत्तर) क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध और उस से कोई उत्तम भी है? पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मानते ? जब परमेश्वर अप्रसिद्ध और उस के तुल्य भी कोई नहीं तो उस से उत्तम कोई क्यों कर हो सकेगा इस से आप का यह कहना सत्य नहीं । क्यों कि आप के इस कहने में बहुत से दोष भी आते हैं जैसे “उपस्थितं परित्यज्यानुपस्थितं याचत इति वाधितन्यायः” किसी ने किसी के लिये भोजन का पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन कीजिये और वह जो उस को छोड़ के अप्राप्त भोजन के लिये जहाँ तहाँ भ्रमण करे उस को बुद्धिमान् न जानना चाहिये क्यों कि वह उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुए पदार्थ को छोड़ के अनुपस्थित अर्थात् अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिये श्रम करता है इस लिये जैसा वह पुरुष बुद्धिमान् नहीं वैसा ही आप का कथन हुआ । क्योंकि आप उन विराट् आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाणसिद्ध परमेश्वर और ब्रह्माण्डादि उपस्थित अर्थों का परित्याग करके असंभव और अनुपस्थित देवादि के ग्रहण में श्रम करते हैं इस में कोई भी प्रमाण वा युक्ति नहीं । “जो आप ऐसा कहें कि जहाँ जिस का प्रकरण है वहाँ उसी का ग्रहण करना योग्य है जैसे किसीने किसी से कहा कि “हे भृत्य त्वं सैधवमानय” अर्थात् तू सैधव को लेआ। तब उस को समय अर्थात् प्रकरण का विचार करना आवश्यक है क्यों कि सैधव नाम दो पदार्थों का है एक घोड़े और दूसरे लवण का । जो स्वामी का गमन समय हो तो घोड़े और भोजन काल हो तो लवण को ले आना उचित है। और जो गमन समय में लवण और भोजन समय में घोड़े को ले आवे तो उस का स्वामी उस पर क्रुद्ध ही कर कहे गा कि तू निबुद्धिपुरुष है गमन समय में लवण और भोजनकाल में घोड़े को लाने का क्या प्रयोजन था? तू प्रकरणवित् नहीं है नहीं तो जिस समय में जिस को लाना चाहिये था उसी को लाता जो तुझ को प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह तूने नहीं किया इस से तू मूर्ख है मेरे पास से चला जा” इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ जिस का ग्रहण करना उचित हो वहाँ उसी अर्थ का ग्रहण करना चाहिये । ऐसाही हम और आप सब लोगों को मानना और करना भी चाहिये।

॥ अथ मन्त्रार्थः ॥

ओ३म् स्वम्ब्रह्म ॥ १ ॥ यजुः० अ० ४० । मं० १७ ॥

देखिये वेदी में ऐसे २ प्रकरणों में ओम् आदि परमेश्वर के नाम आते हैं ।

ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत ॥२॥ छान्दोग्य उपनिषत् ।
 ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम् ॥३॥ साण्डूक्य ।
 सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्ददन्ति ।
 यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण
 ब्रवीम्योमित्येतत् ॥ ४ ॥ कठोपनिषत् । वल्ली २ मं० १५ ॥
 प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि ।
 रुक्माभं स्वप्रधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम् ॥ ५ ॥
 एतमेकेवदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम् ।
 इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥६॥ मनु० अ० १२ ।
 श्लो० १२२ । १२३ ॥
 स ब्रह्मा स विष्णुः स रुद्रस्स शिवस्सोक्षरस्स परमः स्वराट् ।
 स इन्द्रस्स कालाग्निस्स चन्द्रमाः ॥७॥ कैवल्य उपनिषत् ॥
 इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यस्स सुपर्णो गरुत्मान् ।
 एकं सद्दिप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ ८ ॥
 ऋ० मं० १ । सू० १६४ । मं० ४६ ॥
 भूरसि भूमिरस्यदितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री ।
 पृथिवीं यच्छ पृथिवीं दृष्ट्व पृथिवीं माहिंसीः ॥९॥ यजुः ।
 अ० १३ । मं० १८ ॥
 इन्द्रो मद्वा रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः सूर्यमरोचयत् ।
 इन्द्रेह विश्वा भुवनानि येमिर इन्द्रेश्वानास इन्द्रः ॥ १० ॥
 सामवे० ७ प्र० ३ अ० ८ सू० । १६ अ० २ ख० ३ सू० २ मं० ॥
 प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशं ।
 यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्त्सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥ ११ ॥
 अथर्ववेदे काण्ड ११ । अ० २ । सू० २ । मं० १ ॥

अर्थ—यहाँ इन प्रमाणां के लिखने में तात्पर्य यही है कि जो ऐसे २ प्रमाणां में ओङ्कारादि नामों से परमात्मा का ग्रहण होता है यह लिख आये तथा परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं । जैसे लोक में दरिद्री आदि के धनपति आदि नाम होते हैं । इस से यह सिद्ध हुआ कि कहीं गौणिक कहीं कार्मिक और स्वाभाविक अर्थों के वाचक हैं । «ओ३म् आदि नाम सार्थक हैं जैसे (ओ३म् खं०) अवतीत्योम् आकाशमिव व्यापकत्वात् खम्, सर्वेभ्यो ब्रह्मत्वाद् ब्रह्म» रक्षा करने से (ओ३म्) आकाशवत् व्यापक होने से (खं) और सब से बड़ा होने से (ब्रह्म) ईश्वर का नाम है ॥ १ ॥ (ओ३म्) जिस का नाम है और जो कभी नष्ट नहीं होता उसी की उपासना करनी योग्य है अन्य की नहीं ॥ २ ॥ (ओमित्येत०) सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम (ओ३म्) को कहा है अन्य सब गौणिक नाम हैं ॥ ३ ॥ (सर्वे वेदा०) क्योंकि सब वेद सब धर्मानुष्ठान-रूप तपश्चरण जिस का कथन और मान्य करते और जिस की प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्याश्रम करते हैं उस का नाम «ओ३म्» है ॥ ४ ॥

(प्रशासिता०) जो सब को शिक्षा देने हारा सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वप्रकाशस्वरूप समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य है उस को परम पुरुष जानना चाहिये ॥ ५ ॥ और स्वप्रकाश होने से «अग्नि» विज्ञान स्वरूप होने से «मनु» सब का पालन करने और परमेश्वर्यवान् होने से «इन्द्र» सब का जीवन मूल होने से «प्राण» और निरन्तर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम «ब्रह्म» है ॥ ६ ॥ (स ब्रह्मास विष्णुः०) सब जगत् के बनाने से «ब्रह्मा» सर्वत्र व्यापक होने से «विष्णु» दुष्टों को दण्ड दे के हलाने से «रुद्र» महलमय और सब का कल्याण कर्ता होने से «शिव» «यः सर्वमश्रुते न चरति न विनश्यति तदक्षरम्» १ «यः स्वयं राजते स खराटयोऽग्नि रिव कालः कलयिता प्रलयकर्ता स कालाग्निरीश्वरः» ॥ ४ ॥ (अक्षर) जो सर्वत्र व्याप्त अविनाशी (खराट) स्वयं प्रकाश स्वरूप और (कालाग्नि०) प्रलय में सब काल और काल का भी काल है इस लिये परमेश्वर का नाम कालाग्नि है ॥ ७ ॥ (इन्द्रमित्त्रं) जो एक अद्वितीय सत्यब्रह्म वस्तु है उसी के इन्द्रादि सब नाम हैं ॥

«द्युषु शुद्धेषु पदार्थेषु भवा दिव्यः» «शोभनानि पर्णानि पालनानि कर्माणि वा यस्य सः» «योगुर्वात्मा» स गरुत्मान् «यो मातरिश्वा वायुरिव बलवान् स मातरिश्वा»

(दिव्य) जो प्रकृत्यादि दिव्य पदार्थों में व्याप्त (सुपर्ण) जिस के उत्तम पालन और पूर्ण कर्म हैं (गरुत्मान्) जिस का आत्मा अर्थात् स्वरूप महान् है जो वायु के समान अनन्त बलवान् है इस लिये परमात्मा के दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान् और मातरिश्वा ये नाम हैं शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे ॥ ८ ॥ (भूमिरसि०) «भवन्ति भूतानि यस्यां सा भूमिः» जिस में सब भूत प्राणि होते हैं इस

लिये ईश्वर का नाम «भूमि» है । शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे ॥८॥ (इन्द्रो-मन्दा०) इस मन्त्र में इन्द्र परमेश्वर ही का नाम है इस लिये यह प्रमाण लिखा है ॥१०॥ (प्राणाय०) जैसे प्राण के वश सब शरीर इन्द्रियां होती हैं वैसे परमेश्वर के वश में सब जंगत् रहता है ॥११॥ इत्यादि प्रमाणों के ठीक २ अर्थों के जानने से इन नामों करके परमेश्वर ही का ग्रहण होता है । क्योंकि (ओ३म्) और अग्न्यादि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है जैसा कि व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, सूत्रादि ऋषि मुनियों के व्याख्यानों से परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है वैसे ग्रहण करना सब को योग्य है परन्तु “ओ३म्” यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियमकारक हैं इस से क्या सिद्ध हुआ कि जहां २ स्तुति, प्रार्थना उपासना, सर्वज्ञव्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं वहीं २ इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है और जहां २ ऐसे प्रकरण हैं कि:-

ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः ।

ओत्राहायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ।

तेन देवा अयजन्त ।

पश्चाद्भूमिमथो पुरः । यजुः अ० ३१ ।

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः । आकाशा-

हायुः । वायोरग्निः । अग्नेरापः । अद्भ्यः पृथिवी ।

पृथिव्या ओषधयः । ओषधिभ्योऽन्नम् । अन्नाद्देतः ।

रेतसः पुरुषः । स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः ॥

यह तत्तिरीयोपनिषद् ब्रह्मानन्द वल्ली प्रथमानुवाक का वचन है ऐसे प्रमाणों में विराट्, पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं । कर्तों कि जहां २ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्ञ, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी लिखे हों वहां २ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता । वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पृथक् है और उपरोक्त मंत्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार हैं इसी से यहां विराट् आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण न होके संसारी पदार्थों का ग्रहण होता है । किन्तु जहां २ सर्वज्ञादि विशेषण हों वहां २ परमात्मा और जहां २ इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और अल्पज्ञादि विशेषण हों वहां २ जीव का ग्रहण होता

है। ऐसा सर्वत्र समझना चाहिये क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता इस से विराट् आदि नाम और जन्मादि विशेषणों से जगत् के जड़ और जीवादि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है परमेश्वर का नहीं। अब जिस प्रकार विराट् आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है वह प्रकार नीचे लिखे प्रमाण जानो। अथ-ओंकारार्थः। (वि) उपसर्ग पूर्वक (राजु दीप्तौ) इस धातु से क्तिप् प्रत्यय करने से «विराट् शब्द सिद्ध होता है। यो विविधं नाम चराऽचरं जगद्राजयति प्रकाशयति स विराट्» विविध अर्थात् जो बहु प्रकार के जगत् को प्रकाशित करे इस से विराट् नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। (अञ्चु गतिपूजनयोः) अग, अग्नि, ब्रूण् गत्यर्थक धातु हैं इन से «अग्नि» शब्द सिद्ध होता है «गतेस्त्वयोऽर्थाः»। ज्ञानं गमनं प्राप्तिश्चेति पूजनं नाम सत्कारः «योञ्चति अच्यतेऽगत्यङ्गत्येति सोयमग्निः» जो ज्ञानस्वरूप, सर्वज्ञ, जानने, प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है इस से उस परमेश्वर का नाम «अग्नि» है। (विश्र प्रवेशने) इस धातु से «विश्व» शब्द सिद्ध होता है «विशन्ति प्रविष्टानि सर्वाण्यकाशादीनि भूतानि यस्मिन् यो वाऽऽकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः स विश्व ईश्वरः» जिस में आकाशादि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं अथवा जो इन में व्याप्त हीके प्रविष्ट हो रहा है इस लिये उस परमेश्वर का नाम विश्व है इत्यादि नामों का ग्रहण अकार मात्र से होता है। «ज्योतिर्वै हिरण्यं तेजो वै हिरण्यमित्यैतरये, शतपथे च ब्राह्मणे» «यो हिरण्यानां सूर्यादीनां तेजसां गर्भं उत्पत्तिनिमित्तमधिकरणं स हिरण्यगर्भः» जिस में सूर्यादि तेज वाले लोक उत्पन्न होके जिस के आधार रहते हैं अथवा जो सूर्यादि तेजःस्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्ति और निवासस्थान है इस से उस परमेश्वर का नाम «हिरण्यगर्भ» है। इस में यजुर्वेद के मंत्र का प्रमाण है:—

हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।

स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ।

यजुः० अ० १३ । मं० ४ ॥

इत्यादिस्थलों में «हिरण्यगर्भ» से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। (वा गतिगन्धनयोः) इस धातु से «वायु» शब्द सिद्ध होता है (गन्धनं हिंसनम्) «योवाति चराऽचरञ्जगद्धरति बलिनां बलिष्ठः स वायुः» जो चराऽचर जगत् का धारणजीवन और प्रलय करता और सब बलवानों से बलवान् है इस से उस ईश्वर का नाम «वायु» है (तिजनिशाने) इस धातु से «तेजः» और इस से तद्धित करने से «तेजस» शब्द सिद्ध होता है। जो आप स्वयं प्रकाश और सूर्यादि तेजस्वी लोकों का प्रकाश

करने वाला है इस से उस ईश्वर का नाम "तैजस" है। इत्यादि नामार्थ उकार-मात्र से ग्रहण होते हैं। (ईश ऐश्वर्ये) इस धातु से "ईश्वर" शब्द सिद्ध होता है "य ईष्टे सर्वेश्वर्यवान् वर्तते स ईश्वरः"। जिस का सत्य विचारशील ज्ञान और अनन्त ऐश्वर्य है इस से उस परमात्मा का नाम "ईश्वर" है। (दो अवखण्डने) इस धातु से "अदिति" और इस से तद्धित करने से "आदित्य" शब्द सिद्ध होते हैं "न विद्यते विनाशी यस्य सोऽयमदितिः+अदितिरेव आदित्यः" जिस का विनाश कभी न हो उसी ईश्वर की "आदित्य" संज्ञा है। (ज्ञा अवबोधने) "प्र" पूर्वक इस धातु से "प्रज्ञ" और इस से तद्धित करने से "प्राज्ञ" शब्द सिद्ध होता है। "यः प्रकृष्टतया चराऽचरस्य जगती व्यवहारं जानाति स प्रज्ञः+प्रज्ञ एवप्राज्ञः" जो निर्भ्रान्त ज्ञानयुक्त सब चराऽचर जगत् के व्यवहार को यथावत् जानता है इस से ईश्वर का नाम "प्राज्ञ" है। इत्यादि नामार्थ मकार से गृहीत होते हैं। जैसे एक २ मात्रा से तीन २ अर्थ यहाँ व्याख्यात किये हैं वैसे ही अन्य नामार्थ भी श्रीकार से जाने जाते हैं। जो (शन्नो मित्रः शंव०) इस मंत्र में मित्रादि नाम हैं वे भी परमेश्वर के हैं क्योंकि स्तुति, प्रार्थना, उपासना, श्रेष्ठ ही की किई जाती है। श्रेष्ठ उस को कहते हैं जो गुण, कर्म, स्वभाव और सत्य २ व्यवहारों में सब से अधिक हो। उन सब श्रेष्ठों में भी जो अत्यन्त श्रेष्ठ उस को परमेश्वर कहते हैं। जिस के तुल्य कोई न हुआ न है और न होगा। जब तुल्य नहीं तो उस से अधिक क्यों कर हो सकता है? जैसे परमेश्वर के सत्य, न्याय, दया, सर्व सामर्थ्य और सर्वज्ञत्वादि अनन्त गुण हैं वैसे अन्य किसी जड़ पदार्थ वा जीव के नहीं हैं। जो पदार्थ सत्य है उस के गुण कर्म स्वभाव भी सत्य होते हैं इसलिये मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर ही की स्तुति प्रार्थना और उपासना करें, उस से भिन्न की कभी न करें क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव नामक पूर्वज महाशय विद्वान् दैत्य दानवादि निकृष्ट मनुष्य और अन्य साधारण मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसी की स्तुति प्रार्थना और उपासना किई उस से भिन्न की नहीं की। वैसे हम सब को करना योग्य है। इस का विशेष विचार मुक्ति और उपासना विषय में किया जायगा ॥

(प्रश्न) मित्रादि नामों से सखा और इन्द्रादि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन्हीं का ग्रहण करना चाहिये। (उत्तर) यहाँ उन का ग्रहण करना योग्य नहीं क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है वही अन्य का शत्रु और किसी से उदासीन भी देखने में आता है इस से मुख्यार्थ में सखा आदि का ग्रहण नहीं हो सकता किन्तु जैसा परमेश्वर सब जगत् का निश्चित मित्र न किसी का शत्रु और न किसी से उदासीन है इस से भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता

इस लिये परमात्मा ही का ग्रहण यहाँ होता है। हां गौण अर्थ में मित्रादि शब्द से सुहृदादि मनुष्यों का ग्रहण होता है। (जिमिदा स्नेहने) इस धातु से औणादिक "क्त्" प्रत्यय के होने से "मित्र" शब्द सिद्ध होता है। «मेद्यति स्त्रिह्यति स्त्रिह्यते वा स मित्रः» जो सब से स्नेह करके और रूब को प्रीति करने योग्य है इस से उस परमेश्वर का नाम मित्र है (वृज् वरणे, वर ईसायाम्) इन धातुओं से उणादि "उनन्" प्रत्यय होने से «वरुण» शब्द सिद्ध होता है «यः सर्वान् शिष्टान् मुमुक्षुन्वर्मात्मनो हृणोत्यथवा यः शिष्टैर्मुमुक्षुभिर्धर्मात्मभिर्विच्यते वर्य्यते वा स वरुणः परमेश्वरः» जो आत्मयोगी विद्वान् शिष्ट मुमुक्षु मुक्त और धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है वह ईश्वर «वरुण» संज्ञक है। अथवा «वरुणो» नाम वरः श्रेष्ठः» जिस लिये परमेश्वर सब से श्रेष्ठ है इसी लिये उस का नाम «वरुण» है। (ऋ गतिप्रापणयोः) इस धातु से «यत्» प्रत्यय करने से «अय्य» शब्द सिद्ध होता है और «अय्यं» पूर्वक (माङ्माने) इस धातु से कनिन् प्रत्यय होने से «अय्यमा» शब्द सिद्ध होता है «योऽय्यं न स्वामिनो न्यायाधीशान् मिमीते मान्यान् करोति सोऽय्यमा» जो सत्यन्याय के करने हारे मनुष्यों का मान्य और पाप तथा पुण्य करने वालों को पाप और पुण्य के फलों का यथावत् सत्यरनियम कर्ता है इसी से उस परमेश्वर का नाम «अय्यमा» है (इदि परमेश्वर्ये) इस धातु से «रन्» प्रत्यय करने से «इन्द्र» शब्द सिद्ध होता है «यइन्द्रति परमेश्वर्यवान् भवति स इन्द्रः परमेश्वरः» जो अखिल ऐश्वर्ययुक्त है इस से उस परमात्मा का नाम «इन्द्र» है «इहत्» शब्द पूर्वक (पा रक्षणे) इस धातु से «इति» प्रत्यय इहत् के तकार का लोप और सुडागम होने से «इहस्यति» शब्द सिद्ध होता है «यो इहतामांकाशादीनां पतिः स्वामी पालयिता स इहस्यतिः» जो बड़ों से भी बड़ा और बड़े आकाशादि ब्रह्माण्डों का स्वामी है इस से उस परमेश्वर का नाम «इहस्यति» है (विष्णु व्याप्ती) इस धातु से «नु» प्रत्यय हो कर «विष्णु» शब्द सिद्ध हुआ है। वेवेष्टि व्याप्तीति चराऽचरं जगत् स «विष्णुः» चर और अचर रूप जगत् में व्यापक होने से परमात्मा का नाम «विष्णु» है «उरुर्महान् क्रमः पराक्रमो यस्य स उरुक्रमः» अनन्तपराक्रमयुक्त होने से परमात्मा का नाम «उरुक्रम» है। जो परमात्मा (उरुक्रमः) महापराक्रमयुक्त (मित्रः) सब का सुहृत् अविरोधी है (शम्) सुखकारक वह (वरुणः) सर्वोत्तम वह (शम्) सुखरूप वह (अय्यमा) सुख प्रचारक वह (इन्द्रः) जो सकल ऐश्वर्यवान् और (शम्) सकल ऐश्वर्यदायक वह (इहस्यतिः) सब का अधिष्ठाता वह (शम्) विद्याप्रद और (विष्णुः) जो सब में व्यापक परमेश्वर है वह (नः) हमारा कल्याण कारक (भवतु) हो।

(वायो ते ब्रह्मणो नमोस्तु) (इह इहि इहो) इन धातुओं से «ब्रह्म» शब्द सिद्ध होता है। जो सब के ऊपर विराजमान सब से बड़ा अनन्तबलयुक्त परमात्मा है

उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। हे परमेश्वर! (त्वमेव प्रत्यक्षब्रह्मासि) आप ही अन्तर्यामिरूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म ही (त्वामेव प्रत्यक्षम् ब्रह्म वदिष्यामि) मैं आपही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँ क्योंकि आप सब जगह में व्याप्त ही के सब को नित्यही प्राप्त हैं (ऋतंवदिष्यामि) जो आप की विद्वस्थ यथार्थ आज्ञा है उसी का मैं सब के लिये उपदेश और आचरण भी करूँगा (सत्यं वदिष्यामि) सत्य बोलूँ सत्य मानूँ और सत्यही करूँगा (तन्मामवतु) सो आप मेरी रक्षा कीजिये (तद्वक्तारमवतु) सो आप मुझ प्राप्त सत्यवक्ता की रक्षा कीजिये कि जिस से आप की आज्ञा में मेरी बुद्धि स्थिर होकर विरुद्ध कभी न हो क्योंकि जो आप की आज्ञा है वही धर्म और जो उस से विरुद्ध वही अधर्म है «अवतुमामवतु वक्तारम्» यह दूसरी बार पाठ अधिकार्य के लिये है जैसे «कश्चित् कश्चित् प्रति वदति त्वं ग्रामं गच्छ गच्छ» इस में दो बार क्रिया के उच्चारण से तू शीघ्र ही ग्राम को जा ऐसा सिद्ध होता है ऐसे ही यहां कि आपमेरी अवश्य रक्षा करो अर्थात् धर्म से सुनिश्चित और अधर्मसे घृणा सदा करूँ ऐसी कृपा मुझ पर कीजिये मैं आप का बड़ा उपकार मानूँगा (श्रीं शान्तिः शान्तिः शान्तिः) इस में तीन बार शान्ति पाठ का यह प्रयोजन है कि त्रिविध ताप अर्थात् इस संसार में तीन प्रकार के दुःख हैं एक «आध्यात्मिक» जो आत्मा शरीर में अविद्या, राग, द्वेष, मूर्खता और ज्वर पीड़ादि होते हैं। दूसरा «आधिभौतिक» जो शत्रु, व्याघ्र और सर्पादि से प्राप्त होता है। तीसरा «आधिदैविक» अर्थात् जो अतिवृष्टि अतिशीत अतिउष्णता मन और इन्द्रियों की अशान्ति से होता है। इन तीन प्रकार के क्लेशों से आप हम लोगों को दूर करके कल्याण कारक कामों में सदा प्रवृत्त रखिये क्योंकि आप ही कल्याण स्वरूप सब संसार के कल्याणकर्ता और धार्मिक सुसुक्ष्मों को कल्याण के दाता हैं। इस लिये आप स्वयं अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित कीजिये कि जिस से सब जीव धर्म का आचरण और अधर्म को छोड़ के परमानन्द को प्राप्त हों और दुःखों से पृथक् रहें «सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च» इस यजुर्वेद के वचन से जो जगत् नाम प्राणी चेतन और जंगम अर्थात् जो चलते फिरते हैं। «तस्थुषः» अप्राणी अर्थात् स्थावर जड़ पदार्थ पृथिवी आदि हैं उन सब के आत्मा होने और स्वप्रकाशरूप सब के प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम सूर्य है। (अत सातत्यगमने) इस धातु से «आत्मा» शब्द सिद्ध होता है। «योऽतति व्याप्नोति स आत्मा» जो सब जीवादि जगत् में निरन्तर व्यापक हो रहा है «परश्चासावात्मा च य आत्मभ्यो जीविभ्यः सूक्ष्मेभ्यः परोतिसूक्ष्मः स परमात्मा» जो सब जीव आदि से उत्कृष्ट और जीव प्रकृति तथा आकाश से भी अतिसूक्ष्म और सब जीवों का अन्तर्यामी आत्मा है इस से ईश्वर का नाम «परमात्मा» है। सामर्थ्य वाले का

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः ।

ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥

मनु० ॥ अ० १ । श्लो० १० ॥

जख और जीवों का नाम नारा है वे अयन अर्थात् निवास स्थान हैं जिसका इस लिये सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम "नारायण" है। (चदिआ-ह्लादे) इस धातु से "चन्द्र" शब्द सिद्ध होता है। "यश्चन्दति चन्दयति वा स चन्द्रः" जो आनन्द स्वरूप और सब को आनन्द देने वाला है इस लिये ईश्वर का नाम "चन्द्र" है। (मगि गत्यर्थक) धातु से "मंगेरलच" इस से "मंगल" शब्द सिद्ध होता है "यो मंगति मंगयति वा स मंगलः" जो आप मंगलस्वरूप और सब जीवों के मंगल का कारण है इस लिये उस परमेश्वर का नाम "मङ्गल" है (बुध अवगमने) इस धातु से "बुध" शब्द सिद्ध होता है। "यो बुध्यते बोधयति वा स बुधः" जो स्वयं बोधस्वरूप और सब जीवों के बोध का कारण है इस लिये उस परमेश्वर का नाम "बुध" है। "ब्रह्मस्यति" शब्द का अर्थ कह दिया (ईशुचिर् पूती भावि) इस धातु से शुक्र शब्द सिद्ध हुआ है। "यः शुच्यति शोचयति वा स शुक्रः" जो अत्यन्त पवित्र और जिस के संग से जीव भी पवित्र हो जाता है इस लिये ईश्वर का नाम "शुक्र" है। (चर गतिभक्षणयोः) इस धातु से "शनैस्" अव्यय उपपद होने से "शनैश्चर", शब्द सिद्ध हुआ है। "यः शनैश्चरति स शनैश्चरः,, । जो सब में सहज से प्राप्त धैर्यवान् है। इस से उस परमेश्वर का नाम "शनैश्चर" है (रह त्यागे) इस धातु से राहु शब्द सिद्ध होता है। "यो रहति परित्यजति दुष्टान् राड्यति त्याज-यति वा स राहुरीश्वरः" जो एकान्तस्वरूप जिस के स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं जो दुष्टों को छोड़ने और अन्य को कुड़ाने हारा है इस से परमेश्वर का नाम "राहु" है (कित, निवासे रोगापनयने च) इस धातु से "केतु" शब्द सिद्ध होता है। (यश्चिकित्सयति चिकित्सति वा स केतुरीश्वरः) जो सब जगत् का निवासस्थान सब रोगों से रहित और सुसुक्तुओं को मुक्ति समय में सब रोगों से कुड़ाता है इस लिये उस परमात्मा का नाम "केतु" है। (यज, देवपूजासंगतिकरणदानेषु) इस धातु से "यज्ञ" शब्द सिद्ध होता है। "यज्ञो वै विष्णुः"। यह ब्राह्मण ग्रन्थ का वचन है। "यो यजति विद्वद्भिरिज्यते वा स यज्ञः" जो सब जगत् के पदार्थों को संयुक्त करता और सब विद्वानों का पूज्य है और ब्रह्मा से ले के सब ऋषि मुनियों का पूज्य था है और हीगा इस से उस परमात्मा का नाम "यज्ञ" है क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है। (इ, दानादनयोः, आदानेचैत्येके) इस धातु से "हीता" शब्द सिद्ध हुआ

है। “यो जुहोति स हीता”। जो जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता और ग्रहण करने योग्यों का ग्राहक है इस से उस ईश्वर का नाम “हीता” है। (बन्ध बन्धने) इस से “बन्धु” शब्द सिद्ध होता है। “यः स्वस्मिन् चराचरं जगद् बध्नाति बन्धुवद्गर्मात्मनां सुखाय सहायो वा वर्त्तते स बन्धुः” जिसने अपने में सब लोक लोकान्तरों को नियमों से बद्ध कर रखे और सच्चोदर के समान सहायक है इसी से अपनी २ परिधि वा नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। जैसे भ्राता भाइयों का सहायकारी होता है वैसे परमेश्वर भी पृथिव्यादि लोकों के धारण रक्षण और सुख देने से “बन्धु” संज्ञक है। (पा, रक्षणे) इस धातु से “पिता” शब्द सिद्ध हुआ है। “यः पाति सर्वान् स पिता” जो सब का रक्षक जैसा पिता अपने सन्तानों पर सदा कृपालु होकर उन की उन्नति चाहता है वैसे ही परमेश्वर सब जीवों की उन्नति चाहता है इस से उस का नाम “पिता” है। “यः पितृणां पिता स पितामहः” जो पिताओं का भी पिता है इससे उस परमेश्वर का नाम “पितामह” है। “यः पितामहानां पिता स प्रपितामहः”। जो पिताओं के पितरों का पिता है इस से परमेश्वर का नाम “प्रपितामह” है। “यो मिमीते मानयति सर्वाञ्जोवान् स माता। जैसे पूर्णकृपायुक्त जननी अपने सन्तानों का सुख और उन्नति चाहती है वैसे परमेश्वर भी सब जीवों की बढ़ती चाहता है इस से परमेश्वर का नाम “माता” है। (चर गतिभक्षणयोः) आङ्पूर्वक इस धातु से “आचार्य” शब्द सिद्ध होता है। “य आचारं ग्राहयति सर्वा विद्या वा बोधयति स आचार्य ईश्वरः”। जो सत्य आचार का ग्रहण कराने हारा और सब विद्याओं की प्राप्ति का हेतु हो के सब विद्या प्राप्त कराता है इससे परमेश्वर का नाम “आचार्य” है (गृ शब्दे) इस धातु से “गुरु” शब्द बना है। “यो धर्म्यान् शब्दान् गृणात्युपदिशति स गुरुः” ॥

पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् ॥ योगसू०

समाधिपादे सू० २६ ।

जो सत्य धर्म प्रतिपादक सकल विद्यायुक्त वेदों का उपदेश करता, सृष्टि की आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अङ्गिरा और ब्रह्मादि गुरुओं का भी गुरु और जिस का नाश कभी नहीं होता इस लिये उस परमेश्वर का नाम “गुरु” है। (अज गतिक्षेपणयोः, जनो प्रादुर्भावे) इन धातुओं से “अज” शब्द बनता है। “योऽजति सृष्टिं प्रति सर्वान् प्रकृत्यादीन् पदार्थान् प्रक्षिपति जानाति वा कदाचित् न जायते सोऽजः” जो सब प्रकृति के अवयव आकाशादि भूत परमाणुओं को यथा-

योग्य मिलाता शरीर के साथ जीवों का संबन्ध करके जन्म देता और स्वयं कभी जन्म नहीं लेता इस से उस ईश्वर का नाम "अज" है। (वृद्धि वृद्धौ) इस धातु से "ब्रह्मा" शब्द सिद्ध होता है। "योऽखिलं जगन्निर्माणेन ब्रह्मति वर्धयति स ब्रह्मा" जो संपूर्ण जगत् को रच के बढ़ाता है इस लिये परमेश्वर का नाम "ब्रह्मा" है। "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" यह तैत्तिरीयोपनिषद् का वचन है। "सन्तीति सन्तस्तेषु सत्सु साधु तत्सत्यम् । यज्जानाति चराऽचरं जगत्तज्ज्ञानम् । न विद्यतेऽन्तोऽवधि-र्मर्यादा यस्य तदहनन्तम् । सर्वेभ्यो ब्रह्मत्वाद्ब्रह्म" जो पदार्थ हैं उन को सत् कहते हैं उन में साधु होने से परमेश्वर का नाम सत्य है। जो जानने वाला है इस से परमेश्वर का नाम "ज्ञान" है जिस का अन्त अवधि मर्यादा अर्थात् इतना लंबा चौड़ा छोटा बड़ा है ऐसा परिमाण नहीं है इस लिये परमेश्वर के नाम "सत्य ज्ञान और अनन्त" हैं। (डुदाज् दाने) आङ् पूर्वक इस धातु से "आदि" शब्द और नज् पूर्वक "अनादि" शब्द सिद्ध होता है "यस्मात् पूर्वं नास्ति परं चास्ति स आदिरित्युच्यते न विद्यते आदिः कारणं यस्य सोऽनादिरीश्वरः" जिस के पूर्व कुछ नहीं और परे ही उस को आदि कहते हैं जिस का आदि कारण कोई भी नहीं है इस लिये परमेश्वर का नाम अनादि है (टुनदि सृष्टौ) आङ् पूर्वक इस धातु से "आनन्द" शब्द बनता है। "आनन्दन्ति सर्वे सुक्ता यस्मिन् यद्वा यः सर्वाञ्जीवानानन्दयति स आनन्दः" जो आनन्दस्वरूप जिस में सब सुक्त जीव आनन्द को प्राप्त होते और जो सब धर्मात्मा जीवों को आनन्ददयुक्त करता है इस से ईश्वर का नाम "आनन्द" है। (अस भुवि) इस धातु से "सत्" शब्द सिद्ध होता है। "यदस्ति त्रिषु कालेषु न बाधते तत्सद्ब्रह्म" जो सदावर्तमान अर्थात् भूत, भविष्यत् वर्तमान कालों में जिस का बाध न हो उस परमेश्वर को "सत्" कहते हैं। (चित्ती संज्ञाने) इस धातु से "चित्" शब्द सिद्ध होता है "यश्चेतति संज्ञापयति सर्वान् सज्जनान् योगिनस्तच्चित्परंब्रह्म जो चेतनस्वरूप सब जीवोंको चिताने और सत्याऽसत्य का जनाने हारा है इसलिये उस परमात्मा का नाम चित् है। इन तीनों शब्दों के विशेषण होने से परमेश्वर को सच्चिदानन्दस्वरूप कहते हैं। यो नित्यध्रुवोऽचलोऽविनाशी स नित्यः" जो निश्चलअविनाशी है सो नित्य शब्द वाच्य ईश्वर है। (शुं ध शुद्धौ) इस से शुद्ध शब्द सिद्ध होता है "यः शुभ्यति सर्वान् शोधयति वा स शुद्ध ईश्वरः" जो स्वयं प्रवित्र सब अशुद्धियों से पृथक् और सब को शुद्ध करने वाला है इससे उस ईश्वर का नाम शुद्ध है। (बुध अवगमने) इस धातु से क्त प्रत्यय होने से बुद्ध शब्द सिद्ध होता है "यो बुद्धवान् सदैव ज्ञाताऽस्ति स बुद्धो जगदीश्वरः" जो सदा सब को जानने हारा है इस से ईश्वर का नाम बुद्ध है (सु-चल् मोक्षणे) इस धातु से मुक्त शब्द सिद्ध होता है। "यो मुञ्चति मोचयति वा

सुमुञ्चन् स मुक्ती जगदीश्वरः” जो सर्वदा अशुद्धियों से अलग और सब सुमुञ्चुओं को क्लेश से छुड़ा देता है इस लिये परमात्मा का नाम मुक्त है अतएव—नित्यशुद्ध बुद्धमुक्तस्वभावो जगदीश्वरः । इसी कारण से परमेश्वर का स्वभाव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है । निर् और आङ्पूर्वक (डुक्ञ् करणे) इस धातु से निराकार शब्द सिद्ध होता है “निर्गत आकारात्क निराकारः” जिस का आकार कोई भी नहीं और न कभी शरीर धारणकरता है इस लिये परमेश्वर का नाम निराकार है (अञ्च व्यक्तिस्त्रक्षणकान्तिगतिषु) इस धातु से अञ्जन शब्द और निर् उपसर्ग के योग से निरञ्जन शब्द सिद्ध होता है “अञ्जनं व्यक्तिस्त्रक्षणं कुक्काम इन्द्रियैः प्राप्तिशैत्यस्माद्यो-निर्गतः पृथग्भूतः स निरञ्जनः” । जो व्यक्ति अर्थात् आकृति क्लृप्ताचार दुष्ट कामना और चक्षुरादि इन्द्रियों के विषयों के पथ से पृथक् है इस से ईश्वर का नाम “निरञ्जन” है । (गण संख्याने) इस धातु से “गण्” शब्द सिद्ध होता इस के आगे “ईश” वा “पति” शब्द रखने से “गणेश” और “गणपति” शब्द सिद्ध होते हैं । “ये प्रकृत्यादयो जडा जीवाश्च गण्यन्ते संख्यायन्ते तेषामीशः स्वामी पतिः पालको वा” जो प्रकृत्यादि जड़ और सब जीव प्रख्यात पदार्थों का स्वामी वा पालन करने हारा है इस से उस ईश्वर का नाम “गणेश” वा “गणपति” है । “यो विश्वमीष्टे स विश्वेश्वरः” जो संसार का अधिष्ठाता है इस से उस परमेश्वर का नाम “विश्वेश्वर” है “यः कूटस्थेनेकविधव्यवहारे स्वस्वरूपेणैव तिष्ठति स कूटस्थः पर-मेश्वरः” । जो सब व्यवहारों में व्याप्त और सब व्यवहारों का आधार होके भी किसी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता इस से परमेश्वर का नाम “कू-टस्थ” है । जितने देव शब्द के अर्थ लिखे हैं उतने ही “देवी” शब्द के भी हैं । परमेश्वर के तीनों लिङ्गों में नाम हैं जैसे “ब्रह्म चित्तिरीश्वरश्चेति” जब ईश्वर का विशेषण होगा तब “देव” जब चित्ति का होगा तब “देवी” इस से ईश्वर का नाम “देवी” है (शक्तृ शक्ती) इस धातु से “शक्ति” शब्द बनता है “यः सर्वं जगत् कर्तुं शक्नोति स शक्तिः” जो सब जगत् के बनाने में समर्थ है इस लिये उस परमेश्वर का नाम “शक्ति” है । (अञ्जि सेवायाम्) इस धातु से “श्री” शब्द सिद्ध होता है “यः श्रीयते सेव्यते सर्वेण जगता विद्वद्भिर्योगिभिश्च स श्रीरीश्वरः” जिस का सेवन सब जगत्, विद्वान् और योगी जन करते हैं उस परमात्मा का नाम “श्री” है । (लक्ष्, दर्शनाङ्कनयोः) इस धातु से “लक्ष्मी” शब्द सिद्ध होता है “यो लक्षयति पश्यत्यङ्कते चिन्हयति चराचरं जगदृषवा वेदैरामैर्योगिभिश्च यो लक्ष्यते स लक्ष्मीः सर्वप्रियेश्वरः” । जो सब चराचर जगत् को देखता चिन्हित अर्थात् दृश्य बनाता जैसे शरीर के नेत्र, नासिका और हृत् के पत्र, पुष्प, फल, मूल, पृथिवी, जल के कृष्ण, रक्त, श्वेत, सृष्टिका, पाषाण, चन्द्र सूर्यादि चिन्ह बनाता तथा सब को देखता सब

श्रीभाष्यों की श्रीभा और जो वेदादि शास्त्र वा धार्मिक विद्वान् योगियों का लक्ष्य अर्थात् देखने योग्य है इस से उस परमेश्वर का नाम "लक्ष्मी" है। (सृगतौ) इस धातु से "सरस्" उससे "मतुप्" और "ङीप्" प्रत्यय होने से "सरस्वती" शब्द सिद्ध होता है "सरो विविधं ज्ञानं विद्यते यस्यां चिती सा सरस्वती" जिस को विविध विज्ञान अर्थात् शब्द अर्थ सम्बन्ध प्रयोग का ज्ञान यथावत् होवे इस से उस परमेश्वर का नाम "सरस्वती" है। "सर्वाः शक्तयो विद्यन्ते यस्मिन् स सर्वशक्तिमान् ईश्वरः" जो अपने कार्य करने में किसी अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता अपने ही सामर्थ्य से अपने सब काम पूरे करता है इस लिये उस परमात्मा का नाम "सर्वशक्तिमान्" है। (णीञ् प्रापणे) इस धातु से "न्याय" शब्द निद्ध होता है। "प्रमाणैरर्थपरीक्षणं न्यायः" यह वचन-न्याय सूत्रों पर वाक्यायनमुनिकृतभाष्य का है। "पक्षपातराहित्याचरणं न्यायः" जो प्रत्यक्षादि प्रमाणां की परीक्षा से सत्य २ सिद्ध हो तथा पक्षपात रहित धर्म रूप आचरण है वह न्याय कहाता है। "न्यायं कर्तुं शीलमस्य स न्यायकारीश्वरः" जिस का न्याय अर्थात् पक्षपात रहित धर्म करने ही का स्वभाव है इस से उस ईश्वर का नाम "न्यायकारी" है। (दय दानगतिरक्षणहिंसादानेषु) इस धातु से "दया" शब्द सिद्ध होता है "दयते ददाति जानाति गच्छति रक्षति हिनस्ति यथा, सा दया वद्वी दया विद्यते यस्य स दयालुः परमेश्वरः" जो अभय का दाता सत्याऽसत्य सर्व विद्याओं का जानने सब सज्जनों की रक्षा करने और दुष्टों को यथायोग्य दण्ड देने वाला है इस से परमात्मा का नाम दयालु है। "द्वयोर्भावो द्विता हाभ्यामितं द्वीतं वा सैव तदेव वा द्वैतम् । न विद्यते द्वैतं द्वितीयेश्वरभावो यस्मिंस्तद्वैतम्" । अर्थात् सजातीय विजातीयस्वगत भेद शून्यं ब्रह्म" । दो का होना वा दोनों से युक्त होना वह द्विता वा द्वैत अथवा द्वैत इस से जो रहित है, सजातीय जैसे मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य होता है । विजातीय जैसे मनुष्य से भिन्न जाति वाला वृक्ष पाषाणादि । स्वगत अर्थात् शरीर में जैसे आंख, नाक, कान आदि अवयवों का भेद है वैसे दूसरे स्वजातीय ईश्वर विजातीय ईश्वर वा अपने आत्मा में तत्त्वान्तर वस्तुओं से रहित एक परमेश्वर है । इस से परमात्मा का नाम "अद्वैत" है। "गण्यन्ते ये ते गुणा वा वैर्गणयन्ति ते गुणाः, ये गुणेश्यो निर्गतः स निर्गुण ईश्वरः" । जितने सत्त्व, रजस्, तमः, रूप, रस, स्पर्श गन्धादि जड़ के गुण अविद्या, अल्पज्ञता, राग, द्वेष और अविद्यादि क्लेश जीव के गुण हैं उन से जो पृथक् है इस में "अशब्दमस्पर्शम-रूपमव्ययम्" इत्यादि उपनिषदों का प्रमाण है जो शब्द, स्पर्श, रूपादिगुणरहित है इस से परमात्मा का नाम "निर्गुण" है। "यो गुणैः सह वर्तते स सगुणः" जो सब का ज्ञान सर्वसुख पवित्रता अनन्त बलादिगुणों से युक्त है इस लिये पर-

मेश्वर का नाम "सगुण" है। जैसे पृथिवी गन्धादि गुणों से सगुण और इच्छादि गुणों से रहित होने से 'निर्गुण' है वैसे जगत् और जीव के गुणों से पृथक् होने से परमेश्वर निर्गुण और सर्वज्ञादि गुणों से सहित होने से "सगुण" है। अर्थात् ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो सगुणता और निर्गुणता से पृथक् हो जैसे चेतन के गुणों से पृथक् होने से जड़ पदार्थ निर्गुण और अपने गुणों से सहित होने से सगुण वैसे ही जड़ के गुणों से पृथक् होने से जीव निर्गुण और इच्छादि अपने गुणों से सहित होने से सगुण। ऐसे ही परमेश्वर में भी सम्भना चाहिये। "अन्तर्यान्तुं निवृन्तुं शीलं यस्य सोऽयमन्तर्यामी" जो सब प्राणि और अप्राणिरूप जगत् के भीतर व्यापक हो के सब का नियम करता है इस लिये उस परमेश्वर का नाम "अन्तर्यामी" है। "यो धर्मं राजते स धर्मराजः"। जो धर्म ही में प्रकाशमान और अधर्म से रहित धर्म ही का प्रकाश करता है इस लिये उस परमेश्वर का नाम "धर्मराज" है। (यमु उपरमे) इस धातु से "यम" शब्द सिद्ध होता है। "यः सर्वान् प्राणिने नियच्छति स यमः" जो सब प्राणियों को कर्मफल देने की व्यवस्था करता और सब अन्यायों से पृथक् रहता है इस लिये परमात्मा का नाम "यम" है। (भज सेवायाम्) इस धातु से "भग" इस से "मतुप्" होने से "भगवान्" शब्द सिद्ध होता है। "भगः सकलैश्वर्यं सेवनं वा विद्यते यस्य स भगवान्" जो समग्र ऐश्वर्य से युक्त भजने के योग्य है इसी लिये उस ईश्वर का नाम "भगवान्" है। (मन, ज्ञाने) धातु से "मनु" शब्द बनता है। "यो मन्यते स मनुः"। जो मनु अर्थात् विज्ञानशील और मानने योग्य है इस लिये उस ईश्वर का नाम "मनु" है (पृ पालनपूरणयोः) इस धातु से "पुरुष" शब्द सिद्ध हुआ है। "यः स्वव्याप्त्या चराऽचरं जगत् पृणाति पूरयति वा स पुरुषः" जो जगत् में पूर्ण हो रहा इस लिये उस परमेश्वर का नाम "पुरुष" है (डुभृञ् धारणपोषणयोः) "विश्वं" पूर्वक इस धातु से "विश्वम्भरः" शब्द सिद्ध होता है। "यो विश्वं विभर्ति धरति पुष्पाति वा स विश्वम्भरो जगदीश्वरः" जो जगत् का धारण और पोषण करता है इस लिये उस परमेश्वर का नाम "विश्वम्भर" है (कल संख्याने) इस धातु से "काल" शब्द बना है। "कलयति संख्याति सर्वान् पदार्थान् स कालः" जो जगत् के सब पदार्थ और जीवों की संख्या करता है इस लिये उस परमेश्वर का नाम "काल" है। "यः शिष्यते स शेषः" जो उत्पत्ति और प्रलय से शेष अर्थात् बच रहा है इस लिये उस परमात्मा का नाम शेष है (आप्तु व्याप्तौ) इस धातु से "आप्त" शब्द सिद्ध होता है। "यः सर्वान् धर्मात्मन आप्नोति वा सर्वैर्धर्मात्मभिराप्यते ह्यलादिरहितः स आप्तः" जो सत्योपदेशक सकल विद्यायुक्त सब धर्मात्माओं को प्राप्त होता और धर्मात्माओं से प्राप्त होने योग्य हल कपटादि से रहित है इस लिये उस परमात्मा का नाम

“आप्त” है (डुकृञ् करणे) शम् पूर्वक इस धातु से “शङ्कर” शब्द सिद्ध हुआ है “यः शङ्कल्याणं सुखं करोति स शङ्करः” जो कल्याण अर्थात् सुख का करने हारा है इस से उस ईश्वर का नाम “शङ्कर” है “महत्” शब्द पूर्वक “देव” शब्द से “महादेव” सिद्ध होता है “यो महतां देवः समहादेवः” जो महान् देवों का देव अर्थात् विद्वानों का भी विद्वान् सूर्यादि पदार्थों का प्रकाशक है इस लिये उस परमात्मा का नाम “महादेव” है (प्रीञ् तर्पणे कान्तौ च) इस धातु से “प्रिय” शब्द सिद्ध होता है “यः प्रुणाति प्रीयते वा स प्रियः” जो सब धर्मात्माओं सुसुक्ष्मों और शिष्टों को प्रसन्न करता और सब को कामना के योग्य है इस लिये उस ईश्वर का नाम “प्रिय” है (भूस्त्तायाम्) “स्वयं” पूर्वक इस धातु से (स्वयन्) शब्द सिद्ध होता है “यः स्वयं भवति स स्वयन्श्रीश्वरः” जो आप से आप ही है किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ है इस से उस परमात्मा का नाम “स्वयन्” है (कु शब्दे) इस धातु से “कवि” शब्द सिद्ध होता है “यः कौति शब्दयति सर्वा विद्याः स कविरीश्वरः” जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेत्ता है इस लिये उस परमेश्वर का नाम “कवि” है (शिवु कल्याणे) इस धातु से “शिव” शब्द सिद्ध होता है “बहुलमेतन्निदर्शनम्” इस से शिवु धातु माना जाता है जो कल्याण स्वरूप और कल्याण का करने हारा है इस लिये उस परमेश्वर का नाम “शिव” है ॥

ये सौ नाम परमेश्वर के लिखे हैं परन्तु इन से भिन्न परमात्मा के असंख्य नाम हैं क्योंकि जैसे परमेश्वर के अनन्त गुण कर्म स्वभाव हैं वैसे उस के अनन्त नाम भी हैं उन में से प्रत्येक गुण कर्म और स्वभाव का एक २ नाम है इस से ये मेरे लिखे नाम समुद्र के सामने विन्दुवत् हैं क्योंकि वेदादि शास्त्रों में परमात्मा के असंख्य गुण कर्म स्वभाव व्याख्यात किये हैं । उन के पढ़ने पढ़ाने से बोध हो सकता है । और अन्य पदार्थों का ज्ञान भी उन्हीं को पूरा २ हो सकता है जो वेदादि शास्त्रों को पढ़ते हैं ॥

(प्रश्न) जैसे अन्य ग्रन्थकार लोग आदि मध्य और अन्त में मंगलाचरण करते हैं वैसे आप ने कुछ भी न लिखा न किया ? (उत्तर) ऐसा हम को करना योग्य नहीं क्योंकि जो आदि मध्य और अन्त में मङ्गल करे या तो उस के ग्रन्थ में आदि मध्य तथा अन्त के बीच में जो कुछ लेख होगा वह अमङ्गल ही रहे गा इस लिये “मङ्गलाचरणं शिष्टाचारात् फलदर्शनाच्छ्रितितञ्चेति” यह सांख्यशास्त्र का सूत्र है । इस का यह अभिप्राय है कि जो न्याय पञ्चपातरहित सत्य वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा है उसी का यथावत् सर्वत्र और सदा आचरण करना मङ्गलाचरण कहाता है । ग्रन्थ के आरम्भ से ले के समाप्ति पर्यन्त सत्याचार का करना ही मङ्गलाचरण है । न कि कहीं मङ्गल और कहीं अमङ्गल लिखना । देखिये महाशय महर्षियों के लेख को:—

यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि ॥

यह तैत्तिरीयोपनिषद् प्रपाठक ७ अनु० ११ का वचन है। हे सन्तानो ! जो "अनवद्य" अनिन्दनीय अर्थात् धर्मयुक्त कर्म हैं वे ही तुम को करने योग्य हैं अध-
र्मयुक्त नहीं। इस लिये जो आधुनिक ग्रन्थों में "श्रीगणेशाय नमः" "सीतारामाभ्यां
नमः" "राधाकृष्णाभ्यां नमः" "श्रीगुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः" "हनुमते नमः"
"दुर्गायै नमः" "वटुकाय नमः" "भैरवाय नमः" "शिवाय नमः" "सरस्वत्यै नमः"
"नारायणाय नमः" "इत्यादि-लेख देखने में आते हैं इन को बुद्धिमान् लोग वेद
और शास्त्रों से विरुद्ध होने से मिथ्या ही समझते हैं क्योंकि वेद और ऋषियों
के ग्रन्थों में कहीं ऐसा मंगलाचरण देखने में नहीं आता और आर्षग्रन्थों में
"श्रीम्" तथा "अथ" शब्द तो देखने में आते हैं। देखो—

“अथ शब्दानुशासनम्” अथेत्ययं शब्दोऽधिकारार्थः प्रयु-
ज्यत इति व्याकरणमहाभाष्ये ।

“अथातो धर्मजिज्ञासा” अथेत्यानन्तर्ये वेदाध्ययनान-
न्तरम् । इति पूर्वमीमांसायाम् ।

“अथातो धर्मं व्याख्यास्यामः” अथेति धर्मकथनानन्तरं
धर्मलक्षणं विशेषेण व्याख्यास्यामः । वैशेषिकदर्शने ।

“अथ योगानुशासनम्” अथेत्ययमधिकारार्थः । योगशास्त्रे ।

“अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः” सांसा-
रिकविषयभोगानन्तरं त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्त्यर्थः प्रयत्नः
कर्तव्यः । सांख्यशास्त्रे ।

“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” इदं वेदान्तसूत्रम् ।

“ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत” इदं छान्दोग्योप-
निषद्वचनम् ।

“ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम्” ।
इदं च माण्डूक्योपनिषदारम्भवचनम् ॥

ये सब उनर शास्त्रों के आरम्भ के वचन हैं ऐसे ही अन्य ऋषि सुनियों के ग्रन्थों में "ओम्" और "अथ" शब्द लिखे हैं वैसे ही (अग्नि, इट् अग्नि; ये त्रि-
 षप्ताः परियन्ति) ये शब्द चारों वेदों के आदि में लिखे हैं "श्रीगणेशाय नमः" इत्यादि शब्द कहीं नहीं और जो वैदिक लोग वेद के आरम्भ में "हरिः ओम्" लिखते और पढ़ते हैं यह पौराणिक और तान्त्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना से शीखे हैं वेदादिशास्त्रों में "हरि शब्द आदि में कहीं नहीं इस लिये "ओम्" वा "अथ" शब्द ही ग्रन्थ की आदि में लिखना चाहिये । यह किञ्चिन्मात्र ईश्वर के विषय में लिखा इस के आगे शिवा के विषय में लिखा जाय गा ॥

इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविभूषित ईश्वरनामविषये प्रथमः

समुच्छासः सम्पूर्णः ॥

अथ द्वितीयसमुल्लासारम्भः ॥

—०:०*०*०*०*०*०—

अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामः ॥

मातृमान् पितृमानाचार्यवान् पुरुषो वेद ॥

यह शतपथब्राह्मण का बचन है। वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक अर्थात् एक माता दूसरा पिता और तीसरा आचार्य्य होवे तभी मनुष्य ज्ञानवान् होता है। वह कुल धन्य ! वह सन्तान बड़ा भाग्यवान् ! जिस के माता और पिता धार्मिक विद्वान् हों। जितना माता से सन्तानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है, उतना किसी से नहीं। जैसे माता सन्तानों पर प्रेम और हित करना चाहती है उतना अन्य कोई नहीं करता इस लिये (मातृमान्) अर्थात् "प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस्य स मातृमान्"। धन्य ! वह माता है कि जो गर्भाधान से ले कर जब तक पूरी विद्या न हो तब तक सुशीलता का उपदेश करे ॥

माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पूर्व मध्य और पश्चात् मादकद्रव्य, मद्यं, दुर्गन्ध, रुक्ष, बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ के जो शान्ति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करें वैसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें कि जिस से रजस् वीर्य सभी दोषों से रहित हो कर अत्युत्तम गुण युक्त हो। जैसा ऋतुगमन का विधि अर्थात् रजोदर्शन के पांचवें दिवस से लेकर सोलहवें दिवस तक ऋतुदान देने का समय है उन दिनों में से प्रथम के चार दिन त्याज्य हैं रहे १२ दिन उन में एकादशी और त्रयोदशी रात्रि को छोड़ के बाकी १० रात्रियों में गर्भाधान करना उत्तम है और रजोदर्शन के दिन से ले के १६वीं रात्रि के पश्चात् न समागम करना। पुनः जब तक ऋतुदान का समय पूर्वाक्त न आवे तब तक और गर्भस्थिति के पश्चात् एक वर्ष तक संयुक्त न हों। जब दोनों के शरीर में आरोग्य परस्पर प्रसन्नता किसी प्रकार का शोक न हो। जैसा चरक और सुश्रुत में भोजन छादन का विधान और मनुस्मृति में स्त्री पुरुष की प्रसन्नता की रीति लिखी है उसी प्रकार करें और वसं। गर्भाधान के पश्चात् स्त्री को बहुत सावधानी से भोजन छादन करना चाहिये। पश्चात् एक वर्ष पर्यन्त स्त्री पुरुष का सङ्ग न करे। बुद्धि,

ये सब उनर शास्त्रों के आरम्भ के वचन हैं ऐसे ही अन्य ऋषि मुनियों के ग्रन्थों में "ओम्" और "अथ" शब्द लिखे हैं वैसे ही (अग्नि, इट् अग्नि; ये त्रि-पदाः परियन्ति) ये शब्द चारों वेदों के आदि में लिखे हैं "श्रीगणेशाय नमः" इत्यादि शब्द कहीं नहीं और जो वैदिक लोग वेद के आरम्भ में "हरिः ओम्" लिखते और पढ़ते हैं यह पौराणिक और तान्त्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना से शीखे हैं वेदादिशास्त्रों में "हरि शब्द आदि में कहीं नहीं इस लिये "ओम्" वा "अथ" शब्द ही ग्रन्थ की आदि में लिखना चाहिये । यह किञ्चिन्मात्र ईश्वर के विषय में लिखा इस के आगे शिवा के विषय में लिखा जाय गा ॥

इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविभूषित ईश्वरनामविषये प्रथमः

समुच्छासः सम्पूर्णः ॥

बड़े, कोटे, मान्य, पिता, माता, राजा, विद्वान् आदि से भाषण उन से वर्त्तमान और उन के पास बैठने आदि की भी शिक्षा करें जिस से कहीं उन का अयोग्य व्यवहार न हो के सर्वत्र प्रतिष्ठा हुआ करे जैसे सन्तान जितेन्द्रिय विद्या-प्रिय और सत्सङ्ग में रुचि करें वैसा प्रयत्न करते रहें। व्यर्थ क्रीड़ा, रोदन, हास्य, लड़ाई, हर्ष, शोक, किसी पदार्थ में लोलुपता, ईर्ष्या, हेवादि न करें उपस्थेन्द्रिय के स्पर्श और मर्दन से वीर्य की क्षीणता नपुंसकता होती और हस्तमें दुर्गन्ध भी होता है इस से उस का स्पर्श न करें। सदा सत्यभाषण, शौर्य, धैर्य, प्रसन्नवदन, आदि गुणों की प्राप्ति जिस प्रकार हो करावें। जब पांच २ वर्ष के लड़का लड़की हों तब देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करावें अन्यदेशीय भाषाओं के अक्षरों का भी। उस के पश्चात् जिन से अच्छी शिक्षा विद्या धर्म, परमेश्वर, माता, पिता, आचार्य, विद्वान्, अतिथि, राजा, प्रजा, कुटुम्ब, बन्धु, भगिनी, भृत्य आदि से कैसे वर्त्तना इन बातों के मन्त्र श्लोक, सूत्र, गद्य, पद्य, भी अर्थसहित कण्ठस्थ करावें। जिन से सन्तान किसी धूर्त के बहकाने में न आवें। और जो २ विद्याधर्मविरुद्ध भ्रान्तिमाल में गिराने वाले व्यवहार हैं उनका भी उपदेश कर दें जिस से भूत प्रेत आदि मिथ्या बातों का विश्वास न हो।

गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन् ।

प्रेतहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुध्यति॥मनु०अ०५॥६५

अर्थ—जब गुरु का प्राणान्त हो तब मृतक शरीर जिस का नाम प्रेत है उस का दाह करने हारा शिष्य प्रेतहार अर्थात् मृतक को उठाने वालों के साथ दशवें दिन शुद्ध होता है। और जब उस शरीर का दाह हो चुका तब उस का नाम भूत होता है अर्थात् वह असुक नामा पुरुष या जितने उत्पन्न हों वर्त्तमान में आ के न रहें वे भूतस्थ हैं इस से उन का नाम भूत है। ऐसा ब्रह्मा से लेके आज पर्यन्त के विद्वानों का सिद्धान्त है परन्तु जिस को शङ्का, कुसङ्ग कुसंस्कार होता है उस को भय और शङ्कारूप भूत, प्रेत, शाकिनी, डाकिनी, आदि अनेक भ्रममाल दुःखदायक होते हैं। देखो जब कोई प्राणी मरता है तब उस का जीव पाप पुण्य के वश ही कर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुःख के फल भोगने के अर्थ जन्मान्तर धारण करता है। क्या इस अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी नाश कर सकता है?। अज्ञानी लोग वैदिकशास्त्र वा पदार्थविद्या के पढ़ने सुनने और विचार से रहित हो कर सन्निपातज्वरादि शारीरिक और उन्मादकादि मानस रोगों का नाम भूत प्रेतादि धरते हैं। उन का औषध सेवन और पथ्यादि उचित व्यवहार न करके उन धूर्त, पाखण्डी, महामूर्ख, अनाचारी, स्वार्थी, भङ्गी,

बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शान्ति आदि गुणकारक द्रव्यों ही का सेवन स्त्री करती रहै कि जब तक सन्तान का जन्म न हो ॥

जब जन्म हो तब अच्छे सुगन्धियुक्त जल से बालक को स्नान नाड़ीकेदन करके सुगन्धियुक्त घृतादि का होम * और स्त्री को भी स्नान भोजन का यथायोग्य प्रबन्ध करे कि जिस से बालक और स्त्री का शरीर क्रमशः आरोग्य और पुष्ट होता जाय । ऐसा पदार्थ उस की माता वा धायी खावे कि जिस से दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त हों । प्रसूता का दूध छः दिन तक बालक को पिलावे पश्चात् धायी पिलाया करे परन्तु धायी को उत्तम पदार्थों का खान पान माता पिता करावे जो कोई दरिद्र हो धायी को न रख सके तो वे गाय वा बकरी के दूध में उत्तम ओषधि जो कि बुद्धि पराक्रम आरोग्य करने हारी हों उन को शुद्ध जल में भिजा औटा छान के दूध के समान जल मिला के बालक को पिलावे । जन्म के पश्चात् बालक और उस की माता को दूसरे स्थान जहाँ का वायु शुद्ध हो वहाँ रखें सुगन्ध तथा दर्शनीय पदार्थ भी रखें और उस देश में भ्रमण करना उचित है कि जहाँ का वायु शुद्ध हो और जहाँ धायी गाय बकरी आदि का दूध न मिल सके वहाँ जैसा उचित समझे वैसा करें । क्योंकि प्रसूता स्त्री के शरीर के अंग से बालक का शरीर होता है। इसी से स्त्री प्रसव समय निर्बल हो जाती है इस लिये प्रसूता स्त्री दूध न पिलावे । दूध रोकने के लिये स्तन के छिद्र पर उस ओषधी का लेप करे जिस से दूध स्रवित न हो । ऐसे करने से दूसरे महीने में पुनरपि युवति हो जाती है । तब तक पुरुष ब्रह्मचर्य्य से वीर्य्य का निग्रह रखे इस प्रकार जो स्त्री वा पुरुष करेगे उन को उत्तम सन्तान दीर्घायु बल पराक्रम की वृद्धि होती ही रहेगी कि जिस से सब सन्तान उत्तम बल पराक्रम युक्त दीर्घायु धार्मिक हों । स्त्री योनि सङ्कोचन, शोधन और पुरुष वीर्य्य का स्तम्भन करे । पुनः सन्तान जितने होंगे वे भी सब उत्तम होंगे ॥

बालकों की माता सदा उत्तम शिचा करे जिस से सन्तान सभ्य ही और किसी प्रकृति से कुवेष्टा न करने पावे । जब बोलने लगे तब उस की माता बालक की जिज्ञा जिस प्रकार कोमल हो कर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करे कि जो जिस वर्ण का स्थान प्रयत्न अर्थात् जैसे "प" इस का ओठ स्थान और स्पृष्ट प्रयत्न दोनों ओरों को मिला कर बोलना क्लृप्त, दीर्घ, मुक्त, अक्षरों को ठीकर बोल सकना । मधुर, गन्धीर सुन्दर स्वर, अक्षर, मात्रा, वाक्य, संहिता, अवसान भिन्नर व्यवण होवे । जब वह क्लृप्त र बोलने और समझने लगे तब सुन्दर वाणी और

बालक के जन्म समय में "जातकर्मसंस्कार" होता है उस में हवनादि वेदीक कर्म होते हैं वे (संस्कार विधि) में सविस्तर लिख दिये हैं ।

अंक, बीज, रेखा गणित विद्या है वह सब सच्ची जो फल की लीला है वह सब झूठी है (प्रश्न) क्या जो यह जन्मपत्र है सो निष्फल है ? (उत्तर०) हां, वह जन्मपत्र नहीं किन्तु उस का नाम "शोकपत्र" रखना चाहिये क्योंकि जब सन्तान का जन्म होता है तब सब को आनन्द होता है । परन्तु वह आनन्द तब तक होता है कि जब तक जन्मपत्र बन के ग्रही का फल न सुने । जब पुरोहित जन्मपत्र बनाने को कहता है तब उस के माता पिता पुरोहित से कहते हैं "महाराज आप बहुत अच्छा जन्मपत्र बनाइये" जो धनाढ्य होतो बहुतसी लाल पीली रेखाओं से चित्र विचित्र और निर्धन हो तो साधारण रीति से जन्मपत्र बना के सुनाने को आता है तब उस के मा बाप ज्योतिषी जी के सामने बैठ के कहते हैं "इस का जन्मपत्र अच्छा तो है ?" ज्योतिषी कहता है "जो है सो सुना देता हूं इस के जन्मग्रह बहुत अच्छे और मित्रग्रह भी बहुत अच्छे हैं जिन का फल धनाढ्य और प्रतिष्ठावान् । जिस सभा में जा बैठेगा तो सब के ऊपर इस का तेज पड़ेगा शरीर से आरोग्य और राज्यमानी होगा" इत्यादि बातें सुन के पिता आदि बोलते हैं "बाह २ ज्योतिषी जी आप बहुत अच्छे हो" ज्योतिषी जी समझते हैं इन बातों से कार्य सिद्ध नहीं होता तब ज्योतिषी बोलता है कि "ये ग्रह तो बहुत अच्छे हैं परन्तु ये ग्रह क्रूर हैं अर्थात् फलाने २ ग्रह के योग से ८ वर्ष में इस का मृत्यु योग है" इस को सुन के माता पितादि पुत्र के जन्म के आनन्द को छोड़ के शोकसागर में डूब कर ज्योतिषी जी से कहते हैं कि "महाराज जी ! अब हम क्या करें ?" तब ज्योतिषी जी कहते हैं "उपाय करो" गृहस्थ पूछे "क्या उपाय करें" ज्योतिषी जी प्रस्ताव करने लगते हैं कि "ऐसा २ दान करो ग्रह के मंत्र का जप कराओ और नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराओ गे तो अनुमान है कि नवग्रहों के विघ्न हट जायेंगे" अनुमान शब्द इस लिये है कि जो मर जाय गा तो कहे गे हम क्या करें परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है । हम ने बहुत सा यत्न किया और तुम ने कराया उस के कर्म ऐसे ही थे । और जो बच जाय तो कहते हैं कि देखो हमारे मंत्र देवता और ब्राह्मणों की कौसी शक्ति है? तुम्हारे लड़के को बचा दिया । यहां यह बात होनी चाहिये कि जो इन के जप पाठ से कुछ न हो तो दूने तिशुणै रूपये उन धूर्तों से ले लेने चाहिये । और बच जाय तो भी ले लेने चाहिये क्योंकि जैसे ज्योतिषियों ने कहा कि "इस के कर्म और परमेश्वर के नियम तोड़ने का सामर्थ्य किसी का नहीं" वैसे गृहस्थ भी कहे कि "यह अपने कर्म और परमेश्वर के नियम से बचा है तुम्हारे करने से नहीं" और तीसरे गुरु आदि भी पुण्य दान करके आप ले लेते हैं तो उन को भी वही उत्तर देना जो ज्योतिषियों को दिया था ॥

चमार, शूद्र, म्लेच्छादि पर भी विश्वासी हो कर अनेक प्रकार के दोग, छल, कपट और उच्छिष्ट भोजन डोरा, धागा आदि मिथ्या मन्त्र यन्त्र बांधते बन्धवाते फिरते हैं अपने धन का नाश सन्तान आदि की दुर्दशा और रागों को बढ़ा कर दुःख देते फिरते हैं। जब आंख के अंधे और गांठ के पूरे उन दुर्बुद्धि पापी स्वार्थियों के पास जा कर पूछते हैं कि "महाराज ! इस लड़का, लड़की, स्त्री और पुरुष को न जाने क्या हो गया है ? तब वे बोलते हैं कि "इस के शरीर में बड़ा भूत प्रेत भैरव शीतला आदि देवी आगई है जब तक तुम इस का उपाय न करागे तब तक ये न छूटेंगे और प्राण भी ले लेंगे। जो तुम मलौदा वा इतनी भेंट दो तो हम मन्त्र जप पुरस्करण से भाड़ के इन को निकाल दे"। तब वे अंधे और उन के सम्बन्धी बोलते हैं कि "महाराज ! चाहे हमारा सर्वस्व जाओ परन्तु इन को अच्छा कर दीजिये"। तब तो उन की बन्न पड़ती है। वे धूर्त कहते हैं "अच्छा लाओ इतनी सामग्री, इतनी दक्षिणा देवता को भेंट और ग्रहदान कराओ"। आंभ, मृदङ्ग, डोल, थाली, लेके उस के सामने बजाते गाते और उन में से एक पाखण्डी उल्लास हो के नाच कूद के कहता है "मैं इस का प्राण ही ले लूंगा" तब वे अंधे उस भङ्गी चमार आदि नीच के पंगों में पड़ के कहते हैं "आप चाहे सो लीजिये इस को बचाइये" तब वह धूर्त बोलता है "मैं हनुमान् हूँ" लाओ पक्की मिठाई तेल, सिन्दूर, सवामन का रोट और लाल लंगोट, "मैं देवी वा भैरव हूँ" लाओ पांच बोटल मद्य बीस मुर्गी, पांच बकरे, मिठाई और वस्त्र" जब वे कहते हैं कि "जो चाहो सो लो" तब तो वह पागल बहुत नाचने कूदने लगता है परन्तु जो कोई बुद्धिमान् उन की भेंट "पांच जूता, दंडा वा चपेटा, लाते" मारि तो उस के हनुमान् देवी और भैरव भट प्रसन्न होकर भाग जाते हैं। क्योंकि वह उन का केवल धनादि हरण करने को प्रयोजनार्थ दोग है ॥

और जब किसी ग्रहग्रस्त ग्रहरूप ज्योतिर्विदाभास के पास जा के वे कहते हैं "हे महाराज ! इस को क्या है ?" तब वे कहते हैं कि "इस पर सूर्यादि क्रूर ग्रह चढ़े हैं। जो तुम इन की शान्ति पाठ, पूजा, दान, कराओ तो इस को सुख ही जाय नहीं तो बहुत पीड़ित हो कर मर जाय तो भी आश्चर्य नहीं"। (उत्तर) कहिये ज्योतिर्वित् जैसी यह पृथिवी जड़ है वैसे ही सूर्यादिलोक हैं वे ताप और प्रकाशादि से भिन्न कुछ भी नहीं कर सकते क्या ये चेतन हैं जो क्रोधित हो के दुःख और शान्त होके सुख दे सकें? (प्रश्न) क्या जो यह संसार में राजा प्रजासुखी दुःखी हो रहे हैं यह ग्रहों का फल नहीं है ? (उत्तर०) नहीं ये सब पाप पुण्यों के फल हैं। (प्रश्न) तो क्या ज्योतिःशास्त्र झूठा है ? (उत्तर०) नहीं, जो उसमें

के सन्तान विद्वान् सभ्य और सुशिक्षित होते हैं जो पढ़ाने में सन्तानों का लाड़न कभी नहीं करते किन्तु ताड़ना ही करते रहते हैं इस में व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण है:—

सामृतैः पाणिभिर्घ्नन्ति गुरवो न विषोचितैः ।

लालनाश्रयिणो दोषास्ताडनाश्रयिणो गुणाः ॥अ०८।१।८

अर्थ—जो माता, पिता और आचार्य सन्तान और शिष्यों का ताड़न करते हैं वे जानो अपने सन्तान और शिष्यों को अपने हाथ से अमृत पिला रहे हैं । और जो सन्तानों वा शिष्यों का लाड़न करते हैं वे अपने सन्तानों और शिष्यों को विष पिला के नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं । क्योंकि लाड़न से सन्तान और शिष्य दोष युक्त तथा ताड़ना से गुण युक्त होते हैं और सन्तान और शिष्य लोग भी ताड़ना से प्रसन्न और लाड़न से अप्रसन्न सदा रहा करें । परन्तु माता, पिता तथा अध्यापक लोग ईर्ष्या, द्वेष से ताड़न न करें किन्तु ऊपर से भय प्रदान और भीतर से कृपादृष्टि रखें । जैसी अन्य शिक्षा की वैसी चोरी, जारी, आलस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य, मिथ्या भाषण, हिंसा, क्रूरता, ईर्ष्या, द्वेष, मोह आदि दोषों के छोड़ने और सत्याचार के ग्रहण करने की शिक्षा करें । क्योंकि जिस पुरुष ने जिस के सामने एक बार चोरी, जारी, मिथ्याभाषणादि, कर्म किया उस की प्रतिष्ठा उस के सामने मृत्युपर्यन्त नहीं होती । जैसी हानि प्रतिज्ञा मिथ्या करने वाली की होती है वैसी अन्य किसी की नहीं । इस से जिस के साथ जैसी प्रतिज्ञा करनी उस के साथ वैसी ही पूरी करनी चाहिये अर्थात् जैसे किसी ने किसी से कहा कि "मैं तुम को वा तुम मुझ से असुक समय में मिलूंगा वा मिलना अथवा असुक वस्तु असुक समय में तुम को मैं दूंगा" इस को वैसे ही पूरी करे नहीं तो उस की प्रतीति कोई भी न करेगा इस लिये सदा सत्यभाषण, और सत्यप्रतिज्ञा युक्त सब को होना चाहिये । किसी को अभिमान न करना चाहिये कल कपट वा कृतघ्नता से अपना ही हृदय दुःखित होता है तो दूसरे की क्या कथा कहनी चाहिये । कल और कपट उस को कहते हैं जो भीतर और बाहर और रख दूसरे को मोह में डाल और दूसरे की हानि पर ध्यान न देकर स्वप्रयोजन सिद्ध करना "कृतघ्नता" उस को कहते हैं कि किसी के किये हुए उपकार को न मानना । क्रोधादि दोष और कटुवचन को छोड़ शान्त और मधुर वचन ही बोले और बहुत बकवास न करे । जितना बोलना चाहिये उस से न्यून वा अधिक न बोले । बड़ों को मान्य दे उन के सामने उठ कर जाके उच्चासन

अब रह गईं शीतला और मंत्र, तंत्र यंत्र आदि ये भी ऐसे ही ढोंग मन्त्र हैं कोई कहता है कि "जो मंत्र पढ़ के डोरा वा यंत्र बना देवे" तो हमारे देव और पौर उस मंत्र यंत्र के प्रताप से उस को कोई विघ्न नहीं होने देते" उन वही उत्तर देना चाहिये कि क्या तुम मृत्यु परमेश्वर के नियम और कर्मफल भी बचा सकोगे ? तुम्हारे इस प्रकार करने से भी कितने ही लड़के मर जाते तुम्हारे घर में भी मर जाते हैं और क्या तुम मरण से बच सकोगे ? तब वे भी नहीं कह सकते और वे धूर्त जान लेते हैं कि यहां हमारी दाल नहीं गयी। इस से इन सब मिथ्या व्यवहारों को छोड़ कर धार्मिक सब देश के उपवर्कत्वा निष्कपटता से सब को विद्या पढ़ाने वाले उत्तम विद्वान् लोगों का प्रत्युत्कार करना जैसा वे जगत् का उपकार करते हैं इस काम को कभी न छोड़ चाहिये । और जितनी लीला रसायन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आ करना कहते हैं उन को भी महापापमर समझना चाहिये इत्यादि मिथ्या वा का उपदेश वाल्यावस्था ही में सन्तानों के हृदय में डाल दें कि जिस से स्वन्तान किसी के भ्रमजाल में पड़ के दुःख न पावे और वीर्य की रक्षा में आन और नाश करने में दुःख प्राप्ति भी जना देनी चाहिये । जैसे "देखो जिस शरीर में सुरक्षित वीर्य रहता है तब उस को आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के बहुत सुख की प्राप्ति होती है । इस के रक्षण में यही रीति है कि विष की कथा, विषयिलोगों का संग, विषयों का ध्यान, स्त्री का दर्शन, एकान्त सेव संभाषण और स्पर्श आदि कर्म से ब्रह्मचारी लोग पृथक् रह कर उत्तम शिक्ष और पूर्ण विद्या को प्राप्त होवे । जिस के शरीर में वीर्य नहीं होता वह नपुंस महाकुलक्षणी और जिस को प्रमेह रोग होता है वह दुर्बल, निस्तेज, निर्बुद्धि उक्ताह; साहस, धैर्य, बल, पराक्रमादि गुणों से रहित हो कर नष्ट हो जाते हैं । जो तुम लोग सुशिक्षा और विद्या के ग्रहण वीर्य की रक्षा करने में इस समय चूकीं तो पुनः इस जन्म में तुम को यह अमूल्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा । जब तक हम लोग गृह कर्मों के करने वाले जाते हैं तभी तक तुम को विद्या ग्रहण और शरीर का बल बढ़ाना चाहिये" इसी प्रकार की अन्य शिक्ष भी माता और पिता करें इस लिये "मातृमान् पितृमान्" शब्द का ग्रहण उ वचन में किया है अर्थात् जन्म से ५ वें वर्ष तक बालकों को माता ६ वें वर्ष से ८ वें वर्ष तक पिता शिक्षा करे और ९ वें वर्ष के आरम्भ में द्विज अपने सन्तानों को उपनयन करके आचार्यकुल में अर्थात् जहां पूर्ण विद्वान् और पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा और विद्यादान करने वाली हैं वहां लड़के और लड़कियों को भेज दें । और शूद्रादि वर्ण उपनयन किये विना विद्याभ्यास के लिये गुरुकुल में भेज दें । उन्हें

सभा में वैसे तिरस्कृत और कुशोभित होते हैं जैसे-हंसीं के बीच में बगुना। यही माता, पिता का कर्त्तव्य कर्म परम धर्म और कौर्त्ति का काम है जो अपने सन्तानों को तन, मन, धन से विद्याधर्म सभ्यता और उत्तम शिक्षायुक्त करना। यह बालशिक्षा में छोड़ा सा लिखा इतने ही से बुद्धिमान् लोग बहुत समझ लेंगे॥

इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविभूषिते बालशिक्षाविषये द्वितीयः

समुद्घासः सम्पूर्णः ॥ २ ॥

पर बैठावे प्रथम "नमस्ते" करें उनके सामने उत्तमासन पर न बैठे सभा में वैसे स्थान में बैठे जैसी अपनी योग्यता हो और दूसरा कोई न उठावे विरोध किसी से न करे संपन्न होकर गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग रखे। सज्जनों का संग और दुष्टों का त्याग अपने माता, पिता और आचार्य की तन मन और धनादि उत्तम २ पदार्थों से प्रीति पूर्वक सेवा करे।

यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि

यह तैत्ति० प्रपा०७ अलु०११ का वचन है इस का यह अभिप्राय है कि माता पिता आचार्य अपने सन्तान और शिष्यों को सदा सत्य उपदेश करें और यह भी कहें कि जो २ हमारे धर्मयुक्त कर्म हैं उन २ का ग्रहण करो और जो २ दुष्ट कर्म हैं उनका त्याग कर दिया करो जो २ सत्य जानें उन २ का प्रकाश और प्रचार करें। किसी पाखंडी दुष्टाचारी मनुष्य पर विश्वास न करें और जिस २ उत्तम कर्म के लिये माता पिता और आचार्य आज्ञा देवें उस का २ यथेष्ट पालन करें जैसे माता पिता ने धर्म विद्या अच्छे आचरण के श्लोक "निघण्टु" "निरुक्त" "अष्टाध्यायी" अथवा अन्य सूत्र वा वेदमंत्र कंठस्थ कराये हैं उन २ का पुनः अर्थ विद्यार्थियों को विदित करावे जैसे प्रथम समुत्सास में परमेश्वर का व्याख्यान किया है उसी प्रकार मान के उस की उपासना करें जिस प्रकार आरोग्य विद्या और बल प्राप्त हो उसी प्रकार भोजन छादन और व्यवहार करें करावे अर्थात् जितनी क्षुधा हो उस से कुछ न्यून भोजन करें मद्य मांसादि के सेवन से अलग रहें अज्ञात गंभीर जल में प्रवेश न करें क्योंकि जल जन्तु वा किसी पदार्थ से दुःख और जो तरना न जाने तो डूब ही जा सकता है "नाविज्ञाते जलाशये" यह मनु का वचन है अविज्ञात जलाशय में प्रविष्ट हो के स्नानादि न करें ॥

दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् ।

सत्यपूतां वदेद्वाचं मनः पूतं समाचरेत् ॥ मनु० अ० ६।४६ ॥

अर्थ—नीचे दृष्टि कर जंचे नीचे स्थान को देख के चले वस्त्र से छान के जल पीवे सत्य से पवित्र कर के वचन बोले मन से विचार के आचरण करे।

माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः ।

न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यथा ॥

यह चाणक्यनीति में किसी कवि का वचन है वे माता और पिता अपने सन्तानों के पूर्ण वैरी हैं जिन्होंने उन को विद्या की प्राप्ति न कराई वे विद्वानों की

लड़का और पुरुषोंकी पाठशाला में पांच वर्ष की लड़की भी न जाने पावे । अर्थात् जब तक वे ब्रह्मचारी वा ब्रह्मचारिणी रहें तबतक स्त्री वा पुरुष का दर्शन, स्पर्शन, एकान्तसेवन, भाषण, विषयकथा, परस्परक्रीड़ा, विषय का ध्यान और सङ्ग इन आठ प्रकार के मैथुनों से अलग रहें । और अध्यापक लोग उन को इन बातों से बचावें जिस से उत्तम विद्या शिक्षा शील स्वभाव शरीर और आत्मा के बल युक्त होके आनन्द को नित्य बढ़ा सकें । पाठशालाओं से एक योजना अर्थात् चार कोश दूर ग्राम वा नगर रहै । सब को तुल्य वस्त्र, खान, पान, आसन, दिये जाय चाहे वह राजकुमार वा राजकुमारी ही चाहे दरिद्र के सन्तान ही सब को तपस्वी होना चाहिये । उन के माता पिता अपने सन्तानों से वा सन्तान अपने माता पिताओं से न मिल सकें और न किसी प्रकार का पत्रव्यवहार एक दूसरे से कर सकें जिस से संसारी चिन्ता से रहित हो कर केवल विद्या बढ़ाने की चिन्ता रखें । जब भ्रमण करने को जावें तब उन के साथ अध्यापक रहें जिस से किसी प्रकार की कुचेष्टा न कर सकें और न आलस्य प्रमाद करें ॥

कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम् ॥

मनु० अ० ७ श्लोक १५२ ॥

इस का अभिप्राय यह है कि इस में राजनियम और जातिनियम होना चाहिये कि पांचवें वा आठवें वर्ष से आगे कोई अपने लड़कों और लड़कियों को घर में न रख सके । पाठशाला में अवश्य भोज देवे जो न भोजे वह दण्डनीय हो प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत घर में ही और दूसरा पाठशाला में आचार्यकुल में हो । पिता माता वा अध्यापक अपने लड़का लड़कियों को अर्थसहित गायत्री मन्त्र का उपदेश कर दें वह मन्त्रः—

ओ३म् भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ।

धियो योनः प्रचोदयात् ॥ यजु० । अ० ३६ । मं० ३ ॥

इस मन्त्र में जो प्रथम (ओ३म्) है उस का अर्थ प्रथम समुल्लास में कर दिया है वहीं से जान लेना । अब तीन महाव्याहृतियों के अर्थ संक्षेप से लिखते हैं “भूरिति वै प्राणः” “ग्रः प्राणयति चराचरं जगत् स भूः स्वयम्भूरीश्वरः” जो सब जगत् के जीवन का आधार प्राण से भी प्रिय और स्वयम्भू है उस प्राण का वाचक हो के “भूः” परमेश्वर का नाम है “भुवरित्यपानः” “यः सर्वं दुःखमपानयति सोऽपानः” । जो सब दुःखों से रहित जिस के सङ्ग से जीव सब दुःखों से छूट

अथ तृतीयसमुल्लासार्म्भः ॥

—:०:०:०:०:०:०:०:०:०:०:०:०:—

अथाऽध्ययनाध्यापनविधिं व्याख्यास्यामः ॥

अब तीसरे समुल्लास में पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं। सन्तानों को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म और स्वभाव, रूप, आभूषणों का धारण कराना माता, पिता, आचार्य और सख्तियों का मुख्य कर्म है। सोने, चांदी, माणिक्य मोती मूङ्गा आदि रत्नों से युक्त आभूषणों के धारण कराने से मनुष्य का आत्मा सुभूषित कभी नहीं हो सकता। क्योंकि आभूषणों के धारण करने से केवल देहाभिमान विषयासक्ति और चोर आदि का भय तथा मृत्यु का भी सम्भव है। संसार में देखने में आता है कि आभूषणों के योग से बालकादिकों का मृत्यु दुष्टों के हाथ से होता है ॥

विद्याविलासमनसो धृतशीलिशिक्षाः

सत्यव्रता रहितमानमलापहाराः ।

संसारदुःखदलनेन सुभूषिता ये

धन्या नरा विहितकर्मपरोपकाराः ॥

जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता, सुन्दरशील स्वभावयुक्त सत्यभावणादि नियम पालन युक्त और जो अभिमान, अपवित्रता से रहित, अन्य मलीनता के नाशक, सत्योपदेश विद्यादान से संसारी जनों के दुःखों के दूर करने से सुभूषित वेदविहित कर्मों से पराये उपकार करने में रहते हैं, वे नर और नारी धन्य हैं। इस लिये आठ वर्ष के ही तभी लड़कों को लड़कों की और लड़कियों को लड़कियों की पाठशाला में भेज दें। जो अध्यापक पुरुष वा स्त्री दुष्टाचारी हों उन से शिक्षा न दिलावे, किन्तु जो पूर्ण विद्यायुक्त धार्मिक हों वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने योग्य हैं। द्विज अपने घर में लड़कों का यज्ञोपवीत और कन्याओं का भी यथायोग्य संस्कार करके यद्योक्त आचार्यकुल अर्थात् अपनी पाठशाला में भेज दें विद्यापढ़ने का स्थान एकान्त देश में होना चाहिये और वे लड़के और लड़कियों की पाठशाला दो कोश एक दूसरे से दूर होनी चाहिये जो वहाँ अध्यापिका और अध्यापक पुरुष वा भृत्य अनुचर ही वे कन्याओं की पाठशाला में सब स्त्री और पुरुषों की पाठशाला में पुरुष रहें। स्त्रियों की पाठशाला में पांच वर्ष का

अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति ।

विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति ॥ अ० ५।१०९।

यह मनुस्मृति का श्लोक है । जल से शरीर के बाहर के अवयव, सत्याचरण से मन विद्या और तप अर्थात् सब प्रकार के कष्ट भी सह के धर्म ही के अनुष्ठान करने से जीवात्मा, ज्ञान अर्थात् पृथिवी से ले के परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के विवेक से बुद्धि दृढ़ निश्चय पवित्र होती है। इस से ज्ञान भोजन के पूर्व अवश्य करना दूसरा प्राणायाम इस में प्रमाणः—

योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः ।

साधनपादे सू० २८

यह योगशास्त्र का सूत्र है जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है जब तक मुक्ति न हो तब तक उस के आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है ॥

दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः ।

तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् ॥ अ० ६।७१।


यह मनुस्मृति का श्लोक है—जैसे अग्नि में तपाने से सुवर्णादि धातुओं का मल नष्ट हो कर शुद्ध होते हैं वैसे प्राणायाम करके मन आदि इन्द्रियों के दोष क्षीण हो कर निर्मल हो जाते हैं । प्राणायाम की विधिः—

प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ समाधिपादे सू० ३४॥

योग सूत्र । जैसे अत्यन्त वेग से वमन हो कर अन्न जल बाहर निकल जाता है वैसे प्राण को बल से बाहर फेंक के बाहर ही यथाशक्ति रोक देवे जब बाहर निकालना चाहे तब मूलेन्द्रिय को जपर खींच रखे तब तक प्राण बाहर रहता है । इसी प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सकता है जब घबराहट हो तब धीरे २ भीतर वायु को ले के फिर भी वैसे ही करता जाय जितना सामर्थ्य और इच्छा हो । और मन में (ओ३म्) इस का जप करता जाय इस प्रकार करने से आत्मा और मन को पवित्रता और स्थिरता होती है। एक "बाह्यविषय" अर्थात् बाहर ही अधिक रोकना । दूसरा "आभ्यन्तर" अर्थात् भीतर जितना प्राण रोक जाय उतना रोक के। तीसरा "स्तम्भस्ति" अर्थात् एक ही वार जहाँ का तहाँ प्राण को यथाशक्ति रोक देना । चौथा "बाह्यभ्यन्तराक्षेपी" अर्थात् जब प्राण भीतर से बाहर निकलने लगे तब उस से विरुद्ध उस को न निकलने देने के लिये बाहर से

जाते हैं इस लिये उस परमेश्वर का नाम "भुवः" है "स्वरितिव्यानः" "ये विविधं जगत् व्यानयति व्याप्नोति स व्यानः"। जो नानाविध जगत् में व्यापक होके सब का धारण करता है इस लिये उस परमेश्वर का नाम "स्वः" है। ये तीनों वचन तैत्तिरीय आरण्यक के हैं (सवितुः) "यः सुनोत्युत्पादयति सर्वं जगत् स सविता (तस्य) जो सब जगत् का उत्पादक और सब ऐश्वर्य का दाता है (देवस्य) "यो दीव्यति दीव्यते वा स देवः"। जो सर्व सुखों का देने हारा और जिस की प्राप्ति की कामना सब करते हैं उस परमात्मा का जो (वरेण्यम्) "वस्तुमर्हम्" स्वीकार करने योग्य अतिश्रेष्ठ (भर्गः) "शुद्धस्वरूपम्"। शुद्ध स्वरूप और पवित्र करने वाला चेतन ब्रह्म स्वरूप है (तत्) उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग (धीमहि) "धरेमहि"। धारण करें किस प्रयोजन के लिये कि (यः) "जगदीश्वरः" जो सविता देव परमात्मा (नः) "अस्माकम्" हमारी (धियः) "बुद्धीः" बुद्धियों को (प्रचोदयात्) "प्रेरयेत्"। प्रेरणा करे अर्थात् बुरे कामों से कुड़ा कर अच्छे कामों में प्रवृत्त करे "हे परमेश्वर ! हे सच्चिदानन्दस्वरूप ! हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव ! हे अज निरञ्जन निर्विकार ! हे सर्वान्तर्यामिन् ! हे सर्वाधार ! जगत्पते ! सकल-जगदुत्पादक ! हे अनादे ! विश्वम्भर ! सर्वव्यापिन् ! हे करुणामृतवारिधे ! "सवितुर्देवस्य तव यदां भूर्भुवः स्वर्वरेण्यं भर्गोस्ति तद्वयं धीमहि दधीमहि धरेमहि ध्यायेम वा कस्मै प्रयोजनायेत्यत्राह हे ! भगवन् यः सविता देवः परमेश्वरो भवानस्माकं धियः प्रचोदयात् स एवास्माकं पूज्य उपासनीय इष्टदेवो भवतु नातोन्म्यं भवत्तुल्यं भवतोधिकं च कश्चित् कदाचिन् मन्यामहे" हे मनुष्यो जो सब समर्थों में समर्थ, सच्चिदानन्दान्तस्वरूप नित्यशुद्ध, नित्यबुद्ध, नित्यमुक्त स्वभाव वाला, कृपासागर ठीक २ न्याय का करने हारा, जन्ममरणादि क्लेशरहित आकाररहित सब के घट २ की जानने वाला, सब का धर्मा पिता उत्पादक अन्नादि से विश्व का पोषण करने हारा सकलऐश्वर्ययुक्त जगत् का निर्माता, शुद्धस्वरूप और जो प्राप्ति की कामना करने योग्य है उस परमात्मा का जो शुद्ध चेतनस्वरूप है उसी को हम धारण करें। इस प्रयोजन के लिये कि वह परमेश्वर हमारे आत्मा और बुद्धियों का अन्तर्यामी स्वरूप हम को दुष्टाचार अधर्मयुक्त मार्ग से हटा के श्रेष्ठाचार सत्यमार्ग में चलावे उस को छोड़ कर दूसरे किसी वस्तु का ध्यान हमलोग नहीं करें। क्योंकि न कोई उस के तुल्य और न अधिक है वही हमारा पिता राजा न्यायाधीश और सब सुखों का देने हारा है ॥

इस प्रकार गायत्री मन्त्र का उपदेश करके संध्योपासन की जो स्नान आचमन प्राणायाम आदि क्रिया हैं शिखलावे। प्रथम स्नान इस लिये है कि जिस से शरीर के बाह्य अवयवों की शुद्धि और आरोग्य आदि होते हैं। इस में प्रमाणः—



अर्थात् ऊपर जितनी चौड़ी हो उस की चतुर्थांश नीचे चौड़ी रहे । उस में चन्दन पलाश वा आम्नादि के अष्ट काष्ठों के टुकड़े उसी वेदी के परिमाण से बड़े छोटे करके उस में रखे उस के मध्य में अग्नि रख के पुनः उस पर समिधा अर्थात् पूर्वोक्त इन्धन रख दे । एक प्रोक्षणी-पात्र ऐसा और तीसरा प्रक्षीतापात्र इस प्रकार

का और एक इस प्रकार की आज्यस्थाली अर्थात् घृत रखने का पात्र ।

और चमसा ऐसा सोने चांदी वा काष्ठ का बनवा के प्रक्षीता और प्रोक्षणी में जल तथा घृतपात्र में घृत रख के घृत को तपा लेवे प्रक्षीता जल रखने और प्रोक्षणी इस लिये है कि उस से हाथ धोने को जल लेना सुगम है । पश्चात् उस घी को अच्छे प्रकार देख लेवे फिर मंत्रों से होम करे ॥

ओं भूर्भुवः प्रोक्षणी स्वाहा । भुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा ।
स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा । भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः
प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥

इत्यादि अग्निहोत के प्रत्येक मंत्र को पढ़ कर एक २ आहुति देवे । और जो अधिक आहुति देना हो तो:—

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । यद्भद्रं तन्न
आसुव ॥ यजु० अ० ३० । ३ ।

इस मंत्र और पूर्वोक्त गायत्री मंत्र से आहुति देवे “ओं” “भूः” और “प्राणः” आदि ये सब नाम परमेश्वर के हैं इन के अर्थ कह चुके हैं “स्वाहा” शब्द का अर्थ यह है कि जैसा ज्ञान आत्मा में हो वैसा ही जीभ से बोले विपरीत नहीं जैसे परमेश्वर ने सब प्राणियों के सुख के अर्थ इस सब जगत् के पदार्थ रचे हैं वैसे मनुष्यों को भी परोपकार करना चाहिये ॥

(प्रश्न) होम से क्या उपकार होता है ? (उत्तर) सब लोग जानते हैं कि दुर्गन्धयुक्त वायु और जल से रोग रोग से प्राणियों को दुःख और सुगन्धित वायु तथा जल से आरोग्य और रोग के नष्ट होने से सुख प्राप्त होता है । (प्रश्न) चन्दनादि घिस के किसी को लगावे या घृतादि खाने को देवे तो बड़ा उपकार

भीतर ले और जब बाहर से भीतर आने लगे तब भीतर से बाहर की ओर प्राण को धका देकर रोकता जाय। ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया करें तो दोनों की गति रुक कर प्राण अपने बग में होने से मन और इन्द्रिय भी स्वाधीन होते हैं। पुकषार्थ बड़ कर बुद्धि तीव्र सूक्ष्म रूप हो जाती है कि जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती है। इस से मनुष्य के शरीर में वीर्य्य बुद्धि को प्राप्त हो कर स्थिर बल पराक्रम जितेन्द्रियता सब शास्त्रों को छोड़े ही काल में समझ कर उपस्थित कर लेगा स्त्री भी इसी प्रकार योगाभ्यास करे। भोजन, छादन, बैठने, उठने, बोलने, चालने, बड़े छोटे सेवधायोग्य व्यवहार करने का उपदेश करें। सन्ध्योपासन। जिस को ब्रह्मयज्ञ भी कहते हैं। “आचमन” उतने जल को हथेली में लेके उस के भ्रूल और मध्यदेश में ओष्ठ लगा के करे कि वह जल कांठ के नीचे हृदय तक पहुंचे न उस से अधिक न न्यून। उस से कांठस्थ कफ और पित्त की निवृत्ति शोड़ी सौ होती है पश्चात् “मार्जन”। अर्थात् मध्यमा और अनामिका अंगुली के अग्रभाग से नेत्रादि अङ्गों पर जल छिड़ के उस से आलस्य दूर होता है जो आलस्य और जल प्राप्त न हो तो न करे। पुनः समंतक प्राणायाम, मनसा परिक्रमण, उपस्थान पीछे परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना की रीति शिखलावे। पश्चात् “अधमर्षण” अर्थात् पाप करने की इच्छा भी कभी न करे यह सन्ध्योपासन एकान्तदेश में एकाग्रचित्त से करे।

अपां समीपे नियतो नैत्यिकं विधिमास्थितः ।

सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः ॥

मनु० अ० २ । १०४ ॥

यह मनुस्मृति का वचन है—जंगल में अर्थात् एकान्तदेश में जा सावधान होके जल के समीप स्थित होके नित्य कर्म को करता हुआ सावित्री अर्थात् गायत्री मंत्र का उच्चारण अर्थज्ञान और उस के अनुसार अपने चाल चलन को करे परन्तु यह जन्म से करना उत्तम है। दूसरा देव यज्ञ। जो अग्निहोत और विद्वानों का संग सेवादिक से होता है। सन्ध्या और अग्निहोत सावं प्रातः दो ही काल में करे दोही रात दिन की संधिवेला हैं अन्य नहीं न्यून से न्यून एक घण्टा ध्यान अवश्य करे जैसे समाधिस्थ हो कर योगी लोभ परमात्मा का ध्यान करते हैं वैसे ही सन्ध्योपासन भी क्रिया करे ॥

तथा सूर्योदय के पश्चात् और सूर्यास्त के पूर्व अग्निहोत्र करने का भी समय है उस के लिये एक किसी धातू वा मट्टी की ऊपर १२ वा १६ अङ्गुल चौकोन उतनी ही गहिरा और नीचे ३ वा चार अङ्गुल परिमाण से वेदी इस प्रकार बनावे

से लेके अश्वमेध पर्यन्त यज्ञ और विधानों की सेवा संग करना परन्तु ब्रह्मचर्य में केवल ब्रह्मयज्ञ और अग्निहोत्र का ही करना होता है ॥

ब्राह्मणस्त्रयाणां वर्णानामुपनयनं कर्तुमर्हति
राजन्यो ह्यस्य वैश्यो वैश्यस्यैवेति । शूद्रमपि
कुलगुणसंपन्नं मन्त्रवर्जमनुपनीतमध्यापयेदित्येके ॥

यह सुश्रुत के सूत्रस्थान के दूसरे अध्याय का वचन है ॥ ब्राह्मण तीनों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, क्षत्रिय क्षत्रिय और वैश्य तथा वैश्य एक वैश्य वर्ण का यज्ञोपवीत करा के पढ़ा सकता है । और जो कुलीन शुभलक्षणयुक्त शूद्र हो तो उस को मन्त्रसंहिता छोड़ के सब शास्त्र पढ़ावे शूद्र पढ़े परन्तु उस का उपनयन न करे यह मत अनेक आचार्यों का है । पश्चात् पाँचवें वा आठवें वर्ष से लड़के लड़की की पाठशाला में और लड़की लड़कियों की पाठशाला में जावे । और निम्नलिखित नियमपूर्वक अध्ययन का आरम्भ करे ॥

षट्त्रिंशदाब्दिकं चर्य्य गुरौ त्रैवेदिकं व्रतम् ।

तदार्थिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ मनुः ॥

अ० ३ । १ ॥

अर्थ—आठवें वर्ष से आगे छत्तीसवें वर्ष पर्यन्त अर्थात् एक २ वेद के साङ्गोपाङ्ग पढ़ने में बारह २ वर्ष मिला के छत्तीस और आठ मिला के चत्तीस अथवा अठारह वर्षों का ब्रह्मचर्य और आठ पूर्व के मिला के छत्तीस वा नौ वर्ष तथा जब तक विद्या पूरी ग्रहण न कर लेवे तब तक ब्रह्मचर्य रखे ॥

पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य आनि चतुर्विंशतिवर्षाणि तत्प्रा-
तः सवनं चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातःसवनं तद-
स्य वसवोऽन्वाचताः प्राणा वाव वसव एते हीदः सर्वे
वासयन्ति ॥ १ ॥

तश्चेदेतस्मिन् वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा वसव
इदं मे प्रातःसवनं माध्याह्निकं सवनमनुसंतनुतेति माहं
प्राणानां वसूनां मध्ये अज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्य गृहो
ह भवति ॥ २ ॥

हो अग्नि में डाल के व्यर्थ नष्ट करना बुद्धिमानों का काम नहीं। (उत्तर) जो तुम पदार्थविद्या जानते तो कभी ऐसी बात न कहते क्योंकि किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता। देखो जहां होम होता है वहां से दूर देश में स्थित पुरुष के नासिका से सुगन्ध का ग्रहण होता है जैसे दुर्गंध का भी ! इतने ही से समझ लो कि अग्नि में डाला हुआ पदार्थ सूक्ष्म होके फैल के वायु के साथ दूर देश में जा कर दुर्गंध की निवृत्ति करता है (प्रश्न) जब ऐसा ही है तो केशर कस्तूरी सुगंधित पुष्प और अतर आदि के घर में रखने से सुगंधित वायु हो कर सुखकारक होगा (उत्तर) उस सुगन्ध का वह सामर्थ्य नहीं है कि गृहस्थ वायु को बाहर निकाल कर शुद्ध वायु को प्रवेश करा सके क्योंकि उस में भेदकशक्ति नहीं है और अग्नि ही का सामर्थ्य है कि उस वायु और दुर्गन्धयुक्त पदार्थों को क्लिन्न भिन्न और हलका करके बाहर निकाल कर पवित्र वायु का प्रवेश कर देता है (प्रश्न) तो मन्थ पट्ट के होम करने का क्या प्रयोजन है? (उत्तर) मन्थों में वह व्याख्यान है कि जिस से होम करने के लाभ विदित हो जायें और मन्थों की आहुति होने से कण्ठस्थ रहें वेदपुस्तकों का पठन पाठन और रक्षा भी होवे। (प्रश्न) क्या इस होम करने के बिना पाप होता है? (उत्तर) हां क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुर्गन्ध उत्पन्न हो के वायु और जल को विगाड़ कर रोगोत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों को दुःख प्राप्त करता है उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है। इस लिये उस पाप के निवारणार्थ उतना सुगन्ध वा उस से अधिक वायु और जल में फैलाना चाहिये। और खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति को सुख विशेष होता है जितना घृत और सुगंधादि पदार्थ एक मनुष्य खाता है उतने द्रव्य के होम से लाखों मनुष्यों का उपकार होता है परंतु जो मनुष्य लोग घृतादि उत्तम पदार्थ न खावे तो उन के शरीर और आत्मा के बल की उत्पत्ति न हो सके इस से अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिये परन्तु उस से होम अधिक करना उचित है इस लिये होम करना आवश्यक है। (प्रश्न) प्रत्येक मनुष्य कितनी आहुति करे और एक २ आहुति का कितना परिमाण है (उत्तर) प्रत्येक मनुष्य को सोलह २ आहुति और ऋः २ मासे घृतादि एक २ आहुति का परिमाण न्यून से न्यून चाहिये और जो इस से अधिक करे तो बहुत अच्छा है। इसी लिये आर्यवरशिरोमणि महाशय ऋषि महर्षि राजे महाराजे लोग बहुतसा होम करते और कराते थे जब तक होम करने का प्रचार रहा तब तक आर्यावर्त्तदेश रोगों से रहित और सुखों से पूरित था अब भी प्रचार है तो वैसा ही हो जाय। ये दो यज्ञ अर्थात् ब्रह्मयज्ञ जो पढ़ना पढ़ाना संध्यो-पासन ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना। दूसरा देवयज्ञ जो अग्निहोत

सुखों का विस्तार करा जो मैं ब्रह्मचर्य का लोप न करूं २४ वर्ष के पश्चात्
 गृहाश्रम करूंगा तो प्रसिद्ध है कि रोगरहित रहूंगा और आयु भी मेरी ७० वा
 ८० वर्ष तक रहेगी । मध्यम ब्रह्मचर्य यह है जो मनुष्य ४४ वर्षपर्यन्त ब्रह्मचारी
 रह कर वेदाभ्यास करता है उस के प्राण इन्द्रियां अन्तःकरण और आत्मा बल
 युक्त होके सब दुष्टों को रूदाने और श्रेष्ठों का पालन करने हारे होते हैं । जो
 मैं इसी प्रथम वय में जैसा आप कहते हैं कुछ तपस्वर्या करूं तो मेरे ये रुद्धरूप
 प्राणयुक्त यह मध्यम ब्रह्मचर्य सिद्ध होगा । हे ब्रह्मचारी लोगो तुम इस ब्रह्मचर्य
 को बढ़ाओ जैसे मैं इस ब्रह्मचर्य का लोप न करके यज्ञस्वरूप होता हूं और उसी
 आचार्य कुल से आता और रोगरहित होता हूं जैसा कि यह ब्रह्मचारी अच्छा
 काम करता है वैसा तुम किया करो ॥ ४ ॥ उत्तम ब्रह्मचर्य ४८ वर्ष पर्यन्त का
 तीसरे प्रकार का होता है । जैसे ४८ अक्षर की जगती वैसे जो ४८ वर्ष पर्यन्त
 यथावत् ब्रह्मचर्य करता है उस के प्राण अनुकूल होकर सकल विद्याओं का ग्रहण
 करते हैं ॥ ५ ॥

जो आचार्य और माता पिता अपने सन्तानों को प्रथम वय में विद्या और
 गुण ग्रहण के लिये तपस्वी कर और उसी का उपदेश करें और वे सन्तान आप
 ही आप अखंडित ब्रह्मचर्य सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्य का सेवन कर के पूर्ण
 अर्थात् चार सौ वर्ष पर्यन्त आयु को बढ़ावें वैसे तुम भी बढ़ाओ । क्योंकि जो
 मनुष्य इस ब्रह्मचर्य को प्राप्त होकर लोप नहीं करते वे सब प्रकार के रोगों से
 रहित होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥

चतस्रोऽवस्थाः शरीरस्य वृद्धिर्यौवनं संपूर्णता किंचित्प-
 रिहाणिरचेति । आप्तोऽष्टादशवृद्धिः । आप्तश्चविंशतियौवनम् ।
 आचत्वारिंशतः संपूर्णता । ततः किंचित्परिहाणिरचेति ॥
 पंचविंशो ततो वर्षे पुमान् नारी तु षोडशे ।
 समत्वागतवीर्यौ तौ जानीयात्कुशलो भिषक् ॥

यह सुश्रुत के सूत्र स्थान ३५ अध्याय का वचन है इस शरीर की चार अवस्था
 हैं एक (वृद्धि) जो १६ वें वर्ष से लेके २५ वें वर्ष-पर्यन्त सब धातुओं की बढ़ती
 होती है दूसरे (यौवन) जो २५ वें वर्ष के अन्त और २६ वें वर्ष के आदि में युवा-
 वस्था का आरम्भ होता है तीसरी (संपूर्णता) जो पच्चीसवें वर्ष से लेके चालीसवें
 वर्ष पर्यन्त सब धातुओं की पुष्टि होती है चौथी (किंचित्परिहाणि) जब सब

अथ यानि चतुश्चत्वारिंशद्दर्शाणि तन्माध्यंदिनं सवनं
चतुश्चत्वारिंशदक्षरा त्रिष्टुप् त्रैष्टुभं माध्यंदिनं सवनं
तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणा वाव रुद्रा एते हीदं सर्वं
रोदयन्ति ॥ ३ ॥

तं चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा रुद्रा
इदं मे माध्यंदिनं सवनं तृतीयसवनमनुसन्तनुतेति माहं
प्राणानां रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्य-
गदो ह भवति ॥ ४ ॥

अथ यान्यष्टाचत्वारिंशद्दर्शाणि तत्तृतीयसवनमष्टाच-
त्वारिंशदक्षरा जगती जागतं तृतीयसवनं तदस्यादित्या
अन्वायत्ताः प्राणा वावादित्या एते हीदं सर्वमाददते ॥५॥

तं चेदेतस्मिन् वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात् प्राणा
आदित्या इदं मे तृतीयसवनमायुरनुसं तनुतेति माहं प्रा-
णानामादित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्य-
गदो ह वै भवति ॥ ६ ॥

यह छान्दोग्योपनिषद् प्रपाठक ३ खण्ड १६ । का वचन है । ब्रह्मचर्य तीन प्रकार का होता है कनिष्ठ जो पुरुष अन्नरसमय देह और पुरि अर्थात् देह में ग्रहण करने वाला जीवात्मा यज्ञ अर्थात् अतीव शुभगुणों से सङ्गत और सत्कर्तव्य है इस को अवश्य है कि २४ वर्ष पर्यन्त जितेन्द्रिय अर्थात् ब्रह्मचारी रह कर वेदादिविद्या और सुशिक्षा का ग्रहण करे और विवाह करके भी लंपटता न करे तो उस के शरीर में प्राण बलवान् होकर सब शुभ गुणों के वास कराने वाले होते हैं । इस प्रथम वंश में जो उस को विद्याभ्यास में संतप्त करे और वह आचार्य्य वैसा ही उपदेश किया करे और ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय रखे कि जो मैं प्रथम अवस्था में ठीक २ ब्रह्मचारी रहूँगा तो मेरा शरीर और आत्मा आरोग्य बलवान् ही के शुभगुणों को बसाने वाले मेरे प्राण होंगे । हे मनुष्यो तुम इस प्रकार से

अग्नि और विद्युत् आदि को जान के पढ़ते पढ़ाते जायें और (अग्निहोत्रं०) अग्निहोत्र करते हुए पठन और पाठन करें करावें (अतिथियः०) अतिथियों की सेवा करते हुए पढ़ें और पढ़ावें (मातृषं०) मनुष्यसम्बन्धी व्यवहारों को यथा-योग्य करते हुए पढ़ते पढ़ाते रहें (प्रजा०) अर्थात् सन्तान और राज्य को पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें (प्रजन०) वीर्य की रक्षा और वृद्धि करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें (प्रजातिः०) अर्थात् अपने सन्तान और शिष्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें ॥

यमान् सेवेत सततं न नियमान् केवलान् बुधः ।

यमान्पतत्यकुर्वाणो नियमान् केवलान् भजन् ॥

मनु० अ० ४ । २०४ ॥

यम पांच प्रकार के होते हैं ॥

तत्राहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ।

योग० साधनपादेसूत्र ३० ॥

अर्थात् (अहिंसा) वैरत्याग (सत्य) सत्य मानना सत्य बोलना और सत्य ही करना (अस्तेय) अर्थात् मन वचन कर्म से चोरी त्याग (ब्रह्मचर्य) अर्थात् उपस्थेन्द्रिय का संयम (अपरिग्रह) अत्यन्त लोलुपता छोड़ स्वत्वाभिमान रहित होना इन पांच यमों का सेवन सदा करें केवल नियमों का सेवन अर्थात्:-

शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥

योग० साधनपाद सू० ३२ ।

(शौच) अर्थात् स्नानादि से पवित्रता (सन्तोष) सम्यक् प्रसन्न हो कर निरु-
द्यम रहना सन्तोष नहीं किन्तु पुरुषार्थ जितना हो सके उतना करना हानि
लाभ में हर्ष वा शोक न करना (तप) अर्थात् कष्ट सेवन से भी धर्मयुक्त कर्मों
का अनुष्ठान (स्वाध्याय) पढ़ना पढ़ाना (ईश्वर प्रणिधान) ईश्वर की भक्ति विशेष
से आत्मा को अर्पित रखना ये पांच नियम कहते हैं । यमों के विना केवल इन
नियमों का सेवन न करे किन्तु इन दोनों का सेवन किया करे जो यमों का सेवन
छोड़ के केवल नियमों का सेवन करता है वह उन्नति को नहीं प्राप्त होता किन्तु
अधोगति अर्थात् संसार में गिरा रहता है :-

सांगोपांग शरीरस्थ सकल धातु पुष्ट होके पूर्णता को प्राप्त होते हैं। तदनन्तर जो धातु बढ़ता है वह शरीर में नहीं रहता किन्तु खण्ड प्रस्रदादि द्वारा बाहर निकल जाता है वही ४० वां वर्ष उत्तम समय विवाह का है अर्थात् उत्तमोत्तम तो अड़तालीसवें वर्ष में विवाह करना। (प्रश्न) क्या यह ब्रह्मचर्य का नियम स्त्री वा पुरुष दोनों का तुल्य ही है? (उत्तर) नहीं जो २५ वर्ष पर्यन्त पुरुष ब्रह्मचर्य करे तो १६ सोलह वर्ष पर्यन्त कन्या जो पुरुष तीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचारी रहे तो स्त्री १७ वर्ष जो पुरुष छत्तीस वर्ष तक रहे तो स्त्री १८ वर्ष जो पुरुष ४० वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री २० वर्ष जो पुरुष ४४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री २२ वर्ष जो पुरुष ४८ वर्ष ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री २४ चौबीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य सेवन रखे अर्थात् ४८ वें वर्ष से आगे पुरुष और २४ वें वर्ष से आगे स्त्री को ब्रह्मचर्य न रखना चाहिये परन्तु यह नियम विवाह करने वाले पुरुष और स्त्रियों का है और जो विवाह करना ही न चाहें वे मरणपर्यन्त ब्रह्मचारी रहते ही तो भले ही रहें परन्तु यह काम पूर्णविद्या वाले जितेन्द्रिय और निर्दोष योगी स्त्री और पुरुष का है। यह बड़ा कठिन काम है कि जो काम के वेग को ग्राम के इन्द्रियों को आप वश में रखना।

ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने
च । तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । दमश्च स्वाध्यायप्रवचने
च । शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्रयश्च स्वाध्यायप्रवचने
च । अग्निहोत्रश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अतिथयश्च स्वाध्या-
यप्रवचने च । मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा च
स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा-
तिश्च स्वाध्यायप्रवचने च ॥

यह तैत्तिरीयोपनिषद् प्रपा० ७ । अनु० ६ । का वचन है—ये पढ़ने पढ़ाने वालों के नियम हैं। (ऋतं०) यथार्थ आचरण से पढ़ें और पढ़ावें (सत्यं०) सत्याचार से सत्यविद्याओं को पढ़ें पढ़ावें वा (तपः०) तपस्वी अर्थात् धर्मानुष्ठान करते हुए वेदादि शास्त्रों को पढ़ें और पढ़ावें (दमः०) बाह्य इन्द्रियों को बुरे आचरणों से रोक के पढ़ें और पढ़ाते जायें (शमः०) अर्थात् मन की दृष्टि को सब प्रकार के दोषों से हठा के पढ़ते पढ़ाते जायें (अग्रयः०) आहवनीयादि

अर्थ—जीवात्मा इन्द्रियों के वश होके निश्चित बड़े २ दोषों को प्राप्त होता है और जब इन्द्रियों को अपने वश में करता है तभी सिद्धि को प्राप्त होता है :-

वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च ।

न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित् ॥

मनु० २ । ९७ ॥

जो दुष्टाचारी अजितेन्द्रिय पुरुष है उस के वेद, त्याग, यज्ञ, नियम और तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को नहीं प्राप्त होते :-

वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यिके ।

नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चैवहि ॥ १ ॥

नैत्यिके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतम् ।

ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यमनध्यायवषट्कृतम् ॥ २ ॥

मनु० २ । १०५ । १०६ ॥

वेद के पढ़ने पढ़ाने संध्योपासनादि पंचमहायज्ञों के करने और होम मंत्रों में अनध्याय विषयक अनुरोध (आग्रह) नहीं है क्योंकि ॥ १ ॥ नित्य कर्म में अनध्याय नहीं होता जैसे खास प्रखास सदा लिये जाते हैं बन्ध नहीं किये जासकते वैसे नित्यकर्म प्रतिदिन करना चाहिये न किसी दिन छोड़ना क्योंकि अनध्याय में भी अग्निहोत्रादि उत्तम कर्म किया हुआ पुण्यरूप होता है जैसे झूठ बोलने में सदा पाप और सत्य बोलने में सदा पुण्य होता है वैसे ही बुरे कर्म करने में सदा अनध्याय और अच्छे कर्म करने में सदा स्वाध्याय ही होता है ॥

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः ।

चत्वारि तस्य वर्द्धन्त आयुर्विद्यायशोबलम् ॥

मनु० २ । १२१ ॥

जो सदा नम्र सुशील विद्वान् और बड़ों की सेवा करता है उस का आयु, विद्या, कीर्ति और बल ये चार सदा बढ़ते हैं और जो ऐसा नहीं करते उन के आयु आदि चार नहीं बढ़ते ॥

अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोनुशासनम् ।
 वाक् चैव मधुरा श्लक्ष्णा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥
 यस्य वाङ्मनसे शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सर्वदा ।
 स वै सर्वमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम् ॥ २ ॥

मनु० २ । १५९ । १६० ।

विद्वान् और विद्यार्थियों को योग्य है कि वैरबुद्धि छोड़ के सब मनुष्यों को कल्याण के मार्ग का उपदेश करे और उपदेशा सदा मधुर सुशीलतायुक्त वाणी बोलें जो धर्म की उन्नति चाहे वह सदा सत्य में चले और सत्य ही का उपदेश करे ॥ १ ॥ जिस मनुष्य के वाणी और मन शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं वही सब वेदान्त अर्थात् सब वेदों के सिद्धान्तरूप फल को प्राप्त होता है ॥

संमानाद्ब्राह्मणो नित्यमुद्दिजेत विषादिव ॥

अमृतस्यैव चाकांक्षेदवमानस्य सर्वदा ॥

मनु० २ । १६२ ॥

वही ब्राह्मण समय वेद और परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से विष के तुल्य सदा डरता है और अपमान की इच्छा अमृत के समान किया करता है ।

अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः जनैः ।

गुरौ वसन् संश्रिनुयाद्ब्रह्माधिगमिकं तपः ॥

मनु० २ । १६४ ॥

इसी प्रकार से कृतोपनयन द्विज ब्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या धीरे २ वेदार्थ के ज्ञानरूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जायें ॥

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् ।

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥

मनु० २ । १६८ ॥

जो वेद को न पढ़ के अन्यत्र श्रम किया करता है वह अपने पुत्रपौत्र सहित शूद्रत्व को शीघ्र ही प्राप्त ही जाता है ॥

चर्जयेन्मधुमांसञ्च गन्धं माल्यं रसान् स्त्रियः ।
 शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम् ॥१॥
 अभ्यङ्गमञ्जनं चाक्षोरूपानच्छत्रधारणम् ।
 कामं क्रोधं च लोभं च नर्तनं गीतवादनम् ॥ ३ ॥
 द्यूतं च जनवादं च परिवादं तथानृतम् ।
 स्त्रोणां च प्रेक्षणालम्भमुपघातं परस्य च ।
 एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्कचित् ।
 कामाद्धि स्कन्दयन्नेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः ॥ ४ ॥
 मनु० २ । १७७ । १८० ॥

ब्रह्मचारो और ब्रह्मचारिणी मद्य, मांस, गन्ध, माला, रस, स्त्री और पुरुष
 का संग सब खटाई प्राणियों की हिंसा ॥ १ ॥ अंगों का मर्दन, बिना निमित्त
 उपस्थेन्द्रिय का स्पर्श, आंखों में अञ्जन, जूते और छत्र का धारण, काम, क्रोध,
 लोभ, मोह, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, नाच, गान, और बाजाबजाना ॥ २ ॥
 द्यूत जिस किसी की कथा निन्दा मिथ्याभाषण स्त्रियों का दर्शन आश्रय दूसर
 की हानि आदि कुकर्मों को सदा छोड़ देवे ॥ ३ ॥ सर्वत्र एकाकी सोवे वीर्यस्ख-
 लित कभो न करे जो कामना से वीर्यस्खलित कर दे तो जानो कि अपने ब्रह्म-
 चर्य व्रत का नाश कर दिया ॥ ४ ॥

वेदमनूच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं वद । धर्मं
 चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आचार्य्याय प्रियं धनमाहृत्य
 प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः ।

सत्यान्न प्रमदितव्यम् । धर्मान्न प्रमदितव्यम् । कुशलान्न
 प्रमदितव्यम् । भूल्यै न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचना-
 भ्यां न प्रमदितव्यम् ॥ १ ॥ देवपितृकार्य्याभ्यां न प्रमदि-
 तव्यम् । मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्य्यदेवो भव ।
 अतिथिदेवो भव ।

अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोनुशासनम् ।
 वाक् चैव मधुरा श्लक्ष्णा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥
 यस्य वाङ्मनसे शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सर्वदा ।
 स वै सर्वमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम् ॥ २ ॥

मनु० २ । १५९ । १६० ।

विद्वान् और विद्यार्थियों को योग्य है कि वैरबुद्धि छोड़ के सब मनुष्यों को कल्याण के मार्ग का उपदेश करे और उपदेष्टा सदा मधुर सुशीलतायुक्त वाणी बोले जो धर्म की उन्नति चाहे वह सदा सत्य में चले और सत्य ही का उपदेश करे ॥ १ ॥ जिस मनुष्य के वाणी और मन शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं वही सब वेदान्त अर्थात् सब वेदों के सिद्धान्तरूप फल को प्राप्त होता है ॥

संमानाद्ब्राह्मणो नित्यमुद्दिजेत विषादिव ॥

अमृतस्यैव चाकांक्षेदवमानस्य सर्वदा ॥

मनु० २ । १६२ ॥

वही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से विष के तुल्य सदा डरता है और अपमान की इच्छा असृत के समान किया करता है ।

अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनैः ।

गुरौ वसन् संश्रिनुयाद्ब्रह्माधिगमिकं तपः ॥

मनु० २ । १६४ ॥

इसी प्रकार से कृतोपनयन द्विज ब्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या धीरे २ वेदार्थ के ज्ञानरूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जायें ॥

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् ।

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥

मनु० २ । १६८ ॥

जो वेद को न पढ़ के अन्यत्र श्रम किया करता है वह अपने पुत्रपौत्र सहित शूद्रभाव को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है ॥

अकामस्य क्रिया काचिद् दृश्यते नेह कर्हिचित् ।
यद्यद्धि कुरुते किञ्चित् तत्तत्कामस्य चेष्टितम् ॥

मनु० २ । ४ ।

मनुष्यों को निश्चय करना चाहिये कि निष्काम पुरुष में नेत्र का संकोच विकाश का होना भी सर्वथा असम्भव है इस से यह सिद्ध होता है कि जो २ कुछ भी करता है वह २ चेष्टा कामना के बिना नहीं है ॥

आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त्त एव च ।

तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः ॥ १ ॥

आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते ।

आचारेण तु संयुक्तः संपूर्णफलभागभवेत् ॥ २ ॥

मनु० १ । १०८ । १०९ ॥

कहने, सुनने, सुनाने, पढ़ने, पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और वेदानुकूल स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना इस लिये धर्माचार में सदा युक्त रहै ॥ १ ॥ क्योंकि जो धर्माचरण से रहित है वह वेदप्रतिपादित धर्मजन्य सुखरूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता और जो विद्या पढ़ के धर्माचरण करता वही संपूर्ण सुख को प्राप्त होता है ॥ २ ॥

योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद् द्विजः ।

स साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ १ ॥

मनु० २ । ११ ।

जो वेद और वेदानुकूल आम पुरुषों के किये शास्त्रों का अपमान करता है उस वेदनिन्दक नास्तिक को जाति, पंक्ति और देश से बाह्य कर देना चाहिये क्योंकि—॥ २ ॥

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् ॥ १ ॥

मनु० २ । १२ ।

थान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि । थान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि । ये के चास्मद्विद्येयाः सो ब्राह्मणास्तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम् । श्रद्धया देयम् । अश्रद्धया देयम् । श्रिया देयम् । ह्रिया देयम् । भिया देयम् । संविदां देयम् ।

अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् ॥ ३ ॥ ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनो युक्ता अयुक्ता अलूक्षा धर्मकामाः स्युर्यथा ते तत्र वर्तेरन् । तथा तत्र वर्तेथाः । एष आदेश एष उपदेश एषा वेदोपनिषत् । एतदनुशासनम् । एवमुपासितव्यम् । एवमुचैतदुपास्यम् ॥
तैत्तिरीय० प्रपा० ७ अनु० ११ ॥

आचार्य्य अन्तेवासी अर्थात् अपने शिष्य और शिष्याओं को इस प्रकार उपदेश करे कि तू सदा सत्य बोल धर्माचरण कर प्रमाद रहित हो के पढ़ पढ़ा पूर्ण ब्रह्मचर्य्य से समस्त विद्याओं को ग्रहण और आचार्य्य के लिये प्रिय धन देकर विवाह करके सन्तानोत्पत्ति कर प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड़ प्रमाद से धर्म का त्याग मत कर प्रमाद से आरोग्य और चतुराई को मत छोड़ प्रमाद से पढ़ने और पढ़ाने को कभी मत छोड़ देव विद्वान् और माता पितादि की सेवा में प्रमाद मत कर जैसे विद्वान् का सत्कार करे उसी प्रकार माता पिता आचार्य्य और अतिथि की सेवा सदा किया कर जो अनिन्दित धर्मयुक्त कर्म हैं उन सत्य-भाषणादि को किया कर उन से भिन्न शिष्याभाषणादि कभी मत कर जो हमारे सुचरित्र अर्थात् धर्मयुक्त कर्म हीं उन का ग्रहण कर और जो हमारे पापाचरण हीं उन को कभी मत कर एक जो कोई हमारे मध्य में उत्तम विद्वान् धर्मात्मा ब्राह्मण हैं उन्हीं के समीप बैठ और उन्हीं का विश्वास किया कर श्रद्धा से देना, अश्रद्धा से देना, शोभा से देना, लज्जा से देना, भय से देना और प्रतिज्ञा से भी देना चाहिये जब कभी तुम्ह को कर्म वा शील तथा उपासना ज्ञान में किसी प्रकार का संगय उत्पन्न हो तो जो वे विचारशील पक्षपात रहित योगी अयोगी आर्द्रचित्त धर्म की कामना करने वाले धर्मात्मा जन हों जैसे वे धर्ममार्ग में वर्ते वैसे तू भी उस में वर्त्ता कर ; यही आदेश आज्ञा यही उपदेश यही वेद की उपनिषत् और यही शिखा है इसी प्रकार वर्त्तना और अपनी चाल चलन सुधारना चाहिये ॥

धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिये अब जो २ पढ़ना पढ़ाना हो वह २ अच्छी प्रकार परीक्षा करके होना योग्य है-परीक्षा पांच प्रकार से होती है। एक जो २ ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेदों से अनुकूल हो वह २ सत्य और उस से विरुद्ध असत्य है। दूसरी जो २ सृष्टि क्रम से अनुकूल वह २ सत्य और जो सृष्टि क्रम से विरुद्ध है वह सब असत्य है जैसे कोई कहै कि बिना माता पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ ऐसा कथन सृष्टिक्रम से विरुद्ध होने से असत्य है। तीसरा "आत्म" अर्थात् जो धार्मिक, विद्वान्, सत्यवादी, निष्कपटियों का सङ्ग उपदेश के अनुकूल है वह २ ग्राह्य और जो २ विरुद्ध वह २ अग्राह्य है। चौथी अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल अर्थात् जैसा अपने को सुख प्रिय और दुःख अप्रिय है वैसे ही सर्वत्र समझ लेना कि मैं भी किसी को दुःख वा सुख दूंगा तो वह भी अप्रसन्न और प्रसन्न होगा। और पांचवां आठों प्रमाण अर्थात् प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव और अभाव इन में से प्रत्यक्ष के लक्षणदि में जो २ सूत्र नीचे लिखेंगे वे २ सब न्यायशास्त्र के प्रथम और द्वितीय अध्याय के जाने ॥

इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि

व्यवसायात्मकम्प्रत्यक्षम्॥न्याय०॥ अध्याय १॥आन्हिक १॥सूत्र ४॥

जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध के साथ अव्यवहित अर्थात् आवर्णरहित सम्बन्ध होता है इन्द्रियों के साथ मन का और मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है उस को प्रत्यक्ष कहते हैं परन्तु जो व्यपदेश्य अर्थात् संज्ञासंज्ञी के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है वह २ प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं। जैसा किसी ने किसी से कहा कि "तू जल लेआ" वह ला के उस के पास धर के बोला कि "यह जल है" परन्तु वहाँ "जल" इन दो अक्षरों की संज्ञा लाने वा मङ्गवाने वाला नहीं देख सकता है। किन्तु जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है, और जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वह शब्दप्रमाण का विषय है। "अव्यभिचारि" जैसे किसी ने रात्रि में खम्भे को देख के पुरुष का निश्चय कर लिया जब दिन में उस को देखा तो रात्रि का पुरुष ज्ञान नष्ट हो कर स्तम्भज्ञान रहा। ऐसे विनाशी ज्ञान का नाम व्यभिचारी है सो प्रत्यक्ष नहीं कहाता "व्यवसायात्मक" किसी ने दूर से नदी की बालू को देख के कहा कि वहाँ बस्त्र सूख रहे हैं जल है वा और कुक है "वह देवदत्त खड़ा है वा यज्ञदत्त" जब तक एक निश्चय न हो तब तक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है किन्तु जो व्यपदेश्य अव्यभिचारि और निश्चयात्मक ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं ॥

दूसरा अनुमानः—

वेद और स्मृति विद्वान्कूल आप्तोक्त मनुस्मृत्यादि शास्त्र सत्पुरुषों का आचार जो सनातन अर्थात् वेद द्वारा परमेश्वर प्रतिपादित कर्म और अपने आत्मा में प्रिय अर्थात् जिस को आत्मा चाहता है जैसा कि सत्यभाषण ये चार धर्म के लक्षण अर्थात् इन्हीं से धर्माधर्म का निश्चय होता है जो पक्षपात रहित न्याय सत्य का ग्रहण असत्य का सर्वथा परित्यागरूप आचार है उसी का नाम धर्म और इससे विपरीत जो पक्षपातसहित अन्यायाचरण सत्य का त्याग और असत्य का ग्रहण-रूप कर्म है उसी को अधर्म कहते हैं ॥

अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते ।

धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः॥ मनु०२।१३।

जो पुरुष (अर्थ) सुवर्णादि रत्न और (काम) स्त्री सेवनादि में नहीं फँसते हैं उन्हीं को धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है जो धर्म के ज्ञान को इच्छा करें वे वेद द्वारा धर्म का निश्चय करें क्योंकि धर्माधर्म का निश्चय विना वेद के ठीक २ नहीं होता ॥

इस प्रकार आचार्य अपने शिष्य को उपदेश कर और विशेष कर राजा इतर क्षत्रिय वैश्य और उत्तम शूद्र जनों को भी विद्या का अभ्यास अवश्य करावे क्योंकि जो ब्राह्मण हैं वेही केवल विद्याभ्यास करें, और क्षत्रियादि न करें तो, विद्या, धर्म, राज्य और धनादि की वृद्धि कभी नहीं हो सकती । क्योंकि ब्राह्मण तो केवल पढ़ने पढ़ाने और क्षत्रियादि से जीविका को प्राप्त होके, जीवनधारण कर सकते हैं जीविका के आधीन और क्षत्रियादि के आज्ञादाता, और यथावत्परीक्षक दण्डदाता न होने से ब्राह्मणादि सब वर्ण पाखण्ड ही में फँस जाते हैं और जब क्षत्रियादि विद्वान् होते हैं तब ब्राह्मण भी अधिक विद्याभ्यास और धर्म पथ में चलते हैं और उन क्षत्रियादि विद्वानों के सामने पाखण्ड, झूठा व्यवहार भी नहीं कर सकते, और जब क्षत्रियादि अविद्वान् होते हैं तो वे जैसा अपने मन में आता है वैसा ही करते कराते हैं । इस लिये ब्राह्मण भी अपना कल्याण चाहें तो क्षत्रियादि को वेदादि सत्य शास्त्र का अभ्यास अधिक प्रयत्न से करावे । क्योंकि क्षत्रियादि ही विद्याधर्म राज्य और लक्ष्मी की वृद्धि करने हारें हैं वे कभी भिच्चाहारा नहीं करते इस लिये वे विद्या व्यवहार में पक्षपाती भी नहीं हो सकते और जब सब वर्णों में विद्या सुशिक्षा होती है तब कोई भी पाखण्डरूप अधर्मयुक्त मिथ्या व्यवहार को नहीं चला सकता । इस से क्या सिद्ध हुआ कि क्षत्रियादि को नियम में चलाने वाले ब्राह्मण और संन्यासी तथा ब्राह्मण और संन्यासी को सुनियम में चलाने वाले क्षत्रियादि होते हैं इस लिये सब वर्णों के स्त्री पुरुषों में विद्या और

आप्तोपदेशः शब्दः ॥ न्या० ॥ अ० १। आ० १। सू० ७॥

जो आप्त अर्थात् पूर्ण विद्वान् धर्मात्मा परोपकारप्रिय सत्यवादी पुरुषार्थी जितेन्द्रिय पुरुष जैसा अपने आत्मा में जानता हो और जिस से सुख पाया हो उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेश ही अर्थात् जितने पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त हो कर उपदेश होता है। जो ऐसे पुरुष और पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश वेद हैं उन्हीं को शब्दप्रमाण जानो। पांचवां ऐतिह्यः—

न चतुष्टुमैतिह्यार्थापत्तिसंभवाभावप्रामाण्यात् ॥ न्याय० ॥ अ० २। आ० २। सू० १ ॥

जो इतिह्य अर्थात् इस प्रकार का था उस ने इस प्रकार किया अर्थात् किसी के जीवन चरित्र का नाम ऐतिह्य है ॥ कृठा अर्थापत्तिः—

“अर्थादापद्यते सा अर्थापत्तिः” केनचिदुच्यते सत्सु घनेषु वृष्टिः सति कारणे कार्यं भवतीति किमत्र प्रसज्यते, असत्सु घनेषु वृष्टिरसति कारणे च कार्यं न भवति”। जैसे किसी ने किसी से कहा कि “बहल के होने से वर्षा और कारण के होने से कार्य उत्पन्न होता है” इस से विना कहे यह दूसरी बात सिद्ध होती है कि विना बहल वर्षा और विना कारण कार्य कभी नहीं हो सकता ॥ सातवां सश्ववः—

“सश्ववति यस्मिन् स सश्ववः” कोई कहे कि “माता पिता के विना सन्तानोत्पत्ति हुई किसी ने मृतक जिलाये, पहाड़ उठाये, समुद्र में पत्थर तराये, चन्द्रमा के टुकड़े किये परमेश्वर का अवतार हुआ, मनुष्य के सींग और बंध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह किया इत्यादि सब असंभव हैं क्योंकि ये सब बातें सृष्टिक्रम से विरुद्ध हैं। जो बात सृष्टिक्रम के अनुकूल हो वही संभव है ॥ आठवां अभावः—

“न भवन्ति यस्मिन् सोऽभावः” जैसे किसी ने किसी से कहा कि हाथी ले आ” उस ने वहाँ हाथी का अभाव देख कर जहाँ हाथी था वहाँ से ले आया ये आठ प्रमाण। इन में से जो शब्द में ऐतिह्य और अनुमान में अर्थापत्ति संभव अभाव की गणना करें तो चार प्रमाण रह जाते हैं इन पांच प्रकार की परीक्षाओं से मनुष्य सत्यासत्य का निश्चय कर सकता है अन्यथा नहीं ॥

धर्मविशेषप्रसूताद् द्रव्यगुणकर्मसामान्य विशेषसमवायानां पदार्थानां साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसम् ॥ वै० ॥ अ० १। आ० १। सू० ४ ॥

अथ तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतो

दृष्टञ्च ॥ न्याय० अ० १ । आ० १ । सू० ५ ॥

जो प्रत्यक्ष पूर्वक अर्थात् जिस का कोई एक देश वा सम्पूर्ण पदार्थ किसी स्थान वा काल में प्रत्यक्ष हुआ हो उस का दूरदेश से सहचारी एक देश के प्रत्यक्ष होने से अदृष्ट अवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं । जैसे पुत्र को देख के पिता, पर्वतादि में धूम को देख के अग्नि, जगत् में सुख दुःख देख के पूर्व जन्म का ज्ञान होता है । वह अनुमान तीन प्रकार का है । एक "पूर्ववत्" जैसे बहनों को देख के वर्षा, विवाह को देख के सन्तानोत्पत्ति, पढ़ते हुए विद्यार्थियों को देख के विद्या होने का निश्चय होता है, इत्यादि जहाँ २ कारण को देख के कार्य का ज्ञान हो वह पूर्ववत् । दूसरा "शेषवत्" अर्थात् जहाँ कार्य को देख के कारण का ज्ञान हो जैसे नदी के प्रवाह को बढ़ती देख के ऊपर हुई वर्षा का, पुत्र को देख के पिता का, सृष्टि को देख के अनादिकारण का, तथा कर्त्ता ईश्वर का और पाप पुण्य के आचरण देख के सुख दुःख का ज्ञान होता है इसी को शेषवत् कहते हैं । तीसरा "सामान्यतोदृष्ट" जो कोई किसी का कार्यकारण न हो परन्तु किसी प्रकार का साधर्म्य एक दूसरे के साथ हो जैसे कोई भी विना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता वैसे ही दूसरों का भी स्थानान्तर में जाना विना गमन के कभी नहीं हो सकता अनुमान शब्द का अर्थ यही है कि अनु अर्थात् "प्रत्यक्षस्य पश्चान्नीयते ज्ञायते येन तदनुमानम्" जो प्रत्यक्ष के पश्चात् उत्पन्न हो जैसे धूम के प्रत्यक्ष देखे विना अदृष्ट अग्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकता ॥ तीसरा उपमानः—

प्रसिद्धसाधर्म्यात्साध्यसाधनमुपमानम् ॥ न्याय० ॥

अ० १ । आ० १ । सू० ६ ॥

जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधर्म्य से साध्य अर्थात् सिद्ध करने योग्य ज्ञान को सिद्ध करने का साधन हो उस को उपमान कहते हैं । "उपमीयते येन तदुपमानम्" जैसे किसी ने किसी भृत्य से कहा कि "तू देवदत्त के सदृश विष्णुमित्र को बुला ला" वह बोला कि "मैंने उस को कभी नहीं देखा" उस के स्वामी ने कहा कि "जैसा यह देवदत्त है वैसा ही वह विष्णुमित्र है" वा जैसी यह गाय है वैसा ही गवय अर्थात् नीलगाय होता है जब वह बहाँ गया और देवदत्त के सदृश उस को देख निश्चय कर लिया कि यही विष्णुमित्र है । उस को ले आया । अथवा किसी जंगल में जिस पशु को गैया के तुल्य देखा उस को निश्चय कर लिया कि इसी का नाम गवय है ॥ चौथा शब्द प्रमाणः—

अप्सु शीतता ॥ वै० ॥ अ० २ । आ० २ । सू० ५ ॥

और जल में शीतलत्व भी गुण स्वाभाविक है ॥

तेजो रूपस्पर्शवत् ॥ वै० ॥ अ० २ । आ० १ । सू० ३ ॥

जो रूप और स्पर्श वाला है वह तेज है परन्तु इस में रूप स्वाभाविक और स्पर्श वायु के योग से है ॥

स्पर्शवान् वायुः ॥ वै० ॥ अ० २ । आ० १ । सू० ४ ॥

स्पर्श गुण वाला वायु है परन्तु इस में भी उष्णता शीतता तेज और जल के योग से रहते हैं ॥

त आकाशे न विद्यन्ते ॥ वै० ॥ अ० २ । आ० २ । सू० ५ ॥

रूप रस गन्ध और स्पर्श आकाश में नहीं हैं किन्तु शब्द ही आकाश का गुण है

निष्क्रमणं प्रवेशनमित्याकाशस्य लिङ्गम् ॥ वै० ॥ अ० २ ।

आ० १ । सू० २० ॥

जिस में प्रवेश और निकलना होता है वह आकाश का लिङ्ग है ।

कार्यान्तराप्रादुर्भावाच्च शब्दः स्पर्शवतामगुणः ॥ वै० ॥ अ०

२ । आ० १ । सू० २५ ॥

अन्य पृथिवी आदि कार्यों से प्रकट न होने से शब्द स्पर्श गुण वाले भूमि आदि का गुण नहीं है किन्तु शब्द आकाश ही का गुण है ।

अपरस्मिन्नपरं युगपच्चिरं क्षिप्रमिति काललिङ्गानि ॥ वै० ॥

अ० २ । आ० २ । सू० ६ ॥

जिस में अपर पर (युगपत्) एकवार (चिरम्) शीघ्र विलम्ब (क्षिप्रम्) इत्यादि प्रयोग होते हैं उस को काल कहते हैं ।

नित्येष्वभावादनित्येषु भावात्कारणे कालाख्येति ॥ वै० । अ०

२ । आ० २ । सू० ९ ॥

जो नित्य पदार्थों में न हो और अनित्यों में हो इस लिये कारण में ही काल सजा है ।

जब मनुष्य धर्म के यथायोग्य अनुष्ठान करने से पवित्र हो कर "साधर्म्य" अर्थात् जो तुल्य धर्म हैं जैसा पृथिवी जड़ और जल भी जड़ "वैधर्म्य" अर्थात् पृथिवी कठोर और जल कोमल इसी प्रकार से द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और "समवाय" इन छः पदार्थों के तत्त्वज्ञान अर्थात् स्वरूपज्ञान को प्राप्त होता तब उस से "निःश्रेयसम्" मोक्ष को प्राप्त होता है ॥

पृथिव्यापस्तेजोवायुराकाशं कालोद्दिगात्मा मन इति द्रव्याणि ॥

वै० ॥ अ० १ । आ० १ । सू० ५ ॥

पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन ये नव द्रव्य हैं

क्रियागुणवत्समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम् ॥ वै० ॥ अ०

१ । आ० १ । सू० १५ ॥

"क्रियाश्च गुणाश्च विद्यन्ते यस्मिंस्तत् क्रियागुणवत्" जिस में क्रिया गुण और केवल गुण भी रहें उस को द्रव्य कहते हैं । उन में से पृथिवी, जल, तेज, वायु, मन और आत्मा ये छः द्रव्य क्रिया और गुण वाले हैं । तथा आकाश, काल, और दिशा ये तीन क्रियारहित गुण वाले हैं (समवायि) "समवेतुं शीलं यस्य तत् समवायि, प्राग्भू-त्तित्वं कारणं समवायि च तत्कारणं च समवायिकारणम्" "लक्ष्यते येन तल्लक्षणम्" जो मिलने के स्वभावयुक्त कार्य से कारण पूर्वकालस्थ हो उसी को द्रव्य कहते हैं जिस से लक्ष्य जाना जाय जैसा आंख से रूप जाना जाता है उसको लक्षण कहते हैं ॥

रूपरसगन्धस्पर्शवती पृथिवी ॥ वै० ॥ अ० २ । आ० १ । सू० ०१ ॥

रूप, रस, गन्ध, स्पर्श वाली पृथिवी है उस में रूप, रस और स्पर्श अग्नि जल और वायु के योग से हैं ॥

व्यवस्थितः पृथिव्यां गन्धः ॥ वै० ॥ अ० २ । आ० २ । सू० २ ॥

पृथिवी में गन्ध गुण स्वाभाविक है । वैसे ही जल में रस, अग्नि में रूप, वायु में स्पर्श, और आकाश में शब्द स्वाभाविक है ॥

रूपरसस्पर्शवत्य आपो द्रवाः स्निग्धाः ॥ वै० ॥ अ० २ । आ०

१ । सू० २ ॥

रूप, रस और स्पर्शवान् द्रवीभूत और कोमल जल कहाँता है । परन्तु इन में जल का रस स्वाभाविक गुण । तथा रूप स्पर्श अग्नि और वायु के योग से हैं ।

ग्रहण करना (अन्तर्विकार) क्षुधा, तृषा, ज्वर, पोड़ा आदि विकारों का होना सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न ये सब आत्मा के लिङ्ग-अर्थात् कर्म और गुण हैं ।

युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम् ॥ न्याय० अ० १ । आ०
१ । सू० १६ ॥

जिस से एक काल में दो पदार्थों का ग्रहण ज्ञान नहीं होता उस को मन कहते हैं यह द्रव्य का स्वरूप और लक्षण कहा अब गुणों को कहते हैं:—

रूपरसगन्धस्पर्शाः संख्यापरिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ
परत्वाऽपरत्वे बुद्धयः सुखदुःखेच्छाद्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणाः ॥
वै० ॥ अ० १ । आ० १ । सू० ६ ॥

रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्वं, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्वं, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म, और शब्द ये २४ गुण कहाते हैं ।

द्रव्याश्रय्यगुणवान् संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्ष इति गुण
लक्षणम् ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० २ । सू० १६ ॥

गुण उस को कहते हैं कि जो द्रव्य के आश्रय रहे अन्य गुण का धारण नकरे संयोग और विभाग में कारण न हो अनपेक्ष अर्थात् एक दूसरे की अपेक्षा न करे।

श्रोत्रोपलब्धिर्बुद्धिर्निर्ग्राह्यः प्रयोगेणाऽभिज्वलित आकाशदेशः
शब्दः ॥ महाभाष्ये ।

जिस की श्रोत्रों से प्राप्ति जो बुद्धि से ग्रहण करने योग्य और प्रयोग से प्रकाशित तथा आकाश जिस का देश है वह शब्द कहाता है। नेत्र से जिस का ग्रहण हो वह रूप, जिह्वा से जिस मिष्टादि अनेक प्रकार का ग्रहण होता है वह रस, नासिका से जिस का ग्रहण होता है वह गन्ध, त्वचा से जिस का ग्रहण होता है वह स्पर्श, एक हि इत्यादि गणना जिस से होती है वह संख्या, जिस से तोल अर्थात् हल्का भारी विदित होता है वह परिमाण, एक दूसरे से अलग होना वह पृथक्त्व, एक दूसरे के साथ मिलना वह संयोग, एक दूसरे से मिले हुए के अनेक टुकड़े होना वह विभाग, इस से यह पर है वह पर, उस से यह उरे है वह अपर, जिस से अच्छे बुरे का ज्ञान होता है वह बुद्धि आनन्द का नाम सुख, क्षीय का नाम

इत इदमिति यतस्तद्विशयं लिङ्गम् ॥ वै० अ० २ । आ० २ ।

सू० १० ॥

यहां से यह पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नीचे जिस में यह व्यवहार होता है उसी को दिशा कहते हैं ।

आदित्यसंयोगाद् भूतपूर्वाद् भविष्यतो भूताच्च प्राची ॥ वै० ॥

अ० २ । आ० २ । सू० १४ ॥

जिस ओर प्रथम आदित्य का संयोग हुआ है, होगा, उस को पूर्व दिशा कहते हैं और जहां अस्त हो उस को पश्चिम कहते हैं पूर्वाभिमुख मनुष्य के दाहिनी ओर दक्षिण और बाईं ओर उत्तर दिशा कहाती है ।

एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि ॥ वै० ॥ अ० २ । आ०

२ । सू० १-१६ ॥

इस से पूर्व दक्षिण के बीच के दिशा को आग्नेयी, दक्षिण पश्चिम के बीच को नैऋति, पश्चिम उत्तर के बीच को वायवी और उत्तर पूर्व के बीच को ऐशानी दिशा कहते हैं ॥

इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति ॥ न्याय० ॥

अ० १ । सू० १० ॥

जिस में (इच्छा) राग, (द्वेष) वैर, (प्रयत्न) पुरुषार्थ, सुख दुःख (ज्ञान) जानना गुण हीं वह जीवात्मा कहाता है । वैशेषिक में इतना विशेष है ।

प्राणाऽपाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तर्विकाराः सुख-
दुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नाश्चात्मनो लिङ्गानि ॥ वै० ॥ अ० ३ ।

आ० २ । सू० ४ ॥

(प्राण) बाहर से वायु को भीतर लेना (अपान) भीतर से वायु को निका-
लना (निमेष) आंख को नीचे ढांकना (उन्मेष) आंख को ऊपर उठाना
(जीवन) प्राण का धारण करना (मनः) मनन विचार अर्थात् ज्ञान (गति)
यथेष्ट गमन करना (इन्द्रिय) इन्द्रियों को विषयों में चलाना उन से विषयों का

सामान्यं विशेष इति बुद्ध्यपेक्षम् ॥ वै० ॥ अ० १ ॥ आ० २ ॥ सू० ३ ॥

सामान्य और विशेष बुद्धि की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं; जैसे मनुष्य व्यक्तियों में मनुष्यत्व सामान्य और पशुत्वादि से विशेष तथा स्त्रीत्व और पुरुषत्व इन में ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व वैश्यत्वं शूद्रत्व भी विशेष हैं। ब्राह्मण व्यक्तियों में ब्राह्मणत्व सामान्य और क्षत्रियादि से विशेष है इसी प्रकार सर्वत्र जानो ॥

इहेदमिति यतः कार्यकारणयोः स समवायः ॥ वै० ॥ अ० ७ ॥

आ० २ ॥ सू० २६ ॥

कारण अर्थात् अवयवों में अवयवी कार्यों में क्रिया क्रियावान् गुणगुणी जाति व्यक्ति कार्य्य कारण अवयव अवयवी इनका नित्य सम्बन्ध होने से समवाय कहाता है और जो दूसरा द्रव्यों का परस्पर सम्बन्ध होता है वह संयोग अर्थात् अनित्य सम्बन्ध है।

द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्भकत्वं साधर्म्यम् ॥ वै० ॥ अ० १ ॥

आ० १ ॥ सू० ९ ॥

जो द्रव्य और गुण का समान जातीयक कार्य का आरम्भ होता है उस को साधर्म्य कहते हैं। जैसे पृथिवी में जड़त्व धर्म और घटादि कार्यात्पादकत्व स्वसदृश धर्म है वैसे ही जल में भी जड़त्व और हिम आदि स्वसदृश कार्य्य का आरम्भ पृथिवी के साथ जल का और जल के साथ पृथिवी का तुल्य धर्म है अर्थात्—

द्रव्यगुणयोर्विजातीयारम्भकत्वं वैधर्म्यम् ॥

यह विदित हुआ है कि जो द्रव्य और गुण का विरुद्ध धर्म और कार्य्य का आरम्भ है उस को वैधर्म्य कहते हैं जैसे पृथिवी में कठिनत्व शुष्कत्व और गंधवत्त्व धर्म जल से विरुद्ध और जल का द्रवत्व कोमलता और रस गुण युक्तता पृथिवी से विरुद्ध है।

कारणभावात्कार्यभावः ॥ वै० ॥ अ० ४ ॥ आ० १ ॥ सू० ३ ॥

कारण के होने ही से कार्य्य होता है।

न तु कार्याभावात्कारणभावः ॥ वै० ॥ अ० १ ॥ आ० २ ॥ सू० २ ॥

कार्य्य के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता।

दुःख, इच्छा-राग, द्वेष-विरोध, (प्रयत्न) अनेक प्रकार का बल-पुरुषार्थ, (गुरुत्व) भारीपन, द्रवत्व, पिघलजाना, (स्नेह) प्रीति और चिकनापन, संस्कार दूसरे के योग से वासना का होना (धर्म) न्यायाचरण और कठिनत्वादि, (अधर्म) अन्यायाचरण और कठिनता से विरुद्ध कोमलता ये चौबीस २४ गुण हैं ॥

उत्क्षेपणमवक्षेपणमाकुञ्चनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि ॥

वै० ॥ अ० १ । आ० १ । सू० ७ ॥

“उत्क्षेपण” ऊपर की चेष्टा करना “अवक्षेपण” नीचे की चेष्टा करना “आकुञ्चन” संझोच करना “प्रसारण” फैलाना “गमन” आना जाना घूमना आदि इन को कर्म कहते हैं । अब कर्म का लक्षणः—

एकद्रव्यगुणं संयोगविभागेष्वनपेक्षं कारणमिति कर्मलक्ष-

णम् ॥ वैशे० ॥ अ० १ । आ० १ । सू० १७ ॥

“एकद्रव्यमाश्रय आधारी यस्य तदेकद्रव्यं न विद्यते गुणा यस्य यस्मिन् वा तद्गुणम् संयोगेषु विभागेषु चाऽपिचारहितं कारणं तत्कर्मलक्षणम्” “अथवा यत् क्रियते तत्कर्म, लक्ष्यते येन तत्तज्जणम् “कर्मणि लक्षणं कर्मलक्षणम्” द्रव्यके आश्रित गुणों से रहित संयोग और विभाग होने में अपिचारहित कारण ही उस को कर्म कहते हैं ॥

द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यं कारणं सामान्यम् ॥ वै० ॥ अ० १ ।

आ० १ । सू० १८ ॥

जो कार्य द्रव्य गुण और कर्म का कारण द्रव्य है वह सामान्य द्रव्य है ॥

द्रव्याणां द्रव्यं कार्यं सामान्यम् ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० १ । सू० २३ ॥

जो द्रव्यों का कार्य द्रव्य है वह कार्यपन से सब कार्यों में सामान्य है ॥

द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्मत्वञ्च सामान्यानि विशेषाश्च ॥ वै० ॥

अ० १ । आ० २ । सू० ५ ॥

द्रव्यों में द्रव्यपन गुणों में गुणपन कर्मों में कर्मपन ये सब सामान्य और विशेष कहाते हैं क्योंकि द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य और गुणत्व कर्मत्व से द्रव्यत्व विशेष है इसी प्रकार सर्वत्र जानना ॥

सञ्चासत् ॥ वै० ॥ अ० ९ । आ० १ । सू० ४ ॥

जो होवे और न होवे जैसे “अगौरश्वोऽनश्वो गौः” यह घोड़ा गाय नहीं और गाय घोड़ा नहीं अर्थात् घोड़े में गाय का और गाय में घोड़े का अभाव और गाय में गाय घोड़े में घोड़ा का भाव है । यह अन्योन्याभाव कहता है ॥ चौथा:—

यच्चान्यदसदतस्तदसत् ॥ वै० ॥ अ० ९ । आ० १ । सू० ५ ॥

जो पूर्वोक्त तीनों अभावों से भिन्न है उस को अत्यन्ताभाव कहते हैं । जैसे “नरशृङ्ग” अर्थात् मनुष्य का सींग “खपुष्प” आकाश का फूल और “बन्ध्यापुत्र” बन्ध्या का पुत्र । इत्यादि ॥ पांचवा:—

नास्ति घटो गेह इति सतो घटस्य गेहसंसर्गप्रतिषेधः ॥

वै० ॥ अ० ९ । आ० १ । सू० १० ॥

घर में घड़ा नहीं अर्थात् अन्यत्र है घर के साथ घड़े का संबन्ध नहीं है ये पांच प्रकार के अभाव कहते हैं ॥

इन्द्रियदोषात्संस्कारदोषाच्चाविद्या ॥ वै० ॥ अ० ९ । आ० २ । सू० ११ ॥

इन्द्रियों और संस्कार के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है ॥

तद्दुष्टज्ञानम् ॥ वै० ॥ अ० ९ । आ० २ । सू० ११ ॥

जो दुष्ट अर्थात् विपरीत ज्ञान है उस को अविद्या कहते हैं ॥

अदुष्टं विद्या ॥ वै० ॥ अ० ९ । आ० २ । सू० १२ ॥

जो अदुष्ट अर्थात् यथार्थ ज्ञान है उस को विद्या कहते हैं ॥

पृथिव्यादिरूपरसगन्धस्पर्शाद्रव्यानित्यत्वादित्याश्च ॥ वै०

अ० ७ । आ० १ । सू० २ ॥

एतेन नित्येषु नित्यत्वमुक्तम् ॥ वै० ॥ अ० ७ । आ० १ । सू० ३ ॥

जो कार्यरूप पृथिव्यादि पदार्थ और उन में रूप रस गन्ध स्पर्श गुण हैं वे सब द्रव्यों के अनित्य होने से अनित्य हैं । और जो इस से कारणरूप पृथिव्यादि नित्य द्रव्यों में गन्धादि गुण हैं वे नित्य हैं ॥

सदकारणवन्नित्यम् ॥ वै० ॥ अ० ४ । आ० १ । सू० १ ॥

कारणाऽभावात्कार्य्याऽभावः ॥ वै० ॥ अ० १।आ० २।सू० १ ॥

कारण के न होने से कार्य कभी नहीं होता ।

कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो दृष्टः ॥ वै० । अ० २ । आ०
१ । सू० २४ ॥

जैसे कारण में गुण होते वैसे ही कार्य में होते हैं । परिमाण दो प्रकार का है:-

अणुमहदिति तस्मिन्विशेषभावाद्दिशेषाभावाच्च ॥ वै० ॥ अ०
७ । आ० १ । सू० ११ ॥

(अणु) सूक्ष्म (महत्) बड़ा जैसे त्रसरेणु लिखा से छोटा और ह्याणुक से बड़ा है तथा पहाड़ पृथिवी से छोटे वृक्षों से बड़े हैं ।

सदिति यतो द्रव्यगुणकर्मसु सा सत्ता ॥ वै० ॥ अ० १ ।
आ० २ । सू० ७ ॥

जो द्रव्य गुण कर्मों में सत् शब्द अन्वित रहता है अर्थात् "सद्द्रव्यम्-सन् गुणः-सत्कर्म" सत्, द्रव्य, सत् गुण, सत् कर्म अर्थात् वर्तमान कालवाची शब्द का अन्वय सब के साथ रहता है ।

भावोनुवृत्तेरेव हेतुत्वात्सामान्यमेव ॥ वै० ॥ अ० १ । आ०
२ । सू० ४ ॥

जो सब के साथ अनुवर्तमान होने से सत्तारूपभाव है सो महासामान्यकहाता है यह क्रम भावरूप द्रव्यों का है और जो अभाव है वह पांच प्रकार का होता है ॥

क्रियागुणव्यपदेशाभावात्प्रागसत् ॥ वै० ॥ अ० ९ । आ०
१ । सू० १ ॥

क्रिया और गुण के विशेष निमित्त के प्राक् अर्थात् पूर्व (असत्) न था जैसे घट, वस्त्रादि उत्पत्ति के पूर्व नहीं थे इस का नाम प्रागभाव ॥ दूसरा:-

सदसत् ॥ वै० ॥ अ० ९ । आ० १ । सू० २ ॥

जो हो के न रहे जैसे घट उत्पन्न होके नष्ट हो जाय यह प्रध्वंसाभाव कहाना है ॥ तीसरा:-

अथ पठनपाठनविधिः ॥

अब पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं—प्रथम पाणिनिमुनिकृतशिक्षा जो कि सूत्र रूप है उस की रीति अर्थात् इस अक्षर का यह स्थान यह प्रयत्न यह करण है जैसे “प” इस का ओष्ठ स्थान, स्पृष्ट प्रयत्न और प्राण तथा जीभ की क्रिया करनी करण कहाता है इसी प्रकार यथापौरय सब अक्षरों का उच्चारण माता पिता आचार्य शिखलावे । तदनन्तर व्याकरण अर्थात् प्रथम अष्टाध्यायी के सूत्रों का पाठ जैसे “वृद्धिरादैच्” फिर पठच्छेद “वृद्धिः, आत्, ऐच् वा आदैच्” फिर समास “आच्च ऐच्च आदैच्” और अर्थ जैसे “आदैचां वृद्धिसंज्ञा क्रियते” अर्थात् आ, ऐ, औ की वृद्धि संज्ञा किई जाती है “तः परो यस्मात्स तपरस्तादधि परस्तपरः” तकार जिस से परे और जो तकार से भी परे ही वह तपर कहाता है इस से क्या सिद्ध हुआ जो आकार से परे त् और त्, से परे ऐच् दोनों तपर हैं तपर का प्रयोजन यह है कि ह्रस्व और म्रुत की वृद्धि संज्ञा न हुई । उदाहरण (भागः) यहां “भज्” धातु से “घञ्” प्रत्यय के परे “घ्, ज्” की इत्संज्ञा ही कर लोप ही गया पश्चात् “भज् अ” यहां जकार के पूर्व भकारोत्तर अकार की वृद्धिसंज्ञक आकार ही गया है । तो भाज् पुनः “ज्” को ग् ही अकार के साथ मिल के “भागः” ऐसा प्रयोग हुआ “अध्यायः” यहां अधिपूर्वक “इड्” धातु के ह्रस्व इ के स्थान में “घञ्” प्रत्यय के परे “ऐ” वृद्धि और उस को आय् ही मिल के “अध्यायः” “नायकः” यहां “नीज्” धातु के दीर्घ ईकार के स्थान में “एवुल्” प्रत्यय के परे “ऐ” वृद्धि और उस को आय् ही कर मिल के “नायकः” और “स्तावकाः” यहां “सु” धातु से “एवुल्” प्रत्यय ही कर ङख उकार के स्थान में औ वृद्धि आव् आदेश ही कर आकार में मिल गया तो “स्तावकाः” (कञ्) धातु से आगे “एवुल्” प्रत्यय ल की इत्संज्ञा ही के लोप “वु” के स्थान में अक आदेश और ऋकार के स्थान में “आर्” वृद्धि ही कर “कारकाः” सिद्ध हुआ । जो २ सूत्र आगे पीछे के प्रयोग में लगे उन का कार्य सब बतलाता जाय और सिलेट अथवा लकड़ी के पट्टे पर दिखला २ के कच्चा रूप धर के जैसे “भज् + घञ् + सु” इस प्रकार धर के प्रथम घ्कार का फिर ज् का लोप ही कर “भज् + अ + सु” ऐसा रहा फिर अ की आकार वृद्धि और ज् के स्थान में “ग्” होने से “भाग् + अ + सु” पुनः आकार में मिल जाने से “भाग + सु” रहा अब उकार की इत्संज्ञा “स्” के स्थान में “स्” ही कर पुनः उकार की इत्संज्ञा लोप ही जाने पश्चात् “भागस्” ऐसा रहा अब र्फ के स्थान में (ः) विसर्जनोय होकर “भागः” यह रूप सिद्ध हुआ । जिस २ सूत्र से जो २ कार्य होता है उस २ को पढ़ पढ़ा के और लिखवा कर कार्य कराता जाय

जो विद्यमान ही और जिस का कारण कोई भी न हो वह नित्य है अर्थात्:-
“सत्कारणवदनित्यम्” जो कारण वाले कार्यरूप गुण हैं वे अनित्य कहते हैं ॥

अस्येदं कार्यं कारणं संयोगि विरोधि समवायि चेति लैङ्गि-
कम् ॥ वै० ॥ अ० ९ । आ० २ । सू० १ ॥

इस का यह कार्य वा कारण है इत्यादि समवायि, संयोगि, एकार्थसमवायि और विरोधि यह चार प्रकार का लैङ्गिक अर्थात् लिङ्गलिङ्गी के सम्बन्ध से ज्ञान होता है। “समवायि” जैसे आकाश परिमाण वाला है। “संयोगि” जैसे शरीर त्वचा वाला है इत्यादि का नित्य संयोग है “एकार्थसमवायि” एक अर्थ में दो का रहना जैसे कार्यरूप स्पर्श कार्य का लिङ्ग अर्थात् जनाने वाला है “विरोधि” जैसे हुई वृष्टि होने वाली वृष्टि का विरोधी लिङ्ग है “व्याप्ति” :-

नियतधर्मसाहित्यमुभयोरेकतरस्य वा व्याप्तिः ॥

निजशक्तयुद्भवमित्याचार्याः ॥

आधेयशक्तियोग इति पञ्चशिखः ॥ सांख्यप्रवचने ॥ अ०

५ । सू० २९ । ३१ । ३२ ॥

जो दोनों साध्य साधन अर्थात् सिद्ध करने योग्य और जिस से सिद्ध किया जाय उन दोनों अथवा एक, साधनमात्र का निश्चित धर्म का सहचार है उसी को व्याप्ति कहते हैं जैसे धूम और अग्नि का सहचार है। २९ । तथा व्याप्य जो धूम उस की निज शक्ति से उत्पन्न होता है अर्थात् जब देशान्तर में दूर धूम जाता है तब विना अग्नियोग के भी धूम स्वयं रहता है। उसी का नाम व्याप्ति है अर्थात् अग्नि के छेदन, भेदन, सामर्थ्य से जलादि पदार्थ धूमरूप प्रकट होता है। ३१ । जैसे महत्त्वादि में प्रकृत्यादि की व्यापकता बुद्ध्यादि में व्याप्यता धर्म के सम्बन्ध का नाम व्याप्ति है। जैसे शक्ति आधेयरूप और शक्तिमान् आधाररूप का सम्बन्ध है। ३२ । इत्यादि शास्त्रों के प्रमाणादि से परीक्षा करके पढ़ें और पढ़ावें। अन्यथा विद्यार्थियों को सत्य बोध कभी नहीं हो सकता जिस २ ग्रन्थ को पढ़ावें उस २ की पूर्वाक्त प्रकार से परीक्षा करके जो सत्य ठहरे वह २ ग्रन्थ पढ़ावें जो २ इन परीक्षाओं से विरुद्ध हैं उन २ ग्रन्थों को न पढ़ें न पढ़ावें क्योंकि :-

लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः

लक्षण जैसा कि “गन्धवती पृथिवी” जो पृथिवी है वह गन्ध वाली है ऐसे लक्षण और प्रत्यक्षादि प्रमाण इन से सब सत्यास्तत्य और पदार्थों का निर्णय हो जाता है इस के बिना कुछ भी नहीं होता ॥

से वैदिक लौकिक छंदों का परिज्ञान नवीन रचना और श्लोक बनाने की रीति भी यथावत् सीखें इस ग्रंथ और श्लोकों की रचना तथा प्रस्तार को चार महीने में सीख पढ़ पढ़ा सकते हैं। और इस रत्नाकर आदि अल्पबुद्धिप्रकल्पित ग्रंथों में अनेक वर्ष न खींचें। तत्पश्चात् मनुस्मृति वाल्मीकीयरामायण और महाभारत के उद्योग पर्वान्तर्गत विदुरनीति आदि अच्छे २ प्रकरण जिन से दुष्ट व्यसन दूर हैं और उत्तमता सभ्यता प्राप्त हो वैसे को काव्य रीति से अर्थात् पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्वय, विशेष्य, विशेषण और भावार्थ को अध्यापक लोग जानावें और विद्यार्थि लोग जानते जायें इन को वर्ष के भीतर पढ़ लें तदनन्तर पूर्वमीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य, और वेदान्त अर्थात् जहां तक बन सके वहां तक ऋषिदत्त व्याख्यासहित अथवा उत्तम विद्वानों की सरलव्याख्यायुक्त छःशास्त्रों को पढ़ें पढ़ावें परन्तु वेदान्तसूत्रों के पढ़ने के पूर्व ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, कांडोग्य, और बृहदारण्यक इन दश उपनिषदों को पढ़ के छः शास्त्रों के भाष्यवृत्तिसहित सूत्रों को दो वर्ष के भीतर पढ़ावें और पढ़ लेवें पश्चात् छःवर्षों के भीतर चारों ब्राह्मण अर्थात् ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ ब्राह्मणों के सहित चारों वेदों के स्वर शब्द अर्थ संबंध तथा क्रिया सहित पढ़ना योग्य है। इस में प्रमाणः—

**स्थाणुरयं भारह्वारः किलाभूद्धीत्य वेदं न विजानाति
योऽर्थम् । योऽर्थं ज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानवि-
धूतपाप्मा ॥**

यह निरुक्त में मंत्र है। जो वेद को स्वर और पाठमात्र पढ़ के अर्थ नहीं जानता वह जैसा बृक्ष, डाली, पत्ते, फल, और अन्य पशु धान्य आदि का भार उठाता है वैसे भारवाह अर्थात् भार का उठाने वाला है और जो वेद को पढ़ता और उन का यथावत् अर्थ जानता है वही संपूर्ण आनन्द को प्राप्त होके देहान्त के पश्चात् ज्ञान से पापों की छोड़ पवित्र धर्माचरण के प्रताप से सर्वानन्द को प्राप्त होता है ॥

**उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत त्वः शृण्वन्न शृणोत्ये-
नाम् । उतो त्वस्मै तन्वँ१ विसंस्त्रे जायेव पत्य उशती सु-
वासाः ॥ ऋ० ॥ मं० १० । सू० ७१ । मं० ४ ॥**

इस प्रकार पढ़ने पढ़ाने से बहुत शीघ्र दृढ़ बोध होता है। एक बार इसी प्रकार अष्टाध्यायी पढ़ा के धातुपाठ अर्थसहित और दशलकारों के रूप तथा प्रक्रिया सहित सूत्रों के उत्सर्ग अर्थात् सामान्य सूत्र जैसे "कर्मण्यण्" कर्म उपपद लगा हो तो धातुमात्र से अण् प्रत्यय हो जैसे "कुम्भकारः" पश्चात् अपवाद सूत्र जैसे "आतोऽनुपसर्गे कः" उपसर्ग भिन्न कर्म उपपद लगा हो तो आकारान्त धातु से "क" प्रत्यय होवे अर्थात् जो बहुव्यापक जैसा कि कर्मोपपद लगा हो तो सब धातुओं से "अण्" प्राप्त होता है उस से विशेष अर्थात् अल्प विषय उसी पूर्व सूत्र के विषय में से आकारान्त धातु को "क" प्रत्यय ने ग्रहण कर लिया जैसे उत्सर्ग के विषय में अपवाद सूत्र की प्रवृत्ति होती है वैसे अपवाद सूत्र के विषय में उत्सर्ग सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती। जैसे चक्रवर्ती राजा के राज्य में माण्डलिक और भूमि-वालों की प्रवृत्ति होती है वैसे माण्डलिकराजादिके राज्य में चक्रवर्ती की प्रवृत्ति नहीं होती इसी प्रकार पाणिनि महर्षि ने १ सहस्र श्लोकों के बीच में अखिल शब्द अर्थ और सम्बन्धों की विद्या प्रतिपादित कर दी है। धातु के पश्चात् उणादि-गण के पढ़ाने में सर्व सुबन्त का विषय अच्छी प्रकार पढ़ा के पुनः दूसरी वार शंका, समाधान, वार्त्तिक, कारिका परिभाषा की घटना पूर्वक अष्टाध्यायी की द्वितीयानुवृत्ति पढ़ावे। तदनन्तर महाभाष्य पढ़ावे अर्थात् जो बुद्धिमान् पुरुषार्थी, निष्कपटी, विद्यावृद्धि के चाहने वाले नित्य पढ़ें पढ़ावें तो डेढ़ वर्ष में अष्टाध्यायी और डेढ़ वर्ष में महाभाष्य पढ़ के तीन वर्ष में पूर्ण व्याकरण ही कर वैदिक और लौकिक शब्दों का व्याकरण से पुनः अन्य शास्त्रों को शीघ्र सहज में पढ़ पढ़ा सकते हैं किन्तु जैसा बड़ा परिश्रम व्याकरण में होता है वैसे श्रम अन्य शास्त्रों में करना नहीं पड़ता और जितना बोध इन के पढ़ने से तीन वर्षों में होता है उतना बोध कुग्रंथ अर्थात् सारस्वत, चंद्रिका, कौमुदी, मनीरमादि के पढ़ने से पचास वर्षों में भी नहीं हो सकता क्योंकि जो महाशय महर्षि लोगों ने सहजता से महान् विषय अपने ग्रन्थों में प्रकाशित किये हैं वैसे इन क्षुद्राशय मनुष्यों के कल्पित ग्रंथों में क्यों कर हो सकता है? महर्षि लोगों का आशय जहां तक हो सके वहां तक सुगम और जिस के ग्रहण में समय थोड़ा लगे इस प्रकार का होता है। क्षुद्राशय लोगों की मनसा ऐसी होती है कि जहां तक बने वहां तक कठिन रचना करनी जिस को बड़े परिश्रम से पढ़ के अल्प लाभ उठा सकें जैसे पहाड़ का खादना कौड़ी का लाभ होना। और आर्ष ग्रंथों का पढ़ना ऐसा है कि जैसा एक गीता लगाना बहुमूल्य मोतियों का पाना। व्याकरण को पढ़ के यास्कमुनिकृत निघण्टु और निरुक्त छः वा आठ महीने में सार्थक पढ़ें और पढ़ावें। अन्य नास्तिककृत अमरकोशादि में अनेक वर्ष व्यर्थ न खोवें तदनन्तर पिङ्गलाचार्यकृत छंदोग्य जिस

से वैदिक लौकिक छंदों का परिज्ञान नवीन रचना और श्लोक बनाने की रीति भी यथावत् सीखें इस ग्रंथ और श्लोकों की रचना तथा प्रस्तार को चार महीने में सीख पढ़ पढ़ा सकते हैं। और वृक्ष रत्नाकर आदि अल्पबुद्धिप्रकल्पित ग्रंथों में अनेक वर्ष न खींचें। तत्पश्चात् मनुस्मृति वालमीकीयरामायण और महाभारत के उद्योग पर्वान्तर्गत विदुरनीति आदि अच्छे २ प्रकरण जिन से दुष्ट व्यसन दूर हों और उत्तमतां सभ्यता प्राप्त हो वैसे को काव्य रीति से अर्थात् पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्वय, विशेष्य, विशेषण और भावार्थ को अध्यापक लोग जनावें और विद्यार्थि लोग जानते जायें इन को वर्ष के भीतर पढ़ लें तदनन्तर पूर्वमीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य, और वेदान्त अर्थात् जहां तक बन सके वहां तक ऋषिहित व्याख्यासहित अथवा उत्तम विद्वानों की सरलव्याख्यायुक्त छःशास्त्रों को पढ़ें पढ़ावें परन्तु वेदान्तसूत्रों के पढ़ने के पूर्व ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, और बृहदारण्यक इन दश उपनिषदों को पढ़ के छः शास्त्रों के भाष्यवृत्तिसहित सूत्रों को दो वर्ष के भीतर पढ़ावें और पढ़ लेवें पश्चात् छःवर्षों के भीतर चारों ब्राह्मण अर्थात् ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ ब्राह्मणों के सहित चारों वेदों के स्वर शब्द अर्थ संबंध तथा क्रिया सहित पढ़ना योग्य है। इस में प्रमाणः—

**स्थाणुरयं भारह्वारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति
योऽर्थम् । योऽर्थं ज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानवि-
धूतपाप्मा ॥**

यह निरुक्त में मंत्र है। जो वेद को स्वर और पाठमात्र पढ़ के अर्थ नहीं जानता वह जैसा वृक्ष, डाली, पशु, फल, और अन्य पशु धान्य आदि का भार उठाता है वैसे भारवाह अर्थात् भार का उठाने वाला है और जो वेद को पढ़ता और उन का यथावत् अर्थ जानता है वही संपूर्ण आनन्द को प्राप्त होके देहान्त के पश्चात् ज्ञान से पापों को छोड़ पवित्र धर्माचरण के प्रताप से सर्वानन्द को प्राप्त होता है ॥

**उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत त्वः शृण्वन्न शृणोत्ये-
नाम् । उतो त्वस्मै तन्वं विस्स्रे जायेव पत्य उगती सु-
वासाः ॥ ऋ० ॥ मं० १० । सू० ७१ । मं० ४ ॥**

जो अविद्वान् हैं वे सुनते हुए नहीं सुनते देखते हुए नहीं देखते बोलते हुए नहीं बोलते अर्थात् अविद्वान् लोग इस विद्या वाणी के रहस्य को नहीं जान सकते किन्तु जो शब्द अर्थ और संबन्ध का जानने वाला है उस के लिये विद्या जैसे सुन्दर वस्त्र आभूषण धारण करती अपने पति की कामना करती हुई स्त्री अपना शरीर और स्वरूप का प्रकाश पति के सामने करती है वैसे विद्या विद्वान् के लिये अपना स्वरूप का प्रकाश करती है। अविद्वानों के लिये नहीं ॥

**ऋचो अक्षरं परमे व्योमन् यस्मिन्देवा अधिविश्वे नि-
षेदुः । यस्तन्न वेद किञ्चिच्च करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे
समासते ॥ ऋ० ॥ मं० १ । सू० १६४ । मं० ३९ ॥**

जिस व्यापक अविनाशी सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर में सब विद्वान् और पृथिवी सूर्य आदि सब लोक स्थित हैं कि जिस में सब वेदों का मुख्य तात्पर्य है उस ब्रह्म को जो नहीं जानता वह ऋग्वेदादि से क्या कुछ सुख को प्राप्त हो सकता है? नहीं २ किन्तु जो वेदों को पढ़ के धर्मात्मा योगी हो कर उस ब्रह्म को जानते हैं वे सब परमेश्वर में स्थित हो के मुक्तिरूपी परमानन्द को प्राप्त होते हैं इस लिये जो कुछ पढ़ना वा पढ़ाना हो वह अर्थज्ञान सहित चाहिये; इस प्रकार सब वेदों को पढ़ के आयुर्वेद अर्थात् जो चरक, सुश्रुत आदि ऋषि मुनिप्रणीत वैद्यक शास्त्र है उस को अर्थ, क्रिया, शस्त्र, छेदन, भेदन, लेप, चिकित्सा, निदान, औषध, पथ्य, शरीर, देश, काल और वस्तु के गुणज्ञान पूर्वक ४ चार वर्ष के भीतर पढ़ें पढ़ावें। तदनन्तर धनुर्वेद अर्थात् जो राजसंबन्धी काम करना है इस के दो भेद एक निम्न राजपुरुष संबन्धी और दूसरा प्रजासंबन्धी होता है। राजकार्य में सब सेना के अध्यक्ष शस्त्रास्त्रविद्या नाना प्रकार के व्यूहों का अभ्यास अर्थात् जिस को आज काल "क्वायट्" कहते हैं जो कि शत्रुओं से लड़ाई के समय में क्रिया करनी होती है उन को यथावत् सीखें और जो २ प्रजा के पालने और वृद्धि करने का प्रकार है उन को सीख के न्याय पूर्वक सब प्रजा को प्रसन्न रखें दुष्टों को यथायोग्य दण्ड अष्टों के पालन का प्रकार सब प्रकार सीख लें इस राजविद्या को दो २ वर्ष में सीख कर गान्धर्व वेद कि जिस को गानविद्या कहते हैं उस में स्वर, राग, रागिणी, समय, ताल, ग्राम, तान, वादित्र, नृत्य, गीत आदि को यथावत् सीखें परन्तु मुख्य करके साम वेद का गान वादित्र वादन पूर्वक सीखें और नारदसंहिता आदि जो २ आर्ष ग्रंथ हैं उन को पढ़ें परन्तु भडुवे वेश्या और विषयासक्तिकारक वैरागियों के गर्दभ शब्दवत् व्यर्थ आलाप कभी न करें। अथर्ववेद कि जिस को गिन्य-

विद्या कहते हैं उस को पदार्थ गुण विज्ञान क्रिया कौशल नानाविध पदार्थों का निर्माण पृथिवी से लेके आकाश पर्यन्त कीविद्या को यथावत् सीख के अर्थ अर्थात् जो ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला है उस विद्या को सीख के दो वर्ष में ज्योतिष् शास्त्र सूर्यसिद्धान्तादि जिस में बीजगणित अङ्क भूगोल खगोल और भूगर्भविद्या है इस को यथावत् सीखें तत् पश्चात् सन प्रकार की हस्तक्रिया यंत्रकला आदि को सीखें परन्तु जितने ग्रह, नक्षत्र, जन्मपत्र, राशि, सुहृत् आदि के फल के विधायक ग्रन्थ हैं उन को झूठ समझ के कभी न पढ़ें और पढ़ावें ऐसा प्रयत्न पढ़ने और पढ़ाने वाले करें कि जिस से बीस वा इक्कीस वर्ष के भीतर समय विद्या उत्तम शिक्षा प्राप्त हो के मनुष्य लोग कृतकृत्य हो कर सदा आनन्द में रहें जितनी विद्या इस रीति से बीस वा इक्कीस वर्षों में हो सकती है उतनी अन्य प्रकार से शतवर्ष में भी नहीं हो सकती ।

ऋषिप्रणीत ग्रन्थों को इस लिये पढ़ना चाहिये कि वे बड़े विद्वान् सब शास्त्र-वित् और धर्मात्मा थे और अनर्षि अर्थात् जो अल्पशास्त्र पढ़े हैं और जिन का आत्मा पक्षपात सहित है उन के बनाये हुए ग्रन्थ भी वैसे ही हैं ।

पूर्वमीमांसा पर व्यासमुनिकृत व्याख्या, वैशेषिक पर गोतम मुनिकृत, न्याय-सूत्र पर वात्स्यायनमुनिकृतभाष्य, पतञ्जलिसुनिकृत सूत्र पर व्यासमुनिकृतभाष्य, कपिलमुनिकृत, सांख्यसूत्र पर भागुरिसुनिकृतभाष्य, व्यासमुनिकृत वेदान्तसूत्र पर वात्स्यायनमुनिकृतभाष्य, अथवा वीडायनमुनिकृतभाष्य वृत्तिसहित पढ़ें पढ़ावें इत्यादि सूत्रों को कल्प अङ्ग में भी गिनना चाहिये जैसे ऋग्यजु साम और अथर्व चारों वेद ईश्वरकृत हैं वैसे ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ चारों ब्राह्मण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निघण्टु, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष् छः वेदों के अङ्ग मीमांसादि छः शास्त्र वेदों के उपाङ्ग, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद, और अर्थवेद ये चार, वेदों के उपवेद इत्यादि सब ऋषि मुनि के किये ग्रन्थ हैं इन में भी जो २ वेदविरुद्ध प्रतीत हो उस २ को छोड़ देना क्योंकि वेद ईश्वरकृत होने से निर्भ्रान्त स्वतः प्रमाण अर्थात् वेद का प्रमाण वेद ही से होता है ब्राह्मणादि सब ग्रन्थ परतः प्रमाण अर्थात् इनका प्रमाण वेदाधीन है वेद की विशेष व्याख्या ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में देख लीलिये और इस ग्रंथ में भी आगे लिखेंगे ॥

अब जो परित्याग के योग्य ग्रंथ हैं उन का परिगणन संक्षेप से किया जाता है अर्थात् जो २ नीचे ग्रंथ लिखेंगे वह २ जाल ग्रन्थ समझना चाहिये । व्याकरण में कातन्त्र, सारस्वत, चन्द्रिका, सुग्धबोध, कौमुदी शिखर, मनोरमादि । कोश अमरकोशादि । छन्दो ग्रन्थ में वृत्तरत्नाकरादि । शिक्षा में अथ शिक्षां प्रवच्यामि वाणिनीयं मतं यथा । इत्यादि । ज्योतिष् में शीघ्रबोध सुहृत्तचिन्तामणि आदि ।

काव्य में नायकामिद कुवलयानन्द रघुवंश माघ, किराताजुनीयादि । मीमांसा में धर्मसिंधु, व्रतार्कादि । वैशेषिक में तर्कसंग्रहादि । न्याय में जागदीशी आदि । योग में हठप्रदीपिकादि । सांख्य में सांख्यतत्व कौमुद्यादि । वेदान्त में योगवासिष्ठ पंचदश्यादि । वैद्यक में शार्ङ्गधरादि स्मृतियों में एक मनुस्मृति इस में भी प्रचिन्न श्लोक अन्य सब स्मृति, सब तन्त्रग्रंथ, पुराण सब उपपुराण, तुलसीदास-कृत भाषा रामायण, रुक्मिणीमंगलादि और सर्वभाषा ग्रंथ ये सब कपोलकल्पित मिथ्या ग्रंथ हैं (प्रश्न) क्या इन ग्रंथों में कुछ भी सत्य नहीं ? (उत्तर) थोड़ा सत्य तो है परन्तु इस के साथ बहुत सा असत्य भी है इस से "विषसंपृक्तानवत् त्याज्याः" जैसे अत्युत्तम अन्न विष से युक्त होने से छोड़ने योग्य होता है वैसे ये ग्रंथ हैं (प्रश्न) क्या आप पुराण इतिहास को नहीं मानते ? (उत्तर) हाँ मानते हैं परन्तु सत्य को मानते हैं मिथ्या को नहीं (प्र०) कौन सत्य और कौन मिथ्या है ? ॥

(उक्त०) ब्राह्म्याणीतिहासान् पुराणानि कल्पान् गाथा नाराज्ञंसीरिति—

यह गृह्यसूत्रादि का वचन है जो ऐतरेय, शतपथ्यादि ब्राह्मण लिख आये उन्हीं के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराज्ञंसी पांच नाम हैं श्रीमद्भागवतादि का नाम पुराण नहीं (प्र०) जो त्याज्य ग्रंथों में सत्य है उस का ग्रहण क्यों नहीं करते ? (उत्तर) जो २ उन में सत्य है सो २ वेदादिसत्यशास्त्रों का है और मिथ्या है वह उन के घर का है वेदादिसत्यशास्त्रों के स्वीकार में सब सत्य का ग्रहण हो जाता है जो कोई इन मिथ्या ग्रंथों से सत्य का ग्रहण करना चाहे तो मिथ्या भी उस के गले लपट जावे इस लिये "असत्यमिच्छं सत्यं दूरतस्त्याज्यमिति" असत्य से युक्त ग्रंथस्थ सत्य को भी वैसे छोड़ देना चाहिये जैसे विषयुक्त अन्न को (प्र०) क्या तुम्हारा मत है ? (उत्तर) वेद अर्थात् जो २ वेद में करने और छोड़ने की शिक्षा की है उस २ का हम यथावत् करना छोड़ना मानते हैं जिस लिये वेद हम को मान्य है इस लिये हमारा मत वेद है ऐसा ही मान कर सब मनुष्यों को विशेष आर्षों को एकमत्य हो कर रहना चाहिये (प्र०) जैसा सत्यासत्य और दूसरेग्रंथों का परस्पर विरोध है वैसे अन्य शास्त्रों में भी है जैसा सृष्टि विषय में ऋः शास्त्रों का विरोध है—मीमांसा कर्म, वैशेषिक काल, न्याय परमाणु, योग पुरुषार्थ, सांख्य प्रकृति, और वेदान्त-ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानता है क्या यह विरोध नहीं है ? (उत्तर) प्रथम तो बिना सांख्य और वेदान्त के दूसरे चार शास्त्रों में सृष्टि की उत्पत्ति-प्रसिद्ध नहीं लिखी और इन में विरोध नहीं क्योंकि

तुम को विरोधाविरोध का ज्ञान नहीं । मैं तुम से पूछता हूँ कि विरोध किस स्थल में होता है ? क्या एक विषय में अथवा भिन्न २ विषयों में ? (प्र०) एक विषय में अनेकों का परस्पर विरुद्ध कथन हो उस को विरोध कहते हैं यहाँ भी सृष्टि एक ही विषय है (उत्तर) क्या विद्या एक है वा दो, एक है, जो एक है तो व्याकरण वैद्यक, ज्योतिष; आदि का भिन्न २ विषय क्यों है जैसा एक विद्या में अनेक विद्या के अवयवों का एक दूसरे से भिन्न प्रतिपादन होता है वैसे ही सृष्टिविद्याके भिन्न २ छः अवयवों का शास्त्रों में प्रतिपादन करने से इन में कुछ भी विरोध नहीं जैसे घड़े के बनाने में कर्म, समय, मट्टी, विचार, संयोग विद्योगादि का, पुरुषार्थ, प्रकृति के गुण, और कुंभार कारण है वैसे ही सृष्टि का जो कर्म कारण है उसकी व्याख्या मोमांसा में, समय की व्याख्या वैशेषिक में, उपादान कारण की व्याख्या न्याय में, पुरुषार्थ को व्याख्या योग में, तर्कों के अनुक्रम से परिगणन की व्याख्या सांख्य में और निमित्त कारण जो परमेश्वर है उसकी व्याख्या वेदान्तशास्त्र में है । इस से कुछ भी विरोध नहीं । जैसे वैद्यकशास्त्र में निदान, चिकित्सा, औषधि, दान और पथ्य के प्रकार भिन्न २ कथित हैं परन्तु सब का सिद्धान्त रोग की निवृत्ति है वैसे ही सृष्टि के छः कारण हैं इनमें से एकर कारण की व्याख्या एकर शास्त्रकार ने की है इस लिये इन में कुछ भी विरोध नहीं इसकी विशेष व्याख्या सृष्टिप्रकरण में करेंगे॥

जो विद्या पढ़ने पढ़ाने के विघ्न हैं उनको छोड़ देवे जैसा कुसंग अर्थात् दुष्ट विषयों जनों का संग दुष्टव्यसन जैसा मद्यादि सेवन और वेश्यागमनादि बाल्यावस्था में विवाह अर्थात् पच्चीसवें वर्ष से पूर्व पुरुष और शोलहवें वर्ष से पूर्व स्त्री का विवाह हो जाना, पूर्ण ब्रह्मचर्य न होना, राजा माता पिता और विद्वानों का प्रेम वेदादि शास्त्रों के प्रचार में न होना, अतिभोजन, अतिजागरण करना, पढ़ने पढ़ाने परीक्षा लेने वा देने में आलस्य, वा कपट करना, सर्वोपरि विद्या का लाभ न समझना, ब्रह्मचर्य से बल, बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य, राज्यधन की वृद्धि न मानना, ईश्वर का ध्यान छोड़ अन्य पाषाणादि जड़ मूर्त्ति के दर्शन पूजन में व्यर्थ काल खोना, माता, पिता, अतिथि और आचार्य, विद्वान् इनको सत्य मूर्त्ति मान कर सेवा सत्संग न करना, वर्णाश्रम के धर्म की छोड़ जर्ध्वपुण्ड्र, त्रिपुण्ड्र, तिलक, कंठी, माला धारण, एकादशी, त्रयोदशी, आदि व्रत करना, काश्यादि तीर्थ और राम, कृष्ण, नारायण, शिव, भगवती गणेशादि के नामस्मरण से पाप दूर होने का विश्वास, पाषंडियों के उपदेश से विद्या पढ़ने में अश्रद्धा का होना, विद्या धर्म योग परमेश्वर को उपासना के विना मिथ्या पुराणनामक भागवतादि की कथादि से मुक्ति का मानना लोभ से धनादि में प्रवृत्त हो कर विद्या में प्रीति न

रखना, इधर उधर व्यर्थ घूमते रहना इत्यादि मिथ्या व्यवहारों में फस के ब्रह्म-चर्य और विद्या के लाभ से रहित हो कर रोगी और सूखे बने रहते हैं।

आज काल के संप्रदायी और स्वार्थी ब्राह्मण आदि जो दूसरों को विद्या सखंग से हटा और अपने जाल में फसा के उनका तन मन धन नष्ट कर देते हैं और चाहते हैं कि जो क्षत्रियादि वर्ण पढ़ कर विद्वान् हो जायेंगे तो हमारे पाखंड जाल से छूट और हमारे कल को जान कर हमारा अपमान करेंगे इत्यादि विघ्नों को राजा और प्रजा दूर कर के अपने लड़की और लड़कियों को विद्वान् करने के लिये तन मन धन से प्रयत्न किया करें (प्रश्न) क्या स्त्री और शूद्र भी वेद पढ़ें ? जो ये पढ़ेंगे तो हम फिर क्या करेंगे ? और इन के पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है जैसा यह निषेध है:—

स्त्रीशूद्रौ नाधीयातामिति श्रुतेः ॥

स्त्री और शूद्र न पढ़ें यह श्रुति है (उत्तर) सब स्त्री और पुरुष अर्थात् मनुष्य-मात्र को पढ़ने का अधिकार है। तुम कुत्रामें पढ़ो और यह श्रुति तुम्हारी कपो-लकल्पना से हुई है किसी प्रामाणिक ग्रंथ की नहीं। और सब मनुष्यों के वेदा-दिशास्त्र पढ़ने सुनने के अधिकार का प्रमाण यजुर्वेद के छवीसवें अध्याय में दूसरा मन्त्र है:—

यथेसां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । ब्रह्मराज-
न्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ॥ यजु० अ० २६।२।

परमेश्वर कहता है कि (यथा) जैसे मैं (जनेभ्यः) सब मनुष्यों के लिये (इमाम्) इस (कल्याणीम्) कल्याण अर्थात् संसार और सुक्ति के सुख देने हारी (वाचम्) ऋग्वेदादि चारों वेदों की वाणी का (आवदानि) उपदेश करता हूँ वैसे तुम भी किया करो। यहाँ कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन शब्द से द्विजों का ग्रहण करना चाहिये क्योंकि स्मृत्यादि ग्रंथों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही के वेदों के पढ़ने का अधिकार लिखा है स्त्री और शूद्रादि वर्णों का नहीं (उत्तर) (ब्रह्म-राजन्याभ्याम्) इत्यादि देखो परमेश्वर स्वयं कहता है कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, (अर्याय) वैश्य (शूद्राय) शूद्र और (स्वाय) अपने शूत्य वा स्त्रियादि (अर-णाय) और अतिशूद्रादि के लिये भी वेदों का प्रकाश किया है अर्थात् सब मनुष्य वेदों को पढ़ पढ़ा और सुन सुना कर विज्ञान को बढ़ा के अच्छी बातों का ग्रहण और बुरी बातों को त्याग करके दुःखों से छूट कर आनन्द को प्राप्त हीं चाहिये अब तुम्हारी बात मानें वा परमेश्वर की! परमेश्वर की बात अवश्य माननीय है।

इतने पर भी जो कोई इस को न मानेगा वह नास्तिक कहावे गा क्योंकि "नास्तिको वेदनन्दकः" वेदों का निन्दक और न मानने वाला नास्तिक कहाता है। क्या परमेश्वर शूद्रों का भला करना नहीं चाहता ? क्या ईश्वर पक्षपाती है ? कि वेदों के पढ़ने सुनने का शूद्रों के लिये निषेध और हिजा के लिये विधि करे ? जो परमेश्वर का अभिप्राय शूद्रादि के पढ़ाने सुनाने का न होता तो इन के शरीर में वाक् और श्रोत्र इन्द्रिय क्यों रचता जैसे परमात्मा ने पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, चन्द्र, सूर्य और अन्नादि पदार्थ सब के लिये बनाये हैं वैसे ही वेद भी सब के लिये प्रकाशित किये हैं और जहाँ कहीं निषेध किया है उस का यह अभिप्राय है कि जिस को पढ़ने पढ़ाने से कुछ भी न आवे वह निर्वृद्धि और मूर्ख होने से शूद्र कहाता है। उस का पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है और जो स्त्रियों के पढ़ने का निषेध करते हो वह तुम्हारी मूर्खता, स्वार्थता और निर्वृद्धिता का प्रभाव है देखो वेद में कन्याओं के पढ़ने का प्रमाण ॥

ब्रह्मचर्येण कन्या ३ युवानं विन्दते पतिम् ॥ अथर्व० ॥

का० ११ । प्र० २४ । अ० ३ । म० १८ ॥

जैसे लड़के ब्रह्मचर्य सेवन से पूर्ण विद्या और सुशिक्षा को प्राप्त हो के युवति विदुषी, अपने अनुकूल प्रिय सदृश स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं वैसे (कन्या) कुमारी (ब्रह्मचर्येण) ब्रह्मचर्य सेवन से वेदादिशास्त्रों को पढ़े पूर्णविद्या और उत्तम शिक्षण को प्राप्त युवति हो के पूर्ण युवावस्था में अपने सदृश प्रिय विद्वान् (युवानम्) पूर्ण युवावस्था युक्त पुरुष को (विन्दते) प्राप्त होवे इस लिये स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य और विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिये (प्रश्न) क्या स्त्री लोग भी वेदों को पढ़ें ? (उत्तर) अवश्य, देखो श्रौत सूत्रादि में:—

इमं मन्त्रं पत्नी पठेत् ॥

अर्थात् स्त्री यज्ञ में इस मन्त्र को पढ़े जो वेदादिशास्त्रों को न पढ़ी होवे तो यज्ञ में स्वरसहित मन्त्रों का उच्चारण और संस्कृतभाषण कैसे कर सके भारतवर्ष की स्त्रियों में भूषणरूप गार्गी आदि वेदादि शास्त्रों को पढ़ के पूर्ण विदुषी हुई थी यह शतपथब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है। भला जो पुरुष विद्वान् और स्त्री अविदुषी और स्त्री विदुषी और पुरुष अविद्वान् हो तो नित्यप्रति देवासुर संग्राम घर में मचा रहै फिर सुख कहां ! इस लिये जो स्त्री न पढ़ें तो कन्याओं की पाठशाला में अध्यापिका क्यों कर हो सकें तथा राजकार्य न्यायाधीशत्वादि गृह्यम का काव्य

जो पति को स्त्री और स्त्री को पति प्रसन्न रखना घर के सब काम स्त्री के आधीन रहना बिना विद्या के इत्यादि काम अच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं हो सकते ॥

देखो आर्यावर्त्त के राजपुरुषों की स्त्रियां धनुर्वेद अर्थात् युद्धविद्या भी अच्छी प्रकार जानती थीं क्योंकि जो न जानती होतीं तो केकयी आदि दशरथ आदि के साथ युद्ध में क्यों कर जा सकती ? और युद्ध कर सकतीं ! इस लिये ब्राह्मणी और क्षत्रिया सब विद्या वैश्या को व्यवहार विद्या और शूद्रा को पाकादि सेवा की विद्या अवश्य पढ़नी चाहिये जैसे पुरुषों को व्याकरण, धर्म और अपने व्यवहार की विद्या न्यून से न्यून अवश्य पढ़नी चाहिये वैसे स्त्रियों को भी व्याकरण, धर्म, वैद्यक, गणित, शिल्पविद्या तो अवश्य ही सीखनी चाहिये । क्योंकि इन के सीखे बिना सत्याऽसत्य का निर्णय, पति आदि से अनुकूल वर्त्तमान यथायोग्य सन्तानोत्पत्ति, उन का पालन वर्द्धन और सुशिक्षा करना, घर के सब कार्यों को जैसा चाहिये वैसा करना कराना वैद्यकविद्या से औषधवत् अन्न पान बनाना और बनवाना नहीं कर सकती जिस से घर में रोग कभी न आवे और सब लोग सदा आनन्दित रहें शिल्पविद्या के जाने बिना घर का बनवाना वस्त्र आभूषण आदि का बनाना बनवाना गणितविद्या के बिना सब का हिसाब समझना समझाना वेदादिशास्त्रविद्या के बिना ईश्वर और धर्म को न जान के अधर्म से कभी नहीं बचसके । इस लिये वे ही धन्यवादाह और कृतकृत्य हैं कि जो अपने सन्तानों को ब्रह्मचर्य उत्तम शिक्षा और विद्या से शरीर और आत्मा के पूर्ण बल को बढ़ावें जिस से वे सन्तान मातृ, पितृ, पति, सासु, श्वशुर, राजा, प्रजा, पड़ोसी, प्रष्ट, मित्र और सन्तानादि से यथायोग्य धर्म से वर्त्तें । यही कोश अक्षय है इस को जितना व्यय करे उतना ही बढ़ता जाय अन्य सब कोश व्यय करने से घट जाते हैं और दायभागी भी निजभाग लेते हैं और विद्या कोश का चोर वा दायभागी कोई भी नहीं हो सकता इस कोश को रक्षा और वृद्धि करने वाला विशेष राजा और प्रजा भी हैं ॥

कन्यानां संप्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम् ॥ मनु०

७।१५२ ॥

राजा को योग्य है कि सब कन्या और लड़कों को उक्त समय से उक्त समय तक ब्रह्मचर्य में रख के विद्वान् कराना जो कोई इस आज्ञा को न माने तो उस के माता पिता को दण्ड देना अर्थात् राजा की आज्ञा से आठ वर्ष के पश्चात् लड़का वा लड़की किसी के घर में न रहने पावे किन्तु आचार्यकुल में रहते हैं जब तक समावर्त्तन का समय न आवे तब तक विवाह न होने पावे ।

सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते ।

वार्यन्नगोमहीवासस्तिलकाश्चनसर्पिषाम् ॥ मनु० ४।२३३।

संसार में जितने दान हैं अर्थात् जल, अन्न, गौ, पृथिवी, वस्त्र, तिल, सुवर्ण और घृतादि इन सब दानों से वेदविद्या का दान अतिश्रेष्ठ है । इस लिये जितना बनसके उतना प्रयत्न तन मन धन से विद्या की हृदि में किया करें जिस देश में यथायोग्य ब्रह्मचर्य विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार होता है वही देश सौभाग्यवान् होता है । यह ब्रह्मचर्याश्रम की शिक्षा संक्षेप से लिखी गई है इस के आगे चौथे समुद्भास में समावर्त्तन और गृह्याश्रम की शिक्षा लिखी जायगी ।

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविभूषिते शिक्षाविषये तृतीयः

समुद्भासः संपूर्णः ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थसमुल्लासारम्भः ॥

—:०:*:०:—

अथ समावर्त्तनविवाहगृहाश्रमविधिं वक्ष्यामः ॥

वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम् ।

अविष्टुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत् ॥१॥ मनु० ३।२ ।

जब यथावत् ब्रह्मचर्य में आचार्यानुकूल वर्त्तन कर धर्म से चारों, तीन, वा दो, अथवा एक वेद को साङ्गोपाङ्ग पढ़ के जिस का ब्रह्मचर्य खण्डित न हुआ हो वह पुरुष वा स्त्री गृहाश्रम में प्रवेश करे ॥ १ ॥

तं प्रतीतं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः ।

स्त्वपिणं तल्प आसीनमर्हयेत्प्रथमं गवा ॥२॥मनु० ३। ३।

जो स्वधर्म अर्थात् यथावत् आचार्य और ब्रिह्म का धर्म है उस से युक्त पिता जनक वा अध्यापक से ब्रह्मदाय अर्थात् विद्यारूप भाग का ग्रहण और माला का धारण करने वाला अपने पलङ्ग में बैठा हुआ आचार्य है उस का प्रथम गोदान से सत्कार करे वैसे लक्षणयुक्त विद्यार्थी को भी कन्या का पिता गोदान से सत्कार करे ॥ २ ॥

गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि ।

उद्वहेत द्विजो भार्यां सवर्णां लक्षणान्विताम् ॥३॥मनु० ३।४।

गुरु की आज्ञा ले स्नान कर गुरुकुल से अनुक्रम पूर्वक आके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने वर्णानुकूल सुन्दर लक्षणयुक्त कन्या से विवाह करे ॥

असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः ।

सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥४॥मनु० ३। ५।

जो कन्या माता के कुल की छः पीढ़ियों में न हो और पिता के गोत्र की न हो उस कन्या से विवाह करना उचित है ॥ ४ ॥ इस का यह प्रयोजन है कि:-

परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षहिषः । शतपथ०

यह निश्चित बात है कि जैसी परोक्ष पदार्थ में प्रीति होती है वैसी प्रत्यक्ष में नहीं जैसे किसी ने मिश्री के गुण सुने हैं और खाई न हो ता उस का मन उसी में लगा रहता है जैसे किसी परोक्ष वस्तु की प्रशंसा सुन कर मिलने की उल्टाट ब्रुक्का, होती है जैसे हो दूरस्थ अर्थात् जो अपने गोत्र वा माता के कुल में निकट सम्बन्ध की न हो उसी कन्या से वर का विवाह होना चाहिये निकट और दूर विवाह करने में गुण ये हैं (१) एक-जो बालक बाल्यावस्था से निकट रहते हैं परस्पर क्रीड़ा, लड़ाई और प्रेम करते एक दूसरे के गुण दोष स्वभाव या बाल्यावस्था के विपरीत आचरण जानते और जो नहूँ भी एक दूसरे को देखते हैं उन का परस्पर विवाह होने से प्रेम कभी नहीं हो सकता (२) दूसरा-जैसे पानी में पानी मिलने से विलक्षण गुण नहीं होता वैसे एक गोत्र पिता वा माता कुल में विवाह होने में धातुओं के अदल बदल नहीं होने से उत्तम नहीं होती (३) तीसरा-जैसे दूध में मिश्री वा शुद्ध्यादि आषधियों के योग होने से उत्तमता होती है वैसे ही भिन्न गोत्र माता पिता कुल से पृथक् वर्तमान स्त्री पुरुषों का विवाह होना उत्तम है (४) चौथा-जैसे एक देश में रोगी हो वह दूसरे देश में वायु और खान पान बदलने से रोगरहित होता है वैसे ही दूर देशस्थों के विवाह होने में उत्तमता है (५) पाँचवें-निकट सम्बन्ध करने में एक दूसरे के निकट होने में सुख दुःख का भान और विरोध होना भी सम्भव है दूरदेशस्थों में नहीं और दूरस्थों के विवाह में दूर २ प्रेम की डोरी लखी बढ़ जाती है निकटस्थ विवाह में नहीं (६) छठे-दूर २ देश के वर्तमान और पदार्थों की प्राप्ति भी दूर सम्बन्ध होने में सहायता से ही सकती है निकट विवाह होने में नहीं इसी लिये:-

दुहिता दुर्हिता दूरेहिता दोग्धेर्वा ॥ ५ ॥ निरु० ३ । ४ ।

कन्या का नाम दुहिता इस कारण से है कि इस का विवाह दूरदेश में होने से हितकारी होता है निकट रहने में नहीं (७) सातवें-कन्या के पिताकुल में दारिद्र्य होने का भी सम्भव है क्योंकि जब २ कन्या पिताकुल में आवेगी तब २ इस को कुछ न कुछ देना ही होगा (८) आठवाँ-कोई निकट होने से एक दूसरे को अपने २ पिताकुल के सहाय का घमण्ड और जब कुछ भी दोनों में वैमनस्य होगा तब स्त्री भट ही पिता के कुल में चली जायगी एक दूसरे की निन्दा अधिक होगी और विरोध भी, क्योंकि प्रायः स्त्रियों का स्वभाव तीक्ष्ण और सृदु होता है इत्यादि कारणों से पिता के एक गोत्र माता की छः पोढ़ी और समीप देश में विवाह करना अच्छा नहीं ॥

महान्त्यपि समृद्धानि गोऽजाविधनधान्यतः ।

स्त्रीसम्बन्धे दशैतानि कुलानि परिवर्जयेत् ॥ ५ ॥ ३ । ६ ।

चाहें कितने ही धन, धान्य, गाय, अजा, हाथी, घोड़े, रान्य, औ आदि से समृद्ध ये कुल हैं तो भी विवाह संबन्ध में निम्नलिखित दश कुलों का त्याग कर दे ॥१॥

हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशार्शसम् ।

क्षय्यामयाव्यपस्मारिविवृतृकुष्ठिकुलानि च ॥६॥ मनु० ३।८

जो कुल सत् क्रिया से हीन सत्पुरुषों से रहित, वेदाध्ययन से विमुख, शरीर पर बड़े र लोम, अथवा ववासोर, क्षयी, दमा, खाँसी, आमोशय, मिरगी, श्वेत-कुष्ठ और गलितकुष्ठयुक्त हैं उन कुलों को कन्या वा वर के साथ विवाह होना न चाहिये क्योंकि ये सब दुर्गुण और रोग विवाह करने वाले के कुल में भी प्रविष्ट हो जाते हैं इस लिये उत्तम कुल के लड़के और लड़कियों का आपस में विवाह होना चाहिये ॥ २ ॥

नोद्देहकपिलां कन्यां नाऽधिकाङ्गीं न रोगिणीम् ।

नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटान्न पिङ्गलाम् ॥७॥ ३।८।

न पीले वर्ण वाली, न अधिकाङ्गी अर्थात् पुरुष से लक्ष्मी चौड़ी, अधिक बल-वाली, न रोगयुक्ता, न लोमरहित, न बहुत लोम वाली न बकवाद करने हारी और न भूरे नेत्र वाली ॥ ३ ॥

नर्क्षवृक्षनदीनाम्नीं नान्त्यपर्वतनामिकाम् ।

न पक्ष्यहिप्रेष्यनाम्नीं न च भीषणनामिकाम् ॥ ८ ॥

मनु० । ३ । ९ ।

न ऋच अर्थात् अश्विनो, भरणी, रोहिणीदेई, रेवतीवाई, चित्तारि, आदि नक्षत्र नाम वाली । तुलसिआ, गेदा, गुलाबी, चंपा, धमेली, आदि वृक्ष नाम वाली, गङ्गा यमुना आदि नदी नाम वाली, चांडाली आदि अन्त्य नाम वाली, विन्ध्या, हिमालया, पार्वती, आदि पर्वत नाम वाली, कोकिला, मैना, आदि पक्षी नाम वाली नागी, भुजंगा, आदि सर्प नाम वाली, माधोदासी, मोरा-दासी, आदि प्रेष्य नाम वाली और भीमकुं विर, चण्डिका, काली, आदि भीषण नाम वाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिये क्योंकि ये नाम कुत्सित और अन्य पदार्थों के भी हैं ॥४॥

अव्यङ्गाङ्गीं सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम् ॥

तनुतोमःशशकानां सृष्टङ्गीसुहृहेत्स्त्रियम् ॥ मनु० ३।१०।

जिस के सरल सूपे अङ्ग हीं अविश्व वा जिसका नाम सुन्दर अर्थात् यशोदा, सुखदा, प्रादि ही हंस और हयिनो के तुल्य जिस की बाल ही सुन्दर जो न कोश और दांत युक्त और जिस के सब अङ्ग कोमल हीं वैसी स्त्री के साथ विवाह करना चाहिये (प्रश्न) विवाह का समय और प्रकार कौनसा अच्छा है (उत्तर) सोलहवें वर्ष से ले के चौबीसवें वर्ष तक कन्या और २५ पञ्चीशवें वर्ष से ले के ४८ वें वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है इस में जो सोलह और पञ्चीश में विवाह करे तो निकष्ट अठारह कोश की स्त्री तीश पेंतीश वा चालीश वर्ष के पुरुष का मध्यम चौबीस वर्ष की स्त्री और अड़तालीश वर्ष के पुरुष का विवाह होना उत्तम है । जिस देश में इसी प्रकार विवाह की विधि श्रेष्ठ और ब्रह्मचर्य विद्याभ्यास अधिक होता है वह देश सुखी और जिस देश में ब्रह्मचर्य विद्याग्रहणरहित बाख्यावस्था और अयोग्यों का विवाह होता है वह देश दुःख में डूब जाता है । क्योंकि ब्रह्मचर्य विद्या के ग्रहण पूर्वक विवाह के सुधार हो से सब बातों का सुधार और विगड़ने से विगाड़ हो जाता है (प्रश्न)

अष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा च रोहिणी ॥

दशवर्षा भवेत्कन्या तत ऊर्ध्वं रजस्वला ॥ १ ॥

माता चैव पिता तस्या ज्येष्ठो भ्राता तथैव च ॥

तथस्ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम् ॥ २ ॥

ये श्लोक पाराशरी और श्रीमन्नोष में लिखे हैं । अर्थ यह है कि—कन्या की आठवें वर्ष गौरी नवमें वर्ष रोहिणी दशवें वर्ष कन्या और उस के आगे रजस्वला-संज्ञा होती है ॥ १ ॥ दशवें वर्ष तक विवाह न करके रजस्वला कन्या के माता पिता और उस का बड़ा भाई ये तीनों देख के नरक में गिरते हैं (उत्तर)

ब्रह्मोवाच

एकक्षणा भवेद्गौरी द्विच्छण्यन्तु रोहिणी ।

त्रिच्छणा सा भवेत्कन्या ह्यत ऊर्ध्वं रजस्वला ॥ १ ॥

माता पिता तथा भ्राता भ्रातुलो भगिनी स्वका ॥

सर्वे ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम् ॥ २ ॥

यह सद्योनिर्मित ब्रह्मपुराण का वचन है। अर्थ—जितने समय में परमाणु एक पलटा खावे उतने समय को क्षण कहते हैं जब कन्या जन्मे तब एक क्षण में गौरी दूसरे में रोहिणी तीसरे में कन्या और चौथे में रजस्रला हो जाती है ॥१॥ उस रजस्रला को देख के उसी को माता, पिता, भाई, मा और बहिन सब नरक को जाते हैं ॥ २ ॥

(प्रश्न) ये श्लोक प्रमाण नहीं (उत्तर) क्यों प्रमाण नहीं क्या जो ब्रह्मा जी के श्लोक प्रमाण नहीं तो तुम्हारे भी प्रमाण नहीं हो सकते (प्रश्न) बाहर पराशर और काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करते (उत्तर) बाह जी बाह क्या तुम ब्रह्मा जी का प्रमाण नहीं करते पराशर काशीनाथ से ब्रह्मा जी बड़े नहीं हैं? जो तुम ब्रह्मा जी के श्लोकों को नहीं मानते तो हम भी पराशर काशीनाथ के श्लोकों को नहीं मानते (प्रश्न) तुम्हारे श्लोक असंभव होने से प्रमाण नहीं क्योंकि सहस्र-क्षण जन्म समय ही में बीत जाते हैं तो विवाह कैसे हो सकता है और उस समय विवाह करने का कुछ फल भी नहीं दौखता (उत्तर) जो हमारे श्लोक असंभव हैं तो तुम्हारे भी असंभव हैं क्योंकि आठ नौ और दशवें वर्ष में भी विवाह करना निष्फल है। क्योंकि सोलहवें वर्ष के पश्चात् चौबीसवें वर्ष पर्यन्त विवाह होने से पुरुष का वीर्य परिपक्व शरीर बलिष्ठ स्त्री का गर्भाशय पूरा और शरीर भी बल्युक्त होने से सन्तान उत्तम होते हैं*जैसे आठवें वर्ष की कन्या में सन्तानो-

* उचित समय से न्यून आयु वाले स्त्री पुरुष को गर्भाधान में सुगिवर धन्यन्तरि जी सुश्रुत में निषेध करते हैं :-

अनघोऽशवर्षायामप्राप्तः पञ्चविंशतिम् ॥

यद्याधत्ते पुमान् गर्भं कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥ १ ॥

जातो वा न चिरञ्जीवेऽजीवेद्वा दुर्बलेन्द्रियः ॥

तस्मादत्यन्तवालायां गर्भाधानं न कारयेत् ॥ २ ॥

सुश्रुत शारीरस्थाने अ० १० ।

अर्थ—सोलह वर्ष से न्यून वय वाली स्त्री में पचीस वर्ष से न्यून आयु वाला पुरुष जो गर्भ को स्थापन करे तो वह कुक्षिस्थ हुआ गर्भ विपत्तिको प्राप्त होता अर्थात् पूर्ण काल तक गर्भाशय में रह कर उत्पन्न नहीं होता ॥ १ ॥

अथवा उत्पन्न हो तो चिरकाल तक न जीवे वा जीवे तो दुर्बलेन्द्रिय हो। इस कारण से अतिवाण्या-वस्थावाली स्त्री में गर्भस्थापन न करे ॥ १ ॥

ऐसे २ शास्त्रोक्त नियम और सृष्टिक्रम को देखने और बुद्धि से विचारने से यही सिद्ध होता - कि १६ वर्ष से न्यून स्त्री और २५ वर्ष से न्यून आयु वाला पुरुष कभी गर्भाधान करने के योग्य नहीं होता। इन नियमों से विपरीत जाँ करते हैं, वे दुःखभागी होते हैं।

स्पृष्टि का होना असंभव है वैसे ही गौरी रोहिणी नाम देना भी अयुक्त है यदि गौरी कन्या न हो किन्तु काली हो तो उस का नाम गौरी रखना व्यर्थ है और गौरी महादेव की स्त्री, रोहिणी वसुदेव की स्त्री थी उस को तुम पौराणिक लोग मातृ समान मानते हो जब कन्यामात्र में गौरी आदि की भावना करते हो तो फिर उन से विवाह करना कैसे संभव और धर्मयुक्त हो सकता है! इस लिये तुम्हारे और हमारे दो २ श्लोक मिथ्या ही हैं क्योंकि जैसा हमने "ब्रह्मोवाच" कर के श्लोक बना लिये हैं। वैसे वे भी पराशर आदि के नाम से बना लिये हैं इस लिये इन सब का प्रमाण छोड़ के वेदों के प्रमाण से सब काम किया करो देखो मनु में:-

त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्यृतुमती सती ।

ऊर्ध्वं तु कालादेतस्माद्दिदेत सदृशं पतिम् ॥ मनु० ९।९०।

कन्या रजस्वला हुए पीछे तीन वर्ष पर्यन्त पति का खोज कर के अपने तुल्य पति को प्राप्त होवे जब प्रतिमास रजोदर्शन होता है तो तीन वर्षों में ३६ बार रजस्वला हुए पश्चात् विवाह करना योग्य है इससे पूर्व नहीं ॥

काममामरणात्तिष्ठेद् गृहे कन्यर्त्तुमत्यपि ।

न चैवैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिचित् ॥ मनु० ९।८९।

चाहे लड़का लड़की मरण पर्यन्त कुमारे रहें परन्तु असदृश अर्थात् परस्पर विरुद्ध गुण कर्म स्वभाव वालों का विवाह कभी न होना चाहिये इससे सिद्ध हुआ कि पूर्वोक्त समय से प्रथम वा असदृशों का विवाह होना योग्य नहीं है ॥

(प्रश्न) विवाह माता पिता के आधीन होना चाहिये वा लड़का लड़की के आधीन रहे ? (उत्तर) लड़का लड़की के आधीन विवाह होना उत्तम है । जो माता पिता विवाह करना कभी विचारें तो भी लड़का लड़की को प्रसन्नता के विना न होना चाहिये क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह होने में विरोध बहुत कम होता और सन्तान उत्तम होते हैं । अप्रसन्नता के विवाह में नित्य क्लेश ही रहता है विवाह में मुख्य प्रयोजन वर और कन्या का है माता पिता का नहीं क्योंकि जो उग में परस्पर प्रसन्नता रहे तो उन्हीं को सुख और विरोध में उन्हीं को दुःख होता और-

सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्ता भार्या तथैव च ।

यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ मनु० ३।६०।

जिस कुल में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री सदा प्रसन्न रहती है उसी कुल में आनन्द, लक्ष्मी और कीर्ति निवास करती है और जहाँ विरोध कलह होता है वहाँ दुःख दरिद्रता और निन्दा निवास करती है इस लिये जैसी स्वयंवर की रीति आर्यावर्त में परंपरा से चली आती है वही विवाह उत्तम है जब स्त्री पुरुष विवाह करना चाहें तब विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, बल, कुल, शरीर का परिमाणदि यथायोग्य होना चाहिये। जब तक इन का मेलन नहीं होता तब तक विवाह में कुछ भी सुख नहीं होता और न वात्स्यायना में विवाह करने से सुख होता।

युवां सुवासाः परिवीत आगात्स उ श्रेयान्भवति जायमानः । तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो ३ मनसा देवयन्तः ॥ १ ॥ ऋ० ॥ मं० ३ । सू० ८ । मं० ४ ॥

आ धेनवो धुनयन्तामश्वीः शब्रुधाः शश्या अप्रदुग्धाः । नव्यानव्या युवत्यो भवन्तीर्महद्देवानामसुरत्वमेकम् ॥ २ ॥ ऋ० ॥ मं० ३ । सू० ५५ । मं० १६ ॥

पूर्वीरहं शरदः शशमाणा द्रोषावस्तो रुषसो जरयन्तीः । मिनाति श्रियं जरिमा तनूनामप्यु नु पत्नीवृषणो जगभ्युः ॥ ३ ॥ ऋ० ॥ मं० १ । सू० १७९ । मं० १ ॥

जो पुरुष (परिवीतः) सब ओर से यज्ञोपवीत ब्रह्मचर्य सेवन से उत्तम शिक्षा और विद्या से युक्त (सुवासाः) सुन्दर वस्त्र धारण किया हुआ ब्रह्मचर्य युक्त (युवा) पूर्ण ज्ञान हो के विद्या ग्रहण कर गृहाश्रम में (आगात्) आता है (स, उ) वही दूसरे विद्याजन्म में (जायमानः) प्रसिद्ध हो कर (श्रेयान्) अतिशय शोभायुक्त मंगलकारी (भवति) होता है (स्वाध्यः) अच्छे प्रकार ध्यान युक्त (मनसा) विज्ञान से (देवयन्तः) विद्यावृद्धि की कामनायुक्त (धीरासः) धैर्ययुक्त (कवयः) विद्वान् लोग (तम्) उसी पुरुष को (उन्नयन्ति) उन्नति शील कर के प्रतिष्ठित करते हैं और जो ब्रह्मचर्य धारण विद्या उत्तम शिक्षा का ग्रहण किये विना अथवा वात्स्यायना में विवाह करते हैं वे स्त्री पुरुष नष्ट भ्रष्ट हो कर विद्वानों में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते ॥ १ ॥

जो (अप्रदुग्धाः) किसी ने दुहो नहीं उन (धेनवः) गौश्रीं के समान (अग्नि श्वीः) बाल्यावस्था से रहित (श्वर्दुग्धाः) सब प्रकार के उत्तम व्यवहारों को पूर्ण करने हारो (शशयाः) झुमारावस्था को उल्लङ्घ करने हारो (नव्यानव्याः) नवीन २ शिक्षा और अवस्था से पूर्ण (भवन्तीः) वर्तमान (युवतयः) पूर्ण युवावस्थास्थ स्त्रियां (देवानाम्) ब्रह्मचर्य सुनियमों से पूर्ण विद्वानों के (एकम्) अद्वितीय (महत्) बड़े (असुरत्वम्) प्रज्ञा शास्त्र शिक्षायुक्त प्रज्ञा में रमण के भावार्थ को प्राप्त होतो हुई तरुण पतियों को प्राप्त हो के (आधुनयन्ताम्) गर्भधारण कर के कभी भूल के भी बाल्यावस्था में पुरुष का मन से भी ध्यान न करें क्योंकि यही कर्म इस लोक और परलोक के सुख का साधन है बाल्यावस्था में विवाह से जितना पुरुष का नाश उस से अधिक स्त्री का नाश होता है ॥ २ ॥

जैसे (नु) शीघ्र (शश्रमाणाः) अत्यन्त श्रम करने हारो (हृषणः) बोर्य भीचने में समर्थ पूर्ण युवावस्थायुक्त पुरुष (पत्नीः) युवावस्थास्थ हृदयों को प्रिय स्त्रियों को (जगम्युः) प्राप्त होकर पूर्ण शत वर्ष वा उस से अधिक वर्ष आयु को आनन्द से भोगते और पुत्रपौत्रादि से संयुक्त रहते रहें जैसे स्त्री पुरुष सदा वर्ष जैसे (पूर्वाः) पूर्व वर्तमान (शरदः) शरद ऋतुश्रीं और (जरयन्तोः) वृद्धावस्था को प्राप्त कराने वाली (उषसः) प्रातःकाल को बिलाश्रीं को (दोषा) रात्री और (वस्तोः) दिन (तनूनाम्) शरीरों को (श्रियम्) शोभा को (जरिमा) अतिशय वृद्धपन बल और शोभा को दूर कर देता है जैसे (अहम्) मैं स्त्री वा पुरुष (७०) अच्छे प्रकार (अपि) निश्चय करने ब्रह्मचर्य से विद्या शिक्षा शरीर और आत्मा के बल और युवावस्था को प्राप्त हो हो के विवाह करे इस से विरुद्ध करना वेदविरुद्ध होने से सुखदायक विवाह कभी नहीं होता ॥ ३ ॥

जब तक इसी प्रकार सब ऋषि मुनि राजा महाराजा आर्य लोग ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ ही के स्वयंवर विवाह करते थे तब तक इस देश की सदा उन्नति होती थी जब से यह ब्रह्मचर्य से विद्या का न पढ़ना बाल्यावस्था में पराधीन अर्थात् माता पिता के आधीन विवाह होने लगा तब से क्रमशः आर्यावर्ष देश को हानि होती चली आई है। इस से इस दुष्ट काम को छोड़ के सज्जन लोग पूर्वोक्त प्रकार से स्वयंवर विवाह किया करें सो विवाह वर्णानुक्रम से करें और वर्णव्यवस्था भी गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार होनी चाहिये। (प्रश्न) क्या जिस की माता ब्राह्मणी पिता ब्राह्मण हो वह ब्राह्मण होता है और जिस के माता पिता अन्यवर्णस्थ हों उन का सन्तान कभी ब्राह्मण ही सकता है? (उत्तर) हां बहुत से ही गये, होते हैं और होंगे भी जैसे कांदीगय उपनिषद् में जावाल ऋषि

अज्ञातकुल, महाभारत में विश्वामित्र चन्द्रिय वर्ण और मातंग ऋषि चांडाल कुल से ब्राह्मण हो गये थे अब भी जो उत्तम विद्या स्वभाव वाला है वही ब्राह्मण के योग्य और मूर्ख शूद्र के योग्य होता है और वैसा ही आगे भी होगा (प्रश्न) भला जो रज वीर्य से शरीर हुआ है वह बदल कर दूसरे वर्ण के योग्य कैसे हो सकता है ? (उत्तर) रजवीर्य के योग से ब्राह्मण शरीर नहीं होता किन्तु:—

स्वाध्यायेन जपैर्होमैस्त्रैविद्येनेज्यया सुतैः ।

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ मनु० २ । २८ ॥

इस का अर्थ पूर्व कर आये हैं अब यहां भी सङ्क्षेप से कहते हैं (स्वाध्यायेन) पढ़ने पढ़ाने (जपैः) विचार करने कराने, नानाविध होम के अनुष्ठान, सम्पूर्ण वेदों को शब्द, अर्थ, सम्बन्ध, स्वरोच्चारण सहित पढ़ने पढ़ाने (इज्यया) पौर्णमासी इष्टि आदि के करने, पूर्वीक्त विधि पूर्वक (सुतैः) धर्म से सन्तानोत्पत्ति (महायज्ञैश्च) पूर्वीक्त ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेवयज्ञ, और अतिथियज्ञ, (यज्ञैश्च) अग्निष्टोमादियज्ञ विधानों का सङ्ग, सत्कार, सत्यभाषण, परोपकारादि सत्कर्म और सम्पूर्ण शिल्पविद्यादि पढ़ के दुष्टाचार छोड़ श्रेष्ठाचार में वर्तने से (इयम्) यह (तनुः) शरीर (ब्राह्मी) ब्राह्मण का (क्रियते) किया जाता है। क्या इस श्लोक को तुम नहीं मानते ? । मानते हैं । फिर क्यों रजवीर्य के योग से वर्णव्यवस्था मानते हो ? मैं अकेला नहीं मानता किन्तु बहुत से लोग परम्परा से ऐसा ही मानते हैं (प्रश्न) क्या तुम परम्परा का भी खण्डन करो गे ? (उत्तर) नहीं परन्तु तुम्हारी उलटी समझ को नहीं मान के खण्डन भी करते हैं (प्रश्न) हमारी उलटी और तुम्हारी सूधी समझ है इस में क्या प्रमाण ? (उत्तर) यही प्रमाण है कि जो तुम पांच सात षोडशियों के वर्तमान को सनातन व्यवहार मानते हो और हम वेद तथा सृष्टि के आरम्भ से आज पर्यन्त को परम्परा मानते हैं देखा जिस का पिता श्रेष्ठ वह पुत्र दुष्ट और जिस का पुत्र श्रेष्ठ वह पिता दुष्ट तथा कहीं दोनों श्रेष्ठ वा दुष्ट देखने में आते हैं इस लिये तुम लोग भ्रम में पड़े हो देखा मनु महाराज ने क्या कहा है:—

येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः ।

तेन यायात्सतां मार्गं तेन गच्छन्नं रिष्यते ॥ मनु० ४ । १७८ ॥

जिस मार्ग से इस के पिता, पितामह चले हैं उस मार्ग में सन्तान भी चले परन्तु (सताम्) जो सत्पुरुष पिता, पितामह ही उन्हीं के मार्ग में चले

और जो पिता, पितामह दुष्ट हैं तो उन के मार्ग में कभी न चले। क्योंकि उत्तम धर्मात्मा पुरुषों के मार्ग में चलने से दुःख कभी नहीं होता इस को तुम मानते हो वा नहीं ? हाँ २ मानते हैं। और देखा जो परमेश्वर की प्रकाशित वेदोक्त बात है वही सनातन और उस के विरुद्ध है वह सनातन कभी नहीं हो सकती ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिये वा नहीं ?। अवश्य चाहिये ! जो ऐसा न माने उस से कहे कि किसी का पिता द्रिद्र हो और उस का पुत्र धनाढ्य होवे तो क्या अपने पिता को द्रिद्रावस्था के अभिमान से धन को फेंक देवे क्या जिस का पिता अन्या ही उस का पुत्र भी अपनी आंखों को फोड़ लेवे ! जिस का पिता कुकर्मी हो क्या उस का पुत्र भी कुकर्म को ही करे ! नहीं ३ किन्तु जो २ पुरुषों के उत्तम कर्म हैं उन का सेवन और दुष्ट कर्मों का त्याग कर देना सब को अत्यावश्यक है। जो कोई रजवीर्य के योग से वर्णाश्रम व्यवस्था माने और गुण कर्मों के योग से न माने तो उस से पूछना चाहिये कि जो कोई अपने वर्ण को छोड़ नीच, अन्त्यज, अथवा क्षत्रौन, सुसलमान हो गया है उस को भी ब्राह्मण क्यों नहीं मानते ? यहाँ यही कहे गे कि उस ने ब्राह्मण के कर्म छोड़ दिये इस लिये वह ब्राह्मण नहीं है। इस से यह भी सिद्ध होता है जो ब्राह्मणादि उत्तम कर्म करते हैं वे ही ब्राह्मणादि और जो नीच भी उत्तम वर्ण के गुण कर्म स्वभाव वाला होवे तो उस को भी उत्तम वर्ण में और जो उत्तम वर्णस्थ ही के नीच काम करे तो उस को नीच वर्ण में गिनना अवश्य चाहिये (प्रश्न)

ब्राह्मणोस्य मुखमासीद्बाहू राजन्यः कृतः ।

ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां ऋद्रो अजायत ॥

यह यजुर्वेद के ३१वें अध्याय का ११वां मन्त्र है। इस का यह अर्थ है कि ब्राह्मण ईश्वर के मुख, क्षत्रिय बाहू, वैश्य ऊरु, और ऋद्र पदों से उत्पन्न हुआ है इस लिये जैसे मुख न बाहू आदि और बाहू आदि न मुख होते हैं इसी प्रकार ब्राह्मण न क्षत्रियादि और क्षत्रियादि न ब्राह्मण हो सकते (उत्तर) इस मन्त्र का अर्थ जो तुम ने किया वह ठीक नहीं क्योंकि यहाँ पुरुष अर्थात् निराकार व्यापक परमात्मा की अनुवृत्ति है। जब वह निराकार है तो उस के मुखादि अङ्ग नहीं हो सकते जो मुखादि अङ्ग वाला हो वह पुरुष अर्थात् व्यापक नहीं और जो व्यापक नहीं वह सर्वशक्तिमान् जगत् का स्रष्टा, धर्ता, प्रलयकर्ता, जीवों के पुण्य पापों की व्यवस्था करने हारा सर्वज्ञ आत्मा मृत्युरहितआदि विशेषण वाला नहीं हो सकता इस लिये इस का यह अर्थ है कि जो (अस्य) पूर्ण व्यापक

परमात्मा की सृष्टि में मुख के सदृश सब में मुख्य उत्तम हो वह (ब्राह्मणः) ब्राह्मण (बाहु) "बाहुर्वैबलं बाहुर्वै वीर्यम्" शतपथ ब्राह्मण । बल वीर्य का नाम बाहु है वह जिस में अधिक हो सो (राजन्यः) क्षत्रिय (जरु) कटि के अधोभाग और जानु के उपरिष्ठ भाग का जरु नाम है जो सब पदार्थों और सब देशों में जरु के बल से जावे आवे प्रवेश करे वह (वैश्यः) वैश्य और (पदुभ्याम्) जो पग के अर्थात् नीच अङ्ग के सदृश सूखत्वादि गुण वाला हो वह शूद्र है अन्यत्र शतपथ-ब्राह्मणादि में भी इस मन्त्र का ऐसा ही अर्थ किया है जैसे:—

यस्मादेते मुख्यास्तस्मान्मुखतोह्यसृज्यन्त इत्यादि ।

जिस से ये मुख्य हैं इस से मुख से उत्पन्न हुए ऐसा कथन संगत होता है अर्थात् जैसा मुख सब अंगों में श्रेष्ठ है वैसे पूर्ण विद्या और उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त होने से मनुष्य जाति में उत्तम ब्राह्मण कहाता है जब परमेश्वर के निराकार होने से सुखादि अंग ही नहीं हैं तो मुख से उत्पन्न होना असंभव है । जैसा कि बंध्या स्त्री आदि के पुत्र का विवाह होना ! और जो सुखादि अंगों से ब्राह्मणादि उत्पन्न होते तो उपादान कारण के सदृश ब्राह्मणादि की आकृति अवश्य होती जैसा मुख का आकार गोल माल है वैसे ही उन के शरीर का भी गोल माल सुखाकृति के समान होना चाहिये । क्षत्रियों के शरीर भुजा के सदृश वैश्यों के जरु के तुल्य और शूद्रों का शरीर पग के समान आकार वाले होने चाहिये ऐसा नहीं होता और जो कोई तुम से प्रश्न करे गा कि जो २ सुखादि से उत्पन्न हुए थे उन की ब्राह्मणादि संज्ञा ही परन्तु तुम्हारी नहीं क्योंकि जैसे सब लोग गर्भाशय से उत्पन्न होते हैं वैसे तुम भी होते हो तुम सुखादि से उत्पन्न न हो कर ब्राह्मणादि संज्ञा का अभिमान करते हो इस लिये तुम्हारा कहा अर्थ व्यर्थ है और जो हम ने अर्थ किया है वह सच्चा है ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है जैसा:—

शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम् ।

क्षत्रियाजातमेवन्तु विद्याद्वैश्यात्तथैव च ॥ मनु० १०।६५॥

शूद्रकुल में उत्पन्न हो के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के समान गुण, कर्म, स्वभाव वाला हो तो वह शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो जाय वैसे ही जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ हो और उस के गुण कर्म स्वभाव शूद्र के सदृश हो तो वह शूद्र हो जाय वैसे क्षत्रिय वैश्य के कुल में उत्पन्न हो के ब्राह्मण वा शूद्र के समान होने से ब्राह्मण वा शूद्र भी हो जाता है । अर्थात् चारों वर्णों में जिस २ वर्ण के सदृश जो २ पुरुष वा स्त्री हो वह २ उसी वर्ण में गिनो जावे ॥

धर्मचर्यया जघन्यो वर्णः पूर्वं पूर्वं वर्णमापद्यते जाति-
परिवृत्तौ ॥ १ ॥

अधर्मचर्यया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वर्णमापद्यते
जातिपरिवृत्तौ ॥ २ ॥

ये आपस्तम्ब के सूत्र हैं। धर्माचरण से निष्कृष्ट वर्ण अपने से उत्तम २ वर्ण को प्राप्त होता है और वह उसी वर्ण में गिना जावे कि जिस २ के योग्य होवे ॥ १ ॥

वैसे अधर्माचरण से पूर्व अर्थात् उत्तम वर्ण वाला मनुष्य अपने से नीचे २ वाले वर्ण को प्राप्त होता है और उसी वर्ण में गिना जावे। जैसे पुरुष जिस २ वर्ण के योग्य होता है वैसे ही स्त्रियों की भी व्यवस्था समझनी चाहिये। इस से क्या सिद्ध हुआ कि इस प्रकार होने से सब वर्ण अपने २ गुण कर्म स्वभाव युक्त हो कर शुद्धता के साथ रहते हैं अर्थात् ब्राह्मण कुल में कोई क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के सदृश न रहे और क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र वर्ण भी शुद्ध रहते हैं अर्थात् वर्णसंकरता प्राप्त न होगी इस से किसी वर्ण की निन्दा वा अयोग्यता भी न होगी (प्रश्न) जो किसी के एक ही पुत्र वा पुत्री हो वह दूसरे वर्ण में प्रविष्ट हो जाय तो उस के मा बाप की सेवा कौन करे गा और वंशच्छेदन भी हो जाय गा इस की क्या व्यवस्था होनी चाहिये ? (उत्तर) न किसी की सेवा का भंग और न वंशच्छेदन होगा क्योंकि उन को अपने लड़के लड़कियों के बदले स्वर्ण के योग्य दूसरे सन्तान विद्यासभा और राजसभा की व्यवस्था से मिलेंगे इस लिये कुछ भी अव्यवस्था न होगी यह गुण कर्मों से वर्णों की व्यवस्था कन्याओं की सोलहवें वर्ष और पुरुषों की पच्चीसवें वर्ष की परीक्षा में नियत करनी चाहिये और इसी क्रम से अर्थात् ब्राह्मण वर्ण का ब्राह्मणी, क्षत्रिय वर्ण का क्षत्रिया, वैश्य वर्ण का वैश्या और शूद्र वर्ण का शूद्रा के साथ विवाह होना चाहिये तभी अपने २ वर्णों के कर्म और परस्पर प्रीति भी यथायोग्य रहेगी। इव चारों वर्णों के कर्त्तव्य कर्म और गुण ये हैं:-

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा ।

दानं प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानामकल्पयत् ॥१॥मनु० १।८८॥

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ।

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥२॥भ० गी०

ब्राह्मण के पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञकरना, कराना, दान देना, लेना ये ऋः कर्म हैं परन्तु "प्रतिग्रहः प्रत्यवरः" मनु० । अर्थात् प्रतिग्रह लेना नीच कर्म है ॥ १ ॥

(श्रमः) मन से बुरे काम को इच्छा भी न करनी और उस को अधर्म में कभी प्रवृत्त न होने देना (दमः) ओज और चक्षु आदि इन्द्रियों को अन्यायाचरण से रोक कर धर्म में चलाना (तपः) सदा ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय हो के धर्मानुष्ठान करना (शौच)

अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति ।

विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति ॥

मनु० ५ । १०९ ।

जल से बाहर के अङ्ग सत्याचार से मन विद्या और धर्मानुष्ठान से जीवात्मा और ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है । भीतर रागद्वेषादि दोष और बाहर के मलों को दूर कर शुद्ध रहना अर्थात् सत्यासत्य के विवेक पूर्वक सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग से निश्चय पवित्र होता है (चान्ति) अर्थात् निन्दा सुख दुःख शीतोष्ण क्षुधा तृषा हानि लाभ मानापमान आदि हर्ष शोक छोड़ के धर्म में दृढ़ निश्चय रहना (आर्जव) कोमलता निरभिमान सरलता सरलस्वभाव रखना कुटिलतादि दोष छोड़ देना (ज्ञान) सब वेदादि शास्त्रों को सांगोपांग पढ़ के पढ़ाने का सामर्थ्य विवेक सत्य का निर्णय जो वस्तु जैसा हो अर्थात् जड़ को जड़ चेतन को चेतन जानना और मानना (विज्ञान) पृथिवी से ले के परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों की विशेषता से जान कर उन से यथायोग्य उपयोग लेना (आस्तिक्य) कभी वेद, ईश्वर, सुक्ति, पूर्वपर जन्म, धर्म, विद्या, सत्संग, माता पिता, आचार्य और अतिथियों की सेवा को न छोड़ना और निन्दा कभी न करना ये पन्द्रह कर्म और गुण ब्राह्मण वर्णस्थ मनुष्यों में अवश्य होने चाहिये ॥ २ ॥ चतुर्यः—

प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च ॥

विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षतियस्य समासतः ॥१॥ मनु० १ । ८९।

शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ।

दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥२॥ भ० गी०

न्याय से प्रजा को रक्षा अर्थात् पक्षपात छोड़ के अर्थों का संस्कार और दृष्टी का तिरस्कार करना सब प्रकार से सब का पालन (दान) विद्या धर्म की प्रवृत्ति और सुपात्रों की सेवा में धनादि पदार्थों का व्यय करना (इज्या) अग्निहोत्रादि यज्ञ करना (अध्ययन) वेदादिशास्त्रों का पढ़ना और विषयों में न फस कर जितेन्द्रिय रह के सदा शरीर और आत्मा से बचवान् रहना ॥ १ ॥ (शौर्य) सैकड़ों

सहस्रों से भी युद्ध करने में अकेले को भय न होना (तेजः) सदा तेजस्वी अर्थात् दौनता रहित प्रगल्भ दृढ़ रहना (धृति) धैर्यवान् होना (दाक्ष्य) राजा और प्रजा सम्बन्धी व्यवहार और सब शास्त्रों में अतिचतुर होना (युद्धे) युद्ध में भी दृढ़ निःशंक रह के उस से कभी न हटना न भागना अर्थात् इस प्रकार से लड़ना कि जिस से निश्चित विजय होवे आप बचे जो भागने से वा शत्रुओं को धोखा देने से जीत होती होतोऐसा ही करना (दान) दानशीलता रखना (ईश्वर-भाव) पन्नपात रहित हो के सब के साथ यथायोग्य वर्तनाविचार के देना प्रति-ज्ञापूर्वी करना उस को कभी भंग होने न देना। ये ग्यारह क्षत्रिय वर्ण के कर्म और गुण हैं ॥ २ ॥ वैश्यः—

पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च ।

वणिकपथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥ १ ॥

मनु० १।१०।

(पशुरक्षा) गाय आदि अशुओं का पालन वर्द्धन करना (दान) विद्या धर्म की वृद्धि करने कराने के लिये धनादि का व्यय करना (इज्या) अग्निहोत्रादि यज्ञों का करना (अध्ययन) वेदादिशास्त्रों का पढ़ना (वणिकपथ) सब प्रकार के व्यापार करना (कुसीद) एक सैकड़े में चार, छः, आठ, बारह, शोलह वा बीस आनां से अधिक व्याज और मूल से दूना अर्थात् एक रुपया दिया हो तो सौ वर्ष में भी दो रुपये से अधिक न लेना और न देना (कृषि) खेती करना ये वैश्य के गुण कर्म हैं ॥ शूद्रः—

एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत् ।

एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया ॥१॥ मनु० १।११।

शूद्र को योग्य है कि निन्दा, ईर्ष्या, अभिमान आदि दोषों को छोड़ के ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा यथावत् करना और उसी से अपना जीवन करना यही एक शूद्र का गुण कर्म है ॥ १ ॥ ये संक्षेप से वर्णों के गुण और कर्म लिखे जिस २ पुरुष में जिस २ वर्ण के गुण कर्म हैं उस २ वर्ण का अधिकार देना ऐसी व्यवस्था रखने से सब मनुष्य चन्नतिशैल होते हैं। क्योंकि उत्तम वर्णों को भय होगा कि जो हमारे सन्तान मूर्खत्वादि दोष युक्त होंगे तो शूद्र हो जायेंगे और सन्तान भी हरते रहेंगे कि जो हम उक्त चाल चलन और विद्यायुक्त न होंगे तो शूद्र होना पड़ेगा और नीच वर्णों को उत्तम वर्णस्थ होने के लिये उत्साह बढ़ेगा ।

विद्या और धर्म के प्रचार का अधिकार ब्राह्मण को देना क्योंकि वे पूर्ण विद्यावान् और धार्मिक होने से उस काम को यथायोग्य कर सकते हैं क्षत्रियों को राज्य के अधिकार देने से कभी राज्य को हानि वा विघ्न नहीं होता। पशुपाल-त्वादि का अधिकार वैश्यों ही को होना योग्य है क्योंकि वे इस काम को अच्छे प्रकार कर सकते हैं शूद्र को सेवा का अधिकार इस लिये है कि वह विद्यारहित मूर्ख होने से विज्ञान सम्बन्धी काम कुछ भी नहीं कर सकता किन्तु शरीर के काम सब कर सकता है इस प्रकार वर्णों को अपने २ अधिकार में प्रवृत्त करना राजा आदि सभ्यजनों का काम है ॥

विवाह के लक्षण

ब्राह्मो देवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः ।

गान्धर्वो राजसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥ मनु० ३। २१।

विवाह आठ प्रकार का होता है एक ब्राह्म दूसरा देव तीसरा आर्ष चौथा प्राजापत्य पांचवां आसुर छठा गान्धर्व सातवां राजस आठवां पैशाच इन विवाहों को यह व्यवस्था है कि—वर कन्या दोनों यथावत् ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्वान् धार्मिक और सुशील हों उन का परस्पर प्रसन्नता से विवाह होना “ब्राह्म” कहता है। विस्तृतयज्ञ करने में ऋत्विक् कर्म करते हुए जामाता को अलंकार युक्त कन्या का देना “देव” वर से कुछ ले के विवाह होना “आर्ष”। दोनों का विवाह धर्म की वृद्धि के अर्थ होगा “प्राजापत्य”। वर और कन्या को कुछ दे के विवाह होना “आसुर”। अनियम असमय किसी कारण से वर कन्या का इच्छा पूर्वक परस्पर संयोग होना “गान्धर्व”। लड़ाई करके बलात्कार अर्थात् छीन भूषट वा कपट से कन्या का ग्रहण करना “राजस”। शयन वा मद्यादि पी हुई पागल कन्या से बलात्कार संयोग करना “पैशाच”। इन सब विवाहों में ब्राह्म विवाह सर्वोत्कृष्ट देव मध्यम आर्ष आसुर और गान्धर्व निकृष्ट राजस अधम और पैशाच महा-भ्रष्ट है। इस लिये वही निश्चय रखना चाहिये कि कन्या और वर का विवाह के पूर्व एकान्त में मेल न होना चाहिये क्योंकि युवावस्था में स्त्री पुरुष का एकान्त वास दूषण कारक है। परन्तु जब कन्या वा वर के विवाह का समय ही अर्थात् जब एक वर्ष वा छः महीने ब्रह्मचर्यान्तम और विद्या पूरी होने में शेष रहें तब उन कन्या और कुमारों का प्रतिविम्ब अर्थात् जिस को “फोटोग्राफ” कहते हैं अथवा प्रतिकृति उतार के कन्याओं की अध्यापिकाओं के पास कुमारों की, कुमारों के अध्यापकों के पास कन्याओं की प्रतिकृति भेज दें जिस २ का रूप मिल

जाय उस २ के इतिहास अर्थात् जन्म से ले के उस दिन पर्यन्त जन्मचरित्र का पुस्तक ही उस को अध्यापक लोग मंगवा के देखें जब दोनों के गुण कर्म स्वभाव सदृश ही तब जिस २ के साथ जिस २ का विवाह होना योग्य समझे उस २ पुरुष और कन्या का प्रतिविम्ब और इतिहास कन्या और वर के हाथ में दें और कहें कि इस में जो तुम्हारा अभिप्राय हो सो हम को विदित कर देना जब उन दोनों का निश्चय परस्पर विवाह करने का हो जाय तब उन दोनों का समावर्तन एक ही समय में होवे जो वे दोनों अध्यापकों के सामने विवाह करना चाहें तो वहाँ, नहीं तो कन्या के माता पिता के घर में विवाह होना योग्य है जब वे समझ हीं तब उन अध्यापकों वा कन्या के माता पिता आदि भद्र पुरुषों के सामने उन दोनों की आपस में बात चीत शान्त्रार्थ कराना और जो कुछ शुभ व्यवहार पूछें सो भी सभा में लिख के एक दूसरे के हाथ में दे कर प्रशोत्तर कर लें जब दोनों का दृढ़ प्रेम विवाह करने में हो जाय तब से उन के खान पान का उत्तम प्रबन्ध होना चाहिये कि जिस से उन का शरीर जो पूर्व ब्रह्मचर्य और विद्याध्ययन रूप तपश्चर्या और कष्ट में दुर्बल होता है वह चन्द्रमा की कला के समान बढ़ के पुष्ट थोड़े ही दिनों में हो जाय पश्चात् जिस दिन कन्या रजस्वला हो कर जब शुद्ध हो तब वेदी और मण्डप रच के अनेक सुगन्ध्यादि द्रव्य और घृतादि का होम तथा अपने विद्वान् पुरुष और स्त्रियों का यथायोग्य सत्कार करे । पश्चात् जिस दिन ऋतुदान देना योग्य समझे उसी दिन "संस्कारविधि" पुस्तकस्थ विधि के अनुसार सब कर्म करके मध्यरात्रि वा दश वजे अति-प्रसन्नतां से सब के सामने पाणिग्रहणपूर्वक विवाह की विधि को पूरा करके एकान्त सेवन करे । पुरुष वीर्यस्थापन और स्त्री वीर्यार्कषण की जो विधि है उसी के अनुसार दोनों करे । जहाँ तक बने वहाँ तक ब्रह्मचर्य के वीर्य को व्यर्थ न जाने दें क्योंकि उस वीर्य वा रज से जो शरीर उत्पन्न होता है वह अपूर्व उत्तम सन्तान होता है जब वीर्य का गर्भाशय में गिरने का समय हो उस समय स्त्री पुरुष दोनों स्थिर और नासिका के सामने नासिका, नेत्र के सामने नेत्र अर्थात् सूधा शरीर और अत्यन्त प्रसन्न चित्त रहें डिगे नहीं पुरुष अपने शरीर को ढोला छोड़े और स्त्री वीर्य प्राप्ति समय अपना वायु को ऊपर खींचे यानि को ऊपर संकोच कर वीर्य का ऊपर आकर्षण करके गर्भाशय में स्थित करे । पश्चात् दोनों शुद्ध जल से स्नान करे * गर्भ स्थिति होने का परिज्ञान विदुषो स्त्री को तब उसी समय हो जाता है परन्तु इस का निश्चय एक मास के पश्चात् रजस्वला न होने पर सब को

* यह बात रहस्य की है इस लिये इतने ही से समझ बातें समझ लेनी चाहिये विशेष लिपिना उचित नहीं।

हो जाता है। सींठ, केशर, असगंध, छोटी इलायची और सालममित्री डाल के गर्भस्नान कर के जो प्रथम ही रक्ता हुआ ठण्डा दूध है उस को यथारुचि दोनें पी के अलग २ अपनी २ शय्या में शयन करें यही विधि जब २ गर्भाधान क्रिया करें तब २ करना उचित है जब महीने भर में रजस्वला न होने से गर्भस्थिति का निश्चय हो जाय तब से एक वर्ष पर्यन्त स्त्री पुरुष का समागम कभी न होना चाहिये क्योंकि ऐसा न होने से सन्तान उत्तम और पुनः दूसरा सन्तान भी वैसा ही होता है। अन्यथा वीर्य व्यर्थ जाता दोनें की आयु घट जाती और अनेक प्रकार के रोग होते हैं परन्तु ऊपर से भाषणादि प्रेमयुक्त व्यवहार दोनें को अवश्य रखना चाहिये पुरुष वीर्य की स्थिति और स्त्री गर्भ की रक्षा और भोजन ह्रादन इस प्रकार का करे कि जिस से पुरुष का वीर्य स्वप्न में भी नष्ट न हो और गर्भ में बालक का शरीर अत्यन्तम रूप, लावण्य, पुष्टि, बल, पराक्रमयुक्त, होकर दशवें महीने में जन्म होवे विशेष उस की रक्षा चौथे महीने से और अति विशेष आठवें महीने से आगे करनी चाहिये कभी गर्भवती स्त्री रेचक रुक्ष, मादक द्रव्य बुद्धि और बलनाशक पदार्थों के भोजनादि का सेवन न करे किन्तु घी, दूध, उत्तम चावल, गेहूं सूंग, उर्द आदि अन्न पान और देश काल का भी सेवन युक्ति पूर्वक करे गर्भ में दो संस्कार एक चौथे महीने में पुंसवन और दूसरा आठवें महीने में सीमन्तोन्नयन विधि के अनुकूल करे जब सन्तान का जन्म हो तब स्त्री और लड़के के शरीर की रक्षा बहुत सावधानी से करे अर्थात् शुण्ठी पाक अथवा सौभाग्यशुण्ठी पाक प्रथम ही बनवा रक्खे उस समय सुगन्धियुक्त उष्ण जल जो कि किंचित् उष्ण रहा हो उसी से स्त्री स्नान करे और बालक को भी स्नान करावे तत्पश्चात् नाड़ी छेदन बालक को नाभि के जड़ में एक कोमल सूत से बांध चार अंगुल छोड़ के ऊपर से काट डाले उस को ऐसा बांधे कि जिस से शरीर से रुधिर का एक विन्दु भी न जाने पावे पश्चात् उस स्थान को शुद्ध करके उस के द्वार के भीतर सुगंधादियुक्त घृतादि का होम करे तत्पश्चात् सन्तान के कान में पिता "वेदोसीति" अर्थात् तेरा नाम वेद है सुना कर घी और सहत को लेके सोने को शलाका से जोभ पर "ओश्म्" अक्षर लिख कर मधु और घृत को उसी शलाका से चटवावे पश्चात् उस की माता को दे देवे जो दूध पीना चाहे तो उस की माता पिलावे जो उस की माता के दूध न हो तो किसी स्त्री की परीक्षा करके उस का दूध पिलावे पश्चात् दूसरी शुद्ध कोठरी वा जहाँ का वायु शुद्ध हो उस में सुगन्धित घी का होम प्रातः और सायंकाल किया करे और उसी में प्रसूता स्त्री तथा बालक को रक्खे छः दिन तक माता का दूध पिये और स्त्री भी अपने शरीर की पुष्टि के अर्थ अनेक प्रकार के उत्तम भोजन करे और योनि संकोचादि भी करे छठे दिन

स्त्री बाहर निकले और सन्तान के दूध पीने के लिये कोई धायी रखे उसको खान पान अच्छा करावे वह सन्तान को दूध पिलाया करे और पालन भी करे परन्तु उसकी माता लड़के पर पूर्णदृष्टि रखे किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार उसके पालन में न हो स्त्री दूध बंध करने के अर्थ स्तन के अग्र भाग पर ऐसा लेप करे कि जिससे दूध स्ववित न हो उसी प्रकार खान पान का व्यवहार भी यथायोग्य रखे पश्चात् नामकरणदि संस्कार "संस्कारविधि" की रीति से यथाकाल करता जाय जब स्त्री फिर रजस्रला हो तब शूद्र होनेके पश्चात् उसी प्रकार ऋतु दान देवे ॥

निन्द्यास्वष्टासु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वर्जयन्

ब्रह्मचार्येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन् ॥ मनु० ३।५० ॥

जो अपनी ही स्त्री से प्रसन्न निषिद्ध रात्रियों में स्त्रियों से पृथक् रहता और ऋतुगामी होता है वह गृहस्थ भी ब्रह्मचारी के सदृश है ।

सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च ।

यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ १ ॥

यदि हि स्त्री न रोचेत् पुमांसन्न प्रमोदयेत् ।

अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवर्त्तत ॥ २ ॥

स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वे तद्रोचते कुलम् ।

तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ ३ ॥

मनु० ३। ६०—६२ ।

जिस कुल में भार्या से भर्ता और पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न रहती है उसी कुल में सब सौभाग्य और ऐश्वर्य निवास करते हैं । जहाँ कलह होता है वहाँ दौर्भाग्य और दारिद्र्य स्थिर होता है ॥ १ ॥ जो स्त्री पति से प्रीति और पति को प्रसन्न नहीं करती तो पति के अप्रसन्न होने से काम उत्पन्न नहीं होता ॥ २ ॥ जिस स्त्री को प्रसन्नता में सब कुल प्रसन्न होता उसकी अप्रसन्नता में सब अप्रसन्न अर्थात् दुःखदायक हो जाता है ॥ ३ ॥

पितृभिर्भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवैस्तथा ।

पूज्या भूपयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥ १ ॥

यत्र नार्घ्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राऽफलाः क्रियाः ॥ २ ॥

शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम् ।

न शोचन्ति तु यत्रैता वर्द्धते तद्धि सर्वदा ॥ ३ ॥

तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः ।

भूतिकामैर्नरैर्नित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥ मनु० ४ ॥

३ । ५५-५७ । ५९ ।

पिता, भाई, पति और देवर इन को सत्कार पूर्वक भूषणादि से प्रसन्न रखने जिन को बहुत कल्याण की वृक्षा हो वे ऐसे करें ॥ १ ॥ जिस घर में स्त्रियों का सत्कार होता है उस में विद्यायुक्त पुरुष होने देव संज्ञा धरा के आनन्द से क्रीड़ा करते हैं और जिस घर में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहाँ सब क्रिया निष्फल हो जाती हैं ॥ २ ॥ जिस घर वा कुल में स्त्री लोग शोकातुर हो कर दुःख पाती हैं वह कुल शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है और जिस घर वा कुल में स्त्री लोग आनन्द से उत्साह और प्रसन्नता में भरी हुई रहती हैं वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता है ॥ ३ ॥ इस लिये ऐश्वर्य की कामना करने वाले मनुष्यों को योग्य है कि सत्कार और उत्सव के समय में भूषण वस्त्र और भोजनादि से स्त्रियों का नित्य प्रति सत्कार करें ॥ ४ ॥ यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि "पूजा" शब्द का अर्थ सत्कार है । और दिन रात में जबर प्रथम मिलने वा पृथक् हीं तबरे प्रीति पूर्वक "नमस्ते" एक दूसरे से करें ॥

सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया ।

सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥१॥ ५। १५०॥

स्त्री को योग्य है कि अतिप्रसन्नता से घर के कामों में चतुराई युक्त सब पदार्थों के उत्तम संस्कार, घर की शुद्धि और व्यय में अत्यन्त उदार न रहे अर्थात् यथायोग्य खर्च करे सब चीजें पवित्र और पाक इस प्रकार बनावे जो औषधिरूप हो कर शरीर वा आत्मा में रोग को न आने देवे जो २ व्यय ही उस का हिसाब यथावत् रख के पति आदि को सुना दिया करे घर के नौकर चाकरों से यथायोग्य काम लेवे घर के किसी काम को बिगड़ने न देवे ॥

स्त्रियो रत्नान्वयो विद्या सत्यं शौचं सुभाषितम् ।
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ॥

मनु० २ । २४०

उत्तम स्त्री नाना प्रकार के रत्न, विद्या, सत्य, पवित्रता, श्रेष्ठभाषण और नाना प्रकार की शिल्पविद्या अर्थात् कारीगरी सब देश तथा सब मनुष्यों से ग्रहण करे ॥

सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात् सत्यमप्रियम् ।

प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः ॥

भद्रं भद्रमिति ब्रूयाद् भद्रमित्येव वा वदेत् ।

शुष्कवैरं विवादं च न कुर्यात्केन चित्सह ॥

मनु० ४ । १३८ । १३९

सदा प्रिय सत्य दूसरे का हितकारक बोले अप्रिय सत्य अर्थात् कारणों को कारण न बोले अनृत अर्थात् झूठ, दूसरे को प्रसन्न करने के अर्थ, न बोले ॥ १ ॥ सदा भद्र अर्थात् सब के हितकारी वचन बोला करे शुष्कवैर अर्थात् विना अपराध किसी के साथ विरोध वा विवाद न करे ॥ २ ॥ जो २ दूसरे का हितकारी हो और बुरा भी माने तथापि कहे विना न रहै ॥

पुरुषा बहवो राजन् सततं प्रियवादिनः ।

अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः ॥

उद्योगपर्व विदुरनीति० ॥

हे धृतराष्ट्र इस संसार में दूसरे को निरन्तर प्रसन्न करने के लिये प्रिय बोलने वाले प्रशंसक लोग बहुत हैं परन्तु सुनने में अप्रिय विदित हो और वह कलवाण करने वाला वचन ही उस का कहने और सुनने वाला पुरुष दुर्लभ है । क्योंकि सत्पुरुषों को योग्य है कि सुख के सामने दूसरे का दोष कहना और अपना दोष सुनना परोक्ष में दूसरे के गुण सदा कहना और दुष्टों की यही रीति है कि संसुख में गुण कहना और परोक्ष में दोषों का प्रकाश करना जब तक मनुष्य दूसरे से अपने दोष नहीं कहता तब तक मनुष्यदोषों से कुट कर गुणी नहीं हो सकता कभी किसी की निन्दा न करे जैसे:-

“गुणेषु दोषारोपणमसूया” अर्थात् “दोषेषु गुणारोपणमप्यसूया” “गुणेषु गुणारोपणं दोषेषु दोषारोपणं च स्तुतिः” । जो गुणों में दोष दोषों में गुण लगाना वह निन्दा और गुणों में गुण दोषों में दोषों का कथन करना स्तुति कहती है अर्थात् मिथ्याभाषण का नाम निन्दा और सत्यभाषण का नाम स्तुति है ॥

बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च ।

नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चैव वैदिकान् ॥

यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति ।

तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥

मनु० ४।१९।२०।

जो शीघ्र बुद्धि धन और हित की वृद्धि करने हारे शास्त्र और वेद हैं उन को नित्य सुनें और सुनावें ब्रह्मचर्याश्रम में पढ़े हों उन को स्त्री पुरुष नित्य विचारा और पढ़ाया करें ॥ १ ॥ क्योंकि जैसे २ मनुष्य शास्त्रों को यथावत् जानता है वैसे उस विद्या का विज्ञान बढ़ता जाता और उसी में रुचि बढ़ती रहती है ॥२॥

ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा ।

नृत्यज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत् ॥ म० ४।२१॥

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञश्च तर्पणम् ।

होमो देवो बलिभौतो नृत्यज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥

म० ३।७०॥

स्वाध्यायेनार्चयेत्पीन् होमैर्देवान् यथाविधि ।

पितृन् श्राद्धैर्नृनन्नैर्भूतानि बलिकर्मणा ॥ मनु० ३।८१॥

हो यज्ञ ब्रह्मचर्य में लिख आये वे अर्थात् एक वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना संधोपासन योगाभ्यास दूसरा देवयज्ञ विद्वानों का संग सेवा पवित्रता दिव्य गुणों का धारण दाढत्व विद्या की सन्नति करना है ये दोनों यज्ञ सायं प्रातः करना होते हैं।

सायंसायं गृहपतिर्नो अग्निः प्रातःप्रातः सौमनसस्य
दाता ॥ प्रातः प्रातर्गृहपतिर्नो अग्निः सायंसायं सौमनसस्य

दाता ॥ अ० । का० १९ । अनु० ७ । मं० ३ । ४ ॥

तस्माद्दहोरातस्य संयोगे ब्राह्मणः सन्ध्यामुपासीत ।
उद्यन्तमस्तं यान्तमादित्यमभिध्यायन् ॥ षड्विंश ब्राह्मणे
प्र० ४ खं० ५ ॥

न तिष्ठति तु यः पूर्वां नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम् ।
स गूद्रवद्वहिष्कार्यः सर्वस्माद् द्विजकर्मणः ॥
मनु० २ । १० ३ ।

जो संध्या २ काल में होम होता है वह हुतद्रव्य प्रातःकाल तक वायुशुद्धि द्वारा सुखकारी होता है ॥ १ ॥ जो अग्नि में प्रातः २ काल में होम किया जाता है वह २ हुत द्रव्य सायंकाल पर्यन्त वायु की शुद्धिद्वारा बल बुद्धि और आरोग्य-कारक होता है ॥ २ ॥ इसी लिये दिन और रात्रि के सन्धि में अर्थात् सूर्योदय और अस्त समय में परमेश्वर का ध्यान और अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिये ॥ ३ ॥ और ये दोनों काम सायं और प्रातःकाल में न करे उस को सज्जन लोग सब दिनों के कर्मों से बाहर निकाल देंगे अर्थात् उसे गूद्रवत् समझे ॥४॥ (प्रश्न) त्रिकाल संध्या क्यों नहीं करना ? (उत्तर) तीन समय में संधि नहीं होती प्रकाश और अंधकार की संधि भी सायं प्रातः दो ही बेला में होती है जो इसको न मान कर मध्याह्न काल में तीसरी संध्या माने वह मध्यरात्रि में भी संध्योपासन क्यों न करे जो मध्यरात्रि में भी करना चाहे तो प्रहर २ घड़ी पल २ और क्षण २ की भी संधि होती हैं उन में भी संध्योपासन किया करे जो ऐसा भी करना चाहे तो जो ही नहीं सकता और किसी शास्त्र का मध्याह्न संध्या में प्रमाण भी नहीं इसलिये दोनों कालों में संध्या और अग्निहोत्र करना समुचित है तीसरे काल में नहीं । और जो तीन काल होते हैं वे भूत भविष्यत् और वर्तमान के भेद से हैं संध्योपासन के भेद से नहीं । तीसरा "पितृयज्ञ" अर्थात् जिस में विद्वान् ऋषि जो पढ़ने पढ़ाने हारेपितर माता पिता आदि हृदयज्ञानो और परमयोगियों को सेवा करनी । पितृयज्ञ के दो भेद हैं एक आइ और दूसरा तर्पण । अथा अर्थात् "अत्" सत्य का नाम है "अत्तत्वं दधाति यया क्रियया सा अथा अइया यत् क्रियते तच्छाडम्" जिस क्रिया से सत्य का अहण किया जाय उस को अहा और जो अहा से कर्म किया जाय उस का नाम आइ है । और "तृष्यन्ति तर्पयन्ति येन पितृन् तत्तर्पणम्" जिस २ कर्म से तृप्त अर्थात् विद्यमान माता पितादि पितर प्रसन्न हैं और प्रसन्न किये जाय उस का नाम तर्पण । वरन्तु वह जोवतों के लिये है सनकों के लिये नहीं ॥

ओं ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम् । ब्रह्मादिदेवपत्न्यस्तृप्यन्ताम् ।
 ब्रह्मादिदेवसुतास्तृप्यन्ताम् । ब्रह्मादिदेवगणास्तृप्यन्ताम् ।
 इति देवतर्पणम् ॥

“विद्वांसी हि देवाः” वह शतपथ ब्राह्मण का वचन है—जो विद्वान् हैं उन्हीं को देव कहते हैं जो साङ्गोपांग चार वेदों के जानने वाले हैं। उन का नाम ब्रह्मा और जो उन से न्यून हैं उन का भी नाम देव अर्थात् विद्वान् है उन के सदृश उन की विदुषी स्त्री ब्राह्मणी देवी और उन के तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उन के सदृश उन के गण अर्थात् सेवक हैं उन की सेवा करना है उस का नाम आहु और तर्पण है ॥

अथर्षितर्पणम् ॥

ओं मरीच्यादय ऋषयस्तृप्यन्ताम् । मरीच्याद्यृषिपत्न्यस्तृप्यन्ताम् ।
 मरीच्याद्यृषिसुतास्तृप्यन्ताम् । मरीच्याद्यृषिगणास्तृप्यन्ताम् ।
 इति ऋषितर्पणम्—

जो ब्रह्मा के प्रपौत्र मरीचिवत् विद्वान् हो कर पढ़ावें और जो उन के सदृश विद्यायुक्त उन की स्त्रियां कन्याओं को विद्यादान देवें उन के तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उन के समान उन के सेवक हैं उन का सेवन सत्कार करना ऋषितर्पण है ॥

अथ पितृतर्पणम् ॥

ओं सोमसदः पितरस्तृप्यन्ताम् । अग्निष्वात्ताः पितर-
 स्तृप्यन्ताम् । वह्निषदः पितरस्तृप्यन्ताम् । सोमपाः पितरस्तृ-
 प्यन्ताम् । हविर्भुजः पितरस्तृप्यन्ताम् । आज्यपाः पितरस्तृ-
 प्यन्ताम् । सुकालिनः पितरस्तृप्यन्ताम् । यमादिभ्यो नमः
 यमादींस्तर्पयामि । पिते स्वधा नमः पितरं तर्पयामि । पिता-
 महाय स्वधा नमः पितामहं तर्पयामि । प्रपितामहाय स्वधा
 नमः प्रपितामहं तर्पयामि । मात्रे स्वधा नमो मातरं तर्प-
 यामि । पितामह्यै स्वधा नमः पितामहीं तर्पयामि । प्रपितामह्यै

स्वधा नमः प्रपितामहीं तर्पयामि। स्वपत्न्यै स्वधा नमः स्वपत्नीं
तर्पयामि । सम्बन्धिभ्यः स्वधा नमः सम्बन्धिनस्तर्पयामि ।
सगोत्रेभ्यः स्वधा नमः सगोत्रांस्तर्पयामि । इति पितृतर्पणम् ॥

“ये सोमे जगदीश्वरे पदार्थं विद्यायां च सीदन्ति ते सोमसद्ः” जो परमात्मा और पदार्थविद्या में निपुण हों वे सोमसद् । “यैरग्नेर्विद्युती विद्या सृहीता ते अग्निष्वात्ताः” जो अग्नि अर्थात् विद्युदादि पदार्थों के जानने वाले हैं वे अग्निष्वात्त “ये बर्हिषि उत्तमे व्यवहारे सीदन्ति ते बर्हिषद्ः” जो उत्तम विद्या वृद्धि युक्त व्यवहार में स्थित हैं वे बर्हिषद् “ये सोममैश्वर्यमोषधीरसं वा पान्ति पिबन्ति वा ते सोमपाः” जो ऐश्वर्य के रक्षक और महीषधि रस का पान करने से रोग-रहित और अन्य के ऐश्वर्य के रक्षक औषधों को दे के रोगनाशक हैं, वे सोमपाः “ये हविर्हीतुमक्षुमहं भुञ्जते भोजयन्ति वा ते हविर्भुजः” जो मादक और हिंसाकारक द्रव्यों को छोड़ के भोजन करने हारे हैं वे हविर्भुजः “य आज्यं ज्ञातुं प्राप्तुं वा योग्यं रक्षन्ति वा पिबन्ति त आज्यपाः” जो जानने के योग्य वस्तु के रक्षक और घृतदुग्धादि खाने और पीने हारे हैं वे आज्यपाः “शोभनः कालो विद्यते येषान्ते सुकालिनः” जिन का अच्छा धर्म करने का सुख रूप समय हो वे सुकालिन् “ये दुष्टान् यच्छन्ति निरुह्णन्ति ते यमान्यायाधीशाः” जो दुष्टों को दण्ड और श्रेष्ठों का पालन करने हारे न्यायकारी हैं वे यम “यः पाति स पिता” जो सन्तानों का अन्न और सत्कार से रक्षक वा जनक हो वह पिता । “पितुःपिता पितामहः पितामहस्य पिता प्रपितामहः” जो पिता का पिता हो वह पितामह और जो पितामह का पिता हो वह प्रपितामह “या मानयति सा माता” जो अन्न और सत्कारों से सन्तानों का मान्य करे वह माता “या पितुर्माता सा पितामही पितामहस्य माता प्रपितामही” जो पिता की माता हो वह पितामही और पितामह की माता हो वह प्रपितामही । अपनी स्त्री तथा भगिनीसंवन्धी और एक गोत्र के तथा अन्य कोई भद्र पुरुष वा वृद्ध हैं उन सब को अत्यन्त श्रद्धा से उत्तम अन्न वस्त्र सुन्दर यान आदि दे कर अच्छे प्रकार जो लक्ष करना अर्थात् जिस २ कर्म से उन का आत्मा लक्ष और शरीर स्वस्थ रहै उस २ कर्म से प्रीति पूर्वक उन को सेवा करनी वह श्राद्ध और तर्पण कहाता है ॥

वीथा वैश्वदेव-अर्थात् जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोजनार्थ वने उस में से खट्टा लवणान्न और चार को छोड़ के घृत मिष्ठ युक्त अन्न ले कर चूल्ह में अग्नि अलग धर निम्न लिखित मंत्रों से आहुति और भाग करे ॥

वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृह्येऽग्नौ विधिपूर्वकम् ।

आभ्यः कुर्याद्देवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम् ॥

मनु० ३।८४।

जो कुछ पाकगाला में भोजनार्थ सिद्ध हो उस का दिव्य गुणों के अर्थ उसी पाकाग्नि में निम्नलिखित मंत्रों से विधिपूर्वक होम करे ! होम करने के मंत्रः—

ओं अग्नये स्वाहा । सोमाय स्वाहा । अग्नीषोमाभ्यां
स्वाहा । विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा । धन्वन्तरये स्वाहा । कुह्वे
स्वाहा । अनुमत्यै स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । सहद्यावापृथि-
वीभ्यां स्वाहा । स्विष्टकृते स्वाहा ॥

इन प्रत्येक मंत्रों से एक २ बार आहुति प्रज्वलित अग्नि में छोड़े पश्चात् थाली अथवा भूमि में पत्ता रख के पूर्व दिशादि क्रमानुसार यथाक्रम इन मंत्रों से भाग रखेः—

ओंसानुगायन्द्राय नमः । सानुगाय यमाय नमः । सानु-
गाय वरुणाय नमः । सानुगाय सोमाय नमः । मरुद्भ्यो नमः ।
अद्भ्यो नमः । वनस्पतिभ्यो नमः । श्रियै नमः । भद्रकाल्यै
नमः । ब्रह्मपतये नमः । वास्तुपतये नमः । विश्वेभ्यो देवेभ्यो
नमः । दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः । नक्तचारिभ्यो भूतेभ्यो नमः ।
सर्वात्मभूतये नमः ॥

इन भागों को जो कोई अतिथि हो तो उस को जिमा देवे अथवा अग्नि में छोड़ देवे । इस के अनन्तर लवणात्र अर्थात् दाल, भात, शाक, रोटी, आदि ले कर छः भाग भूमि में धरे । इस में प्रमाणः—

ऽगुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम् ।

वायसानां रुमीणां च शनकैर्निर्वपेद्भुवि ॥ मनु० ३।९२॥

इस प्रकार “श्वभ्यो नमः, पतितेभ्यो नमः, श्वपचभ्यो नमः, पापरोगिभ्यो नमः, वायसेभ्यो नमः, रुमिभ्यो नमः” धर कर पश्चात् किसी दुःखी, दुर्भुजित, प्राणी

अथवा कुत्से कौवे आदि को दे देवे । यहाँ नमः शब्द का अर्थ अन्न अर्थात् कुत्से, पापी, चांडाल, पापरोगी, कौवे और कृमि अर्थात् चींटी आदि को अन्न देना यह मनुस्मृति आदि की विधि है । हवन करने का प्रयोजन यह है कि पाकशा-
लायक वायु का शुद्ध होना और जो अज्ञात अदृष्ट जीवों की हत्या होती है उस का प्रत्युपकार कर देना ॥

अब पांचवीं अतिथि सेवा-अतिथि उस को कहते हैं कि जिस की कोई तिथि निश्चित न हो अर्थात् अकस्मात् धार्मिक, सत्योपदेशक, सब के उपकारार्थ सर्वत्र घूमने वाला, पूर्णविद्वान्, परम योगी, संन्यासी गृहस्थ के यहाँ आवे तो उस को प्रथम पाद्य अर्घ्य और आचमनीय तीन प्रकार का जल दे कर पश्चात् आसन पर सत्कार पूर्वक बिठाल कर खान पान आदि उत्तमोत्तम पदार्थों से सेवा शुश्रूषा करके उन को प्रसन्न करे पश्चात् सत्सङ्ग कर उन से ज्ञान विज्ञान आदि जिन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होवे ऐसे २ उपदेशों का श्रवण करे और अपनी चाल चलन भी उन के सदुपदेशानुसार रखे ! समय पा के गृहस्थ और राजादि भी अतिथिवत् सत्कार करने योग्य हैं परन्तु :-

पाषण्डिनो विकर्मस्थान् वैडालव्रतिकान् शठान् ।

हेतुकान् वकवृत्तींश्च वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत् ॥ मनु० ४।३०

(पाषण्डी) अर्थात् वेद निन्दक वेदविरुद्ध आचरण करने वाले । (विकर्मस्थ) जो वेदविरुद्ध कर्म का कर्ता मिथ्याभाषणादियुक्त जैसे बिड़ाला छिप और स्थिर रह कर ताकता २ झपट से मूषे आदि प्राणियों को मार अपना पेट भरता है वैसे जनों का नाम- वैडालव्रतिक (शठ) अर्थात् हठी दुराग्रही अभिमानी आप जानें नहीं औरों का कहा माने नहीं (हेतुक) कुतर्की व्यर्थ बकने वाले जैसे कि आज कल के वेदान्ति बकते हैं हम ब्रह्म और जगत् मिथ्या है वेदादिशास्त्र और ईश्वर भी कल्पित है इत्यादि गपीड़े हाँकने वाले (वकवृत्ति) जैसे बक एक पैर उठा ध्यानावस्थित के समान हो कर झट मच्छी के प्राण हर के अपना स्वार्थ सिद्ध करता है वैसे आज कल के वैरागी और खाकी आदि हठी दुराग्रही वेदविरुद्धों हैं ऐसों का सत्कार वाणीमात्र से भी न करना चाहिये । क्योंकि इन का सत्कार करने से ये वृद्धि को पा कर संसार को अधर्मयुक्त करते हैं आप तो अवनति के काम करते ही हैं परन्तु साथ में सेवक को भी अविद्यारूपी महा-सागर में डूबा देते हैं इन पाँच महायज्ञों का फल यह है कि ब्रह्मयज्ञ के करने से विद्या, शिखा, धर्म सभ्यता आदि शुभ गुणों की वृद्धि । अग्निहोत से वायु,

त्रिष्वप्येतेषु दत्तं हि विधिनाप्यर्जितं धनम् ।

दातुर्भद्रत्यनर्थाय परत्रादातुरेव च ॥ मनु० ४ । १९३ ॥

जो धर्म से प्राप्त हुए धन का उक्त तीनों को देना है वह दान दाता का नाश इसी जन्म और लेने वाले का नाश परजन्म में करता है ॥ जो वे ऐसे हीं तो क्या है:-

यथा प्लुवेनौपलेन निमज्जत्युदके तरन् ।

तथा निमज्जतोऽधस्तादज्ञौ दातृप्रतीच्छकौ ॥ म० ४ । १९४ ॥

जैसे पत्थर को नौका में बैठ के जल में तरने वाला डूब जाता है वैसे अज्ञानी दाता और गहीता दोनों अधोगति अर्थात् दुःख को प्राप्त होते हैं ॥

पाखंडियों के लक्षण ।

धर्मध्वजी सदालुब्धश्छाद्विको लोकदम्भकः ।

वैडालव्रतिको ज्ञेयो हिंस्रः सर्वाभिसंधकः ॥

अधोदृष्टिर्नैष्कृतिकः स्वार्थसाधनतत्परः ।

शठो मिथ्याविनीतश्च वक्रव्रतचरो हिजः ॥

मनु० ४ । १९५ । १९६ ॥

(धर्मध्वजी) धर्म कुछ भी न करे परन्तु धर्म के नाम से लोगों को ठगे (सदा लुब्धः) सर्वदा लोभ से युक्त (छाद्विक) कपटो (लोकदम्भकः) संसारो मनुष्य के सामने अपना बड़ाई के गपोड़े मारा करे (हिंस्रः) प्राणियों का घातक अन्य से वैरवृद्धि रखने वाला (सर्वाभिसन्धकः) सब अच्छे और बुरों से भी मेल रखे उस को वैडालव्रतिक अर्थात् निडाले के समान धूर्त और नीच समझो । (अधो-दृष्टि) कीर्ति के लिये नीचे दृष्टि रखे (नैष्कृतिकः) ईर्ष्यक किसी ने उसका पैसा भर अपराध किया है तो उस का बदला प्राण तक लेने को तत्पर रहे (स्वार्थसाधन०) चाहें कपट अधर्मविश्वासघात क्यों न हो अपना प्रयोजन साधने में चतुर (शठ) चाहें अपनी बात झूठी क्यों न हो परन्तु हठ कभी न छोड़े (मिथ्यावि-नीतः) झूठ सूँठ ऊपर से शील सन्तोष और साधुता दिखलावे उस को (वक्र-व्रत) वगुले के समान नीच समझो ऐसे २ लक्षणों वाले पाखण्डो होते हैं उन का विश्वास वा सेवा कभी न करें ॥

धर्मं ज्ञानः सञ्चिनुयाद्दल्मोकामिव पुत्तिकाः ।
 परलोकसहायार्थं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥
 नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः ।
 न पुत्रदारं न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठति केवलः ॥
 एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते ।
 एकोऽनु भुङ्क्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम् ॥

म० ४ । २३८-२४० ॥

एकः पापानि कुरुते फलं भुङ्क्ते महाजनः ।
 भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्त्ता दोषेण लिप्यते ॥

महाभारते उद्योगपर्वान्तर्गत प्रजागरपर्वणि ॥ अ० ३२ ॥

मृतं शरीरमुत्तमृज्य काष्ठलोष्टसमं क्षितौ ।

विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ म० ४।२४३ ॥

स्त्री और पुरुष को चाहिये कि जैसे पुत्तिका अर्थात् दौमक वन्मोक अर्थात् बांमो को बनाती है वैसे सब भूतों को पीड़ा न दे कर परलोक अर्थात् परलोक के सुखार्थ धीरे २ धर्म का संवय करे ॥ क्योंकि परलोक में न माता न पिता न पुत्र स्त्री न ज्ञाति सहाय कर सकते हैं किन्तु एक धर्म ही सहायक होता है देखिये अकेला ही जीव जन्म और मरण को प्राप्त होता एक ही धर्म का फल जो सुख और अधर्म का दुःखरूप फल उस को भोगता है ॥ यह भी समझ लो कि कुटुम्ब में एक पुरुष पाप करके पदार्थ लाता है और महाजन अर्थात् सब कुटुम्ब उस को भोगता है भोगने वाले दोषभागो नहीं होते किन्तु अधर्म का कर्त्ता ही दोष का भागो होता है ॥ जब कोई किसी का संबंधी मर जाता है उस को मटो के डेले के समान भूमि में छोड़ कर पीठ दे बन्धुवर्ग विमुख हो कर चले जाते हैं कोई उस के साथ जाने वाला नहीं होता किन्तु एक धर्म ही उस का सङ्गी होता है ॥

तस्माद्धर्मं सहायार्थं नित्यं सञ्चिनुयाच्छनैः ।
 धर्मैण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम् ॥

त्रिष्वप्येतेषु दत्तं हि विधिनाप्यर्जितं धनम् ।

दातुर्भवत्यनर्थाय परत्रादातुरेव च ॥ मनु० ४।१९३ ॥

जो धर्म से प्राप्त हुए धन का उक्त तीनों को देना है वह दान दाता का नाश इसी जन्म और लेने वाले का नाश परजन्म में करता है ॥ जो वे ऐसे हीं तो क्या है:-

यथा ध्रुवेनौपलेन निमज्जत्युदके तरन् ।

तथा निमज्जतोऽधस्तादज्ञौ दातृप्रतीच्छकौ ॥ म० ४।१९४ ॥

जैसे पत्थर की नौका में बैठ के जल में तरने वाला डूब जाता है वैसे अज्ञानी दाता और गहीता दोनों अधोगति अर्थात् दुःख को प्राप्त होते हैं ॥

पाखंडियों के लक्षण ।

धर्मध्वजी सद्दालुब्धश्छाद्रिको लोकदम्भकः ।

वैडालव्रतिको ज्ञेयो हिंस्रः सर्वाभिसन्धकः ॥

अधोदृष्टिर्नैष्कृतिकः स्वार्थसाधनतत्परः ।

शठो मिथ्याविनीतश्च वक्रव्रतचरो द्विजः ॥

मनु० ४।१९५।१९६ ॥

(धर्मध्वजी) धर्म कुछ भी न करे परन्तु धर्म के नाम से लोगों को ठगे (सद्दालुब्धः) सर्वदा लोभ से युक्त (छाद्रिक) कपटी (लोकदम्भकः) संसारी मनुष्य के सामने अपनी बड़ाई के गपोड़े मारा करे (हिंस्रः) प्राणियों का घातक अन्य से वैरवृद्धि रखने वाला (सर्वाभिसन्धकः) सब अच्छे और बुरों से भी मेल रखे उस को वैडालव्रतिक अर्थात् विडाले के समान धूर्त और नीच समझो । (अधोदृष्टि) कीर्ति के लिये नीचे दृष्टि रखे (नैष्कृतिकः) ईर्ष्यक किसी ने उसका पैसा भर अपराध किया ही तो उस का बदला प्राण तक लेने को तत्पर रहे (स्वार्थसाधन०) चाहें कपट अधर्मविश्वासघात क्यों न हो अपना प्रयोजन साधने में चतुर (शठ) चाहें अपनी बात झूठी क्यों न हो परन्तु हठ कभी न छोड़े (मिथ्याविनीतः) झूठ झूठ ऊपर से झील सन्तोष और साधुता दिखलावे उस को (वक्रव्रत) वगुले के समान नीच समझो ऐसे २ लक्षणों वाले पाखण्डों होते हैं उन का विश्वास वा सेवा कभी न करें ॥

धर्म शैलः सञ्चिनुयाहल्मीकमिव पुत्तिकाः ।
 परलोकसहायार्थं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥
 नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः ।
 न पुत्रदारं न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठति केवलः ॥
 एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते ।
 एकोनु भुङ्क्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम् ॥

म० ४ । २३८-२४० ॥

एकः पापानि कुरुते फलं भुङ्क्ते महाजनः ।
 भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्त्ता दोषेण लिप्यते ॥

महाभारते उद्योगपर्वान्तर्गत प्रजागरपर्वणि ॥ अ० ३२ ॥

सृष्टं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्टसमं क्षितौ ।

विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ अ० ४।२४३ ॥

स्त्री और पुरुष को चाहिये कि जैसे पुत्तिका अर्थात् दौमक वल्मीक अर्थात् बांमी को बनाती है वैसे सब भूतों को पीड़ा न दे कर परलोक अर्थात् परजन्म के सुखार्थ धीरे २ धर्म का संचय करे ॥ क्योंकि परलोक में न माता न पिता न पुत्र स्त्री न ज्ञाति सहाय कर सकते हैं किन्तु एक धर्म ही सहायका होता है देखिये अकेला ही जीव जन्म और मरण को प्राप्त होता एक ही धर्म का फल जो सुख और अधर्म का दुःखरूप फल उस को भोगता है ॥ यह भी समझ लो कि कुटुम्ब में एक पुरुष पाप करके पदार्थ लाता है और महाजन अर्थात् सब कुटुम्ब उस को भोगता है भोगने वाले दोषभागी नहीं होते किन्तु अधर्म का कर्त्ता ही दोष का भागी होता है ॥ जब कोई किसी का संबंधी मर जाता है उस को मटो के ढेले के समान भूमि में छोड़ कर पीठ दे बन्धुवर्ग विमुख हो कर चले जाते हैं कोई उस के साथ जाने वाला नहीं होता किन्तु एक धर्म ही उस का सङ्गी होता है ॥

तस्माद्धर्म सहायार्थं नित्यं सञ्चिनुयाच्छनैः ।
 धर्मैण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम् ॥

धर्मप्रधानं पुरुषं तपसा हतकिल्बिषम् ।
 परलोकं नयत्याशु भास्वन्तं स्वशरीरिणम् ॥
 म० ४ । २४२ । २४३ ॥

उस हेतु से परलोक अर्थात् परजन्म में सुख और जन्म के सहायार्थ नित्यधर्म का सञ्चय धीरे २ करता जाय क्योंकि धर्म ही के सहाय से बड़े दुस्तर दुःखसागर को जीव तर सकता है ॥ किन्तु जो पुरुष धर्म ही को प्रधान समझता जिस का धर्म के अनुष्ठान से कर्त्तव्य प्राप दूर होगया उस को प्रकाश स्वरूप और आकाश जिस का शरीरवत् है उस परलोक अर्थात् परदर्शनीय परमात्मा को धर्म ही शीघ्र प्राप्त कराता है ॥ इस लिये—

दृढकारी सृदुर्दान्तः क्रूराचारैरसंवसन् ।
 अहिंसो दमदानाभ्यां जयेत्स्वर्गं तथावतः ॥
 वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्विनिःसृताः ।
 तान्तु यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयकृन्नरः ॥
 आचाराद्धमते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः ।
 आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम् ॥
 म० ४ । २४६ । २५६ । १५६ ॥

सदा दृढकारी कोमल स्वभाव जितेन्द्रिय हिंसक क्रूर दुष्टाचारो पुरुषों से पृथक् रहने द्वारा धर्मात्मा मन को जीतने और विद्यादि दान से सुख को प्राप्त होवे ॥ परन्तु यह भी ध्यान में रखे कि जिस वाणी में अर्थ अर्थात् व्यवहार निहित होते हैं वह वाणी ही उन का मूल और वाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं उस वाणी को जो खीरता अर्थात् मिथ्याभाषण करता है वह सब खीरो आदि पापों का करने वाला है ॥ इस लिये मिथ्याभाषणादि रूप अधर्म को छोड़ जो धर्माचार अर्थात् ब्रह्मचर्य जितेन्द्रियता से पूर्ण आयु और धर्माचार से उत्तम प्रजा तथा अक्षय धन को प्राप्त होता है तथा जो धर्माचार में वर्ण कर दुष्ट लक्षणों का नाश करता है उस के आश्रय को सदा किया करे ॥ क्योंकि—

दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः ।
 दुःस्वभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥ म० ४ । १५७

जो दुष्टाचारो पुरुष है वह संसार में सज्जनों के मध्य में निन्दा को प्राप्त दुःख-
भागी और निरन्तर व्याधियुक्त हो कर अत्यायु का भी भोगने हारा होता है ॥
इस लिये ऐसा प्रयत्न करे:—

यद्यत्परवशं कर्म तत्तद्यत्नेन वर्जयेत् ।

यद्यदात्मवशं तु स्यात्तत्तत्सेवेत यत्नतः ॥

सर्वे परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् ।

एतद्द्विधात्ममासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥

म० ४ । १५९ । १६० ॥

जो २ पराधीन कर्म हो उस २ का प्रयत्न से त्याग और जो २ स्वाधीन कर्म
हो उस २ का प्रयत्न के साथ सेवन करे ॥ क्योंकि जो २ पराधीनता है वह २
सब दुःख और जो २ स्वाधीनता है वह २ सब सुख यही संक्षेप से सुख और
दुःख का लक्षण जानना चाहिये ॥ परन्तु जो एक दूसरे के आधीन काम है
वह २ आधीनता से ही करना चाहिये जैसा कि स्त्री और पुरुष का एक दूसरे
के आधीन व्यवहार अर्थात् स्त्री पुरुष का और पुरुष स्त्री का प्रस्पर प्रियाचरण
अनुकूल रहना व्यभिचार वा विरोध कभी न करना पुरुष की आज्ञानुकूल घर के
काम स्त्री और बाहर के काम पुरुष के आधीन रहना दुष्ट व्यसन में फसने से
एक दूसरे को रोकना अर्थात् यही निश्चय जानना । जब विवाह होवे तब स्त्री
के साथ पुरुष और पुरुष के साथ स्त्री बिकसुको अर्थात् जो स्त्री और पुरुष के
साथ हाव, भाव, नखशिखाद्य पर्यन्त कुछ हैं वह वीर्गादि एक दूसरे के आधीन
हो जाता है स्त्री वा पुरुष प्रसन्नता के बिना कोई भी व्यवहार न करें इनमें बड़े
अप्रियकारक व्यभिचार वेश्या परपुरुषगमनादि काम हैं इन को छोड़ के अपने
पति के साथ स्त्री और स्त्री के साथ पति सदा प्रसन्न रहें । जो ब्राह्मणवर्णस्थ हों
तो पुरुष लड़कों को पढ़ावे तथा सुशिक्षिता स्त्री लड़कियों को पढ़ावे नानाविध
उपदेश और वक्तृत्व करके उन को विद्वान् करे स्त्री का पूजनीय देव पति और
पुरुष की पूजनीय अर्थात् सत्कार करने योग्य देवी स्त्री है जब तक गुरुकुल में रहें
तब तक माता पिता के समान अध्यापकों को समझे और अध्यापक अपने
सन्तानों के समान शिष्यों को समझे पढ़ाने हारे अध्यापक और अध्यापिका कैसे
होने चाहिये:—

आत्मज्ञानं समारम्भस्तितिज्ञां धर्मनित्यता ।

यमर्थान्नापकर्षन्ति स वै पण्डित उच्यते ॥

निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते ।

अनास्तिकः श्रद्धधान एतत्पण्डितलक्षणम् ॥

क्षिप्रं विजानातिचिरं गृणोति, विज्ञाय चार्थं भजते न कामात् ।
नासम्पृष्टो ह्युपयुङ्क्ते परार्थे, तत्प्रज्ञानं प्रथमं पण्डितस्य ॥

नाप्राप्यमभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम् ।

आपत्सु च न मुह्यन्ति नराः पण्डितबुद्धयः ॥

प्रवृत्तवाक् चित्रकथ ऊहवान् प्रतिभानवान् ।

आगु ग्रन्थस्य वक्ता च यः स पण्डित उच्यते ॥

श्रुतं प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा ।

असंभिन्नार्थमर्यादः पण्डिताख्यां लभेत सः ॥

ये सब महाभारत उद्योग पर्व विदुरप्रजागर अ० ३२ के श्लोक हैं । (अर्थ)
जिस को आत्मज्ञान सम्यक् आरम्भ अर्थात् जो निकम्मा आलसी कभी न रहे सुख,
दुःख, हानि, लाभ, मानापमान, निन्दा, स्तुति में हर्ष, शोक कभी न करे धर्म
ही में नित्य निश्चित रहे जिस के मन को उत्तम २ पदार्थ अर्थात् विषय सम्वन्धी
बस्तु आकर्षण न कर सके वही पण्डित कहाता है ॥ सदा धर्मयुक्त कर्मों का
सेवन, अधर्मयुक्त कामों का त्याग, ईश्वर, वेद, संत्याचार को निन्दा न करने हारा
ईश्वर आदि में अत्यन्त श्रद्धालु ही वही पण्डित का कर्त्तव्याकर्त्तव्य कर्म है ॥ जो
कठिन विषय को भी शीघ्र जान सके बहुत कालपर्यन्त शास्त्रों को पढ़े सुने और
विचारे जो कुछ जाने उस को परोपकार में प्रयुक्त करे अपने स्वार्थ के लिये कोई
काम न करे बिना पूछे वा बिना योग्य समय जाने दूसरे के अर्थ में सम्मति न दे
वही प्रथम प्रज्ञान पण्डित को होना चाहिये ॥ जो प्राप्ति के अयोग्य को इच्छा
कभी न करे नष्ट हुए पदार्थ पर शोक न करे आपत्काल में मोह को न प्राप्त
अर्थात् व्याकुल न हो वही बुद्धिमान् पण्डित है ॥ जिस को बापों सब विद्याओं
और प्रशोत्तरों के करने में अतिनिपुण विचित्र शास्त्रों के प्रकारणों का वक्ता यथा-
योग्य तर्क और स्मृतिमान् ग्रन्थों के यथार्थ अर्थ का शीघ्र वक्ता ही वही पण्डित
कहाता है ॥ जिस को प्रज्ञा सुने हुए सत्य अर्थ के अनुकूल और जिस का अरण्य
बुद्धि के अनुसार ही जो कभी आर्य अर्थात् श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों को मर्यादा का
छेदन न करे वही पण्डित संज्ञा को प्राप्त होवे ॥ जहां ऐसे २ स्त्री पुरुष पढ़ाने

वाले होते हैं वहां विद्या धर्म और उत्तमाचार की वृद्धि हो कर प्रतिदिन आनन्द ही बढ़ता रहता है । पढ़ने में अयोग्य और सूख के लक्षणः—

अश्रुतश्च समुन्नद्धो दरिद्रश्च महामनाः ।

अर्थाश्चाऽकर्मणा प्रेप्सुर्मूढ इत्युच्यते बुधैः ॥

अनाहूतः प्रविशति ह्यष्टष्टो बहु भापते ।

अविश्वस्ते विश्वसिति मूढचेता नराधमः ॥

ये श्लोक भी महाभारत उद्योगपर्व विदुरप्रजागर अ० ३२ के हैं—(अर्थ) जिस ने कोई शास्त्र न पढ़ा न सुना और अतीव घमण्डी दरिद्र होकर बड़े २ मनोरथ करने हारा विना कर्म से पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा करने वाला हो उसी की बुद्धिमान् लोग मूढ़ कहते हैं ॥ जो विना बुलाये सभा वा किसी के घर में प्रविष्ट हो उच्च बैठना चाहे विना पूछे सभा में बहुत सा बके विश्वास के अयोग्य वस्तु वा मनुष्य में विश्वास करे वही मूढ़ और सब मनुष्यों में नीच मनुष्य कहता है ॥ वहां ऐसे पुरुष अध्यापक उपदेशक गुरु और माननीय होते हैं वहां अविद्या, अधर्म, असभ्यता, कलह, विरोध और फूट बढ़ के दुःख हो बढ़ जाता है । अब विद्यार्थियों का लक्षणः—

आलस्यं मदमोहौ च चापलं गोष्ठिरेव च ।

स्तब्धता चाभिमानित्वं तथा त्यागित्वमेव च ।

एते वै सप्त दोषाः स्युः संदा विद्यार्थिनां मताः ॥

सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम् ।

सुखार्थी वा त्यजेद्द्विधां विद्यार्थी वा त्यजेत्सुखम् ॥

ये भी विदुरप्रजागर अ० ३६ के श्लोक हैं—(आलस्य) शरीर और बुद्धि में जड़ता नशा मोह किसी वस्तु में फमावट नपलता और इधर उधर की व्यर्थ कथा करना सुनना पढ़ते पढ़ाते रुक जाना अभिमानी अत्यागी होना ये सात दोष विद्यार्थियों में होते हैं ॥ जो ऐसे हैं उन को विद्या भी नहीं आती ॥ सुख भोगने की इच्छा करने वाले को विद्या कहां ? और विद्या पढ़ने वाले को सुख कहां ? क्योंकि विषय सुखार्थी विद्या को और विद्यार्थी विषयसुख को छोड़ दे ॥ ऐसे किये विना विद्या कभी नहीं हो सकती और ऐसे को विद्या होती है :—

सत्ये रतानां सततं दान्तानामूर्ध्वरेतसाम् ।

ब्रह्मचर्यं दहेद्राजन् सर्वपापान्युपासितम् ॥

जो सदा सत्याचार में प्रवृत्त जितेन्द्रिय और गिन का योग्य अधःस्वल्पित कामो न हो उन्हीं का ब्रह्मचर्य सच्चा और वे ही विद्वान् होते हैं ॥ इस लिये शुभलक्षण-युक्त अध्यापक और विद्यार्थियों को होना चाहिये अध्यापक लोग ऐसा यत्न किया करें जिस से विद्यार्थी लोग सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारो, सभ्यता, जितेन्द्रियता सुशीलतादि शुभगुणयुक्त शरीर और आत्मा का पूर्णवत्त बढ़ा के समग्र वेदादिशास्त्रों में विद्वान् हैं सदा उन को कुचेष्टा कुड़ाने में और विद्या पढ़ाने में चेष्टा किया करें । और विद्यार्थी लोग सदा जितेन्द्रिय शान्त पढ़ने हारों में प्रेम विचारशील परिश्रमी हों कर ऐसा पुरुषार्थ करें जिस से पूर्णविद्या, पूर्णआयु, परि पूर्ण धर्म और पुरुषार्थ करना आजाय इत्यादि ब्राह्मण वर्णों के काम हैं । क्षत्रियों का कर्म राजधर्म में कहेंगे वैश्य देशों की भाषा नाना प्रकार के व्यापार की रीति उन के भाव जानना, वेचना, खरीदना, हीपहीपान्तर में जाना आना लाभार्थ काम का आरम्भ करना पशुपालन और खेतों की उन्नति चतुराई से करनी करानो धन का बढ़ाना विद्या और धर्म को उन्नति में व्यय करना सत्यवादी निष्कपटी हो कर सत्यता से सब व्यापार करना सब वस्तुओं को रक्षा ऐसी करनी जिस से कोई गष्ट न होने पावे । शूद्र सब सेवाओं में चतुर पाकविद्या में निपुण अतिप्रेम से द्विजों की सेवा और उन्हीं से अपनी उपजीविका करे और द्विज लोग इस के खान, पान, वस्त्र, स्थान, विवाहादि में जो कुछ व्यय हो सब कुछ देवे अथवा मासिक कर देवे चारों वर्णों को परस्पर प्रीति, उपकार, सज्जनता, सुख, दुःख, हानि, लाभ में ऐकमत्य रह कर राज्य और प्रजा की उन्नति में तन, मन, धन का व्यय करते रहना और स्त्री वा पुरुष का वियोग कभी न होना चाहिये क्योंकि:-

पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम् ।

स्वप्नोन्यगेहवासश्च नारीसन्दूपणानि पट् ॥ स० १११३ ॥

मद्य मांस आदि मादक द्रव्यों का पीना, दुष्ट पुरुषों का सङ्ग, पतिवियोग, अज्ञेयता जहां तहां व्यर्थ पाखण्डों आदि के दर्शन के मिस से फिरती रहना और पराये घर में जा के शयन करना वा वास ये कः स्त्री को दूषित करने वाले दुर्गुण हैं । और ये पुरुषों के भी हैं । पति और स्त्री का वियोग दो प्रकार का होता है कहीं कार्यार्थ देशान्तर में जाना और दूसरा मृत्यु से वियोग होना इन में से प्रथम का उपाय यही है कि दूरदेश में यात्रार्थ जावे तो स्त्री को भी साथ रखे इस का

प्रयोजन यह है कि बहुत समय तक वियोग न रहना चाहिये (प्रश्न) स्त्री और पुरुष के बहुत विवाह होने योग्य हैं वा नहीं? (उत्तर) युगपत् न अर्थात् एक समय में नहीं (प्रश्न) क्या समयान्तर में अनेक विवाह होने चाहिये? (उत्तर) हाँ जैसे :—

सा चेदक्षतयोनिः स्याद्गतप्रत्यागतापि वा ।

पौनर्भवेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारमर्हति ॥ स० १/१७टी

जिस स्त्री वा पुरुष का पाणिग्रहणमात्र संस्कार हुआ हो और संयोग न हुआ हो अर्थात् अक्षतयोनि स्त्री और अक्षतवीर्य पुरुष हो उन का अन्य स्त्री वा पुरुष के साथ पुनर्विवाह होना चाहिये किन्तु ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्णों में क्षत-योनि स्त्री क्षतवीर्य पुरुष का पुनर्विवाह न होना चाहिये । (प्रश्न) पुनर्विवाह में क्या दोष है? (उत्तर) (पहिला) स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून होना क्योंकि जब चाहे तब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष छोड़ कर दूसरे के साथ सम्बन्ध कर ले (दूसरा) जब स्त्री या पुरुष पति स्त्री मरने के पश्चात् दूसरा विवाह करना चाहें तब प्रथम स्त्री के पूर्व पति के पदार्थों को उड़ाके जाना और उन के कुटुम्ब वालों का उन से झगडा करना (तीसरा) बहुत से भद्रकुल का नाम वा चिह्न भी न रह कर उस के पदार्थ छिन्न भिन्न हो जाना (चौथा) पातिव्रत और श्रौत्रत धर्म मष्ट होना इत्यादि दोषों के अर्थ हिलों में पुनर्विवाह वा अनेक विवाह कभी न होना चाहिये (प्रश्न) जब वंशच्छेदन हो जाय तब भी उस का कुल नष्ट हो जाय गा और स्त्री पुरुष व्यभिचारादि में गृह्य हो के गर्भपातनादि बहुत दुष्ट कर्म करेंगे इस लिये पुनर्विवाह होना अच्छा है (उत्तर) नहीं २ क्योंकि जो स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य में स्थित रहना चाहे तो कोई भी उपद्रव न होगा और जो कुल की परस्पर रखने के लिये किसी अपने सजाति का लड़का गोद ले लेगे उस से कुल चलेगा और व्यभिचार भी न होगा और जो ब्रह्मचर्य न रख सके तो नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर लें (प्रश्न) पुनर्विवाह और नियोग में क्या गैर है? (उत्तर) पहिला जैसे विवाह करने में कन्या अपने पिता का घर छोड़ पति के घर को प्राप्त होती है और पिता से विशेष सम्बन्ध नहीं रहता और विधवा स्त्री उसी विवाहित पति के घर में रहती है (दूसरा) उसी विवाहिता स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दायभागी होते हैं और विधवा स्त्री के लड़के वीर्यदाता के न पुत्र कहलाते न उस का गोत्र होता और न उस का स्वत्व उन लड़कों पर रहता किन्तु वे स्वन पति के पुत्र बन्धते उसी का गोत्र रहता और उसी के पदार्थों के दायभागी हो कर उसी घर में रहते हैं (तीसरा) विवाहित स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा और पालन करना अवश्य है

और नियुक्त स्त्री पुरुष का कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता (चौथा) विवाहित स्त्री पुरुष का सम्बन्ध मरण पर्यन्त रहता और नियुक्त स्त्री पुरुष का कार्य के पश्चात् छूट जाता है (पांचवां) विवाहित स्त्री पुरुष आपस में गृह के कार्यों को सिद्धि करने में यत्न किया करते और नियुक्त स्त्री पुरुष अपने घर के काम किया करते हैं (प्रश्न) विवाह और नियोग के नियम एक से हैं वा पृथक् २? (उत्तर) कुछ थोड़ा सा भेद है जितने पूर्व कह आये और यह कि विवाहित स्त्री पुरुष एक पति और एक ही स्त्री मिल के दश सन्तान उत्पन्न कर सकते हैं और नियुक्त स्त्री पुरुष दो वा चार से अधिक सन्तानोत्पत्ति नहीं कर सकते अर्थात् जैसा कुमार कुमारी ही का विवाह होता है वैसे जिस की स्त्री वा पुरुष मर जाता है उन्हीं का नियोग होता है कुमार कुमारी का नहीं। जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा सङ्ग में रहते हैं वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं किन्तु विना ऋतुदान के समय एकत्र न हों जो स्त्री अपने लिये नियोग करे तो जब दूसरा गर्भ रहे उसी दिन से स्त्री पुरुष का सम्बन्ध छूट जाय और जो पुरुष अपने लिये करे तो भी दूसरे गर्भ रहने से सम्बन्ध छूट जाय परन्तु वही नियुक्त स्त्री दो तीन वर्ष पर्यन्त उन लड़कों का पालन करके नियुक्त पुरुष को दे देवे ऐसे एक विधवा स्त्री दो अपने लिये और दो २ अन्य चार नियुक्त पुरुषों के लिये सन्तान कर सकती और एक मृतस्त्रीक पुरुष भी दो अपने लिये और दो २ अन्य २ चार विधवाओं के लिये पुत्र उत्पन्न कर सकता है ऐसे मिल कर दश २ सन्तानोत्पत्ति की आज्ञा वेद में है ।

इमां त्वमिन्द्रमिदुः सुपुत्रां सुभगां कृणु ।

दशाह्यां पुत्रानार्थेहि पतिमेकादशं कृधि ॥

ऋ० ॥ मं० १० । सू० ८५ । मं० ४५ ॥

हे (मीढू, इन्द्र) वीर्य सिंचने में समर्थ ऐश्वर्ययुक्त पुरुष तू इस विवाहित स्त्री वा विधवा स्त्रियों को श्रेष्ठ पुत्र और सौभाग्ययुक्त कर इस विवाहित स्त्री में दश पुत्र उत्पन्न कर और ग्यारहवीं स्त्री को मान । हे स्त्री ! तू भी विवाहित पुरुष वा नियुक्त पुरुषों से दश सन्तान उत्पन्न कर और ग्यारहवें पति को समझ । इस वेद की आज्ञा से ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यवर्णस्य स्त्री और पुरुष दश दश सन्तान से अधिक उत्पन्न न करें क्योंकि अधिक करने से सन्तान निर्बल, निर्वृद्धि, अन्यायु होते हैं और स्त्री तथा पुरुष भी निर्बल अन्यायु और रोगी हो कर वृद्धावस्था में बहुत से दुःख पाते हैं (प्रश्न) यह नियोग की बात व्यभिचार के समान दृश्यती है (उत्तर) जैसे विना विवाहितों का व्यभिचार होता है वैसे विना नियुक्तों का

व्यभिचार कहाता है इस से यह सिद्ध हुआ कि जैसा नियम से विवाह होने पर व्यभिचार नहीं कहाता तो नियम पूर्वक नियोग होने से व्यभिचार न कहावे गा जैसे दूसरे की कन्या का दूसरे कुमार के साथ शास्त्रोक्त विधिपूर्वक विवाह होने पर समागम में व्यभिचार वा पाप लज्जा नहीं हातो वैसे ही वेद शास्त्रोक्त नियोग में व्यभिचार पाप लज्जा न मानना चाहिये (प्रश्न) है तो ठीक परन्तु यह वेश्या के सदृश कर्म दीखता है ! (उत्तर) नहीं क्योंकि वेश्या के समागम में किसी निश्चित पुरुष वा कोई नियम नहीं है और नियोग में विवाह के समान नियम हैं जैसे दूसरे को लड़की देने दूसरे के साथ समागम करने में विवाह पूर्वक लज्जा नहीं हाती वैसे ही नियोग में भी न हाँनी चाहिये । क्या जो व्यभिचारो पुरुष वा स्त्री हाती हैं वे विवाह होने पर भी कुकर्ष से बचते हैं ? (प्रश्न) हम को नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता है (उत्तर) जो नियोग की बात में पाप मानते हैं तो विवाह में पाप क्यों नहीं मानते ? पाप तो नियोग के रोकने में है क्योंकि ईश्वर के सृष्टि क्रमानुकूल स्त्री पुरुष का स्वाभाविक व्यवहार रुक ही नहीं सकता सिवाय वैराग्यवान् पूर्णविद्वान् योगियों के । क्या गर्भपातनरूप भ्रूणहत्या और विधवा स्त्री और मृतक स्त्री पुरुषों के महासन्ताप को पाप नहीं गिनते ही ? क्योंकि जब तक वे युवावस्था में हैं मन में सन्तानोत्पत्ति और विषय की चाहना होने वालों को किसी राजव्यवहार वा जातिव्यवहार से रुकावट होने से गुप्त २ कुकर्म बुरीचाल से हाते रहते हैं इस व्यभिचार और कुकर्म के रोकने का एक यही श्रेष्ठ उपाय है कि जो जितेन्द्रिय रह सकें किन्तु विवाह वा नियोग भी न करें तो ठीक है परन्तु जो ऐसे नहीं हैं उन का विवाह और आपत्काल में नियोग अवश्य हाँना चाहिये इस से व्यभिचार का न्यून हाँना प्रेम से उत्तम सन्तान हाँ कर मनुष्यों की वृद्धि हाँना सम्भव है और गर्भहत्या सर्वथा छूट जाती है । नीच पुरुषों से उत्तम स्त्री और वेश्यादि नीच स्त्रियों से उत्तम पुरुषों का व्यभिचाररूप कुकर्म उत्तम कुल में कलह, वंश, का उच्छेद स्त्रीपुरुषों को सन्ताप और गर्भहत्यादि कुकर्म विवाह और नियोग से निवृत्त हाँते हैं इस लिये नियोग करना चाहिये (प्रश्न) नियोग में क्या २ बात हाँनी चाहिये ? (उत्तर) जैसे प्रसिद्धि से विवाह, वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग, जिस प्रकार विवाह में भद्र पुरुषों की अनुमति और कन्या वर की प्रसन्नता हाँती है वैसे नियोग में भी, अर्थात् जब स्त्री पुरुष का नियोग हाँना हो तब अपने कुटुम्ब में पुरुष स्त्रियों के सामने हम हाँनों नियोग सन्तानोत्पत्ति के लिये करते हैं जब नियोग का नियम पूरा हाँगा तब हम संयोग न करेंगे जो अन्यथा करें तो पापी और जाति वा राज्य के दूषणीय हाँ। महीने २ में एक बार गर्भाधान का काम करेंगे, गर्भ रहे पक्षात्

(कुहाभिपित्वम्) कहां पदार्थों को प्राप्ति (करतः) कौ ? और (कुहोषतुः) किस समय कहां वास करते थे ? (को वां श्रयुता) तुम्हारा श्रयन स्थान कहां है ? तथा कौन वा किस देश के रहने वाले हो ? इस से यह सिद्ध हुआ कि देश विदेश में स्त्री पुरुष सङ्ग ही में रहें । और विवाहित पति के समान नियुक्त पति को ग्रहण करके विधवा स्त्री भी सन्तानोत्पत्ति कर लेवे (प्रश्न) यदि किसी का छोटा भाई ही न हो तो विधवा नियोग किस के साथ करे ? (उत्तर) देवर के साथ परन्तु देवर शब्द का अर्थ जैसा तुम समझे हो वैसा नहीं देखो निरुक्त में :-

देवरः कस्माद् द्वितीयो वर उच्यते ॥ निरु० ॥ अ० ३ । खण्ड १५ ॥

देवर उस को कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होता है चाहे छोटा भाई वा बड़ा भाई अथवा अपने वर्ण वा अपने से उत्तम वर्ण वाला हो जिस से नियोग करे उसी का नाम देवर है ॥

हे (नारि) विधवे तू (एतं गतासुम्) इस मरे हुए पति की आशा छोड़ के (श्रेष्ठे) बाकी पुरुषों में से (अभि, जीवलोक्तम्) जीते हुए दूसरे पति को (उपैहि) प्राप्त हो और (उदीर्ष्व) इस बात का विचार और निश्चय रख कि जो (हस्त-
भ्राभस्य दिधिषोः) तुम्हें विधवा के पुनः पाणिग्रहण करने वाले नियुक्त पति के सम्बन्ध के लिये नियोग होगा तो (इदम्) यह (कनित्वम्) जना हुआ बालक उसी नियुक्त (पत्युः) पति का होगा और जो तू अपने लिये नियोग करेगी तो यह सन्तान (तव) तेरा होगा । ऐसे निश्चय युक्त (अभि, सं, वशूथ) हो और नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे ॥ १ ॥

**अदेवृष्टयपतिघ्नीहैधि शिवा पशुभ्यः सुयमाः सुवर्चाः ।
प्रजावती वीरसूदेवृकामा स्योनेममग्निं गार्हपत्यं सपर्य ॥
अथर्व० ॥ कां १४ । अनु० २ । मं० १८ ॥**

हे (अपतिघ्नदेवघ्नि) पति और देवर को दुःख न देने वाली स्त्री तू (इह) इस गृहाश्रम में (पशुभ्यः) पशुओं के लिये (शिवा) कल्याण करने हारी (सुयमाः) अच्छे प्रकार धर्म नियम में चलने (सुवर्चाः) रूप और सर्वशाल विद्यायुक्त (प्रजावती) उत्तम पुत्र पौत्रादि से सहित (वीरसूः) शूरवीर पुत्रों को जनने (देवकामा) देवर की कामना करने वाली (स्योना) और सुख देने हारी पति वा देवर को (एधि) प्राप्त हो के (इभम्) इस (गार्हपत्यम्) गृहस्थ सम्बन्धी (अग्निम्) अग्निहोत्र को (सपर्य) सेवन किया कर ।

तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ मनु० ९।६९।

जो अक्षतयोनि स्त्री विधवा हो जाय तो पति का निज छोटा भाई भी उस से विवाह कर सकता है (प्रश्न) एक स्त्री वा पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं और विवाहित नियुक्त पतियों का नाम क्या होता है (उत्तर) :-

सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः ।

तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ ऋ० मं० १०६।

सू० ८५। मं० ४० ॥

हे स्त्री जो (ते) तेरा (प्रथमः) पहिला विवाहित (पतिः) पति तुझ को (विविदे) प्राप्त होता है उस का नाम (सोमः) सुकुमारतादि गुणयुक्त होने से सोम जो दूसरा नियोग से (विविदे) प्राप्त होता वह (गन्धर्वः) एक स्त्री से संभोग करने से गन्धर्व जो (तृतीय उत्तरः) दो के पश्चात् तीसरा पति होता है वह (अग्निः) अत्युष्णतायुक्त होने से अग्निसंज्ञक और जो (ते) तेरे (तुरीयः) चौथे से ले के ग्यारहवें तक नियोग से पति होते हैं वे (मनुष्यजाः) मनुष्य नाम से कहाते हैं जैसा (इमां त्वमिन्द्र) इस मंत्र से ग्यारहवें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है वैसे पुरुष भी ग्यारहवीं स्त्री तक नियोग कर सकता है (प्रश्न) एकादश शब्द से दशपुत्र और ग्यारहवें पति को क्यों न गिनें ? (उत्तर) जो ऐसा अर्थ करोगे तो "विधवेव देवरम्" "देवरः कस्मद्द्वितीयो वर उच्यते" "अदे-वृष्टि" और "गन्धर्वो विविद उत्तरः" इत्यादि वेदप्रमाणों से विरुद्धार्थ होगा क्योंकि तुम्हारे अर्थ से दूसरा भी पति प्राप्त नहीं हो सकता ।

देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ् नियुक्तया ।

प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिच्छये ॥

ज्येष्ठो यवीयसो भार्या यवीयान्वाग्रजस्त्रियम् ।

पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥

औरसः क्षेत्रजश्चैव ॥ मनु० ९।५९।५८।१५९।

इत्यादि मनु जी ने लिखा है कि (सपिण्ड) अर्थात् पति की छः पीढ़ियों में पति का छोटा वा बड़ा भाई अथवा स्वजातीय तथा अपने से उत्तम जातिस्थ पुरुष विधवा स्त्री का नियोग होना चाहिये परन्तु जो वह मृतस्त्रीक पुरुष और धवा स्त्री सन्तानोत्पत्ति की इच्छा करती हो तो नियोग होना उचित है और

जब सन्तान का सर्वथा जय हो तब नियोग होवे । जो आपत्काल अर्थात् सन्तानों के होने की इच्छा न होने में बड़े भाई की स्त्री से छोटे का और छोटे की स्त्री से बड़े भाई का नियोग हो कर सन्तानोत्पत्ति हो जाने पर भी पुनः वे नियुक्त आपस में समागम करें तो पतित हो जायें अर्थात् एक नियोग में दूसरे पुत्र के गर्भ रहने तक नियोग की अवधि है इस के पश्चात् समागम न करें और जो दोनों के लिये नियोग हुआ हो तो चौथे गर्भ तक अर्थात् पूर्वोक्त रीति से दश सन्तान तक हो सकते हैं पश्चात् विषयासक्ति गिनी जाती है इस से वे पतित गिने जाते हैं । और जो विवाहित स्त्रीपुरुष भी दशवें गर्भ से अधिक समागम करें तो कामी और निन्दित होते हैं अर्थात् विवाह वा नियोग सन्तानों ही के अर्थ किये जाते हैं पशुवत् काम कोड़ा के लिये नहीं (प्रश्न) नियोग मरे पीछे ही होता है वा जोते पति के भी ? (उत्तर) जोते भी होता है ॥

अन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत् । ऋ० ॥ मं० १० ।

सू० १० । मं० १० ॥

जब पति सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपनी स्त्री को आज्ञा देवे कि हे सुभगे ! सौभाग्य की इच्छा करने हारो स्त्री तू (मत्) सुभ से (अन्यम्) दूसरे पति की (इच्छस्व) इच्छा कर क्योंकि अब सुभ से सन्तानोत्पत्ति की आशा मत कर परन्तु उस विवाहित महाशय पति की सेवा में तत्पर रहे वैसे ही स्त्री भी जब रोगादि दोषों से ग्रस्त हो कर सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपने पति को आज्ञा देवे कि हे स्वामी आप सन्तानोत्पत्ति की इच्छा सुभसे छोड़ के किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कीजिये जैसा कि पाण्डु राजा की स्त्री कुन्ती और माद्री आदि ने किया और जैसा व्यास जीने चित्राङ्गद और विचित्रवीर्य के मर जाने पश्चात् उन अपने भाइयों की स्त्रियों से नियोग करके अश्विका अश्वामें धृतराष्ट्र और अश्वालिका में पाण्डु और दासी में विदुर की उत्पत्ति की इत्यादि इतिहास भी इस बात में प्रमाण हैं ॥

प्रोषितो धर्मकार्यार्थं प्रतीक्ष्योष्टौ नरः समाः ।

विद्यार्थं षड् यशोर्थं वा कामार्थं स्त्रीस्तु वत्सरान् ॥

बन्ध्याष्टमेऽधिवेद्यावदे दशमे तु मृतप्रजा ।

एकादशे स्त्री जननी सद्यस्त्वप्रियवादिनी ॥ मनु० ९।७६।८१।

विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के अर्थ परदेश में गया हो तो आठ वर्ष विद्या और कीर्ति के लिये गया हो तो छः, और भनादि कामना के लिये गया हो तो तीन वर्ष तक बाट देख के पश्चात् नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर ले जब विवाहित पति आवे तब नियुक्त पति छूट जावे ॥ वैसे ही पुरुष के लिये भी नियम है कि बन्धा हो तो आठवें (विवाह से आठ वर्ष तक स्त्री की गर्भ न रहे) सन्तान हो कर मर जायें तो दशवें, जब २ हो तब २ कन्या ही हों पुत्र न हों तो ग्यारहवें वर्ष तक और जो अप्रिय बोलने वाली हो तो सद्यः उस स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर लेवे ॥ वैसे ही जो पुरुष अत्यन्त दुःखदायक हो तो स्त्री को उचित है कि उस को छोड़ के दूसरे पुरुष से नियोग कर सन्तानोत्पत्ति करके उसी विवाहित पति के दायभागी सन्तान कर लेवे । इत्यादि प्रमाण और युक्तियों से स्वयंवर विवाह और नियोग से अपने २ कुल की उन्नति करे जैसा "श्रीरस" अर्थात् विवाहित पति से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदार्थों का स्वामी होता है वैसे ही "क्षेत्रज" अर्थात् नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी पिता के दायभागी होते हैं ॥ अब इस पर स्त्री और पुरुष को ध्यान रखना चाहिये कि वीर्य और रज को अमूल्य समझे जो कोई इस अमूल्य पदार्थ को परस्त्री वेश्या वा दुष्ट पुरुषों के सङ्ग में खोते हैं वे महासूर्ख होते हैं क्योंकि जो किसान वा माली सूर्ख हो कर भी अपने खेत वा बाटिका के बिना अन्यत्र बीज नहीं बोते जो कि साधारण बीज और सूर्ख का ऐसा वर्तमान है तो जो सर्वोत्तम मनुष्य शरीररूप वृक्ष के बीज को कुचेत्र में खोता है वह महासूर्ख कहता है क्योंकि उस का फल उस को नहीं मिलता और "आत्मा वै जायते पुत्रः" यह ब्राह्मण ग्रन्थों का वचन है ॥

अङ्गाद्ङ्गात्सम्भवसि हृदयादधिजायसे ।

आत्मा वै पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम् ॥ निरु० ३।१॥

यह सामवेद का वचन है—हे पुत्र ! तू अङ्ग २ से उत्पन्न हुए वीर्य से और हृदय से उत्पन्न होता है इस लिये तू मेरा आत्मा है मुझ से पूर्व मत मरे किन्तु सौ वर्ष तक जी । जिस से ऐसे २ महात्मा और महाशयों के शरीर उत्पन्न होते हैं उस को वेश्यादि दुष्ट क्षेत्र में बोना वा दुष्ट क्षेत्र अर्च्छे क्षेत्र में बुबाना महापाप का काम है (प्रश्न) विवाह क्यों करना ? क्योंकि इस से स्त्री पुरुष को बन्धन में पड़ के बहुत सहोच करना और दुःख भोगना पड़ता है इस लिये जिस के साथ जिस की प्रीति हो तब तक वे मिले रहें जब प्रीति छूट जाय तो छोड़ दें

(उत्तर) यह पशु पक्षियों का व्यवहार है मनुष्यों का नहीं जो मनुष्यों में विवाह का नियम न रहै तो सब गृह्याश्रम के अच्छे २ व्यवहार नष्ट भ्रष्ट हो जाय कोई किसी की सेवा भी न करे और महाव्यभिचार बढ़ कर सब रोगी निर्बल और अत्यायु हो कर शीघ्र २ मर जायें कोई किसी से भय वा लज्जा न करे वृद्धावस्था में कोई किसी की सेवा भी नहीं करे और महाव्यभिचार बढ़ कर सब रोगी निर्बल और अत्यायु हो कर कुलों के कुल नष्ट हो जायें । कोई किसी के पदार्थों का स्वामी वा दायभागी भी न हो सके और न किसी का किसी पदार्थ पर दीर्घ-काल पर्यन्त स्वत्व रहे इत्यादि दोषों के निवारणार्थ विवाह ही होना सर्वथा योग्य है (प्रश्न) जब एक विवाह होगा एक पुरुष को एक स्त्री और एक स्त्री को एक पुरुष रहे गा तब स्त्री गर्भवती स्थिर रोगिणी अथवा पुरुष दीर्घ रोगी हो और दोनों की युवावस्था हो रहा न जाय तो फिर क्या करें ? (उत्तर) इस का प्रत्युत्तर नियोग विषय में दे चुके हैं । और गर्भवती स्त्री से एक वर्ष समागम न करने के समय में पुरुष वा स्त्री से न रहा जाय तो किसी से नियोग कर के उस के लिये पुत्रोत्पत्ति कर दे परन्तु वेश्यागमन वा व्यभिचार कभी न करें जहां तक हो वहां तक अप्राप्त वस्तु को इच्छा प्राप्त का रक्षण और रक्षित की हृत्ति बढ़े हुए धन का व्यय देशोपकार करने में किया करें सब प्रकार के अर्थात् पूर्वोक्त रीति से अपने २ वर्णाश्रम के व्यवहारों को अत्युत्साह पूर्वक प्रयत्न से तन मन धन से सर्वदा पर-मार्थ किया करे । अपने माता, पिता, शाशु श्वशुर की अत्यन्त श्रद्धा करें मित्र और अड़ोसी, पड़ोसी, राजा, विद्वान्, वैद्य और सत्पुत्रों से प्रीति रख के और जो दुष्ट अधर्मी उन से उपेक्षा अर्थात् द्रोह छोड़ कर उन के सुधरने का यत्न किया करें । जहां तक बने वहां तक प्रेम से अपने सन्तानों के विद्वान् और सुशिक्षा करने कराने में धनादि पदार्थों का व्यय करके उनको पूर्ण विद्वान् सुशिक्षा युक्त कर दें और धर्मयुक्त व्यवहार करके मोक्ष का भी साधन किया करें कि जिस की प्राप्ति से परमानन्द भोगों और ऐसे २ शीकों को न माने जैसे:—

पतितोपि हिजः श्रेष्ठो न च शूद्रो जितेन्द्रियः ।

निर्दुग्धा चापि गौः पूज्या न च दुग्धवती स्वरी ॥

अश्वालम्भं गवालम्भं संन्यासं पलपैत्रिकम् ॥

देवराञ्च सुतोत्पत्तिं कलौ पंच विवर्जयेत् ॥

नष्टे नृते प्रव्रजिते कृद्वे च पतिते पतौ ।

पंचस्वापत्सु नारीणां पतिरन्धो विधीयते ॥

ये कपोलकल्पित पराशरी के श्लोक हैं। जो दुष्टकर्मकारी द्विज को श्रेष्ठ और श्रेष्ठ कर्मकारी शूद्र को नीच मानें तो इस से परे पक्षपात, अन्याय, अधर्म दूसरा अधिक क्या होगा ?। क्या दूध देने वाली वा न देने वाली गाय गोपालों को पालनीय होती हैं वैसे कुम्हार आदि को गधही पालनीय नहीं होती और यह दृष्टान्त भी विषम है क्यों कि द्विज और शूद्र मनुष्य जाति गाय और गधही भिन्न जाति हैं कथंचित् पशु जाति से दृष्टान्त का एक देश दार्ष्टान्त में मिल भी जावे तो भी इस का आशय अयुक्त होने से ये श्लोक विद्वानों के माननीय कभी नहीं हो सकते ॥ जब अश्वालम्ब अर्थात् घोड़े को मार के अथवा गवालम्ब गाय को मार के होम करना ही वेद विहित नहीं है तो उस का कलियुग में निषिद्ध करना वेद-विरुद्ध क्यों नहीं ? जो कलियुग में इस नीच कर्म का निषेध माना जाय तो त्रेता आदि में विधि आ जाय तो इस में ऐसे दुष्ट काम का श्रेष्ठ युग में हीना सर्वथा असंभव है वा और संन्यास की वेदादि शास्त्रों में विधि है उस का निषेध करना निम्नूल है जब मांस का निषेध है तो सर्वदा ही निषेध है जब देवर से पुत्रोत्पत्ति करना वेदों में लिखा है तो इस श्लोक का कर्त्ता क्यों भूषता है ? ॥

यदि (नष्टे) अर्थात् पति किसी देशदेशान्तर को चला गया हो घर में स्त्री नियोग कर लेवे उसी समय विवाहित पति आ जाय तो वह किस की स्त्री हो ? कोई कहे कि विवाहित पति की, हमने माना परन्तु ऐसी व्यवस्था पराशरी में तो नहीं लिखी। क्या स्त्री के पांच ही आपत्काल हैं जो रोगी पड़ा हो वा लड़ाई हो गई हो इत्यादि आपत्काल पांच से भी अधिक हैं इस लिये ऐसे २ श्लोकों की कभी न मानना चाहिये ॥ (प्रश्न) क्यों जी तुम पराशर मुनि के वचन को भी नहीं मानते ? (उत्तर) चाहें किसी का वचन ही परन्तु वेदविरुद्ध होने से नहीं मानते और यह तो पराशर का वचन भी नहीं है क्योंकि जैसे “ब्रह्मोवाच, वसिष्ठ उवाच, राम उवाच, शिव उवाच, विष्णु उवाच, देव्युवाच” इत्यादि श्रेष्ठों का नाम लिख के ग्रंथ रचना इस लिये करते हैं कि सर्वमान्य के नाम से इन ग्रंथों को सब संसार मान लेवे और हमारी पुष्कल जोविका भी हो। इस लिये अनर्थगाथायुक्त ग्रन्थ बनाते हैं कुछ २ प्रचिप्त श्लोकों को छोड़ के मनुस्मृति ही वेदानुबूल है अन्य-स्मृति नहीं। ऐसे ही अन्य ज्ञान शक्तियों की व्यवस्था समझ लो (प्रश्न) गृहाग्रम सब से छोटा वा बड़ा है ? (उ०) अपने २ कर्त्तव्य कर्मों में सब बड़े हैं परन्तु :-

यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम् ।

तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम् ॥

यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः ।
 तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः ॥
 यस्मात्त्वयोप्याश्रमिणो दानेनान्नेन चान्वहम् ।
 गृहस्थेनैव धार्यन्ते तदन्नाज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥
 स संधार्यः प्रयत्नेन स्वर्गलक्षयमिच्छता ।
 सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुर्वलेन्द्रियैः ॥

म० ३ । ७७-७९ ।

जैसे नदी और बड़े २ नद तब तक भ्रमते ही रहते हैं जब तक समुद्र को प्राप्त नहीं होते वैसे गृहस्थ ही के आश्रय से सब आश्रम स्थिर रहते हैं विना इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता ॥ जिस से ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी तीन आश्रमों को दान और अन्नादि दे के प्रतिदिन गृहस्थ ही धारण करता है इस से गृहस्थ ज्येष्ठाश्रम है अर्थात् सब व्यवहारों में धुरन्धर कहता है ॥ इस लिये मोक्ष और संसार के सुख को इच्छा करता ही वह प्रयत्न से गृहाश्रम का धारण करे ॥ जो गृहाश्रम दुर्वलेन्द्रिय अर्थात् भीरु और निर्बल पुरुषों से धारण करने अयोग्य है उस को अच्छे प्रकार धारण करे ॥ इस लिये जितना कुछ व्यवहार संसार में है उस का आधा गृहाश्रम है जो यह गृहाश्रम न होता तो सन्तानोत्पत्ति के न होने से ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम कहां से हो सकते ? जो कोई गृहाश्रम की निन्दा करता है वही निन्दनीय है और प्रशंसा करता है वही प्रशंसनीय है परन्तु तभी गृहाश्रम में सुख होता है जब स्त्री और पुरुष दोनों परस्पर प्रसन्न, विद्वान् पुरुषार्थी और सब प्रकार के व्यवहारों के ज्ञाता हों इस लिये गृहाश्रम के सुख का मुख्य कारण ब्रह्मचर्य और पूर्वोक्त स्वयंवर विवाह है । यह संक्षेप से समावर्तन विवाह और गृहाश्रम के विषय में शिखा लिख दी। इस के आगे वानप्रस्थ और संन्यास के विषय में लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविभूषिते समावर्तनविवाहगृहाश्रमविषये

चतुर्थः समुद्भासः संपूर्णः ॥ १ ॥

अथ पञ्चमसमुल्लासारम्भः ॥

—:०*०:—

अथ वानप्रस्थसंन्यासीविधिं वक्ष्यामः ॥

ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य गृही भवेत् गृही भूत्वा वनी
भवेदनी भूत्वा प्रव्रजेत् ॥ शत० कां० १४ ॥

मनुष्यों को उचित है कि ब्रह्मचर्याश्रम को समाप्त करके गृहस्थ हो कर वानप्रस्थ और वानप्रस्थ हो के संन्यासी होंगे अर्थात् यह अनुक्रम से आश्रम का विधान है ॥

एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः ।

वने वसेत्तु नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः ॥

गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वलीपलितमात्मनः ।

अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत् ॥

संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्वं चैव परिच्छदम् ।

पुत्रेषु भार्यां निःक्षिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा ॥

अग्निहोत्रं समादाय गृह्यं चाग्निपरिच्छदम् ।

ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥

मुन्यन्नैर्विविधैर्मध्येः शाकमूलफलेन वा ।

एतानेव सहायज्ञान्निर्वपेद्विधिपूर्वकम् ॥ म०६।१-५ ।

एस प्रकार ज्ञातका जर्घात् ब्रह्मचर्य पूर्वक गृहाश्रम का कर्ता द्विज अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य गृहाश्रम में ठहर कर निश्चितात्मा और यथावत् इन्द्रियों की जीत के वन में वसे ॥ परन्तु जब गृहस्थ गिर के श्वेत केश और त्वचा टोली हो जाय और लड़के का लड़का भी हो गया हो तब वन में जा के वसे ॥ सब ग्राम के आहार और वस्त्रादि सब उशमोक्षम पदार्थों को छोड़ पुत्रों के पास स्त्री

को रख वा अपने साथ ले के वन में निवास करे ॥ साङ्गोपाङ्ग अग्निहोत्र को ले के ग्राम से निकल दृष्टेन्द्रिय हो कर अरण्य में जा के वसे ॥ नाना प्रकार के सामा आदि अन्न सुन्दर २ शाक, मूल, फल, फूल, कंदादि से पूर्वोक्त पंचम हायज्ञों को करे और उसी से अतिथि सेवा और आप भी निर्वाह करे ॥

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्दान्तो मैत्रः समाहितः ।

दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः ॥

अप्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः ।

शरणेष्वममश्चैव वृक्षमूलनिकेतनः ॥ म० ६ । ८ । २६

स्वाध्याय अर्थात् पढ़ने पढ़ाने में नित्ययुक्त, जितात्मा, सब का मित्र, इन्द्रियों का दमनशील, विद्यादि का दान देने हारा और सब पर दयालु किसी से कुछ भी पदार्थ न लेवे इस प्रकार सदा वर्णमान करे ॥ शरीर के सुख के लिये अति प्रयत्न न करे किन्तु ब्रह्मचारी अर्थात् अपनी स्त्री साथ हो तथापि उस से विषय चेष्टा कुछ न करे भूमि में सोवे अपने आश्रित वा स्वकीय पदार्थों में ममता न करे वृक्ष के मूल में वसे ॥

तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्षचर्यां
चरन्तः । सूर्य्यहारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्नाऽमृतः स
पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥ सुण्ड० ॥ खं० २ । मं० ११ ॥

जो शान्त विद्वान् लोग वन में तप धर्मानुष्ठान और सत्य की श्रद्धा करके भिक्षाचरण करते हुए जंगल में वसते हैं वे जहाँ नाश रहित पूर्ण पुरुष हानिलाभ रहित परमात्मा है वहाँ निर्मल हो कर प्राणद्वार से उस परमात्मा की प्राप्ति हो के आनन्दित हो जाते हैं ॥

अभ्यादधामि समिधमग्ने व्रतपते त्वयि ।

व्रतञ्च श्रद्धां चोपैमीन्धे त्वा दीक्षितो अहम् ॥

यजुर्वेदे ॥ अध्याये २० । मं० २४ ॥

वानप्रस्थ को उचित है कि मैं अग्नि में होम कर दीक्षित हो कर व्रत-सत्याचरण और श्रद्धा की प्राप्ति होऊँ ऐसी इच्छा करके वानप्रस्थ हो नाना प्रकार की

तपश्चर्या सत्सङ्ग योगाश्वास सुविचार से ज्ञान और पवित्रता प्राप्त करे । पश्चात् जब संन्यास ग्रहण की इच्छा हो तब स्त्री को पुत्री के पास भेज देवे फिर संन्यास ग्रहण करे ॥ इति संक्षेपेण वानप्रस्थविधिः ॥

अथ संन्यासविधिः ॥

वनेषु च विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः ।

चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा संगान् परिव्रजेत् ॥

मनु० ६ । ३३ ॥

इस प्रकार वन में आयु का तीसरा भाग अर्थात् पञ्चासवें वर्ष से पचहत्तरवें वर्षपर्यन्त वानप्रस्थ हो के आयु के चौथे भाग में संगों को छोड़ के परिव्राट् अर्थात् संन्यासी हो जावे (प्रश्न) गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम न करके संन्यासाश्रम करे उस को पाप होता है वा नहीं ? (उत्तर) होता है और नहीं भी होता (प्रश्न) यह दो प्रकार की बात क्यों कहते हो ? (उत्तर) दो प्रकार की नहीं क्योंकि जो बाल्यावस्था में विरक्त हो कर विषयी में फसे वह महापापी और जो न फसे वह महापुण्यात्मा सत्पुरुष है ॥

यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेद्दनाद्वा गृहाद्वा ब्रह्मचर्या-
देव प्रव्रजेत् ॥

ये ब्राह्मणग्रन्थ के वचन हैं जिस दिन वैराग्य प्राप्त हो उसी दिन घर वा वन से संन्यास ग्रहण कर लेवे पहिले संन्यास का पक्ष ज्ञान कहा और प्रस में विकल्प अर्थात् वानप्रस्थ करे गृहस्थाश्रम ही से संन्यासग्रहण करे और तृतीयपक्ष यह है कि जो पूर्ण विद्वान् त्रितेन्द्रिय विषयभोग की कामना से रहित परोपकार करने की इच्छा से युक्त पुरुष हो वह ब्रह्मचर्याश्रम हीसे संन्यास लेवे और वेदों में भी "यतयः, ब्राह्मणस्य विज्ञानतः" इत्यादि पदों से संन्यास का विधान है परन्तु—

नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः ।

नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात् ॥

कठ० । वल्ली २ । मं० २३ ॥

जो दुराचार से पृथक् नहीं जिसकी शान्ति नहीं जिसका आत्मा योगी नहीं और जिसका मन शान्त नहीं है वह संन्यास लेके भी प्रज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं होता इस लिये:—

यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेद् ज्ञान आत्मनि ।
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि ।

कठ० । वल्ली० ३ । मं० १३ ॥

संन्यासी बुद्धिमान् वाणी और मन को अधर्म से रोक के उन को ज्ञान और आत्मा में लगावे और उस ज्ञानस्वात्मा को परमात्मा में लगावे और उस विज्ञान को शान्तस्वरूप आत्मा में स्थिर करे ॥

परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्य-
कृतः कृतेन । तद्भिज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः
श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ॥ सुण्ड० ॥ खंड २ । मं० १२ ॥

सब लौकिक भोगों को कर्म से संचित हुए देख कर ब्राह्मण अर्थात् संन्यासी वैराग्य को प्राप्त होवे क्योंकि अकृत अर्थात् न किया हुआ परमात्मा कृत अर्थात् केवल कर्म से प्राप्त नहीं होता इस लिये कुछ अर्पण के अर्थ हाथ में ले के वेदवित् और परमेश्वर को जानने वाले गुरु के पास विज्ञान के लिये जावे जा के सब सन्देहों की निवृत्ति करे परन्तु सदा इन का संग छोड़ देवे कि जो :—

अविद्यायामन्तरे वर्त्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितमन्यमानाः ।
जड्धन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्येनैव नीयमाना यथान्धाः ॥
अविद्यायां बहुधा वर्त्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः ।
यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुराः क्षीयलोकाश्च्यवन्ते ॥
मु० ॥ खं० २ । मं० ८ ॥ ९ ॥

जो अविद्या के शीतर खेल रहे अपने को धीर और पण्डित मानते हैं वे नीच-गति को जाने हारे मूढ़ जैसे अंधे के पीछे अंधे दुर्दशा को प्राप्त होते हैं वैसे दुःखों को पाते हैं ॥ जो बहुधा अविद्या में रमण करने वाले बालबुद्धि हम हतार्थ हैं ऐसा मानते हैं जिस को केवल कर्मकांडी लोग राग से मोहित हो कर नहीं जान और जना सकते वे आतुर हो के जन्म मरण रूप दुःख में गिरे रहते हैं ॥ इस लिये:—

वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सान्यसयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ।
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥
मु० ३ । खं० २ । मं० ६ ॥

उच्चावचेषु भूतेषु दुर्ज्ञेयामकृतात्मभिः ।
 ध्यानयोगेन संपश्येद् गतिमस्थान्तरात्मनः ॥
 अहिंसयेन्द्रियासङ्गैर्वैदिकैश्चैव कर्मभिः ।
 तपसश्चरणैश्चोग्रैस्साधयन्तीह तत्पदम् ॥
 यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृहः ।
 तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम् ॥
 चतुर्भिरपि चैवैतैर्नित्यमाश्रमिभिर्हिजैः ।
 दशलक्षणको धर्मः सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥
 धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।
 धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥
 अनेन विधिना सर्वास्त्यक्त्वा संगान् शनैः शनैः ।
 सर्वहन्द्द्विनिर्मुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥ मनु०

अ० ६ । ४६ । ४८ । ४९ । ५२ । ६० । ६६ । ६७ ।

७०-७३ । ७५ । ८० । ९१ । ९२ । ८१ ॥

जब संन्यासी मार्ग में चले तब इधर उधर न देख कर नीचे पृथिवी पर दृष्टि रख के चले । सदा बस्त्र से छान के जल पिये निरन्तर सत्य ही बोले सर्वदा मन से विचार के सत्य का ग्रहण कर असत्य को छोड़ देवे ॥ जब कहीं उपदेश वा संवादादि में कोई संन्यासी पर क्रोध करे अथवा निन्दा करे तो संन्यासी को उचित है कि उस पर आप क्रोध न करे किन्तु सदा उस के कल्याणार्थ उपदेश ही करे और एक सुख का, दो नासिका के, दो आंशु के और दो कान के छिद्रों में त्रिखरी हुई वाणी को किसी कारण से मिथ्या कभी न बोले ॥ अपने आत्मा और परमात्मा में स्थिर अपेक्षा रहित मद्यमांसादि वर्जित हो कर आत्मा ही के सहाय से सुखार्थी हो कर इस संसार में धर्म और विद्या के बढ़ाने में उपदेश के लिये सदा विचरता रहे ॥ केग, नख, डाढ़ी, मूक को छेदन करवाये सुन्दर पाव दण्ड और कुरुग आदि से रंगे हुए बस्त्रों को ग्रहण करके निधितात्मा सबभूतों को पीड़ा न दे कर सर्वत्र विचरे ॥ इन्द्रियों को अधर्माभरण से रोक, राग द्वेष को

छोड़, सब प्राणियों से निर्घेर वर्त कर मोक्ष के लिये सामर्थ्य बढ़ाया करे ॥ कोई संसार में उस को दूषित वा भूषित करे तो भी जिस किसी आयुष्य में वर्तता हुआ पुरुष अर्थात् संन्यासी सब प्राणियों में पक्षपातरहित हो कर स्वयं धर्मात्मा और अर्थों को धर्मात्मा करने में प्रयत्न किया करे। और यह अपने मन में निश्चित जानें कि दंड कमंडलु और क्वापायवस्त्र आदि चिन्ह धारण धर्म के कारण नहीं हैं सब मनुष्यादि प्राणियों के सत्योपदेश और विद्याज्ञान से उन्नति करना संन्यासी का मुख्य कर्म है ॥ क्योंकि यद्यपि निर्मली वृक्ष का फल पीस के गदरे जल में डालने से जल का शोधक होता है तदपि बिना उस के डाले उस का नाम कथन वा श्रवणमात्र से जल शुद्ध नहीं हो सकता ॥ इस लिये ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्मवित् संन्यासी को उचित है कि श्रीकारपूर्वक ममव्याहृतियों से विधिपूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करे परन्तु तीन से तो न्यून प्राणायाम कभी न करे यही संन्यासी का परम तप है ॥ क्योंकि जैसे अग्नि में तपाने और गलाने से धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं वैसे ही प्राणों के नियंत्रण से मन आदि इन्द्रियों के दोष भस्मीभूत होते हैं ॥ इस लिये संन्यासी लोग नित्यप्रति प्राणायामों से आत्मा अन्तःकरण और इन्द्रियों के दोष, धारणाओं से पाप, प्रत्याहार से संगदोष ध्यान से अनीश्वर के गुणों अर्थात् हर्ष शोक और अविद्यादि भ्रुव के दोषों को भस्मीभूत करे ॥ इसी ध्यान योग से जो अयोगी अविद्वानों को दुःख से जानने योग्य छोटे बड़े पदार्थों में परमात्मा की व्याप्ति उस को और अपने आत्मा और अन्तर्यामी परमेश्वर की गति को देखे ॥ सब भूतों से निर्घेर, इन्द्रियों के विषयों का त्याग, वेदोक्त कर्म और अत्युग्र तपश्चरण से इस संसार में मोक्षपद को पूर्वीक संन्यासी ही सिद्ध कर और करा सकते हैं अन्य नहीं ॥ जब संन्यासी सब भावों में अर्थात् पदार्थों में निःस्पृह कांचारहित और सब बाहर भीतर के व्यवहारों में भाव से पवित्र होता है तभी इस देह में और मरण पा के निरन्तर सुख को प्राप्त होता है ॥ इस लिये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासियों को योग्य है कि प्रयत्न से दशलक्षणयुक्त निम्नलिखित धर्म का सेवन करे ॥ पहिला लक्षण—(धृति) सदा धैर्य रखना । दूसरा—(क्षमा) जो कि निंदाशुक्ति मानाऽपमान हानि लाभ आदि दुःखों में भी सहनशील रहना । तीसरा—(दम) मन को सदा धर्म में प्रवृत्त कर अधर्म से रोक देना अर्थात् अधर्म करने की इच्छा भी न उठे । चौथा—(अस्तेय) चोरीत्याग अर्थात् बिना आज्ञा वा क्लृप्त कपट विश्वासघात वा किसी व्यवहार तथा वेदविरुद्ध उपदेश से परपदार्थ का ग्रहण करना चोरी और इस को छोड़ देना साह्यकारी कहाती है । पाचवां—(शौच) रागहेय पक्षपात छोड़ के भीतर और जल सृष्टिका मार्जन आदि से बाहर को पवित्रता रखनी । छठा—(इन्द्रियनियंत्रण)

कर्म भी कर्त्तव्य नहीं ? देखो "वेदिकैश्चैव कर्मभिः" मनु जी ने वैदिक कर्म जो धर्मयुक्त सत्य कर्म हैं संन्यासियों को भी अवश्य करना लिखा है क्या भोजन खाद-
न, दि कर्म वे छोड़ सकेंगे ? जो ये कर्म नहीं छूट सकते तो उत्तम कर्म छोड़ने
से वे पतित और पापभागी नहीं होंगे ? जब गृहस्थों से अन्न वस्त्रादि लेते हैं और
उन का प्रत्युपकार नहीं करते तो क्या वे महापापी नहीं होंगे ? जैसे आंख से
देखना कान से सुनना न हो तो आंख और कान का होना व्यर्थ है वैसे ही
जो संन्यासी सत्योपदेश और वेदादि सत्यशास्त्रों का विचार प्रचार नहीं करते
तो वे ही जगत् में व्यर्थ भाररूप हैं । और जो अविद्यारूप संसार से माया पद्मो
क्यों करमा आदि लिखते और कहते हैं । वैसे उपदेश करने वाले ही मिथ्यारूप
और पाप के बढ़ाने वाले पापी हैं। जो कुछ शरीरादि से कर्म किया जाता है वह
सब आत्मा ही का और उस के फल का भोगने वाला भी आत्मा है। जो जीव को
ब्रह्म बतलाते हैं वे अविद्या निद्रा में सोते हैं क्योंकि जीव अल्प, अल्पज्ञ और ब्रह्म
सर्वव्यापक सर्वज्ञ है ब्रह्म नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुकृत्स्नभावयुक्त है और जीव कभी वह
कभी मुक्त रहता है । ब्रह्म को सर्वव्यापक सर्वज्ञ होने से भ्रम वा अविद्या कभी
नहीं हो सकती और जीव को कभी विद्या और कभी अविद्या होती है ब्रह्म जन्म-
मरण दुःख को कभी नहीं प्राप्त होता और जीव प्राप्त होता है इस लिये वह उन
का उपदेश मिथ्या है (प्रश्न) संन्यासी सर्वकर्मविनाशी और अग्नि तथा धातु
को स्पर्श नहीं करते यह बात सच्ची है या नहीं (उत्तर) नहीं "सम्यङ् नित्यमास्ती
यस्मिन् यद्वा सम्यङ् न्यस्यन्ति दुःखाग्नि कर्माणि येन स संन्यासः स प्रशस्तो विद्यते
यस्य स संन्यासी" जो ब्रह्म और जिस से दुष्ट कर्मों का त्याग किया जाय वह
उत्तम स्वभाव जिस में हो वह संन्यासी कहाता है इस में सुकर्म का कर्त्ता और
दुष्ट कर्मों का नाश करने वाला संन्यासी कहाता है । (प्रश्न) अध्यापन और उप-
देश गृहस्थ किया करते हैं पुनः संन्यासी का क्या प्रयोजन है ? (उत्तर) सत्योपदेश
सब आश्रमी करें और सुनें परन्तु जितना अवकाश और निरपेक्षपातता संन्यासी
को होती है उतनी गृहस्थों को नहीं ! हां जो ब्राह्मण हैं उन का यही काम है
कि पुरुष पुरुषों को और स्त्री स्त्रियों को सत्योपदेश और पढ़ाया करें जितना
भ्रमण का अवकाश संन्यासी को मिलता है उतना गृहस्थ ब्राह्मणादिकों को कभी
नहीं मिल सकता । जब ब्राह्मण वेद विरुद्ध आचरण करें तब उन का नियन्ता
संन्यासी होता है । इस लिये संन्यास का होना उचित है । (उत्तर) "एकरात्रिं
वसेद्ग्रामे,, इत्यादि वननों से संन्यासी को एकत्र एकत्रात्रि मात्र रहना अधिक
निवास न करना चाहिये (उत्तर) यह बात छोड़े से अंग में तो अच्छे है कि
एकत्र वास करने से जगत् का उपकार अधिक नहीं हो सकता और स्थानान्तर

का भी अभिमान होता है। राग द्वेष भी अधिक होता है परन्तु जो विशेष उपकार एकत्र रहने से होता हो तो रहे जैसे जनक राजा के यहाँ चार २ महीने तक पञ्चशिखादि और अन्य संन्यासी कितने ही वर्षों तक निवास करते थे। और "एकत्र न रहना" यह बात आज कल के पाखण्डी संप्रदायियों ने बनाई है। क्योंकि जो संन्यासी एकत्र अधिक रहे गा तो हमारा पाखण्ड खण्डित हो कर अधिक न बढ़ सकेगा। (प्रश्न) :—

यतीनां काञ्चनं दद्यात्ताम्बूलं ब्रह्मचारिणाम् ।

चौराणामभयं दद्यात्स नरो नरकं व्रजेत् ॥

इत्यादि वचनों का अभिप्राय यह है कि संन्यासियों को जो सुवर्ण दान दे तो दाता नरक को प्राप्त होवे (उत्तर) यह बात भी वर्णाश्रमविरोधी संप्रदायी और स्वार्थसिंधु वाले पौराणिकों की कल्पी हुई है। क्योंकि संन्यासियों को धन मिले गा तो वे हमारा खण्डन बहुत कर सकेंगे और हमारी हानि होगी तथा वे हमारे आधीन भी न रहेंगे और जब भिक्षादि व्यवहार हमारे आधीन रहे गा तो डरते रहेंगे जब सूखे और स्वार्थियों को दान देने में अच्छा समझते हैं तो विद्वान् और परोपकारी संन्यासियों को देने में कुछ दोष नहीं हो सकता देखो :—

विविधानि च रत्नानि विविक्तेषूपपादयेत् ॥*

नाना प्रकार के रत्न सुवर्णादि धन (विविक्त) अर्थात् संन्यासियों को देवे और वह श्लोक भी अनर्थक है क्योंकि संन्यासी को सुवर्ण देने से यज्ञमान नरक को जावे तो चांदी, मोती, हीरा आदि देने से स्वर्ग को जायगा। (प्रश्न) यह प्रण्डित जो घस का पाठ बोलते भूल गये यह ऐसा है कि "यतिहस्ते धनं दद्यात्" अर्थात् जो संन्यासियों को हाथ में धन देता है वह नरक में जाता है। (उत्तर) यह भी वचन अविद्वान् ने कपोलकल्पना से रचा है क्योंकि जो हाथ में धन देने से दाता नरक को जाय तो पग पर धरने वा गठरी बांध कर देने से स्वर्ग को जायगा इस लिये ऐसी कल्पना मानने योग्य नहीं। हां यह बात तो है कि जो संन्यासी योगक्षेत्र से अधिक रखे गा तो चौरादि से प्रण्डित और मोहित भी हो जायगा परन्तु जो विद्वान् है वह अयुक्त व्यवहार कभी न करे गा न मोह में फसेगा क्योंकि वह प्रथम गृह्याश्रम में अथवा ब्रह्मचर्य में सब भोग कर

वा सब देख चुका है और जो ब्रह्मचर्य से होता है वह पूर्ण वैराग्ययुक्त होने से कभी कहीं नहीं फसता। (प्रश्न) लोग कहते हैं कि आइस में संन्यासी आवे वा जमावे तो उस के पितर भाग जायें और नरक में गिरें (उत्तर) प्रथम तो मरे हुए पितरों का आना और किया हुआ आइस मरे हुए पितरों को पहुंचना ही असंभव वेद और युक्ति विरुद्ध होने से मिथ्या है। और जब आते ही नहीं तो भाग कौन जायेंगे जब अपने पाप पुण्य के अनुसार ईश्वर की व्यवस्था से मरणके पश्चात् जीव जन्म लेते हैं तो उन का आना कैसे हो सकता है ? इस लिये यह भी बात पेटार्थी पुराणी और वैरागियों की मिथ्या कल्पी हुई है। हां यह तो ठीक है कि जहां संन्यासी जायेंगे वहां यह मृतक आइस करना वेदादि शास्त्रों से विरुद्ध होने से पाखंड दूर भाग जायगा। (प्रश्न) जो ब्रह्मचर्य से संन्यास लेवे गा उस का निर्वाह कठिनता से होगा और काम का रोकना भी अतिकठिन है। इस लिये गृहाश्रम वानप्रस्थ ही कर जब वृद्ध हो जाय तभी संन्यास लेना अच्छा है। (उत्तर) जो निर्वाह न कर सके इन्द्रियों को न रोक सके वह ब्रह्मचर्य से संन्यास न लेवे। परन्तु जो रोक सके वह क्यों न लेवे ? जिस पुरुष ने विषय के दोष और वीर्यसंरक्षण के गुण जाने हैं वह विषयासक्त कभी नहीं होता और उन का वीर्य विचाराग्नि का इन्धनवत् है अर्थात् उसी में व्यय हो जाता है। जैसे वैद्य और औषधों की आवश्यकता रोगी के लिये होती है वैसे नीरोगी के लिये नहीं। इसी प्रकार जिस पुरुष वा स्त्री को विद्या धर्म वृद्धि और सब संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो वह विवाह न करे। जैसे पंचशिखादि पुरुष और गार्गी आदि स्त्रियां हुईं थी इस लिये संन्यासी का होना अधिकारियों को उचित है और जो अनधिकारी संन्यास ग्रहण करे गा तो आप डूबे गा औरों को भी डुवावे गा जैसे "सम्राट्" चक्रवर्ती राजा होता है वैसे "परिव्राट्" संन्यासी होता है प्रत्युत राजा अपने देश में वा स्वसम्बन्धियों में सत्कार पाता है और संन्यासी सर्वत्र पूजित होता है ॥

विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन ।

स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते ॥

यह चाणक्यनोतिशास्त्र का श्लोक है विद्वान् और राजा की कभी तुल्यता नहीं हो सकती क्योंकि राजा अपने राज्य ही में मान और सत्कार पाता है और विद्वान् सर्वत्र मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। इस लिये विद्या पढ़ने, सुशिक्षा लेने और बलवान् होने आदि के लिये ब्रह्मचर्य, सब प्रकार के उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के अर्थ गृहस्थ, विचार ध्यान और विज्ञान बढ़ाने तपश्चर्या करने के लिये

वानप्रस्थ, और वेदादि सत्यशास्त्रों का प्रचार, धर्म व्यवहार का ग्रहण और दुष्ट व्यवहार के त्याग, सत्योपदेश और सब को निःसंदेह करने आदि के लिये संन्यासाश्रम है। परन्तु जो इस संन्यास के मुख्य धर्म सत्योपदेशादि नहीं करते वे पतित और नरकगामी हैं। इस से संन्यासियों को उचित है कि सत्योपदेश शंका समाधान वेदादि सत्यशास्त्रों का अध्यापन और वेदोक्त धर्म की वृद्धि प्रयत्न से कर के सब संसार को उन्नति किया करें। (प्रश्न) जो संन्यासी से अन्य साधु, वैरागी, गुसाईं, खाखी आदि हैं वे भी संन्यासाश्रम में गिने जायेंगे वा नहीं ? (उत्तर) नहीं क्योंकि उन में संन्यास का एक भी लक्षण नहीं। वे वेदविरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त हो कर वेद से अपने संप्रदाय के आचार्यों के वचन मानते और अपने ही मत की प्रशंसा करते मिथ्या प्रपंच में फस कर अपने स्वार्थ के लिये दूसरों को अपने र मत में फसाते हैं सुधार करना तो दूर रहा उस के बदले में संसार को बहका कर अधोगति को प्राप्त कराते और अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं इस लिये इन को संन्यासाश्रम में नहीं गिन सकते किन्तु ये स्वार्थाश्रमी तो पक्के हैं। इस में कुछ सन्देह नहीं। जो स्वयं धर्म में चल कर सब संसार को चलाते हैं। जो पाप और सब संसार को इस लोक अर्थात् वर्तमान जन्म में परलोक अर्थात् दूसरे जन्म में स्वर्ग अर्थात् सुख का भोग करते कराते हैं वे ही धर्मात्मा जन संन्यासी और महात्मा हैं। यह संक्षेप से संन्यासाश्रम की शिखा लिखी। अब इस के आगे राज-प्रजाधर्म विषय लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे सुभाषा-
विभूषिते वानप्रस्थसंन्यासाश्रमविषये पञ्चमः

समुल्लासः संपूर्णः ॥ ५ ॥

अथ षष्ठसमुल्लासारम्भः ॥

—०:०:—

अथ राजधर्मान् व्याख्यास्यामः ॥

राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि यथा वृत्तो भवेन्नृपः ।
संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ॥
ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि ।
सर्वस्यास्य यथान्यायं कर्तव्यं परिरक्षणम् ॥

मनु० ७।१।२।

अब मनु जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारोंवर्ण और चारों आश्रमों के व्यवहार कथन के पश्चात् राजधर्मों को कहेंगे कि किस प्रकार का राजा होना चाहिये और जैसे इस के होने का संभव तथा जैसे इस को परम सिद्धि प्राप्त होवे उस को सब प्रकार कहते हैं ॥ कि जैसा परम विद्वान् ब्राह्मण होता है वैसा विद्वान् सुशिक्षित हो कर क्षत्रिय को योग्य है कि इस सब राज्य की रक्षा न्याय से यथावत् करे उसका प्रकार यह है:—

त्रीणि राजाना विदुर्धे पुरूणि परि विश्वानि भूषथः
सदांसि ॥ ऋ० ॥ मं० ३।सू० ३८।मं० ६ ॥

ईश्वर उपदेश करता है कि (राजाना) राजा और प्रजा के पुण्य मित्त के (विदुर्धे) सुखप्राप्ति और विज्ञानवृद्धिकारक राजा प्रजा के सम्बन्धरूप व्यवहार में (त्रीणि सदांसि) तीन सभा अर्थात् विद्यार्थ्यसभा, धर्मार्थ्यसभा, राजार्थ्यसभा नियत करके (पुरूणि) बहुत प्रकार के (विश्वानि) समय प्रजा सम्बन्धी मनुष्यादि प्राणियों को (परिभूषथः) सब ओर से विद्या स्वातन्त्र्य धर्म सुशिक्षा और धनादि से अलंकृत करें ॥

तं सभा च समितिश्च सेनां च ॥ अथर्व० ॥ कां० १५ ।
मनु० २।व० ९।मं० २ ॥

सभ्यं सभां मे पाहि ये च सभ्याः सभासदः ॥ अथर्व० ॥

का० १९ । अनु० ७ । व० ५५ । मं० ६ ॥

(तम्) उस राजधर्म को (सभा च) तीनों सभा (समितिय) संग्रामादि की व्यवस्था और (सेना च) सेना मिल कर पालन करें ॥ सभासद् और राजा को योग्य है कि राजा सब सभासदों को आज्ञा देवे कि हैं (सभ्य) सभा के योग्य मुख्य सभासद् तू (मे) मेरी (सभाम्) सभा की धर्मयुक्त व्यवस्था का (पाहि) पालन कर और (ये च) जो (सभ्याः) सभा के योग्य (सभासदः) सभासद् हैं वे भी सभा की व्यवस्था का पालन किया करें ॥ इस का अभिप्राय यह है कि एक को स्वतन्त्रराज्य का अधिकार न देना चाहिये किन्तु राजा जो सभापति तद्-धीन सभा, सभाधीन राजा, राजा और सभा प्रजा के आधीन और प्रजा राज-सभा के आधीन रहै यदि ऐसा न करा गे तो :—

राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्वाष्ट्री विशं घातुकः । विश-
मेव राष्ट्रायाद्यां करोति तस्माद्वाष्ट्री विशमन्ति न पुष्टं पशुं
मन्यत इति ॥ शत० का० १३ । प्र० २ । ब्रा० ३ । कं० ७ । ८ ॥

जो प्रजा से स्वतन्त्र स्वाधीन राजवर्ग रहै तो (राष्ट्रमेव विश्याहन्ति) राज्य में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करें जिस लिये अकेला राजा स्वाधीन वा सन्तुष्ट हो के (वाष्ट्री विशं घातुकः) प्रजा का नाशक होता है अर्थात् (विशमेव राष्ट्रायाद्यां करोति) वह राजा प्रजा को खाये जाता (अत्यन्तपोडित करता) है इस लिये किसी एक को राज्य में स्वाधीन न करना चाहिये जैसे सिंह वा मांसाहारी रुष्ट पुष्ट पशु को मार कर खा लेते हैं वैसे (राष्ट्री विशमन्ति) स्वतन्त्र राजा प्रजा का नाश करता है अर्थात् किसी को अपने से अधिक न होने देता श्रीमान् को लूट, खूद अन्याय से दख ले के अपना प्रयोजन पूरा करेगा इसलिये:—

इन्द्रो जयाति न परा जयाता अधिराजो राजंसु राज
यातै । चर्कृत्य ईड्यो वन्द्यश्चोपसद्यो नमस्यो भवेह ॥
अथर्व० ॥ का० ६ । अनु० १० । व० ९८ । मं० १ ॥

हे मनुष्यो जो (इह) इस मनुष्य के समुदाय में (इन्द्रः) परम ऐश्वर्य का कर्ता शत्रुओं को (जयाति) जीत सके (न पराजयातै) जो शत्रुओं से पराजित न हो (राजसु) राजाओं में (अधिराजः) सर्वोपरि विराजमान (राजयातै)

प्रकाशमान हो (चर्कित्यः) सभापति होने को अत्यन्त योग्य (ईड्यः) प्रशंसनीय गुण कर्म स्वभावयुक्त (वन्द्यः) सत्कारण्योय (चोपसद्यः) समीप जाने और शरण लेने योग्य (नमस्यः) सब का माननीय (भव) होवे उसी को सभापति राजा करे ॥

**इमन्देवा असपत्न सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्यैष्ठ्याय
महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय ॥ यजुः० ॥ अ० ९ । मं० ४० ॥**

हे (देवाः) विद्वानो राजप्रजाजनो तुम (इमम्) इस प्रकार के पुरुष को (महते क्षत्राय) बड़े चक्रवर्ति राज्य (महते ज्यैष्ठ्याय) सब से बड़े होने (महते जानराज्याय) बड़े २ विद्वानों से युक्त राज्य पालने और (इन्द्रस्येन्द्रियाय) परम ऐश्वर्ययुक्त राज्य और धन के पालने के लिये (असपत्नसुवध्वम्) सम्पत्ति करके सर्वत्र पक्षपात रहित पूर्णविद्याविनय युक्त सब के मिल सभापति राजा को सर्वाधीश मान के सब भूगोल प्रन्नरहित करे और :—

**स्थिरा वः सन्त्वायुधा पराणुदे वीळू उत प्रतिष्कभे ।
युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी मा मर्त्यस्य मायिनः ॥ ऋ० ॥
मं० १ । सू० ३९ । मं० २ ॥**

ईश्वर उपदेश करता है कि हे राजपुरुषो (वः) तुम्हारे (आयुधा) आग्नेयादि अस्त्र और शतशो (तोप) भुशुण्डी (बन्दूक) धनुष्, बाण करवाल (तरवाल) आदि शस्त्र शस्त्रों के (पराणुदे) पराजय करने (उत प्रतिष्कभे) और राकने के लिये (वीळू) प्रशंसित और (स्थिरा) दृढ़ (सन्तु) हो (युष्माकम्) और तुम्हारी (तविषी) सेना (पनीयसी) प्रशंसनीय (अस्तु) होवे कि जिस से तुम सदा विजयी होओ परन्तु (मा मर्त्यस्य मायिनः) जो निन्दित अन्यायरूप काम करता है उस के लिये पूर्व वस्तु मत ही अर्थात् जब तक मनुष्य धार्मिक रहते हैं तभी तक राज्य बढ़ता रहता है और जब दुष्टाचारी होते हैं तब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है । महाविद्वानों को विद्या सभाऽधिकारी, धार्मिक विद्वानों को धर्मसभाऽधिकारी, प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषों को राजसभा के सभासद् और जो उन सब में सर्वोत्तम गुण कर्म स्वभाव युक्त महान् पुरुष हो उस को राजसभा का पति रूप मान के सब प्रकार से उन्नति करे । तीनों सभाओं को सम्पत्ति से राजनीतिके उत्तम नियम और नियमोंके आधीन सब लोग वर्षों सब के महत्कारक कामों में संमति करें सर्वहित करने के लिये परतन्त्र और धर्मयुक्त कामों में अर्थात् जो २ निज के काम हैं उन २ में स्रतन्त्र रहें । पुनः उस सभापति के गुण कैसे होने चाहिये :—

इन्द्राऽनिलयमार्काणामग्रेषु वरुणस्य च ।
 चन्द्रवित्तेशयोश्चैव माता निर्हृत्य शाश्वतीः ॥
 तपत्यादित्यवच्चैप चजूषि च मनांसि च ।
 नचैनं भुवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवीक्षितुम् ॥
 सोऽग्निर्भवति वायुश्च सोऽर्कः सोमः स धर्मराट् ।
 स कुवेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥
 म० ७ । ४ । ६ । ७ ।

वह समीप राजा इन्द्र अर्थात् विद्युत् के समान शीघ्र ऐश्वर्य्य कर्त्ता, वायु के समान सब के प्राणवत् प्रिय और हृदय की बात जानने हारा यम पक्षपात रहित न्यायाधीश के समान वर्त्तने वाला, सूर्य्य के समान न्याय धर्म विद्या का प्रकाशक अंधकार अर्थात् अविद्या अन्याय का विरोधक, अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने हारा, वरुण अर्थात् बांधने वाले के सदृश दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधने वाला, चन्द्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषों की आनन्द दाता, धनाध्यक्ष के समान कोशों का पूर्ण करने वाला सभापति होवे ॥ जो सूर्य्यवत् प्रतापी सब के बाहर और भीतर मनों को अपने तेज से तपाने हारा जिस को पृथिवी में करड़ी दृष्टि से देखने को कोई भी समर्थ न हो ॥ और जो अपने से अग्नि, वायु, सूर्य्य, सोम, धर्म, प्रकाशक, धनवर्द्धक, दुष्टों का बन्धनकर्त्ता, बड़े ऐश्वर्य्य वाला होवे वही सभाध्यक्ष समीप होने के योग्य होवे ॥ सच्चा राजा कौन है :—

स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः ।
 चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥
 दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति ।
 दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धर्मं विदुर्बुधाः ॥
 समीक्ष्य स धृतः सम्यक् सर्वा रञ्जयति प्रजाः ।
 असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः ॥
 दुष्येयुः सर्ववर्णाश्च भिद्येरन्सर्वसेतवः ।
 सर्वे लोकप्रकोपश्च भवेदण्डस्य विभ्रमात् ॥

यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापहा ।
 प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत्साधु पश्यति ॥
 तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम् ।
 समीक्ष्य कारिणं प्राज्ञं धर्मकामार्थकोविदम् ॥
 तं राजा प्रणयन्सम्यक् त्रिवर्गेणाभिवर्द्धते ।
 कामात्मा विषमः क्षुद्रो दण्डेनैव निहन्यते ॥
 दण्डो हि सुमहत्तेजो दुर्धरश्चाकृतात्मभिः ।
 धर्माद्विचलितं हन्ति नृपमेव सबान्धवम् ॥
 सोऽसहायेन मूढेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना ।
 न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥
 शुचिना सत्यसन्धेन यथा शास्त्रानुसारिणा ।
 प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥

मनु० ७ । १७-१९ । २४-२८ । ३० । ३१ ॥

जो दण्ड है वही पुरुष, राजा, वही न्याय का प्रचारकर्ता, और सब का शासनकर्ता वही चार वर्ण और चार आश्रमों के धर्म का प्रतिभू अर्थात् जामिन् है ॥ वही प्रजा का शासनकर्ता सब प्रजा का रक्षक सीते हुए प्रजास्य मनुष्यों में जागता है इसी लिये बुद्धिमान् लोग दण्ड ही को धर्म कहते हैं ॥ जो दण्ड अच्छे प्रकार विचार से धारण किया जाय तो वह सब प्रजा को आनन्दित कर देता है और जो बिना विचारे चलाया जाय तो सब और से राजा का विनाश कर देता है ॥ बिना दण्ड के सब वर्ण दूषित और सब मर्यादा क्षिन्न भिन्न हो जायें । दण्ड के यथावत् न होने से सब लोगों का प्रकोप हो जावे ॥ जहाँ क्षण वर्ण रक्त नेत्र भयंकर पुरुष के समान पापों का नाश करने हारा दण्ड विचरता है वहाँ प्रजा मोह को प्राप्त न हो के आनन्दित होती है परन्तु जो दण्ड का चलाने वाला पक्षपातरहित विद्वान् हो तो ॥ जो उस दण्ड का चलाने वाला मत्वादी विचार के करने हारा बुद्धिमान् धर्म अर्थ और काम की सिद्धि करने में पंडित राजा है उसी को उस दण्ड का चलाने हारा विद्वान् लोग कहते हैं ॥ जो दण्ड को अच्छे प्रकार राजा चलाता है वह धर्म अर्थ और काम की सिद्धि को बढ़ाता है और जो विषय

में लंपट ईर्ष्या करने हारा क्षुद्र नीच बुद्धि न्यायाधीश राजा होता है वह दण्ड से ही मारा जाता है ॥ जब दण्ड बड़ा तेजोमय है उस को अविद्वान् अधर्मात्मा धारण नहीं कर सकता तब वह दंड धर्म से रहित राजा ही का नाश कर देता है ॥ क्यों कि जो आम पुरुषों के सहाय विद्या-सुशिक्षा से रहित विषयों में आसक्त झूठ है वह न्याय से दंड चल्नाने में समर्थ कभी नहीं हो सकता ॥ और जो पवित्र आत्मा सत्याचार और सत्पुरुषों का संगी यथावत् नीतिशास्त्र के अनुकूल चलने हारा श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से युक्त बुद्धिमान् है वही न्यायरूपी दंड के चल्नाने में समर्थ होता है ॥ इस लिये :—

सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च ।
 सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति ॥
 दशावरा वा परिषद्यं धर्मं परिकल्पयेत् ।
 त्र्यवरा वापि वृत्तस्था तं धर्मं न विचालयेत् ॥
 त्रैविद्यो हैतुकस्तर्की नैरुक्तो धर्मपाठकः ।
 त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वं परिषत्स्याद्दशावरा ॥
 ऋग्वेदविद्यजुर्विच्च सामवेदविदेव च ।
 त्र्यवरा परिषज्ज्ञेया धर्मसंशयनिर्णये ॥
 एकोपि वेदविद्धर्मं यं व्यवस्येद् द्विजोत्तमः ।
 स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामुदितोऽयुतैः ॥
 अव्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम् ।
 सहस्रशः समेतानां परिपत्त्वं न विद्यते ॥
 यं वदन्ति तमोभूता मूर्खा धर्ममतद्विदः ।
 तत्पापं शतधा भूत्वा तद्वक्तृननुगच्छति ॥
 मनु० १२ । १०० । ११०—११५ ॥

सब सेना और सेनापतियों के ऊपर राज्याधिकार, दंड देने की व्यवस्था के सब कार्यों का आधिपत्य और सब के ऊपर वर्तमान सर्वाधीश राज्याधिकार इन चारों अधिकारों में संपूर्ण वेदशास्त्रों में प्रवीण पूर्णविद्या वाले धर्मात्मा चितेन्द्रिय

सुगौल जनों को स्थापित करना चाहिये अर्थात् मुख्य सेनापति मुख्य राज्याधि-
कारी मुख्य न्यायाधीश प्रधान, और राजा ये चार सब विद्याओं में पूर्ण विद्वान्
होने चाहिये ॥ न्यून से न्यून दश विद्वानों अथवा बहुत न्यून हों तो तीन विद्वानों
की सभा जैसी व्यवस्था करे उस धर्म अर्थात् व्यवस्था का उल्लंघन कोई भी न करे ॥
इस सभा में चारों वेद, न्यायशास्त्र, निरुक्त, धर्मशास्त्र, आदि के वेत्ता विद्वान्
सभासद् हों परन्तु वे ब्रह्मचारी गृहस्थ और वानप्रस्थ हों तब वह सभा हो कि
जिस में दश विद्वानों से न्यून न होने चाहिये ॥ और जिस सभा में ऋग्वेद यजुर्वेद
सामवेद के जानने वाले तीन सभासद् हो के व्यवस्था करे उस सभा की की हुई
व्यवस्था को भी कोई उल्लंघन न करे ॥ यदि एक अकेला सब वेदों का जानने हारा
द्विजों में उत्तम संन्यासी जिस धर्म की व्यवस्था करे वही श्रेष्ठ धर्म है क्योंकि— ॥
अज्ञानियों के सहस्त्रों लाखों क्रोड़ों मिल के जो कुछ व्यवस्था करे उस को कभी न
मानना चाहिये ॥ जो ब्रह्मचर्य सत्यभाषणादि व्रत वेदविद्या वा विज्ञान-
जन्ममात्र से शूद्रवत् वर्तमान हैं उन सहस्त्रों मनुष्यों के वि-
कहाती ॥ जो अविद्यायुक्त मूर्ख वेदों के न जानने वाले **पुत्र च ॥**
उस को कभी न मानना चाहिये क्योंकि जो मूर्खों के **तारिणा ।**
चलते हैं उन के पीछे सैकड़ों प्रकार के पाप लग जाते **प्रामता ॥**
विद्यासभा, धर्मसभा, और राजसभाओं में मूर्ख
सदा विद्वान् और धार्मिक पुरुषों का स्थापन करे और सब **३० । ३१ ॥**

त्रैविद्येभ्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीतिं च कर्मा, और सब का
आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां वार्त्तारम्भांश्च अर्थात् जामिन्
इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेद्विवर्त्तमानश्च ज्ञास्य मनुष्यों में
जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितुं जो दण्ड अच्छे
दश कामसमुत्थानि तथाष्टौ क्रोधजानि चाये । दण्ड
व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्ननेन विवर्जयेत् रक्त नेत्र
कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु सहीपतिः । प्रायश्चित्त प्रजा
वियुज्यतऽर्थधर्माभ्यां क्रोधजेष्व्वात्मनैव तु ॥ ३१ ॥
मृगयाक्षो दिवास्वप्नः परीवादः स्त्रियो मदः ।
तौर्यत्रिकं वृथाव्या च कामजो दशको गणः ॥

पैशुन्यं साहसं द्रोह ईर्ष्यासूयार्थदूपणम् ।
 वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥
 द्वयोरप्येतयोर्मूलं यं सर्वे कवयो विदुः ।
 तं यत्नेन जयेद्भोमं तज्जावेतावुभौ गणौ ॥
 पानमक्षाः स्त्रियश्चैव मृगया च यथाक्रमम् ।
 एतत्कष्टतमं विद्याञ्चतुष्कं कामजे गणे ॥
 दण्डस्य पातनं चैव वाक्पारुष्यार्थदूपणे ।
 क्रोधजेऽपि गणे विद्यात्कष्टमेतत्तिकं सदा ॥
 सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रैवानुपद्भिः ।
 त्र्यवरा वर्वं गुरुतरं विद्याद्वयसनमात्मवान् ॥
 त्रैविद्यो हैत्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते ।
 त्रयश्चाश्रमिणोऽधो व्रजति स्वर्गात्यव्यसनीमृतः ॥ मनु०
 ऋग्वेदति ४३-५३

त्र्यवरा षतभा के सभासद् तब हो सकते हैं कि जब वे चारों वेदों की
 एकोति विद्याओं के जानने वालों से तीनों विद्या, सनातन दंडनोति,
 स विद्या अर्थात् परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव रूपको यथावत् जानने
 और लोक से वार्त्ताओं का आरंभ (कहना और पूकना) सीख कर
 सभापति हो सकें ॥ सत्र सभासद् और सभापति इन्द्रियों को जीत
 ख के सदा धर्म में वरुं और अधर्म से हटे हटाए रहें । इस लिये
 सहीत समय में योगाभ्यास भी करते रहें क्योंकि जो जितेन्द्रिय हो अपनी
 शं मन प्राण और शरीर प्रजा है इस) को न जीतले तो बाहर की प्रजा
 वश में स्थापन करने को समर्थ कभी नहीं हो सकता ॥ दृढ़ीत्साही हो
 काम से दश और क्रोध से आठ दुष्ट व्यसन कि जिन में फसा हुआ मनुष्य
 ॥ से निकल सके उन को प्रवृत्त से छोड़ और छोड़ा देवे ॥ क्योंकि जो राजा
 सत्र से उत्पन्न हुए दश दुष्ट व्यसनों में फसता है वह अर्थ अर्थात् राज्यधनादि
 और धर्म से रहित हो जाता है और जो क्रोध से उत्पन्न हुए आठ बुरे व्यसनों में

सुग्रीव जनों को स्थापित करना चाहिये अर्थात् मुख्य सेनापति मुख्य राज्याधिकारी मुख्य न्यायाधीश प्रधान, और राजा ये चार सब विद्याओं में पूर्ण विद्वान् होने चाहिये ॥ न्यून से न्यून दश विद्वानों अथवा बहुत न्यून हों तो तीन विद्वानों को सभा जैसी व्यवस्था करे उस धर्म अर्थात् व्यवस्था का उल्लंघन कोई भी न करे ॥ इस सभा में चारों वेद, न्यायशास्त्र, निरुक्त, धर्मशास्त्र, आदि के वेत्ता निद्वान् सभासद् हों परन्तु वे ब्रह्मचारी गृहस्थ और वानप्रस्थ हों तब वह सभा हो कि जिस में दश विद्वानों से न्यून न होने चाहिये ॥ और जिस सभा में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के जानने वाले तीन सभासद् हो के व्यवस्था करे उस सभा की की हुई व्यवस्था को भी कोई उल्लंघन न करे ॥ यदि एक अकेला सब वेदों का जानने हारा द्विजों में उत्तम सन्धासी जिस धर्म की व्यवस्था करे वही श्रेष्ठ धर्म है क्योंकि— ॥ अन्नानिर्यो के सहस्रों लाखों क्रोड़ों मिल के जो कुछ व्यवस्था करे उस को कभी न मानना चाहिये ॥ जो ब्रह्मचर्य सत्यभाषणादि व्रत वेदविद्या वा विद्या-जन्ममात्र से शूद्रवत् वर्त्तमान हैं उन सहस्रों मनुष्यों के विषु च ॥ कहाती ॥ जो अविद्यायुक्त मूर्ख वेदों के न जानने वाले उस को कभी न मानना चाहिये क्योंकि जो मूर्खों के तारिणा । चलते हैं उन के पीछे सैकड़ों प्रकार के पाप लग जायेंगीमता ॥ विद्यासभा, धर्मसभा, और राजसभाओं में मूर्ख सदा विद्वान् और धार्मिक पुरुषों का स्थापन करे और सब ३० । ३१ ॥

त्रैविद्येभ्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीतिं च कर्मा, और सब का
 आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां वार्त्तारम्भांश्च अर्थात् जामिन्
 इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेद्विद्वेज् जो दण्ड अच्छे
 जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितुं दित कर देता
 दश कामसमुत्थानि तथाष्टौ क्रोधजानि चारि । दण्ड
 व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्ननेन विवर्जयेत् रक्त नेत्र
 कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु सहीपतिः । षा प्रजा
 वियुज्यतेऽर्थधर्माभ्यां क्रोधजेष्व्वात्मनैव तु ॥ ३१ ॥ के
 मृगयाक्षो दिवास्वप्नः परीवादः स्त्रियो मदः ।
 तौर्यत्रिकं वृथाद्या च कामजो दशको गणः ॥

अपि यत्सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम् ।
 विशेषतोऽसहायेन किन्तु राज्यं महोदयम् ॥
 तैः साद्धे चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्धिविग्रहम् ।
 स्थानं समुदयं गुप्ति लब्धप्रशमनानि च ॥
 तेषां स्वं स्वमभिप्रायमुपलभ्य पृथक् पृथक् ।
 समस्तानाञ्च कार्ख्येषु विदध्याद्वितमात्मनः ॥
 अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन् प्राज्ञानवस्थितान् ।
 सम्यगर्थसमाहर्तृन्मात्यान्सुपरीक्षितान् ॥
 निवर्तेतास्य यावद्भिरिति कर्तव्यता नृभिः ।
 तावतोऽतन्द्रितान् दक्षान् प्रकुर्वीत विचक्षणान् ॥
 तेषामर्थे नियुञ्जीत शूरान् दक्षान् कुलोद्गतान् ।
 शुचीनाकरकर्मान्ते भीरून्तन्निवेशने ॥
 दूतं चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारदम् ।
 इङ्गिताकारचेष्टज्ञं शुचिं दक्षं कुलोद्गतम् ॥
 अनुरक्तः शुचिर्दक्षः स्मृतिमान् देशकालवित् ।
 वपुष्मान्वीतभीर्वाग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते ॥
 म० ७ । ५४-५७ । ६०-६४ ।

स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए, वेदादिशास्त्रों के जानने वाले, शूर वीर, जिन का राज्य अर्थात् विचार निष्फल न हो और कुलीन, अच्छे प्रकार सुपरीक्षित, सात वा आठ उत्तम धार्मिक चतुर "सचिवान्" अर्थात् मन्त्री करे ॥ क्योंकि विशेष सहाय के बिना जो सुगम कर्म है वह भी एक के करने में कठिन हो जाता है जब ऐसा है तो महान् राज्य कर्म एक से कैसे हो सकता है? इस लिये एक को राजा और एक को बुद्धि पर राज्य के कार्य का निर्भर रखना बहुत ही बुरा काम है ॥ इस से सभापति को उचित है कि नित्य प्रति उन राज्य कर्मों में कुशलविद्वान् मन्त्रियों के साथ सामान्य करके किसी से (सन्धि) मित्रता किसी से (विग्रह)

फसता है वह शरीर से भी रहित हो जाता है ॥ काम से उत्पन्न हुए व्यसन गिनाते हैं देखो । मृगया-खेलना (अन्न) अर्थात् चौपड़ खेलना जुवा खेलनादि, दिन में सोना, काम कथा वा दूसरे की निंदा किया करना, स्त्रियों का असंग, मादकद्रव्य अर्थात् मद्य, अफीम, भांग, गांजा, चरस आदि का सेवन, गाना, बजाना, नाचना वा नाच कराना सुनना और देखना, हथा इधर उधर घूमते रहना, ये दश कामोत्पन्न व्यसन हैं ॥ क्रोध से उत्पन्न व्यसनों की गिनाते हैं "पैशु-न्यम्" अर्थात् खुगली करना, बिना विचार बलात्कार से किसी की स्त्री से बुरा काम करना, द्रोह रखना, ईर्ष्या, अर्थात् दूसरे की बड़ाई वा उन्नति देख कर जला करना, "असूया" दोषों में गुण, गुणों में दोषारोपण करना "अर्थदूषण" अर्थात् अधर्मयुक्त बुरे कामों में धनादि का व्यय करना, कठोर वचन बोलना, और बिना अपराध कड़ा वचन वा विशेष दंड देना, ये आठ दुर्गुण क्रोध से उत्पन्न होते हैं ॥ जो सब विद्वान् लोग कामज और क्रोधजों का मूल जानते हैं कि जिस से ये सब दुर्गुण मनुष्य को प्राप्त होते हैं उस लोभ को प्रयत्न से छोड़ें ॥ काम के व्यसनों में बड़े दुर्गुण एका मद्यादि अर्थात् मदकारक द्रव्यों का सेवन दूसरा पासी आदि से जुवा खेलना तीसरा स्त्रियों का विशेष संग चौथा मृगया खेलना ये चार महादुष्ट व्यसन हैं ॥ और कामजों में बिना अपराध दंड देना कठोर वचन बोलना और धनादि का अन्याय में खर्च करना ये तीन क्रोध से उत्पन्न हुए बड़े दुःखदायक दोष हैं ॥ जो ये सात दुर्गुण दोषों कामज और क्रोधज दोषों में गिने हैं इन में से पूर्व २ अर्थात् व्यर्थ व्यय से कठोर वचन, कठोर वचन से अन्याय, अन्याय से दंड देना, इस से मृगया खेलना, इस से स्त्रियों का अत्यन्त संग, इस से जुवा अर्थात् व्यत करना और इस से भी मद्यादि सेवन करना बड़ा दुष्ट व्यसन है ॥ इस में यह नियम है कि दुष्ट व्यसन में फसने से मर जाना अच्छा है क्योंकि जो दुष्टाचारी पुरुष है वह अधिक लियेगा तो अधिक २ पाप करके नीच र गति अर्थात् अधिक २ दुःख को प्राप्त होता जायगा और जो किसी व्यसन में नहीं फसा वह मर भी जायगा तो भी सुख को प्राप्त होता जायगा इस लिये विशेष राजा और सब मनुष्यों को उचित है कि कभी मृगया और मद्यपानादि दुष्ट कामों में न फसें और दुष्टव्यसनों से पृथक् हो कर धर्मयुक्त गुण कर्म स्वभावों में सदा वर्तने के अच्छे २ काम किया करें ॥ राजसभासद और मंत्री कैसे होने चाहिये:-

मौलान् शास्त्रविदः गुरोर्लब्धतक्षान् कुलोद्गतान् ।

सचिवान्सप्त चाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान् ॥

अपि यत्सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम् ।
 विशेषतोऽसहायेन किन्तु राज्यं महोदयम् ॥
 तैः साद्धे चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्धिविग्रहम् ।
 स्थानं समुदयं गुप्तिं लब्धप्रशमनानि च ॥
 तेषां स्वं स्वमभिप्रायमुपलभ्य पृथक् पृथक् ।
 समस्तानाञ्च कार्येषु विदध्याद्धितसात्मनः ॥
 अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन् प्राज्ञानवस्थितान् ।
 सम्यगर्थसमाहर्तृन्मात्यान्सुपरीक्षितान् ॥
 निवर्त्तेतास्य यावद्भिरिति कर्तव्यता नृभिः ।
 तावतोऽतन्द्रितान् दक्षान् प्रकुर्वीत विचक्षणान् ॥
 तेषामर्थे नियुञ्जीत गूरान् दक्षान् कुलोद्गतान् ।
 शुचीनाकरकर्मान्ते भीरून्तन्निवेशने ॥
 दूतं चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारदम् ।
 इङ्गिताकारचेष्टज्ञं शुचिं दक्षं कुलोद्गतम् ॥
 अनुरक्तः शुचिर्दक्षः स्मृतिमान् देशकालवित् ।
 वपुष्मान्वीतभीर्वाग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते ॥

म० ७ । ५४-५७ । ६०-६४ ।

स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए, वेदादिशास्त्रों के जानने वाले, गूर वीर, जिन का लक्ष्य अर्थात् विचार निष्फल न हो और कुलीन, अच्छे प्रकार सुपरीक्षित, सात वा आठ उत्तम धार्मिक चतुर "सचिवान्" अर्थात् मन्त्री करे ॥ क्योंकि विशेष सहाय के बिना जो सुगम कर्म है वह भी एक के करने में कठिन हो जाता है जब ऐसा है तो महान् राज्य कर्म एक से कैसे हो सकता है? इस लिये एक को राजा और एक की बुद्धि पर राज्य के कार्य का निर्भर रखना बहुत ही बुरा काम है ॥ इस से सभापति को उचित है कि नित्य प्रति उन राज्य कर्मों में कुशलविद्वान् मन्त्रियों के साथ सामान्य करके किसी से (सन्धि) मित्रता किसी से (विग्रह)

विरोध (स्थान) स्थिति समय को देख के सुपचाप रचना अपने राज्य की रक्षा करके बैठे रहना (समुदयम्) जब अपना उदय अर्थात् वृद्धि हो तब दुष्ट शत्रु पर चढ़ाई करना (गुप्तिम्) शूल राज सेना कोश आदि की रक्षा (लब्धप्रशमनानि) जो २ देश प्राप्त हों उस २ में शान्तिस्थापन उपद्रव रहित करना इन छः गुणों का विचार नित्य प्रति किया करे ॥ विचार से करना कि उन सभासदों का मूत्रक २ अपना २ विचार और अभिप्राय को सुन कर बहुपचानुसार कार्यों में जो कार्य अपना और अन्य का हितकारक हो वह करने लगना ॥ अन्य भी पवित्रात्मा, बुद्धिमान्, निश्चितबुद्धि, पदार्थों के संघट्ट करने में अतिचतुर सुपरोक्षित मन्त्री करे ॥ जितने मनुष्यों से कार्य सिद्ध हो सके उतने आलस्यरहित बलवान् और बड़े २ चतुर प्रधान पुरुषों को (अधिकारी) अर्थात् नौकर करे ॥ इस के आधीन शूरवीर बलवान् कुलोत्पन्न पवित्र मूल्यां को बड़े २ कर्मों में और भीरु डरने वाली को भीतर के कर्मों में नियुक्त करे ॥ जो प्रशंसित कुल में उत्पन्न चतुर पवित्र हाव भाव और चेष्टा से भीतर हृदय और भविष्यत् में होने वाली बात को जानने हारा सब शास्त्रों में विशारद चतुर है उस दूत को भी रखे ॥ वह ऐसा हो कि राज काम में अत्यन्त उत्साह प्रीतियुक्त, निष्कपटौ, पवित्रात्मा चतुर, बहुत समय की बात को भी न भूलने वाला, देश और कालानुकूल वसं-म्बन का कर्ता सुन्दर रूपयुक्त, निर्भय और बड़ा बतता ही वही राजा का दूत होने में प्रशस्त है ॥ किस २ को क्या २ अधिकार देना योग्य है:—

अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डे वैनयिकी क्रिया ।
 नृपतौ कोशराष्ट्रे च दूते सन्धिविपर्ययौ ॥
 दूत एव हि संधत्ते भिनत्येव च संहतान् ।
 दूतस्तत्कुरुते कर्म भिद्यन्ते येन वा न वा ॥
 बुद्ध्वा च सर्वन्तत्त्वेन परराजचिकीर्षितम् ।
 तथा प्रयत्नमातिष्ठेद्यथात्मानं न पीडयेत् ॥
 धनुर्दुर्गं महीदुर्गमब्दुर्गं वार्द्धमेव वा ।
 नृदुर्गं गिरिदुर्गं वा समाश्रित्य वसेत्पुरम् ॥
 एकः शतं चोधयति प्राकारस्यो धनुर्धरः ।
 शतं दश सहस्राणि तस्माद्दुर्गं विधीयते ॥

तत्स्यादायुधसम्पन्नं धनधान्येन वाहनैः ।
 ब्राह्मणैः शिल्पिभिर्यन्त्रैर्यवसेनोदकेन च ॥
 तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेद्बृहमात्मनः ।
 गुप्तं सर्वकुंकं शुभ्रं जलवृक्षसमन्वितम् ॥
 तदध्यास्योद्बहेद्भार्यां सवर्णां लक्ष्णान्विताम् ।
 कुले महति सम्भूतां हृद्यां रूपगुणान्विताम् ॥
 पुरोहितं प्रकुर्वीत वृणुयादेव चर्त्विजम् ।
 तेऽस्य गृह्याणि कर्माणि कुर्युर्वै तानि कानि च ॥

मनु० ७। ६५। ६६। ६८। ७०। ७४-७८ ॥

अमात्य जो दण्डाधिकार, दण्ड में विनय क्रिया अर्थात् जिस से अन्यायरूप दण्ड न होने पावे, राजा के आधीन कोश और राज कार्य तथा सभा के आधीन सब कार्य और दूत के आधीन किसी से मेल वा विरोध करना अधिकार देवे ॥ दूत उस को कहते हैं जो फूट में मेल और मिले हुए दुष्टों को फोड़ तोड़ देवे दूत वह कर्म करे जिस से शत्रुओं में फूट पड़े ॥ वह सभापति और सब सभासद वा दूत आदि यद्यार्थ से दूसरे विरोधी राजा के राज्य का अभिप्राय जान के वैसा यत्न करे कि जिस से अपने को पीड़ा न हो ॥ इस लिये सुन्दर जङ्गल धन धान्य युक्त देश में (धनुर्दुर्गम्) धनुर्धारी पुरुषों से गहन (महीदुर्गम्) मही से किया हुआ (अर्द्धुर्गम्) जल से घेरा हुआ (वार्चम्) अर्थात् चारों ओर वन (नृदुर्गम्) चारों ओर सेना रहे (गिरिदुर्गम्) अर्थात् चारों ओर पहाड़ों के बीच में कोट बना के इस के मध्य में नगर बनावे ॥ और नगर के चारों ओर (प्राकार) प्रकोट बनावे क्योंकि उस में स्थित हुआ एक वीर धनुर्धारी शस्त्रयुक्त पुरुष सौ के साथ और सौ दशहजार के साथ युद्ध कर सकते हैं इस लिये अवश्य दुर्ग का बनाना उचित है ॥ वह दुर्ग शस्तास्त्र, धन, धान्य, वाहन, ब्राह्मण जो पढ़ाने उपदेश करने हारे हैं (शिल्पि) कारीगर, यन्त्र नागा प्रकार की कला, (यवसेन) चारा घास और जल आदि से सम्पन्न अर्थात् परिपूर्ण है ॥ उस के मध्य में जल वृक्ष पुष्पादिक सब प्रकार से रक्षित सब ऋतुओं में सुखकारक प्रवेतयण अपने लिये घर जिस में सब राजकार्य का निर्वह हो वैसा बनवावे ॥ इतना अर्थात् ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ के यहां तक राज काम करके पश्चात् सौन्दर्यरूप गुणयुक्त हृदय की अतिप्रिय बड़े

उत्तम कुल में उत्पन्न सुन्दर लक्षण युक्त अपने क्षत्रियकुल की कन्या जो कि अपने सट्टय विद्यादि गुण कर्म स्वभाव में हो उस एक ही स्त्री के साथ विवाह करे दूसरी सब स्त्रियों को अगम्य समझ कर दृष्टि से भी न देखे ॥ पुरोहित और ऋत्विज का स्वीकार इस लिये करे कि वे अग्निहोत्र और पक्षेष्टिआदि सब राजघर के कर्म किया करें और आप सर्वदा राजकार्य में तत्पर रहे अर्थात् यही राजा का सम्बन्धोपासनादि कर्म है जो रात दिन राज्य कार्य में प्रवृत्त रहना और कोई राज काम बिगड़ने न देना ॥

सांवत्सरिकमातैश्च राष्ट्रादाहारयेदितिम् ।

स्याञ्चाम्नायपरो लोके वर्तेत पितृवन्नृपु ॥

अध्यक्षान् विवधान् कुर्यात् तत्र तत्र विपश्चितः ।

तेऽस्य सर्वाण्यवेक्षेरन्नृणां कार्याणि कुर्वताम् ॥

आवृत्तानां गुरुकुलादिप्राणां पूजको भवेत् ।

नृपाणामक्षयो ह्येष निधिर्ब्राह्मो विधीयते ॥

समोत्तमाधमै राजा त्वाहूतः पालयन् प्रजाः ।

न निवर्तेत सङ्ग्रामात् क्षात्रं धर्ममनुस्मरन् ॥

आहवेषु मिथोन्योऽन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः ।

युध्यमानाः परं शक्त्या स्वर्गं यान्त्यपराङ्मुखाः ॥

न च हन्यात्स्थितारूढं न क्लीवं न कृताञ्जलिम् ।

न मुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीतिवादिनम् ॥

न सुप्तं न विसन्नाहं न नम्रं न निरायुधम् ।

नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम् ॥

नायुध्यमानं प्राप्तं नार्त्तं नातिपरिहृतम् ।

न भीतं न परावृत्तं सतां धर्ममनुस्मरन् ॥

यस्तु भीतः परावृत्तः सङ्ग्रामे हन्यते परैः ।

भर्त्तुर्यदुष्कृतं किञ्चित्तत्सर्वं प्रतिपद्यते ॥

यज्ञास्य सुकृतं किञ्चिदमुत्रार्थमुपार्जितम् ।

भर्ता तत्सर्वमादत्ते परावृत्तहतस्य तु ॥

रथाश्वं हस्तिनं छत्रं धनं धान्यं पशून् स्त्रियः ।

सर्वद्रव्याणि कुप्यं च यो यज्जयति तस्य तत् ॥

राज्ञश्च दद्युरुद्धारमित्येषा वैदिकी श्रुतिः ।

राज्ञा च सर्वयोधेभ्यो दातव्यमपृथग्जितम् ॥

मनु० ७ । ८०-८२ । ८७ । ८९ । ९१-९७ ।

दार्मिक कर आस पुरुषों के द्वारा ग्रहण करे और जो सभापति रूप राजा आदि, प्रधान पुरुष हैं वे सब सभा वेदानुकूल हो कर प्रजाके साथ पिता के समान वर्त्ते ॥ उस राज्यकार्य में विविध प्रकार के अध्यक्षों को सभा नियत करे इन का यही काम है जितने २ जिस २ काम में राजपुरुष हैं वे नियमानुसार वर्त्त कर यथावत् काम करते हैं वा नहीं जो यथावत् करें तो उन का सत्कार और जो विरुद्ध करें तो उन को यथावत् दंड किया करे ॥ सदा जो राजाओं का वेद-प्रचार रूप अक्षय कोश है इस के प्रचार के लिये कोई यथावत् ब्रह्मचर्य से वेदानि-शास्त्रों को पढ़ कर गुरुकुल से आवे उस का सत्कार राजा और सभा यथावत् करे तथा उन का भी जिन के पढ़ाये हुए विद्वान् हों ॥ इस बात के करने से राज्य में विद्या की उन्नति ही कर अत्यन्त उन्नति होती है जब कभी प्रजा का पालन करने वाले राजा को कोई अपने से छोटा, तुल्य और उसम संग्राम में प्राधान करे तो क्षत्रियों के धर्म का स्मरण करके संग्राम में जाने से कभी निवृत्त न हो अर्थात् बड़ों चतुराई के साथ उन से युद्ध करे जिस से अपना ही विजय हो ॥ जो संग्रामों में एक दूसरे को हमय करने की इच्छा करते हुए राजा लोग जितना अपना सामर्थ्य ही बिना डर पीठ न दिखा युद्ध करते हैं वे सुख को प्राप्त होते हैं इस से विमुख कभी न हो किन्तु कभी २ शत्रु को जीतने के लिये उन के सामने से क्षिप जाना उचित है क्योंकि जिस प्रकार से शत्रु को जीत सके वैसे काम करे जैसा सिंह क्रोध से सामने आ कर शस्त्राग्नि में शीघ्र भस्म हो जाता है वैसे मूर्खता से नष्ट भष्ट न हो जावे ॥ युद्ध समय में न इधर उधर खड़े न मपुंसक न हाथ जोड़े हुए, न जिस के शिर के बाल खुल गये हों, न बैठे हुए, न "मैं तेरे शरण हूँ" ऐसे को, ॥ न सीते हुए, न मूर्खों को प्राप्त हुए, न नग्न हुए, न आयुध से रहित, न युद्ध करते हुए को देखने वालों, न शत्रु के

साधो ॥ न आयुध के प्रहार से पीड़ा को प्राप्त हुए, न दुःखी, न अत्यन्त घायल, न डरे हुए, और न पलायन करते हुए, पुरुष को सत्पुरुषों के धर्म का आरण्य करते हुए योद्धा लोग कभी मारें किन्तु उन को पकड़ के जो अच्छे हैं वंदीगृह में रक्ख दे और भोजन आच्छादन यथावत् देवे और जो घायल हुए हैं उन को न चिड़ावे न दुःख देवे जो उन के योग्य काम हो करावे विशेष त्रस पर ध्यान रखे कि स्त्री बालक, वृद्ध और आतुर तथा शोकयुक्त पुरुषों पर शस्त्र कभी न चलावे उन के लड़के वालों को अपने सन्तानवत् पाले और स्त्रियों को भी पाले उन को अपनी बहिन और कन्या के समान समझे कभी विषयासक्तिकी दृष्टि से भी न देखे जब राज्य अच्छे प्रकार जम जाय और जिन में पुनः २ युद्ध करने की शंका न हो उन को सत्कार पूर्वक छोड़ कर अपने २ घर वा देश को भेज देवे और जिन से भविष्यत् काल में विघ्न होना संभव हो उन को सदा कारागार में रखे ॥ और जो पलायन अर्थात् भागे और डरा हुआ भृत्य शत्रुओं से मारा जाय वह उस स्वामी के अपराध को प्राप्त हो कर दंडनीय होवे ॥ और जो प्रतिष्ठा है जिस से इस लोक और परलोक में सुख होने वाला था उस का स्वामी ले लेता है जो भागा हुआ मारा जाय उस को कुछ भी सुख नहीं होता उस का पुण्य फल सब नष्ट हो जाता और उस प्रतिष्ठा को वह प्राप्त हो जिस ने धर्म से यथावत् युद्ध किया हो ॥ इस व्यवस्था को कभी न तोड़े कि जो २ लड़ाई में जिस २ भृत्य वा अध्याय ने रथ, घोड़े, हाथी, छत्र, धन, धान्य, गाय आदि पशु और स्त्रियां तथा अन्य प्रकार के सब द्रव्य और धी, तेल आदि के कुम्पे जीते हैं वही उस २ का ग्रहण करे ॥ परन्तु सेनास्थ जन भी उन जीते हुए पदार्थों में से सोलहवां भाग राजा को देवे और राजा भी सेनास्थ योद्धाओं को उस धन में से जो सब ने मिल के जीता हो सोलहवां भाग देवे । और जो कोई युद्ध में मर गया हो उस की स्त्री और सन्तान को उस का भाग देवे और उस की स्त्री तथा असमर्थ लड़कों का यथावत् पालन करे जब उस के लड़के समर्थ हो जायें तब उन को यथायोग्य अधिकार देवे जो कोई अपने राज्य की हृदि प्रतिष्ठा दिव्य और आनन्द हृदि को इच्छा रखता हो वह इस मर्यादा का उल्लङ्घन कभी न करे ॥

अलब्धं चैव लिप्सेत् लब्धं रक्षेत्प्रयत्नतः ।

रक्षितं वर्द्धयेच्चैव वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत् ॥

अलब्धमिच्छेद्दण्डेन लब्धं रक्षेदवेक्षया ।

रक्षितं वर्द्धयेद् वृद्ध्या वृद्धं दानेन निःक्षिपेत् ॥

अमाययैव वर्तेत न कथंचन मायया ।
 बुध्येतारिप्रयुक्तां च मायान्नित्यं स्वसंवृतः ॥
 नास्य छिद्रं परो विद्याच्छिद्रं विद्यात्परस्य तु ।
 गूहेत्कूर्म इवाङ्गानि रक्षेद्विवरमात्मनः ॥
 वकवच्चिन्तयेदर्थान् सिंहवच्च पराक्रमेत् ।
 वृकवच्चावलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत् ॥
 एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः ।
 तानानयेद्दशं सर्वान् सामादिभिरुपक्रमैः ॥
 यथोद्धरति निर्दाता कक्षं धान्यं च रक्षति ।
 तथा रक्षेन्नृपो राष्ट्रं हन्याच्च परिपन्थिनः ॥
 मोहाद्वाजा स्वराष्ट्रं यः कर्षयत्यनवेक्षया ।
 सोऽचिराद् भ्रश्यते राज्याज्जीविताच्च स्वान्धवः ॥
 शरीरकर्षणात्प्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा ।
 तथा राज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्ट्रकर्षणात् ॥
 राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं विधानमिदमाचरेत् ।
 सुसंगृहीतराष्ट्रो हि पार्थिवः सुखमेधते ॥
 द्वयोस्त्रयाणां पञ्चानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम् ।
 तथा ग्रामशतानां च कुर्याद्वाष्ट्रस्य संग्रहम् ॥
 ग्रामस्याधिपतिं कुर्याद्दशग्रामपतिं तथा ।
 विंशतीशं शतेशं च सहस्रपतिमेव च ॥
 ग्रामे दोषान्समुत्पन्नान् ग्रामिकः शनकैः स्वयम् ।
 शंसेद् ग्रामदशेशाय दशेशो विंशतीशिनम् ॥

विंशतीशस्तु तत्सर्वं शतेशाय निवेदयेत् ।
 शंसिद् ग्रामशतेशस्तु सहस्रपतये स्वयम् ॥
 तेषां ग्राम्याणि कार्याणि पृथक्कार्याणि चैव हि ।
 राज्ञोऽन्यः सचिवः स्निग्धस्तानि पश्येदतन्द्रितः ॥
 नगरे नगरे चैकं कुर्यात्सर्वार्थचिन्तकम् ।
 उच्चैःस्थानं घोररूपं नक्षत्राणामिव ग्रहम् ॥
 स ताननुपरिक्रामेत्सर्वानेव सदा स्वयम् ।
 तेषां वृत्तं परिणयेत्सम्यग्ग्राह्येषु तच्चरैः ॥
 राज्ञो हि रक्षाधिकृताः परस्वादायिनः शठाः ।
 भृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजाः ॥
 ये कार्याभ्योऽर्थमेव गृह्णीयुः पापचेतसः ।
 तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात्प्रवासनम् ॥

मनु० ७ । ९९ । १०१ । १०४-१०७ । ११०-
 ११७ । १२०-१२४ ।

राजा और राजसभा अलक्ष्य की प्राप्ति की इच्छा, प्राप्त की प्रयत्न से रक्षा करे, रक्षित को बढ़ावे और बढ़े हुए धन को वेदविद्या धर्म का प्रचार विद्यार्थी, वेद-मार्गीप्रदेशक, तथा असमर्थ अनार्थी के पालन में लगावे ॥ इस चार प्रकार के पुत्रार्थ के प्रयोजन की जान आलस्य छोड़ कर इस का भली भाँति नित्य अनुष्ठान करे दंड से अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा, नित्य देखने से प्राप्त की रक्षा, रक्षित की वृद्धि अर्थात् व्याजादि से बढ़ावे और बढ़े हुए धन को पूर्वोक्त मार्ग में नित्य व्यय करे ॥ कदापि किसी के साथ क्लृप्त से न वर्से किन्तु निष्कण्ठ हो कर सब से वर्त्ताव रखे और नित्यप्रति अपनी रक्षा करके शत्रु के किये हुए क्लृप्त को धाम के निवृत्त करे ॥ कोई शत्रु अपने छिद्र अर्थात् निर्मलता को न जान सके और स्वयं शत्रु के छिद्रों को जानता रहे जैसे कलुषा अपने अक्षी को गुप्त रखता है वैसे शत्रु के प्रवेश करने के छिद्र को गुप्त रखे ॥ जैसे बगला ध्यानावस्थित ही कर मछली के गकड़ने की ताकत है वैसे अर्थ संग्रह का विचार किया करे,

द्रव्यादि पदार्थ और बल की हृद्धि कर शत्रु को जीतने के लिये सिंह के समान पराक्रम करें, चीता के समान छिप कर शत्रुओं को पकड़े और समीप में आये बलवान् शत्रुओं से खरहा के समान दूर भाग जाय और पद्मात् ऊन को छल से पकड़े ॥ इस प्रकार विजय करने वाले सभापति के राज्य में जो परिपन्थो अर्थात् डाकू चुटेरे हों उन को (साम) मिला लेना (दाम) कुछ दे कर (भेद) फोड़ तोड़ करके वश में करे और जो इन से वश में न हों तो अति कठिन दंड से वश में करे ॥ जैसे धान्य का निकालने वाला छिलकों को अलग कर धान्य की रक्षा करता अर्थात् टूटने नहीं देता है वैसे राजा डाकू चोरों को मारे और राज्य की रक्षा करे ॥ जो राजा मोह से अविचार से अपने राज्य को दुर्बल करता है वह राज्य और अपने बन्धु सहित जीवने से पूर्व ही शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है ॥ जैसे प्राणियों के प्राण शरीरों को हानित करने से जीव ही जाते हैं वैसे ही प्रजाओं को दुर्बल करने से राजाओं के प्राण अर्थात् बलादि बन्धु सहित नष्ट हो जाते हैं ॥ इस लिये राजा और राजसभा राजकार्य की सिद्धि के लिये ऐसा प्रयत्न करें कि जिस से राजकार्य यथावत् सिद्ध हों जो राजा राज्यपालन में सब प्रकार तत्पर रहता है उस को सुख सदा बढ़ता है ॥ इस लिये दो, तीन, पांच और सौ ग्रामों के बीच में एक राज्यस्थान रख के जिस में यथायोग्य भृत्य अर्थात् कामदार आदि राजपुरुषों को रख कर सब राज्य के कार्यों को पूर्ण करे ॥ एक २ ग्राम में एक २ प्रधान पुरुष को रखे उन्हीं दशग्रामों के ऊपर दूसरा, उन्हीं वीश ग्रामों के ऊपर तीसरा, उन्हीं सौ ग्रामों के ऊपर चौथा और उन्हीं सहस्र ग्रामों के ऊपर पांचवां पुरुष रखे अर्थात् जैसे आज काल एक ग्राम में एक पटवारी, उन्हीं दश ग्रामों में एक धाना और दो धानों पर एक बड़ा धाना और उन पांच धानों पर एक तहसील और दश तहसीलों पर एक जिला नियत किया है यह वही अपने मनु आदि धर्मशास्त्र से राजनीति का प्रकार लिया है ॥ इसी प्रकार प्रबन्ध करे और आज्ञा देवे कि वह एक २ ग्रामों का पति ग्रामों में नित्य प्रति जो २ दोष उत्पन्न हों उन २ को गुप्तता से दश ग्राम के पति को विदित कर दे और वह दश ग्रामाधिपति उसी प्रकार वीश ग्राम के स्वामी को दश ग्रामों का वर्त्तमान नित्यप्रति जना देवे ॥ और वीश ग्रामों का अधिपति वीश ग्रामों के वर्त्तमान को शतग्रामाधिपति को नित्यप्रति निवेदन करे वैसे सौ सौ ग्रामों के पति प्राय सहस्राधिपति अर्थात् हजार ग्रामों के स्वामी को सौ २ ग्रामों के वर्त्तमान को प्रतिदिन जनाया करे ॥ और वीश २ ग्राम के पांच अधिपति सौ २ ग्राम के अध्याक्ष को और वे सहस्र २ के दश अधिपति दश सहस्र के अधिपति को और लक्ष ग्रामों की राजसभा को प्रतिदिन का वर्त्तमान जनाया करे ॥ और

वे सब राजसभा महाराजसभा अर्थात् सार्वभौम चक्रवर्ति महाराज सभा में सब भूगोल का वर्तमान जनाया करे ॥ और एक २ दृश २ सहस्र ग्रामों पर दो सभापति वैसे करे जिन में एक राजसभा में और दूसरा अध्यक्ष आलस्य छोड़ कर सब न्यायाधीशादि राजपुरुषों के कामों को सदा घूम कर देखते रहें ॥ बड़े २ नगरों में एक २ विचार करने वाली सभा का सुन्दर उच्च और विशाल जैसा कि चन्द्रमा है वैसा एक २ घर बनावें उस में बड़े २ विद्यावृद्ध कि जिन्होंने विद्या से सब प्रकार की परीक्षा की है वे बैठ कर विचार किया करे जिन नियमों से राजा और प्रजा की उत्पत्ति है वैसे २ नियम और विद्या प्रकाशित किया करे ॥ जो नित्य घूमने वाला सभापति है उस के आधीन सब गुप्तचर अर्थात् दूतों को रखे जो राजपुरुष और भिन्न २ जाति के रहें उन से सब राज और प्रजा पुरुषों के सब दोष और गुण गुप्तरीति से जाना करे जिन का अपराध है उन को दण्ड और जिन का गुण है उन की प्रतिष्ठा सदा किया करे ॥ राजा जिन को प्रजा की रक्षा का अधिकार देवे वे धार्मिक सुपरीक्षित विद्वान् कुलीन हों उन के आधीन प्रायः शठ और पर पदार्थ हरने वाले चोर डाकुओं को भी नौकर रख के उन को दुष्टकर्म से बचाने के लिये राजा के नौकर करके उन्ही रक्षा करने वाले विद्वानों के स्वाधीन करके उन से इस प्रजा की रक्षा यथावत् करे ॥ जो राजपुरुष अन्याय से वादीप्रतिवादी से गुप्त धन ले के पक्षपात से अन्याय करे उस का सर्वस्वहरण करके यथायोग्य दण्ड दे कर ऐसे देश में रखे कि जहाँ से पुनः लौट कर न आ सकें क्योंकि यदि उस को दण्ड न दिया जाय तो उस को देख के अन्य राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट काम करें और दण्ड दिया जाय तो बचे रहें परन्तु जितने से उन राजपुरुषों का योग्य वेम भली भांति हो और वे और भली भांति धनाढ्य भी हों उतना धन वा भूमि राज की ओर से मासिक वा वार्षिक अथवा एक बार मिला करे और जो वृद्ध हों उन को भी प्राधा मिला करे परन्तु बह ध्यान में रखे कि जब तक वे जियें तब तक वह जीविका बनी रहे यथात् नहीं परन्तु इन के सन्तानों का सत्कार वा नौकरी उन के गुण के अनुसार अथशय देवे और जिस के बालक जब तक समर्थ हों और उन की स्त्री भीती हो तो उन सब के निर्वाहार्थ राज्य की ओर से यथायोग्य धन मिला करे परन्तु जो उस की स्त्री वा लड़के कुकर्माँ है जायें तो कुछ भी न मिले ऐसी नीति राजा बराबर रखे ॥

यथा फलेन युज्येत राजा कर्त्ता च कर्मणाम् ।

तथावेक्ष्य नृपो राष्ट्रं कल्पयेत्सततं करान् ॥

यथाऽल्पाऽल्पमदन्त्याऽऽद्यं वाय्व्योकोवत्सषट्पदाः ।
 तथाऽल्पाऽल्पो ग्रहीतव्यो राष्ट्राद्वाज्ञाब्दिकः करः ॥
 नोच्छिन्द्यादात्मनो मूलं परेषां चातितृष्णया ।
 उच्छिन्दन्त्यात्मनो मूलमात्मानं तांश्च पीडयेत् ॥
 तीक्ष्णश्चैव मृदुश्च स्यात्कार्यं वीक्ष्य महीपतिः ।
 तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव राजा भवति सम्मतः ॥
 एवं सर्वं विधायेदमितिकर्तव्यमात्मनः ।
 युक्तश्चैवाप्रमत्तश्च परिरक्षेदिमाः प्रजाः ॥
 विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्राद्भ्रियन्ते दस्युभिः प्रजाः ।
 संपश्यतः सभृत्यस्य मृतः स न तु जीवति ॥
 क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम् ।
 निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते ॥

मनु०७) १२८। १२९। १३९। १४०। १४२-१४४।

जैसे राजा और कर्मों का कर्ता राजपुरुष वा प्रजाजन सुख रूप फल से युक्त
 होवे वैसे विचार करके राजा तथा राजसभा राज्य में कर स्थापन करे ॥ जैसे
 जीक बखड़ा और भँवरा थोड़ा २ भाग्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं वैसे राजा
 प्रजा से थोड़े वार्षिक कर लेवे ॥ अतिलोभ से अपने दूसरों के सुख के मूल को
 उच्छिन्नार्थात् नष्ट कदापि न करे क्योंकि जो व्यवहार और सुख के मूल का छेदन
 करता है वह अपने और उन को पीड़ा ही देता है ॥ जो महीपति कार्य को
 देख के तीक्ष्ण और कोमल भी होवे वह दुष्टों पर तीक्ष्ण और श्रेष्ठों पर कोमल
 रहने से राजा अतिमाननीय होता है ॥ इस प्रकार सब राज्य का प्रबन्ध करके
 सदा इस में युक्त और प्रमादरहित ही कर अपनी प्रजा का पालन निरन्तर करे
 जिस भृत्य सहित देखते हुए राजा के राज्यमें से लाकू लोभ राती विलाप करती
 प्रजा के पदार्थ और प्राणों को हरते रहते हैं वह जानों भृत्य अमात्यसहित नृतक
 है जीता नहीं और महादुःख का पाने वाला है इस लिये राजाओं का प्रजापा-
 लन करना ही परम धर्म है और जो मनुस्मृति के सप्तमाध्याय में कर लेना

लिखा है और जैसा सभा नियत करे उस का भोक्ता राजा धर्म से युक्त हो कर सुख पाता है इस से विपरीत दुःख को प्राप्त होता है ॥

उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशौचः समाहितः ।
 हुताग्निर्ब्राह्मणाँश्चाञ्चर्यं प्रविशेत्स शुभां सभाम् ॥
 तत्र स्थिताः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्द्य विसर्जयेत् ।
 विसृज्य च प्रजाः सर्वा मन्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः ॥
 गिरिपृष्ठं समारूढ्य प्रासादं वा रहोगतः ।
 अरण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेदविभावितः ॥
 यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य पृथग्जनाः ।
 स कृत्स्नां पृथिवीं भुङ्क्ते कोशहीनोऽपि पार्थिवः ॥

म० ७ । १४५-१४८ ।

अब पिछली प्रहर रात्रि रहे तब उठ शीघ्र और सावधान हो कर परमेश्वर का ध्यान अग्निहोत्र धार्मिक विद्वानों का सत्कार और भोजन करके भीतर सभा में प्रवेश करे ॥ वहाँ खड़ा रह कर जो प्रजा जन उपस्थित हैं उन को मान्य दे और उन को छोड़ कर मुख्य मंत्रों के साथ राज्यव्यवस्था का विचार करे ॥ पश्चात् उस के साथ घूमने को जला जाय पर्वत की शिखर अथवा एकान्त घर वा गंगल जिस में एक शलाका भी न हो वैसे एकान्तस्थान में बैठ कर विरह भावना को छोड़ मंत्रों के साथ विचार करे ॥ जिस राजा के गूढ़ विचार को अन्य जन मिला कर नहीं जान सकते अर्थात् जिस का विचार गंभीर शुद्ध परीपकारार्थ सदा गुप्त रहे वह धन हीन भी राजा सब पृथिवी के राज्य करने में समर्थ होता है इस लिये अपने मन से एक भी काम न करे कि जब तक सभासदों की अनुमति न हो ॥

आसनं चैव यानं च संधिं विग्रहमेव च ।
 कार्यं वीक्ष्य प्रयुञ्जीत द्वैधं संश्रयमेव च ॥
 संधिं तु द्विविधं विद्याद्वाजा विग्रहमेव च ।
 उभे यानासने चैव द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥

समानयानकर्मा च विपरीतस्तथैव च ।
तथा त्वायति संयुक्तः संधिर्ज्ञेयो हिलक्षणः ॥
स्वयंकृतश्च कार्यार्थमकाले काल एव वा ।
मित्रस्य चैवापकृते द्विविधो विग्रहः स्मृतः ॥
एकाकिनश्चात्ययिके कार्ये प्राप्ते यदृच्छया ।
संहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानमुच्यते ॥
क्षीणस्य चैव क्रमज्ञो दैवात्पूर्वकृतेन वा ।
मित्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्मृतमासनम् ॥
बलस्य स्वामिनश्चैव स्थितिः कार्यार्थसिद्धये ।
द्विविधं कीर्त्यते द्वैधं पाङ्गुण्यगुणवेदिभिः ॥
अर्थसंपादनार्थं च पीड्यमानः स शत्रुभिः ।
साधुषु व्यपदेशार्थं द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥
यदावगच्छेदायत्यामाधिक्यं ध्रुवमात्मनः ।
तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा सन्धिं समाश्रयेत् ॥
यदा प्रहृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृतीर्भृशम् ।
अत्युच्छ्रितं तथात्मानं तदा कुर्वीत विग्रहम् ॥
यदा मन्येत भावेन हृष्टं पुष्टं बलं स्वकम् ।
परस्य विपरीतं च तदा यायाद्रिपुं प्रति ॥
यदा तु स्यात्परिक्षीणो वाहनेन बलेन च ।
तदासीत् प्रयत्नेन शनकैः सांत्वयन्नरीन् ॥
मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम् ।
तदा द्विधा बलं कृत्वा साधयेत्कार्यमात्मनः ॥

यदा परवलानां तु गमनीयतमो भवेत् ।
 तदा तु संश्रयेत् क्षिप्रं धार्मिकं बलिनं नृपम् ॥
 निग्रहं प्रकृतीनां च कुर्याद्योरिवलस्य च ।
 उपसेवेत तं नित्यं सर्वरत्नैर्गुरुं यथा ॥
 यदि तत्रापि संपश्येदोषं संश्रयकारितम् ।
 सुयुद्धमेव तत्रापि निर्विशंकः समाचरेत् ॥
 म०७।१६१-१७६ ।

सब राजादि राजपुरुषों को यह बात लज में रखने योग्य है जो (आसन) स्थिरता (यान) शत्रु से लड़ने के लिये जाना (संधि) उन से मेल कर लेना (विग्रह) दुष्ट शत्रुओं से लड़ाई करना (द्वैध) दो प्रकार की सेना करके स्वविजय कर लेना (संश्रय) और निर्बलता में दूसरे प्रबल राजा का आश्रय लेना ये छः प्रकार के कर्म यथायोग्य कार्य को विचार कर उस में युक्त करना चाहिये ॥ राजा जो संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव और संश्रय दोर प्रकार के होते हैं उन को यथावत् जाने ॥ (संधि) शत्रु से मेल अथवा उस से विपरीतता करे परन्तु वर्तमान और भविष्यत् में करने के काम बराबर करता जाय यह दो प्रकार का मेल कहाता है ॥ (विग्रह) कार्य सिद्धि के लिये उचित समय वा अनुचित समय में स्वयं किया वा मित्र के अपराध करने वाले शत्रु के साथ विरोध दो प्रकार से करना चाहिये ॥ (यान) अकस्मात् कोई कार्य प्राप्त होने में एकाकी वा मित्र के साथ मिल के शत्रु को और जाना यह दो प्रकार का गमन कहाता है ॥ स्वयं किसी प्रकार काम से जीण हो जाय अर्थात् निर्बल हो जाय अथवा मित्र के रोकने से अपने स्थान में बैठ रहना यह दो प्रकार का आसन कहाता है ॥ कार्य सिद्धि के लिये सेनापति और सेना के दो विभाग करके विजय करना दो प्रकार का द्वैध कहाता है ॥ एक किसी अर्थ को सिद्धि के लिये किसी बलवान् राजा वा किसी महात्मा का शरण लेना जिस से शत्रु से पीड़ित न हो दो प्रकार का आश्रय लेना कहाता है ॥ जब यह जान ले कि इस समय युद्ध करने से थोड़ी पीड़ा प्राप्त होगी और पश्चात् करने से अपनी हृद्धि और विजय अवश्य होगा तब शत्रु से मेल करके उचित समय तक धीरज करे ॥ जब अपनी सब प्रजा वा सेना अत्यन्त प्रसन्न उन्नति शील और श्रेष्ठ जानि वैसे अपने को भी समझे तभी शत्रु से विग्रह युद्ध कर लेवे ॥ जब अपने बल अर्थात् सेना को हर्ष और पुष्टि

युक्त प्रसन्न भाव से जाने और शत्रु का बल अपने से विपरीत निर्बल हो जावे तब शत्रु को और युद्ध करने के लिये जावे ॥ जब सेना बल बाहन से चीथ हो जाय तब शत्रुओं को धीरे २ प्रयत्न से शान्त करता हुआ अपने स्थान में बैठा रहै जब राजा शत्रु को अत्यन्त बलवान् जाने तब द्विगुणा वा दो प्रकार की सेना करके अपना कार्य सिद्ध करे ॥ जब आप समझ लेवे कि अब शीघ्र शत्रुओं की षड्ढाई सुभ पर हीगी तभी किसी धार्मिक बलवान् राजा का आश्रय शोध ले लेवे ॥ जो प्रजा और अपनी सेना शत्रु के बल का निग्रह करे अर्थात् रोकने उस की सेवा सब यत्नों से शुभ के सदृश नित्य किया करे ॥ जिस का आश्रय लेवे उस पुरुष के कर्मों में दोष देखे तो यहाँ भी अच्छे प्रकार युद्ध ही को निःशंक हो कर करे ॥ जो धार्मिक राजा हो उस से विरोध कभी न करे किन्तु उस से सदा मेल रखे और जो दुष्ट प्रबल हो उसी के जौतने के लिये ये पूर्वोक्त प्रयोग करना उचित है ॥

सर्वोपायैस्तथा कुर्यान्नीतिज्ञः पृथिवीपतिः ।

यथास्याभ्यधिका न स्युर्मित्रोदासीनशत्रवः ॥

आयतिं सर्वकार्याणां तदात्वं च विचारयेत् ।

अतीतानां च सर्वेषां गुणदोषौ च तत्त्वतः ॥

आयत्यां गुणदोषज्ञस्तदात्वे ज्ञिप्रनिश्चयः ।

अतीते कार्यशेषज्ञः शत्रुभिर्नाभिभूयते ॥

यथैनं नाभिसंदध्युर्मित्रोदासीनशत्रवः ।

तथा सर्वं संविद्ध्यदापे सामासिको नयः ॥

म० ७ । १७७-१८० ॥

नीतिका जानने वाला पृथिवीपति राजा जिस प्रकार इस के मित्र उदासीन (मध्यस्थ) और शत्रु अधिक न हो ऐसे सब उपायों से बर्त्त ॥ सब कार्यों का वर्त्तमान में कर्त्तव्य और भविष्यत् में जो २ करमा चाहिये और जो २ काम कर चुके उस सब के चयार्घता से गुण दोषों को विचार करे ॥ पचात् दोषों के नियारण और गुणों की स्थिरता में बल करे जो राजा भविष्यत् अर्थात् प्रागे करने वाले कर्मों में गुण दोषों का ज्ञाता वर्त्तमान में तुरन्त निश्चय का कर्त्ता और किये हुए कार्यों में शेष कर्त्तव्य को जानता है वह शत्रुओं से पराजित कभी नहीं होता

सब प्रकार से राजपुरुष विशेष सभापति-राजा ऐसा प्रयत्न करे कि जिस प्रकार राजादि जनों के मित्त उदासीन और शत्रु को वश में करके अन्यथा न करावे ऐसे मोह में कभी न फसे यही संक्षेप से विनय अर्थात् राजनीति कहानी है ॥

कृत्वा विधानं मूलेतु यात्रिकं च यथाविधि ।
 उपगृह्यास्पर्दं चैव चारान् सम्यग्विधाय च ॥
 संशोध्य त्रिविधं मार्गं षड्विधं च बलं स्वकम् ।
 सांपराधिककल्पेन यायादरिपुरं शनैः ॥
 शत्रुस्तेविनि मित्रे च गूढे युक्ततरो भवेत् ।
 गतप्रत्यागते चैव स हि कष्टतरो रिपुः ॥
 दण्डव्यूहेन तन्मार्गं यायात्तु शकटेन वा ।
 वराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा ॥
 यतश्च भयमाशंकेत्ततो विस्तारयेद्बलम् ।
 पद्मेन चैव व्यूहेन निविशेत् सदा स्वयम् ॥
 सेनापतिबलाध्यक्षौ सर्वदिक्षु निवेशयेत् ।
 यतश्च भयमाशङ्केत् प्राचीं तां कल्पयेदिशम् ॥
 गुल्मांश्च स्थापयेदात्मान् कृतसंज्ञान् समन्ततः ।
 स्थाने युद्धे च कुशलानभीरुनविकारिणः ॥
 संहतान् योधयेदल्पान् कामं विस्तारयेद्बहून् ।
 सूच्या वज्रेण चैवैतान् व्यूहेन व्यूह्य योधयेत् ॥
 स्यन्दनाश्वैः समे युध्येदनूपे नौद्विपैस्तथा ।
 वृक्षगुल्मावृते चापैरसिचर्मायुधैः स्थले ॥
 प्रहर्षयेद्बलं व्यूह्य तांश्च सम्यक् परीक्षयेत् ।
 चेष्टाश्चैव विजानीयादरीन् योधयतामपि ॥

उपरुध्यारिमासीत् राष्ट्रं चास्योपपीडयेत् ।
 दूषयेच्चास्य सततं यवसान्नोदकेन्धनम् ॥
 भिन्द्याच्चैव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा ।
 समवस्कन्दयेच्चैनं रात्रौ वित्तासयेत्तथा ॥
 प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्म्यान्वथोदितान् ।
 रत्नैश्च पूजयेदेनं प्रधानपुरुषैः सह ॥
 आदानमप्रियकरं दानञ्च प्रियकारकम् ।
 अभीप्सितानामर्थानां काले युक्तं प्रशस्यते ॥

म० ७। १८४-१९२। १९४-१९६। २०३। २०४॥

जब राजा शत्रुओं के साथ युद्ध करने को जावे तब अपने राज्य की रक्षा का प्रबन्ध और यात्रा को सब सामग्री यथाविधि कर के सब सेना, यान, वाहन, शस्त्रास्त्रादि पूर्ण ले कर सर्वत्र दूतों अर्थात् चारों ओर के समाचारों को देने वाले पुरुषों को शुभ स्थापन करके शत्रुओं को और युद्ध करने को जावे ॥ तीन प्रकार के मार्ग अर्थात् एक स्थल (भूमि) में दूसरा जल (समुद्र वा नदियों) में तीसरा आकाश मार्गों को शुद्ध बना कर भूमिमार्ग में रथ, अश्व, हाथी, जल में नौका और आकाश में विमानादियानों से जावे और पैदल रथ, हाथी, घोड़े, शस्त्र और अस्त खान पानादि सामग्री को यथावत् साथ ले बलयुक्त पूर्ण करके किसी निमित्त को प्रसिद्ध करके शत्रु के नगर के समीप धीरे २ जावे ॥ जो भीतर से शत्रु से मिला हो और अपने साथ भी ऊपर से मित्रता रखे गुप्तता से शत्रु को भेद देवे उस के जाने आने में उस से बात करने में अत्यन्त सावधानी रखे क्योंकि भीतर शत्रु ऊपर मित्र पुरुष को बड़ा शत्रु समझना चाहिये ॥ सब राजपुरुषों को युद्ध करने की विद्या सिखावे और आप सीखे तथा अन्य राजाजनों को सिखावे जो पूर्व शिक्षित योद्धा होते हैं वे ही अच्छे प्रकार लड़ लड़ा जानते हैं जब शिक्षा करे तब (दण्ड-व्यूह) दंडा के समान सेना को चलावे (शकट०) जैसा शकट अर्थात् गाड़ी के समान (वराह०) जैसे सुअर एक दूसरे के पीछे दौड़ते जाते हैं और कभी २ सब मिल कर भूँड हो जाते हैं वैसे (मकर०) जैसे मगर पानी में चलते हैं वैसे सेना को बनावे (सूचीव्यूह) जैसे सूई का अग्र भाग सूक्ष्म पयात् स्थूल और उस से सूत्र स्थूल होता है वैसे शिक्षा से सेना को बनावे (नौलकंड) ऊपर

नीचे भूपट मारता है इस प्रकार सेना को बना कर लड़ावे ॥ जिधर भय विदित हो उसी ओर सेना को फैलावे सब सेना के पतियों को चारों ओर रख के (पद्म-व्यूह) अर्थात् पद्माकार चारों ओर से सेनाओं को रख के मध्य में आप रहे ॥ सेनापति और बलाध्यक्ष अर्थात् आज्ञा का देने और सेना के साथ लड़ने लड़ाने वाले वीरों को आठों दिशाओं में रखे जिस ओर से लड़ाई होती हो उसी ओर सब सेना का मुख रखे परन्तु दूसरी ओर भी पक्का प्रबन्ध रखे नहीं तो पीछे वा पार्श्व से शत्रु की घात होने का सम्भव होता है ॥ जो गुल्म अर्थात् दृढ़स्थानों के तुल्य युद्ध विद्या से सुशिक्षित धार्मिक स्थित होने और युद्ध करने में चतुर भयरहित और जिन के मन में किसी प्रकार का विकार न हो उन को चारों ओर सेना के रखे ॥ जो घोड़े से पुरुषों से बहुतें के साथ युद्ध करना हो तो मिल कर लड़ावे काम पड़े तो उन्हीं को भूत फैला देवे जब नगर दुर्ग वा शत्रु की सेना में प्रविष्ट हो कर युद्ध करना हो तब (सूचीव्यूह) अथवा (वज्रव्यूह) जैसा दुधारा खुदग दोनों ओर काट करता वैसे युद्ध करते जाय और प्रविष्ट भी होते चले वैसे अनेक प्रकार के व्यूह अर्थात् सेना को बना कर लड़ावे जो सामने शतघ्नो (तोप) वा सुसुंही (बन्दूक) छूट रही हो तो (सर्पव्यूह) अर्थात् सर्प के समान सोते २ चले जायें जब तोपों के पास पहुंचें तब उन को मार या पकड़ तोपों का मुख शत्रु की ओर फेर उन्हीं तोपों के मुख के सामने घोड़ों पर सवार करा दीडावे और मारें बीच में अच्छे २ सवार रहें एक बार धावा कर शत्रु की सेना को छिन्न भिन्न कर पकड़ लेवें अथवा भगा दें ॥ जो सम भूमि में युद्ध करना हो तो रथ घोड़े और पदातियों से और जोर सजुद्ध में युद्ध करना हो तो नौका और घोड़े जल में हाथियों पर हथ और झाड़ी में बाण तथा झूल बालू में तलवार और ढाल से युद्ध करे करावें ॥ जिस समय युद्ध होता हो उस समय लड़ने वालों को उत्साहित और हर्षित करे जब युद्ध बंध ही जाय तब जिस से शौर्य और युद्ध में उत्साह ही वैसी वक्ताता से सब के धिस्त को खान पान अन्न शस्त्र सहाय और औषधादि से प्रसन्न रखें व्यूह के बिना लड़ाई न करे न करावे लड़ती हुई अपनी सेना को चेष्टा को देखा कर कि ठीक २ लड़ती है वा कपट रखती है ॥ किसी समय उचित समझे तो शत्रु को चारों ओर से घेर कर रोक रखे और उस के राज्य को पीड़ित कर शत्रु के चारा अन्न जल और इन्धन को नष्ट दूषित कर दे ॥ शत्रु के तलाव नगर के प्रकोष्ठ और खाई को तोड़ फोड़ दे रात्रि में उन को (त्रांस) भय देवे और जीतने का उपाय करे ॥ जीत कर उन के साथ प्रमाण अर्थात् प्रतिज्ञादि लिखा लेवे और जो उचित समय समझे तो उसी के वंगन्ध किसी धार्मिक पुरुष को राजा कर दे और उस से लिखा लेवे कि तुम को

हमारी आज्ञा के अनुकूल अर्थात् जैसी धर्मयुक्त राजनीति है उस के अनुसार चल के न्याय से प्रजा का पालन करना होगा ऐसे उपदेश करे ऐसे पुरुष उन के पास रखे कि जिस से पुनः उपद्रव न हो और हार जाय उस का सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ मिल कर रत्नादि उत्तम पदार्थों के दान से करे और ऐसा न करे कि जिस से उस का योग ज्येष्ठ भी न हो जो उस को बन्दोबस्त करे तो भी उस का सत्कार यथायोग्य रखे जिस से वह हारने के शोक से रहित हो कर आनन्द में रहे ॥ क्योंकि संसार में दूसरे का पदार्थ ग्रहण करना अप्रीति और देना प्रीति का कारण है और विशेष करके समय पर उचित किया करना और उस पराजित के मनवाञ्छित पदार्थों का देना बहुत उत्तम है और कभी उस को बिड़ाने नहीं न हंसी और न ठहा करे न उस के सामने तुझ को पराजित किया है ऐसा भी कहे किन्तु आप हमारे भाई हैं इत्यादि मान्य प्रतिष्ठा सदा करे ॥

हिरण्यभूमिसंप्राप्त्या पार्थिवो न तथैधते ।

यथा मित्रं ध्रुवं लब्ध्वा कृशमप्यायतिक्षमम् ॥

धर्मज्ञं च कृतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेव च ।

अनुरक्तं स्थिरारम्भं लघुमित्रं प्रशस्यते ॥

प्राज्ञं कुलीनं शूरं च दक्षं दातारमेव च ।

कृतज्ञं धृतिमन्तश्च कष्टमाहुररिं बुधाः ॥

आर्यता पुरुषज्ञानं शौर्यं करुणवेदिता ।

स्थौललक्ष्यं च सततमुदासीनगुणोदयः ॥

मनु० ७ । २०८—२११

मित्र का लक्षण यह है कि राजा सुखर्ण और भूमि की प्राप्ति से वैसा नहीं बढ़ता कि जैसे निचल प्रेम युक्त भविष्यत् की बातों को सोचने और कार्य सिद्ध करने वाले समर्थ मित्र अथवा दुर्बल मित्र को भी प्राप्त हो के बढ़ता है ॥ धर्म को जानने और कृतज्ञ अर्थात् किये हुए उपकार को सदा मानने वाले प्रसन्न स्वभाव अनुरागी स्थिरारम्भी लघु छोटे भी मित्र को प्राप्त होकर प्रशंसित होता है सदा इस बात का दृढ़ रखे कि कभी बुद्धिमान्, कुलीन, शूर, पौर, चतुर, दाता, किये हुए को जानने हारे और धैर्यवान् पुरुष को मनु न बनावे क्योंकि जो ऐसे को मनु बनावेगा वह दुःख पावेगा ॥ उदासीन का लक्षण—जिस में प्रशंसित

गुणयुक्त अच्छे वुरे मनुष्यों का ज्ञान, शूरवीरता और करुणा भी खूबलक्ष्य अर्थात् जपर २ की बातों को निरन्तर सुनाया करे वह उदासीन कहाता है ॥

एवं सर्वमिदं राजा सह संमन्त्र्य मन्त्रिभिः ।

व्यायाम्याप्तुत्य मध्यान्हे भोक्तुमन्तःपुरं विशेत् ॥

म० ७ । २१६ ॥

पूर्वोक्त प्रातःकाल समय उठ शौचादि सन्ध्यापासन अग्निहोत्र कर वा करा सब मन्त्रियों से विचार कर सभा में जा सब मृत्य और सेनाध्यक्षों के साथ मिल उन को हर्षित कर नाना प्रकार की व्यूह शिक्षा अर्थात् कवायद कर करा सब घोड़े, हाथी, गाय, आदि स्थान शस्त्र और अस्त्र का कोश तथा वैद्यालय धन के कोशों को देख सब पर दृष्टि नित्यप्रति दे कर जो कुछ उन में खोटा हो उन को निकाल व्यायामशाला में जा व्यायाम कर और स्नान कर मध्याह्न समय भोजन के लिये "अन्तःपुर" अर्थात् पत्नी आदि के निवासस्थान में प्रवेश करे और भोजन सुपरोक्षित, बुद्धिबलपराक्रमवर्द्धक, रोगनाशक, अनेक प्रकार के अन्न व्यञ्जन पान आदि सुगन्धित मिष्टादि अनेक रसयुक्त उत्तम करे कि जिस से सदा सुखी रहे इस प्रकार सब राज्य के कार्यों की उत्पत्ति किया करे ॥ प्रजा से कर लेने का प्रकारः-

पञ्चाशद्भाग आदेयो राजा पशुहिरण्ययोः ।

धान्यानामष्टमो भागः पशो हादश एव वा ॥

म० ७ । १३० ।

व्यापार करने वाले वा सिल्पी जनों के सुमर्ण और चांदी का जितना लाभ हो उस में से पचाशवां भाग, चावल आदि अन्नी में छःठा, आठवां, वा बारहवां भाग लिया करे, और जो धन लेवे तो भी उस प्रकार से लेवे कि जिस से किसान आदि खाने पीने और धन से रहित होकर दुःख न पावे ॥ क्योंकि प्रजा के धनाढ्य आरोग्य खान पान आदि से सम्पन्न रहने पर राजा की बड़ी उत्पत्ति होती है प्रजा को अपने सन्तान के सदृश सुख देवे और प्रजा अपने पिता सदृश राजा और राजपुरुषों को जाने यह बात ठीक है राजाओं के राजा किसान आदि परिश्रम करने वाले हैं और राजा उन का रक्षक है जो प्रजा न हो तो राजा किस का ? और राजा न हो तो प्रजा किस की कहावे ? दोनों अपने २ काम में सतत और मिले हुए प्रीतियुक्त काम में परतन्त्र रहें। प्रजा की साधारण सन्मति के विरुद्ध राजा वा राजपुरुष न हों राजा की आज्ञा के विरुद्ध राजपुरुष

वा प्रजा न चले यह राजा का राजकीय निज काम अर्थात् जिस को "पोलिटि-कल" कहते हैं संक्षेप से कह दिया अब जो विशेष देखना चाहै वह चारों वेद मनुस्मृति शुक्रनीति महाभारतादि में देख कर निश्चय करे और जो प्रजा का न्याय करना है वह व्यवहार मनुस्मृति के अष्टम और नवमाध्याय आदि की रीति से करना चाहिये परन्तु यहां भी संक्षेप से लिखते हैं :—

प्रत्यहं देशदृष्टैश्च शास्त्रदृष्टैश्च हेतुभिः ।
 अष्टादशसु मार्गेषु निवृद्धानि पृथक् पृथक् ॥
 तेषामाद्यमृणादानं निक्षेपोऽस्वामिविक्रयः ।
 संभूय च समुत्थानं दत्तस्थानपकर्म च ॥
 वेतनस्यैव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः ।
 क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपालयोः ॥
 सीमाविवादधर्मश्च पारुष्ये दण्डवाचिके ।
 स्तेयं च साहसं चैव स्त्रीसङ्ग्रहणमेव च ॥
 स्त्रीपुंधर्मो विभागश्च द्यूतमाहुय एव च ।
 पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारास्थिताविह ॥
 एषु स्थानेषु भूयिष्ठं विवादं चरतां नृणाम् ।
 धर्मं शाश्वतमाश्रित्य कुर्यात्कार्यविनिर्णयम् ॥
 धर्मो विद्वस्त्वधर्मेण सभां यत्रोपतिष्ठते ।
 शल्यं चास्य न कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ॥
 सभा वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वासमंजसम् ।
 अब्रुवन्विब्रुवन्वापि नरो भवति किलिषी ॥
 यत्र धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च ।
 हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥
 धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।

तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत् ॥
 वृषो हि भगवान् धर्मस्तस्य यः कुरुतेह्यलम् ।
 वृषलं तं विदुर्देवास्तस्माद्धर्मं न लोपयेत् ॥
 एक एव सुहृद्धर्मो निधनेप्यनुयाति यः ।
 शरीरेण समन्नाशं सर्वमन्याद्धि गच्छति ॥
 पादोऽधर्मस्य कर्त्तारं पादः साक्षिणमृच्छति ।
 पादः सभासदः सर्वान् पादो राजानमृच्छति ॥
 राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः ।
 एनो गच्छति कर्त्तारं निन्दाहो यत्र निन्द्यते ॥ मनु०

८ । ३-८ । १२-१९ ॥

सभा राजा और राजपुरुष सब लोग देशाचार और शास्त्र व्यवहार हेतुर्षीं से निम्नलिखित अठारह विवादास्पद मार्गों में विवाद युक्त का निर्णय प्रतिदिन किया करें और जो २ नियम शास्त्रोक्त न पावें और उन के होने की आवश्यकता जानें तो उत्तमोत्तम नियम बांधे कि जिस से राजा और प्रजा की उन्नति हो अठारह मार्ग ये हैं उन में से १ (ऋणादान) किसी से ऋण लेने देने का विवाद । २ (निःक्षेप) धरावट अर्थात् किसी ने किसी के पास पदार्थ धरा हो और मांगे पर न देना । ३ (अस्वामिविक्रय) दूसरे के पदार्थ को दूसरा बेच लेवे । ४ (संभूय च समुत्यानम्) मिल मिला के किसी पर अत्याचार करना ५ (दत्तास्यानपकर्म च) दिये हुए पदार्थ का देना ॥ ६ (वितनस्यैव धानम्) वितन अर्थात् किसी की "नौकरी" में से ले लेना वा कम देना । ७ (प्रतिज्ञा) प्रतिज्ञा से बिसह वर्त्तना । ८ (क्रयविक्रयानुशय) अर्थात् लेन देन में झगड़ा होना । ९ (पशु के स्वामी और पालने वाले का झगड़ा । १० सीमा का विवाद । ११ किसी को कठोर दण्ड देना । १२ कठोर वाणी का बोलना । १३ चोरी उंका मारना । १४ किसी काम को बलात्कार से करना । १५ किसी को स्त्री वा पुत्रपुत्र का व्यभिचार होना ॥ १६ स्त्री और पुरुष के धर्म में व्यतिक्रम होना । १७ विभाग अर्थात् दावभाग में वाद उठना । १८ द्यूत अर्थात् षड् पदार्थ और समाह्वय अर्थात् चेतन को दाव में धर के जुआ खेलना । ये अठारह प्रकार के परस्पर बिसह व्यवहार के न्याय हैं ॥ इन व्यवहरों में बहुत से विवाद करने वाले पुरुषों के न्याय को सनातन

धर्म के आग्रह करके किया करे अर्थात् किसी का पक्षपात कभी न करे ॥ जिस सभा में अधर्म से घायल हो कर धर्म उपस्थित होता है जो उस का शत्रु अर्थात् तीरवत् धर्म के कलंक को निकालना और अधर्म का छेदन नहीं करते अर्थात् धर्मों का मान अधर्मों को दंड नहीं मिलता उस सभा में जितने सभासद् हैं वे सब घायल के समान समझे जाते हैं ॥ धार्मिक मनुष्य को योग्य है कि सभा में कभी प्रवेश न करे और जो प्रवेश किया हो तो सत्य ही बोले जो कोई सभा में अन्याय होते हुए को देख कर मौन रहे अथवा सत्य न्याय के विरुद्ध बोले वह महापापी होता है ॥ जिस सभा में अधर्म से धर्म असत्य से सत्य सब सभासदों के देखते हुए मारा जाता है उस सभा में सब सतक के समान हैं जानो उन में कोई भी नहीं जाता ॥ मरा हुआ धर्म मारने वाले का नाश और रक्षित किया हुआ धर्म रक्षक की रक्षा करता है इस लिये धर्म का हनन कभी न करना इस डर से कि मारा हुआ धर्म कभी हम को न मार डाले ॥ जो सब ऐश्वर्यों के देने और सुखों की वर्षा करने वाला धर्म है उस का लोप करता है उसी को विद्वान् लोग वृषल अर्थात् शूद्र और नोच जानते हैं इस लिये किसी मनुष्य को धर्म का लोप करना उचित नहीं ॥ इस संसार में एक धर्म ही सुहृद् है जो मृत्यु के पश्चात् भी साथ चलता है और सब पदार्थ वा संगी शरीर के नाश के साथ ही नाश को प्राप्त होते हैं अर्थात् सब संग से छूट जाता है ॥ परन्तु धर्म का संग कभी नहीं छूटता जब राज सभा में पक्षपात से अन्याय किया जाता है वहाँ अधर्म के चार विभाग हो जाते हैं उन में से एक अधर्म का कर्ता, दूसरा साक्षी, तीसरा सभासदी, और चौथा पाद अधर्मों सभा के सभापति राजा को प्राप्त होता है ॥ जिस सभा में निन्दा के योग्य को निन्दा स्तुति के योग्य को स्तुति दंड के योग्य को दंड और मान्य के योग्य का मान्य होता है वहाँ राजा और सब सभासद् पाप से रहित और पवित्र हो जाते हैं पाप के कर्ता ही को पाप प्राप्त होता है ॥ अब साक्षी कैसे करने चाहिये :—

आत्माः सर्वेषु वर्णेषु कार्य्याः कार्येषु साक्षिणः ।

सर्वधर्मविदोऽलुब्धा विपरीतास्तु वर्जयेत् ॥

स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः कुर्यर्हिजानां सदृशा द्विजाः ।

शूद्राश्च सन्तः शूद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनयः ॥

साहस्रेषु च सर्वेषु स्तेयसङ्ग्रहणेषु च ।

वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ॥

बहुत्वं परिगृह्णीयात्साक्षिद्वैधे नराधिपः ।
 समेषु तु गुणोत्कृष्टान् गुणद्वैधे द्विजोत्तमान् ॥
 समक्षदर्शनात्साक्ष्यं श्रवणाच्चैव सिध्यति ।
 तत्र सत्यं ब्रुवन्साक्षी धर्मार्थाभ्यां न हीयते ॥
 साक्षी दृष्टश्रुतादन्यद्विब्रुवन्नाय्यसंसदि ।
 अवाङ्मनरकमभ्येति प्रेत्य स्वर्गाच्च हीयते ॥
 स्वभावेनैव यद् ब्रूयुस्तद् ग्राह्यं व्यावहारिकम् ।
 अतो यदन्यद्विब्रूयुर्धर्मार्थं तदपार्थकम् ॥
 सभान्तः साक्षिणः प्राप्तानर्थिप्रत्यर्थिसन्निधौ ।
 प्राड्विवाकोनुयुञ्जीत विधिनाऽनेन सान्त्वयन् ॥
 यद् द्वयोरनयोर्वेत्य कार्येस्मिन् चेष्टितं मिथः ।
 तद् ब्रूत सर्वं सत्येन युष्माकं ह्यत्र साक्षिता ॥
 सत्यं साक्ष्ये ब्रुवन्साक्षी लोकानाप्नोति पुष्कलान् ।
 इह चानुत्तमां कीर्तिं वागेषा ब्रह्मपूजिता ॥
 सत्येन पूयते साक्षी धर्मः सत्येन वर्द्धते ।
 तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सर्ववर्णेषु साक्षिभिः ॥
 आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः ।
 नावमंस्थाः स्वमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम् ॥
 यस्य विद्वान् हि वदतः क्षेत्रज्ञो नाभिःशङ्कते ।
 तस्मान्न देवाः श्रेयांसं लोकेन्यं पुरुषं विदुः ॥
 एकोऽहमस्मीत्यात्मानं यत्त्वं कल्याण मन्यसे ।
 नित्यं स्थितस्ते हृद्येप पुण्यपापेक्षिता मुनिः ॥
 मनु०८।६३।६।७२—७५।७८—८१।८३।८४।९६।९७॥

सब वर्णों में धार्मिक, विद्वान्, निष्कपटी, सब प्रकार धर्म को जानने वाले, लोभ रहित, सत्यवादी को न्यायव्यवस्था में साक्षी करे इस से विपरीतों को कभी न करे स्त्रियों की साक्षी स्त्री, द्विजों के द्विज, गूढ़ों के गूढ़, और अन्त्यजों के अन्त्यज साक्षी हैं ॥ जितने बन्ताकार काम चोरी, व्यभिचार, कठोर वचन दण्ड-निपातरूप अपराध हैं उन में साक्षी की परीक्षा न करे और अत्यावश्यक भी समझे क्योंकि ये काम सब गुप्त होते हैं ॥ दोनों ओर के साक्षियों में से वहुप जानुसार, तुल्य साक्षियों में उत्तम गुणी पुरुष की साक्षी के अनुकूल और दोनों के साक्षी उत्तमगुणी तुल्य हैं तो द्विजोत्तम अर्थात् ऋषि महर्षि और वतियों की साक्षी के अनुसार न्याय करे ॥ दो प्रकार के साक्षी होना सिद्ध होता है एक साक्षात् देखने और दूसरा सुनने से जब सभा में पूछे तब जो साक्षी सत्य बोले वे धर्महीन और दण्ड के योग्य न हों और जो साक्षी मिथ्या बोले वे यथायोग्य दण्डनीय हैं ॥ जो राजसभा वा किसी उत्तमपुरुषों की सभा में साक्षी देखने और सुनने से विरुद्ध बोले तो वह (अवाङ्मनरक) अर्थात् जिह्वा के छेदन से दुःख-रूप नरक को वर्तमान समय में प्राप्त होवे और मरे पश्चात् सुख से हीन हो जाय ॥ साक्षी के उस वचन को मानना कि जो स्वभाव ही से व्यवहार सम्बन्धी बोले और इस से भिन्न सिखाये हुए जो २ वचन बोले उस २ को न्यायाधीश व्यर्थ समझे ॥ जब अर्थी (वादी) और प्रत्यर्थी (प्रतिवादी) के सामने सभा के समीप प्राप्त हुए साक्षियों को शान्तिपूर्वक न्यायाधीश और प्राड्विक अर्थात् वकील वा वैरिस्टर इस प्रकार से पूछें ॥ हे साक्षि लोगो ! इस कार्य में इन दोनों के परस्पर कर्मों में जो तुम जानते हो उसको सत्य के साथ बोलो क्योंकि तुम्हारी इस कार्य में साक्षी है ॥ जो साक्षी सत्य बोलता है वह जन्मान्तर में उत्तम जन्म और उत्तम लोकान्तरों में जन्म को प्राप्त ही के सुख भोगता है इस जन्म वा पर जन्म में उत्तम कौर्त्तिको प्राप्त होता है क्योंकि जो यह वाणी है वही वेदों में सत्कार और तिरस्कार का कारण लिखी है। जो सत्य बोलता है वह प्रतिष्ठित और मिथ्यावादी मिन्दित होता है ॥ सत्य बोलने से साक्षी पवित्र होता और सत्य ही बोलने से धर्म बढ़ता है इस से सब वर्णों में साक्षियों को सत्य ही बोलना योग्य है ॥ आत्मा का साक्षी आत्मा और आत्मा की गति आत्मा है इस को ज्ञान के हे पुरुष । तू सब मनुष्यों का उत्तम साक्षी अपने आत्मा का अपमान मत कर अर्थात् सत्य भाषण जो कि तेरे आत्मा मन वाणी में है वह सत्य और जो इस से विपरीत है वह मिथ्या भाषण है ॥ जिस बोलते हुए पुरुष का विद्वान् क्षेत्रज्ञ शरीर का जानने द्वारा आत्मा भीतर शब्दा का प्राप्त नहीं होता उस से भिन्न विद्वान् लोग किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते ॥ हे कल्याण की इच्छा करने

कार्पापणं भवेद्वण्ड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः ।
 तत्र राजा भवेद्वण्ड्यः सहस्रमिति धारणा ॥
 अष्टापाद्यन्तु शूद्रस्य स्तेये भवति किल्विपम् ।
 षोडशैव तु वैश्यस्य द्वात्रिंशत् क्षत्रियस्य च ॥
 ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्णं वापि शतं भवेत् ।
 द्विगुणा वा चतुःषष्टिस्तदोषगुणविद्धि सः ॥
 ऐन्द्रं स्थानमभिप्रेप्सुर्यशश्चाक्षयमव्ययम् ।
 नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिकं नरम् ॥
 वाग्दुष्टात्तस्कराञ्चैव दण्डेनैव च हिंसतः ।
 साहसस्य नरः कर्त्ता विज्ञेयः पापकृत्तमः ॥
 साहसे वर्त्तमानन्तु यो सर्पयति पार्थिवः ।
 स विनाशं ब्रजत्याशु विहेपं चाधिगच्छति ॥
 न मित्रकारणाद्राजा विपुलाद्वा धनागमात् ।
 समुत्सृजेत् साहसिकान्सर्वभूतभयावहान् ॥
 गुरुं वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम् ।
 आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् ॥
 नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन ।
 प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तन्मन्युमृच्छति ॥
 यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीणो न दुष्टवाक् ।
 न साहसिकदण्डघ्नौ स राजा शक्रलोकभाक् ॥

मनु० ८ । ३३४-३३८ । ३११-३१७ । ३५० ।

३५१ । ३८६ ।

चोर जिस प्रकार जिसर अंग से मनुष्यों में विरुद्ध चेष्टा करता है उसर अंग को सब मनुष्यों की शिचा के लिये राजा हरण अर्थात् छेदन कर दे ॥ चाहे पिता, आचार्य, मित्र, स्त्री, पुत्र, और पुरोहित क्यों न हो जो स्वधर्म में स्थित नहीं रहता वह राजा का अदण्ड्य नहीं होता अर्थात् जब राजा न्यायासन पर बैठ न्याय करे तब किसी का पक्षपात न करे किन्तु यथोचित दण्ड देवे ॥ जिस अपराध में साधारण मनुष्य पर एक पैसा दण्ड हो उसी अपराध में राजा को सहस्र पैसा दण्ड होवे अर्थात् साधारण मनुष्य से राजा को सहस्र गुणा दण्ड होना चाहिये मन्त्री अर्थात् राजा के दौवान को आठसौ गुणा उस से न्यून को सात सौ गुणा और उस से भी न्यून को छः सौ गुणा इसी प्रकार उत्तर २ अर्थात् जो एक छोटे से छोटा भृत्य अर्थात् चपरासी है उस को आठ गुणे दण्ड से कम न होना चाहिये क्योंकि यदि प्रजापुरुषों से राजपुरुषों को अधिक दण्ड न होवे तो राजपुरुष प्रजापुरुषों का नाश कर देवे जैसे सिंह अधिक और बकरी छोड़े दण्ड से ही वश में आ जाती है वैसे राजा से ले कर छोटे से छोटे भृत्य पर्यन्त राजपुरुषों को अपराध में प्रजापुरुषों से अधिक दण्ड होना चाहिये ॥ और वैसे ही जो कुछ धिविकी हो कर चोरी करे उस शूद्र को चोरी से आठ गुणा, वैश्य को सोलह गुणा, क्षत्रिय को बीस गुणा ॥ ब्राह्मण को चौंसठ गुणा, वा सौ गुणा अथवा एक सौ अठ्ठाईस गुणा होना चाहिये अर्थात् जिस का जितना ज्ञान और जितनी प्रतिष्ठा अधिक हो उस को अपराध में उतना ही अधिक दण्ड होना चाहिये ॥ राज्य के अधिकारी धर्म और ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला राजा बलात्कार काम करने वाले डाकुओं को दण्ड देने में एक क्षण भी देर न करे ॥ साहसिक पुरुष का लक्षणः—

जो दुष्ट वचन बोलने, चोरी करने, बिना अपराध से दण्ड देने वाले से भी साहस बलात्कार काम करने वाला है वह अतीव पापी दुष्ट है ॥ जो राजा साहस में वर्तमान पुरुष को न दण्ड दे कर सहन करता है वह शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है और राज्य में द्वेष उठता है ॥ न मित्रता और न पुष्कल धन की प्राप्ति से भी राजा सब प्राणियों को दुःख देने वाले साहसिक मनुष्य को बंधन छेदन किये बिना कभी छोड़े ॥ चाहे गुरु हो चाहे पुत्रादि बालक हों चाहे पिता आदि हब चाहे ब्राह्मण और चाहे बहुत शास्त्र आदि का श्रोता क्यों न हो जो धर्म को छोड़ अधर्म में वर्तमान दूसरे को बिना अपराध मारने वाले हैं उन को बिना विचार मार डालना अर्थात् मार के पश्चात् विचार करना चाहिये ॥ दुष्ट पुरुषों के मारने में हन्ताको पाप नहीं होता चाहे प्रसिद्ध मारे चाहे अप्रसिद्ध क्योंकि क्रोधी को क्रोध से मारना जानो क्रोध से क्रोध की लड़ाई है ॥ जिस राजा के राज्य में

न चोर न परस्त्रीगामी, न दुष्टवचन का बोलने द्वारा, न साहसिक डाकू और न दण्डघ्न अर्थात् राजा की आज्ञा का भङ्ग करने वाला है वह राजा प्रतीव श्रेष्ठ है ॥

भर्तारं लंबयेद्या स्त्री स्वज्ञातिगुणदर्पिता ।
तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥
पुमांसं दाहयेत्पापं शयने तप्त आयसे ।
अभ्यादध्युश्च काष्ठानि तत्र दह्यत पापकृत् ॥
दीर्घाध्वनि यथादेशे यथाकालङ्करो भवेत् ।
नदीतीरेषु तद्विद्यात्समुद्रे नास्ति लक्षणम् ॥
अहन्यहन्यवेक्षेत कर्मान्तान्वाहनानि च ।
आयव्ययौ च नियतावाकरान्कोपमेव च ॥
एवं सर्वानिमात्राजा व्यवहारान्समापयन् ।
व्यपोह्य किल्बिषं सर्वं प्राप्नोति परमां गतिम् ॥

म० ८। ३७१ । ३७२ । ४०६ । ४१९ । ४२०॥

जो स्त्री अपनी जाति गुण के घमण्ड से पति को छोड़ व्यभिचार करे उस को बहुत स्त्री और पुरुषों के सामने जीतो हुई कुत्तों से राजा कटवा कर मरवा डाले ॥ उसी प्रकार अपनी स्त्री को छोड़ के परस्त्री वा त्रेष्णागमन करे उस पापी जन को लोहे के पलंग को अग्नि से तपा के लाल कर उस पर सुला के जोते को बहुत पुरुषों के सन्मुख भस्म कर देवे ॥ (प्रश्न) जो राजा वा राणी अथवा न्यायाधीश वा उस की स्त्री व्यभिचारादि कुकर्म करे तो उस को कौन दण्ड देवे? (उत्तर) सभा अर्थात् जन को तो प्रजा पुरुषों से भी अधिक दण्ड हीना चाहिये (प्रश्न) राजादि उन से दण्ड क्यों ग्रहण करेंगे (उत्तर) राजा भी एक पुण्यात्मा भाग्यशाली मनुष्य है जब उसी को दण्ड न दिया जाय और वह दंड यज्ञ न करे तो दूसरे मनुष्य दण्ड को क्यों मानेंगे? और जब सब प्रजा और प्रधान राज्याधिकारी और सभा धार्मिकता से दंड देना चाहें तो अकेला राजा क्या कर सकता है जो ऐसी व्यवस्था न हो तो राजा प्रधान और सब समर्थ पुरुष न्याय में हथ कर न्याय धर्म को हुवा के सत्र प्रजा का नाम कर आप भी नष्ट ही हो जायें अर्थात् उस लोक के अर्थ का स्मरण करो कि न्याययुक्त दण्ड ही का नाम राजा और धर्म है जो उसका लोप करता है उस से नीचे पुण्य दूसरा कौन होगा ॥

(प्रश्न) यह कड़ा दण्ड होना उचित नहीं क्योंकि मनुष्य किसी अङ्ग का बनाने हारा वा जिलाने वाला नहीं है इस लिये ऐसा दण्ड न देना चाहिये (उत्तर) जो इस को कड़ा दण्ड जानते हैं वे राजनीति को नहीं समझते क्योंकि एक पुरुष को इस प्रकार दण्ड होने से सब लोग बुरे काम करने से बलग रहेंगे और बुरे काम को छोड़ कर धर्म मार्ग में स्थित रहेंगे। सच पूछो तो यही है कि एक राई भर भी यह दण्ड सब के भाग में न आवे गा और जो सुगम दण्ड दिया जाय तो दुष्ट काम बहुत बढ़ कर होने लगें वह जिस को तुम सुगम दण्ड कहते हो वह जोड़ों गुणा अधिका होने से जोड़ों गुणा कठिन होता है क्योंकि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कर्म करेंगे तब थोड़ा दण्ड भी देना पड़ेगा अर्थात् जैसे एक को मन भर दण्ड हुआ और दूसरे को पाउभर तो पाउभर अधिक एक मन दण्ड होता है तो प्रत्येक मनुष्य के भाग में आधपाउ बीस सेर दण्ड पड़ा तो ऐसे सुगम दण्ड को दुष्ट लोग क्या समझते हैं ? जैसे एक को मन सहस्र मनुष्यों को पाउ पाउ दण्ड हुआ तो ६। सवा छः मन मनुष्य जाति पर दण्ड होने से अधिक और यही कड़ा तथा वह एक मन दण्ड न्यून और सुगम होता है ॥ जो लम्बे मार्ग में समुद्र की खाड़ियां वा नदी तथा बड़े नदों में जितना लम्बा देश हो उतना कर स्थापन करे और महासमुद्र में निश्चित कर स्थापन नहीं हो सकता किन्तु जैसा अनुकूल देखे कि जिस से राजा और बड़े २ नौकाओं के समुद्र में चलाने वाले दोनों लाभ युक्त हैं वैसी व्यवस्था करे परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये कि जो कहते हैं कि प्रथम जहाज नहीं चलते थे वे भूठे हैं और देश-देशान्तर हीपहीपान्तरों में नौका से जाने वाले अपने प्रजास्य पुरुषों की सर्वत्र रक्षा कर उन को किसी प्रकार का दुःख न होने देवे ॥ राजा प्रतिदिन कर्मों की समाप्तियों को हाथी घोड़े आदि वाहनों को लाभ और १ खरच नियत आकर रत्नादिकों को खाने और कोष (खजाने) को देखा करे ॥ इस प्रकार सब व्यवहारों को यथावत् समाप्त करता कराता हुआ सब पापों को छोड़ा के परमगति मोक्षसुख को प्राप्त होता है ॥ (प्रश्न) संस्कृत विद्या में पूरी २ राजनीति है वा अधूरी ? (उत्तर) पूरी है क्योंकि जो २ भूगोल में राजनीति चली और चलेगा वह सब संस्कृत विद्या से ली है और जिन का प्रत्यक्ष लेख नहीं है उन के लिये:—

प्रत्यहं लोकदृष्टैश्च शास्त्रदृष्टैश्च हेतुभिः ॥ मनु० ८।३।

जो नियम राजा और प्रजा के सुखकारक और धर्मयुक्त समझें उन २ नियमों को पूर्णविद्वानों की राजसभा बांधा करे। परन्तु इस पर नित्य ध्यान रखें

कि जहां तक बन सके वहां तक बाल्यावस्था में विवाह न करने देवे युवावस्था में भी बिना प्रसन्नता के विवाह न करना कराना और न करने देना ब्रह्मचर्य का यथावत् सेवन करना व्यभिचार और बहु विवाह को बन्ध करे कि जिस से शरीर और आत्मा में पूर्ण बल सदा रहे क्योंकि जो केवल आत्मा का बल अर्थात् विद्या ज्ञान बढ़ाये जाय और शरीर का बल न बढ़ावे तो एक ही बलवान् पुरुष जानी और सैकड़ों विद्वानों को जीत सकता है और जो केवल शरीर ही का बल बढ़ाया जाय आत्मा का नहीं तो भी राज्यपालन की उत्तम व्यवस्था बिना विद्या के कभी नहीं हो सकती बिना व्यवस्था के सब आपस में ही फूट टूट विरोध लड़ाई भगड़ा कर के नष्ट भ्रष्ट हो जायें इस लिये सर्वदा शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाते रहना चाहिये जैसा बल और बुद्धि का नाशक व्यवहार व्यभिचार और अतिविषयासक्ति है वैसा और कोई नहीं है । विषेधनः जन्त्रियों को दृढ़ाङ्ग और बल्युक्त होना चाहिये क्योंकि जब वे ही विषयासक्त होंगे तो राज्यधर्म ही नष्ट ही जायगा और इस पर भी ध्यान रखना चाहिये कि “यथा राजा तथा प्रजा” जैसा राजा होता है वैसी ही उस को प्रजा होती है इस लिये राजा और राजपुरुषों को अति उचित है कि कभी दुष्टाचार न करें किन्तु सब दिन धर्म न्याय से वर्तन कर सब के सुभार का दृष्टान्त बनें ॥

यह संक्षेप से राजधर्म का वर्णन यहां किया है विंशति वेद मनुस्मृति के सप्तम अष्टम, नवम अध्याय में और शुक्रनीति तथा विदुरप्रजागर और महाभारत शान्ति-पर्व के राजधर्म और आपद्धर्म आदि पुस्तकों में देख कर पूर्ण राजनीति को धारण करके माण्डलिक अथवा सार्वभौम चक्रवर्ती राज्य करें और यही समझे कि “यथा प्रजापतेः प्रजा अभूम” यह यजुर्वेद का वचन है । हम प्रजापति अर्थात् परमेश्वर की प्रजा और परमात्मा हमारा राजा हम उस के किंकर भृत्यवत् हैं वह कृपा कर के अपनी सृष्टि में हम को राज्याधिकारी करे और हमारे हाथ से अपने सत्य न्याय की प्रहृष्टि करावे । अब आगे ईश्वर और वेद विषय में लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थ-

प्रकाशे सुभाषाविभूषिते राजधर्मविषये

पष्ठः समुच्छासः सम्पूर्णाः ॥ ६ ॥

अथ सप्तमसमुह्लासारम्भः ॥

अथेश्वरवेदविषयं व्याख्यास्यामः ॥

ऋचो अक्षरं परमे व्योमन्यस्मिन् देवा अधि विश्वे निपेदुः।
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥

ऋ० ॥ मं० १ । सू० १६४ । मं० ३९ ॥

ईशावास्यामिदं सर्वं यदिकञ्च जगत्याञ्जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम् ॥
यजुः० ॥ अ० ४० । मं० १ ॥

अहम्भुवं वसुनः पृथ्व्यस्पतिरहं धनानि संजयामि शश्वतः ।
मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषं विभजामि भोजनम् ॥
अहमिन्द्रो न पराजिग्य इद्धनं न मृत्यवेऽवतस्थे कदाचन ।
सोममिन्मासुन्वन्तो याचता वसु न मे पूरवः सख्येरिपाथन ॥
ऋ० ॥ मं० १० । सू० ४८ । मं० १ । ५ ॥

(ऋचो अक्षरं) इस मन्त्र का अर्थ ब्रह्मचर्याश्रम को शिवा में लिख चुके हैं अर्थात् जो सब दिव्य गुण कर्म स्वभाव विद्या युक्त और जिस में पृथिवी सूर्यादि लोक स्थित हैं और जो आकाश के समान व्यापक सब देवों का देव परमेश्वर है उस को जो मनुष्य न जानते और उस का ध्यान नहीं करते वे नास्तिक मन्दमति सदा दुःखसागर में डूबे ही रहते हैं इस लिये सर्वदा उसी को जान कर सब मनुष्य सुखी होते हैं । (प्रश्न) वेद में ईश्वर अनेक हैं इस बात को तुम मानते हो वा नहीं ? (उत्तर) नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा जिस से अनेक ईश्वर सिद्ध हों किन्तु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है (प्रश्न) वेदों में जो अनेक देवता लिखे हैं उस का क्या अभिप्राय है ? (उत्तर) देवता दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण कहते हैं जैसे कि पृथिवी परन्तु इस को कहीं

ईश्वर के तुल्य उपासनीय नहीं माना है देखो इसी मन्त्र में कि जिसमें सब देवता स्थित हैं वह जानने और उपासना करने योग्य ईश्वर है यह उन की भूल है जो देवता शब्द से ईश्वर का ग्रहण करते हैं परमेश्वर देवी का देव होने से महादेव इसी लिये कहता है कि वही सब जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयकर्ता न्यायाधीश अधिष्ठाता है जो "त्वस्तिंशत्रिंशता०" इत्यादि वेदों में प्रमाण है इस की व्याख्या शतपथ में की है कि तैंतीस देव अर्थात् पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्रमा, सूर्य और नक्षत्र सब सृष्टि के निवासस्थान होने से ये आठ वसु । प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, ककल, देवदत्त, धनञ्जय और जीवात्मा ये ग्यारह रुद्र इस लिये कहाते हैं कि जब शरीर को छोड़ते हैं तब रोदन कराने वाले होते हैं । संवत्सर के बारह महीने बारह आदित्य इस लिये हैं कि ये सब की आयु को लेते जाते हैं । विजुली का नाम इन्द्र इस हेतु से है कि परम ऐश्वर्य का हेतु है यज्ञ की प्रजापति कहने का कारण यह है कि जिस से वायु वृष्टि जल ओषधी की शुद्धि विधानों का सत्कार और नाना प्रकार की शिल्पविद्या से प्रजा का पालन होता है ये तैंतीस पूर्वोक्त गुणों के योग से देव कहाते हैं । इन का स्वामी और सब से बड़ा होने से परमात्मा चौतीसवां उपास्य देव शतपथ के चौदहवें कांड में स्पष्ट लिखा है इसी प्रकार अन्यत्र भी लिखा है जो ये इन शास्त्रों को देखते तो वेदों में अनेक ईश्वर माननेरूप भ्रमजाल में गिर कर क्यों बहकते ॥ हे मनुष्य ! जो कुछ इस संसार में जगत् है उस सब में व्याप्त ही कर नियन्ता है वह ईश्वर कहाता है उस से डर कर तू अन्याय से किसी के धन की आकांक्षा मत कर उस अन्याय से त्याग और न्यायाचरण रूप धर्म से अपने आत्मा से आनन्द को भोग ॥ ईश्वर सब को उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! मैं ईश्वर सब के पूर्व विद्यमान सब जगत् का पति हूं मैं सनातन जगत्कारण और सब धनों का विजय करने वाला और दाता हूं सुभ्र ही को सब जीव जैसे पिता को सन्तान पुकारते हैं वैसे पुकारें मैं सब को सुख देने हारे जगत् के लिये नाना प्रकार के भोजनों का विभाग पालन के लिये करता हूं ॥ मैं परमैश्वर्यवान् सूर्य के सदृश सब जगत् का प्रकाशक हूं कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता और न कभी मृत्यु को प्राप्त होता हूं मैं ही जगत् रूप धन का निर्माता हूं सब जगत् की उत्पत्ति करने वाले सुभ्र ही को जानो हे जीवो ! ऐश्वर्य प्राप्ति के यत्न करते हुए तुम लोग विज्ञानादि धन को सुभ्र से मांगो और तुम लोग मेरी मित्रता से अन्नम मत हीओ हे मनुष्यो ! मैं सत्यभाषणरूप सति करने वाले मनुष्य को सनातन ज्ञानादि धन देता हूं मैं ब्रह्म अर्थात् वेद का प्रकाश करने हारा और सुभ्र को वह वेद यथापत् कहता उस से सब के ज्ञान को मैं बढ़ाता मैं सत्पुरुष

का प्रेरक यज्ञ करने हारे को फलप्रदाता और इस विश्व में जो कुछ है उस सब कार्य का बनाने और धारण करने वाला हूँ इस लिये तुम लोग सुभ को छोड़ किसी दूसरे को मेरे स्थान में मत पूजो मत मानो और मत जानो ॥

**हिरण्यगर्भः समवर्तताथ्रे भूतस्य ज्ञातः पतिरेकं आसीत् ।
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥
यजुः० अ० । १३ । ४ ॥**

यह यजुर्वेद का मन्त्र है—हे मनुष्यो ! जो सृष्टि के पूर्व सब सूर्यादि तेज वाले लोको का उत्पत्ति स्थान आधार और जो कुछ उत्पन्न है, हुआ था और होगा उस का स्वामी था है और होगा वह पृथिवी से ले के सूर्यलोक पर्यन्त सृष्टि को बना के धारण कर रहा है उस सुख स्वरूप परमात्मा ही को भक्ति जैसे हम करें वैसे तुम लोग भी करो ॥ (प्रश्न) आप ईश्वर २ कहते हो परन्तु उस की सिद्धि किस प्रकार करते हो ? (उत्तर) सब प्रत्यक्षादि प्रमाणी से (प्रश्न) ईश्वर में प्रत्यक्षादि प्रमाण कभी नहीं घट सकते ? (उत्तर) :—

**इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि
व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम् ॥ न्याय० अ० १ । सू० ४ ॥**

यह गोतम महर्षिकृत न्यायदर्शन का सूत्र है—जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, और मन का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, सुख, दुःख, सत्यासत्य आदि विषयों के साथ सखन्ध होने से ज्ञान उत्पन्न होता है उस को प्रत्यक्ष कहते हैं परन्तु वह निर्भ्रम ही । अब विचारना चाहिये कि इन्द्रियों और मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता है गुणों का नहीं जैसे चागं त्वचा आदि इन्द्रियों से स्पर्श, रूप, रस, और गन्ध, का ज्ञान होने से गुणों जो पृथिवी उस का आत्मायुक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता है वैसे इस प्रत्यक्ष सृष्टि में रचना विशेष आदि ज्ञानादि गुणों के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष है और जब आत्मा मन और मन इन्द्रियों को किसी विषय में लगाता वा चोरी आदि दुरी वा परोपकार आदि अच्छी वान के करने का जिस क्षण में आरम्भ करता है उस समय जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विषय पर भुक्त जाती है उसी क्षण में आत्मा के भीतर से दुरी काम करने में भय, शङ्का और लज्जा तथा अच्छे कामों के करने में अभय निःशङ्कता और आनन्दोत्साह उठता है वह जीवात्मा की ओर से नहीं किन्तु परमात्मा की ओर से है और जब जीवात्मा शुद्ध हो के परमात्मा का

विचार करने में तत्पर रहता है उस को उसी समय दोनों प्रत्यक्ष होते हैं जब परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता है तो अनुमानादि से परमेश्वर के ज्ञान होने में क्या सन्देह है ? क्योंकि कार्य को देख के कारण का अनुमान होता है (प्रश्न) ईश्वर व्यापक है वा किसी देश विशेष में रहता है ? (उत्तर) व्यापक है क्योंकि जो एक देश में रहता तो सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वनियन्ता सब का स्रष्टा, सब का धर्मा और प्रलयकर्त्ता नहीं हो सकता अप्राप्त देश में कर्त्ता की क्रिया का असम्भव है (प्रश्न) परमेश्वर दयालु और न्यायकारी है वा नहीं ? (उत्तर) है (प्रश्न) ये दोनों गुण परस्पर विरुद्ध हैं जो न्याय करे तो दया और दया करे तो न्याय क्यूँ जाय क्योंकि न्याय उस को कहते हैं कि जो कर्मों के अनुसार न अधिक न न्यून सुख दुःख पहुंचाना और दया उस को कहते हैं जो अपराधी को बिना दण्ड दिये छोड़ देना (उत्तर) न्याय और दया का नाम मात्र ही भेद है क्योंकि जो न्याय से प्रयोजन सिद्ध होता है वही दया से दण्ड देने का प्रयोजन है कि मनुष्य अपराध करने से बन्ध ही कर दुःखों को प्राप्त न हों वही दया कहाती है जो पराये दुःखों का कुड़ाना और जैसा अर्थ दया और न्याय का तुम ने किया वह ठीक नहीं क्योंकि जिस ने जैसा जितना बुरा कर्म किया हो उस को उतना वैसा ही दण्ड देना चाहिये उसी का नाम न्याय है और जो अपराधी को दण्ड न दिया जाय तो दया का नाश हो जाय क्योंकि एक अपराधी डाँकू को छोड़ देने से सहस्रों धर्मात्मा पुरुषों को दुःख देना है जब एक के छोड़ने में सहस्रों मनुष्यों को दुःख प्राप्त होता है वह दया किस प्रकार हो सकती है दया वही है कि उस डाँकू को कारागार में रख कर पाप करने से बचाना डाँकू पर और उस डाँकू को मार देने से अन्य सहस्रों मनुष्यों पर दया प्रकाशित होती है (प्रश्न) फिर दया और न्याय ही शब्द क्यों हुए ? क्योंकि उन दोनों का अर्थ एक ही होता है तो दो शब्दों का होना व्यर्थ है इस लिये एक शब्द का रहना तो अच्छा था इस से क्या विदित होता है कि दया और न्याय का एक प्रयोजन नहीं है । (उत्तर) क्या एक अर्थ के अनेक नाम और एक नाम के अनेक अर्थ नहीं होते ? (प्रश्न) होते हैं । (उत्तर) तो पुनः तुम को शङ्का क्यों हुई (प्रश्न) संसार में सुनते हैं इस लिये । (उत्तर) संसार में तो सच्चा भ्रंटा दोनों सुनने में आता है परन्तु उस का विचार से निश्चय करना अपना काम है । देखो ईश्वर की पूर्ण दया तो यह है कि जिस ने सब जीवों के प्रयोजन सिद्ध होने के अर्थ जगत् में सकल पदार्थ उत्पन्न करके दान दे रखे हैं इस से भिन्न दूसरो बड़ी दया कौनसी है अब न्याय का फल प्रत्यक्ष दीखता है कि सुख दुःख को व्यवस्था अधिक और न्यूनता से फल को प्रकाशित कर रही है इन दोनों का इतना ही

भेद है कि जो मन में सब को सुख होने और दुःख छूटने की इच्छा और क्रिया करना है वह दया और बाह्य वेषा अर्थात् बन्धन छेदनादि यथावत् दण्ड देना न्याय कहता है दोनों का एक प्रयोजन यह है कि सब को पाप और दुःखों से पृथक् कर देना (प्रश्न) ईश्वर साकार है वा निराकार ? (उत्तर) निराकार, क्योंकि जो साकार होता तो व्यापक न होता जब व्यापक न होता तो सर्वज्ञादि गुण भी ईश्वर में न घट सकते क्योंकि परिमित वस्तु में गुण कर्म स्वभाव भी परिमित रहते हैं तथा शोतोष्ण, लुधा, लघा, और रोग, दोष, छेदन, भेदन आदि से रहित नहीं हो सकता इस से यही निश्चित है कि ईश्वर निराकार है जो साकार हो तो उस के नाक, कान, आंख, आदि अवयवों का बनाने हारा दूसरा होना चाहिये क्योंकि जो संयोग से उत्पन्न होता है उस को संयुक्त करने वाला निराकार चेतन अवश्य होना चाहिये । जो कोई गहां ऐसा कहे कि ईश्वर ने खेच्छा से आप ही आप अपना शरीर बना लिया तो भी वही सिद्ध हुआ कि शरीर बनने के पूर्व निराकार था इस लिये परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता किन्तु निराकार होने से सब जगत् को सूक्ष्म कारणों से स्थूलाकार बना देता है । (प्रश्न) ईश्वर सर्वशक्तिमान् है वा नहीं ? (उत्तर) है, परन्तु जैसा तुम सर्वशक्तिमान् शब्द का अर्थ जानते हो वैसा नहीं किन्तु सर्वशक्तिमान् शब्द का यही अर्थ है कि ईश्वर अपने काम अर्थात् उत्पत्ति पालन प्रलय आदि और सब जीवों के पुण्य पाप की यथायोग्य व्यवस्था करने में किंचित् भी किसी की सहायता नहीं लेता अर्थात् अपने अनन्त सामर्थ्य से ही सब अपना काम पूर्ण कर लेता है । (प्रश्न) हम तो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर चाहे सो करे क्योंकि उस के ऊपर दूसरा कोई नहीं है । (उत्तर) वह क्या चाहता है । जो तुम कहो कि सब कुछ चाहता और कर सकता है तो हम तुम से पूछते हैं कि परमेश्वर अपने को मार, अनेक ईश्वर बना, स्वयं अविद्वान् चोरी व्यभिचारादि पाप कर्म कर और दुःखी भी हो सकता है । जैसे ये काम ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध हैं तो जो तुम्हारा कहना है कि वह सब कुछ कर सकता है यह कभी नहीं घट सकता इस लिये सर्वशक्तिमान् शब्द का अर्थ जो हमने कहा वही ठीक है । (प्रश्न) परमेश्वर सादि है वा अनादि ? (उत्तर) अनादि अर्थात् जिस का आदि कोई कारण वा समय न हो उस को अनादि कहते हैं इत्यादि सब अर्थ प्रथम समुद्गास में कर दिया है देख लीजिये (प्रश्न) परमेश्वर क्या चाहता है ? (उत्तर) सब की भलाई और सब के लिये सुख चाहता है परन्तु स्वतन्त्रता के साथ किसी को विना पाप किये पराधीन नहीं करता (प्रश्न) परमेश्वर की खुति प्रार्थना और उपासना करना चाहिये वा नहीं ? (उत्तर) करना चाहिये ।

(प्रश्न) क्या सुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ सुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा ? (उत्तर) नहीं । (प्रश्न) तो फिर सुति प्रार्थना क्यों करना ? (उत्तर) उन के करने का फल अन्य ही है । (प्रश्न) क्या है ? (उत्तर) सुति से ईश्वर में प्रीति उस के गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधारना, प्रार्थना से निरभिमानता उल्लाह और सहाय का मिलना उपासना से परब्रह्म से मेल और उस का साक्षात्कार होना । (प्रश्न) इन को स्पष्ट करके समझाओ (उत्तर) जैसे:—

सपर्यगाच्छुक्रमकायसंत्रणसंस्त्राविरःशुद्धसपापविद्धम् ।
 क्विर्मनीपी परिभूःस्वयम्भूर्याथातथ्यतोर्थान् व्युदधाच्छाश्व-
 तीभ्यः समाभ्यः ॥ यजुः० ॥ अ० ४० । मं० । ८ ॥

(ईश्वर की सुति) वह परमात्मा सब में व्यापक, शीघ्रकारो और अनन्त बलवान् जो शुद्ध, सर्वज्ञ, सब का अन्तर्यामी, सर्वोपरि विराजमान, सनातन, स्वयंसिद्ध, परमेश्वर अपनी जीवरूप सनातन अनादि प्रजा को अपनी सनातन विद्या से यथावत् अर्था का बोध वेद द्वारा कराता है यह सगुण सुति अर्थात् जिस २ गुण से सहित परमेश्वर की सुति करना वह सगुण (अकाय) अर्थात् वह कभी शरीरधारण वा कल्प नहीं लेता जिस में छिद्र नहीं होता नाड़ी आदि के बन्धन में नहीं आता और कभी पापाचरण नहीं करता जिस में क्लेश दुःख अज्ञान कभी नहीं होता इत्यादि जिस २ रागद्वेषादि गुण से पृथक् मान कर परमेश्वर की सुति करना है वह निर्गुण सुति है इस से अपने गुण कर्म स्वभाव भो करना जैसे वह न्यायकारी है तो आप भी न्यायकारी होंगे और जो केषल भांडु के समान परमेश्वर के गुण कीर्तन करता जाता और अपने चरित्र नहीं सुधारता उस का सुति करना व्यर्थ है । प्रार्थना:—

यां मेधां देवगणाः पितरंश्चोपासते । तया मामद्य मे-
 धयाऽग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥ यजुः० ॥ अ० ३२ । मं० १४ ॥

तेजोऽसि तेजो मयि धेहि । वीर्युमसि वीर्युं मयि धेहि । बल-
 मसि बलं मयि धेहि । ओजोऽस्योजो मयि धेहि । मन्युरं
 सि मन्युं मयि धेहि । सहोऽसि सहो मयि धेहि ॥ २ ॥
 यजुः० ॥ अ० । १९ । मं० ९ ॥

यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तदु सुप्तस्य तथैवैति । दूरङ्गमं
ज्योतिषां ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥

येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः ।
यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥

यत्प्रज्ञानमुत् चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु ।
यस्मान्नऽ ऋते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पम-
स्तु ॥ येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिशृहीतममृतेन सर्वम् ।

येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥

यस्मिन्नृचः साम यजूंषि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथनाभाविवा-
राः । यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसं-
ङ्कल्पमस्तु ॥ सुपारथिरथानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीशु-
भिर्वाजिनऽ इव । हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शि-
वसङ्कल्पमस्तु ॥ यजुः० । अ० ३४ । मं० । १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ ।

हे अग्ने ! अर्धात् प्रकाशस्वरूप परमेश्वर आप कृपा से जिस बुद्धि की उपा-
सना विद्वान् ज्ञानी और योगी लोग करते हैं उसी बुद्धि से युक्त बुद्धिमान् हम को
इसी वर्तमान समय में आप कीजिये ॥ आप प्रकाशस्वरूप हैं कृपा कर सुभ में
भी प्रकाश स्थापन कीजिये । आप अनन्तपराक्रमयुक्त हैं इस लिये सुभ में भी
कृपाकटाक्ष से पूर्ण पराक्रम धरिये । आप अनन्तबलयुक्त हैं इस लिये सुभ में
भी बल धारण कीजिये । आप अनन्तसामर्थ्ययुक्त हैं सुभ को भी पूर्ण सामर्थ्य
दीजिये । आप दुष्ट काम और दुष्टों पर क्रोधकारी हैं । सुभ को भी वैसा ही
कीजिये ॥ आप निन्दा, स्तुति और स्व अपराधियों का सहन करने वाले हैं कृपा
से सुभ को वैसा ही कीजिये ॥ हे दयानिधि ! आप की कृपा से मेरा मन जग-
त् में दूर २ जाता, दिव्यगुणयुक्त रहता है और वही सोते हुए मेरा मन सपुत्रि
को प्राप्त होता था स्वप्न में दूर २ जाने के समान व्यवहार करता सब प्रकाशकों
का प्रकाशक एक वह मेरा मन शिवमहत्त्व अर्धात् अपने और दूसरे प्राणियों
के अर्थ कल्याण का सहत्व करने द्वारा होवे किमो की हानि करने की उन्नायुक्त

कभी न होवे ॥ हे सर्वान्तर्यामी ! जिस से कर्म करने हारे धैर्ययुक्त विद्वान् लोग यज्ञ और युद्धादि में कर्म करते हैं जो अपूर्व सामर्थ्ययुक्त पूजनीय और प्रजा के भीतर रहने वाला है वह मेरा मन धर्म करने की इच्छायुक्त हो कर अधर्म को सर्वथा छोड़ देवे ॥ जो उत्कृष्ट ज्ञान और दूसरे की चित्ताने हारा निवृत्त्यात्मक-वृत्ति है और जो प्रजाओं में भीतर प्रकाशयुक्त और नाशरहित है जिस के बिना कोई कुछ भी कर्म नहीं कर सकता वह मेरा मन शुद्ध गुणों को प्रकाश करके दुष्ट गुणों से पृथक् रहे ॥ हे जगदीश्वर जिस से सब योगी लोग इन सब भूत, भविष्यत्, वर्तमान, व्यवहारों को जानते जो नाशरहित जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिल के सब प्रकार त्रिकालज्ञ करता है जिस में ज्ञान किया है पांच ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि और आत्मायुक्त रहता है उस योगरूप यज्ञ को जिस से बढ़ाते हैं वह मेरा मन योगविज्ञानयुक्त होकर विघ्नादि क्लेशों से पृथक् रहे ॥ हे परम विद्वान् परमेश्वर ! आप को कृपा से मेरे मन में जैसे रथ के मध्य धुरा में आरा लगे रहते हैं वैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और जिस में अथर्व वेद भी प्रतिष्ठित होता है और जिस में सर्वज्ञ सर्वव्यापक प्रजा का साची चित्त चेतन विदित होता है वह मेरा मन अविद्या का अभाव कर विद्याप्रिय सदा रहे ॥ हे सर्वनियन्ता ईश्वर ! जो मेरा मन रस्ती से घोड़ों के समान अथवा घोड़ों के नियन्ता सारथी के तुल्य मनुष्यों को अत्यन्त श्धर उधर दुलाता है जो हृदय में प्रतिष्ठित गतिमान् और अत्यन्तवेग वाला है वह सब इन्द्रियों को अधर्माचरण से रोक के धर्म पथ में सदा चलाया करे ऐसी कृपा सुभ पर कौजिये ॥

अग्ने नय सुपथां रायेऽअस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।

युयोध्युस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम ॥

यजुः०—अ० १० । मं० १६ ॥

हे सुख के दाता स्वप्रकाशस्वरूप सब को जानने हारे परमात्मन् ! आप हम को अष्टमार्ग से संपूर्ण प्रजाओं को प्राप्त कराइये और जो हम में कुटिल पापाचरण रूप मार्ग है उस से पृथक् कौजिये इसी लिये हम लोग नस्त्रता पूर्वक आप की बहुत सी लुत्ति करते हैं कि आप हम को पवित्र करे ॥

मा नो महान्तमुत मा नोऽअर्भकं मा न उचन्तमुत

मा न उक्षितम् । मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः

प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिपः ॥ यजु० अ०—१६ । मं० १५ ॥

हे मद्र ! (दुष्टों को पाप के दुःखस्वरूप फल को दे के रूलाने वाले परमेश्वर) आप हमारे छोटे बड़े जन, गर्भ, माता, पिता, और प्रिय, बन्धु वर्ग तथा शरीरों का हनन करने के लिये प्रेरित मत कीजिये ऐसे मार्ग से हम को चलाइये जिस से हम आप के दण्डनीय न हों ॥

असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो-
र्मामृतं गमयेति ॥ शतपथ ब्रा० १४ । ३ । १ । ३० ॥

हे परमगुरो परमात्मन् ! आप हम को असत् मार्ग से पृथक् कर सन्मार्ग में प्राप्त कीजिये अविद्यान्धकार को छुड़ा के विद्यारूप सूर्य को प्राप्त कीजिये और मृत्यु रोग से पृथक् करके मोक्ष के आनन्द रूप अमृत को प्राप्त कीजिये अर्थात् जिस २ दोष वा दुर्गुण से परमेश्वर और अपने को भी पृथक् मान के परमेश्वर की प्रार्थना की जाती है वह विधिनिषेधसुख होने से सगुण निर्गुण प्रार्थना जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना करता है उस को वैसा ही वर्तमान करना चाहिये अर्थात् जैसे सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिये परमेश्वर की प्रार्थना करे उस के लिये जितना अपने से प्रयत्न हो सके उतना किया करे अर्थात् अपने पुरुषार्थ के उप-रान्त प्रार्थना करनी योग्य है ऐसी प्रार्थना कभी न करनी चाहिये और न परमे-श्वर उस का स्वीकार करता है कि जैसे हे परमेश्वर ! आप मेरे शत्रुओं का नाश, मुझ को सब से बड़ा, मेरी ही प्रतिष्ठा और मेरे आधीन सब हो जायं इत्यादि क्योंकि जब दोनों शत्रु एक दूसरे के नाश के लिये प्रार्थना करें तो क्या परमेश्वर दोनों का नाश कर-दे ? जो कोई कहे कि जिस का प्रेम अधिक उस की प्रार्थना सफल हो जावे तब हम कह सकते हैं कि जिसका प्रेम न्यून हो उस के शत्रु का भी न्यून नाश होना चाहिये। ऐसी मूर्खता की प्रार्थना करते २ कोई ऐसी भी प्रार्थना करे गा हे परमेश्वर ! आप हम को रोटी बना कर खिलाइये मेरे मकान में भाड़ू लंगाइये वस्त्र धो दीजिये और खेती बाड़ी भी कीजिये इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे आलसी हो कर बैठे रहते वे महामूर्ख हैं क्योंकि परमे-श्वर की पुरुषार्थ करने की आज्ञा है उसको जो कोई तोड़े गा वह सुख कभी न पावे गा जैसे :-

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छ्रुतः समाः ॥ य० ॥

अ० ४० । मं० २ ॥

परमेश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्य सौ वर्ष पर्वन्त अर्थात् जब तक जीवे तब तक कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे आलसी कभी न हो। देखो सृष्टि के

बीच में जित ने प्राणी अथवा अप्राणी हैं वे सब अपने २ कर्म और चल करते ही रहते हैं जैसे पिपीलिका आदि सदा प्रयत्न करते पृथिवी आदि सदा घूमते और वृक्ष आदि बढ़ते घटते रहते हैं वैसे यह दृष्टान्त मनुष्यों को भी ग्रहण करना योग्य है जैसे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी करता है वैसे धर्म से पुरुषार्थी पुरुष का सहाय ईश्वर भी करता है जैसे काम करने वाले पुरुष को भृत्य करते हैं और अन्य आत्मी को नहीं देखने को बूझा करने और नेत्र वाले को दिखलाते हैं अन्धे को नहीं इसी प्रकार परमेश्वर भी सब के उपकार करने की प्रार्थना में सहायक होता है हानिकारक कर्म में नहीं जो कोई गुड़ मीठा है ऐसा कहता है उस को गुड़ प्राप्त वा उस को खाद प्राप्त कभी नहीं होता और जो यत्न करता है उस को शीघ्र वा विलम्ब से गुड़ मिल ही जाता है। अब तीसरी उपासना :-

**समाधिनिर्भूतमलस्यचेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत् ।
न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयन्तदन्तःकरेण गृह्यते ॥**

यह उपनिषद् का वचन है-जिस पुरुष के समाधियोग से अविद्यादि मल नष्ट हो गये हैं आत्मस्थ हो कर परमात्मा में चित्त जिस ने लगाया है उस को जो परमात्मा के योग का सुख होता है वह वाणी से कहा नहीं जा सकता क्योंकि उस आनन्द को जीवात्मा अपने अन्तःकरण से ग्रहण करता है। उपासना शब्द का अर्थ समीपस्थ होना है अष्टांग योग से परमात्मा के समीपस्थ होने और उस को सर्वव्यापी सर्वान्तर्यामी रूप से प्रत्यक्ष करने के लिये जो २ काम करना होता है यह २ सब करना चाहिये अर्थात् :-

तत्राऽहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥ साधनपादे । सू० ३० ॥

इत्यादि सूत्र पातञ्जलयोगशास्त्र के हैं-जो उपासना का आरम्भ करना चाहे उस के लिये वही आरम्भ है कि वह किसी से वैर न रखे, सर्वदा सब से प्रीति करे सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोले, चोरी न करे, सत्य व्यवहार करे, जितेन्द्रिय हो सम्पत् न हो, और निरभिमानी हो अभिमान कभी न करे ये पाँच प्रकार के यम मिल के उपासना योग का प्रथम अङ्ग है।

शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥

योगशा० साधनपादे । सू० ३२ ॥

राग, द्वेष छोड़ भीतर और जल्लाहि से बाहर पवित्र रहै धर्म से पुरुषार्थ करने से लाभ में न प्रसन्नतां और हानि में न अप्रसन्नता करे प्रसन्न हो कर आलस्य छोड़ सदा पुरुषार्थ किया करे, सदा सुख दुःखों का सहन और धर्म ही का अनुष्ठान करे अधर्म का नहीं, सर्वदा सत्य शास्त्रों को पढ़े पढ़ावे सत्पुरुषों का सङ्ग करे और "ओ३म्" इस एक परमात्मा के नाम का अर्थ विचार करे नित्यप्रति जप किया करे, अपने आत्मा को परमेश्वर को आज्ञानुकूल समर्पित कर देवे । इन पांच प्रकार के नियमों को मिला के उपासनायोग का दूमरा अङ्ग कहाता है । इस के आगे छः अङ्ग योगशास्त्र वा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका * में देख लेवे । जब उपासना करना चाहें तब एकान्तशुद्धदेश में जा कर आसन लगा प्राणायाम कर बाह्य विषयों से इन्द्रियों को रोक मन को नाभिप्रदेश में वा हृदय, कण्ठ, नेत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मग्न हो जाने से संयमी होवे । जब इन साधनों को करता है तब उस का आत्मा और अन्तःकरण पवित्र हो कर सत्य से पूर्ण हो जाता है नित्यप्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ाकर मुक्तितक पहुंच जाता है जो आठ प्रहर में एक घड़ीभर भी इस प्रकार ध्यान करता है वह सदा-उन्नति को प्राप्त हो जाता है वहां सर्वज्ञादि गुणों के साथ परमेश्वर की उपासना करनी सगुण और द्वेष, रूप, रस, गन्ध, स्पर्शादि गुणों से पृथक् मान अतिसूक्ष्म आत्मा के भीतर बाहर व्यापक परमेश्वर में दृढ़स्थित हो जाना निर्गुणोपासना कहाती है इस का फल जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त हो जाता है वैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष दुःख छूट कर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के सदृश जीवात्माके गुण कर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं इस लिये परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना अवश्य करनी चाहिये । इस से इस का फल पृथक् होगा परन्तु आत्मा का बल इतना बढ़े गा वह पर्वत के समान दुःख प्राप्त होने पर भी न घबरावेगा और सब को सहन कर सकेगा क्या यह छोटी बात है ? और जो परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना नहीं करता वह कृतघ्न और महामूर्ख भी होता है क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत् के सब पदार्थ जीवों को सुख के लिये दे रखे हैं उस का गुण भूल जाना ईश्वर ही को न मानना कृतघ्नता और-मूर्खता है । (प्रश्न) जब परमेश्वर को श्रेष्ठ नेत्रादि इन्द्रियां नहीं हैं फिर वह इन्द्रियों का काम कैसे कर सकता है ? (उत्तर) :—

* ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के उपासना विषय में इन का धर्षन है ।

अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः ।
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्यं पुरुषं महान्तम् ॥

श्वेताश्वतर उपनिषद् अ० ३ मं० १६ । परमेश्वर के हाथ नहीं परन्तु अपनी शक्ति रूप हाथ से सब का रचन ग्रहण करता, पग नहीं परन्तु व्यापक होने से सब से अधिक वेगवान्, चक्षु का गोलक नहीं परन्तु सब को यथावत् देखता, श्रोत्र नहीं तथापि सब की बातें सुनता, अन्तःकरण नहीं परन्तु सब जगत् को जानता है और उस को अवधि सहित जानने वाला कोई भी नहीं उसी को मना-तन सब से श्रेष्ठ सब में पूर्ण होने से पुरुष कहते हैं ॥ वह इन्द्रियों और अन्तःकरण से काम अपने सामर्थ्य से करता है । (प्रश्न) उस को बहुत से मनुष्य निष्क्रिय और निर्गुण कहते हैं ? (उत्तर) :—

न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते ।
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥

श्वेताश्वतर उपनिषद् अ० ६ । मं० ८ । परमात्मा से कोई तद्रूप कार्य और उस को करण अर्थात् साधकतम दूसरा अपेक्षित नहीं न कोई उसे के तुल्य और न अधिक है सर्वोत्तमशक्ति अर्थात् जिस में अनन्त ज्ञान अनन्त बल और अनन्त क्रिया है वह स्वाभाविक अर्थात् सहजउस में सुनी जाती है जो परमेश्वर निष्क्रिय होता तो जगत् की उत्पत्ति स्थिति प्रलय न कर सकता इस लिये वह विभु तथापि चेतन होने से उस में क्रिया भी है । (प्रश्न) जब वह क्रिया करता होगा तब अन्त-वाली क्रिया होती होगी वा अनन्त ? (उत्तर) जितने देश काल में क्रिया करनी उचित समझता है उतने ही देश काल में क्रिया करता है न अधिक न न्यून चो-कि वह विद्वान् है । (प्रश्न) परमेश्वर अपना अन्त जानता है वा नहीं ? (उत्तर) परमात्मा पूर्ण जानी है क्योंकि ज्ञान उस को कहते हैं कि जिस से ज्यों का त्यों जाना जाय अर्थात् जो पदार्थ जिस प्रकारका हो उस को उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान है, परमेश्वर अनन्त है तो अपने को अनन्त ही जानना ज्ञान, उस से विरुद्ध अज्ञान अर्थात् अनन्त को सान्त और सान्त को अनन्त जानना भ्रम कहाता है "यद्यार्थदर्शनं ज्ञानमिति" जिस का जैसा गुण कर्म स्वभाव हो उस पदार्थ को वैसा ही जान कर मानना ही ज्ञान और विज्ञान कहाता है उक्तटा अज्ञान इस लिये:—

केशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ॥ योग सू० ॥

जो अविद्यादि क्लेश, कुशल, अकुशल, दुष्ट, अनिष्ट और मित्र फलदायक कर्मों की वासना से रहित है वह सब जीवों से विशेष ईश्वर कहता है (प्रश्न) :—

ईश्वरासिद्धेः ॥ सां० अ० १ । सू० ९२ ॥

प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धिः ॥ सां० अ० ५ । सू० १० ॥

सम्बन्धाभावान्नानुमानम् ॥ सां० अ० ४ । सू० ११ ॥

प्रत्यक्ष से घटसकते ईश्वर की सिद्धि नहीं होती ॥ क्योंकि जब उस की सिद्धि में प्रत्यक्ष ही नहीं तो अनुमानादि प्रमाण नहीं हो सकता ॥ और व्याप्ति सम्बन्ध न होने से अनुमान भी नहीं हो सकता पुनः प्रत्यक्षानुमान के न होने से शब्द प्रमाण आदि भी नहीं घट सकते इस कारण ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती । (उत्तर) यहाँ ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और न ईश्वर जगत् का उपादान कारण है और पुरुष से विलक्षण अर्थात् सर्वत्र पूर्ण होने से परमात्मा का नाम पुरुष और शरीर में शयन करने से जीव का भी नाम पुरुष है क्योंकि इसी प्रकार में कहा है :—

प्रधानशक्तियोगाच्चेत्सङ्गापत्तिः ॥ सत्तामात्राच्चेत्सर्वैश्वर्यम् ॥

श्रुतिरपि प्रधानकार्यत्वस्थ ॥ सां० अ० ५ । सू० ८ । ९ । १२ ॥

यदि पुरुष को प्रधानशक्ति का योग न हो तो पुरुष में सङ्गापत्ति ही जाय अर्थात् जैसे प्रकृति सूक्ष्म से मिल कर कार्यरूप में सङ्गत हुई है वैसे परमेश्वर भी स्थूल ही जाय इस लिये परमेश्वर जगत् का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है जो चेतन से जगत् को उत्पत्ति हो तो जैसा परमेश्वर समग्रैश्वर्ययुक्त है वैसे संसार में भी सर्वैश्वर्य का योग होना चाहिये सो नहीं है इस लिये परमेश्वर जगत् का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है ॥ क्योंकि उपनिषद् भी प्रधान ही को जगत् का उपादान कारण कहती है ॥ जैसे :—

अजामेकां लोहितशुक्लरूपां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः ॥

श्वेताश्वतर उपनिषद् अ० ३ मं० ५ । जो जन्मरहित सत्व, रज, तमो गुण-रूप प्रकृति है वहो स्वरूपाकार से बहुत प्रजारूप हो जाती है अर्थात् प्रकृति परिणामिनी होने से अवस्थान्तर हो जाती है और पुरुष अपरिणामी होने से वह अवस्थान्तर ही कर दूसरे रूप में कभी नहीं प्राप्त होता सदा कूटस्थ निर्विकार रहता है इस लिये जो कोई कपिलाचार्य को अनीश्वरवादी कहता है

जानों वही अनौश्वरवादी है कपिलाचार्य नहीं । तथा मीमांसा का धर्म धर्मों से ईश्वर से वैशेषिक और न्याय भी आत्म शब्द से अनौश्वरवादी नहीं क्योंकि सर्वज्ञत्वादि धर्मयुक्त और "अतति सर्वत्र व्याप्नोतीत्यात्मा" जो सर्वत्र व्यापक और सर्वज्ञादि धर्मयुक्त सब जीवों का आत्मा है उस को मीमांसा वैशेषिक और न्याय ईश्वर मानते हैं । (प्रश्न) ईश्वर अवतार लेता है या नहीं ? (उत्तर) नहीं, क्योंकि "अज एकपात्" "सपर्य्यागाच्छुक्रमकायम्" ये यजुर्वेद के वचन हैं इत्यादि वचनों से सिद्ध है कि परमेश्वर जन्म नहीं लेता । (प्रश्न) :—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

भ० गी० अ० ४ । श्लो० ७ ॥

श्रीकृष्ण जो कहते हैं कि जब २ धर्म का लोप होता है तब-२ मैं शरीर धारण करता हूँ । (उत्तर) यह बात वेदविरुद्ध होने से प्रमाण नहीं और ऐसा हो सकता है कि श्रीकृष्ण धर्मात्मा और धर्म की रक्षा करना चाहते थे कि मैं युग २ में जन्म ले के अष्टों की रक्षा और दुष्टों का नाश करूँ तो कुछ दोष नहीं क्योंकि "परोपकाराय सतां विभूतयः" परोपकार के लिये सत्पुरुषों का तन मन धन होता है तथापि इस से श्रीकृष्ण ईश्वर नहीं हो सकते । (प्रश्न) जो ऐसा है तो संसार में चौबीस ईश्वर के अवतार होते हैं और इन को अवतार क्यों मानते हैं ? (उत्तर) वेदार्थ के न जानने, संप्रदायी लोगों के बहकाने और अपने आप पवि-दान् होने से भ्रम जाल में फस के ऐसी २ अप्रामाणिक बातें करते और मानते हैं । (प्रश्न) जो ईश्वर अवतार न लेवे तो कंस रावणादि दुष्टों का नाश कैसे हो सके ? (उत्तर) प्रथम जो जन्मा है वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है श्री ईश्वर अवतार शरीर धारण किये बिना जगत् को उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता है उस के सामने कंस और रावणादि एक कीड़ी के समान भी नहीं यह सर्वव्यापक होने से कंस रावणादि के शरीरों में भी परिपूर्ण हो रहा है जब चाहे उसी समय धर्म-च्छेदन कर नाश कर सकता है । भला इस अनन्त गुणकर्म स्वभावयुक्त परमात्मा को एक क्षुद्र जीव के मारने के लिये जन्म मरणयुक्त कहने वाले को सूर्यपन से अन्य कुछ विग्रह उपमा मिल सकती है ? और जो कोई कहे कि भक्त जनों के उद्धार करने के लिये जन्म लेता है तो भी सत्य नहीं क्योंकि जो भक्त जन ईश्वर की आज्ञानुकूल चलते हैं उन के उद्धार करने का पूरा सामर्थ्य ईश्वर में है । क्या ईश्वर के पृथिवी सूर्य चन्द्रादि जगत् का बनाने धारण और प्रलय करने रूप कर्मा में

कंस रावणादि का बध और गोवर्धनादि पर्वतों का उठाना बड़े कर्म हैं ? जो कोई इस सृष्टि में परमेश्वर के कर्मों का विचार करे तो "न भूतो न भविष्यति" ईश्वर के सृष्टि कोई न है न होगा । और युक्ति से भी ईश्वर का जन्म सिद्ध नहीं होता जैसे कोई अनन्त आकाश को कहे कि गर्भ में आया वा सूठी में धर लिया ऐसा कहना कभी सच नहीं हो सकता क्योंकि आकाश अनन्त और सब में व्यापक है इस से न आकाश बाहर आता और न भीतर जाता वैसे ही अनन्त सर्वव्यापक परमात्मा के होने से उसका आना जाना कभी सिद्ध नहीं हो सकता । जाना वा आना वहाँ ही सकता है जहाँ न हो क्या परमेश्वर गर्भ में व्यापक नहीं था जो कहीं से आया ? और बाहर नहीं था जो भीतर से निकला ? ऐसा ईश्वर के विषय में कहना और मानना विद्या हीनों के सिवाय कौन कह और मान सकेगा । इस लिये परमेश्वर का जाना आना जन्म मरण कभी सिद्ध नहीं हो सकता प्रकृत लिये "ईसा" आदि भी ईश्वर के अवतार नहीं ऐसा समझ लेना क्योंकि राग, द्वेष, क्षुधा, तृष्णा, भय, शोक, दुःख, सुख, जन्म, मरण आदि गुणयुक्त होने से मनुष्य थे । (प्रश्न) ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है वा नहीं ? (उत्तर) नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट हो जाय और सब मनुष्य महापापी हो जायें क्योंकि क्षमा की बात सुन ही के उनको पाप करने में निर्भयता और उत्साह हो जाये जैसे राजा अपराध को क्षमा कर दे तो वे उत्साहपूर्वक अधिक २ बड़े २ पाप करें क्योंकि राजा अपना अपराध क्षमा कर देगा और उनको भी भरोसा हो जाय कि राजा से हम हाथ जोड़ने आदि चेष्टा कर अपने अपराध छुड़ा लेंगे और जो अपराध नहीं करते वे भी अपराध करने से न डर कर पाप करने में प्रवृत्त हो जायें इस लिये सब कर्मों का फल यथावत् देना ही ईश्वर का काम है क्षमा करना नहीं । (प्रश्न) जीव स्वतन्त्र हैं वा परतन्त्र ? (उत्तर) अपने कर्तव्यकर्मों में स्वतन्त्र और ईश्वर की व्यवस्था में परतन्त्र है "स्वतन्त्रःकर्ता" यह पाणिनीयव्याकरण का सूत्र है जो स्वतन्त्र अर्थात् स्वाधीन है वही कर्ता है । (प्रश्न) स्वतन्त्र किसको कहते हैं ? (उत्तर) जिसके आधीन शरीर प्राण इन्द्रिय और अन्तःकरण आदि हों जो स्वतन्त्र न हो तो उसको पाप पुण्य का फल प्राप्त कभी नहीं हो सकता क्योंकि जैसे शूल्य स्वामी और सेनाध्यक्ष की आज्ञा अथवा प्रेरणा से युद्ध में अनेकपुरुषों को मार के अपराधी नहीं होते वैसे परमेश्वर की प्रेरणा और आधीनता से काम सिद्ध हैं तो जीवको पाप वा पुण्य न लगे उस फल का भी प्रेरक परमेश्वर होवे नरक स्वर्ग अर्थात् दुःख सुख की प्राप्ति भी परमेश्वर की होवे । जैसे किसी मनुष्य ने शत्रुविशेष से किसीको मार डाला तो वही मारने वाला पकड़ा जाता है और वही दण्ड पाता है शक्य नहीं । वैसे ही

पराधीन जीव पाप पुण्य का भागी नहीं हो सकता। इस लिये अपने सामर्थ्या-
नुकूल कर्म करने में जीव स्वतन्त्र परन्तु जब वह पाप कर सकता है तब ईश्वर
की व्यवस्था में पराधीन हो कर पाप के फल भोगता है इस लिये कर्म करने में
जीव स्वतन्त्र और पाप दुःखरूप फल भोगने में परतन्त्र होता है। (प्रश्न) जो पर-
मेश्वर जीव को न बनाता और सामर्थ्य न देता तो जीव कुछ भी न कर सकता
इस लिये परमेश्वर की प्रेरणा ही से जीव कर्म करता है। (उत्तर) जीव उत्पन्न
कभी न हुआ अनादि है जैसे ईश्वर और जगत् का उपादान कारण निमित्त है
और जीव का शरीर तथा इन्द्रियों के गोलक परमेश्वर के बनाये हुए हैं परन्तु वे सब
जीव के आधीन हैं जो कोई मन कर्मवचन से पाप पुण्य करता है वही भोगता है
ईश्वर नहीं जैसे किसी ने पहाड़ से लोहा निकाला उस लोहे को किसी व्यापारी
ने लिया उस की दुकान से लोहार ने ले तलवार बनाई उस से किसी सिपाही
ने तलवार ले ली फिर उस से किसी को मार डाला। अब यहां जैसे वह लोहे
को उत्पन्न करने उस से लेने तलवार बनाने वाले और तलवार को पकड़ कर
राजा दण्ड नहीं देता किन्तु जिस ने तलवार से मारा वही दण्ड पाता है। इसी
प्रकार शरीरादि की उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर उस के कर्मों का भोक्ता नहीं
होता किन्तु जीव को भुगाने वाला होता है। जो परमेश्वर कर्म करता तो कोई
जीव पाप नहीं करता क्योंकि परमेश्वर पवित्र और धार्मिक होने से किसी जीव
को पाप करने में प्रेरणा नहीं करता। इस लिये जीव अपने काम करने में स्वतन्त्र
है जैसे जीव अपने कामों के करने में स्वतन्त्र है वैसे ही परमेश्वर भी अपने
कामों के करने में स्वतन्त्र है। (प्रश्न) जीव और ईश्वर का स्वरूप, गुण, कर्म
और स्वभाव कैसा है? (उत्तर) दोनों चेतनस्वरूप हैं, स्वभाव दोनों का पवित्र
अविनाशी और धार्मिकता आदि है परन्तु परमेश्वर के सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति,
प्रलय, सब को नियम में रखना, जीवों को पाप पुण्यों के फल देना आदि धर्म-
युक्त कर्म हैं और जीव के सन्तानोत्पत्ति, उन का पालन, शिल्पविद्या आदि अर्द्ध-
बुरे कर्म हैं ईश्वर के नित्यज्ञान आनन्द अमन्त बल आदि गुण हैं और जीव के:-

इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति ॥

न्यायद० अ० १ । आ० १ । सू० १० ॥

प्राणापाननिमेषोन्मेषमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः सुख-
दुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नाश्चात्मनो लिङ्गानि ॥ वैशेषिक द०
अ० ३ । आ० २ । सू० ४ ॥

(इच्छा) पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाषा (हेय) दुःखादि की अनिच्छा वैर (प्रयत्न) पुरुषार्थ बल (सुख) आनन्द (दुःख) विलाप अप्रसन्नता (ज्ञान) विवेक पहिचानना ये मुख्य हैं परन्तु वैशेषिक में (प्राण) प्राण वायु को बाहर निकालना (अपान) प्राण को बाहर से भीतर को लेना (निमेष) आँख को मींचना (उन्मेष) आँख को खोलना (मन) निश्चय स्मरण और अहङ्कार करना (गति) चलना (इन्द्रिय) सब इन्द्रियों को चलाना (अन्तर्विकार) भिन्न २ लुधा, लपा, हर्ष, शोकादियुक्त होना ये जीवात्मा के गुण परमात्मा से भिन्न हैं इन्हीं से आत्मा की प्रतीति करनी, क्योंकि वह स्थूल नहीं है, जब तक आत्मा देह में होता है तभी तक ये गुण प्रकाशित रहते हैं और जब शरीर छोड़ चला जाता है तब ये गुण शरीर में नहीं रहते जिस के होने से जो हैं और न होने से न हैं वे गुण उसी के होते हैं जैसे दीप और सूर्यादि के न होने से प्रकाशादि का न होना और होने से होना है वैसे ही जीव और परमात्मा का विज्ञान, गुण-द्वारा होता है। (प्रश्न) परमेश्वर त्रिकालदर्शी है इस से भविष्यत् की बातें जानता है वह जैसा निश्चय करे गा जीव वैसा ही करे गा इस से जीव स्वतन्त्र नहीं और जीव को ईश्वर दण्ड भी नहीं दे सकता क्योंकि जैसा ईश्वर ने अपने ज्ञान से निश्चय किया है वैसा ही जीव करता है। (उत्तर) ईश्वर को त्रिकाल-दर्शी कहना सूक्ष्मता का काम है, क्योंकि जो जो कार न रहे वह भूतकाल और न होके होवे वह भविष्यकाल कहता है क्या ईश्वर को कोई ज्ञान हो के नहीं रहता तथा न होके होता है इस लिये परमेश्वर का ज्ञान सदा एक रस अखण्डित वर्तमान रहता है भूत भविष्यत् जीवों के लिये हैं हां जीवों के कर्म की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता ईश्वर में है स्वतः नहीं। जैसा स्वतन्त्रता से जीव करता है वैसा ही सर्वज्ञता से ईश्वर जानता है और जैसा ईश्वर जानता है वैसा जीव करता है अर्थात् भूत भविष्यत् वर्तमान के ज्ञान और फल देने में ईश्वर स्वतन्त्र और जीव किञ्चित् वर्तमान और कर्म करने में स्वतन्त्र है। ईश्वर का अनादि ज्ञान होने से जैसा कर्म का ज्ञान है वैसा ही दण्ड देने का भी ज्ञान अनादि है दोनों ज्ञान उस के सत्य हैं क्या कर्मज्ञान सच्चा और दण्डज्ञान मिथ्या कभी हो सकता है इस लिये इस में कोई दोष नहीं आता (प्रश्न) जीव शरीर में भिन्न विभु है वा परिक्रिन्न ? (उत्तर) परिक्रिन्न, जो विभु होता तो आयत्, स्वप्न, सुषुप्ति, मरण, जन्म, संयोग, वियोग, जाना, धाना, कभी नहीं हो सकता इस लिये जीव का स्वरूप अल्पज्ञ, अल्प अर्थात् सूक्ष्म है और परमेश्वर अतीव सूक्ष्मास्सूक्ष्म-तर अमन्त सर्वज्ञ और सर्वव्यापकस्वरूप है इसी लिये जीव और परमेश्वर का व्याप्य व्यापक सम्बन्ध है (प्रश्न) जिस जगह में एक वस्तु होती है उस जगह में

दूसरी वस्तु नहीं रह सकती इस लिये जीव और ईश्वर का संयोग सम्बन्ध हो सकता है व्याप्य व्यापक नहीं । (उत्तर) यह नियम समान आकार वाले पदार्थों में घट सकता है असमानाकृति में नहीं । जैसे लोहा स्थूल अग्नि सूक्ष्म होता है इस कारण से लोहे में विद्युत् अग्नि व्यापक हो कर एक ही अवकाश में दोनों रहते हैं वैसे जीव परमेश्वर से स्थूल और परमेश्वर जीव से सूक्ष्म होने से परमेश्वर व्यापक और जीव व्याप्य है। जैसे यह व्याप्य व्यापक सम्बन्ध जीव ईश्वर का है वैसे ही सेव्य सेवक, आधाराधिय, स्वामि भृत्य, राजा प्रजा और पिता पुत्र आदि भी सम्बन्ध हैं । (प्रश्न) जो पृथक् २ हैं तो—

प्रज्ञानं ब्रह्म । १ । अहं ब्रह्मास्मि । २ ।

तत्त्वमसि । ३ ।

अथमात्मा ब्रह्म ॥ ४ ॥

वेदों के श्लोक महावाक्यों का अर्थ क्या है ? (उत्तर) यह वेदवाक्य ही नहीं हैं किन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों के वचन हैं और इन का नाम महावाक्य कहीं सत्यशास्त्रों में नहीं लिखा अर्थात् (अहम्) मैं (ब्रह्म) अर्थात् ब्रह्मस्य (अस्मि) हूँ । यहाँ तात्स्थोपाधि है जैसे “मन्वाः क्रोशन्ति” मन्वान पुकारते हैं । मन्वान जड़ हैं उन में पुकारने का सामर्थ्य नहीं इस लिये मन्वस्य मनुष्य पुकारते हैं इसी प्रकार यहाँ भी जानना। कोई कहे कि—ब्रह्मस्य सब पदार्थ हैं पुनः जीव का ब्रह्मस्य कहने में क्या विशेष है ? इस का उत्तर यह है कि सब पदार्थ ब्रह्मस्य हैं परन्तु जैसा साधर्म्ययुक्त निकटस्थ जीव है वैसे अन्य नहीं और जीव को ब्रह्म का ज्ञान और मुक्ति में वह ब्रह्म के साक्षात्सम्बन्ध में रहता है इस लिये जीव का ब्रह्म के साथ तात्स्थ वा तत्त्वहचरितोपाधि अर्थात् ब्रह्म का सहचारी जीव है । इस से जीव और ब्रह्म एक नहीं जैसे कोई किसी से कहे कि मैं और यह एक हैं अर्थात् अविरोधी हैं वैसे जो जीव समाधिस्थ परमेश्वर में प्रेमबद्ध हो कर निमग्न होता है वह कह सकता है कि मैं और ब्रह्म एक अर्थात् अविरोधी एक अवकाशस्थ हूँ। जो जीव परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव करता है वही साधर्म्य से ब्रह्म के साथ एकता कह सकता है (प्रश्न) अच्छा तो इस का अर्थ कैसा करो गे ? (तत्) ब्रह्म (त्वं) तू जीव (असि) है । हे जीव! (त्वम्) तू (तत्) वह ब्रह्म (अस्मि) है (उत्तर) तुम तत् शब्द से क्या लेते हो, “ब्रह्म” ब्रह्मपद की अनुवृत्ति कहां से लाये ?

सदेव सोभ्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ।

इस पूर्व वाक्य से, तुम ने इस छान्दोग्य उपनिषद् का दर्शन भी नहीं किया जो वह देखी होती तो वहां ब्रह्म शब्द का पाठ नहीं है ऐसा भूठ क्यों कहते किन्तु छान्दोग्य में तो:—

सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् ॥

छा० प्र० ६ । खं० २ । मं० १ ॥

ऐसा पाठ है वहां ब्रह्म शब्द नहीं । (प्रश्न) तो आप तच्छब्द से क्या लेते हैं ? (उत्तर)

स य एषोपिमा ॥ ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं

स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति । छान्दो० । प्र० ६ ।

खं० ८ । मं० ६ । ७ ॥

वह परमात्मा जानने योग्य है जो यह अत्यन्त सूक्ष्म और इस सब जगत् और जीव का आत्मा है वही सत्यस्वरूप और अपना आत्मा आप ही है । हे श्वेत-केतो प्रिय पुत्र !

तदात्मकस्तदन्तर्यामी त्वमसि ॥

उस परमात्मा अन्तर्यामी से तू युक्त है यही अर्थ उपनिषदों से अविरुद्ध है क्योंकि:—

य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोन्तरोयमात्मान वेद यस्यात्मा शरीरम् । आत्मनोन्तरोयमयति स त आत्मान्तर्याम्यमृतः ।

शत० १४ । ६ । ५ । ३० ॥

यह हृद्ददारण्यक का वचन है । महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी स्त्री मैत्रेयी से कहते हैं कि हे मैत्रेयि ! जो परमेश्वर आत्मा अर्थात् जीव में स्थिर और जीवात्मा से भिन्न है जिस को सूढ़ जीवात्मा नहीं जानता कि वह परमात्मा मेरे में व्यापक है । जिस परमेश्वर का जीवात्मा शरीर अर्थात् जैसे शरीर में जीव रहता है वैसे ही जीव में परमेश्वर व्यापक है जीवात्मा से भिन्न रह कर जीव के पाप पुण्यों का साक्षी हो कर उन के फल जीवों को दे कर नियम में रखता है वही अविनाशी स्वरूप तेरा भी अन्तर्यामी आत्मा अर्थात् तेरे भीतर व्यापक है उस को तू जान । क्या कोई प्रत्यादि वचनों का अर्थ दूसरा कर सकता है ? “अयमात्मा ब्रह्म” अर्थात् समाधिदशा में जब योगी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है तब यह कहता है कि यह जो मेरे में व्यापक है वही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है इस लिये जो आलक्ष्ण्य के वेदान्ती जीव ब्रह्म की एकता करते हैं वे वेदान्त शास्त्र को नहीं जानते (प्रश्न):—

अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति।

छा० प्र० ६ । खं० ३ । मं० २ ॥

तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। तैत्तिरीय० ब्रह्मानं० अनु० ६ ॥

परमेश्वर कहता है कि मैं जगत् और शरीर को रच कर जगत् में व्यापक और जीवरूप हो के शरीर में प्रविष्ट होता हुआ नाम और रूप की व्याख्या करूँ। परमेश्वर ने उस जगत् और शरीर को बना कर उस में वही प्रविष्ट हुआ इत्यादि श्रुतियों का अर्थ दूसरा कैसे कर सकोगे ? ॥ (उत्तर) जो तुम पद पदार्थ और वाक्यार्थ जानते तो ऐसा अनर्थ कभी न करते। क्योंकि यहाँ ऐसा समझो एक प्रवेश और दूसरा अनुप्रवेश अर्थात् पश्चात् प्रवेश है परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुए जीवों के साथ अनुप्रविष्ट के समान हो कर वेदद्वारा सब नाम रूप आदि की विद्या को प्रकट करता है और शरीर में जीव को प्रवेश करा आप जीव के भीतर अनुप्रविष्ट हो रहा है जो तुम अनु शब्द का अर्थ जानते तो वैसा विपरीत अर्थ कभी न करते। (प्रश्न) :—

“सोऽयं देवदत्तो य उष्णकाले काशीं दृष्टः स ब्रह्मर्षी प्रावृट्समये मधुरायां दृश्यते” अर्थात् जो देवदत्त मैंने उष्णकाल में काशी में देखा था उसी को वर्षा-समय में मधुरा में देखता हूँ। यहाँ काशीदेश उष्णकाल को छोड़ कर शरीर-मात्र में लक्ष्य कर के देवदत्त लक्षित होता है वैसे इस भागत्यागलक्षणा से ईश्वर का परोक्ष देश काल माया उपाधि और जीव का यह देश काल अविद्या और अल्पज्ञता उपाधि छोड़ चेतनमात्र में लक्ष्य देने से एक ही ब्रह्म वस्तु दोनों में लक्षित होता है। इस भागत्यागलक्षणा अर्थात् कुच्छ ग्रहण करना और कुच्छ छोड़ देना जैसा सर्वज्ञत्वादि वाच्यार्थ ईश्वर का और अल्पज्ञत्वादि वाच्यार्थ जीव का छोड़ कर चेतनमात्र लक्ष्यार्थ का ग्रहण करने से अद्वैत सिद्ध होता है यहाँ क्या कह सकोगे ? (उत्तर) प्रथम तुम जीव और ईश्वर को नित्य मानते हो वा अनित्य ? (प्रश्न) इन दोनों को उपाधिजन्य कल्पित होने से अनित्य मानते हैं। (उत्तर) उस उपाधि को नित्य मानते हो वा अनित्य (प्रश्न) हमारे मत में :—

जीवेशौ च विशुद्धाचिद्भिदस्तु तयोर्द्वयोः ।

अविद्या तच्चित्तोर्योगः षडस्माकमनादयः ॥

कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः ।

कार्यकारणतां हित्वा पूर्णबोधोऽवशिष्यते ॥

ये संक्षेप शारीरक और शारीरकभाव्य में कारिका हैं—हम वेदान्ती छः पदार्थों अर्थात् एक जीव, दूसरा ईश्वर, तीसरा ब्रह्म, चौथा जीव और ईश्वर का विशेष भेद, पांचवां अविद्या अज्ञान, और छठा अविद्या और चेतन का योग इन को अनादि मानते हैं परन्तु एक ब्रह्म अनादि अनन्त और अन्य पांच अनादि सान्त हैं जैसा कि प्रागभाव होता है जब तक अज्ञान रहता है तब तक ये पांच रहते हैं और इन पांच की आदि विदित नहीं होती इस लिये अनादि और ज्ञान होने के पश्चात् नष्ट होजाते हैं इस लिये सान्त अर्थात् नाश वाले कहते हैं । (उचर) यह तुम्हारे तीनों श्लोक अशुद्ध हैं क्योंकि अविद्या के योग के बिना जीव और माया के योग के बिना ईश्वर तुम्हारे मत में सिद्ध नहीं हो सकता इस से "तद्वितोर्योगः" जो छठा पदार्थ तुमने गिना है वह नहीं रहा क्योंकि वह अविद्या माया जीव ईश्वर में चरितार्थ हो गया और ब्रह्म तथा माया और विद्या के योग के बिना ईश्वर नहीं बनता फिर ईश्वर को अविद्या और ब्रह्म से पृथक् गिनना व्यर्थ है इस लिये दोही पदार्थ अर्थात् ब्रह्म और अविद्या तुम्हारे मत में सिद्ध हो सकते हैं छः नहीं । तथा आप का प्रथम कार्योपाधि कारणीपाधि से जीव और ईश्वर का सिद्ध करना तब ही सकता कि जब अनन्त, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुकृत्वभाव, सर्वव्यापक ब्रह्म में अज्ञान सिद्ध करें जो उस के एक देश में स्वाश्रय और स्वविषयक अज्ञान अनादि सर्वत्र मानोगे तो सब ब्रह्म शुद्ध नहीं हो सकता । और जब एक देश में अज्ञान मानोगे तो वह परिच्छिन्न होने से ऊपर उधर आता जाता रहेगा जहां २ जायगा वहां २ का ब्रह्म अज्ञानी और जिस २ देश को छोड़ता जायगा उस २ देश का ब्रह्म ज्ञानी होता रहेगा तो किसी देश के ब्रह्म को अनादि शुद्ध ज्ञान युक्त न कह सकोगे और जो अज्ञान की सीमा में ब्रह्म है वह अज्ञान को जानेगा बाहर और भीतर के ब्रह्म के टुकड़े हो जायेंगे । जो कहो कि टुकड़ा हो जाओ ब्रह्म की क्या हानि तो अखण्ड नहीं और जो अखण्ड है तो अज्ञानी नहीं तथा ज्ञान के अभाव वा विपरीत ज्ञान भी गुण होने से किसी द्रव्य के साथ नित्य सम्बन्ध से रहेगा यदि ऐसा है तो समवाय सम्बन्ध होने से अनित्य कभी नहीं हो सकता और जैसे शरीर के एकदेश में फोड़ा होने से सर्वत्र दुःख फैल जाता है वैसे ही एकदेश में अज्ञान सुख दुःख क्लेशों की उपलब्धि होने से सब ब्रह्म दुःखादि के अनुभव से ही कार्योपाधि अर्थात् अन्तःकरण की उपाधि के योग से ब्रह्म को जीव मानोगे तो हम पूछते हैं कि ब्रह्म व्यापक है वा परिच्छिन्न ? जो कहो व्यापक और उपाधि परिच्छिन्न है अर्थात् एकदेशी और पृथक् २ हैं तो अन्तःकरण चलता फिरता है वा नहीं ? (उचर) चलता फिरता है (प्र०) अन्तःकरण के साथ ब्रह्म भी चलता फिरता है वा स्थिर रहता है ? (उचर) स्थिर रहता है ।

(प्र०) जब अन्तःकरण जिस २ देश को छोड़ता है उस २ देश का ब्रह्म अज्ञान रहित और जिस २ देश को प्राप्त होता है उस २ देश का शुद्ध ब्रह्म अज्ञानी होता ही गा वैसे क्षण में ज्ञानी और अज्ञानी ब्रह्म होता रहेगा इस से मोक्ष और बन्ध भी क्षणभङ्ग होगा और जैसे अन्य के देखे का अन्य स्मरण नहीं कर सकता वैसे कल की देखी सुनी हुई वस्तु वा बात का ज्ञान नहीं रह सकता क्योंकि जिस समय देखा सुना था वह दूसरा देश और दूसरा काल जिस समय स्मरण करता वह दूसरा देश और काल है। जो कहे कि ब्रह्म एक है तो सर्वज्ञ क्यों नहीं? जो कहे कि अन्तःकरण भिन्न २ हैं इस से वह भी भिन्न २ हो जाता होगा तो वह जड़ है उस में ज्ञान नहीं हो सकता। जो कहे कि न केवल ब्रह्म और न केवल अन्तःकरण का ज्ञान होता है किन्तु अन्तःकरणस्थ चिदाभास को ज्ञान होता है तो भी चेतन ही को अन्तःकरणद्वारा ज्ञान हुआ तो वह नेत्रद्वारा अल्प अल्पज्ञ क्यों है?। इसलिये कारणोपाधि और कार्योपाधि के योग से ब्रह्म जीव और ईश्वर नहीं बना सकोगे किन्तु ईश्वर नाम ब्रह्म का है और ब्रह्म से भिन्न अनादि, अनुत्पन्न और अमृत स्वरूप जीव का नाम जीव है। जो तुम कहे कि जीव चिदाभास का नाम है तो वह क्षणभङ्ग होने से नष्ट हो जायगा तो मोक्ष का सुख कौन भोगेगा? इस लिये ब्रह्म जीव और जीव ब्रह्म कभी न हुआ है और न हो गा। (प्रश्न) तो "सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्" कान्दोर्ग्य० अद्वैतसिद्धि कैसी होगी हमारे मत में तो ब्रह्म से पृथक् कोई सजातीय विजातीय और स्वगत अवयवों के भेद न होने से एक ब्रह्म ही सिद्ध होता है जब जीव दूसरा है तो अद्वैत-सिद्धि कैसे हो सकती है। (उत्तर) इस भ्रम में पड़ क्यों डरते हो विशेष्य-विशेषण विद्या का ज्ञान करो कि उस का क्या फल है जो कहे कि "व्यावर्त्तकं विशेषणं भवतीति" विशेषण भेदकारक होता है तो इतना और भी माने कि "प्रवर्त्तकं प्रकाशकमपि विशेषणं भवतीति" विशेषण प्रवर्त्तक और प्रकाशक भी होता है तो समझो कि अद्वैत विशेषण ब्रह्म का है इस में व्यावर्त्तक धर्म यह है कि अद्वैत वस्तु अर्थात् जो अनेक जीव और तत्त्व हैं उन से ब्रह्म को पृथक् करता है और विशेषण का प्रकाशक धर्म यह है कि ब्रह्म के एक होने की प्रवृत्ति करता है जैसे "अस्मिन्नगरद्वितीयो धनाढ्यो देवदत्तः। अस्यां सेनायामद्वितीयः शूरवीरो विक्रमसिंहः" किसी ने किसी से कहा कि इस नगरमें अद्वितीय धनाढ्य देवदत्त और इस सेना में अद्वितीय शूरवीर विक्रमसिंह है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि देवदत्त के सदृश इस नगर में दूसरा धनाढ्य और इस सेना में विक्रमसिंह के समान दूसरा शूरवीर नहीं है। न्यून तो हैं और पृथिवी आदि जड़ पदार्थ पश्यादि प्राणि और वृक्षादि भी हैं उन का निषेध नहीं हो सकता। वैसे ही ब्रह्म के सदृश जीव वा

प्रकृति नहीं हैं किन्तु न्यून तो हैं इस से यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सदा एक है और जीव तथा प्रकृतिस्व तत्त्व अनेक हैं उन से भिन्न कर ब्रह्म के एकत्व को सिद्ध करने द्वारा अद्वैत वा अद्वितीय विशेषण है इस से जीव वा प्रकृति का और कार्य-रूप जगत् का अभाव और निषेध नहीं हो सकता किन्तु ये सब हैं परन्तु ब्रह्म के तुल्य नहीं । इस से न अद्वैतसिद्धि और द्वैतसिद्धि की हानि होती है । घबराहट में मत पड़ो सोचो और समझो (प्रश्न) ब्रह्म के सत् चित् आनन्द और जीव के अस्ति भाति प्रियरूप से एकता होती है फिर क्यों खण्डन करते हो । (उत्तर) किंनित् साधर्म्य मिलने से एकता नहीं हो सकती जैसे पृथिवी जड़ दृश्य है वैसे जल और अग्नि आदि भी जड़ और दृश्य हैं इतने से एकता नहीं होती इन में वैधर्म्य भेदकारक अर्थात् विरुद्ध धर्म जैसे गन्ध, रूचता, काठिन्य आदि गुण पृथिवी और रस द्रवत्व कोमलत्वादि धर्म जल और रूप दाहकत्वादि धर्म अग्नि के होने से एकता नहीं । जैसे मनुष्य और कीड़ी आंख से देखते मुख से खाते और पग से चलते हैं तथापि मनुष्य की आकृति दो पग और कीड़ी की आकृति अनेक पग आदि भिन्न होने से एकता नहीं होती वैसे परमेश्वर के अनन्त ज्ञान, आनन्द, बल क्रिया, निर्भ्रान्तित्व और व्यापकता जीव से और जीव के अल्पज्ञान, अल्प बल, अल्प स्वरूप सब भ्रान्तित्व और परिच्छिन्नतादि गुण ब्रह्म से भिन्न होने से जीव और परमेश्वर एक नहीं क्योंकि इन का स्वरूप भी (परमेश्वर अति सूक्ष्म और जीव उस से कुछ स्थूल होने से) भिन्न है । (प्रश्न) :—

**अथोदरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं भवति द्वितीयाहै
भयं भवति ॥**

यह बृहदारण्यक का वचन है। जो ब्रह्म और जीव में थोड़ा भी भेद करता है उस को भय प्राप्त होता है क्योंकि दूसरे ही से भय होता है । (उत्तर) इस का अर्थ यह नहीं है किन्तु जो जीव परमेश्वर का निषेध वा किसी एक देश काल में परिच्छिन्न परमात्मा को माने वा उस की आज्ञा और गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध होवे अथवा किसी दूसरे मनुष्य से वैर करे उस को भय प्राप्त होता है क्योंकि द्वितीय वृद्धि अर्थात् ईश्वर से कुछ सम्बन्ध नहीं तथा किभी मनुष्य से कहे कि तुझ को मैं कुछ नहीं समझता तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता वा किसी को हानि करता और दुःख देता जाय तो उस को उन से भय होता है । और सब प्रकार का अविरोध हो तो वे एक कहते हैं जैसा संसार में कहते हैं कि देवदत्त यज्ञदत्त और विष्णुभिन्न एक हैं अर्थात् अविरोध हैं । विरोध न रहने से सुख और विरोध से दुःख प्राप्त होता है । (प्रश्न) ब्रह्म और जीव की सदा

एकता अनेकता रहती है वा कभी दोनों मिल के एक भी होते हैं वा नहीं ? (उत्तर) अभी इस के पूर्व कुछ उत्तर दे दिया है परन्तु साधर्म्य अन्वयभाव से एकता होती है जैसे आकाश से सूक्ष्म द्रव्य जड़त्व होने से और कभी पृथक् न रहने से एकता और आकाश के विभु सूक्ष्म अरूप अनन्त आदि गुण और सूक्ष्म के परिच्छिन्न दृश्यत्व आदि वैधर्म्य से भेद होता है अर्थात् जैसे पृथिव्यादि द्रव्य आकाश से भिन्न कभी नहीं रहते क्योंकि अन्वय अर्थात् अवकाश के विना सूक्ष्म द्रव्य कभी नहीं रह सकता और व्यतिरेक अर्थात् स्वरूप से भिन्न होने से पृथक्ता है वैसे ब्रह्म के व्यापक होने से जीव और पृथिवी आदि द्रव्य उस से अलग नहीं रहते और स्वरूप से एक भी नहीं होते । जैसे घर के बनाने के पूर्व भिन्न २ देश में मट्टी लकड़ी और लोहा आदि पदार्थ आकाश ही में रहते हैं जब घर बन गया तब भी आकाश में हैं और जब वह नष्ट हो गया अर्थात् उस घर के सब अवयव भिन्न २ देश में प्राप्त हो गये तब भी आकाश में हैं अर्थात् तीन काल में आकाश से भिन्न नहीं हो सकते और स्वरूप से भिन्न होने से न कभी एक थे, हैं, और होंगे, इसी प्रकार जीव तथा सब संसार के पदार्थ परमेश्वर में व्याप्य होने से परमात्मा से तीनों कालों में भिन्न और स्वरूप भिन्न होने से एक कभी नहीं होते । आज कल वेदान्तियों की दृष्टि काणि पुरुष के समान अन्वय की ओर पड़ के व्यतिरेकभाव से छूट विरुद्ध हो गई है कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है कि जिस में सगुणनिर्गुणता, अन्वय, व्यतिरेक, साधर्म्य, वैधर्म्य और विशेषणभाव न हो । (प्रश्न) भला एक घर में दो तलवार कभी रह सकती हैं । एक पदार्थ में सगुणता और निर्गुणता कैसे रह सकती हैं ? (उत्तर) जैसे जड़ के रूपादि गुण हैं और चेतन के ज्ञानादि गुण जड़ में नहीं हैं वैसे चेतन में इच्छादि गुण हैं और रूपादि जड़ के गुण नहीं हैं इस लिये “यद्गुणैस्सह वर्तमानं तत्सगुणम्” “गुणैभ्यो यन्निर्गतं” “पृथग्भूतं तन्निर्गुणम्” जो गुणों से सहित वह सगुण और जो गुणों से रहित वह निर्गुण कहाता है । अपने २ स्वाभाविक गुणों से सहित और दूसरे विरोधी के गुणों से रहित होने से सब पदार्थों में सगुणता और निर्गुणता वा केवल सगुणता हो किन्तु एक ही में सगुणता और निर्गुणता सदा रहती है वैसे ही परमेश्वर अपने अनन्त ज्ञान बलादि गुणों से सगुण और रूपादि जड़ के तथा द्वेषादि जीव के गुणों से पृथक् होने से निर्गुण कहाता है । (प्रश्न) संसार में निराकार को निर्गुण और साकार को सगुण कहते हैं अर्थात् जब परमेश्वर जन्म नहीं लेता तब निर्गुण और जब अवतार लेता है तब सगुण कहाता है ? (उत्तर) यह कल्पना केवल अज्ञानी और अविद्वानों की है जिन को विद्या नहीं होती वे पशु के समान यथा तथा बर्द्धाया करते हैं जैसे सन्निपातज्वरयुक्त मनुष्य अर्द्ध बंध

बकता है वैसे ही अविद्वानों के कहे वाक्य को व्यर्थ समझना चाहिये (प्रश्न) पर-
मेश्वर रागी है वा विरक्त ? (उत्तर) दोनों में नहीं क्योंकि राग अपने से भिन्न
उत्तम पदार्थों में होता है सो परमेश्वर से कोई पदार्थ पृथक् वा उत्तम नहीं है
इस लिये उस में राग का संभव नहीं और जो प्राप्त को छोड़ देवे उस को विरक्त
कहते हैं ईश्वर व्यापक होने से किसी पदार्थ को छोड़ ही नहीं सकता इस लिये
विरक्त भी नहीं । (प्रश्न) ईश्वर में इच्छा है वा नहीं ? (उत्तर) वैसी इच्छा नहीं
क्योंकि इच्छा भी अप्राप्त उत्तम और जिस की प्राप्ति से सुख विशेष होवे उस की
होती है तो ईश्वर में इच्छा ही सके न उस से कोई अप्राप्त पदार्थ न कोई उस
से उत्तम और पूर्ण सुखयुक्त होने से सुख की अभिलाषा भी नहीं है इस लिये
ईश्वर में इच्छा का तो संभव नहीं किन्तु ईक्षण अर्थात् सब प्रकार की विद्या का
दर्शन और सब सृष्टि का करना है वह ईक्षण है इत्यादि संक्षिप्त विषयों से ही
सज्जन लोग बहुत विस्तरण कर लेंगे ॥

यह संक्षेप से ईश्वर का विषय लिख कर वेद का विषय लिखते हैं ॥

यस्माद्दृचो अपातक्षन् यजुर्व्यस्माद्पाकषन् । सामानि
यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो सुखम् । स्कम्भन्तं ब्रूहि कतमः
स्विदेव सः । अथर्व० कां० १० । प्रपा० २३ । अनु० ४ । मं० २० ॥

जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकाशित हुए
हैं वह कौनसा देव है ? इस का (उत्तर) जो सब को उत्पन्न करके धारण कर
रहा है वह परमात्मा है ॥

स्वयम्भूर्याथात्थ्यतोऽर्थान् व्युद्धान्छाश्वतीभ्यः समा-
भ्यः ॥ यजुः० अ० ४० । मं० ८ ॥

जो स्वयम्भू, सर्वव्यापक, शुद्ध, सनातन, निराकार परमेश्वर है वह सनातन
जीवरूप प्रजा के कल्याणार्थ यथावत् रीतिपूर्वक वेदद्वारा सब विद्याओं का उप-
देश करता है । (प्रश्न) परमेश्वर जो आप निराकार मानते हो वा साकार ?
(उ०) निराकार मानते हैं । (प्र०) जब निराकार है तो वेद विद्या का उपदेश
विना सुख के वर्णोच्चारण कैसे हो सका होगा ? क्योंकि वर्णों के उच्चारण में
तालवादिस्थान, जिज्ञा का प्रयत्न अवश्य होना चाहिये । (उत्तर) परमेश्वर के
सर्वशक्तिमान् और सर्वव्यापक होने से जीवों को अपनी व्याप्ति से वेदविद्या को
उपदेश करने में कुछ भी सुखादि की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि सुख जिज्ञा से

वर्णोच्चारण अपने से भिन्न को बोध होने के लिये किया जाता है कुछ अपने लिये नहीं । क्योंकि मुख जिह्वा के व्यापार करे बिना ही मन में अनेक व्यवहारों का विचार और शब्दोच्चारण होता रहता है कानों की अंगुलियों से मूँद के देखी सुनी कि बिना मुख जिह्वा ताल्वादिस्थानों के कैसे २ शब्द हो रहे हैं, वैसे जीवों को अन्तर्यामीरूप से उपदेश किया है । किन्तु केवल दूसरे को समझाने के लिये उच्चारण करने की आवश्यकता है । जब परमेश्वर, निराकार सर्वव्यापक है तो अपनी अखिल वेदविद्या का उपदेश जीवस्थ स्वरूप से जीवात्मा में प्रकाशित कर-देता है फिर वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरे को सुनाता है इस लिये ईश्वर में यह दोष नहीं आ सकता । (प्र०) किन के आत्मा में कब वेदों का प्रकाश किया ? (उत्तर) :—

अग्नेर्ऋग्वेदो वायोर्यजुर्वेदः सूर्यात्सामवेदः ।

शत० ११ । १ । २ । ३ ॥

प्रथम सृष्टि की आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य, तथा अङ्गिरा इन ऋषियों के आत्मा में एक २ वेद का प्रकाश किया ? (प्र०) :—

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वो यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ॥

श्वेताश्व० अ० ६ । सं० १८ ॥

यह उपनिषद् का वचन है इस वचन से ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का उप-देश किया है फिर अग्न्यादि ऋषियों के आत्मा में क्यों कहा ? (उत्तर) ब्रह्मा के आत्मा में अग्नि आदि के द्वारा स्थापित कराया देखो ! मनु में क्या लिख है:—

अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् ।

दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थमुग्धजुःसामलक्षणम् ॥ मनु० १ । २३ ॥

जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि आदि चारों महर्षियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराये और उस ब्रह्मा ने अग्नि वायु आदित्य और अङ्गिरा से ऋग्यजुःसाम और अथर्व वेद का ग्रहण किया । (प्र०) उन चारों ही में वेदों का प्रकाश किया अन्य में नहीं इस से ईश्वर पक्ष-पाती होता है । (उत्तर) वे ही चार सब जीवों से अधिक पवित्रात्मा थे अन्य उन के सदृश नहीं थे इस लिये पवित्र विद्या का प्रकाश उन्हीं में किया ।

(प्र०) किसी देश भाषा में वेदों का प्रकाश न करके संस्कृत में क्यों किया? (उत्तर) जो किसी देश भाषा में प्रकाश करता तो ईश्वर पक्षपाती हो जाता क्योंकि जिस देश की भाषा में प्रकाश करता उन को सुगमता और विदेशियों को कठिनता वेदों के पढ़ने पढ़ाने की होती इस लिये संस्कृत ही में प्रकाश किया जो किसी देश की भाषा नहीं और वेदभाषा अन्य सब भाषाओं का कारण है उसी में वेदों का प्रकाश किया जैसे ईश्वर की पृथिवी आदि सृष्टि सब देश और देश वालों के लिये एक सी और सब शिल्पविद्या का कारण है वैसे परमेश्वर की विद्या की भाषा भी एकसी होनी चाहिये। कि सब देश वालों को पढ़ने पढ़ाने में तुल्य परिश्रम होने से ईश्वर पक्षपाती नहीं होता। और सब भाषाओं का कारण भी है।

(प्रश्न) वेद ईश्वरकृत हैं अन्यकृत नहीं इस में क्या प्रमाण? (उत्तर) जैसा ईश्वर पवित्र, सर्वविद्यावित्, शुद्धगुणकर्मस्वभाव, न्यायकारी, दयालु आदि गुणवाला है वैसे जिस पुस्तक में ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव, के अनुकूल कथन हो वह ईश्वरकृत अन्य नहीं और जिस में सृष्टिक्रम प्रत्यक्षादि प्रमाण आत्मों के और पवित्रात्मा के व्यवहार से विरुद्ध कथन न हो वह ईश्वरकृत। जैसा ईश्वर का निर्भ्रम ज्ञान वैसा जिस पुस्तक में भ्रान्तिरहित ज्ञान का प्रतिपादन हो वह ईश्वरकृत। जैसा परमेश्वर है वैसा और जैसा सृष्टिक्रम रक्खा है वैसा ही ईश्वर सृष्टिकार्य, कारण और जीव का प्रतिपादन जिस में होवे वह परमेश्वरकृत पुस्तक होता है और जो प्रत्यक्षादि प्रमाण विषयों से अविरुद्ध शुद्धात्मा के स्वभाव से विरुद्ध न हो इस प्रकार के वेद हैं अन्य वाइवल कुरान आदि पुस्तकें नहीं इस की स्रष्ट व्याख्या वाइवल और कुरान के प्रकरण में तेरहवें और चौदहवें समुद्भास में की जायगी। (प्रश्न) वेद की ईश्वर से होने की आवश्यकता कुछ भी नहीं क्योंकि मनुष्यलोग क्रमशः ज्ञान बढ़ाते जा कर पश्चात् पुस्तक भी बना लेंगे। (उत्तर) कभी नहीं बना सकते, क्योंकि बिना कारण के कार्योत्पत्ति का होना असम्भव है जैसे जंगली मनुष्य सृष्टि को देख कर भी विद्वान् नहीं होते और जब उन को कोई शिक्षक मिल जाय तो विद्वान् हो जाते हैं और अब भी किसी से पढ़े बिना कोई भी विद्वान् नहीं होता। इस प्रकार जो परमात्मा उन आदि सृष्टि के ऋषियों को वेदविद्या न पढ़ाता और वे अन्य को न पढ़ाते तो सब लोग अविद्वान् हो रह जाते, जैसे किसी के बालक को जन्म से एकान्त देश अविद्वानों वा पशुओं के सङ्ग में रख देवे तो वह जैसा संग है वैसा ही हो जायगा। इस का दृष्टान्त जंगली भील आदि हैं जब तक आर्यावर्त देश से शिक्षा नहीं गई थी तब तक मित्र यूनान और यूरोप देश आदिस्थ मनुष्यों में कुछ भी विद्या नहीं हुई थी और इङ्ग्लैण्ड के कुलस्वस आदि पुरप अमेरिका से जब तक नहीं गये थे तब तक

सम्बन्ध हैं वे नित्य हैं। (प्रश्न) ईश्वर ने उन ऋषियों को ज्ञान दिया होगा और उस ज्ञान से उन लोगों ने वेद बना लिये होंगे ? (उत्तर) ज्ञान ज्ञेय के बिना नहीं होता गायत्र्यादि छन्द षड्जादि और उदात्ताऽनुदात्तादि स्वर के ज्ञानपूर्वक गायत्र्यादि छन्दों के निर्माण करने में सर्वज्ञ के बिना किसी का सामर्थ्य नहीं है कि इस प्रकार का सर्वज्ञानयुक्त शास्त्र बना सके हाँ वेद को पढ़ने के पश्चात् व्याकरण निरुक्त और छन्द आदि ग्रंथ ऋषि सुनियों ने विद्याओं के प्रकाश के लिये किये हैं जो परमात्मा वेदों का प्रकाश न करे तो कोई कुछ भी न बना सके इस लिये वेद परमेश्वरोक्त हैं इन्हीं के अनुसार सब लोगों को चलना चाहिये और जो कोई किसी से पूछे कि तुम्हारा क्या मत है तो यही उत्तर देना कि हमारा मत वेद अर्थात् जो कुछ वेदों में कहा है हम उस को मानते हैं ॥ अब इस के आगे सृष्टि के विषय में लिखेंगे। यह संक्षेप से ईश्वर और वेद विषय में व्याख्यान किया है ॥ ७ ॥

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्र-

काशे सुभाषाविभूषित ईश्वरवेदविषये

सप्तमः समुच्छासः सम्पूर्णः ॥ ७ ॥

अथाष्टमसमुल्लासारम्भः ॥

अथ सृष्ट्युत्पत्तिस्थितिप्रलयविषयान् व्याख्यास्यामः ।

इयं विसृष्टिर्यत आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न ।
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अङ्ग वेद यदि वा न
वेद ॥

तम आसीत्तमसा गूढमग्रे प्रकृतं संलिलं सर्वमा इदम् ।
तुच्छयेनाभवपिहितं यदासीत्तपस्तन्महिना जायतैकम् ॥
ऋ० मं० १० । सू० १२९ । मं० । ७ । ३ ।

हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रेभूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥
ऋ० मं० १० । सू० १२९ । मं० १ ॥

पुरुष एवेद सर्वं यद्भूतं यच्च भ्रान्त्यम् । उतामृतत्वस्ये-
शानो यदन्नैनातिरोहति ॥ यजुः । अ० ३१ । मं० २ ॥

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जी-
वन्ति । यत्प्रयन्त्याभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म ॥
तैत्तिरीयोपनि० भृगुवल्ली । अनु० १ ॥

हे (अङ्ग) मनुष्य! जिस से यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है सो धारण और प्रलयकरता है जो इस जगत् का स्वामी जिस व्यापक में यह सब जगत् उत्पत्ति स्थिति प्रलय को प्राप्त होता है सो परमात्मा है उसको तू जान और दूसरेकी सृष्टि कर्ता मत मान ॥ यह सब जगत् सृष्टि के पहिले अन्यकार से आहत रात्रिरूप में जानने के अयोग्य आकाशरूप सब जगत् तथा तुच्छ अर्थात् अनन्त परमेश्वर के सन्मुख एकदेशी आच्छादित था पश्चात् परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से कारण-

रूप से कार्यरूप कर दिया ॥ हे मनुष्यो ! जो सब सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का आधार और जो यह जगत् हुआ है और होगा उस का एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत् की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था और जिस ने पृथिवी से ले के सूर्यपर्यन्त जगत् की उत्पन्न किया है उस परमात्मा देव की प्रेम से भक्ति किया करे ॥ हे मनुष्यो ! जो सब में पूर्ण पुरुष और जो नाशरहित कारण और जीव का स्वामी जो पृथिव्यादि जड़ और जीव से अतिरिक्त है वही पुरुष इस सब भूत, भविष्यत् और वर्तमानस्थ जगत् को बनाने वाला है ॥ जिस परमात्मा की रचना से ये सब पृथिव्यादि भूत उत्पन्न होते हैं जिससे जीव और जिस में प्रलय को प्राप्त होते हैं वह ब्रह्म है उस की जानने की इच्छा करो ॥

जन्माद्यस्य यतः ॥ शारीरक सू० अ० १ पा० १ । सू० २ ॥

जिस से इस जगत् का जन्म स्थिति और प्रलय होता है वही ब्रह्म जानने योग्य है । (प्रश्न) यह जगत् परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वा अन्य से ? (उत्तर) निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है परन्तु इस का उपादान कारण प्रकृति है । (प्रश्न) क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की ? (उत्तर) नहीं, वह अनादि है । (प्रश्न) अनादि किस को कहते और कितने पदार्थ अनादि हैं ? (उत्तर) ईश्वर, जीव और जगत् का कारण ये तीन अनादि हैं । (प्रश्न) इस में क्या प्रमाण है ? (उत्तर) :—

**द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते ।
तयोर्न्यः पिप्पलं स्वाहृत्यनश्नन्नन्यो अभि चाकशीति ॥
ऋ० मं० १ । सू० १६४ । मं० २० ॥**

शाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ यजुः अ० ४० । मं० ८ ॥

(द्वा) जो ब्रह्म और जीव दोनों (सुपर्णा) चेतनता और पालनादि गुणों से सहृद्य (सयुजा) व्याप्यव्यापक भाव से संयुक्त (सखाया) परस्परमित्रता युक्त समातन अनादि हैं और (समानम्) वैसा ही (वृक्षम्) अनादि मूलरूप कारण और शाखारूप कार्ययुक्त वृक्ष अर्थात् जो स्थूल हो कर प्रलय में क्षिन्न भिन्न हो जाता है वह तीसरा अनादि पदार्थ इन तीनों के गुण कर्म और स्वभाव भी अनादि हैं इन जीव और ब्रह्म में से एक जो जीव है वह इस वृक्षरूप संसार में पापपुण्यरूप फलों को (स्वाहृति) अच्छे प्रकार भोगता है और दूसरा परमात्मा कर्मों के फलों को (अनाश्रन्) न भोगता हुआ चारों ओर अर्थात् भीतर बाहर सर्वत्र

प्रकाशमान हो रहा है जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव और दोनों में प्रकृति भिन्न स्वरूप तीनों अनादि हैं ॥ (शाश्वती०) अर्थात् अनादि सनातन जीव रूप प्रजा के लिये वेदद्वारा परमात्मा ने सब विद्याओं का बोध किया है ॥

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां वह्नीः प्रजाः सृजमानां
सरूपाः । अजो ह्येको जुपमाणोऽनुशते जहात्येनां भुक्तभो
गामजोन्यः ॥ श्वेताश्वतरोपनिषदि । अ० ४ । मं० ५ ॥

प्रकृति जीव और परमात्मा तीनों अज अर्थात् जिन का जन्म कभी नहीं होता और न कभी ये जन्म लेते अर्थात् ये तीन सब जगत् के कारण हैं इन का कारण कोई नहीं इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फसता है और उस में परमात्मा न फसता और न उस का भोग करता है । ईश्वर और जीव का लक्षण ईश्वरविषय में कह आये अब प्रकृति का लक्षण लिखते हैं :—

सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतेर्महान् मह-
तोऽहङ्कारोऽहङ्कारात् पञ्चतन्मात्राप्युभयमिन्द्रियं पञ्चत-
न्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पञ्चविंशतिर्गणः ॥
साङ्ख्यसू० । अ० १ सू० ६१ ॥

(सत्व) शुद्ध (रज) मध्य (तमः) षाड्य अर्थात् जड़ता तीन बस्तु भिन्न कर जो एक संघात है उस का नाम प्रकृति है । उस से महत्त्व बुद्धि उस से अहङ्कार उस से पांच तन्मात्रा सूक्ष्म भूत और दश इन्द्रियां तथा चारहवां मन पांच तन्मात्राओं से पृथिव्यादि पांच भूत ये बीस और पच्चीसवां पुरुष अर्थात् जीव और परमेश्वर है इन में से प्रकृति अविकारिणी और महत्त्व अहङ्कार तथा पांच सूक्ष्म भूत प्रकृति का कार्य और इन्द्रियां मन तथा स्थूल भूतों का कारण है पुरुष न किसी की प्रकृति उपादान कारण और न किसी का कार्य है । (प्रश्न):—

सदेव सोम्येदमग्र आसीत् छांदो० । प्र० ६ । खं० २ ॥
असद्वा इदमग्र आसीत् ॥ तैत्तिरीयोपनि० । ब्रह्मानन्दव०
अनु० ७ ॥ आत्मैवेदमग्र आसीत् ॥ तृह० अ० १ । ब्र० ४ ॥
ब्रह्म वा इदमग्र आसीत् ॥ शत० ११ । १ । ११ । १ ॥

ये उपनिषदों के बचन हैं—हे श्वेतकेतो! यह जगत् सृष्टि के पूर्व, सत् । असत् । आत्मा । और ब्रह्मरूप था पचात् ॥

तदैक्षत बहुः स्यां प्रजायेयेति ॥ सोऽकामयत बहुः स्यां
प्रजायेयेति ॥ तैत्तिरीयोपनि० ब्रह्मानन्दवल्ली । अनु० ६ ।

यही परमात्मा अपनी ब्रह्मा से बहुरूप हो गया है ॥ १ । २ ॥

सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ।

यह भी उपनिषद् का वचन है — जो यह जगत् है वह सब निश्चय करके
ब्रह्म है उस में दूसरे नाना प्रकार के पदार्थ कुछ भी नहीं किन्तु सब ब्रह्मरूप हैं ।
(उत्तर.) क्यों इन वचनों का अनर्थ करते हो ? क्योंकि उन्हीं उपनिषदों में :-

एवमेव खलु सोम्यान्नेन शुद्धेनापो मूलमन्विच्छाद्भिस्सो-
म्य शुद्धेन तेजोमूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुद्धेन सन्मूल-
मन्विच्छ सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः
सत्प्रतिष्ठाः ॥ छान्दो० प्र० ६ । खं० ८ । मं० ४ ॥

हे खेतकेतो ! अन्नरूप पृथिवी कार्य्य से जलरूप मूल कारण को तू जान,
कार्य्य रूप जल से तेजोरूप मूल और तेजोरूप कार्य्य से सद्रूप कारण जो नित्य
प्रकृति है उस को जान, यही सत्यरूप प्रकृति सब जगत् का मूल धर और स्थिति
का स्थान है यह सब जगत् सृष्टि के पूर्व असत् के सद्रूप और जीवात्मा ब्रह्म और
प्रकृति में लीन हो कर वर्तमान था अभाव न था और जो (सर्वं खलु) यह वचन
ऐसा है जैसा कि “कहीं को इंट कहीं का रोड़ा भगमती ने कुड़वां जोड़ा”
ऐसी लीला का है क्यों कि:-

सर्वं खल्विदम् ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत ॥

छान्दो० प्र० ३ । खं० १४ ।

छान्दोग्य और :-

नेह नानास्ति किञ्चन । कठोपनि० अ० २ । वल्ली० ४ ।

मं० ११ । मं० १ ॥

यह कठबन्नी का वचन है—जैसे शरीर के अङ्ग जब तक शरीर के साथ रहते
हैं तब तक काम के और अलग होने से निकम्मे हो जाते हैं वैसे ही प्रकरणस्य
वाक्य सार्थक और प्रकरण से अलग करने वा किसी अन्य के साथ जोड़ने से
अनर्थक हो जाते हैं । सुनो ! इस का अर्थ यह है, हे जीव ! तू ब्रह्म की उपासना

कर जिस ब्रह्म से जगत् की उत्पत्ति स्थिति और जीवन होता है जिस के बनाने और धारण से यह सब जगत् विद्यमान हुआ है वा ब्रह्म से सहचरित है उस को छोड़ दूसरे की उपासना न करनी इस चेतनमान अखण्डकरस ब्रह्मरूपमें नाना वस्तुओं का मेल नहीं है किन्तु ये सब पृथक् २ स्वरूप में परमेश्वर के आधार में स्थित हैं। (प्रश्न) जगत् के कारण कितने होते हैं? (उत्तर) तीन, एक निमित्त, दूसरा उपादान, तीसरा साधारण, । निमित्तकारण उस को कहते हैं कि जिस के बनाने से कुछ बने, न बनाने से न बने आप स्वयं बने नहीं दूसरे को प्रकारान्तर बना देवे। दूसरा उपादानकारण उस को कहते हैं जिस के बिना कुछ न बने, वही अवस्थान्तररूप ही के बने और विगड़े भी। तीसरा साधारण कारण उस को कहते हैं कि जो बनाने में साधन और साधारण निमित्त हो। निमित्त कारण दो प्रकार के हैं एक सब सृष्टि को कारण से बनाने धारण और प्रलय करने तथा सब की व्यवस्था रखने वाला मुख्य निमित्त कारण परमात्मा। दूसरा परमेश्वर की सृष्टि में से पदार्थों को ले कर अनेक विध कार्यान्तर बनाने वाला साधारण निमित्त कारण जीव। उपादान कारण प्रकृति परमाणु जिसको सब संसार के बनाने की सामग्री कहते हैं वह जड़ होने से आप से आप न बन और न विगड़ सकती है किन्तु दूसरे के बनाने से बनती और विगाड़ने से विगड़ती है। कहीं २ जड़ के निमित्त से जड़ भी बन और विगड़ भी जाता है जैसे परमेश्वर के रचित बीज पृथिवी में गिरने और जल पाने से वृक्षाकार हो जाते हैं और अग्नि आदि जड़ के संयोग से विगड़ भी जाते हैं परन्तु इन का नियमपूर्वक बनना वा विगड़ना परमेश्वर और जीव के आधीन है। जब कोई वस्तु बनाई जाती है तब जिन २ साधनों से अर्थात् ज्ञान दर्शन बल हाथ और नाना प्रकार के साधन आदि साकार और आकाश साधारण कारण जैसे घड़े को बनाने वाला कुम्हार निमित्त, मट्टी उपादान और दण्डचक्र आदि सामान्य निमित्त दिशा, काल, आकाश, प्रकाश, आँख, हाथ, ज्ञान, क्रिया आदि निमित्त साधारण और निमित्तकारण भी होते हैं। इन तीन कारणों के बिना कोई भी वस्तु नहीं बन सकती और न विगड़ सकती है (प्रश्न) नवीन वेदान्ति लोग केषल परमेश्वर ही को जगत् का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं ॥

ययोर्णानाभिः सृजते शृङ्खते च ॥ मुण्डकोपनि० मुं० १ ।

खं० १ । मं० ७ ॥

यह उपनिषद् का वचन है। जैसे मकरी बाहर से कोई पदार्थ नहीं लेती अपनी ही में से तन्तु निकाल जाता बना कर आप ही उसमें खेलती है वैसे ब्रह्म

अपने में से जगत् को बना आप जगदाकार बन आप ही क्रीड़ा कर रहा है सो ब्रह्म रक्षा और कामना करता हुआ कि मैं बहुरूप अर्थात् जगदाकार ही जाऊँ सङ्कल्पमात्र से सब जगद्रूप बन गया क्योंकि ।

आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा ॥ गौडपादीय
कारिका श्लो० ३१ ।

यह माण्डूक्योपनिषद् पर कारिका है—जो प्रथम न हो अन्त में न रहे यह वर्तमान में भी नहीं है । किन्तु सृष्टि की आदि में जगत् न था ब्रह्म था प्रलय के अन्त में संसार न रहे गा तो वर्तमान में सब जगत् ब्रह्म क्यों नहीं ? (उत्तर) जो तुम्हारे कहने के अनुसार जगत् का उपादान कारण ब्रह्म होवे तो वह परिणामी अवस्थान्तरयुक्त विकारी हो जावे और उपादान कारण के गुण कर्म स्वभाव कार्य में आते हैं ।

कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो दृष्टः ॥ वैशेषिक ॥ अ० २ ।

आ० १ । सू० २४ ॥

उपादान कारण के सदृश कार्य में गुण होते हैं तो ब्रह्म सच्चिदानन्दस्वरूप जगत्कार्य रूप से असत् जड़ और आनन्द रहित ब्रह्म अज और जगत् उत्पन्न हुआ है ब्रह्म अदृश्य और जगत् दृश्य है, ब्रह्म अखंड और जगत् खंडरूप है जो ब्रह्म से पृथिव्यादि कार्य उत्पन्न होवे तो पृथिव्यादि में कार्य के जड़ादि गुण ब्रह्म में भी होवे अर्थात् जैसे पृथिव्यादि जड़ हैं वैसे ब्रह्म भी जड़ हो जाय और जैसा परमेश्वर चेतन है वैसे पृथिव्यादि कार्य भी चेतन होना चाहिये । और जो मकरी का दृष्टान्त दिया वह तुम्हारे मत का साधक नहीं किन्तु बाधक है वह जड़रूप शरीर तन्तु का उपादान और जीवात्मा मिमित्त कारण है और यह भी परमात्मा की अद्भुत रचना का प्रभाव है क्योंकि अन्य जन्तु के शरीर से जीव तन्तु नहीं निकाल सकता । वैसे ही व्यापक ब्रह्म ने अपने भीतर व्याप्य प्रकृति और परमाणु कारण से स्थूल जगत् को बना कर बाहर स्थूलरूप कर आप उसी में व्यापक हो के साची भूत आनन्दमय हो रहा है ॥ और जो परमात्मा ने इंद्रिय अर्थात् दर्शन विचार और कामना की कि मैं सब जगत् को बना कर प्रसिद्ध होऊँ अर्थात् जब जगत् उत्पन्न होता है तभी जीवों के विचार, ज्ञान, ध्यान, उपदेग, अवषण में परमेश्वर प्रसिद्ध और बहुत स्थूल पदार्थों से सह वर्तमान होता है जब प्रलय होता है तब परमेश्वर और मुक्त जीवों को छोड़ के उस को कोई नहीं

जानता । और जो वह कारिका है वह भ्रममूलक है क्योंकि प्रलय में जगत् प्रसिद्ध नहीं था और सृष्टि के अन्त अर्थात् प्रलय के अरम्भ से जब तक दूसरी बार सृष्टि न होगी तब तक भी जगत् का कारण सूक्ष्म ही कर प्रामिद्ध रहता है क्योंकि :—

तम आसीत्तमसा गूढमये ॥ ऋ० मं० १० । सू० १२९ । मं० ३ ॥

आसीद्विदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥

यह सब जगत् सृष्टि के पहिले प्रलय में अन्धकार से आवृत आच्छादित था और प्रलयारम्भ के पश्चात् भी वैसा ही होता है उस समय न किभी ने जानने न तर्क में लाने और न प्रसिद्ध चिन्हीं से युक्त इन्द्रियों से जानने योग्य था और न होगा किन्तु वर्तमान में जाना जाता है और प्रसिद्ध चिन्हीं से युक्त जानने के योग्य होता और यथावत् उपलब्ध है । पुनः उस कारिकाकार ने वर्तमान में भी जगत् का अभाव लिखा सो सर्वथा अप्रमाण है क्योंकि जिसको प्रमाता प्रमाणी से जानता और प्राप्त होता है वह अन्यथा कभी नहीं हो सकता । (प्रश्न) जगत् के बनाने में परमेश्वर का क्या प्रयोजन है ? (उत्तर) नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है ? (प्रश्न) जो न बनाता तो आनन्द में बना रहता और जीवों को भी सुख दुःख प्राप्त न होता । (उत्तर) यह बालसी और दरिद्र लोगों की बातें हैं पुरुषार्थी की नहीं और जीवों को प्रलय में क्या सुख वा दुःख है जो सृष्टि के सुख दुःख की तुलना की जाय तो सुख कई गुणा अधिक होता और बहुत से पवित्रात्मा जीव मुक्ति के साधन कर मोक्ष के आनन्द को भी प्राप्त होते हैं प्रलय में निकम्मे जैसे सुषुप्ति में पड़े रहते हैं वैसे रहते हैं—और प्रलय के पूर्व सृष्टि में जीवों के किये पाप पुण्य कर्मों का फल ईश्वर कैसे दे सकता और जीव क्यों कर भोग सकते ? जो तुम से कोई पूछे कि आँख के होने में क्या प्रयोजन है ? तुम यही कहोगे देखना । तो जो ईश्वर में जगत् की रचना करने का विज्ञान बल और क्रिया है उस का क्या प्रयोजन बिना जगत् की उत्पत्ति करने के ? दूसरा कुछ भी न कह सकेगी और परमात्मा के न्याय धारण दया आदि गुण भी तभी सार्थक हो सकते हैं जब जगत् को बनावे उस का अनन्त सामर्थ्य जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और व्यवस्था करने ही से सफल है जैसे नेत्र का स्वाभाविक गुण देखना है वैसे परमेश्वर का स्वाभाविक गुण जगत् की उत्पत्ति करके सब जीवों को प्रसंख्य पदार्थ दे कर परोपकार करना है । (प्रश्न) बीज पहिले है वा ह्य ? (उत्तर)

बीज, क्योंकि बीज हेतु, निदान, निमित्त और कारण इत्यादि शब्द एकार्थवाचक हैं कारण का नाम बीज होने से कार्य के प्रथम ही होता है । (प्रश्न) जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान् है तो वह कारण और जीव को भी उत्पन्न कर सकता है जो नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान् भी नहीं रह सकता ? (उत्तर) सर्वशक्तिमान् शब्द का अर्थ पूर्व लिख आये हैं परन्तु क्या सर्वशक्तिमान् वह कहता है कि जो असम्भव बात को भी कर सके? जो कोई असम्भव बात अर्थात् जैसा कारण के बिना कार्य को कर सकता है तो बिना कारण दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति कर और स्वयं मृत्यु को प्राप्त, जड़, दुःखी, अन्यायकारी, अपवित्र और कुकर्मी आदि हो सकता है वा नहीं? जो स्वाभाविक नियम अर्थात् जैसा अग्नि उष्ण, जल शीतल और पृथिव्यादि सब जड़ों को विपरीत गुण वाले ईश्वर भी नहीं कर सकता और ईश्वर के नियम सत्य और पूरे हैं इस लिये परिवर्तन नहीं कर सकता इस लिये सर्वशक्तिमान् का अर्थ इतना ही है कि परमात्मा बिना किसी के सहाय के अपने सब कार्य पूर्ण कर सकता है । (प्रश्न) ईश्वर साकार है वा निराकार? जो निराकार है तो बिना हाथ आदि साधनों के जगत् को न बना सकेगा और जो साकार है तो कोई दोष नहीं आता । (उत्तर) ईश्वर निराकार है, जो साकार अर्थात् शरीरयुक्त है वह ईश्वर नहीं क्योंकि वह परिमित शक्तियुक्त, देश काल वस्तुओं में परिच्छिन्न, लुधा, लषा, क्केदन, भेदन, शीतोष्ण, ज्वर, पीड़ादि सहित होवे उस में जीव के बिना ईश्वर के गुण कभी नहीं घट सकते । जैसे तुम और हम साकार अर्थात् शरीरधारी हैं इस से त्रसरेणु, अणु, परमाणु और प्रकृति को अपने वश में नहीं ला सकते हैं वैसे ही स्थूल देहधारी परमेश्वर भी उन सूक्ष्म पदार्थों से स्थूल जगत् नहीं बना सकता जो परमेश्वर भौतिक इन्द्रियगोलक हस्त पादादि अवयवों से रहित है परन्तु उस की अनन्त शक्ति बल पराक्रम हैं उन से सब काम करता है जो जीव और प्रकृति से कभी न हो सकते जब वह प्रकृति से भी सूक्ष्म और उन में व्यापक है तभी उन को पकड़ कर जगदाकार कर देता है । (प्रश्न) जैसे मनुष्यादि के मा बाप साकार हैं उन का सन्तान भी साकार होता है जो ये निराकार होते तो इन के लड़के भी निराकार होते वैसे परमेश्वर निराकार हो तो उस का बनाया जगत् भी निराकार होना चाहिये । (उत्तर) यह तुम्हारा प्रश्न लड़के के समान है क्योंकि हम अभी कह चुके हैं कि परमेश्वर जगत् का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है और जो स्थूल होता है वह प्रकृति और परमाणु जगत् का उपादान कारण है और वे सर्वथा निराकार नहीं किन्तु परमेश्वर से स्थूल और अन्य कार्य से सूक्ष्म आकार रखते हैं ! (प्रश्न) क्या कारण के बिना परमेश्वर कार्य को नहीं कर सकता ?

(उत्तर) नहीं क्योंकि जिस का अभाव अर्थात् जो वर्तमान नहीं है उस का भाव वर्तमान होना सर्वथा असम्भव है जैसे कोई गण्डोडा हांक दे कि मैंने बन्ध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह देखा, यह नरशुक्र का धनुष् और दोनों खपुष्प की माला पहिरे हुए थे सृगलपिणका के जल में स्नान करते और गन्धर्वनगर में रहते थे वहां बहल के बिना वर्षा पृथिवी के बिना सब अन्नो की उत्पत्ति आदि होती थी वैसे ही कारण के बिना कार्य का होना असंभव है जैसे कोई कहे कि "मम माता पितरौ नस्तोऽहमेवमेव जातः । मम सुखे लिङ्गा नास्ति वदामि च" । अर्थात् मेरे माता पिता न थे ऐसे ही मैं उत्पन्न हुआ हूँ मेरे सुख में जीभ नहीं है परन्तु बोलता हूँ विल में सर्प न था निकल आया मैं कहीं नहीं था ये भी कहीं न थे और हम सब जने आये हैं ऐसी असंभव बात प्रमत्त गीत अर्थात् पागल लोगों की है । (प्रश्न) जो कारण के बिना कार्य नहीं होता तो कारण का कारण कौन है ? (उत्तर) जो केवल कारणरूप ही है वे कार्य किसी के नहीं होते और जो किसी का कारण और किसी का कार्य होता है वह दूसरा कहता है जैसे पृथिवी घर आदि का कारण और जल आदि का कार्य होता है परन्तु जो आदि कारण प्रकृति है वह अनादि है ।

मूलं मूलाभावादमूलं मूलम् ॥ सांख्यद० अ० १ । सू० ६७ ॥

मूल का मूल अर्थात् कारण का कारण नहीं होता ? इस से अकारण सब कार्यों का कारण होता है क्योंकि किसी कार्य के आरम्भ समय के पूर्व तीनों कारण अवश्य होते हैं जैसे कपड़े बनाने के पूर्व तनुवाय, रुद्र का सूत और नलिका आदि पूर्व वर्तमान होने से वस्त्र बनता है वैसे जगत् की उत्पत्ति के पूर्व परमेश्वर, प्रकृति, काल और आकाश तथा जीवों के अनादि होने से इस जगत् की उत्पत्ति होती है यदि इन में से एक भी न हो तो जगत् भी न हो ।

**अत्र नास्तिका आहुः—शून्यं तत्त्वं भावो विनश्यति वस्तुध-
र्मत्वाहिनाशस्य ॥ सांख्य द० अ० १ । सू० ४४ ।**

अभावाद् भावोत्पत्तिर्नानुपमृद्य प्रादुर्भावात् ॥

ईश्वरः कारणं पुरुषकर्माफल्यदर्शनात् ॥

अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कण्टकतैक्षण्यादिदर्शनात् ॥

सर्वमनित्यमुत्पत्तिविनाशधर्मकत्वात् ॥

सर्वं नित्यं पञ्चभूतनित्यत्वात् ॥

सर्वं पृथग् भावलक्षणपृथक्त्वात् ॥

सर्वमभावो भावेष्वितरेतराभावसिद्धेः ॥ न्यायसू० ॥

अ० ४ । आ० १ ॥

यहां नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं कि शून्य ही एक पदार्थ है सृष्टि के पूर्व शून्य था अन्त्य में शून्य होगा क्योंकि जो भाव है अर्थात् वर्तमान पदार्थ है उस का अभाव ही कर शून्य हो जायगा ॥ (उत्तर) शून्य आकाश अदृश्य अवकाश और विन्दु को भी कहते हैं शून्य जड़ पदार्थ इस शून्य में सब पदार्थ अदृश्य रहते हैं जैसे एक विन्दु से रेखा, रेखाओं से वर्तुलाकार होने से भूमि पर्वतादि ईश्वर की रचना से बनते हैं और शून्य का जानने वाला शून्य नहीं होता ॥ दूसरा नास्तिक—अभाव से भाव की उत्पत्ति है जैसे बीज का मई न किये बिना अंकुर उत्पन्न नहीं होता और बीज को तोड़ कर देखें तो अंकुर का अभाव है जब प्रथम अंकुर नहीं दीखता था तो अभाव से उत्पत्ति हुई (उत्तर) जो बीज का उपमर्दन करता है वह प्रथम ही बीज में था जो न होता तो उपमर्दन कौन करता और उत्पन्न कभी नहीं होता ॥ तीसरा नास्तिक—कहता है कि कर्मों का फल पुरुष को कर्म करने से नहीं प्राप्त होता कितने ही कर्म निष्फल दीखने में आते हैं इस लिये अनुमान किया जाता है कि कर्मों का फल प्राप्त हीना ईश्वर के आधीन है जिस कर्म का फल ईश्वर देना चाहे देता है जिस कर्म का फल देना नहीं चाहता नहीं देता इस बात से कर्मफल ईश्वराधीन है । (उत्तर) जो कर्म का फल ईश्वराधीन ही तो बिना कर्म किये ईश्वर फल क्यों नहीं देता ? इस लिये जैसा कर्म मनुष्य करता है वैसा ही फल ईश्वर देता है । इस से ईश्वर स्वतन्त्र पुरुष को कर्म का फल नहीं दे सकता किन्तु जैसा कर्म जीव करता है वैसे ही फल ईश्वर देता है ॥ चौथा नास्तिक—कहता है कि बिना निमित्त के पदार्थों की उत्पत्ति होती है जैसा बबूल आदि वृक्षों के कांटे तीक्ष्ण अणि वाले देखने में आते हैं इस से विद्वित होता है कि जब २ सृष्टि का आरम्भ होता है तब २ शरीरादि पदार्थ बिना निमित्त के होते हैं । (उत्तर) जिस से पदार्थ उत्पन्न होता है वही उस का निमित्त है बिना कांटेकी वृक्ष के कांटे उत्पन्न क्यों नहीं हों ? ॥ पांचवां नास्तिक—कहता है कि सब पदार्थ उत्पत्ति और विनाश वाले हैं इस लिये सब अनित्य हैं ॥

श्लोकार्थेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः ।

ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः ॥

यह किसी ग्रन्थ का श्लोक है नवीन वेदान्ति लोग पाँचवें नास्तिक को कीटो में हैं क्योंकि वे ऐसा कहते हैं कि कौड़ी ग्रन्थों का यह सिद्धान्त है ब्रह्म सत्य जगत् मिथ्या और जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं । (उत्तर) जो सब को नित्यता नित्य है तो सब अनित्य नहीं हो सकता । (प्रश्न) सब को नित्यता भी अनित्य है जैसे अग्नि काष्ठों को नष्ट कर आप भी नष्ट हो जाता है । (उत्तर) जो यथावत् उपलब्ध होता है उस का वर्तमान में अनित्यत्व और परम सूक्ष्म कारण को अनित्य कहना कभी नहीं हो सकता जो वेदान्ति लोग ब्रह्म से जगत् की उत्पत्ति मानते हैं तो ब्रह्म के सत्य होने से उस का कार्य असत्य कभी नहीं हो सकता । जो स्वप्न रज्जु सर्पादिवत् कल्पित कहें तो भी नहीं बन सकता क्योंकि कल्पना गुण है गुण से द्रव्य नहीं और गुण द्रव्य से पृथक् नहीं रह सकता जब कल्पना का कर्ता नित्य है तो उस की कल्पना भी नित्य होनी चाहिये नहीं तो उस को भी अनित्य मानो जैसे स्वप्न विना देखे सुने कभी नहीं आता जो जागृत अर्थात् वर्तमान समय में सत्य पदार्थ हैं उन के साक्षात् सम्बन्ध से प्रत्यक्षादि ज्ञान होने पर संस्कार अर्थात् उन का वासनारूप ज्ञान आत्मा में स्थित होता है स्वप्न में उन्हें को प्रत्यक्ष देखता है जैसे सुषुप्ति होने से बाह्य पदार्थों के ज्ञान के अभाव में भी बाह्य पदार्थ विद्यमान रहते हैं जैसे प्रलय में भी कारण द्रव्यवर्तमान रहता है जो संस्कार के विना स्वप्न होवे तो जन्मान्ध को भी रूप का स्वप्न होवे इस लिये वहाँ उन का ज्ञानमात्र है और बाहर सब पदार्थ वर्तमान हैं । (प्रश्न) जैसे जागृत के पदार्थ स्वप्न और दोनों के सुषुप्ति में अनित्य हो जाते हैं वैसे जागृत के पदार्थों को भी स्वप्न के तुल्य मानना चाहिये । (उत्तर) ऐसा कभी नहीं मान सकते क्योंकि स्वप्न और सुषुप्ति में बाह्य पदार्थों का अज्ञानमात्र होता है अभाव नहीं जैसे किमी के पीछे की ओर बहुत से पदार्थ अदृष्ट रहते हैं उन का अभाव नहीं होता वैसे ही स्वप्न और सुषुप्ति की बात है । इस लिये जो पूर्व कह आये कि ब्रह्म जीव और जगत् का कारण अनादि नित्य है वही सत्य है? ॥ छःठा नास्तिक—कहता है कि पाँच भूतों के नित्य होने से सब जगत् नित्य है । (उत्तर) यह बात सत्य नहीं क्योंकि जिन पदार्थों का उत्पत्ति और विनाश का कारण देखने में आता है वे सब नित्य हीं तो सब स्थूल जगत् तथा शरीर घटपटादि पदार्थों को उत्पन्न और विनष्ट होते देखते ही हैं इस से कार्य को नित्य नहीं मान सकते ॥ सातवाँ—नास्तिक कहता है कि सब पृथक् २ हैं कोई एक पदार्थ नहीं है जिस २ पदार्थ को हम देखते हैं कि उन में दूसरा एक पदार्थ कोई भी नहीं दीवता । (उत्तर) अवयवी में अवयवी, वर्तमानकाल, आकाश, परमात्मा और जाति पृथक् पदार्थ समूहों में एक २ हैं उन से पृथक् कोई पदार्थ नहीं हो सकता इस लिये सब पृथक् पदार्थ

सर्वं पृथग् भावलक्षणपृथक्त्वात् ॥

सर्वमभावो भावेष्वितरेतराभावसिद्धेः ॥ न्यायसू० ॥

अ० ४ । आ० १ ॥

यहाँ नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं कि शून्य ही एक पदार्थ है सृष्टि के पूर्व शून्य था अनन्त में शून्य होगा क्योंकि जो भाव है अर्थात् वर्तमान पदार्थ है उस का अभाव ही कर शून्य हो जायगा ॥ (उत्तर) शून्य आकाश अदृश्य अवकाश और विन्दु को भी कहते हैं शून्य जड़ पदार्थ इस शून्य में सब पदार्थ अदृश्य रहते हैं जैसे एक विन्दु से रेखा, रेखाओं से वर्तुलाकार होने से भूमि पर्वतादि ईश्वर की रचना से बनते हैं और शून्य का जानने वाला शून्य नहीं होता ॥ दूसरा नास्तिक—अभाव से भाव की उत्पत्ति है जैसे बीज का मईन किये बिना अंकुर उत्पन्न नहीं होता और बीज को तोड़ कर देखें तो अंकुर का अभाव है जब प्रथम अंकुर नहीं दीखता था तो अभाव से उत्पत्ति हुई (उत्तर) जो बीज का उपमर्दन करता है वह प्रथम ही बीज में था जो न होता तो उपमर्दन कौन करता और उत्पन्न कभी नहीं होता ॥ तीसरा नास्तिक—कहता है कि कर्मों का फल पुरुष के कर्म करने से नहीं प्राप्त होता कितने ही कर्म निष्फल दीखने में आते हैं इस लिये अनुमान किया जाता है कि कर्मों का फल प्राप्त होगा ईश्वर के आधीन है जिस कर्म का फल ईश्वर देना चाहे देता है जिस कर्म का फल देना नहीं चाहता नहीं देता इस बात से कर्मफल ईश्वराधीन है । (उत्तर) जो कर्म का फल ईश्वराधीन ही तो बिना कर्म किये ईश्वर फल क्यों नहीं देता ? इस लिये जैसा कर्म मनुष्य करता है वैसा ही फल ईश्वर देता है । इस से ईश्वर स्वतन्त्र पुरुष को कर्म का फल नहीं दे सकता किन्तु जैसा कर्म जीव करता है वैसा ही फल ईश्वर देता है ॥ चौथा नास्तिक—कहता है कि बिना निमित्त के पदार्थों की उत्पत्ति होती है जैसा बबूल आदि वृक्षों के कांटे तीक्ष्ण अणि वाले देखने में आते हैं इस से विदित होता है कि जब २ सृष्टि का आरम्भ होता है तब २ शरीरादि पदार्थ बिना निमित्त के होते हैं । (उत्तर) जिस से पदार्थ उत्पन्न होता है वही उस का निमित्त है बिना कंटकी वृक्ष के कांटे उत्पन्न क्यों नहीं हों ? ॥ पांचवां नास्तिक—कहता है कि सब पदार्थ उत्पत्ति और विनाश वाले हैं इस लिये सब अनित्य हैं ॥

श्लोकार्थेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः ।

ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः ॥

नहीं होता और वियोग के अन्त में नहीं रहता जो तुम इस को न मानो तो कठिनसे कठिन पाषाण हीरा और पीलाद आदि तोड़ टूकड़े कर गला वा भस्म कर देखो कि इन में परमाणु पृथक् २ मिले हैं ? वा नहीं जो मिले हैं तो वे समय पाकर अलग २ भी अवश्य होते हैं ॥ (प्रश्न) अनादि ईश्वर कोई नहीं किन्तु जो योगाभ्यास से अणिमादि ऐश्वर्य्य को प्राप्त हो कर सर्वज्ञादि गुण युक्त केवल ज्ञानी होता है वही जीव परमेश्वर कहाता है । (उत्तर) जो अनादि ईश्वर जगत् का स्रष्टा न हो तो साधनों से सिद्ध होने वाले जीवों का आधार जीवनरूप जगत् शरीर और इन्द्रियों के गोलक कैसे बनते इन के बिना जीव साधन नहीं कर सकता जब साधन न होते तो सिद्ध कहां से होता ? जीव चाहे जैसा साधन कर सिद्ध होवे तो भी ईश्वर की जो स्वयं सनातन अनादि सिद्धि है जिस में अनन्त सिद्धि हैं उस के तुल्य कोई भी जीव नहीं हो सकता क्योंकि जीव का परम अवधि तक ज्ञान बढ़े तो भी परिमित ज्ञान और सामर्थ्य वाला होता है अनन्त ज्ञान और सामर्थ्य वाला कभी नहीं हो सकता देखो कोई भी आजतक ईश्वरकृत स्रष्टिक्रम को बदलने हारा नहीं हुआ है और न होगा जैसा अनादि सिद्ध परमेश्वर ने नेत्र से देखने और कानों से सुनने का निबन्ध किया है इस को कोई भी योगी बदल नहीं सकता जीव ईश्वर कभी नहीं हो सकता (प्र०) कल्प कल्पान्तर में ईश्वर स्रष्टि विलक्षण २ बनाता है अथवा एक ही ? (उत्तर) जैसी कि अब है वैसी पहिले थी और आगे होगी भेद नहीं करता ? :-

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् । दिवं च पृथिवीं
चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ ऋ० ॥ मं० १० । सू० १९० । मं० ३ ॥

(धाता) परमेश्वर जैसे पूर्व कल्प में सूर्य, चन्द्र, विद्युत्, पृथिवी, अन्तरिक्ष आदि को बनाता हुआ वैसे ही उस ने अब बनाये हैं और आगे भी वैसे ही बनावे गा ॥ इस लिये परमेश्वर के काम बिना भूल जूक के होने से सदा एक से ही हुआ करते हैं जो अल्पज्ञ और जिस का ज्ञान वृद्धि क्षय को प्राप्त होता है उसी के काम में भूल जूक होती है ईश्वर के काम में नहीं । (प्रश्न) स्रष्टि विषय में वेदादि शास्त्रों का अविरोध है वा विरोध ? (उत्तर) अविरोध है । जो अविरोध है तो :-

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः । आकाशा-
द्वायुः । वायोरग्निः । अग्नेरापः । अद्भ्यः पृथिवी । पृथिव्या-

नहीं किन्तु स्वरूप से पृथक् २ हैं और पृथक् २ पदार्थों में एक पदार्थ भी है ॥ आठवां नास्तिक—कहता है कि सब पदार्थों में इतरतर अभाव की सिद्धि होने से सब अभावरूप हैं जैसे “अनश्वो गौः । अगीरश्वः” गाय घोड़ा नहीं और घोड़ा गाय नहीं इस लिये सब को अभावरूप मानना चाहिये । (उत्तर) सब पदार्थों में इतरतराभाव का योग हो परन्तु “गवि गौ रश्वेऽश्वो भावरूपो वर्तत एव” गाय में गाय और घोड़े में घोड़े का भाव ही है अभाव कभी नहीं हो सकता जो पदार्थों का भाव न हो तो इतरतराभाव भी किस में कहा जावे ? ॥ नववां नास्तिक—कहता है कि स्वभाव से जगत् की उत्पत्ति होती है जैसे पानी, अन्न एकत्र हो सड़ने से कृमि उत्पन्न होते हैं और बीज पृथिवी जल के मिलने से घास हल्हादि और पाषाणादि उत्पन्न होते हैं जैसे समुद्र वायु के योग से तरंग और तरङ्गों से समुद्रफेन हल्दी चूना और नीवू के रस मिलाने से रोरी बन जाती है वैसे सब जगत् तत्वों के स्वभाव गुणों से उत्पन्न हुआ है इस का बनाने वाला कोई भी नहीं (उत्तर) जो स्वभाव से जगत् की उत्पत्ति होवे तो विनाश कभी न होवे और जो विनाश भी स्वभाव से मानो तो उत्पत्ति न होगी और जो दोनों स्वभाव युगपत् द्रव्यों में मानो गे तो उत्पत्ति और विनाश की व्यवस्था कभी न हो सकेगी और जो निमित्त के होने से उत्पत्ति और नाश मानो गे तो निमित्त उत्पन्न और विनष्ट होने वाले द्रव्यों से पृथक् मानना पड़ेगा जो स्वभाव ही से उत्पत्ति और विनाश होता तो समय ही में उत्पत्ति और विनाश का होना संभव नहीं जो स्वभाव से उत्पन्न होता हो तो इस भूगोल के निकट में दूसरा भूगोल चंद्र सूर्य आदि उत्पन्न क्यों नहीं होते ? और जिस २ के योग से जो २ उत्पन्न होता है वह २ ईश्वर के उत्पन्न किये हुए बीज, अन्न, जलादि के संयोग से घास, हल्हा और कृमि आदि उत्पन्न होते हैं विना उन के नहीं जैसे हल्दी चूना और नीवू का रस दूर २ देश से आकर आप नहीं मिलते किसी के मिलाने से मिलते हैं उस में भी यथायोग्य मिलाने से रोरी होती है अधिक न्यून वा अन्यथा करने से रोरी नहीं होती वैसे ही प्रकृति परमाणुओं को ज्ञान और युक्ति से परमेश्वर के मिलावे विना जड़ पदार्थ स्वयं कुछ भी कार्यसिद्धि के लिये विशेष पदार्थ नहीं बन सकते इस लिये स्वभावादि से सृष्टि नहीं होती किन्तु परमेश्वर की रचना से होती है ॥ (प्रश्न) इस जगत् का कर्ता न था न है और न होगा किन्तु अनादि काल से यह जैसा का वैसा बना है न कभी इस की उत्पत्ति हुई न कभी विनाश होगा । (उत्तर) विना कर्ता के कोई भी क्रिया वा क्रियाजन्य पदार्थ नहीं बन सकता निज पृथिवी आदि पदार्थों में संयोगविशेष से रचना दीखती है वे अनादि कभी नहीं हो सकते और जो संयोग से बनता है वह संयोग के पूर्व

ने कहा सूप, तीसरे ने कहा मूसल, चौथे ने कहा भाङ्ग, पांचवें ने कहा चौतरा और छठे ने कहा काला २ चार खंभों के ऊपर कुछ भैंसों सा आकार वाला है इसी प्रकार आज कल के अनार्य नवीन ग्रंथों के पढ़ने और प्राकृत भाव वालों ने ऋषिप्रणीत ग्रंथ न पढ़ कर नवीन लुद्रबुद्धिकल्पित संस्कृत और भाषाओं के ग्रंथ पढ़ कर एक दूसरे की निन्दा में तत्पर हो के छूठा भगड़ा मचाया है इन का कथम बुद्धिमानों के वा अन्य के मानने योग्य नहीं । क्योंकि जो ग्रन्थों के पीछे ग्रन्थ चले तो दुःख क्यों न पावे ? जैसे ही आज कल के अल्पविद्यायुक्त, स्वार्थी, इन्द्रियाराम, पुरुषों की लीला संसार का नाश करने वाली है (प्रश्न) जब कारण के बिना कार्य नहीं होता तो कारण का कारण क्यों नहीं ? (उत्तर) अरे भोले भाइयो ! कुछ अपनी बुद्धि को काम में क्यों नहीं लाते ? देखा संसार में दोही पदार्थ होते हैं, एक कारण दूसरा कार्य जो कारण है वह कार्य नहीं और जिस समय कार्य है वह कारण नहीं जब तक मनुष्य सृष्टि को यथावत् नहीं समझता तब तक उस को यथावत् ज्ञान प्राप्त नहीं होता :-

नित्यायाः सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्थायाः प्रकृतेरुत्प-
न्नानां परमसूक्ष्माणां पृथक् पृथग्वर्त्तमानां तत्त्वपरमाणूनां
प्रथमःसंयोगारम्भः संयोगविशेषादवस्थान्तरस्य स्थूलाकार-
प्राप्तिः सृष्टिरुच्यते ।

अनादि नित्य स्वरूप सत्व, रजस् और तमोगुणों की एकावस्धारूप प्रकृति से उत्पन्न जो परम सूक्ष्म पृथक् २ तत्त्वावयव विद्यमान हैं उन्हीं का प्रथम ही जो संयोग का आरम्भ है संयोग विशेषों से अवस्थान्तर दूसरी २ अवस्था को सूक्ष्म स्थूल २ बनते बनाते विचित्ररूप बनी है इसी से यह संसर्ग होने से सृष्टि कहती है । भला जो प्रथम संयोग में मिलने और मिलाने वाला पदार्थ है जो संयोग का आदि और वियोग का अन्त अर्थात् जिस का विभाग नहीं हो सकता उस को कारण और जो संयोग के पीछे बनता और वियोग के पश्चात् वैसा नहीं रहता वह कार्य कहता है जो उस कारण का कारण, कार्य का कार्य, कर्ता का कर्ता, साधन का साधन, और साध्य का साध्य, कहता है वह देखता श्रधा, सुनता बहिरा और जानता हुआ मूढ़ है । क्या आंख की आंख, टीपक का टीपक, और सूर्य का सूर्य, कभी हो सकता है ? जो जिस से उत्पन्न होता है वह कारण और जो उत्पन्न होता है वह कार्य और जो कारण को कार्यरूप बनाने दारा है वह कर्ता कहता है ।

ओषधयः।ओषधिभ्योऽन्नम् । अन्नाद्रेतः । रेतसः पुरुषः । स वा
एष पुरुषोऽन्नरसमयः ॥ तैत्तिरीयोपनि० बृह्मनन्दव० अनु०१।

उस परमेश्वर और प्रकृति से आकाश अवकाश अर्थात् जो काण्णरूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा था उस को इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्न सा होता है वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहां टहर सकें आकाश के पश्चात् वायु, वायु के पश्चात् अग्नि, अग्नि के पश्चात् जल, जल के पश्चात् पृथिवी, पृथिवी से ओषधि, ओषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष अर्थात् शरीर उत्पन्न होता है, यहां आकाशादि क्रम से और कांदोग्य में अग्न्यादि, ऐतरेय में जलादि क्रम से सृष्टि हुई वेदों में कहीं पुरुष कहीं हिरण्यगर्भ आदि से, मीमांसा में कर्म, वैशेषिक में काल, न्याय में परमाणु, योग में पुरुषार्थ, सांख्य में प्रकृति और वेदान्त में ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानी है अब किस को सच्चा और किस को झूठा मानें ? (उत्तर) इस में सब सच्चे कोई झूठा नहीं वह झूठा है जो विपरीत समझता है, क्योंकि परमेश्वर निमित्त और प्रकृति जगत् का उपादान कारण है जब महाप्रलय होता है उस के पश्चात् आकाशादि क्रम अर्थात् जब आकाश और वायु का प्रलय नहीं होता और अग्न्यादि का होता है अग्न्यादि क्रम से और जब विद्युत् अग्नि का भी नाश नहीं होता तब जल क्रम से सृष्टि होती है अर्थात् जिस २ प्रलय में जहां २ तक प्रलय होता है वहां २ से सृष्टि की उत्पत्ति होती है पुरुष और हिरण्यगर्भादि प्रथमसमुत्पास में लिख भी आये हैं वे सब नाम परमेश्वर के हैं परन्तु विरोध उस को कहते हैं कि एक कार्य में एक ही विषय पर विरुद्ध वाद होवे कः शास्त्रों में अविरोध देखो इस प्रकार है । मीमांसा में "ऐसा कोई भी कार्य जगत् में नहीं होता कि जिस के बनाने में कर्म चेष्टा न की जाय" वैशेषिक में "समय न लगे बिना बने ही नहीं" न्याय में "उपादान कारण न होने से कुछ भी नहीं बन सकता" योग में "विद्या, ज्ञान, विचार न किया जाय" तो नहीं बन सकता, सांख्य में "तत्त्वों का मेल न होने से नहीं बन सकता" और वेदान्त में "बनाने वाला न बनावे तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न न हो सके" इस लिये सृष्टि कः कारणों से बनती है उन कः कारणों की व्याख्या एक २ की एक २ शास्त्र में है इस लिये उन में विरोध कुछ भी नहीं जैसे कः पुरुष मिल के एक छप्पर उठा कर भित्तियों पर धरें वैसा ही सृष्टिरूप कार्य की व्याख्या कः शास्त्रकारों ने मिल कर पूरी की है जैसे पांच अंधे और एक मन्ददृष्टि को किसी ने हाथी का एक २ देश बतलाया उन से पूछा कि हाथी कैसा है उन में से एक ने कहा खंभे, दूसरे

ने कहा रूप, तीसरे ने कहा मूसल, चौथे ने कहा भाङ्ग, पांचवें ने कहा चीतरा और छठे ने कहा काला २ चार खंभों के ऊपर कुछ भैंसा सा आकार वाला है इसी प्रकार आज कल के अनार्य नवीन ग्रंथों के पढ़ने और प्राकृत भाव वालों ने ऋषिप्रणीत ग्रंथ न पढ़ कर नवीन लुद्रबुद्धिकल्पित संस्कृत और भाषाओं के ग्रंथ पढ़ कर एक दूसरे की निन्दा में तत्पर हो के छूठा भागड़ा मचाया है इन का कथम बुद्धिमानों के वा अन्य के मानने योग्य नहीं । क्योंकि जो अन्धों के पीछे अन्धे चलें तो दुःख क्यों न पावें ? वैसे ही आज कल के अल्पविद्यायुक्त, स्वार्थी, इन्द्रियाराम, पुरुषों की लीला संसार का नाश करने वाली है (प्रश्न) जब कारण के बिना कार्य नहीं होता तो कारण का कारण क्यों नहीं ? (उत्तर) अरे भोले भाइयो ! कुछ अपनी बुद्धि को काम में क्यों नहीं लाते ? देखो संसार में दोही पदार्थ होते हैं, एक कारण दूसरा कार्य जो कारण है वह कार्य नहीं और जिस समय कार्य है वह कारण नहीं जब तक मनुष्य सृष्टि को यथावत् नहीं समझता तब तक उस को यथावत् ज्ञान प्राप्त नहीं होता :-

नित्याद्याः सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्थायाः प्रकृतेरुत्प-
न्नानां परमसूक्ष्माणां पृथक् पृथग्वर्तमानां तत्त्वपरमाणूनां
प्रथमःसंयोगारम्भः संयोगविशेषादवस्थान्तरस्य स्थूलाकार-
प्राप्तिः सृष्टिरुच्यते ।

अनादि नित्य स्वरूप सत्त्व, रजस् और तमोगुणों की एकावस्थारूप प्रकृति से उत्पन्न जो परम सूक्ष्म पृथक् २ तत्त्वावयव विद्यमान हैं उन्हीं का प्रथम ही जो संयोग का आरम्भ है संयोग विशेषों से अवस्थान्तर दूसरी २ अवस्था को सूक्ष्म स्थूल २ बनते बनाते विचित्ररूप बनी है इसी से यह संसर्ग होने से सृष्टि कहाती है । भला जो प्रथम संयोग में मिलने और मिलाने वाला पदार्थ है जो संयोग का आदि और वियोग का अन्त अर्थात् जिस का विभाग नहीं हो सकता उसको कारण और जो संयोग के पीछे बनता और वियोग के पश्चात् वैसा नहीं रहता वह कार्य कहाता है जो उस कारण का कारण, कार्य का कार्य, कर्ता का कर्ता, साधन का साधन, और साध्य का साध्य, कहता है वह देखता अंधा, सुनता बहिरा और जानता हुआ मूढ़ है । क्या आंख की आंख, दीपक का दीपक, और सूर्य का सूर्य, कभी हो सकता है ? जो जिस से उत्पन्न होता है वह कारण और जो उत्पन्न होता है वह कार्य और जो कारण को कार्यरूप बनाने हारा है वह कर्ता कहाता है ।

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।

उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥

भगवद्गी० अ० २ । १६ ॥

कभी असत् का भाव वर्त्तमान और सत् का अभाव अवर्त्तमान नहीं होता इन दोनों का निर्णय तत्वदर्शी लोगों ने जाना है अन्य पक्षपाती आग्रही मलीनात्मा अविद्वान् लोग इस बात को सहज में कैसे जान सकते हैं ? क्योंकि जो मनुष्य विद्वान् सत्संगी हो कर पूरा विचार नहीं करता वह सदा भ्रमणाल में पड़ा रहता है । धन्य ! वे पुरुष हैं कि सब विद्याओं के सिद्धान्तों को जानते हैं और जानने के लिये परिश्रम करते हैं जान कर औरों को निष्कपटता से जानते हैं इस से जो कोई कारण के बिना सृष्टि मानता है वह कुछ भी नहीं जानता जब सृष्टि का समय आता है तब परमात्मा उन परम सूक्ष्म पदार्थों को एकट्ठा करता है उस की प्रथम अवस्था में जो परम सूक्ष्म प्रकृतिरूप कारण से कुछ स्थूल होता है उस का नाम महत्त्व और जो उस से कुछ स्थूल होता है उस का नाम अहंकार और अहंकार से भिन्न २ पांच सूक्ष्मभूत ओन्न, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घ्राण, पांच ज्ञान इन्द्रियां, वाक्, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, ये पांच कर्म इन्द्रिय हैं और ग्यारहवां मन कुछ स्थूल उत्पन्न होता है और उन पञ्चतन्मात्राओं से अनेक स्थूलवस्थाओं को प्राप्त होते हुए क्रम से पांच स्थूल भूत जिन को हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं उत्पन्न होते हैं उन से नाना प्रकार की ओषधियां वृक्ष आदि उन से अन्न, अन्न से वीर्य और वीर्य से शरीर होता है परन्तु आदि सृष्टि मैथुनी नहीं होती क्योंकि जब स्त्री पुरुषों के शरीर परमात्मा बना कर उन में जीवों का संयोग कर देता है तदनन्तर मैथुनी सृष्टि चलती है । देखा ! शरीर में किस प्रकार की ज्ञानपूर्वक सृष्टि रची है कि जिस को विद्वान् लोग देख कर आश्चर्य मानते हैं । भीतर हाडों का जोड़, नाड़ियों का बन्धन, मांस का लेपन, चमड़ी का ढक्कन, झीहा, यकृत, फेफड़ा, पंखा कला का स्थापन; जीव का संयोजन, शिरोरूप मूलरचन, लोम, नखादि का स्थापन, आंख की अतीव सूक्ष्म गिरा का तारवत् अन्धन, इन्द्रियों के मार्गों का प्रकाशन, जीव के जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, अवस्था के भोगने के लिये स्थान विशेषों का निर्माण, सब धातु का विभाग करण, कला, कौशल स्थापनादि अद्भुत सृष्टि को बिना परमेश्वर के कौन कर सकता है ? इस के बिना नाना प्रकार के रत्न धातु से जड़ित भूमि, विविध प्रकार वट वृक्ष आदि के जीवों में अतिसूक्ष्म रचना, असंख्य हरित, श्वेत, पीत, कृष्ण, चित्र मध्यरूपों से युक्त पत्र, पुष्प, फल, मूल निर्माण, मिष्ट, चार, कटुक, कषाय, तिक्त अन्नादि

विविध रस सुगन्धादि युक्त पत्र, पुष्प, फल, अन्न, कन्दमूलादि रचन, अनेकानेक कोड़ीं भूगोल सूर्यचन्द्रादि लोक निर्माण, धारण, भ्रामण, नियमों में रखना आदि परमेश्वर के बिना कोई भी नहीं कर सकता। जब कोई किसी पदार्थ को देखता है तो दो प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है एक जैसा वह पदार्थ है और दूसरा उस में रचना देख कर बनाने वाले का ज्ञान है जैसा किसी पुरुष ने सुन्दर आभूषण जङ्गल में पाया देखा तो विदित हुआ कि यह सुवर्ण का है और किसी बुद्धिमान् कारीगर ने बनाया है इसी प्रकार यह नाना प्रकार सृष्टि में विविध-रचना बनाने वाले परमेश्वर को सिद्ध करती है। (प्रश्न) मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई वा पृथिवी आदि की? (उत्तर) पृथिवी आदि की, क्योंकि पृथिव्यादि के बिना मनुष्य की स्थिति और पालन नहीं हो सकता (प्रश्न) सृष्टि की आदि में एक वा अनेक मनुष्य उत्पन्न किये थे वा क्या? (उत्तर) अनेक, क्योंकि लिन जीवों के कर्म ऐश्वरीय सृष्टि में उत्पन्न होने के थे उन का जन्म सृष्टि की आदि में ईश्वर देता क्योंकि "मनुष्या ऋषयश्च ये। ततो मनुष्या अजायन्त" यह यजुर्वेद में लिखा है इस प्रमाण से यही निश्चय है कि आदि में अनेक अर्थात् सैकड़ों सहस्रों मनुष्य उत्पन्न हुए और सृष्टि में देखने से भी निश्चित होता है कि मनुष्य अनेक मात्रा के सन्तान हैं। (प्रश्न) आदि सृष्टि में मनुष्य आदि की बाल्या युवा वा वृद्धावस्था में सृष्टि हुई थी अथवा तीनों में? (उत्तर) युवावस्था में, क्योंकि जो बालक उत्पन्न करता तो उन के पालन के लिये दूसरे मनुष्य आवश्यक होते और जो वृद्धावस्था में बनाता तो मैथुनी सृष्टि न होती इस लिये युवावस्था में सृष्टि की है। (प्रश्न) कभी सृष्टि का प्रारम्भ है वा नहीं? (उत्तर) नहीं, जैसे दिन के पूर्व रात और रात के पूर्व दिन तथा दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन बराबर चला आता है इसी प्रकार सृष्टि के पूर्व प्रलय और प्रलय के पूर्व सृष्टि तथा सृष्टि के पीछे प्रलय और प्रलय के आगे सृष्टि अनादि काल से चका चला आता है इस की आदि वा अन्त नहीं किन्तु जैसे दिन वा रात का आरम्भ और अन्त देखने में आता है उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का आदि अन्त होता रहता है क्योंकि जैसे परमात्मा, जीव, जगत् का कारण तीन स्वरूप से अनादि हैं वैसे जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और वर्तमान प्रवाह से अनादि हैं जैसे नदी का प्रवाह वैसा ही दीखता है कभी सूख जाता कभी नहीं दीखता फिर बरसात में दीखना और वर्षा काल में नहीं दीखता ऐसे व्यवहारों को प्रवाहरूप जानना चाहिये जैसे परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनादि हैं वैसे ही उस के जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करना भी अनादि हैं जैसे कभी ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का आरम्भ और अन्त नहीं इसी प्रकार उस के कर्तव्य कर्मों का भी आरम्भ और अन्त नहीं। (प्रश्न)

म्लेच्छदेशस्त्वतः परः ॥ २ ॥ मनु० २। २३ ॥

जो आर्यावर्त देश से भिन्न देश हैं वे दस्यु देश और म्लेच्छ देश कहते हैं इस से भी यह सिद्ध होता है कि आर्यावर्त से भिन्न पूर्व देश से लेकर ईशान, उत्तर, वायव्य और पश्चिम देशों में रहने वालों का नाम दस्यु और म्लेच्छ तथा असुर है और नैर्ऋत्य, दक्षिण तथा आग्नेय दिशाओं में आर्यावर्त देश से भिन्न में रहने वाले मनुष्यों का नाम राक्षस है। अब भी देख लो हवशी लोगों का स्वरूप भयंकर जैसा राक्षसों का वर्णन किया है वैसा ही देख पड़ता है और आर्यावर्त की सूक्ष्म पर नीचे रहने वालों का नाम नाग और उस देश का नाम पाताल इस लिये कहते हैं कि वह देश आर्यावर्तीय मनुष्यों के पाद अर्थात् पग के तले है और उन के नागवंशी अर्थात् नाग नाम वाले पुरुष के वंश के राजा होते थे उसी की उल्लोपी राजकन्या से अर्जुन का विवाह हुआ था अर्थात् इक्ष्वाकु से लेकर कीरव पांडव तक सर्व भूगोल में आर्यों का राज्य और वेदों का धोड़ा २ प्रचार आर्यावर्त से भिन्न देशों में भी रहा तथा इस में यह प्रमाण है कि ब्रह्मा का पुत्र विराट्, विराट् का मनु, मनु के मरीच्यादि दश इन के स्वयंभवादि सात राजा और उन के सन्तान इक्ष्वाकु आदि राजा जो आर्यावर्त के प्रथम राजा हुए जिन्होंने यह आर्यावर्त वसाया है। अब अभाग्योदय से और आर्यों के आलस्य, प्रमाद, परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही क्या कहनी किन्तु आर्यावर्त में भी आर्यों का अखंड, स्वतन्त्र स्वाधीन, निर्भय, राज्य इस समय नहीं है जो कुछ है सो भी विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहा है कुछ थोड़े राजा स्वतन्त्र हैं दुर्दिन जब आता है तब देशवासियों को अनेक प्रकार का दुःख भागना पड़ता है कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है अथवा मतमतान्तर के आग्रहरहित और पराये का पक्षपात शून्य प्रजा पर पिता माता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है। परन्तु भिन्न २ भाषा पृथक् २ शिखा अलग व्यवहार का विरोध कूटना अतिदुष्कर है विना इस के कूटे परस्पर का पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है इस लिये जो कुछ वेदादि शास्त्रों में व्यवस्था वा प्रतिहास लिखे हैं उसी का मान्य करना भद्र पुरुषों का काम है। (प्रश्न) जगत् की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ ? (उत्तर) एक अर्ब, छानवे क्रीड़, कई लाख और कई सहस्र वर्ष जगत् की उत्पत्ति और वेदों के प्रकाश होने में हुए हैं इस का स्पष्ट व्याख्यान मेरी वनाईभूमिका * में लिखा है

देख लीजिये इत्यादि प्रकार सृष्टि के बनाने और बनने में हैं और यह भी है कि सब से सूक्ष्म टुकड़ा अर्थात् जो काटा नहीं जाता उस का नाम परमाणु, साठ परमाणुओं के मिले हुए का नाम अणु, दो अणु का एक द्व्यणुक जो स्थूल वायु है तीन द्व्यणुक का अग्नि, चार द्व्यणुक का जल, पाँच द्व्यणुक की पृथिवी अर्थात् तीन द्व्यणुक का तसरेणु और उस का दूना होने से पृथिवी आदि दृश्य पदार्थ होते हैं इसी प्रकार क्रम से मिल कर भूगोलादि परमात्मा ने बनाये हैं । (प्रश्न) इस का धारण कौन करता है कोई कहता है? शेष अर्थात् सहस्र फण वाले सर्प के शिर पर पृथिवी है दूसरा कहता है कि बैल के सींग पर, तीसरा कहता है किसी पर नहीं, चौथा कहता है कि वायु के आधार, पाँचवां कहता है सूर्य के आकर्षण से खँची हुई अपने ठिकाने पर स्थित, छःटा कहता है कि पृथिवी भारी होने से नीचे २ आकाश में चली जाती है इत्यादि में किस बात को सत्य मानें? (उत्तर) जो शेष सर्प और बैल के सींग पर धरी हुई पृथिवी स्थित बतनाता है उस को पूछना चाहिये कि सर्प और बैल के मा बाप के जन्म समय किस पर थी तथा सर्प और बैल आदि किस पर हैं बैल वाले मुसलमान तो चुप ही कर जायेंगे परन्तु सर्प वाले कहेंगे कि सर्प कूर्म पर, कूर्म जल पर, जल अग्नि पर, अग्नि वायु पर और वायु आकाश में ठहरा है । उन से पूछना चाहिये कि सब किस पर हैं ? तो अवश्य कहेंगे परमेश्वर पर जब उन से कोई पूछे गा कि शेष और बैल किस का वच्चा है ? कहेंगे कश्यप कद्र और बैल गाय का । कश्यप मरीची, मरीची मनु का, मनु विराट का और विराट ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मा आदि सृष्टि का था । जब शेष का जन्म न हुआ था उस के पहिले पाँच पीढ़ि ही चुकी हैं तब किस ने धारण की थी ? अर्थात् कश्यप के जन्म समय में पृथिवी किस पर थी तो "तेरी चुप मेरी भी चुप" और लड़ने लग जायेंगे इस का सच्चा अभिप्राय यह है कि जो "वाकी" रहता है उस को शेष कहते हैं सो किसी कवि ने "शेषाधारा पृथिवीत्युक्तम्" ऐसा कहा कि शेष के आधार पृथिवी है । दूसरे ने उस के अभिप्राय को न समझ कर सर्प की मिथ्या कल्पना कर ली परन्तु जिस लिये परमेश्वर उत्पत्ति और प्रलय से वाकी अर्थात् पृथक् रहता है इसी से उस को "शेष" कहते हैं और उसी के आधार पृथिवी है :-

सत्येनोत्तमिता भूमिः ॥ अथर्व० कां० १ शिव० १।मं० १॥

(सत्य) अर्थात् जो त्रैकाव्यावाध्य जिसका कभी नाश नहीं होता उस पर-
मेश्वर ने भूमि आदित्य और सब लोकों का धारण किया है ॥

उक्ता दाधार पृथिवीमुत द्याम् ॥

यह भी ऋग्वेद का वचन है इसी (उच्चा) शब्द को देख कर किसी ने बैल का ग्रहण किया होगा क्योंकि उच्चा बैल का भी नाम है परन्तु उस मूढ़ को यह विदित न हुआ कि इतने बड़े भूगोल के धारण करने का सामर्थ्य बैल में कहां से आवेगा ? इस लिये उच्चा वर्षा द्वारा भूगोल के सेचन करने से सूर्य का नाम है उसने अपने आकर्षण से पृथिवी की धारण किया है परन्तु सूर्यादि का धारण करने वाला बिना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं है । (प्रश्न) इतने २ बड़े भूगोलों को परमेश्वर कैसे धारण कर सकता होगा ? (उत्तर) जैसे अनन्त आकाश के सामने बड़े २ भूगोल कुछ भी अर्थात् समुद्र के प्रागे जलके छोटे कण के तुल्य भी नहीं हैं वैसे अनन्त परमेश्वर के सामने असंख्यात लोक एक परमाणु के तुल्य भी नहीं कह सकते । वह बाहर भीतर सर्वत्र व्यापक अर्थात् "विभुः-प्रजासु" यह यजुर्वेद का वचन है वह परमात्मा सब प्रजाओं में व्यापक ही कर सब का धारण कर रहा है जो वह ईसाई मुसलमान पुराणियों के कथनानुसार विभु न होता तो इस सब सृष्टि का धारण कभी न कर सकता क्योंकि बिना प्राप्ति के किसी को कोई धारण नहीं कर सकता । कोई कहे कि ये सब लोक परस्पर आकर्षण से धारित होंगे पुनः परमेश्वर के धारण करने की क्या अपेक्षा है उन को यह उत्तर देना चाहिये कि यह सृष्टि अनन्त है वा सान्त ? जो अनन्त कहें तो आकार वाली वस्तु अनन्त कभी नहीं हो सकती और जो सान्त कहें तो उन के पर भाग सीमा अर्थात् जिस के परे कोई भी दूसरा लोक नहीं है वहां किस के आकर्षण से धारण होगा जैसे समष्टि और व्यष्टि अर्थात् जब सब समुदाय का नाम बन रखते हैं तो समष्टि कहाती है और एक २ वृक्षादि को भिन्न २ गणना करें तो व्यष्टि कहाती है वैसे सब भूगोलों को समष्टि गिन कर जगत् कहें तो सब जगत् का धारण और आकर्षण का कर्ता बिना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं इस लिये जो सब जगत् को रचता है वही :-

स दाधर पृथिवीं द्यामुतेमाम् ॥ यजु० अ० १३मं० ४।

यह यजुर्वेद का वचन है जो पृथिव्यादि प्रकाशरहित लोकलोकान्तर पदार्थ तथा सूर्यादि प्रकाशरहित लोक और पदार्थों का रचन धारण परमात्मा करता है । जो सब में व्यापक ही रहा है वही सब जगत् का कर्ता और धारण करने वाला है । (प्रश्न) पृथिव्यादि लोक घूमते हैं वा स्थिर ? (उ०) घूमते हैं । (प्रश्न) कितने ही लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता है और पृथिवी नहीं घूमती दूसरे कहते हैं कि पृथिवी घूमती है सूर्य नहीं घूमता इस में सत्य क्या माना जाय ? (उत्तर) ये दोनों आधे झूठे हैं क्योंकि वेद में लिखा है कि :-

आयङ्गोः पृश्निरक्रमीदसदन्मातरं पुरः । पितरं च प्रय-
न्त्स्वः ॥ यजुः० अ० ३ । मं० ६ ॥

अर्थात् यह भूगोल जल के सहित सूर्य के चारों ओर घूमता जाता है इस लिये भूमि घूमा करती है ॥

आकृष्णेन रजसा वर्त्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च ।
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन् ॥
यजुः० अ० ३३ । मं० ४३ ॥

जो सविता अर्थात् सूर्य वर्षादि का कर्त्ता प्रकाश स्वरूप तेजोमय रमणीय-
स्वरूप के साथ वर्त्तमान सब प्राणि अप्राणियों में अमृतरूप दृष्टि वा किरण द्वारा
अमृत का प्रवेश करा और सब मूर्तिमान् द्रव्यों को दिखलाता हुआ सब लोकों
के साथ आकर्षण गुण से सह वर्त्तमान अपनी परिधि में घूमता रहता है किन्तु
किसी लोक के चारों ओर नहीं घूमता वैसे ही एक २ ब्रह्माण्ड में एक सूर्य प्रका-
शक और दूसरे सब लोक लोकान्तर प्रकाश्य हैं जैसे :-

दिवि सोमो अधि श्रितः ॥ अथ० कां० १४। अनु० १। मं० १॥

जैसे यह चन्द्र लोक सूर्य से प्रकाशित होता है वैसे ही पृथिव्यादि लोक भी
सूर्य के प्रकाश ही से प्रकाशित होते हैं परन्तु रात और दिन सर्वदा वर्त्तमान
रहते हैं क्योंकि पृथिव्यादि लोकों के घूमने में जितना भाग सूर्य के सामने आता
है उतने में दिन और जितना पृष्ठ में अर्थात् आड़ में होता जाता है उतने में
रात अर्थात् उदय, अस्त, संध्या, मध्याह्न, मध्यराति, आदि जितने कालावयव
हैं वे देशदेशान्तरों में सदा वर्त्तमान रहते हैं अर्थात् जब आर्यावर्ष में सूर्योदय
होता है उस समय पाताल अर्थात् "अमेरिका" में अस्त होता है और जब आर्या-
वर्ष में अस्त होता है तब पाताल देश में उदय होता है जब आर्यावर्ष में मध्य
दिन वा मध्य रात है उसी समय पाताल देश में मध्य रात और मध्य दिन रहता
है जो लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता और पृथिवी नहीं घूमती वे सब अज्ञ हैं
क्योंकि जो ऐसा होता तो कई सहस्रवर्ष के दिन और रात होते अर्थात् सूर्य का
नाम (ब्रह्मः) पृथिवी से लाख गुना बड़ा और कौड़ों कोश दूर है जैसे राई के
सामने पहाड़ घूमे तो बहुत देर लगती और राई के घूमने में बहुत समय नहीं
लगता वैसे ही पृथिवी के घूमने से यथायोग्य दिन रात होता है सूर्य के घूमने
से नहीं । और जो सूर्य को स्थिर करते हैं वे भी ज्योतिर्विद्यावित् नहीं क्योंकि

अथ नवमसमुल्लासारम्भः ॥

अथ विद्याऽविद्याबन्धमोक्षविषयान् व्याख्यास्यामः ।

विद्यां चाऽविद्यां च यस्तद्देहोभयं सह । अविद्यया मृत्युं
तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते ॥ यजुः० ॥ अ० ४० । मं० १४ ॥

जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ जानता है वह अविद्या अर्थात् कर्मोपासना से मृत्यु को तर के विद्या अर्थात् यथाथं ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है । अविद्या का लक्षण :-

अनित्याशुचिदुःखानात्मसुं नित्यशुचिसुखात्मख्यातिर
विद्या । पातं० द० साधनपादे सू० ५ ॥

यह योग सूत्र का वचन है—जो अनित्य संसार और देहादि में नित्य अर्थात् जो कार्य जगत् देखा, सुना जाता है, सदा रहे गा, सदा से है और योग बल से वही देवों का शरीर सदा रहता है वैसी विपरीत बुद्धि होना अविद्या का प्रथम-भाग है, अशुचि अर्थात् मलमय भ्रष्टादि के और मिथ्याभाषण चोरी आदि अपवित्र में पवित्र बुद्धि दूसरा, अत्यन्त विषय सेवनरूप दुःख में सुख बुद्धि आदि तीसरा, अनात्मा में आत्मबुद्धि करना अविद्या का चौथा भाग है, यह चार प्रकार का विपरीतज्ञान अविद्या कहाती है । इस से विपरीत अर्थात् अनित्य में अनित्य, और नित्य में नित्य, अपवित्र में अपवित्र और पवित्र में पवित्र, दुःख में दुःख, सुख में सुख, अनात्मा में अनात्मा और आत्मा में आत्मा का ज्ञान होना विद्या है अर्थात् “विति यथावत्तत्त्वपदार्थस्वरूपं यथा सा विद्या + यथा तत्त्वस्वरूपं न जानाति भ्रमादन्यस्मिन्नन्यत्रिश्चिनोति यथा साऽविद्या” जिस से पदार्थों का यथा-र्थ स्वरूप बोध होवे वह विद्या और जिस से तत्त्वस्वरूप न जान पड़े अन्यमें अन्य बुद्धि होवे वह अविद्या कहाती है अर्थात् कर्म उपासना अविद्या इस लिये है कि यह बाह्य और अन्तरक्रिया विशेष का नाम है ज्ञान विशेष नहीं, इसी से मंत्र में कहा है कि विना शुद्ध कर्म और परमेश्वर की उपासना के मृत्यु दुःख से पार कोई नहीं होता अर्थात् पवित्र कर्म पवित्रोपासना और पवित्रज्ञान ही से मुक्ति और अपवित्र मिथ्याभाषणादि कर्म पाषाणमूर्त्यादि की उपासना और मिथ्याज्ञान से बंध होता है कोई भी मनुष्य जगमात्र भी कर्म उपासना और ज्ञान से रहित

नहीं होता इस लिये धर्मयुक्त सत्यभाषणादि कर्म करना और मिथ्याभाषणादि अधर्म को छोड़ देना ही मुक्ति का साधन है। (प्रश्न) मुक्ति किस को प्राप्त नहीं होती ? (उत्तर) जो बड़ है। (प्रश्न) बड़ कौन है ? (उ०) जो अभर्म अज्ञान में फसा हुआ जीव है (प्रश्न) बन्ध और मोच स्वभाव से होता है वा निमित्त से। (उत्तर) निमित्त से, क्योंकि जो स्वभाव से होता तो बन्ध और मुक्ति की निवृत्ति कभी नहीं होती (प्रश्न) :-

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बन्धो न च साधकः ।

न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥

गौडपादीयकारिका प्र० २ । का० ३२ ॥

यह श्लोक मांडूक्योपनिषत्पर है—जीव ब्रह्म होने से बन्धुतः जीव का निरोध अर्थात् न कभी आवरण में आया न जन्म लेता न बन्ध है और न साधक अर्थात् न कुछ साधना करने द्वारा है, न छूटने की इच्छा करता और न इस की कभी मुक्ति है क्योंकि जब परमार्थ से बन्ध ही नहीं हुआ तो मुक्ति क्या? (उत्तर) यह नवीन वेदान्तियों का कहना सत्य नहीं क्योंकि जीव का स्वरूप अन्य होने से आवरण में आता शरीर के साथ प्रगट होने रूप जन्म लेता पाप रूप कर्मों के फल भोग रूप बंधन में फसता, उस के छुड़ाने का साधन करता, दुःख से छूटने की इच्छा करता और दुःखों से छूट कर परमानन्द परमेश्वर को प्राप्त हो कर मुक्ति को भी भोगता है। (प्रश्न) ये सब धर्म देह और अन्तःकरण के हैं जीव के नहीं क्योंकि जीव तो पाप पुण्य से रहित साची मात्र है शीतोष्णादि गरीरादि के धर्म हैं आत्मा निर्लेप है (उत्तर) देह और अन्तःकरण जड़ हैं उन को शीतोष्ण प्राप्ति और भोग नहीं है जो चेतन मनुष्यादिप्राणि उस को दर्श करता है उसी को शीत उष्ण का भान और भोग होता है वैसे प्राण भी जड़ हैं न उन को भूख न पिपासा किन्तु प्राण वाले जीव को लुधा लुपा लगती है वैसे ही मन भी जड़ है न उस को हर्ष न शोक हो सकता है किन्तु मन से हर्ष शोक दुःख सुख का भोग जीव करता है जैसे बहिष्करण आत्मादि इन्द्रियों से अस्त्रे हुए मन्दादि विषयों का ग्रहण करके जीव सुखी दुःखी होता है वैसे ही अन्तःकरण अर्थात् मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से संकल्प, विकल्प, निवय, स्मरण और अभिमान का करने वाला दंड और मान्य का भागी होता है जैसे तलवार से मारने वाला दंडनीय होता है तलवार नहीं होता वैसे ही देहेन्द्रिय अन्तःकरण और प्राणरूप साधनों से अस्त्रे हुए कर्मों का कर्ता जीव सुख दुःख का भोगता है जीव

कर्मों का साक्षी नहीं किन्तु कर्ता भोक्ता है । कर्मों का साक्षी तो एक अद्वितीय परमात्मा है जो कर्म करने वाला जीव है वही कर्मों में लिप्त होता है वह ईश्वर साक्षी नहीं । (प्रश्न) जीव ब्रह्म का प्रतिबिम्ब है जैसे दर्पण के टूटने फूटने से बिम्ब की कुछ हानि नहीं होती इसी प्रकार अन्तःकरण में ब्रह्म का प्रतिबिम्ब जीव तब तक है कि जब तक वह अन्तःकरणोपाधि है जब अन्तःकरण नष्ट हो गया तब जीव मुक्त है । (उत्तर) यह बालकपन की बात है क्योंकि प्रतिबिम्ब साकार का साकार में होता है जैसे सुख और दर्पण साकार वाले हैं और पृथक् भी हैं जो पृथक् न हों तो भी प्रतिबिम्ब नहीं हो सकता ब्रह्म निराकार सर्वव्यापक होने से उस का प्रतिबिम्ब ही नहीं हो सकता । (प्रश्न) देखा गभीर स्वच्छ जल में निराकार और व्यापक आकाश का आभास पड़ता है इसी प्रकार स्वच्छ अन्तःकरण में परमात्मा का आभास है इस लिये इस को चिदाभास कहते हैं । (उत्तर) यह बालबुद्धि का मिथ्या प्रलाप है क्योंकि आकाश दृश्य नहीं तो उस को आंख से कोई भी क्यों कर देख सकता है ? (प्रश्न) यह जो ऊपर को मिला और धूंधलापन दीखता है वह आकाश नीला दीखता है वा नहीं ? (उत्तर) नहीं । (प्रश्न) तो वह क्या है ? (उत्तर) अलग २ पृथिवी जल और अग्नि के तसरेण दीखते हैं उस में जो नीलता दीखती है वह अधिक जल जो कि वर्षता है सो वही नील जो धूंधलापन दीखता है वह पृथिवी से धूलो उड़ कर वायु में घूमती है वह दीखती और उसी का प्रतिबिम्ब जल वा दर्पण में दीखता है आकाश का कभी नहीं । (प्रश्न) जैसे घटाकाश, मठाकाश मेघाकाश और महाकाश के भेद व्यवहार में होते हैं वैसे ही ब्रह्म के ब्रह्माण्ड और अन्तःकरण उपाधि के भेद से ईश्वर और जीव नाम होता है जब घटादि नष्ट हो जाते हैं तब महाकाश ही कहाता है । (उत्तर) यह भी बात अविद्वानों की है क्योंकि आकाश कभी छिन्न भिन्न नहीं होता व्यवहार में भी "घड़ा लाथो" इत्यादि व्यवहार होते हैं कोई नहीं कहता कि घड़े का आकाश लाथो इस लिये यह बात ठीक नहीं । (प्रश्न) जैसे समुद्र के बीच में मच्छी कीड़े और आकाश के बीच में पक्षी आदि घूमते हैं वैसे ही चिदाकाश ब्रह्म में सब अन्तःकरण घूमते हैं वे स्वयं तो जड़ हैं परन्तु सर्वव्यापक परमात्मा की सत्ता से जैसा कि अग्नि से लोहा वैसे चेतन हो रहे हैं जैसे वे चलते फिरते और आकाश तथा ब्रह्म निश्चल हैं वैसे जीव को ब्रह्म मानने में कोई दोष नहीं आता । (उत्तर) यह भी तुम्हारा दृष्टान्त सत्य नहीं, क्योंकि जो सर्वव्यापी ब्रह्म अन्तःकरणों में प्रकाशमान हो कर जीव होता है तो सर्वज्ञादि गुण उस में होते हैं वा नहीं ? जो कहे कि आवरण होने से सर्वज्ञता नहीं होती तो कहे कि ब्रह्म आवृत और खण्डित है

वा अखण्डित ? जो कहे कि अखण्डित है तो बीच में कोई भी पड़दा नहीं डाल सकता जब पड़दा नहीं तो सर्वज्ञता क्यों नहीं ? जो कहे कि अपने स्वरूप को भूल कर अन्तःकरण के साथ चलतासा है स्वरूप से नहीं जब स्वयं नहीं चलता तो अन्तःकरण जितना २ पूर्व प्राप्त देश छोड़ता और आगे २ जहाँ २ सरकता जायगा वहाँ २ का ब्रह्म भ्रान्त, अज्ञानी, हो जायगा और जितना २ छूटता जायगा वहाँ २ का ज्ञानी, पवित्र और मुक्त होता जायगा इसी प्रकार सर्वत्र दृष्टि के ब्रह्म को अन्तःकरण विगाड़ा करेंगे और बन्ध मुक्ति भी क्षण २ में हुआ करेगी तुम्हारे कहे प्रमाणे जो वैसा होता तो किसी जीव को पूर्व देखे सुने का स्मरण न होता क्योंकि जिस ब्रह्म ने देखा वह नहीं रहा इस लिये ब्रह्म जीव जीव ब्रह्म एक कभी नहीं होता सदा पृथक् २ हैं । (प्रश्न) यह सब अध्यारोपमात है अर्थात् अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का स्थापन करना अध्यारोप कहता है जैसे ही ब्रह्म वस्तु में सब जगत् और इस के व्यवहार का अध्यारोप करने से जिज्ञासु को बोध कराना होता है वास्तव में सब ब्रह्म ही हैं (प्रश्न) अध्यारोप का करने वाला कौन है ? (उत्तर) जीव (प्रश्न) जीव किस को कहते हो (उत्तर) अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन को (प्रश्न) अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन दूसरा है वा वही ब्रह्म ? (उत्तर) वही ब्रह्म है (प्रश्न) तो क्या ब्रह्म ही ने अपने में जगत् की भूँठी कल्पना कर ली ? (उत्तर) ही ब्रह्म की इस से क्या हानि । (प्रश्न) जो मिथ्या कल्पना करता है क्या वह भूँठा नहीं होता ? (उत्तर) नहीं, क्योंकि जो मन वाणी से कल्पित वा कथित है वह सब भूँठा है । (प्रश्न) फिर मन वाणी से भूँठी कल्पना करने और मिथ्या बोलने वाला ब्रह्म कल्पित और मिथ्यावादी हुआ वा नहीं । (उत्तर) ही, हम को इष्टापत्ति है । बाहरे भूँटे विद्वान्तियो ! तुम ने सत्य स्वरूप, सत्य काम, सत्य महत्त्व, परमात्मा को मिथ्याकारी कर दिया क्या यह तुम्हारी दुर्गति का कारण नहीं है ? किस उपनिषद् सूत्र वा वेद में लिखा है कि परमेश्वर मिथ्या सद्ब्रह्म और मिथ्यावादी है ? क्योंकि जैसे किसी घोर ने कोतवाल को दण्ड दिया अर्थात् "उलटि-चार कोतवाल को दण्डे" । इस कहानी के सदृश तुम्हारी बात हुई यह तो बात उचित है कि कोतवाल घोर को दण्डे परन्तु यह बात विपरीत है कि घोर कोतवाल को दण्ड देवे जैसे ही तुम मिथ्या सद्ब्रह्म और मिथ्यावादी हो कर वही प्रपना दीप ब्रह्म में व्यर्थ लगाते हो । जो ब्रह्म मिथ्याज्ञानी, मिथ्यावादी, मिथ्याकारी होवे तो सब अनन्त ब्रह्म वैसा ही हो जाय क्योंकि वह एकरस है सत्यस्वरूप, सत्यमानी, सत्यवादी और सत्यकारी है ये सब दीप तुम्हारे हैं ब्रह्म के नहीं जिस को तुम यिया कहते हो वह अविद्या है और तुम्हारा अध्यारोप भी मिथ्या है

क्योंकि आप ब्रह्म न हो कर अपने को ब्रह्म और ब्रह्म को जीव मानना यह मिथ्या ज्ञान नहीं तो क्या है ? जो सर्वव्यापक है वह परिच्छिन्न अज्ञान और बन्ध में कभी नहीं गिरता क्योंकि अज्ञान परिच्छिन्न एकदेशी अल्प अन्यज्ञ जीव होता है सर्वज्ञ सर्वव्यापी ब्रह्म नहीं ।

अब मुक्ति बन्ध का वर्णन करते हैं ॥

(प्रश्न) मुक्ति किस को कहते हैं ? (उत्तर) “सुञ्चन्ति पृथग्भवन्ति जना यस्यां सा मुक्तिः” जिस में छूट जाना हो उस का नाम मुक्ति है । (प्रश्न) किस से छूट जाना ? (उत्तर) जिस से छूटने की इच्छा सब जीव करते हैं । (प्रश्न) किस से छूटने की इच्छा करते हैं ? (उत्तर) जिस से छूटना चाहते हैं । (प्रश्न) किस से छूटना चाहते हैं ? (उत्तर) दुःख से । (प्रश्न) छूट कर किस को प्राप्त होते और कहां रहते हैं ? (उत्तर) सुख को प्राप्त होते और ब्रह्म में रहते हैं । (प्रश्न) मुक्ति और बन्ध किन २ बातों से होता है ? (उत्तर) परमेश्वर की आज्ञा पालने, अधर्म, अविद्या, कुसङ्ग, कुसंस्कार, बुरे व्यसनों से अलग रहने, और सत्यभाषण, परोपकार, विद्या पञ्चपातरहित न्याय धर्म की वृद्धि करने, पूर्वोक्त प्रकार से परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना अर्थात् योगाभ्यास करने, विद्या पढ़ने, पढ़ाने और धर्म से पुरुषार्थ कर ज्ञान की वृद्धि करने, सब से उत्तम साधनों को करने और जो कुछ करे वह सब पञ्चपातरहित न्यायधर्मानुसार ही करे इत्यादि साधनों से मुक्ति और इन से विपरीत ईश्वराज्ञाभङ्ग करने आदि काम से बन्ध होता है । (प्रश्न) मुक्ति में जीव का लय होता है वा विद्यमान रहता है ? (उत्तर) विद्यमान रहता है । (प्रश्न) कहां रहता है ? (उत्तर) ब्रह्म में । (प्रश्न) ब्रह्म कहां है और वह मुक्त जीव एक ठिकाने रहता है वा स्वैच्छाचारी होकर सर्वत्र लिचरता है ? (उत्तर) जो ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है उसी में मुक्त जीव अव्याहतगति अर्थात् उस को कहीं रुकावट नहीं विज्ञान आनन्द पूर्वक स्वतन्त्र विचरता है (प्रश्न) मुक्त जीव का स्थूल शरीर होता है वा नहीं ? (उत्तर) नहीं रहता (प्रश्न) फिर वह सुख और आनन्द भाग कैसे करता है ? (उत्तर) उसके सत्य सङ्ख्यादि स्वाभाविक गुण सामर्थ्य सब रहते हैं भौतिक सङ्ग नहीं रहता जैसे:-

शृण्वन् श्रोत्रं भवति, स्पर्शयन् त्वग्भवति, पश्यन् चक्षु-
र्भवति, रसयन् रसना भवति, जिघ्रन् घ्राणं भवति, मन्वानो
मनो भवति, बोधयन् बुद्धिर्भवति । चेतयंश्चित्तम्भवत्यहंकु-
र्वाणोऽहंकारो भवति ॥ ज्ञतपथ ० का० १४ ॥

मोक्ष में भौतिक शरीर वा इन्द्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते किन्तु अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं जब सुनना चाहता है तब श्रवण, स्पर्श करना चाहता है तब त्वचा, देखने के संकल्प से चक्षु, स्वाद के अर्थ रसना, गंध के लिये घ्राण, संकल्प विकल्प करने समय मन, निश्चय करने के लिये बुद्धि, स्मरण करने के लिये चित्त और अहंकार के अर्थ अहंकाररूप अपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो जाता है और संकल्पमात्र शरीर होता है जैसे शरीर के आधार रह कर इन्द्रियों के गोलक के द्वारा जीव स्वकार्य करता है वैसे अपनी शक्ति से मुक्ति में सब आनन्द भोग लेता है । (प्रश्न) उस की शक्ति के प्रकार की और कितनी है ? (उत्तर) मुख्य एक प्रकार की शक्ति है परन्तु बल, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गति, भीषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, द्वेष, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, अंशण, संश्रान, दर्शन, स्वादन और गंध ग्रहण तथा ज्ञान इन २४ चौबीस प्रकार के सामर्थ्ययुक्त जीव है । इस से मुक्ति में भी आनन्द की प्राप्ति भोग करता है जो मुक्ति में जीव का लय होता तो मुक्ति का सुख कौन भोगता ? और जो जीव के नाश ही को मुक्ति समझते हैं वे तो महाभूढ़ हैं क्योंकि मुक्ति जीव की येह है कि दुःखों से कूट कर आनन्द स्वरूप सर्वव्यापक अनन्त परमेश्वर में जीव का आनन्द में रहना । देखो वेदान्त शरीरक सूत्रों में :—

अभावं वादरिराह ह्येवम् ॥ वेदान्त ६०४।४।१॥

जो वादरि व्यास जी का पिता है वह मुक्ति में जीव का और उस के साथ मन का भाव मानता है अर्थात् जीव और मन का लय परास्पर जो नहीं मानते वैसे ही :—

भावं जैमिनिर्विकल्पात्मननात् ॥ वेदान्त ६०४।४।११॥

और जैमिनि आचार्य्य मुक्त पुरुष का मन के समान सूक्ष्म शरीर, इन्द्रियों, और प्राण आदि को भी विद्यमान मानते हैं अभाव नहीं ॥

हादशाहवेदुभयविधं वादरायणोऽतः ॥ वेदान्त ६०४।४।१२॥

व्यास मुनि मुक्ति में भाव और अभाव इन दोनों को मानते हैं अर्थात् शुद्ध सामर्थ्य युक्त जीव मुक्ति में बना रहता है अपवित्रता, पापाचरण, दुःख, अज्ञानादि का अभाव मानते हैं ॥

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ।

बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम् ॥ कठो० अ०

२।व०६मं० १०।

क्योंकि आप ब्रह्म न हो कर अपने को ब्रह्म और ब्रह्म को जीव मानना यह मिथ्या ज्ञान नहीं तो क्या है ? जो सर्वव्यापक है वह परिच्छिन्न अज्ञान और बन्ध में कभी नहीं गिरता क्योंकि अज्ञान परिच्छिन्न एकदेशी अल्प अल्पज्ञ जीव होता है सर्वज्ञ सर्वव्यापी ब्रह्म नहीं ।

अब मुक्ति बन्ध का वर्णन करते हैं ॥

(प्रश्न) मुक्ति किस को कहते हैं ? (उत्तर) “सुञ्चन्ति पृथग्भवन्ति जना यस्यां सा मुक्तिः” जिस में छूट जाना हो उस का नाम मुक्ति है । (प्रश्न) किस से छूट जाना ? (उत्तर) जिस से छूटने की इच्छा सब जीव करते हैं । (प्रश्न) किस से छूटने की इच्छा करते हैं ? (उत्तर) जिस से छूटना चाहते हैं । (प्रश्न) किस से छूटना चाहते हैं ? (उत्तर) दुःख से । (प्रश्न) छूट कर किस को प्राप्त होते और कहां रहते हैं ? (उत्तर) सुख को प्राप्त होते और ब्रह्म में रहते हैं । (प्रश्न) मुक्ति और बन्ध किन २ बातों से होता है ? (उत्तर) परमेश्वर की आज्ञा पालने, अधर्म, अविद्या, कुसङ्ग, कुसंस्कार, बुरे व्यसनों से अलग रहने, और सत्यभाषण, परोपकार, विद्या पञ्चपातरहित न्याय धर्म की वृद्धि करने, पूर्वोक्त प्रकार से परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना अर्थात् योगाभ्यास करने, विद्या पढ़ने, पढ़ाने और धर्म से पुरुषार्थ कर ज्ञान की वृद्धि करने, सब से उत्तम साधनों को करने और जो कुछ करे वह सब पञ्चपातरहित न्यायधर्मानुसार ही करे इत्यादि साधनों से मुक्ति और इन से विपरीत ईश्वराज्ञाभङ्ग करने आदि काम से बन्ध होता है । (प्रश्न) मुक्ति में जीव का लय होता है वा विद्यमान रहता है ? (उत्तर) विद्यमान रहता है । (प्रश्न) कहां रहता है ? (उत्तर) ब्रह्म में । (प्रश्न) ब्रह्म कहां है और वह मुक्त जीव एक ठिकाने रहता है वा स्वेच्छाचारी होकर सर्वत्र विचरता है ? (उत्तर) जो ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है उसी में मुक्त जीव अव्याहतगति अर्थात् उस को कहीं रुकावट नहीं विज्ञान आनन्द पूर्वक स्वतन्त्र विचरता है (प्रश्न) मुक्त जीव का स्थूल शरीर होता है वा नहीं ? (उत्तर) नहीं रहता (प्रश्न) फिर वह सुख और आनन्द भाग कैसे करता है ? (उत्तर) उसके सत्य सङ्ख्यादि स्वाभाविक गुण सामर्थ्य सब रहते हैं भौतिक सङ्ग नहीं रहता जैसे:-

शृण्वन् श्रोत्रं भवति, स्पर्शयन् त्वग्भवति, पश्यन् चक्षु-
र्भवति, रसयन् रसना भवति, जिघ्रन् घ्राणं भवति, मन्वानो
मनो भवति, बोधयन् बुद्धिर्भवति । चेतयंश्चित्तम्भवत्यहंकु-
र्वाणोऽहंकारो भवति ॥ शतपथ ० का० १४ ॥

(प्र०) जितने जीव मुक्त होते हैं उतने ईश्वर नये उत्पन्न करके संसार में रख देता है इस लिये निश्चय नहीं होते । (उत्तर) जो ऐसा होवे तो जीव अनित्य हो जायें क्योंकि जिस की उत्पत्ति होती है उस का नाश अवश्य होता है फिर तुम्हारे मतानुसार मुक्ति पाकर भी विनष्ट हो जायें मुक्ति अनित्य हो गई और मुक्ति के स्थान में बहुत सा भीड़ भड़का हो जायगा क्योंकि वहाँ आगम अधिक और व्यय कुछ भी नहीं होने से बढ़ती का पारावार न रहे गा और दुःख के अनुभव के बिना सुख कुछ भी नहीं हो सकता जैसे कटु न हो तो मधुर क्या जो मधुर न हो तो कटु क्या कहावे ? क्योंकि एक खाद के एक रस के बिना होने से दोनों की परीक्षा होती है जैसे कोई मनुष्य भीठा मधुर ही खाता पीता जाय उस को वैसा सुख नहीं होता जैसा सब प्रकार के रसों के भोगने वाले को होता है और जो ईश्वर अन्त वाले कर्मों का अनन्त फल देवे तो उस का न्याय नष्ट हो जाय, जो जितना भार उठा सके उतना उसपर धरना बुद्धिमानों का काम है जैसे एक मन भर उठाने वाले के शिर पर दण्डमन धरने से भार धरने वाले की निन्दा होती है वैसे अल्पज्ञ अल्प सामर्थ्य वाले जीव पर अनन्त सुख का भार धरना ईश्वर के लिये ठीक नहीं और जो परमेश्वर नये जीव उत्पन्न करता है तो जिस कारण से उत्पन्न होते हैं वह चुक जायगा क्योंकि चाहें कितना ही बड़ा धन कोश हो परन्तु जिस में व्यय है और आय नहीं उस का कभी न कभी दिवाला निकल ही जाता है इस लिये यही व्यवस्था ठीक है कि मुक्ति में जाना वहाँ से पुनः आना ही अच्छा है। क्या छोड़े से कारागार से जन्म कारागार दंड-वाले प्राणी अथवा फांसी को कोई अच्छा मानता है ? जब वहाँ से आना ही न होतो जन्म कारागार से इतना ही अन्तर है कि वहाँ मजुरी नहीं करनी पड़ती और त्रह्म में लय हीना समुद्र में डूब मरना है । (प्रश्न) जैसे परमेश्वर नित्यमुक्त पूर्णसुखी है वैसे ही जीव भी नित्यमुक्त और सुखी रहेगा तो कोई भी दोष न आवे गा । (उत्तर) परमेश्वर अनन्त, स्वरूप, सामर्थ्य, गुण, कर्म, स्वभाव वाला है इस लिये वह कभी अविद्या और दुःख बन्धन में नहीं गिर सकता जीव मुक्त हो कर भी शुद्धस्वरूप, अल्पज्ञ और परिमित गुण कर्म स्वभाव वाला रहता है पर-मेश्वर के सदृश कभी नहीं होता । (प्रश्न) जब ऐसी तो मुक्ति भी जन्म मरण के सदृश है इस लिये श्रम करना व्यर्थ है । (उत्तर) मुक्ति जन्म मरण के सदृश नहीं क्योंकि जब तक ३६००० कर्मात्म (सङ्ख) बार उत्पत्ति और प्रलय का जितना समय होता है उतने समय पर्यन्त जीवों को मुक्ति के आनन्द में रहना दुःख का न होना क्या छोटी बात है ? जब आज खाते पीते हो कल भूय लगने वाले है पुनः इस का उपाय क्यों करते हो ? जब सुधी, तपा, कुद्र धन, राज्य, प्रतिष्ठा,

करता सब का स्वामी है ॥ जैसे इस समय बंध सुक्त जीव हैं वैसे ही सर्वदा रहते हैं अत्यन्त विच्छेद बन्ध सुक्ति का कभी नहीं होता किन्तु बंध और सुक्ति सदा नहीं रहती (प्रश्न) :-

तदत्यन्तविमोक्षोपवर्गः ।

दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्त-
रापायादपवर्गः । न्यायद० अ० १ । सू० २

जो दुःख का अत्यन्त विच्छेद होता है वही सुक्ति कहाती है क्योंकि जब मिथ्या ज्ञान अविद्या, लोभादि दोष, विषय दुष्ट व्यसनों में प्रवृत्ति, जन्म और दुःख का उत्तर के छूटने से पूर्व के निवृत्त होने ही से मोक्ष होता है जो कि सदा बना रहता है । (उत्तर) यह आवश्यक नहीं है कि अत्यन्त शब्द अत्यन्तभाव ही का नाम होवे जैसे "अत्यन्तं दुःखमत्यन्तं सुखं चास्य वर्सते" बहुत दुःख और बहुत सुख इस मनुष्य को है इस से यही विदित होता है कि इस को बहुत सुख वा दुःख है इसी प्रकार यहाँ भी अत्यन्त शब्द का अर्थ जानना चाहिये । (प्रश्न) जो सुक्ति से भी जीव फिर आता है तो वह कितने समय तक सुक्ति में रहता है? (उत्तर) :-

ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ।

मुण्डक ३ । खं० २ । मं० ६ ॥

वे सुक्त जीव सुक्ति में प्राप्त हो के ब्रह्म में आनन्द को तब तक भोग के पुनः महाकल्प के पश्चात् सुक्ति सुख को छोड़ के संसार में आते हैं । इस को संख्या यह है कि तैंतालीस लाख, बीस सहस्र वर्षों की एक चतुर्युगी दोसहस्र चतुर्युगियों का एक अहोरात्र ऐसे तीस अहोरात्रों का एक महीना ऐसे बारह महीनों का एकवर्ष ऐसे शतवर्षों का परान्तकाल होता है इस को गणित की रीति से यथावत् समझ लीजिये । प्रतना समय सुक्ति में सुख भोगने का है । (प्र०) सब संसार और ग्रंथकारों का यही मत है कि जिस से पुनः जन्ममरण में कभी न आवे । (उत्तर) यह बात कभी नहीं हो सकती क्योंकि प्रथम तो जीव का सामर्थ्य शरीरादि पदार्थ और साधन परिमित हैं पुनः उस का फल अनन्त कैसे हो सकता है ? अनन्त आनन्द को भोगने का असीम सामर्थ्य कर्म और साधन जीवी में नहीं इस लिये अनन्त सुख नहीं भोग सकते जिन के साधन अनित्य हैं उन का फल नित्य कभी नहीं हो सकता और जो सुक्ति में से कोई भी लौट कर जीव इस संसार में न आवे तो संसार का उच्छेद अर्थात् जीव निश्शेष हो जाने चाहिये ।

(प्र०) जितने जीव मुक्त होते हैं उतने ईश्वर नये उत्पन्न करके संसार में रख देता है इस लिये निश्चय नहीं होते । (उत्तर) जो ऐसा होवे तो जीव अनित्य हो जायें क्योंकि जिस की उत्पत्ति होती है उस का नाश अवश्य होता है फिर तुम्हारे मतानुसार सुक्ति पाकर भी विनष्ट हो जायें सुक्ति अनित्य ही गई और सुक्ति के स्थान में बहुत सा भीड़ भड़का हो जायगा क्योंकि वहां आगम अधिक और व्यय कुछ भी नहीं होने से बढ़ती का पारावार न रहे गा और दुःख के अनुभव के बिना सुख कुछ भी नहीं हो सकता जैसे कटु न हो तो मधुर क्या जो मधुर न हो तो कटु क्या कहावे ? क्योंकि एक स्वाद के एक रस के विरुद्ध होने से दोनों की परीक्षा होती है जैसे कोई मनुष्य मीठा मधुर ही खाता पीता जाय उस को वैसा सुख नहीं होता जैसा सब प्रकार के रसों के भोगने वाले को होता है और जो ईश्वर अन्त वाले कर्मों का अनन्त फल देवे तो उस का न्याय नष्ट हो जाय, जो जितना भार उठा सके उतना उसपर धरना बुद्धिमानों का काम है जैसे एक मन भर उठाने वाले के शिर पर दशमन धरने से भार धरने वाले की निन्दा होती है वैसे अल्पज्ञ अल्प सामर्थ्य वाले जीव पर अनन्त सुख का भार धरना ईश्वर के लिये ठीक नहीं और जो परमेश्वर नये जीव उत्पन्न करता है तो जिस कारण से उत्पन्न होते हैं वह सुक जायगा क्योंकि वहाँ कितना ही बड़ा धन कोश हो परन्तु जिस में व्यय है और आय नहीं उस का कभी न कभी दिवाला निकल ही जाता है इस लिये यही व्यवस्था ठीक है कि सुक्ति में जाना वहाँ से पुनः आना ही अच्छा है। क्या घोड़े से कारागार से जन्म कारागार दंड-वाले प्राणी अथवा फांसी को कोई अच्छा मानता है ? जब वहाँ से आना ही न होतो जन्म कारागार से इतना ही अन्तर है कि वहाँ मजुरी नहीं करनी पड़ती और ब्रह्म में लय होगा ससुद्ध में डूब मरना है । (प्रश्न) जैसे परमेश्वर नित्यसुक्त पूर्णसुखी है वैसे ही जीव भी नित्यसुक्त और सुखी रहेगा तो कोई भी दोष न आवे गा । (उत्तर) परमेश्वर अनन्त, स्वरूप, सामर्थ्य, गुण, कर्म, स्वभाव वाला है इस लिये वह कभी अविद्या और दुःख बन्धन में नहीं गिर सकता जीव मुक्त हो कर भी शुद्धस्वरूप, अल्पज्ञ और परिमित गुण कर्म स्वभाव वाला रहता है पर-मेश्वर के सदृश कभी नहीं होता । (प्रश्न) जब ऐसी तो सुक्ति भी जन्म मरण के सदृश है इस लिये अम करना व्यर्थ है । (उत्तर) सुक्ति जन्म मरण के सदृश नहीं क्योंकि जब तक ३६००० कृत्तीस (सहस्र) बार उत्पत्ति और प्रलय का जितना समय होता है उतने समय पर्यन्त जीवों को सुक्ति के आनन्द में रहना दुःख का न होना क्या छोटी बात है ? जब आज खाते पीते हो कान्त सूत्र लगने वाली है पुनः इस का उपाय क्यों करते हो ? जब बुधा, तपा, सुदृ धन, राज्या, प्रतिष्ठा,

स्त्री, सन्तान, आदि के लिये उपाय करना आवश्यक है तो मुक्ति के लिये क्यों न करना ? जैसे मरना अवश्य है तो भी जीवन का उपाय किया जाता है, वैसे ही मुक्ति से लौट कर जन्म में आना है तथापि उस का उपाय करना अत्यावश्यक है। (प्रश्न) मुक्ति के क्या साधन हैं? (उत्तर) कुछ साधन तो प्रथम लिख आये हैं परन्तु विशेष उपाय ये हैं जो मुक्ति चाहे वह जीवनमुक्त अर्थात् जिन मिथ्याभाषणादि पाप कर्मों का फल दुःख है उन को छोड़ सुखरूप फल को देने वाले सत्यभाषणादि धर्माचरण अवश्य करे जो कोई दुःख को छोड़ना और सुख को प्राप्त होना चाहे वह अधर्म को छोड़ धर्म अवश्य करे। क्योंकि दुःख का पापाचरण और सुख का धर्माचरण मूल कारण है। सत्पुरुषों के संग से विवेक अर्थात् सत्याऽसत्य, धर्माधर्म, कर्त्तव्याऽकर्त्तव्य का निश्चय अवश्य करे पृथक् २ जाने और शरीर अर्थात् जीव पंच कोशों का विवेचन करे। एक "अन्नमय" जो त्वचा से ले कर अस्थिपर्यन्त का समुदाय पृथिवीमय है, दूसरा "प्राणमय" जिस में "प्राण" अर्थात् जो भीतर से बाहर जाता "अपान" जो बाहर से भीतर आता "समान" जो नाभिस्थ हो कर सर्वत्र शरीर में रस पहुंचाता "उदान" जिस से कण्ठस्थ अन्न पान खेंचा जाता और बल पराक्रम होता है "व्यान" जिस से सब शरीर में चेष्टा आदि कार्य जीव करता है, तीसरा "मनोमय" जिस में मन के साथ अहङ्कार, वाक्, पाद, पाणि, पायु और उपस्थ पांच कर्म इन्द्रियां हैं, चौथा "विज्ञानमय" जिस में बुद्धि, चित्त, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका ये पांच ज्ञान इन्द्रियां जिन से जीव ज्ञानादि व्यवहार करता है पांचवां "आनन्दमयकोश" जिस में प्रीति प्रसन्नता न्यून आनन्द अधिकानन्द आनन्द और आधार कारणरूप प्रकृति है। ये पांच कोष कहते हैं इन्हीं से जीव सब प्रकार के कर्म, उपासना और ज्ञानादि व्यवहारों को करता है। तीन अवस्था; एक "जागृत" दूसरी "सुषुप्ति" और तीसरी "सुषुप्ति, अवस्था कहाती है। तीन शरीर हैं; एक "स्थूल" जो यह देखता है। दूसरा पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच सूक्ष्मभूत और मन तथा बुद्धि इन सत्तरह तत्त्वों का समुदाय "सूक्ष्मशरीर" कहाता है यह सूक्ष्मशरीर जन्ममरणादि में भी जीव के साथ रहता है। इस के दो भेद हैं एक भौतिक अर्थात् जो सूक्ष्मभूतों के अंशों से बना है। दूसरा स्वाभाविक जो जीव के स्वाभाविक गुणरूप हैं यह दूसरा और भौतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है इसी से जीव मुक्ति में सुख को भोगता है। तीसरा कारण जिस में सुषुप्ति अर्थात् नाशु निद्रा होती है वह प्रकृतिरूप होने से सर्वत्र विभु और सब जीवों के लिये एक है। चौथा तुरीय शरीर वह कहाता है जिस में समाधि से परमात्मा के आनन्द प्रकाश में मग्न जीव होते हैं इसी समाधिसंस्कारजन्य शुद्ध शरीर का

पराक्रम मुक्ति में भी यथावत् सहायक रहता है इन सब कोप अवस्थाओं से जीव पृथक् है क्योंकि वह सब को विदित है कि अवस्थाओं से जीव पृथक् है क्योंकि जब मृत्यु होता तब सब कोड़े कहते हैं कि जीव निकल गया यही जीव सब का प्रेरक, सब का धर्ता, साक्षी, कर्ता, भोक्ता कहता है। जो कोई ऐसा कहे कि जीव कर्ता भोक्ता नहीं तो उस को जानो कि वह अज्ञानी, अविवेकी है क्योंकि बिना जीव के जो ये सब जड़ पदार्थ हैं इन को सुख दुःख का भोग वा पापपुण्यकर्तृत्व कभी नहीं हो सकता हां इन के सम्बन्ध से जीव पाप पुण्यों का कर्ता और सुख दुःखों का भोक्ता है। जब इन्द्रियां अर्थात् मन इन्द्रियों और आत्मा मन के साथ संयुक्त हो कर प्राणों को प्रेरणा करके अच्छे वा बुरे कर्मों में लगाता है तभी वह बहिर्मुख हो जाता है उसी समय भीतर से आनन्द, उल्लास, निर्भयता और बुरे कर्मों में भय, शङ्का, लज्जा, उत्पन्न होती है वह अन्तर्यामी परमात्मा की शिखा है। जो कोई इस शिखा के अनुकूल वर्तता है वही मुक्तिजन्य सुखों का प्राप्त होता है और जो विपरीत वर्तता है वह बन्धजन्य दुःख भोगता है। दूसरा साधन वैराग्य अर्थात् जो विवेक से सत्यामत्य को जाना हो उस में से सत्याचरण का ग्रहण और असत्याचरण का त्याग करना विवेक है जो पृथिवी से ले कर परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों को गुण, कर्म, स्वभाव से जान कर उस को आज्ञा पालन और उपासना में तत्पर होना, उस से विरह न चलना, सृष्टि से उपकार लेना विवेक कहाता है। तत्पश्चात् तीसरा "साधन" "पटक सम्पत्ति" अर्थात् छः प्रकार के कर्म करना एक "शुभ" जिस से अपने आत्मा और अन्तःकरण को अधर्माचरण से हटा कर धर्माचरण में सदा प्रवृत्त रखना, दूसरा "दम" जिस से श्रोत्रादि इन्द्रियों और शरीर को व्यभिचारादि बुरे कर्मों से हटा कर नितेन्द्रियत्वादि शुभ कर्मों में प्रवृत्त रखना, तीसरा "उपरति" जिस से दुष्ट कर्म करने वाले पुरुषों से सदा दूर रहना, चौथा "तितिक्षा" चाहे निन्दा, क्षुति, हानि, लाभ, कितना ही क्यों न हो परन्तु हर्ष शोक को छोड़ मुक्ति साधनों में सदा लगे रहना, पांचवां "ग्रहा" जो वेदादि सत्य शास्त्र और इन के बोध से पूर्ण प्राप्त विद्वान् सलीपदेष्टा महाग्रथों के वचनों पर विश्वास करना छःठा "समाधान" वित्त की एकाग्रता ये छः मिल कर एक "साधन" तीसरा कहाता है। चौथा "मुमुक्षुत्व" अर्थात् जैसे क्षुधा तृपातुर को सिवाय अन्न जल के दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता वैसे बिना मुक्ति के साधन और मुक्ति के दूसरे में प्रीति न होना। ये चार साधन और चार अनुबन्ध अर्थात् साधनों के पश्चात् ये कर्म करने होते हैं इन में से जो इन चार साधनों से युक्त पुरुष होता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। दूसरा "सम्बन्ध" ब्रह्म की प्राप्तिरूप मुक्ति प्रतिपाद्य और वेदादि शास्त्र प्रतिपादक को यथावत् समझ कर अन्वित करना, तीसरा "विषयी" सब शास्त्रों का प्रतिपादन

विषय ब्रह्म उस की प्रातिरूप विषय वाले पुरुष का नाम विषयी है, चौथा "प्रयोजन" सब दुःखों की निवृत्ति और परमानन्द को प्राप्त हो कर सुक्ति सुख का होना ये चार अनुबन्ध कहते हैं। तदनन्तर "श्रवणचतुष्टय" एक "श्रवण" जब कोई विद्वान् उपदेश करे तब शान्त ध्यान दे कर सुनना विशेष ब्रह्मविद्या के सुनने में अत्यन्त ध्यान देना चाहिये कि यह सब विद्याओं में सूक्ष्म विद्या है, सुन कर दूसरा "मनन" एकान्त देश में बैठ के सुने हुए का विचारकरना जिस बात में शंका हो पुनः पूछना और सुनने समय भी बक्ता और श्रोता उचित समझें तो पूछना और समाधान करना, तीसरा "निदिध्यासन" जब सुनने और मनन करने से निःसंदेह हो जाय तब समाधिस्थ हो कर उस बात को देखना समझना कि वह जैसा सुना था विचारा था वैसा ही है वा नहीं ? ध्यान योग से देखना, चौथा "साक्षात्कार" अर्थात् जैसा पदार्थ का स्वरूप गुण और स्वभाव ही वैसा याथातथ्य जान लेना श्रवणचतुष्टय कहाता है। सदा तमोगुण अर्थात् क्रोध, मलीनता, आलस्य, प्रमाद आदि रजोगुण अर्थात् ईर्ष्या, द्वेष, काम, अभिमान, विक्षेप आदि दोषों से अलग हो के सत्य अर्थात् शान्त प्रकृति, पवित्रता, विद्या, विचार आदि गुणों को धारण करे (मैत्री) सुखी जनों में मित्रता (करुणा) दुःखी जनों पर दया, (सुहिता) पुण्यात्माओं से हर्षित होना, (उपेक्षा) दुष्टात्माओं में न प्रीति और न वैर करना। नित्यप्रति न्यून से न्यून दो घंटा पर्यन्त सुसुद्ध ध्यान अवश्य करे। जिस से भीतर के मन आदि पदार्थ साक्षात् हों। देखो! अपने चेतनस्वरूप हैं इसी से ज्ञानस्वरूप और मन के साक्षी हैं क्योंकि जब मन शान्त चंचल, आगन्धित, वा विषादयुक्त होता है उसको यथावत् देखते हैं वैसे ही इन्द्रियां प्राण आदि का ज्ञाता पूर्वदृष्ट का स्मरणकर्ता और एक काल में अनेक पदार्थों के वेत्ता धारणाकर्षणकर्ता और सब से पृथक् हैं जो पृथक् न होते तो स्वतन्त्र कर्ता इन के प्रेरक अधिष्ठाता कभी नहीं हो सकते।

अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः । योगशास्त्रे पादे २ । सू०३ ॥

इन में से अविद्या का स्वरूप कुछ प्राये पृथक् वर्तमान बुद्धि को आत्मा से भिन्न न समझना अभिनिवेश, सुख में प्रीति राग, दुःख में अप्रीति द्वेष, और सब प्राणिमात्र को यह इच्छा सदा रहती है कि मैं सदा शरीरस्थ रहूँ मरूँ नहीं मृत्युदुःख से त्रास अभिनिवेश कहाता है। इन पांच क्लेशों को योगाभ्यास विज्ञान से छुड़ा के ब्रह्म को प्राप्त हो के सुक्ति के परमानन्द को भोगना चाहिये। (प्रश्न) जैसी सुक्ति आप मानते हैं वैसी अन्य कोई नहीं मानता देखो ! जैनी लोग मोक्ष शिला, शिवपुर में जा के चुप चाप बैठे रहना, ईसाई चौथा आसमान

जिस में विवाह लड़ाई वाजे गाजे वस्त्रादि धारण से आनन्द भोगना, वैसे ही सुमलमान सातवें आसमान, वाममार्गी श्रीपुर, शैव कैलाश, वैष्णव वैकुण्ठ, और गोकुलिये गोसाईं गोलोक आदि में जा के उत्तम स्त्री, अन्न, पान, वस्त्र, स्थान आदि को प्राप्त हो कर आनन्द में रहने को मुक्ति मानते हैं। पौराणिक लोग (सालोक्य) ईश्वर के लोक में निवास, (सानुज्य) छोटे भाई के सदृश ईश्वर के साथ रहना, (सामीप्य) जैसे उपासनीय देव की आकृति है वैसा बन जाना, (सायुज्य) सेवक के समान ईश्वर के समीप रहना, (सायुज्य) ईश्वर से संयुक्त हो जाना ये चार प्रकार की मुक्ति मानते हैं। वेदान्ति लोग ब्रह्म में लय होने को मोक्ष समझते हैं। (उत्तर) जैनी (१२) बारहवें ईसाई (१३) तेरहवें और (१४) चौदहवें समुल्लास में सुसलमानों की मुक्ति आदि विषय विशेष कर लिखेंगे जो वाममार्गी श्रीपुर में जा कर लक्ष्मी के सदृश स्त्रियां मद्य मांसादि खाना पीना रंग राग भोग करना मानते हैं वह यहां से कुछ विशेष नहीं। वैसे ही महादेव और विष्णु के सदृश आकृति वाले पार्वती और लक्ष्मी के सदृश स्त्रीयुक्त हो कर आनन्द भोगना यहां के धनाढ्य राजाओं से अधिक इतना ही लिखते हैं कि वहां रोग न होंगे और युवावस्था सदा रहेगी यह उन की बात मिथ्या है क्योंकि जहां भोग वहां रोग और जहां रोग वहां वृद्धावस्था अवश्य होती है। और पौराणिकों से पूछना चाहिये कि जैसी तुम्हारी चार प्रकार की मुक्ति है वैसी तो क्षमि कोट पतङ्ग पश्चादिकों की भी स्वतःसिद्ध प्राप्त है क्योंकि ये जितने लोक हैं वे सब ईश्वर के हैं इन्हीं में सब जीव रहते हैं इस लिये "सालोक्य" मुक्ति अनायास प्राप्त है "सामीप्य" ईश्वर सर्वत्र व्याप्त होने से सब उस के समीप हैं इस लिये "सामीप्य" मुक्ति भी स्वतःसिद्ध है "सानुज्य" जीव ईश्वर से सब प्रकार छोटा और चेतन होने से स्वतः बंधुवत् है इस से "सानुज्य" मुक्ति भी विना प्रयत्न के सिद्ध है और सब जीव सर्वव्यापक परमात्मा में व्याप्त होने से संयुक्त हैं इस से सायुज्य मुक्ति भी स्वतःसिद्ध है। और जो अन्य साधारण नास्तिक लोग मरने से तत्त्वों में तत्त्व मिल कर परम मुक्ति मानते हैं वह तो कुत्ते गद्गड़े आदि को भी प्राप्त है ये मुक्तियां नहीं हैं किन्तु एक प्रकार का बंधन है क्योंकि ये लोग शिवपुर मोक्षशिला चौथे आसमान, सातवें आसमान, श्रीपुर, कैलाश, वैकुण्ठ, गोलोक, को एकदेश में स्थान विशेष मानते हैं जो वे उन स्थानों से दृष्टक् हीं तो मुक्ति छूट जाय इसी लिये जैसे १२ पत्थर के भीतर दृष्टिबंध होते हैं उस के समान बन्धन में हैं। जो मुक्ति तो यही है कि जहां इच्छा हो वहां विचरे कहीं अटकें नहीं न भय, न शंका, न दुःख होता है जो जन्म है वह उत्पत्ति और मरना प्रलय कहा है समय पर जन्म लेते हैं। (प्रश्न) जन्म एक है वा अनेक ? (उत्तर) अनेक। (प्रश्न) जो अनेक हीं तो पूर्व जन्म और नृत्य की बातों का स्मरण क्यों नहीं ? (उत्तर) जीव

अल्पज्ञ है त्रिकालदर्शी नहीं इस लिये स्मरण नहीं रहता और जिस मन से ज्ञान करता है वह भी एक समय में दो ज्ञान नहीं कर सकता भला पूर्व जन्म की बात तो दूर रहने दीजिये इसी देह में जब गर्भ में जीव था शरीर बना पश्चात् जन्मा पांचवें वर्ष से पूर्व तक जो २ बातें हुई हैं उन का स्मरण क्यों नहीं कर सकता ? और जागृत वा स्वप्न में बहुत सा व्यवहार प्रत्यक्ष में करके जब सुषुप्ति अर्थात् गाढ़-निद्रा होती है तब जागृत आदि व्यवहार का स्मरण क्यों नहीं कर सकता ? और तुम से कोई पूछे कि बारह वर्ष के पूर्व तेरहवें वर्ष के पांचवें महीने के नवमें दिन दृश बजे पर पहिली मिनट में तुमने क्या किया था ? तुम्हारा सुख, हाथ, कान, नेत्र, शरीर किस और किस प्रकार का था ? और मन में क्या विचार था ? जब इसी शरीर में ऐसा है तो पूर्व जन्म की बातों के स्मरण में श्रद्धा करनी केवल लड़कपन की बात है और जो स्मरण नहीं होता है इसी से जीव सुखी है नहीं तो सब जन्मों के दुःखों को देख २ दुःखित हो कर मर जाता। जो कोई पूर्व और पीछे जन्म के वर्तमान को जानना चाहे तो भी नहीं जान सकता क्योंकि जीव का ज्ञान और स्वरूप अल्प है यह बात ईश्वर के जानने योग्य है जीव के नहीं। (प्रश्न) जब जीव को पूर्व का ज्ञान नहीं और ईश्वर इस को दृष्ट देता है तो जीव का सुधार नहीं हो सकता क्योंकि जब उस को ज्ञान हो कि हमने अमुक काम किया था उसी का यह फल है तभी वह पाप कर्मों से बच सके ? (उत्तर) तुम ज्ञान के प्रकार का मानते हो ? (प्रश्न) प्रत्यक्षादि प्रमाणों से आठ प्रकार का। (उत्तर) तो जब तुम जन्म से ले कर समयमें राज, धन, बुद्धि, विद्या, दारिद्र्य, निर्बुद्धि, मूर्खता आदि सुख दुःख संसार में देख कर पूर्वजन्म का ज्ञान क्यों नहीं करते। जैसे एक अवैद्य और एक वैद्य को कोई रोग हो उस का निदान अर्थात् कारण वैद्य जान लेता और अविद्वान् नहीं जान सकता उस ने वैद्यक-विद्या पढ़ी है और दूसरे ने नहीं परन्तु ज्वरादि रोग के होने से अवैद्य भी इतना जान सकता है कि सुभ्र से कोई कुपथ्य हो गया है जिस से सुभ्र यह रोग हुआ है वैसे ही जगत् में विचित्र सुख दुःख आदि की घटती बढ़ती देख के पूर्वजन्म का अनुमान क्यों नहीं जान लेते ? और जो पूर्व जन्म को न मानो गे तो परमेश्वर पक्षपाती हो जाता है क्योंकि विना पाप के दारिद्र्यादि दुःख और विना पूर्व सञ्चित पुण्य के राज्य धनाढ्यता और निर्बुद्धिता उस को क्यों दी ? और पूर्व जन्म के पाप पुण्य के अनुसार दुःख सुख के देने से परमेश्वर न्यायकारी यथावत् रहता है। (प्रश्न) एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी हो सकता है जैसे सर्वोपरि राजा जो कर से न्याय जैसे माली अपने उपवन में छोटे और बड़े हल लगाता किसी को काटता उखाड़ता और किसी को रक्षा करता बढ़ाता है जिस की जो वस्तु है उस को वह चाहे जैसे रखे उस के ऊपर कोई भी दूसरा न्याय

करने वाला नहीं जो उस को दण्ड दे सके वा ईश्वर किसी से डरे । (उत्तर) पर-
मात्मा जिस लिये न्याय चाहता करता अन्याय कभी नहीं करता इसी लिये वह
पूजनीय और बड़ा है जो न्याय विग्न करे वह ईश्वर ही नहीं जैसे माली युक्ति
के बिना मार्ग वा अस्थान में छ्द लगाने, न काटने योग्य को काटने, अयोग्य
को बढ़ाने, योग्य को न बढ़ाने से दूषित होता है इसी प्रकार बिना कारण के
करने से ईश्वर को दोष लगे परमेश्वर के ऊपर न्याययुक्त काम करना अवश्य है
क्योंकि वह स्वभाव से पबिल और न्यायकारी है जो उन्मत्त के समान काम करे
तो जगत् के श्रेष्ठ न्यायाधीश से भी न्यून और अप्रतिष्ठित होवे क्या इस जगत् में
बिना योग्यता के उत्तम काम किये प्रतिष्ठा और दुष्ट काम किये बिना दण्ड
देने वाला निन्दनीय अप्रतिष्ठित नहीं होता ? इस लिये ईश्वर अन्याय नहीं
करता इसी से किसी से नहीं डरता । (प्रश्न) परमात्मा ने प्रथम ही से जिस के
लिये जितना देना विचारा है उतना देता और जितना काम करना है उतना
करता है । (उत्तर) उस का विचार जीवों के कर्मानुसार होता है अन्यथा नहीं
जो अन्यथा हो तो वही अपराधी अन्यायकारी होवे । (प्रश्न) बड़े छोटे को
एकसा ही सुख दुःख है बड़ों को बड़ी चिन्ता और छोटे को छोटी-जैसे किसी
साहकार का विवाह राजघर में लागू रुपये का है तो वह अपने घर से पालकी
में बैठ कर कचहरी में उष्ण काल में जाता हो बाजार में ही के उस को गाता
देख कर अज्ञानी लोग कहते हैं कि देखो पुण्य पाप का फल, एक पालकी में
आनन्द पूर्वक बैठा है और दूसरे बिना लूते पहिरे ऊपर नीचे से तप्यमान होते
हुए पालकी को उठा कर ले जाते हैं परन्तु बुद्धिमान् लोग इस में यह जानते हैं
कि जैसे २ कचहरी निकट आती जाती है वैसे २ साहकार को बड़ा शोक और
सन्देह बढ़ता जाता और कहारों को आनन्द होता जाता है जब कचहरी में
पहुँचते हैं तब सेठ जी इधर उधर जाने का विचार करते हैं कि प्राड्विवाक्
(वकील) के पास आज्ञा वा सरिंशेदार के पास आज हाकंगा वा लोतूंगा न
जाने क्या होगा और कहार लोग तमाखू पीते परस्पर बातें चीते करते हुए
प्रसन्न हो कर आनन्द में सो जाते हैं । जो वह जीत जाय तो कुछ सुख और
हार जाय तो सेठ जी दुःखसागर में डूब जाय और वे कहार जैसे के वैसे रहते
हैं इसी प्रकार जब राजा सुन्दर कोमल विकीने में सोता है तो भी शीघ्र निद्रा
नहीं आती और मजूर कङ्कर पत्थर और मशी जंचे नीचे स्थल पर सोता है उस
को भूट ही निद्रा आती है ऐसे ही सर्वत्र समझो । (उत्तर) यह समझ अज्ञा-
नियों की है क्या किसी साहकार से कहें कि तू कहार बन जा और कहार से
कहें कि तू साहकार बन जा तो साहकारकभी कहार बनना नहीं और कहार
साहकार बनना चाहते हैं जो सुख दुःख बराबर होता तो अपनी २ अथवा

कोड़ नीच और ऊँच बनना दोनों न चाहते देखो एक जीव विद्वान्, पुण्यात्मा, श्रीमान् राजा की राणी के गर्भ में आता और दूसरा महादरिद्र घसियारी के गर्भ में आता है एक को गर्भ से ले कर सर्वथा सुख और दूसरे को सब प्रकार दुःख मिलता है । एक जब जन्मता है तब सुन्दर सुगन्धियुक्त जलादि से स्नान युक्ति से नाड़ी छेदन दुग्धपानादि यथायोग्य प्राप्त होते हैं जब वह दूध पीना चाहता है तो उस के साथ भित्री आदि मिला कर यथेष्ट मिलता है उस को प्रसन्न रखने के लिये नौकर चाकर खिलौना सवारी उत्तम स्थानों में लाड़ से आनन्द होता है दूसरे का जन्म जङ्गल में होता स्नान के लिये जल भी नहीं मिलता जब दूध पीना चाहता तब दूध के बदले में घुंसा थपड़ा आदि से पीटा जाता है अत्यन्त आर्क्षस्वर से रोता है कोई नहीं पूछता इत्यादि जीवों को विना पुण्य पाप के सुख दुःख होने से परमेश्वर पर दोष आता है दूसरा जैसे विना किये कर्मों के सुख दुःख मिलते हैं तो आगे नरक स्वर्ग भी न होना चाहिये क्योंकि जैसे परमेश्वर ने इस समय विना कर्मों के सुख दुःख दिया है वैसे मरे पीछे भी जिस को चाहे गा उस को स्वर्ग में और जिस को चाहे नरक में भेज देगा पुनः सब जीव अधर्मयुक्त ही जायेंगे धर्म क्यों करें ? क्योंकि धर्म का फल मिलने में सन्देह है परमेश्वर के हाथ है जैसी उस की प्रसन्नता होगी वैसा करेगा तो पाप कर्मों में भय न हो कर संसार में पाप की वृद्धि और धर्म का अन्वय हो जायगा इस लिये पूर्व जन्म के पुण्य पाप के अनुसार वर्तमान जन्म और वर्तमान तथा पूर्व जन्म के कर्मानुसार भविष्यत् जन्म होते हैं । (प्रश्न) मनुष्य और अन्य पश्यादि के शरीर में जीव एकसा है वा भिन्न २ जाति के ? (उत्तर) जीव एकसे हैं परन्तु पाप पुण्य के योग से मलिन और पवित्र होते हैं । (प्रश्न) मनुष्य का जीव पश्यादि में और पश्यादि का मनुष्य के शरीर में और स्त्री का पुरुष के और पुरुष का स्त्री के शरीर में जाता आता है वा नहीं ? (उत्तर) हाँ, जाता आता है क्योंकि जब पाप बढ़ जाता पुण्य न्यून होता है तब मनुष्य का जीव पश्यादि नीच शरीर और जब धर्म अधिक तथा अधर्म न्यून होता है तब देव अर्थात् विद्वानों का शरीर मिलता और जब पुण्य पाप बराबर होता है तब साधारण मनुष्य जन्म होता है इस में भी पुण्य पाप के उत्तम मध्यम और निकट होने से मनुष्यादि में भी उत्तम मध्यम निकट शरीरादि सामग्री वाले होते हैं और जब अधिक पाप का फल पश्यादि शरीर में भोग लिया है पुनः पाप पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर में आता और पुण्यके फल भोग कर फिर भी मध्यम मनुष्य के शरीर में आता है जब शरीर से निकलता है उसी का नाम "मृत्यु" और शरीर के साथ संयोग होने का नाम "जन्म" है जब शरीर छोड़ता तब यमालय अर्थात् आकाशस्य वायु में रहता है क्योंकि "यमेन वायुना" वेद में लिखा

हे कि यम नाम वायु का है । शकटपुराण का कल्पित यम नहीं । इस का विशेष खंडन मंडन श्यारहवें समुल्लास में लिखेंगे । पद्यात् धर्मराज अर्थात् परमेश्वर उस जीव के पाप पुण्यानुसार जन्म देता है वह वायु, अन्न, जल, अथवा शरीर के छिद्रद्वारा दूसरे के शरीर में ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट होता है जो प्रविष्ट हो कर कामगः वीर्य में जा, गर्भ में स्थित हो, शरीर धारण कर, बाहर आता है जो स्त्री के शरीर में धारण करने योग्य कर्म हैं, तो, स्त्री और पुरुष के शरीर धारण करने योग्य कर्म हैं, तो, पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है और नपुंसक गर्भ की स्थिति समय स्त्री पुरुष के शरीर में सम्बन्ध करके रजवीर्य के बराबर होने से होता है । इसी प्रकार नाना प्रकार के जन्ममरण में तत्र तत्र जीव पड़ा रहता है कि जब तक उत्तम कर्मापासना ज्ञान को करके मुक्ति को नहीं पाता, क्योंकि उत्तम कर्मादि करने से मनुष्यों में उत्तम जन्म और मुक्ति में महाकल्प पर्यन्त जन्ममरण दुःखों से रहित हो कर आनन्द में रहता है । (प्रश्न) मुक्ति एक जन्म में होती है वा अनेक जन्मों में ? (उत्तर) अनेक जन्मों में क्योंकि :-

भियते हृदयग्रन्थिरिच्छन्ते सर्वसंशयाः ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे पराऽवरे ॥

मुण्डक २ । खं० २ । मं० ८ ॥

जब इस जीव के हृदय की अविद्या अज्ञानरूपी गांठ कट जाती, सब संशय छिन्न होते और दुष्ट कर्म अय को प्राप्त होते हैं तभी उस परमात्मा जो कि अपने आत्मा के भीतर और बाहर व्याप रहा है उस में निवास करता है । (प्रश्न) मुक्ति में परमेश्वर में जीव मिल जाता है वा पृथक् रहता है ? (उत्तर) पृथक् रहता है—क्योंकि जो मिल जाय तो मुक्ति का सुख कौन भोगे और मुक्ति के जितने साधन हैं वे सब निष्फल हो जावें, वह मुक्ति तो नहीं किन्तु जीव का प्रलय जानना चाहिये । जब जीव परमेश्वर की आज्ञापालन, उत्तम कर्म सत्संग योगाभ्यास पूर्वोक्त सब साधन करता है वही मुक्ति को पाता है ।

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् ।

सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति ॥ तैत्तिरी० ।

आनन्दवल्ली । अनु० १ ।

जो जीवात्मा अपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित सत्यज्ञान और अनन्त आनन्दस्वरूप परमात्मा को जानता है वह उस व्यापकरूप ब्रह्म में स्थित हो के उस "विपश्चित्" अनन्त विद्यायुक्त ब्रह्म के साथ सब कामों को प्राप्त होता है अर्थात् जिस २ आनन्द की कामना करता है उस २ आनन्द को प्राप्त होता है वही

सुक्ति कहती है । (प्रश्न) जैसे शरीर के बिना सांसारिक सुख नहीं भोग सकता वैसे सुक्ति में बिना शरीर आनन्द कैसे भोग सकेगा ? (उत्तर) इस का समाधान पूर्व कह आये हैं और इतना अधिक सुनो, जैसे सांसारिक सुख शरीर के आधार से भोगता है वैसे परमेश्वर के आधार सुक्ति के आनन्द को जीवात्मा भोगता है। वह सुक्त जीव अनन्त व्यापक ब्रह्म में स्वच्छन्द घूमता, शुद्ध ज्ञान से सब सृष्टि को देखता, अन्य सुक्तों के साथ मिलता, सृष्टि विद्या को क्रम से देखता हुआ सब लोक लोकान्तरी में अर्थात् जितने ये लोक देखते हैं और नहीं देखते उन सब में घूमता है वह सब पदार्थों को जो कि उस के ज्ञान के आगे हैं देखता है जितना ज्ञान अधिक होता है उस को उतना ही आनन्द अधिक होता है सुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से पूर्ण ज्ञानी हो कर उस को सब सन्निहित पदार्थों का भान यथावत् होता है यही सुख विशेष स्वर्ग और विषय लक्षणा में फस कर दुःख विशेष भोग करना नरक कहाता है । “ स्वः ” सुख का नाम है “ स्वः सुखं गच्छति यस्मिन् स स्वर्गः ” “ अतो विपरीतो दुःखभोगो नरक इति ” जो सांसारिक सुख है वह सामान्य स्वर्ग और जो परमेश्वर की प्राप्ति से आनन्द है वही विशेष स्वर्ग कहाता है । सब जीव स्वभाव से सुखप्राप्ति की इच्छा और दुःख का वियोग होना चाहते हैं परन्तु जब तक धर्म नहीं करते और पाप नहीं छोड़ते तब तक उन को सुख का मिलना और दुःख का कटना न होगा क्योंकि जिस का कारण अर्थात् मूल होता है वह नष्ट कभी नहीं होता जैसे:—

छिन्ने मूले वृक्षो नश्यति तथा पापे क्षीणे दुःखं नश्यति ।

जैसे मूल कट जाने से वृक्ष नष्ट होता है वैसे पाप को छोड़ने से दुःख नष्ट होता है देखा मनुस्मृति में पाप और पुण्य की बहुत प्रकार की गति:—

मानसं मनसैवायमुपभुङ्क्ते शुभाऽशुभम् ।

वाचा वाचा कृतं कर्म कायेनैव च काथिकम् ॥

शरीरजैः कर्मदोषैर्याति स्थावरतां नरः ।

वाचिकैः पक्षिभृगतां मानसैरन्यजातिताम् ॥

यो यद्वेषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते ।

स तदा तद्गुणप्रायं तं करोति शरीरिणम् ॥

सत्त्वं ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्वेषौ रजः स्मृतम् ।

एतद् व्याप्तिमद्वेषां सर्वभूताश्रितं वपुः ॥

तत्र यत्प्रीतिसंयुक्तं किञ्चिदात्मनि लज्जयेत् ।
 प्रशान्तमिव शुद्धाभं सत्त्वं तदुपधारयेत् ॥
 यत्तु दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः ।
 तद्रजोऽप्रतिपं विद्यात्सततं हारि देहिनाम् ॥
 यत्तु स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्तं विषयात्मकम् ।
 अप्रतर्क्यमविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत् ॥
 त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां यः फलोदयः ।
 अग्न्यो मध्यो जघन्यश्च तं प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥
 वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।
 धर्मक्रियात्मचिन्ता च सात्त्विकं गुणलक्षणम् ॥
 आरम्भरुचिताऽधैर्यमसत्कार्यपरिग्रहः ।
 विषयोपसेवा चाजस्रं राजसं गुणलक्षणम् ॥
 लोभः स्वप्नो धृतिः क्रौर्यं नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता ।
 याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम् ॥
 यत्कर्म कृत्वा कुर्वंश्च करिष्यंश्चैव लज्जति ।
 तज्ज्ञेयं विदुषा सर्वं तामसं गुणलक्षणम् ॥
 येनास्मिन्कर्मणा लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलाम् ।
 न च शोचत्यसम्पत्तौ तद्विज्ञेयं तु राजसम् ॥
 यत्सर्वेणोच्छति ज्ञातुं यन्न लज्जति चाचरन् ।
 येन तुष्यति चात्मास्य तत्सत्त्वगुणलक्षणम् ॥
 तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते ।
 सत्त्वस्य लक्षणन्वर्मः श्रेष्ठमेपां यथोत्तरम् ॥

ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मो महानव्यक्तमेव च ।

उत्तमां सात्त्विकीमेतां गतिमाहुर्मनीषिणः ॥

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन धर्मस्यासेवनेन च ।

पापान्संयान्ति संसारानविहांसो नराधमाः ॥

मनु० अ० १२ । श्लो० ४० । ४२—५० । ५२ ॥

जो मनुष्य सात्त्विक हैं वे देव अर्थात् विद्वान्, जो रजोगुणी होते हैं वे मध्यम मनुष्य, और जो तमोगुणयुक्त होते हैं वे नीच गति को प्राप्त होते हैं ॥ जो अत्यन्त तमोगुणी हैं वे स्थावर वृक्षादि, क्लमि, कीट, मत्स्य, सर्प, कच्छप, पशु और सृग के जन्म को प्राप्त होते हैं ॥ जो मध्यम तमोगुणी हैं वे हाथी, घोड़ा, शूद्र, म्लेच्छ, निन्दित कर्म करने वाले सिंह, व्याघ्र, बराह अर्थात् सूकर के जन्म को प्राप्त होते हैं ॥ जो उत्तम तमोगुणी हैं वे चारण (जोकि कवित्त, दोहा आदि बना कर मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं) सुन्दर पक्षी, दांभिक पुरुष अर्थात् अपने सुख के लिये अपनी प्रशंसा करने वाले, राक्षस जो हिंसक, पिशाच अनाचारी अर्थात् मद्यादि के आहार कर्ता और मलिन रहते हैं वह उत्तम तमोगुण के कर्म का फल है ॥ जो उत्तम रजो गुणी हैं वे भक्ता अर्थात् तलवार आदि से मारने वा कुदार आदि से खोदने वाले मत्ता अर्थात् नौका आदि के चलाने वाले नट जो वांस आदि पर कला कूटना, चढ़ना, उतरना आदि करते हैं शस्त्रधारी भृत्य और मद्य पीने में आसक्त हीं ऐसे जन्म नीच रजोगुण का फल है ॥ जो मध्यम रजोगुणी होते हैं वे राजा, चन्द्रियवर्णस्वराजाओं के पुरोहित, वादविवाद करने वाले, दूत, प्राडविवाक (वकील वारिष्ठर) युद्ध विभाग के अध्यक्ष के जन्म पाते हैं जो उत्तम रजोगुणी हैं वे गन्धर्व (गाने वाले) गुह्यक (वादित्र बशाने वाले) यक्ष (धनाढ्य) विद्वानों के सेवक, और अप्सरा अर्थात् जो उत्तम रूप वाली स्त्री उन का जन्म पाते हैं ॥ जो तपस्वी, यति, संन्यासी, वेदपाठों, विमान के चलाने वाले ज्योतिषी, और दैत्य अर्थात् देहप्रापक मनुष्य होते हैं उन को प्रथम सत्त्वगुण के कर्म का फल जानो ॥ जो मध्यम सत्त्वगुणयुक्त हो कर कर्म करते हैं वे जीव यज्ञ-कर्त्ता, वेदार्थवित् विद्वान्, वेद, विद्युत् आदि, और काल विद्या के ज्ञाता, रक्षक ज्ञानी, और (साध्य) कार्य सिद्धि के लिये सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म पाते हैं ॥ जो उत्तम सत्त्वगुणयुक्त हो के उत्तम कर्म करते हैं वे ब्रह्मा सब विदों का वेत्ता विश्वसृज सब सृष्टि क्रम विद्या को जान कर विविध विमानादि यानों को बनाने वाले धार्मिक सर्वोत्तम बुद्धियुक्त और अव्यक्त के जन्म और प्रकृतिवशित्व सिद्धि को प्राप्त होते हैं ॥ जो इन्द्रिय के वश हो कर विषयी धर्म को छोड़ कर

अधर्म करने हारे अविद्वान् हैं वे मनुष्यों में नीच जन्म बुरे २ दुःखरूप जन्म को पाते हैं ॥ इस प्रकार सत्व, रज और तमोगुणयुक्त वेग से जिस २ प्रकार का कर्म जो करता है उस २ को सभी २ प्रकार फल प्राप्त होता है जो सुक्त होते हैं वे गुणातीत अर्थात् सब गुणों के स्वभावाँ में न फल कर महायोगी ही के सुक्ति का साधन करें कौंकि:-

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ पा० १ । २ ॥

तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् ॥ पा० १ । ३ ॥

ये योगशास्त्र पातञ्जल के सूत्र हैं मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त कर्मों से भी मन को रोक शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त ही पद्यात् उस का निरोध कर एकाग्र अर्थात् एक परमात्मा और धर्मयुक्त कर्म इन के अग्र-भाग में चित्त का ठहरा रखना निरुद्ध अर्थात् सब और से मन की वृत्ति को रोकना ॥ जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है तब सब के द्रष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा को स्थिति होती है इत्यादि साधन सुक्ति के लिये कर और:-

अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः । सांख्ये । अ० १ । सू० १ ॥

यह सांख्य का सूत्र है-जो आध्यात्मिक अर्थात् शरीर सन्तन्वी पीड़ा, आधि-भीतिक जो दूमरे प्राणियों से दुःखित होना आधिदैविक जो अतिशक्ति अतिताप अतिगीत मन इन्द्रियों की चञ्चलता से होता है इस त्रिविध दुःख को छुड़ा कर सुक्ति पाना अत्यन्त पुरुषार्थ है ॥ इस के आगे आचार अनाचार और भ्रष्टाभय का विषय लिखेंगे ॥

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविभूषिते विद्याऽविद्यावन्धमोक्षणविषये

नवमः समुद्भासः सम्पूर्णाः ॥ १ ॥

अथ दशमसुब्रह्मासारम्भः

—:०*:-

अथाऽऽचाराऽनाचारभक्ष्याऽभक्ष्यविषयान् व्याख्यास्यामः ।

अब जो धर्मयुक्तकामों का आचरण, सुशीलता, सत्पुरुषों का संग और सहिष्णुताके ग्रहण में क्वचिद् आदि आचार और इनसे विपरीत अनाचार कहता है उन को लिखते हैं:-

विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेषरागिभिः ।

हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तन्निबोधत ॥

कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्यकामता ।

काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ॥

सङ्कल्पमूलः कामो वै यज्ञाः सङ्कल्पसंभवाः ।

वृता नियमधर्माश्च सर्वे सङ्कल्पजाः स्मृताः ॥

अकामस्य क्रिया काचिद् दृश्यते नेह कर्हिचित् ।

यद्यद्भिः कुरुते किञ्चित् तत् तत्कामस्य चेष्टितम् ॥

वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम् ।

आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥

सर्वन्तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा ।

श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान् स्वधर्मे निविशेत वै ॥

श्रुतिस्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन् हि मानवः ।

इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम् ॥

यो वमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद् द्विजः ।

स साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेदानन्दकः ॥

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् ॥

अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते ।

धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥

वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैर्निपेकादिर्हिजन्मनाम् ।

कार्यैः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥

केशान्तः पौडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते ।

राजन्यबन्धोर्द्वाविंशे वैश्यस्य द्व्यधिके ततः ॥ मनु० अ० २॥

श्लो० १-४।६।८।९।११-१३।२६।६५।

मनुष्यों को सदा इस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि जिस का सेवन रागद्वेषरहित विद्वान् लोग नित्य करें जिस को हृदय अर्थात् आत्मा से सत्य कर्तव्य जानें वही धर्म माननीय और करणीय है ॥ क्योंकि इस संसार में अत्यन्त कामात्मता और निष्कामता श्रेष्ठ नहीं है । वेदार्थज्ञान और वेदोक्त कर्म ये सब कामना ही से सिद्ध होते हैं ॥ जो कोई कहे कि मैं निरिच्छ और निष्काम हूँ वा हो जाऊँ तो वह कभी नहीं हो सकता क्योंकि सब काम अर्थात् यज्ञ, सत्य-भाषणादि व्रत, यम, नियमरूपी धर्म आदि संकल्प ही से बनते हैं ॥ क्योंकि जो २ हस्त, पाद, नेत्र, मन आदि चलाये जाते हैं वे सब कामना ही से चलते हैं जो इच्छा न हो तो आँख का खोलना और मींचना भी नहीं हो सकता ॥ इस लिये सम्पूर्ण वेद मनुस्मृति तथा ऋषिप्रणीत शास्त्र, सत्पुरुषों का आचार और जिस २ कर्म में अपना आत्मा प्रसन्न रहे अर्थात् भय, शंका, लज्जा, जिन में न हो उन कर्मों का सेवन करना उचित है देखो ! जब कोई मिथ्याभाषण धोरी आदि की इच्छा करता है तभी उस के आत्मा में भय, शंका, लज्जा, अवश्य उत्पन्न होती है इस लिये वह कर्म करने योग्य नहीं ॥ मनुष्य सम्पूर्ण शास्त्र, वेद, सत्पुरुषों का आचार अपने आत्मा के अविरुद्ध अच्छे प्रकार विचार कर ज्ञान नेत्र करके श्रुति प्रमाण से स्वात्मानुकूल धर्म में प्रवेश करे ॥ क्योंकि जो मनुष्य वेदोक्त धर्म और जो वेद से अविरुद्ध स्मृत्युक्त धर्म का अनुष्ठान करता है वह इस लोक में कीर्ति और मर के सर्वोत्तम सुख को प्राप्त होता है ॥ श्रुति वेद और स्मृति धर्मशास्त्र को कहते हैं इन से सब कर्तव्याऽकर्तव्य का नियम करना चाहिये जो कोई मनुष्य वेद और वेदानुकूल प्राप्त ग्रन्थों का पपमान करे उस को श्रेष्ठ लोग शान्ति वाञ्छ कर दें क्योंकि जो वेद की निन्दा करता है वही नास्तिक कहाता है ॥ इस लिये वेद, स्मृति, सत्पुरुषों का आचार और अपने आत्मा के ज्ञान से अविरुद्ध प्रियाचरण ये चार धर्म के लक्षण अर्थात् प्रभो से धर्म लक्षित होता है ॥

परन्तु जो द्रव्यों के लोभ और काम अर्थात् विषय सेवा में फसा हुआ नहीं होता उसी को धर्म का ज्ञान होता है जो धर्म को जानने को इच्छा करें उन के लिये वेद ही परम प्रमाण है ॥ इसी से सब मनुष्यों को उचित है कि वेदीक्त मुख्यरूप कर्मों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने सन्तानों का निषेकादि संस्कार करें जो इस जन्म वा पर जन्म में पवित्र करने वाला है ॥ ब्राह्मण के शीलहवन, क्षत्रिय के वारिसर्वे और वैश्य के चौबीसवें वर्ष में केशान्त कर्म और मुण्डन हो जाना चाहिये अर्थात् इस विधि के पश्चात् केवल शिखा को रख के अन्य डाढ़ी, मूँछ और शिर के बाल सदा मुड़वाते रहना चाहिये अर्थात् पुनः कभी न रखना और जो शीत प्रधान देश हो तो कामचार है चाहे जितने केश रखे और जो अतिउष्ण देश हो तो सब शिखासहित छेदन करा देना चाहिये क्योंकि शिर में बाल रहने से उष्णता अधिक होती है और उस से बुद्धि कम हो जाती है डाढ़ी मूँछ रखने से भोजन पान अच्छे प्रकार नहीं होता और उच्छिष्ट भी बालों में रह जाता है ॥

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु ।

संयमे यत्नमातिष्ठेद्दिहान् यन्तेव वाजिनाम् ॥

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषसृच्छत्यसंशयम् ।

सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्द्धते ॥

वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च ।

न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित् ॥

वशो कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा ।

सर्वान् संसाधयेदर्थानाक्षिप्वन् योगतस्तनुम् ॥

श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः ।

न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥

नापृष्टः कस्यचिद् ब्रूयान्न चान्यायेन पृच्छतः ।

जानन्नपि हि मेधावी जडवह्लोक आचरेत् ॥

वित्तं बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पञ्चमी ।
 एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम् ॥
 अज्ञो भवति वै वालः पिता भवति मन्त्रदः ।
 अज्ञं हि वालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम् ॥
 न हायनैर्न पलितैर्न वित्तेन न बन्धुभिः ।
 ऋषयश्चक्रिरे धर्मं योऽनूचानः स नो महान् ॥
 विप्राणां ज्ञानतो ज्यैष्ठ्यं क्षत्रियाणान्तु वीर्यतः ।
 वैश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मतः ॥
 न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः ।
 यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥
 यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः ।
 यश्च विप्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नाम विभ्रति ॥
 अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोनुशासनम् ।
 वाक् चैव मधुरा श्लक्ष्णा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥
 मनु० अ० २ ॥ श्लो० ८८ । ९३ । ९४ । ९७ । १०० ।
 ९८ । ११० । १३६ । १५३-१५७ । १५९ ॥

मनुष्य का यही मुख्य आचार है कि जो इन्द्रियों वित्त को हरण करने वाले विषयों में प्रवृत्त कराती हैं उन को रोकने में प्रयत्न करे जैसे घोंड़े को सारथि रोक कर शूद्र मार्ग में चलाता है इस प्रकार इन को अपने वश में करके अधर्म-मार्ग से हटा के धर्ममार्ग में सदा चलाया करे ॥ क्योंकि इन्द्रियों का विषयासक्ति और अधर्म में चलाने से मनुष्यनिश्चित दोष को प्राप्त होता है और जब इन को जीत कर धर्म में चलाता है तभी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है ॥ यह नियम है कि जैसे अग्नि में इन्धन और घी, डालने से बढ़ता जाता है वैसे ही कामों के उपभोग से काम शान्त कभी नहीं होता किन्तु बढ़ता ही जाता है इस लिये मनुष्य को विषयासक्त कभी न होना चाहिये ॥ जो अलितेन्द्रिय पुरुष है उस को विप्रदृष्ट कहते हैं उस के करने से न वेदज्ञान, न त्याग, न व्रत, न

निश्चय और न धर्माचरण सिद्धि की प्राप्ति होती है किन्तु ये सब जितेन्द्रिय धार्मिक जन की सिद्ध होते हैं ॥ इस लिये पांच कर्मेन्द्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय और ग्यारहवें मन को अपने वश में करके युक्ताहार विहार योग से शरीर की रक्षा करता हुआ सब अर्थों की सिद्ध करे ॥ जितेन्द्रिय उस को कहते हैं कि जो सुति सुन के हर्ष और निन्दा सुन के शोक अच्छा स्पर्श करके सुख और दुष्ट स्पर्श से दुःख सुन्दररूप देख के प्रसन्न और दुष्टरूप देख अप्रसन्न उत्तम भोजन करके आनन्दित और निक्षुब्ध भोजन करके दुःखित सुगन्ध में रुचि और दुर्गन्ध में अरुचि नहीं करता ॥ कभी विना पूछे वा अन्याय से पूछने वाले को कि जो कपट से पूछता हो उस को उत्तर न देवे उन के सामने बुद्धिमान् जड़ के समान रहे हां जो निष्कपट और जिज्ञासु हां उन को विना पूछे भी उपदेश करे ॥ एक धन, दूसरे बन्धु कुटुम्ब कुल, तीसरी अवस्था, चौथा उत्तम कर्म और पांचवीं श्रेष्ठ विद्या ये पांच मान्य के स्थान हैं परन्तु धन से उत्तम बन्धु, बन्धु से अधिक अवस्था, अवस्था से श्रेष्ठ कर्म और कर्म से पवित्र विद्यावाले, उत्तरोत्तर अधिक माननीय हैं ॥ क्योंकि चाहे सौ वर्ष का भी हो परन्तु जो विद्या विज्ञानरहित है वह बालक और जो विद्या विज्ञान का दाता है उस बालक को भी वृद्ध मानना चाहिये क्योंकि सब शास्त्र आभविद्वान् अज्ञानी को बालक और ज्ञानी को पिता कहते हैं ॥ अधिक वर्षों के बीतने, श्वेत बाल के होने, अधिक धन से और बड़े कुटुम्ब के होने से वृद्ध नहीं होता किन्तु ऋषि महात्माओं का यही निश्चय है कि जो हमारे बीच में विद्या विज्ञान में अधिक है वही वृद्ध पुरुष कहाता है ॥ ब्राह्मण ज्ञान से, क्षत्रिय बल से, वैश्य धन धान्य से और शूद्र जन्म अर्थात् अधिक आयु से वृद्ध होता है ॥ शरीर के बाल श्वेत होने से वृद्ध नहीं होता किन्तु जो युवा विद्या पढ़ा हुआ है उसी को विद्वान् लोग बड़ा जानते हैं ॥ और जो विद्या नहीं पढ़ा है वह जैसा काष्ठ का छाथी तथा चमड़े का सृग होता है वैसा अविद्वान् मनुष्य जगत् में नाममात्र मनुष्य कहाता है ॥ इस लिये विद्या पढ़ विद्वान् धर्मात्मा हो कर निर्वैरता से सब प्राणियों के कल्याण का उपदेश करे और उपदेश में वाणी मधुर और कोमल बोले जो सत्यापदेश से धर्म की वृद्धि और अधर्म का नाश करते हैं वे पुरुष धन्य हैं ॥ नित्यज्ञान, वस्त्र, अन्न, पान, स्थान, सब शुद्ध रखे क्योंकि इन के शुद्ध होने में चित्त की शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त हो कर पुरुषार्थ बढ़ता है शीघ्र उत्तना करना योग्य है कि जितने से मल दुर्गन्ध दूर हो जाय ॥

आचारः प्रथमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त्त एव च ॥

मनु० अ० १ । १०८ ॥

जो सत्यभाषणादि कर्मों का आचरण करना है वही वेद और स्मृति में कहा हुआ आचार है।

मा नो वधीः पितरं मोत मातरम् ॥

यजुः० अ० १६ । मं० १५ ॥

आचार्य्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ।

अथर्व० कां० ११ । व० १५ । मं० १७ ॥

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्य्यदेवो भव । अति-
थिदेवो भव । तैत्तिरीयारण्यके ॥ प्र० ७ । अनु० ११ ॥

माता, पिता, आचार्य्य और अतिथि की सेवा करना पूजा कहाती है और जिस २ कर्म से जगत् का उपकार हो वह २ कर्म करना और हानिकारक छोड़ देना ही मनुष्य का मुख्य कर्त्तव्य कर्म है कभी नास्तिक, लम्पट, विश्वास-घाती, मिथ्यावादी, स्वार्थी, कपटी, छली, आदि दुष्ट मनुष्यों का संग न करे प्राप्त जो सत्यवादी धर्मात्मा प्ररोपकारप्रिय जन हैं उन का सदा संग करने ही का नाम श्रेष्ठाचार है। (प्रश्न) आर्यावर्त्त देशवासियों का आर्यावर्त्त देश से भिन्न २ देशों में जाने से आचार नष्ट हो जाता है वा नहीं? (उत्तर) यह बात मिथ्या है, क्योंकि जो बाहर भीतर की पवित्रता करनी सत्यभाषणादि आचरण करना है वह जहाँ कहीं करे गा आचार और धर्म भ्रष्ट कभी न होगा और जो आर्यावर्त्त में रह कर भी दुष्टाचार करे गा वही धर्म और आचार भ्रष्ट कहावे गा जो ऐसा ही होता तो :—

मेरोर्हरेश्च द्वे वर्षे वर्षं हैमवतं ततः ।

क्रमेणैव व्यतिक्रम्य भारतं वर्षमासदत् ॥

स देशान् विविधान् पश्यंश्चानिहूणनिपेवितान् ॥

महाभार० शान्ति० मोक्षध० । अ० ३२७ ।

ये लोको भारत शान्तिपर्व मोक्ष धर्म में व्यास शुक संवाद में हैं—अर्थात् एक समय व्यास जी अपने पुत्र शुक और गिष्य सहित याताल अर्थात् जिस को इस समय “अमेरिका” कहते हैं उस में निवास करते थे शुकआचार्य्य ने पिता से एक प्रश्न पूछा कि आत्मविद्या इतनी ही है वा अधिक? व्यास जी ने ज्ञान कर उसवात का प्रत्युत्तर न दिया क्योंकि उस बात का उपदेश कर चुके थे, दूसरे की सची

के लिये अपने पुत्रशुक्र से कहा कि हे पुत्र ? तू मिथिलापुरी में जा कर यही प्रश्न जनक राजा से कर वह इस का यथायोग्य उत्तर देगा । पिता का वचन सुन कर शुक्राचार्य पाताल से मिथिलापुरी की ओर चले प्रथम मेरु अर्थात् हिमालय से ईशान उत्तर और वायव्य कोण में जो देश बसते हैं उन का नाम हरिवर्ष था अर्थात् हरि कहते हैं बंदर को उस देश के मनुष्य अब भी रक्तमुख अर्थात् बानर के समान भूरे नेत्र वाले होते हैं जिन देशों का नाम इस समय "यूरोप" है उन्हीं को संस्कृत में "हरिवर्ष" कहते थे उन देशों को देखते हुए और जिन को शृणु "यहूदी" भी कहते हैं उन देशों को देख कर चीन में आये चीन से हिमालय और हिमालय से मिथिलापुरी को आये । और श्रीकृष्ण तथा अर्जुन पाताल में अश्व-तरी अर्थात् जिस को अग्निधान नौका कहते हैं उस पर बैठ के पाताल में जा के महा-राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में उद्दालक ऋषि को ले आये थे । धृतराष्ट्र का विवाह गांधार जिस को "कांधार" कहते हैं वहां की राजपुत्री से हुआ मद्रौ पाण्डु की स्त्री "ईरान्" के राजा की कन्या थी और अर्जुन का विवाह पाताल में जिस को "अमेरिका" कहते हैं वहां के राजा की लड़की उलोपी के साथ हुआ था जो देशदेशान्तर, हीपहीपान्तर में न जाते होते तो ये सब बातें क्यों कर हो सकतीं ? मनुस्मृति में जो समुद्र में जाने वाली नौका पर कर लेना लिखा है वह भी आर्यावर्त से हीपान्तर में जाने के कारण है । और जब महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था उस में सब भूगोल के राजाओं को बुलाने को निमंत्रण देने के लिये भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव चारों दिशाओं में गये थे जो दोष मानते होते तो कभी न जाते सो प्रथम आर्यावर्तदेशीय लोग व्यापार, राजकार्य और भ्रमण के लिये सब भूगोल में घूमते थे और जो आज कल कूत क्रात और धर्मनष्ट होने की शंका है वह केवल मूर्खों के बहकाने और अज्ञान बढ़ने से है जो मनुष्य देश-देशान्तर और हीपहीपान्तर में जाने आने में शंका नहीं करते वे देशदेशान्तर के अनेकविध मनुष्यों के समागम, रीति, भांति, देखने अपना राज्य और व्यवहार बढ़ाने से निर्भय शूरवीर होने लगते और अच्छे व्यवहार का ग्रहण बुरी बातों के छोड़ने में तत्पर हो के बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं भला जो महाभ्रष्ट म्लेच्छकुलो-त्पन्न वैश्या आदि के समागम से आचारभ्रष्ट धर्महीन नहीं होते किन्तु देशदेशान्तर के उत्तम पुरुषों के साथ समागम में कूत और दोष मानते हैं !!! यह केवल मूर्खता की बात नहीं तो क्या है? हां, इतना कारण तो है कि जो लोग मांस-भक्षण और मद्यपान करते हैं उन के शरीर और वीर्यादि धातु भी दुर्गन्धादि से दूषित होते हैं इस लिये उन के संग करने से आर्यों को भी यह कुलक्षण न लग जाये यह तो ठीक है परन्तु जब इन से व्यवहार और गुणग्रहण करने में कोई भी दोष वा पाप नहीं है किन्तु इन के मद्यपानादि दोषों को छोड़ गुणों को ग्रहण

करें तो कुछ भी हानि नहीं जब इन के स्पर्श और देखने से भी सूखें जन पाप गिनते हैं इसी से उन से युद्ध कभी नहीं कर सकते क्यों कि युद्ध में उन को देखना और स्पर्श होना अवश्य है सज्जन लोगों को राग द्वेष अन्याय मिथ्याभाषणादि दोषों को छोड़ निर्वैर, प्रीति परोपकार सज्जनतादि का धारण करना उत्तम आचार है और यह भी समझ लें कि धर्म हमारे आत्मा और कर्तव्य के साथ है जब हम अच्छे काम करते हैं तो हम को देशदेशान्तर और हीपहीपान्तर जाने में कुछ भी दोष नहीं लग सकता दोष तो पाप के काम करने में लगते हैं। हां, इतना अवश्य चाहिये कि विद्वोक्त धर्म का निश्चय और पाखण्डमत का खरूदन करना अवश्य सीख लें जिस से कोई हम को झूठा निश्चय न करा सके। क्या बिना देशदेशान्तर और हीपहीपान्तर में राज्य या व्यापार किये स्वदेश की उन्नति कभी हो सकती है ? जब स्वदेश ही में स्वदेशी लोग व्यवहार करते और परदेशी स्वदेश में व्यवहार या राज्य करें तो बिना दारिद्र्य और दुःख के दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। पाखण्डी लोग यह समझते हैं कि जो हम इन को विद्या पढ़ावे गे और देशदेशान्तर में जाने की आज्ञा देवेगे तो वे बुद्धिमान् हो कर हमारे पाखण्ड जाल में न फसने से हमारी प्रतिष्ठा और जीविका नष्ट हो जावेगी इसी लिये भोजन क्लान्तन में बन्धेड़ा पालते हैं कि वे दूसरे देश में न जा सकें। हां, इतना अवश्य चाहिये कि मद्य मांस का ग्रहण कदापि भूल कर भी न करें क्या सब बुद्धिमानों ने यह निश्चय नहीं किया है कि जो राजपुरुषों में युद्ध समय में भी चौका लगा कर रसाईवना के खाना अवश्य पराजय का हेतु है ? किन्तु जन्त्रिय लोगों का युद्ध में एक हाथ से रोटी खाते जल पीते जाना और दूसरे हाथ से शत्रुओं को घोंड़े, हाथी, रथ पर चढ़ वा पैदल हो के मारते जाना अपना पिजय करना ही आचार और पराजित होना अनाचार है। इसी सूढ़ता से इन लोगों ने चौका लगाते २ विरोध करते कराते सब स्वातन्त्र्य, आनन्द, धन, राज्य, विद्या और पुत्रपार्थ पर चौका लगा कर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, और इच्छा करते हैं कि कुछ पदार्थ मिले तो पका कर खायें परन्तु वैसा न होने पर जानो सब आर्यावर्त देश भर में चौका लगा के सर्वथा नष्ट कर दिया है। हां जहाँ भोजन करें उस स्थान को धोने, लेपन करने, भाड़ू लगाने, कूरा कंकट दूर करने में प्रयत्न अवश्य करना चाहिये न कि नुसलमान वा ईसाइयों के समान भ्रष्ट पाकगाला करना। (प्रश्न) सखरी निखरी क्या है ? (उत्तर) सखरी जो जल आदि में अन्न पकाये जाते और जो घी दूध में पकाते हैं वह निखरी अर्थात् 'घोखी'। यह भी इन धूर्तों का चलाया हुआ पाखण्ड है क्योंकि जिस में घी दूध अधिक लगे उस को खाने में खाद् और उदर में चिकना पदार्थ अधिक लावे इसी लिये यह प्रपञ्च रचा है नहीं तो जो अग्नि वा काल से पका हुआ पदार्थ पका और न पका हुआ कच्चा है जो पका खाना और कच्चा न

खाना है यह भी सर्वत्र ठीक नहीं क्योंकि चणू आदि कर्ष भी खाये जाते हैं ।
 (प्रश्न) हिल अपने हाथ से रसोई बना के खावे वा शूद्र के हाथकी बनाई खावे ?
 (उत्तर) शूद्र के हाथ की बनाई खावे, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णस्य
 स्त्री पुत्रप विद्या पढ़ाने, राज्यपालने और पशुपालन खेती और व्यापार के काम
 में तत्पर रहें और शूद्र के पात्र तथा उस के घर का पका हुआ अन्न आपत्काल
 के विना न खावे सुनो प्रमाणः—

आर्याधिष्ठिता वा शूद्राः संस्कर्तारः स्युः ॥

यह आपस्तम्ब का सूत्र है । आर्यों के घर में शूद्र अर्थात् सूखें स्त्री पुत्रप
 पाकादि सेवा करें परन्तु वे शरीर वस्त्र आदि से पवित्र रहें आर्यों के घर में जब
 रसोई बनावे तब मुख बांध के बनावे क्योंकि उन के मुख से उच्छिष्ट और निकला
 हुआ ज्ञास भी अन्न में न पड़े । आठवें दिन क्षीर नखछेदन करावे स्नान करके
 पाक बनाया करें आर्यों को खिला के आप खावे । (प्रश्न) शूद्र के कूप हुए पके
 अन्न के खाने में जब दोष लगाते हैं तो उस के हाथ का बनाया कैसे खा सकते
 हैं ? (उत्तर) यह बात कपोलकल्पित भ्रंठी है क्योंकि जिन्होंने ने गुड़, चीनी, घृत,
 दूध, पिशान, शाक, फल, मूत्र, खाया उन्होंने ने जानो सब जगत् भर के हाथ का
 बनाया और उच्छिष्ट खा लिया क्योंकि जब शूद्र, चमार, भंगी, सुसलमान, ईसाई,
 आदि लोग खेतों में से ईख को काटते, छीलते, पील कर रस निकालते हैं तब
 मलमूत्रोत्सर्ग करके उन्हीं विना धोये हाथों से कूते, उठाते, धरते आधा सांठा
 चूस रस पी के आधा उसी में डाल देते और रस पकाते समय उस रस में रोटी
 भी पका कर खाते हैं जब चीनी बनाते हैं तब पुराने जूते कि जिस के तले में
 विषा, मूत्र, गोबर, धूलो लगी रहती है उन्ही जूतों से उस को रगड़ते हैं दूध
 में अपने घर के उच्छिष्ट पात्रों का जल डालते उसी में घृतादि रखते और आटा
 पीसने समय भी वैसे ही उच्छिष्ट हाथों से उठाते और पीसीना भी आटा में टप-
 कता जाता है इत्यादि और फल मूलकंद में भी ऐसी ही लीला होती है जब
 इन पदार्थों को खाया तो जानो सब के हाथ का खा लिया । (प्रश्न) फल, मूत्र,
 कंद और रस इत्यादि अदृष्ट में दोष नहीं ? (उत्तर) अच्छा तो भंगी वा सुस-
 लमान अपने हाथों से दूसरे स्थान में बना कर तुम को आ के देवे तो खा लोगे
 वा नहीं ? जो कही कि नहीं तो अदृष्ट में भी दोष है । हां; सुसलमान, ईसाई
 आदि मद्य, मांसाहारियों के हाथ के खाने में आर्यों को भी मद्यमांसादि खाना,
 पीना अपराध पीछे लग पड़ता है परन्तु आपस में आर्यों का एक भोजन होने
 में कोई भी दोष नहीं देखता जब तक एक मत, एक हानि लाभ, एक सुख,
 दुःख परस्पर न मारें तब तक उन्नति होना बहुत कठिन है । परन्तु केवल खाना
 पीना ही एक होने से सुधार नहीं हो सकता किन्तु जब तक बुरी बातें नहीं

छोड़ते और अच्छी बातें नहीं करते तब तक बढ़ती के बढ़ते हानि होती है। विदेशियों के आर्यावर्त में राज्य होने का कारण आपस की फूट, मतभेद, ब्रह्मचर्य का सेवन न करना, विद्या न पढ़ना पढ़ाना वा वाह्यावस्था में अखंडर विवाह, विषयासक्ति, मिथ्याभाषणादि कुलक्षण, वेदविद्या का अपचार आदि दुर्कर्म हैं जब आपस में भाई २ लड़ते हैं तभी तीसरा विदेशी आ कर पंच वन बैठता है। क्या तुम लोग महाभारत की बातें जो पांच सहस्र वर्ष के पहिले हुईं थीं उन की भी भूल गये ? देखो ! महाभारत युद्ध में सब लोग लड़ाई में सवारियों पर खाते पीते थे आपस की फूट से कौरव, पांडव और वाद्वी का सत्यानाश हो गया सो तो हो गया परन्तु अब तक भी वही रोग पीछे लगा है न जाने यह भयंकर राक्षस कभी छूटे गा वा आर्यों को सब सुखों से छुड़ा कर दुःखरागर में डुबा मारे गा ? उसी दुष्टे दुर्योधन गोत्रहत्यारे, स्वदेशयिनाशक, नीच के दुष्टमार्ग में आर्य लोग अब तक भी चल कर दुःख बढ़ा रहे हैं परमेश्वर कृपा करे कि यह राजरोग हम आर्यों में से नष्ट हो जाय। अभक्ष्य भक्ष्य दो प्रकार का होता है एक धर्मशास्त्रोक्त दूसरा वैद्यकशास्त्रोक्त जैसे धर्मशास्त्र में :-

अभक्ष्यापि हिजातीनाममेध्यप्रभवाणि च ॥ मनु० ५।५।

हिज्ज अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को मत्स्य विष्ठा मूत्रादि के संसर्ग से उत्पन्न हुए शाक फल मूलादि न खाना।

वर्जयेन्मधु मांसं च । मनु० २ । १७७ ॥

जैसे अनेक प्रकार के मद्य, गांजा, भांग, अफीम आदि :-

बुद्धिं लुम्पति यद् द्रव्यं मदकारि तदुच्यते ।

श्लो २ बुद्धि का नाश करने वाले पदार्थ हैं उन का सेवन कभी न करे और जितने अन्न सड़े, विगड़े, दुर्गन्धादि से दूषित, अच्छे प्रकार न बने हुए और मद्यमांसाहारो स्नेह कि जिन का शरीर मद्य मांस के परमाणुओं ही से पूरित है उन के हाथ का न खावे जिस में उपकारक प्राणियों की हिंसा अर्थात् जैसे एक गाय के शरीर से दूध, घी, बैल गाय उत्पन्न होने से एक पीढ़ी में चार लाख पचहत्तर सहस्र छःसौ मनुष्यों को सुख पहुंचता है वैसे पशुओं को न मारे, न मारने दें। जैसे किसी गाय से बीस सेर और किसी से दो सेर दूध प्रतिदिन होये उस का मध्य भाग ग्यारह सेर प्रत्येक गाय से दूध होता है, कोई गाय अठारह और कोई छः महीने तक दूध देती है उस का भी मध्य भाग बारह महीने हुए अब प्रत्येक गाय के जन्म भर के दूध से २४८६० (बीबीन सहस्र नौ सौ साठ) मनुष्य एक बार में दूध हो सकते हैं उस के दूध बरियाँ दूध बरूहे होते हैं उन में से दो सर

जायें तो भी दश रहे उन में से पांच बकड़ियों के जन्म भर के दूध को मिला कर १२४८०० (एक लाख, चौबीस सहस्र आठ सौ) मनुष्य तृप्त हो सकते हैं अब रहे पांच बैल के जन्म भर में ५००० (पांच सहस्र) मन अन्न न्यून से न्यून उत्पन्न कर सकते हैं उस अन्न में से प्रत्येक मनुष्य तीन पाव खावे तो अढ़ाई लाख मनुष्यों की तृप्ति होती है दूध और अन्न मिला ३७४८०० (तीन लाख, चौहत्तर सहस्र, आठ सौ) मनुष्य तृप्त होते हैं दोनों संख्या मिला के एक गाय की एक पीढ़ी में ४७५६०० (चारलाख, पचहत्तर सहस्र, ऋः सौ) मनुष्य एक बार पालित होते हैं और पीढ़ी पर पीढ़ी बढ़ा कर लेखा करें तो असंख्यात मनुष्यों का पालन होता है इस से भिन्न बैल गाड़ी सवारी भार उठाने आदि कर्मों से मनुष्यों के बड़े उपकारक होते हैं तथा गाय दूध में अधिक उपकारक होती है और जैसे बैल उपकारक होते हैं वैसे भैंसे भी हैं परन्तु गाय के दूध घी से जितने बुद्धिबुद्धि से लाभ होते हैं उतने भैंसे के दूध से नहीं इस से सुखोपकारक आर्यों ने गाय को गिना है । और जो कोई अन्य विद्वान् होगा वह भी इसी प्रकार समझेगा बकरी के दूध से २५६२० (पच्चीस सहस्र बीस बीस) आदमियों का पालन होता है जैसे हाथी, घोड़े, जंट, भेड़, गदहे आदि से भी बड़े उपकार होते हैं । इन पशुओं को मारने वालों को सब मनुष्यों की हत्या करने वाले जानियेगा । देखो ! जब आर्यों का राज्य था तब ये महोपकारक गाय आदि पशु नहीं मारे जाते थे तभी आर्यावर्त वा अन्य भूगोल देशों में बड़े आनन्द में मनुष्यादि प्राणि वर्तते थे क्योंकि दूध, घी, बैल आदि पशुओं की बहुताई होने से अन्न रस पुष्कल प्राप्त होते थे जब से विदेशी मांसाहारी इस देश में आके गो आदि पशुओं के मारने वाले मद्यपानी राज्याधिकारी हुए हैं तब से क्रमशः आर्यों के दुःख की बढ़ती होती जाती है क्योंकि:-

नष्टे मूले नैव फलं न पुष्पम् । वृद्ध्याणक्य अ० १०। १३ ॥

जब वृक्ष का मूल ही काट दिया जाय तो फल फूल कहां से हों ? (प्रश्न) जो सभी अहिंसक हो जायें तो व्याघ्रादि पशु इतने बढ़ जायें कि सब गाय आदि पशुओं को मार खांय तुम्हारा पुरुषार्थ ही व्यर्थ हो जाय ? (उत्तर) यह राज-पुरुषों का काम है कि जो हानिकारक पशु वामनुष्य हों उन को दण्ड देवें और प्राण से भी विमुक्त कर दें । (प्रश्न) फिर क्या उन का मांस फेंक दें ? (उत्तर) चाहे फेंक दें चाहे कुत्ते आदि मांसाहारियों को खिला देवें वा जला देवें अथवा कोई मांसाहारी खावे तो भी संसार की कुछ हानि नहीं होती किन्तु उस मनुष्य का स्वभाव मांसाहारी हो कर हिंसक हो सकता है जितना हिंसा और चोरी विष्वासाघात छल कपट आदि से पदार्थों को प्राप्त होकर भोग करना है वह अभक्ष्य और अहिंसाधर्मादि कर्मों से प्राप्त हो कर भोजनादि करना भक्ष्य है जिन पदार्थों से

स्वास्थ्य रोगनाश बुद्धिबलपरान्तमहत्ति श्रीर आयुवृद्धि हीवे उन तंहुलादि गोधूम फल मूल कंद दूध घी मिष्टादि पदार्थों का सेवन यथायोग्य पाक मेत करके यथोचित समय पर मितार्हार भोजन करना सब भध्य कहता है। जितने पदार्थ अपनी प्रकृति से विकृत विकार करने वाले हैं उन २ का सर्वथा त्याग करना और जो २ जिस २ के लिये विहित हैं उन २ पदार्थों का ग्रहण करना यह भी भध्य है। (प्रश्न) एक साथ खाने में कुछ दोष है वा नहीं ? (उत्तर) दोष है, क्योंकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव श्रीर प्रकृति नहीं मिलती जैसे कृष्ठी आदि के साथ खाने से अच्छे मनुष्य का भी रुधिर विगड़ जाता है वैसे दूसरे के साथ खाने में भी कुछ विगड़ ही होता है सुधार नहीं इसी लिये:—

नोच्छिष्टं कस्य चिद्दद्यान्नाद्याञ्चैव तथान्तरा ।

नचैवात्यशनं कुर्यान्न चोच्छिष्टः कचिद् वृजेत् ॥ मनु० २ । ५६ ॥

न किसी को अपना छूटा पदार्थ दे और न किसी के भोजन के बोध आप खावे न अधिक भोजन करे और न भोजन किये पश्चात् हाथ सुन्न धीये बिना कहीं दूधर उधर जाय। (प्रश्न) "गुरोरोच्छिष्टभोजनम्" इस वाक्य का क्या अर्थ होगा ? (उत्तर) इस का यह अर्थ है कि गुरु के भोजन किये पश्चात् जो कुछ श्रद्ध शुद्ध स्थित है उस का भोजन करना अर्थात् गुरु को प्रथम भोजन करा के पश्चात् शिष्य को भोजन करना चाहिये। (प्रश्न) जो उच्छिष्टमात्र का निषेध है तो मक्खियों का उच्छिष्ट सहत, बछड़े का उच्छिष्ट दूध और एक घास खाने के पश्चात् अपना भी उच्छिष्ट होता है पुनः उन को भी न खाना चाहिये। (उत्तर) सहत कपनमात्र ही उच्छिष्ट होता है परन्तु वह बहुतसी औषधियों का सार प्राप्त, बछड़ा अपनी मा के बाहिर का दूध पीता है भीतर के दूध को नहीं पीसकता इस लिये उच्छिष्ट नहीं परन्तु बछड़े के पिये पश्चात् जल से उस की मा के स्नान धो कर शूद्र पात्र में दोहना चाहिये। और अपना उच्छिष्ट अपने को विकारकारक नहीं होता। देखो ! स्वभाव से यह बात सिद्ध है कि किसी का उच्छिष्ट कोई भी न खावे जैसे अपने मुख, नाक, काग, आंसू, उपस्य और गुह्योच्छ्रियों के मल-मूलादि के स्पर्श में घृणा नहीं होती वैसे किसी दूसरे के मल मूत्र के स्पर्श में होती है। इस से यह सिद्ध होता है कि यह व्यवहार रुष्टिक्रम से विपरीत नहीं है इस लिये मनुष्यमात्र को उचित है कि किसी का उच्छिष्ट अर्थात् जूठा न खाव। (प्रश्न) भला खो पुरुष भी परस्पर उच्छिष्ट न खावे ? (उत्तर) नहीं क्योंकि उन के भी शरीरों का स्वभाव भिन्न है। (प्रश्न) कहीं जो मनुष्यमात्र के हाथ की की हुई रसोई के खाने में क्या दोष है ? क्योंकि ब्राह्मण से ले के चांडाल पर्यन्त के शरीर हाड़, मांस, चमड़े के हैं और जैसे रुधिर ब्राह्मण के

शरीर में है वैसा ही चांडाल आदि के पुनः मनुष्यमात्र के हाथ की पकी हुई रसोई के खाने में क्या दोष है ? (उत्तर) दोष है, क्योंकि जिन उत्तम पदार्थों के खाने पीने से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के शरीर में दुर्गन्धादि दोष रहित रजवीर्य उत्पन्न होता है वैसा चांडाल और चांडाली के शरीर में नहीं । क्योंकि चांडाल का शरीर दुर्गन्ध के परमाणुओं से भरा हुआ होता है वैसा ब्राह्मणादि वर्णों का नहीं इस लिये ब्राह्मणादि उत्तम वर्णों के हाथ का खाना और चांडालादि नीच भंगी चमार आदि का न खाना । भला जब कोई तुम से पूछेगा कि जैसा चमड़े का शरीर सास, कन्या, पुत्रवधु, का है वैसा ही अपनी स्त्री का भी है तो क्या माता आदि स्त्रियों के साथ भी स्वस्त्री के समान वर्तोंगे ? तब तुम को संकुचित हो कर चुप ही रहना पड़ेगा जैसे उत्तम अन्न हाथ और मुख से खाया जाता है वैसे दुर्गन्ध भी खाया जा सकता है तो क्या मलादि भी खाओगे ? क्या ऐसा भी कोई हो सकता है ? (प्रश्न) जो गाय के गोबर से चौका लगाते हैं तो अपने गोबर से चौका क्यों नहीं लगाते ? और गोबर के चौके में जाने से चौका अशुद्ध क्यों नहीं होता ? (उत्तर) गाय के गोबर से वैसा दुर्गन्ध नहीं होता जैसा कि मनुष्य के मल से गोमय चिकना होने से शीघ्र नहीं उखड़ता न कपड़ा बिगड़ता न मलिन होता है जैसा मिट्टी से मल चढ़ता है वैसा सूखे गोबर से नहीं होता मट्टी और गोबर से किस स्थान का लेपन करते हैं वह देखने में अतिसुन्दर होता है और जहाँ रसोई बनती है वहाँ भोजनादि करने से घी, मिष्ठ और उच्छिष्ट भी गिरता है उस से मक्खी कीड़ी आदि बहुत से जीव मलिन स्थान के रहने से आते हैं जो उस में भाड़ू लेपनादि से शुद्ध प्रतिदिन न को जावे तो जानो पाखाने के समान वह स्थान ही जाता है इस लिये प्रतिदिन गोबर मिट्टी भाड़ू से सर्वथा शुद्ध रखना और जो पका मकान हो तो जल से धो कर शुद्ध रखना चाहिये इस से पूर्वोक्त दोषों की निवृत्ति हो जाती है । जैसे मियां जी के रसोई के स्थान में कहीं कोइला कहीं राख, कहीं लकड़ी, कहीं फूटी हांडी, कहीं जूठी रकेबी, कहीं हाड़, गोड़, पड़े रहते हैं और मक्खियों का तो क्या कहना ! वह स्थान ऐसा बुरा लगता है कि जो कोई अथ मनुष्य जा कर बैठे तो उसे वांत होने का भी संभव है और उस दुर्गन्ध स्थान के समान ही वही स्थान दीखता है । भला जो कोई इन से पूछे कि यदि गोबर से चौका लगाने में तो तुम दोष गिनते हो परन्तु बूल्हे में कंठे जलाने उस की आग से तमाखू पीने घर की भीति पर लेपन करने आदि से मियां जी का भी चौका भ्रष्ट हो जाता होगा इस में क्या सन्देह । (प्रश्न) चौके में बैठ के भोजन करना अच्छा वा बाहर बैठ के ? (उत्तर) जहाँ पर अच्छा रमणीय सुन्दर स्थान दीखे वहाँ भोजन करना चाहिये परन्तु आवश्यक युद्धादिकों में तो घाड़े आदि यानों

पर बैठ के वा खड़े २ भी खाना पीना अत्यन्त उचित है । (प्रथ) क्या अपने ही हाथ का खाना और दूसरे के हाथ का नहीं ? (उत्तर) जो प्रार्थी में श्रद्धा रीति से बनावे तो बराबर सब आर्यों के साथ खाने में कुछ भी हानि नहीं क्योंकि जो ब्राह्मणादि वर्णस्थ स्त्री पुरुष रसेई बनाने भीका देने वर्शन भाँड़े मांजने आदि बखेड़ों में पड़े रहें तो विद्यादि शुभ गुणों की वृद्धि कभी नहीं हो सके देखो ! महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भूगोल के राजा ऋषि मरुचि आये थे एक ही पाकशाला से भोजन किया करते थे जब से ईमाई सुसलमान आदि के मतमतान्तर चले, आपस में वैर विरोध हुआ उन्हीं ने मद्यपान गोमांसादि का खाना पीना स्वीकार किया उसी समय से भोजनादि में बखेड़ा हो गया । देखो ! कानुब कांधार ईरान, अमेरिका, यूरोप आदि देशों के राजाओं की कन्या गांधारी, मट्टी, उलोपी आदि के साथ आर्यावर्तदेशीय राजा लोग विवाह आदि व्यवहार करते थे शकुनि आदि कौरव पांडवों के साथ खाते पीते थे कुछ विरोध नहीं करते थे क्योंकि उस समय सर्व भूगोल में वैदिक एक मत था उसी में सब की निष्ठा थी और एक दूसरे का सुख दुःख हानि लाभ आपस में अपने समान समझते थे तभी भूगोल में सुख था अब तो बहुत से मतवाले होने से बहुतसा दुःख और विरोध बढ़ गया है इस का निवारण करना युधिष्ठानों का काम है । परमात्मा सब के मन में सत्य मत का ऐसा अंकुर डाले कि जिस से मिथ्या मत शीघ्र ही प्रलय को प्राप्त होँ इस में सब विद्वान् लोग विचार कर विरोध भाव छोड़ के आनन्द की बढ़ावे ॥

यह थोड़ा सा आचार अनाचार भ्रष्टाभ्रष्ट विषय में लिखा इस ग्रन्थ का पूर्वाह्न इसी दशमें समुल्लास के साथ पूरा हो गया । इन समुल्लासों में विशेष खण्डन-मण्डन इस लिये नहीं लिखा कि जब तक मनुष्य सत्यासत्य के विचार में कुछ भी सामर्थ्य न बढ़ाते तब तक स्थूल और सूक्ष्म खण्डनों के अभिप्राय को नहीं समझ सकते इस लिये प्रथम सब को सत्य शिक्षा का उपदेश करके अब उत्तरार्ह अर्थात् जिस में चार समुल्लास हैं उस में विशेष खण्डनमण्डन लिखेंगे इन चारों में से प्रथम समुल्लास में आर्यावर्तीय मतमतान्तर, दूसरे में जैनियों के, तीसरे में ईसाइयों और चौथे में सुसलमानों के मतमतान्तरों के खण्डनमण्डन के विषय में लिखेंगे और पश्चात् चौदहवें समुल्लास के अन्त में स्वमत भी दिखलाया जायगा जो कोई विशेष खण्डनमण्डन देखना चाहें वे इन चारों समुल्लासों में देखें परन्तु सामान्य करके कहीं २ दश समुल्लासों में भी कुछ ऐसा खण्डनमण्डन किया है इन चौदहसमुल्लासों को पक्षपात छोड़ न्यायदृष्टि से लो देखे गा उस के आत्मा में सत्य अर्थ का प्रकाश हो कर आनन्द होगा और जो घट दुराग्रह और ईर्ष्या से देखे सुनेगा उस को इस ग्रन्थ का अभिप्राय उद्यार्थ विदित होना बहुत

कठिन है इस लिये जो कोई इस को यथावत् न विचारगा वह इस का अभिप्राय न पा कर गीता खाया करेगा विद्वानों का यही काम है कि सत्याऽसत्य का निर्णय करके सत्य अहं असत्य का त्याग करके परम आनन्दित होते हैं वे ही गुणग्राहक पुण्य विद्वान् ही कर धर्म अर्थ काम और मोक्षरूप फलों को प्राप्त ही कर प्रसन्न रहते हैं ॥

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे सुभाषा-
विभूषित आचाराऽनाचारभक्ष्याऽभक्ष्यविषये दशमः समु-
च्छासः सम्पूर्णः समाप्तोऽयम्पूर्वार्द्धः ॥

उत्तरार्द्धः

अनुभूमिका

—:०:-*::०:—

यह बात सिद्ध है कि पांच सहस्र वर्षों के पूर्व वेद मत से भिन्न दूसरा कोई भी मत न था क्योंकि वेदोक्त सब बातें विद्या से अविरुद्ध हैं, वेदों की अप्रवृत्ति होने का कारण महाभारत युद्ध हुआ। इन की अप्रवृत्ति से अविद्याऽन्धकार के भूगोल में विरुद्ध होने से मनुष्यों की बुद्धि भ्रमयुक्त हो कर जिस के मन में जैसा आया वैसा मत चलाया उन सब मतों में ४ चार मत अर्थात् जो वेदविरुद्ध पुराणी, जैनी, किरानी, और कुरानी, सब मतों के मूल हैं वे क्रम से एक के पीछे दूसरा तीसरा चौथा चला है अब इन चारों की शाखा एक सहस्र से कम नहीं हैं इन सब मतवादियों इन के चेलों और अन्य सब को परस्पर सत्याऽसत्य के विचार करने में अधिक परिश्रम न हो इस लिये यह ग्रन्थ बनाया है जो २ इस में सत्यमत का भण्डन और असत्य का खण्डन लिखा है वह सब को जनाना ही प्रयोजन समझा गया है इस में जैसी मेरी बुद्धि, जितनी विद्या और जितना इन चारों मतों के मूल ग्रन्थ देखने से बोध हुआ है उस को सब के आगे निवेदित कर देना मैं ने उत्तम समझा है क्योंकि विज्ञान गुप्त हुए का पुनर्निर्लना सहज नहीं है। पक्षपात छोड़ कर इस को देखने से सत्याऽसत्य मत सब को विदित हो जायगा यथात् सब को अपनी २ समझ के अनुसार सत्य मत का ग्रहण करना और असत्य मत को छोड़ना सहज होगा इन में से जो पुराणादि ग्रन्थों से शाखा शाखान्तररूप मत आर्यावर्त देश में चले हैं उन का संक्षेप से गुण दोष इस ११ वें समुदास में दिखाया जाता है इस मेरे काम से यदि उपकार न मानें तो विरोध भी न करें क्योंकि मेरा तात्पर्य किसी की हानि वा विरोध करने में नहीं किन्तु सत्याऽसत्य का निर्णय करने कराने का है। इसी प्रकार सय मनुष्यों को न्यायदृष्टि से वर्णना अति उचित है मनुष्यलक्ष्य का होना सत्याऽसत्य के निर्णय करने कराने के लिये है न कि वाद विवाद विरोध करने कराने के लिये

इसो मतसतान्तर के विवाद से जगत में जो २ अनिष्ट फल हुए होते हैं और
 होंगे उन को पक्षपातरहित विद्वज्जन जान सकते हैं जब तक इस मनुष्य जाति
 में परस्पर मिथ्या मत सतांतर का विरुद्ध वाद न छुटेगा तब तक अन्धोऽन्ध
 को ध्यानन्द न होगा यदि हम सब मनुष्य और विशेष विद्वज्जन ईर्ष्या द्वेष छोड़
 सत्याऽसत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना कराना
 चाहें तो हमारे लिये यह बात असाध्य नहीं है। यह निश्चय है कि इन विद्वानों
 की विरोध ही ने सब को विरोध जाल में फसा रक्खा है यदि ये लोग अपने प्रयो-
 जन में न फस कर सब के प्रयोजन को सिद्ध करना चाहें तो अभी ऐक्यमत हो
 जायें इस के होने को युक्ति इस ग्रन्थ की पूर्ति में लिखेंगे सर्वशक्तिमान् परमात्मा
 एकमत में प्रवृत्त होने का उस्ताह सब मनुष्यों के आत्माओं में प्रकाशित करे ॥
 अक्षमतिविस्तरेण विपश्चिहरशिरोमण्यिषु ॥

उत्तरार्द्धः

अथैकादशसमुद्रासारम्भः ॥

—:०:०:०:०:—

अथाऽऽर्यावर्तीयमतखण्डनमण्डने विधास्यामः ॥

अब आर्य लोगों के कि जो आर्यावर्त देश में बसने वाले हैं उन के मत का खण्डन तथा मण्डन का विधान करेगे । यह आर्यावर्तदेश ऐसा है जिस के मध्य भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं है इसी लिये इस भूमि का नाम सुवर्ण भूमि है क्योंकि यही सुवर्णादि रत्नों को उत्पन्न करती है इसी लिये सृष्टि की आदि में आर्य लोग इसी देश में आ कर वसे इस लिये हम सृष्टिविषय में कह आये हैं कि आर्य नाम उत्तम पुरुषों का है और आर्यों से भिन्न मनुष्यों का नाम दलु है जितने भूगोल में देश हैं वे सब इसी देश की प्रशंसा करते और आशा रखते हैं कि पारसमणि पत्थर जुना जाता है वह बात तो झूठी है परन्तु आर्यावर्त देश ही सच्चा पारसमणि है कि जिस को लोहेरूप दरिद्र विदेशी छूते के साथ ही सुवर्ण अर्थात् धनाढ्य हो जाते हैं ॥

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादयजन्मनः ।

स्वं स्वं चरित्रं शिञ्जेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥मनु० २।२०॥

सृष्टि से ले के पांच सहस्र वर्षों से पूर्वसमयपर्यन्त आर्यों का सार्वभौम चक्रवर्ती अर्थात् भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था अन्य देश में माण्डलिक अर्थात् छोटे २ राजा रहते थे क्योंकि कौरव, पांडव पर्यन्त यहाँ के राज्य और राजशासन में सब भूगोल के सब राजा और प्रजा चले थे क्योंकि यह मनुस्मृति जो सृष्टि की आदि में हुई है उस का प्रमाण है । इसी आर्यावर्तदेश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण अर्थात् विद्वानों से भूगोल के मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दस्यु, स्त्रीच्छ आदि सब अपने २ योग्य विद्या चरित्तों की शिक्षा और विद्याभ्यास करें और महाराजा युधिष्ठिर भी के राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध पर्यन्त यहाँ के राज्याधीन सब राज्य थे । सुनो ! चीन का भगदत्त, अमेरिका का ब्रह्मवाहन, यूरोपदेश का विद्यालया अर्थात् मार्गरे के सद्यः प्रांगु वाले यवन जिस की दूताग कह आये और ईरान का गला आदि सब राजा राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध में

आज्ञानुसार आये थे। जब रङ्गगण राजा थे तब रावण भी यहाँ के आधीन था जब रामचन्द्र जी के समय में विकृष्ट हो गया तो उस को रामचन्द्र जी ने दण्ड दे कर राज्य से नष्ट कर उस के भाई विभीषण को राज्य दिया था। स्वयंभव राजा से ले कर पाण्डव पर्यन्त आर्यों का चक्रवर्ती राज्य रहा तत्पश्चात् परस्पर के विरोध से लड़ कर नष्ट हो गये क्योंकि इस परमात्मा की सृष्टि में अभिमानी, अन्याय-कारी, अविद्वान् लोगों का राज्य बहुत दिन नहीं चलता और यह संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब बहुतसा धन असंख्य प्रयोजन से अधिक होता है तब आलस्य, पुरुषार्थरहितता, ईर्ष्या, द्वेष, विषयासक्ति और प्रमाद बढ़ता है इस से देश में विद्या सुशिक्षा नष्ट हो कर दुर्गुण और दुष्ट व्यसन बढ़ जाते हैं जैसे कि मद्य मांस सेवन, बाल्यावस्था में विवाह और स्वेच्छाचारादि दोष बढ़ जाते हैं और जब युद्धविभाग में युद्धविद्याकौशल और सेना इतनी बढ़े कि जिस का सामना करने वाला भूगोल में दूसरा न हो तब उग लोगों को पक्षपात अभिमान बढ़ कर अन्याय बढ़ जाता है जब ये दोष हो जाते हैं तब परस्पर में विरोध हो कर अथवा उन से अधिक दूसरे छोटे कुलों में से कोई ऐसा समर्थ पुरुष खड़ा होता है कि उन का पराजय करने में समर्थ होवे जैसे मुसलमानों की बादशाही के सामने शिवाजी गोविन्दसिंह जी ने खड़े हो कर मुसलमानों के राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया।

अथ किमेतैर्वा परेऽन्ये महाधनुर्धराश्चक्रवर्त्तिनः केचित् सु-
द्युम्नभूरियुम्नेन्द्रद्युम्नकुवलयश्वयैविनाश्ववद्ध्यश्वश्वपतिशश-
विन्दुहरिश्चन्द्राऽस्वरीषननक्तुसर्वातिययात्यनरण्याक्षसेनाद-
यः । अथ मरुत्तभरतप्रभृतयो राजानः । मैत्र्युपनि० प्र०
१ । ख० ४ ॥

इत्यादि प्रमाणीं से सिद्ध है कि सृष्टि से ले कर महाभारत पर्यन्त चक्रवर्ती सावभौम राजा आर्यकुल में ही हुए थे अब इन के सन्तानों का अभाग्योदय होने से राजभ्रष्ट हो कर विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहे हैं जैसे यहाँ सुद्युम्न, भूरि-
द्युम्न, इन्द्रद्युम्न, कुवलयश्व, यौवनाश्व, षड्युम्न, अश्वपति, शशविन्दु, हरिश्चन्द्र, अस्वरीष, ननक्तु, सर्वाति, ययाति, अनरण्य, अक्षसेन, मरुत्त, और भरत सार्वभौम सबभूमि में प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजाओं के नाम लिखे हैं वैसे स्वयंभवादि चक्रवर्ती राजाओं के नाम स्पष्ट मनुस्मृति महाभारतादि ग्रन्थों में लिखे हैं। इस को मिथ्या करना अज्ञानी और पक्षपातियों का काम है। (प्रश्न) जो आग्नेयस्त्र आदि विद्या लिखी हैं वे सत्य हैं वा नहीं? और तोप तथा बन्दूक तो उस समय

में थीं वा नहीं ? (उत्तर) यह बात सच्ची है ये शस्त्र भी थे क्योंकि पदार्थविद्या से इन का संभव है । (प्रश्न) क्या ये देवताओं के मन्त्रों से सिद्ध होते थे ? (उत्तर) नहीं, ये सब बातें जिन से अस्त्र शस्त्रों को सिद्ध करते थे वे "मंत्र" अर्थात् विचार से सिद्ध करते और चलाते थे और जो मन्त्र अर्थात् शब्दमय होता है उस से कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता और जो कोई कहे कि मंत्र से अग्नि उत्पन्न होता है तो वह मन्त्र के जप करने वाले के हृदय और जिह्वा को भस्म कर देवे मारने जाय शत्रुको और मर रहै आप इस लिये मन्त्र नाम है विचार का जैसा "राजमन्त्री" अर्थात् राजकर्मों का विचार करने वाला कहलाता है वैसा मंत्र अर्थात् विचारसे सब सृष्टि के पदार्थों का प्रथम ज्ञान और पश्चात् क्रिया करने से अनेक प्रकार के पदार्थ और क्रिया कौशल उत्पन्न होते हैं जैसे कोई एक लोहे का बरत वा गोला बना कर उस में ऐसे पदार्थ रखे कि जो अग्नि के लगाने से वायु में धुआँ फैलने और सूर्य की किरण वा वायु के स्पर्श होने से अग्नि जन्म उठे इसी का नाम आग्नेयास्त्र है । जब दूसरा इस का निवारण करना चाहै तो उसी पर बारणास्त्र छोड़ दे अर्थात् जैसे शत्रु ने शत्रु की सेना पर आग्नेयास्त्र छोड़ कर नष्ट करना चाहा वैसे ही अपनी सेना की रक्षार्थ सेनापति बारणास्त्र से आग्नेयास्त्र का निवारण कर वह ऐसे द्रव्यों के योग से होता है जिस का धुआँ वायु के स्पर्श होते ही बहल हो के भूट बर्षने लग जावे अग्नि को बुझा देवे । ऐसे ही नाग-फांस अर्थात् जो शत्रु पर छोड़ने से उस के अंगों को जकड़ के बाध लेता है वैसे ही एक मोहनास्त्र अर्थात् जिस में नशे की बीज डालने से जिस के धुंए के लगने से सब शत्रु की सेना निद्रास्थ अर्थात् मूर्च्छित हो जाय इसी प्रकार सश-शस्त्रास्त्र होते थे और एक तार से वा शीसे से अथवा किसी और पदार्थ से विद्युत् उत्पन्न करके शत्रुओं का नाश करते थे उस को भी आग्नेयास्त्र तथा पाशुपतास्त्र कहते हैं । "तोप" और "बन्दूक" ये नाम अन्यदेश भाषा के हैं सं-स्कृत और आर्यावर्तीय भाषा के नहीं किन्तु जिस को विदेशी जन तोप कहते हैं संस्कृत और भाषा में उस का नाम "शतघ्नी" और जिस को बन्दूक कहते हैं उस को संस्कृत और आर्याभाषा में "भुगुण्डी" कहते हैं जो संस्कृत विद्या को नहीं पढ़े वे भ्रम में पड़ कर कुछ का कुछ लिखते और कुछ का कुछ बकते हैं । उस का बुद्धिमान् लोग प्रमाण नहीं कर सकते । और जितनी विद्या भूगोल में फैली है वह सब आर्यावर्त देश से मिस्र वालो, उन से यूनानी, उन से रूम और उन से यूरोपदेश में, उन से अमेरिका, आदि देशों में फैली है अब तक जितना प्रचार संस्कृत विद्या का आर्यावर्त देश में है उतना किसी अन्यदेश में नहीं जो लोग कहते हैं कि जर्मनी देश में संस्कृतविद्या का बहुत प्रचार है और जितना संस्कृत मोक्षमूलरसाहस्य पढ़े हैं उतना कोई नहीं पढ़ा यह बात कहने माय है

क्योंकि “निरस्तपादपे देश एरण्डोऽपि द्रुमायते” अर्थात् जिस देश में कोई वृक्ष नहीं होता उस देश में एरंड ही को बड़ा वृक्ष मान लेते हैं वैसे ही यूरोप देश में संस्कृत विद्या का प्रचार न होने से जर्मन् लोगों और मोक्षमूलरसाहब ने थोड़ा सा पढ़ा वही उस देश के लिये अधिक है परन्तु आर्यावर्त्त देश की ओर देखें तो उन की बहुत न्यून गणना है क्योंकि मैंने जर्मनी देश निवासी के एक “प्रिन्सपल्” के पत्र से जाना कि जर्मनी देश में संस्कृत चिह्नों का अर्थ करने वाले भी बहुत काम हैं । और मोक्षमूलरसाहब के संस्कृत साहित्य और थोड़ी सी वेद की व्याख्या देख कर मुझ को विदित होता है कि मोक्षमूलरसाहब ने ब्रधर उधर आर्यावर्त्तीय लोगों की की हुई टीका देख कर कुच्छर यथातथा लिखा है जैसा कि “युञ्जन्ति ब्रह्मरुषं चरन्तं परितस्थुषः । रोचन्ते रोचना दिवि” इस मंत्र का अर्थ थोड़ा किया है इस से तो जो सायणाचार्य ने सूर्य्य अर्थ किया है सो अच्छा है परन्तु इस का ठीक अर्थ परमात्मा है सो मेरी बनाई “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” में देख लीजिये उस में इस मंत्र का अर्थ यथार्थ किया है इतने से जान लीजिये कि जर्मनी देश और मोक्षमूलरसाहब में संस्कृत विद्या का कितना पाण्डित्य है । यह निश्चय है कि जितनी विद्या और मत भूगोल में फैले हैं वे सब आर्यावर्त्त देश ही से प्रचरित हुए हैं देखा एक “गोल्डस्टकर साहब पारस अर्थात् फ्रांस देश निवासी अपनी “वायविल इनइण्डिया” में लिखते हैं कि सब विद्या और भलाइयों का भंडार आर्यावर्त्त देश है और सब विद्या तथा मत इसी देश से फैले हैं और परमात्मा की प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर ! जैसी उन्नति आर्यावर्त्त देश की पूर्व काल में थी वैसी ही हमारे देश की कीजिये । लिखते हैं उस ग्रंथ में देख लो तथा “दाराशिकोह” बादशाह ने भी यही निश्चय किया था कि जैसी पूरी विद्या संस्कृत में है वैसी किसी भाषा में नहीं वे ऐसा उपनिषदों के भाषान्तर में लिखते हैं कि मैंने अर्वाँ आदि बहुत सी भाषा पढ़ीं परन्तु मेरे मन का संदेह छूट कर आनन्द न हुआ जब संस्कृत देखा और सुना तब निःसन्देह हो कर मुझ को बड़ा आनन्द हुआ है देखो काशी के “मानमन्दिर में” शिशुमारचक्र को कि जिस की पूरी रक्षा भी नहीं रही है तो भी कितना उत्तम है कि जिस में अब तक भी खगोल का बहुत सा हस्तान्त विदित होता है जो “सवाई जयपुराधीश” उस की संभाल और फूटे टूटे को बन वाया करेंगे तो बहुत अच्छा होगा परन्तु ऐसे शिरोमणि देश को महाभारत के युद्ध ने ऐसा धक्का दिया कि अब तक भी यह अपनी पूर्व दशा में नहीं आया क्योंकि जब भाई को भाई मारने लगे तो नाग होने में क्या सन्देह ? ॥

विनाशकाले विपरीतवृद्धिः ॥ वृद्ध चाणक्या अ० १६।१७॥

जब नाग होने का समय निकट आता है तब उल्टी बुद्धि हो कर उल्टे काम करते हैं कोई उन को चूषा समझावे तो उल्टा माने और उल्टी समझावे उस को चूषो माने जब बड़े २ विद्वान्, राजा, महाराजा, ऋषि, सूर्यपि लोग महाभारत युद्ध में बहुत से मारे गये और बहुत से मर गये तब विद्या और वेदाक्त धर्म का प्रचार नष्ट हो चला ईर्ष्या, हेप, अभिमान, आपस में करने लगे जो बलवान् हुआ वह देश को दाव कर राजा बन बैठा जैसे ही सर्वत्र आर्या-वर्ष देश में खण्ड बण्ड राज्य हो गया पुनः द्वीपद्वीपान्तर के राज्य की व्यवस्था कौन करे ? जब ब्राह्मण लोग विद्या हीन हुए तब क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के अविद्वान् होने में तो कथा ही क्या कहनी ? जो परम्परा से वेदादि शास्त्रों का अर्थ सहित पढ़ने का प्रचार था वह भी छूट गया केवल जीविकार्थ पाठ-मात्र ब्राह्मणलोग पढ़ते रहे सो पाठमात्र भी चली आदि को न पढ़ाया क्योंकि जब अविद्वान् हुए गुरु बन गये तब छल कपट अधर्म भी उन में बढ़ता चला ब्राह्मणों ने विचारा कि अपनी जीविका का प्रबन्ध बांधना चाहिये सम्प्रति करके यही निश्चय कर क्षत्रिय आदि को उपदेश करने लगे कि हम हीं तुम्हारे पूज्य-देव हैं बिना हमारी सेवा किये तुम को स्वर्ग वा सुक्ति न मिलेगी किन्तु जो तुम हमारी सेवा न करोगे तो धरनरक में पड़ी गे ! जोर पूर्ण विद्या वाले धार्मिकों का नाम ब्राह्मण और पूजनीय वेद और ऋषि, मुनियों के शास्त्र में लिखा था उन को अपने मूर्ख, विषयी, कपटी लम्पट अधर्मियों पर घटा बैठे भला वे प्राप्त विद्वानों के लक्षण इन मूर्खों में कब घट सकते ? परन्तु जब क्षत्रियादि यज्ञमान संस्कृत विद्या से अत्यन्त रहित हुए तब उन के सामने जो २ गण्य मारी सो २ विचारों ने सब मान ली तब इन नाममात्र ब्राह्मणों की बन पड़ी सब को अपने बचन जाल में बांध कर बशीभूत कर लिये और कहने लगे कि :-

ब्रह्मवाक्यं जनार्दनः ॥ पाण्डवगीता

अर्थात् जो कुछ ब्राह्मणों के मुख में से वचन निकलता है वह जानो साध्यात् भगवान् के मुख से निकला जब क्षत्रियादि वर्ण आँख के अन्धे और गाँठ के पूरे अर्थात् भीतर विद्या की आँख फूटी हुई और जिन के पास धन पुष्कल है ऐसे-चले मिले फिर इन व्यर्थ ब्राह्मणनाम वालों को विषयानन्द का उपवन मिला गया यह भी उन लोगों ने प्रसिद्ध किया कि जो कुछ पृथिवी में उत्तम पदार्थ हैं वे सब ब्राह्मणों के लिये हैं अर्थात् जो गुण कर्म स्वभाव से ब्राह्मणादिवर्णव्यवस्था थी उस को नष्ट कर जन्म पर रक्खी और ऋतक पर्यन्त का भी दाग यज्ञमानों से लेने लगे जैसी अपनी इच्छा हुई वैसा करते चले यहां तक किया कि "हम भूदेव हैं" हमारी सेवा के बिना देवलोक किसी को नहीं मिल सकता ! इन से पूछना

चाहिये कि तुम किस लोक में पधारो गे ? तुम्हारे काम तो घोर नरक भोगने के हैं क्लमि, कौट, पतंगादि बनो गे तब तो बड़े क्रोधित हो कर कहते हैं—हम “शाप” देंगे तो तुम्हारा नाश हो जाय गा क्योंकि लिखा है “ब्रह्मद्रोही विनश्यति” कि जो ब्राह्मणों से द्रोह करता है उस का नाश हो जाता है। हां, यह बात तो सच्ची है कि जो पूर्णवेद और परमात्मा को जानने वाले, धर्मात्मा, सब जगत् के उपकारक, पुरुषों से कोई द्वेष करे गा वह अवश्य नष्ट होगा। परन्तु जो ब्राह्मण नहीं हैं उन का न ब्राह्मण नाम और न उन की सेवा करनी योग्य है। (प्रश्न) तो हम कौन हैं ? (उत्तर) तुम पोप हो। (प्रश्न) पोप किस को कहते हैं ? (उत्तर) उस की सूचना रूमन् भाषा में तो बड़ा और पिता का नाम पोप है परन्तु अब क्लकपट से दूसरे को ठग कर अपना प्रयोजन साधने वाले को पोप कहते हैं। (प्रश्न) हम तो ब्राह्मण और साधु हैं क्योंकि हमारा पिता ब्राह्मण और माता ब्राह्मणी तथा हम अमुक साधु के चले हैं। (उत्तर) यह सत्य है परन्तु सुनो भाई ! मा, बाप, ब्राह्मणी, ब्राह्मण होने से और किसी साधु के शिष्य होने पर ब्राह्मण वा साधु नहीं हो सकते किन्तु ब्राह्मण और साधु अपने उत्तम गुण कर्म स्वभाव से होते हैं। जो कि परीपकारी हो सुना है कि जैसे रूम के “पोप” अपने चेलों को कहते थे कि तुम अपने पाप हमारे सामने कहो गे तो हम जमा कर देंगे बिना हमारी सेवा और आज्ञा के कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता जो तुम स्वर्ग में जाना चाहे तो हमारे पास जितने रुपये जमा करो गे उतने ही की सामग्री स्वर्ग में तुम को मिलेगी ऐसा सुन कर जब कोई आंख के अन्धे और गांठ के पूरे स्वर्ग में जाने की इच्छा करके “पोप” जी को यथेष्ट रुपये देता था तब वह “पोप” जी ईसा और मरियम की मूर्ति के सामने खड़ा हो कर इस प्रकार की हुंडी लिख कर देता था “हे खुदाबन्द ईसामसी! अमुक मनुष्य ने तेरे नाम पर लाख रुपये स्वर्ग में आने के लिये हमारे पास जमा कर दिये हैं जब वह स्वर्ग में आवे तब तू अपने पिता के स्वर्ग के राज्य में पच्चीस सहस्र रुपयों में बाग वगीचा और मकानात, पच्चीस सहस्र रुपयों में सवारी शिकारी और नौकर चाकर, पच्चीस सहस्र रुपयों में खाना, पीना, कपड़ा, लत्ता, और पच्चीस सहस्र रुपये इस के इष्ट मित्र भाई बन्धु आदि के जियाफत के दाखी दिला देना” फिर उस हुंडी के नीचे पोप जी अपनी सही करके हुण्डी उस के हाथ में दे कर कह देते थे कि “जब तू मरे तब इस हुण्डी को कबर में अपने सिराने धर लेने के लिये अपने कुटुम्ब को कह रखना फिर तुम्हें ले जाने के लिये फुरिष्टे आवें गे तब तुम्हें और तेरी हुण्डी को स्वर्ग में ले जा कर लिखे प्रमाण सब चीजें तुम्हेंको दिला दें गे,। अब देखिये जानो स्वर्ग का ठीका पोप जी ने ले लिया हो ! जब तक यूरोपदेश में मूर्खता थी तभी तक वहाँ पोप जी की लीला चलती थी परन्तु

अब विद्या के ज्ञान से पोप जी की झूठी लीला बहुत नहीं चलती किन्तु निर्मूल भी नहीं हुई। वैसे ही, आर्यावर्त देश में भी जानों पोप जी ने लाख अवतार लेकर लीला फैलाई हो अर्थात् राजा और प्रजा को विद्या न पढ़ने देना अच्छे पुरुषों का संग न होने देना रात दिन बहकाने के सिवाय दूसरा कुछ भी काम नहीं करना है परन्तु यह बात ध्यान में रखना कि जो २ छल कपटादि कुत्सित व्यवहार करते हैं वेही पोप कहते हैं जो कोई उन में भी धार्मिक विद्वान् परोपकारी हैं वे सच्चे ब्राह्मण और साधु हैं अब उन्हीं छली कपटी स्वार्थी लोगों (मनुष्यों को ठग कर अपना प्रयोजन सिद्ध करने वालों) ही का ग्रहण "पोप" शब्द से करना और ब्राह्मण तथा साधु नाम से उत्तम पुरुषों का स्वीकार करना योग्य है। देखो ! जो कोई भी उत्तम ब्राह्मण वा साधु न होता तो वेदादिस-त्थशास्त्रों के पुस्तक स्वरसहित का पठनपाठन जैन, सुसलमान, ईसाई आदि के जास से बच कर आर्यों का वेदादिसत्यशास्त्रों में प्रीतियुक्त वर्णाश्रमों में रखना ऐसा कौन कर सकता सिवाय ब्राह्मण साधुओं के "विषादप्यमृतं ग्राह्यम्" मनु० विष से भी अमृत के ग्रहण करने के समान पोपलीला से बहकाने में से भी आर्यों का जैन आदि मतों से बच रहना जानो विष में अमृत के समान गुण सम्भना चाहिये जब घलमान विद्याहीन हुए और आप कुछ पाठ पूजा पढ़ कर अभिमान में आके सब लोगों ने परस्पर सम्मति करके राजा आदि से कहा कि ब्राह्मण और साधु अदृश्य हैं देखो ! "ब्राह्मणो न हन्तव्यः" "साधुर्न हन्तव्यः" ऐसे २ वचन जो कि सच्चे ब्राह्मण और साधुओं के विषय में थे सो पोपों ने अपने पर घटालिये और भी झूठे वचनयुक्त ग्रंथ रच कर उन में ऋषि मुनियों के नाम धर के उन्हीं के नाम से सुनाते रहे उन प्रतिष्ठित ऋषि महर्षियों के नाम से अपने पर से दंड की व्यवस्था उठवादी पुनः यथेष्टाचार करने लगे अर्थात् ऐसे कड़े नियम चलाये कि उन पोपों की आज्ञा के बिना सेना, उठना, बैठना, खाना, आना, खाना, पीना, आदि भी नहीं कर सकते थे। राजाओं को ऐसा निग्रह कराया कि पोपसंज्ञक कहने मात्र के ब्राह्मण साधु चाहें सो करें उन को कभी दंड न देना अर्थात् उन पर मन में दंड देने की इच्छा न करनी चाहिये जब ऐसी मूर्खता हुई तब जैसी पोपों की इच्छा हुई वैसा करने कराने लगे अर्थात् इस विगाह के मूल महाभारत युद्ध से पूर्व एक सहस्र वर्ष से प्रवृत्त हुए थे क्योंकि उस समय में ऋषि मुनि भी थे तथापि कुछ २ आलस्य, प्रमाद, ईर्ष्या, द्वेष के अद्भुत रोगे थे वे बढ़ते-बढ़ते ही गये जब सच्चा उपदेश न रहा तब आर्यावर्त में अविद्या फैल कर परस्पर में लड़ने झगड़ने लगे क्योंकि:—

“उपदेश्योपदेष्टृत्वात् तत्सिद्धिः” “इतरथान्यपरम्परा” ।

सांख्य अ० ३। सू० ७९। ८१॥

अर्थात् जब उत्तम २ उपदेशक होते हैं तब अच्छे प्रकार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सिद्ध होते हैं । और जब उत्तम उपदेशक और श्रोता नहीं रहते तब अन्धपरम्परा चलती है । फिर भी जब सत्यरूप उत्पन्न होकर सत्योपदेश करते हैं तभी अन्धपरम्परा नष्ट होकर प्रकाश की परम्परा चलती है । पुनः वे पौष लोग अपनी और अपने चरणों की पूजा कराने और कहने लगे कि इसी में तुम्हारा कल्याण है जब येलोग इन के वश में होगे तब प्रसाद और विषयासक्ति में निमग्न होकर गङ्गरिये के समान झूठे गुरु और चले फसे विद्या, वस, बुद्धि, पराक्रम, शूरवीरतादि शुभ गुण सब नष्ट होते चले पश्चात् जब विषयासक्त हुए तो मांस मद्य का सेवन गुप्त २ करने लगे पश्चात् उन्हीं में से एक वाममार्ग खड़ा किया "शिव उवाच" "पार्वत्युवाच" "भैरव उवाच" इत्यादि नाम लिख कर उनका तंत्र नाम धरा उन में ऐसी २ विचित्र लीला की बातें लिखीं कि:—

मद्यं मांसं च स्निग्धं च सुद्रा सैथुनमेव च ।

एते पञ्च मकाराः स्युर्मोक्षदा हि युगे युगे ॥

काली तंत्रादि में ।

प्रवृत्ते भैरवीचक्रे सर्वे वर्णा द्विजातयः ।

निवृत्ते भैरवीचक्रे सर्वे वर्णाः पृथक् पृथक् ॥

कुलार्णव तन्त्र ॥

पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतति भूतले ।

पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥

सहानिर्माण तन्त्र ॥

मातृयोनिं परित्यज्य विहरेत् सर्वयोनिषु ।

वेदशास्त्रपुराणानि सामान्यगणिका इव ॥

एकैव शान्भवी सुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव ।

ज्ञानसंकलनी तन्त्र ॥

अर्थात् देखो गवर्गण्ड पोपी की लीला की कि वेदविरुद्ध महाधर्म के काम हैं उन्हीं को श्रेष्ठ वाममार्गियों ने माना मद्य, मांस, मीन अर्थात् मछली, सुद्रा, पुरी कचौरी और बड़े रोटी आदि चर्बण योनि पात्राधार सुद्रा और पांखवा सैथुन अर्थात् पुनप सब शिव और स्त्री सब पार्वती के समान मान कर :—

अहं भैरवस्त्वं भैरवो ह्याद्यथोरस्तु सङ्गमः ।

चाहें कोई पुरुष वा स्त्री ही इस जटपटांग वनन को पढ़ के समागम करने में वे वाममार्गी देव नहीं मानते अर्थात् किल नीच स्त्रियों को छुना नहीं उन को प्रतिपवित्र उर्हीं ने माना है जैसे शास्त्रों में रजस्वला आदि स्त्रियों के स्पर्श का निषेध है उन को वाममार्गीयों ने प्रतिपवित्र माना है सुनो इन का श्लोक अहं वंदः—

रजस्वला पुष्करं तीर्थं चांडाली तु स्वयं काशी चर्म-
कारी प्रयागः स्याद्रजकी मधुरा मता । अयोध्या पुष्करा
प्रोक्ता ॥ रुद्रयामल तंत्र ॥

इत्यादि रजस्वला के साथ समागम करने से जानो पुष्कर का स्थान चाण्डाली से समागम में काशी की यात्रा, चमारी से समागम करने से जानो प्रयाग जान धोत्री की स्त्री के साथ समागम करने में मधुरा यात्रा और कंजरी के साथ लीला करने से जानो अयोध्या तीर्थ कर आवे । मद्य का नाम धरा "तीर्थ" मांस का नाम "शुद्धि" और पुष्प मच्छी का नाम तृतीया जल तुम्बिका, सुद्रा का नाम चतुर्थी और मैथुन का नाम "पंचमी" इस लिये ऐसे २ नाम धरे हैं कि जिससे दूसरा न समझ सके । अपने कौल, आर्द्रवीर शाश्वत और गण आदि नाम रखे हैं और जो वागमार्गी मत में नहीं हैं उन का "कंटक" विसुख "शुष्कपशु" आदि नाम धरे हैं और कहते हैं कि जब भैरवीचक्र हो तब उस में ब्राह्मण से ले कर चांडालपर्यन्त का नाम लिख हो जाता है और जब भैरवी चक्र से अलग ही तब सब अपने २ वर्ण रखे जायें । भैरवीचक्र में वाममार्गी लोग भूमि वा पट्टे पर एक विन्दु त्रिकोण चतुष्कोण वर्तुणाकार बना कर उस पर मद्य वा घड़ा रख के उस की पूजा करते हैं फिर ऐसा मंत्र पढ़ते हैं "ब्रह्मा शापं विमोचय" हेमचन्द्र ! तू ब्रह्मा आदि को शाप से रहित हो एक सुख स्थान में कि जहाँ शिवाय वाममार्गी के दूसरे को नहीं जाने देते वहाँ स्त्री और पुरुष एकट्टे होते हैं वहाँ एक स्त्री को नंगी कर पूजते और स्त्री लोग किसी पुरुष को नंगा कर पूजती हैं पुनः कोई किसी की स्त्री कोई अपनी वा दूसरे की दान्या कोई किसी की वा अपनी माता, भगिनी, पुत्रवधू, आदि आती हैं पश्चात् एक पात्र में मद्य भर के मांस और बड़े आदि एक स्थाली में धर रखते हैं उस मद्य के प्याले को जो कि उन का आचार्य होता है वह हाथ में ले कर बोलता है कि "भैरवोऽहम्" "शिवोऽहम्" मैं भैरव वा शिव हूँ कह कर पी जाता है फिर उसी झूठे पात्र से सब पीते हैं और जब किसी की स्त्री वा वेश्या नंगी कर अथवा किसी पुरुष को नंगा कर हाथ में तलवार देके

उस का नाम देवी और पुरुष का नाम महादेव धरते हैं उन के उपस्थ प्रन्द्रिय को पूजा करते हैं तब उसदेवी वा शिव को मद्य का प्याला पिला कर उसी झूठे पात्र से सब लोग एक २ प्याला पीते फिर उसी प्रकार क्रम से पी पी के उन्मत्त हो कर चाहें कोई किसी की बहिन, कन्या वा माता क्यों न हो जिस की जिस के साथ इच्छा हो उस के साथ कुकर्म करते हैं कभी २ बहुत नशा चढ़ने से जूते, लात, सुकामुक्ती, केशाकेशी, आपस में लड़ते हैं किसी २ को वहीं वमन होता है उन में जो पहुंचा हुआ अघोरी अर्थात् सब में सिद्ध गिना जाता है वह वमन हुई चीज को भी खा लेता है अर्थात् इन को सब से बड़े सिद्ध को ये बातें हैं कि :—

हालां पिवति दीक्षितस्य मन्दिरे सुप्तो निशायां गणिकागृहेषु । विराजते कौलवचक्रवर्ती ॥

जो दीक्षित अर्थात् कलार के घर में जा के बोतल पर बोतल चढ़ावे रण्डियों के घर में जाके उन से कुकर्म करके सोवे जो प्रत्यादि कर्म निर्लज्ज मिःशंक होकर करे वही वाममार्गियों में सर्वोपरि मुख्य चक्रवर्ती राजा के समान माना जाता है अर्थात् जो जड़ा कुकर्मों वही उन में बड़ा और जो अरके काम करे और बुरे कामों से डरे वही छोटा क्योंकि:—

पाशवद्धो भवेज्जीवः पाशमुक्तः सदाशिवः ॥

ज्ञानसंकलनी तंत्र । श्लो० ४७ ॥

ऐसा तन्त्र में कहते हैं कि जो लोफलज्जा, शास्त्रलज्जा, कुललज्जा, देशलज्जा आदि पाशों में बंधा है वह जीव और जो निर्लज्ज हो कर बुरे काम करे वही सदाशिव है ॥

उद्धृष्ट तन्त्र आदि में एक प्रयोग लिखा है कि एक घर में चारों ओर आलय हों उन में मद्य के बोतल भर के घर देवे इन आलयों में से एक बोतल पी के दूसरे आलय पर जावे उस में से पी तीसरे और तीसरे में से पी के चौथे आलय में जावे खड़ा २ तब तक मद्य पीवे कि जब तक लकड़ी के समान पृथिवी में न गिर पड़े फिर जब नशा उतरे तब उसी प्रकार पीकर गिर पड़े पुनः तीसरी बार इसी प्रकार पी के गिरके उठे तो उस का पुनर्जन्म न हो अर्थात् सच तो यह है कि ऐसे २ मनुष्यों का पुनः मनुष्यजन्म होना ही कठिन है किन्तु नीच घेनि में पड़ कर बहुकाल पर्यन्त पड़ा रहे गा । वामियों के तंत्र ग्रंथों में यह नियम है कि एक माता को छोड़ के किसी स्त्री को भी न छोड़ना चाहिये अर्थात् चाहे कन्या ही वा भगिनी आदि क्यों न हो सब के साथ संगम करना चाहिये इन वाममा-

गियों में दश महाविद्या प्रसिद्ध हैं उन में से एक मातंगी विद्या वाला कहता है कि "मातरमपि न त्यजेत्" अर्थात् माता को भी समागम किये बिना न छोड़ना चाहिये और स्त्री पुत्रप के समागम समय में मंत्र जपते हैं कि हम को सिद्धि प्राप्त हो जाय ऐसे पागल महासूखे मनुष्य भी संसार में बहुत न्यून होंगे !!! जो मनुष्य झूठ चलाना चाहता है वह सत्य की निन्दा अवश्य ही करता है देखो ! वाममार्गी क्या कहते हैं—वेद शास्त्र और पुराण ये सब सामान्य वैश्याओं के समान हैं और जो यह श्रांभवी वाममार्ग की सुद्रा है वह गुप्त कुल की स्त्री के तुल्य है ॥ इसी शिष्ये इन लोगों ने केवल वेदविक्रम मत खड़ा किया है पश्चात् इन लोगों का मत बहुत चला तब धूर्सता करके वेदों के नाम से भी वाममार्ग की घोड़ी लीला चलाई अर्थात्:—

सौत्रामण्यां सुरां पिबेत् । प्रोक्षितं भक्षयेन्मांसं वैदिकी
हिंसा हिंसा न भवति ॥

न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने ।

प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु सहाफला ॥

मनु० अ० ५ । ५६ ॥

सौत्रामणि यज्ञ में मद्य पीने इस का अर्थ तो यह है कि सौत्रामणि यज्ञ में सोम रस अर्थात् सोमबल्लो कारस पिये प्रोक्षित अर्थात् यज्ञ में मांस खाने में दोष नहीं ऐसी पामरपन की बातें वाममार्गियों ने चलाई हैं उन से पूछना चाहिये कि जो वैदिकी हिंसा हिंसा न हो तो तुभ और तेरे कुटुम्ब को मार के होम कर डालें तो क्या चिन्ता है ॥ मांसभक्षण करने, मद्य पीने, परस्त्री गमन करने आदि में दोष नहीं है यह कहना छोड़ना है क्योंकि बिना प्राणियों के पीड़ा दिये मांस प्राप्त नहीं होता और बिना अपराध के पीड़ा देना धर्म का काम नहीं मद्यपान का तो सर्वथा निषेध ही है क्योंकि अब तक वाममार्गियों के बिना किसी ग्रंथ में नहीं लिखा किन्तु सर्वत्र निषेध है और बिना विवाह के मैथुन में भी दोष है इस को निर्दोष कहने वाला सदोष है ऐसे २ वचन भी ऋषियों के ग्रन्थ में डाल के कितने ही ऋषि मुनियों के नाम से ग्रंथ बना कर गोमेध, अश्वमेध नाम के यज्ञ भी कराने लगे थे अर्थात् इन पशुओं को मार के होम करने से यजमान और पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है ऐसी प्रसिद्धि का निश्चय तो यह है कि जो ब्राह्मणश्रद्धियों में अश्वमेध, गोमेध, नरमेध आदि शब्द हैं उन का ठीक २ अर्थ नहीं जाना है क्योंकि जो जानते तो ऐसा अर्थ क्यों करते? (प्रश्न) अश्वमेध, गोमेध, नरमेध आदि शब्दों का अर्थ क्या है? (उत्तर) इन का अर्थ तो यह है कि:—

जैनमत के भी पुस्तकों को पढ़े थे और उनकी युक्ति भी बहुत प्रबल थी उन्हें ने विचारा कि इन को किस प्रकार हटावे निश्चय हुआ कि उपदेश और शास्त्रार्थ करने से ये लोग हटेंगे ऐसा विचार कर उज्जैन नगरी में आये वहाँ उस समय सुधन्वा राजा था जो जैनियों के ग्रन्थ और कुछ संस्कृत भी पढ़ा था वहाँ जा कर वेद का उपदेश करने लगे और राजा से मित्र कर कहा कि आप संस्कृत और जैनियों के भी ग्रन्थों को पढ़ें ही और जैनमत को मांगते हों इस लिये आप को मैं कहता हूँ कि जैनियों के पंडितों के साथ मेरा शास्त्रार्थ कराइये इस प्रतिज्ञा पर जो हारे सो जीतने वाले का मत स्वीकार कर ले और आप भी जीतने वाले का मत स्वीकार कौजिये गा। यद्यपि सुधन्वा राजा जैनमत में थे तथापि संस्कृत ग्रन्थ पढ़ने से उन की बुद्धि में कुछ विद्या का प्रकाश था इस लिये उन के मन में अत्यन्त पशुता नहीं छाई थी क्योंकि जो विद्वान् होता है वह सत्याऽसत्य की परीक्षा करके सत्य का ग्रहण और असत्य को छोड़ देता है। जब तक सुधन्वा राजा को बड़ा विद्वान् उपदेशक नहीं मिला था तब तक सन्देह में थे कि इन में कौनसा सत्य और कौनसा असत्य है जब शङ्कराचार्य की यह बात सुनी और बड़ी प्रसन्नता के साथ बोले कि हम शास्त्रार्थ करा के सत्याऽसत्य का निर्णय अवश्य करावेंगे। जैनियों के पण्डितों को दूर २ से बुला कर सभा कराई उस में शङ्कराचार्य का वेदमत और जैनियों का वेदविरुद्ध मत था अर्थात् शङ्कराचार्य का पक्ष वेद मत का स्थापन और जैनियों का खण्डन और जैनियों का पक्ष अपने मत का स्थापन और वेद का खण्डन था। शास्त्रार्थ कई दिनों तक हुआ जैनियों का मत यह था कि सृष्टि का कर्ता अनादि ईश्वर कोई नहीं यह जगत् और जीव अनादि हैं इन दोनों की उत्पत्ति और नाश कभी नहीं होता इस से विरुद्ध शङ्कराचार्य का मत था कि अनादि सिद्ध परमात्मा ही जगत् का कर्ता है यह जगत् और जीव भूँटा है क्योंकि उस परमेश्वर ने अपनी माया से जगत् बनाया वही धारण और प्रलय करता है और यह जीव और प्रपञ्च स्वप्नवत् है परमेश्वर आप ही सब जगत् रूप ही कर लीला कर रहा है बहुत दिन तक शास्त्रार्थ होता रहा परन्तु अन्त में युक्ति और प्रमाण से जैनियों का मत खण्डित और शङ्कराचार्य का मत अखण्डित रहा तब उन जैनियों के पंडित और सुधन्वा राजा ने वेद मत का स्वीकार कर लिया जैन मत को छोड़ दिया पुनः बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ और सुधन्वा राजा ने अन्य अपने इष्ट मित्रराजाओं को लिख कर शङ्कराचार्य से शास्त्रार्थ कराया परन्तु जैनियों का पराजय होने से पराजित होते गये पश्चात् शङ्कराचार्य के सर्वत्र आर्यावर्त्त देश में घूमने का प्रबन्ध सुधन्वादि राजाओं ने कर दिया और उन की रक्षा के लिये साथ में गौकार चाकर भी रख दिये उसी समय से सब के यज्ञोपवीत होने लगे और वेदों का

पठन पाठन भी चला दश वर्ष के भीतर सर्वत्र आर्यावर्ष देश में धूमर कर जैनियों का खण्डन और वेदों का मण्डन किया परन्तु शंकराचार्य के समय में जैन-विध्वंस अर्थात् जितनी मूर्तियाँ जैनियों की निकलती हैं वे शंकराचार्य के समय में टूटी थीं और जो विभा टूटी निकलती हैं वे जैनियों ने भूमि में गाड़ दी थीं कि तीड़ी न जायें वे अब तक कहीं भूमि में से निकलती हैं शंकराचार्य के पूर्व शैव मत भी घोड़ासा प्रचरित था उसका भी खण्डन किया वाममार्ग का खण्डन किया उस समय इस देश में धन बहुत था और स्वदेशभक्ति भी थी जैनियों के मंदिर शंकराचार्य और सुधन्वा राजा ने नहीं तुड़वाये थे क्योंकि उन में वेदादि की पाठशाला करने की इच्छा थी जब वेदमत का स्थापन हो चुका और विद्या प्रचार करने का विचार करते ही थे इतने में दो जैन ऊपर से कथनमात्र वेदमत और भीतर से कष्टर जैन अर्थात् कपटमुनि थे शंकराचार्य उन पर अतिप्रसन्न थे उन दोनों ने अवसर पा कर शंकराचार्य को ऐसी विषयुक्त वस्तु खिलाई कि उन की लुधा मन्द हो गई पश्चात् शरीर में फोड़े फुन्सी हो कर छः महीने के भीतर शरीर छूट गया तब सब निश्चिन्ता ही हो गये और जो विद्या का प्रचार होने वाला था वह भी न होने पाया जो २ उन्हें ने शारीरक भाष्यादि बनाये थे उन का प्रचार शंकराचार्य के शिष्य करने लगे अर्थात् जो जैनियों के खंडन के लिये ब्रह्म सत्य जगत् मिथ्या और जीव ब्रह्म की एकता कथन की थी उस का उपदेश करने लगे दक्षिण में शृङ्गेरी पूर्व में भूगोवर्धन उत्तर में जोसी और हारिका में सारदा मठ बांध कर शंकराचार्य के शिष्य महन्त बन और श्रीमान् हो कर आनन्द करने लगे क्योंकि शंकराचार्य के पश्चात् उन के शिष्यों की बड़ी प्रतिष्ठा होने लगी !

अब इस में विचारना चाहिये कि जो जीव ब्रह्म की एकता जगत् मिथ्या शंकराचार्य का निज मत था तो वह अच्छा मत नहीं और जो जैनियों के खंडन के लिये उस मत का स्वीकार किया ही तो कुछ अच्छा है । नवीन वेदान्तियों का मत ऐसा है (प्रश्न) जगत् स्वप्नवत्, रज्जू में सर्प, सोप में चाँदी, सृगल-पिण्डा में जल, गंधर्व-नगर, इन्द्रजालवत् यह संसार झूठा है एक ब्रह्म ही सच्चा है । (सिद्धान्ती) झूठा तुम किस को कहते हो ? (नवीन) जो वस्तु न ही और प्रतीत होवे । (सिद्धान्ती) जो वस्तु ही नहीं उस की प्रतीति कैसे हो सकती है (नवीन) अध्यारोप से । (सिद्धान्ती) अध्यारोप किस को कहते हो ? (नवीन) “ वस्तुन्यवस्त्वारोपणमध्यासः ” “ अध्यारोपापयादाभ्यां निप्रपंचं प्रपंचयते ” पदार्थ कुछ और ही उस में अन्य वस्तु का आरोपण करना अध्यास अध्यारोप और उस का निराकरण करना अपवादक होता है इन दोनों से प्रपंच रहित ब्रह्म में प्रपंचरूप जगत् विस्तार करते हैं ! (सिद्धान्ती) तुम रज्जू को वस्तु

और सर्प को अवस्तु मान कर इस भ्रमजाल में पड़े हो क्या सर्प वस्तु नहीं है ? जो कहो कि रज्जु में नहीं तो देशान्तर में और उस का संस्कारमान हृदय में है फिर वह सर्प भी अवस्तु नहीं रहा वैसे ही स्थान में पुरुष, सीप में चाँदी आदि की व्यवस्था समझ लेना और स्वप्न में भी जिन का भान होता है वे देशान्तर में हैं और उन के संस्कार आत्मा में भी हैं इस लिये वह स्वप्न भी वस्तु में अवस्तु के आरोपण के समान नहीं । (नवीन) जो कभी न देखा न सुना जैसा कि अपना गिर कटा है और आप रोता है जल की धारा ऊपर चली जाती है जो कभी न हुआ था देखा जाता है वह सत्य क्यों कर ही सके ? (सिद्धान्ती) यह भी दृष्टान्त तुम्हारे पक्ष को सिद्ध नहीं करता क्योंकि बिना देखे सुने संस्कार नहीं होता संस्कार के बिना स्मृति और स्मृति के बिना साक्षात् अनुभव नहीं होता जब किसी से सुना वा देखा कि असुक का गिर कटा और उस के भार्गव वा वाप आदि को लड़ाई में प्रत्यक्ष रोते देखा और फोहार के जल ऊपर चढ़ते देखा वा सुना उस का संस्कार उसी के आत्मा में होता है जब यह जाग्रत के पदार्थ से अलग हो के देखता है तब अपने आत्मा में उन्हीं पदार्थों को जिन को देखा वा सुना होता देखता है जब अपने ही में देखता है तब जानो अपना गिर कटा आप रोता और ऊपर जाती जल की धारा को देखता है यह भी वस्तु में अवस्तु के आरोपण के सदृश नहीं किन्तु जैसे नकशा निकालने वाले पूर्व दृष्ट श्रुत वा किये हुआओं को आत्मा में से निकाल कर कागज पर लिख देते हैं अथवा प्रतिविम्ब का उतारने वाला विम्ब को देख आत्मा में आकृति को भर बराबर लिख देता है हाँ इतना है कि कभी २ स्वप्न में स्मरणयुक्त प्रतीति जैसा कि अपने अध्यापक को देखता है और कभी बहुत काल देखने और सुनने में अतीतज्ञान को साक्षात्कार करता है तब स्मरण नहीं रहता कि जो मैंने उस समय देखा सुना वा किया था उसी को देखता सुनता वा करता हूँ जैसा जाग्रत में स्मरण करता है वैसा स्वप्न में नहीं होता । इस लिये तुम्हारा अध्यास और आरोप का लक्षण झूठा है और जो वेदान्ती लोग विवर्तवाद अर्थात् रज्जु में सर्पादि के भान होने का दृष्टान्त ब्रह्म में जगत् के भान होने में देते हैं वह भी ठीक नहीं । (नवीन) अधिष्ठान के बिना अध्वस्य प्रतीति नहीं होता जैसे रज्जु न हो तो सर्प का भी भान नहीं हो सकता जैसे रज्जु में सर्प तीन काल में नहीं है परन्तु अन्धकार और कुछ प्रकाश के मेल में अकस्मात् रज्जु को देखने से सर्प का भ्रम होकर भय से कंपता है जब उस को दीप आदि से देख लेता है उसी समय भ्रम और भय निवृत्त हो जाता है वैसे ब्रह्म में जो जगत् की मिथ्या प्रतीति छुड़े है वह ब्रह्म के साक्षात्कार होने में जगत् की निवृत्ति और ब्रह्म की प्रतीति हो जाती है जैसी कि सर्प की निवृत्ति और रज्जु की प्रतीति होती है ।

(सिद्धान्ती) ब्रह्म में जगत् का भान किस को हुआ ? (नवीन) जीव को (सिद्धान्ती) जीव कहां से हुआ ? (नवीन) अज्ञान से । (सिद्धान्ती) अज्ञान कहां से हुआ और कहां रहता है ? (नवीन) अज्ञान अनादि और ब्रह्म में रहता है (सिद्धान्ती) ब्रह्म में ब्रह्म का अज्ञान हुआ वा किसी अन्य का और वह अज्ञान किस को हुआ ? (नवीन) चिदाभास को । (सिद्धान्ती) चिदाभास का स्वरूप क्या है ? (नवीन) ब्रह्म, ब्रह्म को ब्रह्म का अज्ञान अर्थात् अपने स्वरूप को आप ही भूल जाता है । (सिद्धान्ती) उस के भूलने में निमित्त क्या है ? (नवीन) अविद्या । (सिद्धान्ती) अविद्या सर्वव्यापी सर्वज्ञ का गुण है वा अल्पज्ञ का ? (नवीन) अल्पज्ञ का । (सिद्धान्ती) तो तुम्हारे मत में बिना एक अनन्त सर्वज्ञ चेतन के दूसरा कोई चेतन है वा नहीं ? और अल्पज्ञ कहां से आया ? हां, जो अल्पज्ञ चेतन ब्रह्म से भिन्न मानो तो ठीक है जब एक ठिकाने ब्रह्म को अपने स्वरूप का अज्ञान हो तो सर्वज्ञ अज्ञान फैल जाय जैसे शरीर में फोड़े को पीड़ा सब शरीर के अवयवों को निकसने कर देती है वही प्रकार ब्रह्म भी एक-देश में अज्ञानी और लेशयुक्त हो तो सब ब्रह्म भी अज्ञानी और पीड़ा के अनुभवयुक्त हो जाय । (नवीन) यह सब उपाधि का धर्म है ब्रह्म का नहीं । (सिद्धान्ती) उपाधि जड़ है वा चेतन, और सत्य है वा असत्य ? (नवीन) अनिर्वचनीय है अर्थात् जिस को जड़ वा चेतन सत्य वा असत्य नहीं कह सकते । (सिद्धान्ती) यह तुम्हारा कहना "वदतो व्याघातः" के तुल्य है क्योंकि कहते ही अविद्या है जिस को जड़, चेतन, सत्, असत्, नहीं कह सकते यह ऐसी बात है कि जैसे सोने में पीतल मिला हो उस को सराफ, के पास परीक्षा करावे कि यह सोना है वा पीतल ? तब यही कहो गे कि इस को हम न सोना न पीतल कह सकते हैं किन्तु इस में दोनों धातु मिली हैं । (नवीन) देखो जैसे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश और महादाकाशोपाधि अर्थात् घड़ा घर और मेघ के होने से भिन्न २ प्रतीत होते हैं वास्तव में महादाकाश ही है ऐसे ही माया, अविद्या, समष्टि, व्यष्टि और अन्तःकरणों की उपाधियों से ब्रह्म अज्ञानियों को पृथक् २ पृथक् हो रहा है वास्तव में एक ही है देखो अग्रिम प्रमाण में क्या कहा है :-

अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो वहिश्च ॥

कठ उ० वल्ली ५ । मं० ९ ॥

जैसे अग्नि अग्ने चौड़े गोल छोटे बड़े सब आकाशति वाले पदार्थों में व्यापक हो कर तदाकार दीखता और उन से पृथक् है वैसे सर्वव्यापक परमात्मा अन्तःकरणों

जब तुम झूठ कहने और मानने वाले हो तो झूठ क्यों नहीं ? (नवीन) रहो
 झूठ, झूठ और सच हमारे ही में कल्पित है और हम दोनों के साची अधिष्ठान हैं ।
 (सिद्धान्ती) जब तुम सत्य और झूठ के आधार हुए तो साहकार और चोर के
 सट्टण तुम्ही हुए इससे तुम प्रामाणिक भी नहीं रहे क्योंकि प्रामाणिक वह होता
 है जो सर्वदा सत्य माने, सत्य बोले, सत्य करे, झूठ न माने, झूठ न बोले और
 झूठ कदाचित् न करे जब तुम अपनी बात को आप ही झूठ करते हो तो
 तुम अपने आप मिथ्यावादी हो। (नवीन) अनादि माया जो कि ब्रह्म के आश्रय
 और ब्रह्म ही का आवरण करती है उस को मानते हो वा नहीं ? (सिद्धान्ती)
 नहीं मानते, क्योंकि तुम माया का अर्थ ऐसा करते हो कि जो वस्तु न हो और
 भासता है तो इस बात को वह माने गा जिस के हृदय की आंख फूट गई हो
 क्योंकि जो वस्तु नहीं उस का भासमान होना सर्वथा असंभव है जैसा बन्ध्या
 के पुत्र का प्रतिविम्ब कभी नहीं हो सकता और यह "सन्मूलाः सोम्येमाः प्रजाः"
 इत्यादि क्कान्दोग्य उपनिषद् के वचनों से विरुद्ध कहते हो ? (नवीन) क्या तुम
 वसिष्ठ शंकराचार्य आदि और निश्चलदास पर्यन्त जो तुम से अधिक पंडित हुए
 हैं उन्हें ने लिखा है उस को खण्डन करते हो ? हम को तो वसिष्ठ शंकराचार्य
 और निश्चलदास आदि अधिक दीखते हैं (सिद्धा०) तुम विद्वान् हो वा अविद्वान् ?
 (नवीन) हम भी कुछ विद्वान् हैं । (सिद्धा०) अच्छा तो वसिष्ठ शंकराचार्य
 और निश्चलदास के पक्ष का हमारे सामने स्थापन करो हम खंडन करते हैं जिस
 का पक्ष सिद्ध हो वही बड़ा है । जो उन की और तुम्हारी बात अखंडनीय होती
 तो तुम उन की युक्तियां ले कर हमारी बात को खण्डन क्यों न कर सकते ?
 तब तुम्हारी और उन की बात माननीय होवे अनुमान है कि शंकराचार्य आदि
 ने तो जैनियों के मत के खण्डन करने ही के लिये यह मत स्वीकार किया हो
 क्योंकि देश काल के अनुकूल अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिये बहुत से स्वार्थी
 विद्वान् अपने आत्मा के ज्ञान में विरुद्ध भी कर लेते हैं और जो इन बातों को
 अर्थात् जीव ईश्वर की एकता जगत् मिथ्या आदि व्यवहार सच्चा नहीं मानते थे
 तो उन की बात सच्ची नहीं हो सकती और निश्चलदास का पांडित्य देखो ऐसा
 है "जीवो ब्रह्माऽभिन्नश्चेतनत्वात्" उन्हें ने "वृत्तिप्रभाकर" में जीव ब्रह्म की एकता
 के लिये अनुमान लिखा है कि चेतन होने से जीव ब्रह्म से अभिन्न है यह बहुत
 कामसमझ पुरुष की बात के सट्टण बात है क्योंकि साधर्म्यमात्र से एक दूसरे
 के साथ एकता नहीं होती वैधर्म्य भेदक होता है जैसे कोई कहे कि "पृथिवी
 जलाऽभिन्ना जडत्वात्" जड़ के होने से पृथिवी जल से अभिन्न है जैसा यह वाक्य
 संगत कभी नहीं हो सकता वैसे निश्चलदास की का भी लक्षण व्यर्थ है क्योंकि
 जो अल्प अल्पज्ञता और भ्रान्तिमत्वादि धर्म जीव में ब्रह्म से और सर्वगत सर्वज्ञता

और निर्भ्रान्तित्वादि वैधर्म्यं ब्रह्म में जीव से विकृत है इस से ब्रह्म और जीव भिन्न २ हैं जैसे गन्धवत्त्व कठिनत्व आदि भूमि के धर्म रसवत्त्व द्रवत्वादि जल के धर्म से विकृत होने से पृथिवी और जल एक नहीं। वैसे जीव और ब्रह्म के वैधर्म्य होने से जीव और ब्रह्म एक न कभी थे न हैं और न कभी होंगे इतने ही से निश्चलदासादि को समझ लीजिये कि उन में कितना पांडित्य था और जिस ने योगवासिष्ठ बनाया है वह कोई आधुनिक वेदान्ती था न वाल्मीक, वसिष्ठ, और रामचन्द्र का बनाया वा कहा सुना है क्योंकि वे सब वेदानुयायी थे वेद से विकृत न बना सकते और न कह सुन सकते थे। (प्रश्न) क्या व्यास जी ने जो शारीरकसूत्र बनाये हैं उन में भी जीव ब्रह्म की एकता दीखती है ? देखो:-

सम्पाद्याऽऽविर्भावः स्वने शब्दात् ॥

ब्राह्मेण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥

चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडुलोमिः ॥

एवमप्युपन्यासात्पूर्वभावादविरोधं वादरायणः ॥

अतएव चानन्याधिपतिः ॥ वेदान्त द० अ० ४ पा० ४ ।

सू० १ । ५-७ । ९ ॥

अर्थात् जीव अपने स्वस्वरूप को प्राप्त हो कर प्रकट होता है जो कि पूर्व ब्रह्मस्वरूप था क्योंकि स्व शब्द से अपने ब्रह्म स्वरूप का ग्रहण होता है ॥ "अयमात्मा अपहृतपाप्मा" । इत्यादि उपन्यास ऐश्वर्य्यं प्राप्तिपर्यन्त हेतुओं से ब्रह्मस्वरूप से जीव स्थित होता है ऐसा जैमिनि आचार्य्य का मत है ॥ और औडुलोमि आचार्य्य तदात्मक स्वरूप निरूपणादि सहृद्धारण्यक के हेतुरूप के वचनों से चैतन्यमात्र स्वरूप से जीव मुक्ति में स्थित रहता है ॥ व्यास जी इन्हीं पूर्वोक्त उपन्यासादि ऐश्वर्य्य प्राप्तिरूप हेतुओं से जीव का ब्रह्मस्वरूप होने में अविरोध मानते हैं ॥ योगी ऐश्वर्य्य सहित अपने ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त हो कर अन्य अधिपति से रहित अर्थात् स्वयं आप अपना और सब का अधिपतिरूप ब्रह्मस्वरूप से मुक्ति में स्थित रहता है । (उत्तर) इन सूत्रों का अर्थ इस प्रकार का नहीं किन्तु इन का यथार्थ अर्थ यह है सुनिये! जब तक जीव अपने स्वकीय शुद्ध स्वरूप को प्राप्त सब मर्त्तों से रहित हो कर पवित्र नहीं होता तब तक योग से ऐश्वर्य्य को प्राप्त हो कर अपने अन्तर्यामी ब्रह्म को प्राप्त हो के आनन्द में स्थित नहीं हो सकता ॥ इसी प्रकार जब पापादि रहित ऐश्वर्य्ययुक्त योगी होता है तभी ब्रह्म के साथ मुक्ति के आनन्द को भोग सकता है ऐसा जैमिनि आचार्य्य का मत है ॥ जब अविद्यादि दोषों से

कूट शुद्ध चैतन्यमात्र स्वरूप से जीव स्थिर होता है तभी "तदात्मकत्व" अर्थात् ब्रह्म-स्वरूप के साथ सम्बन्ध को प्राप्त होता है ॥ जब ब्रह्म के साथ ऐश्वर्य और शुद्ध विज्ञान को जीते ही जीवनसुक्त होता है तब अपने निर्मल पूर्व स्वरूप को प्राप्त हो कर आनन्दित होता है ऐसा व्यास मुनि जी का मत है ॥ जब योगी का सत्य संकल्प होता है तब स्वयं परमेश्वर को प्राप्त हो कर सुक्ति सुख को पाता है वहाँ स्वाधीन स्वतंत्र रहता है जैसा संसार में एक प्रधान दूसरा अप्रधान होता है वैसा सुक्ति में नहीं किन्तु सब सुक्त जीव एक से रहते हैं ॥ जो ऐसा न हो तो :-

नेतरोनुपपत्तेः ॥ १ । १ । १६ ॥

भेदव्यपदेशाच्च ॥ १ । १ । १७ ॥

विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरौ ॥ १ । २ । २२ ॥

अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥ १ । १ । १९ ॥

अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् ॥ अ० १ । १ । २० ॥

भेदव्यपदेशाच्चान्यः ॥ १ । १ । २१ ॥

गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तदर्शनात् ॥ १ । २ । ११ ॥

अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥ १ । २ । ३ ॥

अन्तर्याम्यधिदेवादिषु तद्धर्मव्यपदेशात् ॥ १ । २ । १८ ॥

शारीरश्रोभयेऽपि हि भेदेनैनमधीयते ॥ १ । २ । २० ॥

व्यासमुनिकृतवेदान्तसूत्राणि ॥

ब्रह्म से इतर जीव सृष्टिकर्ता नहीं है क्योंकि इस अल्प अल्पज्ञ सामर्थ्य वाले जीव में सृष्टिकर्तृत्व नहीं घट सकता इस से जीव ब्रह्म नहीं ॥ "रसं ह्येषाद्यं लब्ध्वानन्दी भवति" यह उपनिषद् का वचन है। जीव और ब्रह्म भिन्न हैं क्योंकि इन दोनों का भेद प्रतिपादन किया है जो ऐसा न होता तोरस अर्थात् आनन्द-स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त हो कर जीव आनन्दस्वरूप होता है यह प्राप्ति विषय ब्रह्म और प्राप्त होने वाले जीव का निरूपण नहीं घट सकता इस लिये जीव और ब्रह्म एक नहीं ॥

दिव्यो ह्यमूर्त्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । अप्राणो
ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः परः ॥ मुण्डकोपनिषदि मुं० २ ।
खं० १। मं० २ ॥

दिव्य, शुद्ध, मूर्तिमत्त्वरहित, सब में पूर्ण, बाहर भीतर निरन्तर व्यापक, अज्ञ, जन्म मरण शरीरधादणादि रहित, श्वास प्रश्वास शरीर और मन के संबन्ध से रहित, प्रकाशस्वरूप इत्यादि परमात्मा के विशेषण और अक्षर नाशरहित प्रकृति से परे अर्थात् सूक्ष्म जीव उस से भी परमेश्वर परे अर्थात् ब्रह्म सूक्ष्म है प्रकृति और जीवीं से ब्रह्म का भेद प्रतिपादनरूप हेतुओं से प्रकृति और जीवीं से ब्रह्म भिन्न है ॥ इसी सर्वव्यापक ब्रह्म में जीव का योग वा जीव में ब्रह्म का योग प्रतिपादन करने से जीव और ब्रह्म भिन्न हैं क्योंकि योग भिन्न पदार्थों का हुआ करता है ॥ इस ब्रह्म के अन्तर्यामि आदि धर्म कथन किये हैं और जीव के भीतर व्यापक होने से व्याप्य जीव व्यापक ब्रह्म से भिन्न है क्योंकि व्याप्यव्यापक संबन्ध भी भेद में संबन्धित होता है ॥ जैसे परमात्मा जीव से भिन्नस्वरूप है वैसे इन्द्रिय, अन्तःकरण, पृथिवी, आदि भूत दिशा, वायु, सूर्यादि दिव्यगुणों के भोग से देवतावाच्य विद्वानों से भी परमात्मा भिन्न है ॥ “गुहां प्रविष्टौ सुकृतस्य लोके” इत्यादि उपनिषदों के वचनों से जीव और परमात्मा भिन्न हैं । वैसा ही उपनिषदों में बहुत ठिकाने दिख लाया है ॥ “शरीरे भवः शरीरः” शरीर धारी जीव ब्रह्म नहीं है क्योंकि ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव जीव में नहीं घटते ॥ (अधिदैव) सब दिव्य मन आदि इन्द्रियादि पदार्थों (अधिभूत) पृथिव्यादि भूत (अध्यात्म) सब जीवीं में परमात्मा अन्तर्यामीरूप से स्थित है क्योंकि उसी परमात्मा के व्यापकत्वादि धर्म सर्वत्र उपनिषदों में व्याख्यात हैं ॥ शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है क्योंकि ब्रह्म से जीव का भेद स्वरूप से सिद्ध है ॥ इत्यादि शरीरकच्छत्रों से भी स्वरूप से ही ब्रह्म और जीव का भेद सिद्ध है वैसे ही वेदान्तियों का उपक्रम और उपसंहार भी नहीं घट सकता क्योंकि “उपक्रम” अर्थात् आरम्भ ब्रह्म से और “उपसंहार” अर्थात् प्रलय भी ब्रह्म ही में करते हैं जब दूसरा कोई वस्तु नहीं मानते तो उत्पत्ति और प्रलय भी ब्रह्म के धर्म ही जाते हैं और उत्पत्तिविनाशरहित ब्रह्म का प्रतिपादन वेदादि सत्यशास्त्रों में किया है वह नवीन वेदान्तियों पर कोप करे गा क्योंकि निर्विकार, अपरिणामि, शुद्ध, सनातन निर्भ्रान्तत्वादि विशेषणयुक्त ब्रह्म में विकार, उत्पत्ति और अज्ञान आदि का संभव किसी प्रकार नहीं हो सकता। तथा उपसंहार (प्रलय) के होने पर भी ब्रह्म कारणात्मक जड़ और जीव बराबर बने रहते हैं इस लिये उपक्रम और उपसंहार भी इन वेदान्तियों की कल्पना झूठी है ऐसी अन्य बहुत सी अशुद्ध बातें हैं कि जो शास्त्र और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरुद्ध हैं ।

इस के पश्चात् कुछ जैनियों और शंकराचार्य के अनुयायी लोगों के उपदेश के संस्कार आर्यावर्त में फैले थे और आपस में खण्डन भण्डन भी चलता था शंकराचार्य के तीसरी वर्ष के पश्चात् छज्जैन नगरी में विक्रमादित्य राजा कुछ प्रतापी

हुआ जिस ने सब राजाओं के मध्य प्रवृत्त हुई लड़ाई को मिटा कर शान्ति स्थापन की तत्पश्चात् भर्तृहरि राजा काव्यादि शास्त्र और अन्य में भी कुछ २ विद्वान् हुआ उस ने वैराग्यवान् हो कर राज्य को छोड़ दिया । विक्रमादित्य के पांचसौ वर्ष के पश्चात् राजा भोज हुआ उस ने थोड़ा सा व्याकरण और काव्यालंकारादि का प्रतना प्रचार किया कि जिस के राज्य में कालिदास बकरी चराने वाला भी रघुवंश काव्य का कर्ता हुआ राजा भोज के पास जो कोई अच्छा श्लोक बना कर ले जाता था उस को बहुत सा धन देते थे और प्रतिष्ठा होती थी । उस के पश्चात् राजाओं और श्रीमानों ने पढ़ना ही छोड़ दिया । यद्यपि शंकराचार्य के पूर्व वाममार्गियों के पश्चात् शैव आदि संप्रदायस्थ मतवादी भी हुए थे परन्तु उन का बहुत बल नहीं हुआ था महाराजा विक्रमादित्य से लेके शैवों का बल बढ़ता आया शैवों में पाशुपतादि बहुत सी शाखा हुई थीं जैसी वाममार्गियों में दश महाविद्यादि की शाखा हैं लोगों ने शंकराचार्य को शिव का अवतार ठहराया । उन के अनुयायी संन्यासी भी शैव मत में प्रवृत्त हो गये और वाममार्गियों को भी मिलते रहे वाममार्गी देवी जो शिव जी की पत्नी है उस के उपासक और शैव महादेव के उपासक हुए ये दोनों रुद्राक्ष और भस्म अव्यावधि धारण करते हैं परन्तु जितने वाममार्गी वेदविरोधी हैं वैसे शैव नहीं हैं ।

धिग् धिक् कपालं भस्मरुद्राक्षविहीनम् ॥ १ ॥

रुद्राक्षान् कण्ठदेशे दशनपरिमितान्मस्तके विंशती हे

षट् षट् कर्णप्रदेशे करयुगलगतान् द्वादशान्द्वादशैव ।

बाह्योरिन्दोः कलाभिः पृथगिति गदितमेकमेवं शिखायाम् ॥

वक्षस्थष्टाऽधिकं यः कलयति शतकं स स्वयं नीलकण्ठः ॥ २ ॥

इत्यादि बहुत प्रकार के श्लोक इन लोगों ने बनाये और कहने लगे कि जिस के कपाल में भस्म और कण्ठ में रुद्राक्ष नहीं है उस को धिक्कार है "तं त्यजेदन्त्यजं यथा" उस को पांडाल के तुल्य त्याग करना चाहिये ॥ १ ॥ जो कण्ठ में २२, शिर में ४०, छः छः कान्हीं में, वारह २ करीमें, गोलह २ भुजाओं में, १ शिखा में और हृदय में १०८ रुद्राक्ष धारण करता है वह साक्षात् महादेव के सदृश है ॥ २ ॥ ऐसा ही शाक्तभी मानते हैं पश्चात् इन वाममार्गी और शैवों ने सशक्ति कर के भग लिंग का स्थापन किया जिस को जलाधारी और लिंग कहते हैं और उस की पूजा करने लगे उन निर्लज्जों को तनिक भी लज्जा न आई ! कि यह पामरपन का काम हम क्यों करते हैं ? किसी कवि ने कहा है कि "स्वार्थो दोषं न पश्यति" स्वार्थी लोग अपने स्वार्थसिद्धि करने में दुष्ट कामों को

भी येठ मान दीप को नहीं देखते हैं उसी प्राणादि सूर्ति और भग लिंग की पूजा में सारे धर्म, अर्थ, काम, मोच, आदि सिद्धियां मानने लगे। जब राजा भोज के पश्चात् जैनी लोग अपने मन्दिरों में सूर्तिस्थापन करने और दर्शन पर्यटन को आने जाने लगे तब तो इन पोंपों के चेले भी जैन मन्दिर में जाने आने लगे और उधर पश्चिम में कुछ दूसरों के मत और यवन लोग भी आर्यावर्त में आने जाने लगे तब पोंपों ने यह श्लोक बनाया :-

न वदेद्यावनीं भाषां प्रायैः कण्ठगतैरपि ।

हस्तिना ताड्यमानोऽपि न गच्छेज्जैनमन्दिरम् ॥ १ ॥

चाहे कितना ही दुःख प्राप्त हो और प्राण कण्ठगत अर्थात् मृत्यु का समय भी क्यों न आया हो तो भी यावनी अर्थात् स्नेहभाषा सुप्त से न बोलनी और उन्मत्त हस्ती मारने को क्यों न दौड़ा आता हो और जैन के मन्दिर में जाने से प्राण बचता हो तो भी जैनमन्दिर में प्रवेश न करे किन्तु जैनमन्दिर में प्रवेश कर बचने से हाथी के सामने छा कर मर जाना अच्छा है ऐसे २ अपने चेलों को उपदेश करने लगे जब उन से कोई प्रमाण पूछता था कि तुम्हारे मत में किसी माननीय ग्रन्थ का भी प्रमाण है ? तो कहते थे कि हां हैं, जब वे पूछते थे कि दिखलाओ ? तब मार्कण्डेयपुराणादि के वचन पढ़ते और सुनाते थे जैसा कि दुर्गापाठ में देवी का वर्णन लिखा है राजा भोज के राज्य में व्यास जी के नाम से मार्कण्डेय और शिवपुराण किसी ने बना कर खड़ा किया था उस का समाचार राजा भोज को विदित होने से उन पंडितों को हस्तकृदनादि दंड दिया और उन से कहा कि जो कोई काव्यादिग्रन्थ बनावे तो अपने नामसे बनाये ऋषिसुनियों के नाम से नहीं। यह बात राजा भोज के बनाये संजीवनी नामक इतिहास में लिखी है कि जो ग्वालियर के राज्य "भिण्ड" नामक नगर के तिवाड़ो ब्राह्मणों के घर में है जिस को लखुना के रावसाहेब और उन के गुमास्ते रामदयालचौबे जी ने अपनी आंख से देखा है उस में स्पष्ट लिखा है कि व्यास जी ने चार सहस्र चार सौ और उन के शिष्यों ने पांचसहस्र छः सौ श्लोकयुक्त अर्थात् सब दश सहस्र श्लोकों के प्रमाण भारत बनाया था वह महाराजा विक्रमादित्य के समय में बीस सहस्र महाराजा भोज कहते हैं कि मेरे पिता जी के समय में पञ्चीन और अब मेरी थाधी उमर में तीन सहस्र श्लोकयुक्त महाभारत का पुस्तक मितता है जो ऐसे ही बढ़ता चला तो महाभारत का पुस्तक एक जंट का झोका होजायगा और ऋषि सुनियों के नाम से पुराणादि ग्रन्थ बनावे तो आर्यावर्तव्य लोग भ्रमणाल में पड़के वैदिकधर्म विहीन हो के भ्रष्ट हो जाय गे। इसमें विदित होता है कि राजाभोज को कुछ २ वेदों का संस्कार था इन के भोजप्रबंध में लिखा है कि:-

घट्यैकया क्रोशदशौकमश्वः सुकृत्रिमो गच्छति चारुगत्या ।
वायुं ददाति व्यजनं सुपुष्कलं विना मनुष्येण चलत्यजस्रम् ॥१॥

राजा भोज के राज्य में और समीप ऐसे शिल्पि लोग थे कि जिन्होंने घोड़े के आकार एक यान यंत्रकलायुक्त बनाया था कि जो एक कच्ची बहरी में ग्यारह कोश और एक घंटे में साढ़े सप्ताईश कोश जाता था वह भूमि और अन्तरिक्ष में भी चलता था और दूसरा पंखा ऐसा बनाया था कि विना मनुष्य के चलाये कलायंत्र के बल से नित्य चला करता और पुष्कल वायु देता था जो ये दोनों पदार्थ आज तक बने रहते तो यरोपियन् इतने अभिमान में न चढ़ जाते । जब पोप जी अपने चेलों को जैनियों से रोकने लगे तो भी मन्दिरों में जाने से न रुक सके और जैनियों की कथा में भी लोग जाने लगे जैनियों के पोप इन पुराणियों के पोपों के चेलों को बहकाने लगे तब पुराणियों ने विचारा कि इस का कोई उपाय करना चाहिये नहीं तो अपने चेलों जैनी ही जायेंगे पश्चात् पोपों ने यही सम्मति की कि जैनियों के सदृश अपने भी अवतार मंदिर स्मृति और कथा के पुस्तक बनावें इन लोगों ने जैनियों के चौबीस तीर्थकरों के सदृश चौबीस अवतार मंदिर और स्मृतियां बनाईं और जैसे जैनियों के आदि और उत्तर पुराणादि हैं वैसे अठारह पुराण बनाने लगे । राजा भोज के उड़ती वर्ष के पश्चात् वैष्णव मत का आरंभ हुआ एक शठकोप नामक कंजरवर्ण में उत्पन्न हुआ था उस से थोड़ा सा चला उस के पश्चात् सुनिवाहन भंगीकुलोत्पन्न और तीसरा यावनाचार्य यवनकुलोत्पन्न आचार्य हुआ तत्पश्चात् ब्राह्मण कुलज चौथा रामानुज हुआ उस ने अपना मत फैलाया । शैवों ने शिवपुराणादि शाक्तों ने देवी भागवतादि, वैष्णवों ने विष्णुपुराणादि बनाये उन में अपना नाम इस लिये नहीं धरा कि हमारे नाम से बनेंगे तो कोई प्रमाण न करेगा इस लिये व्यासादि ऋषि सुनियों के नाम धर के पुराण बनाये । नाम भी इन का वास्तव में नवीन रखना चाहिये था परन्तु जैसे कोई दरिद्र अपने बेटे का नाम महाराजाधिराज और आधुनिक पदार्थ का नाम सनातन रखदे तो क्या आश्चर्य है ? अब इन के आपस के जैसे झगड़े हैं वैसे ही पुराणों में भी धर हैं ।

देखो ! देवीभागवत में "श्रीः" नाम एक देवी श्री जो श्रीपुर की स्वामिनी लिखी है उसी ने सब जगत् को बनाया और ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, को भी उसी ने रचा:—जब उस देवी की इच्छा हुई तब उसने अपना हाथ घिसा उस से हाथ में एक छाला हुआ उस में से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई उस से देवी ने कहा कि तू मुझ से विवाह कर ब्रह्मा ने कहा कि तू मेरी माता है मैं तुझ से विवाह नहीं कर सकता ऐसा सुन कर माता को क्रोध चढ़ा और लड़के को भस्म कर दिया

श्रीर फिर हाथ विस के उसी प्रकार दूसरा लड़का उत्पन्न किया उस का नाम विष्णु रखा उस से भी उसी प्रकार कहा उस ने न माना तो उस को भी भस्म कर दिया पुनः उसी प्रकार तीसरे लड़के को उत्पन्न किया उस का नाम महादेव रखा और उस से कहा कि तू मुझ से विवाह कर महादेव बोला कि मैं तुझसे विवाह नहीं कर सकता तू दूसरा स्त्री का शरीर धारण कर वैसा ही देवी ने किया तब महादेव बोला कि यह दो ठिकाने राख सी क्या पड़ी है ? देवी ने कहा कि ये दोनों तेरे भाई हैं इन्हीं ने मेरी आज्ञा न मानी इस लिये भस्म कर दिये महादेव ने कहा कि मैं अकेला क्या करूंगा ? इन को जिला दे और दो स्त्री और उत्पन्न कर तीनों का विवाह तीनों से होगा ऐसा ही देवी ने किया फिर तीनों का तीनों के साथ विवाह हुआ । बाहर ! माता से विवाह न किया और बहिन से कर लिया ! क्या इस को उचित समझना चाहिये ? पश्चात् इन्द्रादि को उत्पन्न किया ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इन्द्र इन को पालकी के उठाने वाले कहार बनाया इत्यादि गणोड़े लंबे चौड़े मन माने लिखे हैं । कोई उन से पूछे कि उस देवी का शरीर और उस श्रीपुर का बनाने वाला और देवी के पिता माता कौन थे ? जो कहे कि देवो अनादि है, तो जो संयोगजन्य वस्तु है वह अनादि कभी नहीं हो सकती, जो माता पुत्र के विवाह करने में हरे तो भाई बहिन के विवाह में कौन सी अच्छी बात निकलती है ? जैसी इस देवी-भागवत में महादेव, विष्णु और ब्रह्मादि की क्षुद्रता और देवी की बड़ाई लिखी है इसी प्रकार शिवपुराण में देवी आदि की बहुत क्षुद्रता लिखी है अर्थात् ये सब महादेव के दास और महादेव सब का ईश्वर है जो रुद्राक्ष अर्थात् एक वृक्ष के फल को गोठली और राखधारण करने से मुक्ति मानते हैं तो राख में लोटने हारे गदहा आदि पशु और घुंघुं ची आदि के धारण करने वाले भील कंजर आदि मुक्ति क्यों न पावें और सुअर, कुत्ते, गधा आदि पशु राख में लोटने वालों को मुक्ति क्यों नहीं होती ? (प्रश्न) कालाग्निरुद्रोपनिषद् में भस्म लगाने का विधान लिखा है वह क्या भूठा है ? और "व्यायुषं जमदग्नेः" यजुर्वेद वचन । इत्यादि वेद मंत्रों से भी भस्मधारण का विधान और पुराण में रुद्र की प्रांख के अनुपात से जो वृक्ष हुआ उसी का नाम रुद्राक्ष है इसी लिये उसके धारण में पुण्य लिखा है एक भी रुद्राक्ष धारण करे तो सब पापों से छूट स्वर्ग को जाय यमराज और नरक का डर न रहे (उत्तर) कालाग्निरुद्रोपनिषद् किसी रखोड़िया मनुष्य अर्थात् राख धारण करने वाले ने बनाई है क्योंकि "यस्य प्रथमा रेखा सा भूर्लोकः" इत्यादि वचन उस में अनर्थक हैं जो प्रतिदिन हाथ से बनाई रेखा है वह भूलोक या इस का वाचक कैसे हो सकती है ? और जो "व्यायुषं-जमदग्नेः" इत्यादि मंत्र हैं वे भस्म वा त्रिपुण्ड्र धारण के वाची नहीं किन्तु—

“चक्षुर्वैजमद्भिः” । शतप० । हे परमेश्वर ! मेरे नेत्र की ज्योति (द्यायुषम्) तिगुणी अर्थात् तीन सौ वर्षपर्यन्त रहे और मैं भी ऐसे धर्म के काम करूँ कि जिस से दृष्टिनाश न हो । भला यह कितनी बड़ी सूखता की बात है कि आँख के अश्रुपात से भी वृक्ष उत्पन्न हो सकता है क्या परमेश्वर के सृष्टिकाम को कोई अन्यथा कर सकता है ? जैसा जिस वृक्ष का बीज परमात्मा ने रखा है उसी से वह वृक्ष उत्पन्न हो सकता है अन्यथा नहीं इस से जितना रुद्राक्ष, भस्म, तुलसी, कमलाक्ष, घास, चन्दन आदि को करुण में धारण करना है वह सब जंगली पशुवत् मनुष्यका काम है ऐसे वाममार्गी और शैव बहुत मिथ्याचारी विरोधी और कर्षव्य कर्म के त्यागी होते हैं उन में जो कोई श्रेष्ठ पुरुष है वह इन बातों का विश्वास न करके अच्छे कर्म करता है जो रुद्राक्षभस्मधारण से यमराज के दूत डरते हैं तो पुलिस के सिपाही भी डरते होंगे जब रुद्राक्ष भस्म धारण करने वालों से कुत्ता, सिंह, सर्प, बिच्छू, मक्खी और मच्छर आदि भी नहीं डरते तो न्यायाधीश के गण क्यों डरेंगे ? (प्रश्न) वाममार्गी और शैव तो अच्छे नहीं परन्तु वैष्णव तो अच्छे हैं ? (उत्तर) यह भी वेदविरोधी होने से उनसे भी अधिक बुरे हैं । (प्रश्न) “नमस्ते रुद्र मन्यवे । “वैष्णवमसि” । “वामनाय च” । गणानान्त्वा गणपतिदृष्टवामहे” । “भगवती भूयाः” “सूर्य आत्मा जगतस्वास्थ्यपथ” इत्यादि वेदप्रमाणों से शैवादि मत सिद्ध होते हैं पुनः क्यों खण्डन करते हो ? (उत्तर) इन वचनों से शैवादि संप्रदाय सिद्ध नहीं होते क्योंकि “रुद्र” परमेश्वर प्राणादि वायु, जीव, अग्नि आदि का नाम है जो क्रोधकर्ता रुद्र अर्थात् दुष्टों को रक्षाने वाले परमात्मा को नमस्कार करना प्राण और जाठराग्नि को अन्न देना । (गम-इति अन्नगाम -निघं० २ । ७) जो मङ्गलकारी सब संसार का अत्यन्त कल्याण करने वाला है उस परमात्मा को नमस्कार करना चाहिये “शिवस्य परमेश्वरस्यायं भक्तः शैवः” । “विष्णोः परमात्मनोऽयं भक्तो वैष्णवः” “गणपतेः सकलजगत् स्वामिनोऽयं सेवको गणपतः” । “भगवत्या वाण्या अयं सेवकः भागवतः” । “सूर्यस्य चराचरात्मनोऽयं सेवकः सौरः” ये सब रुद्र, शिव, विष्णु, गणपति, सूर्यादि परमेश्वर के और भगवती सत्यभाषणयुक्त वाणी का नाम है । इस में बिना समझे ऐसा भगड़ा मचाया है जैसे :-

एक किसी वैरागी के दो चले थे वे प्रतिदिन गुरु के पग दावा करते थे एक ने दाहिने पग और दूसरे ने बायें पग की सेवा करनी बाँट ली थी एक दिन ऐसा हुआ कि एक चेला कहीं बजार हाट को चला गया और दूसरा अपने सेव्य पग की सेवा कर रहा था इतने में गुरु जी ने करवट फेरा तो उसके पग पर दूसरे गुरुभाई का सेव्य पग पड़ा उस ने ले डंडा पग पर धर मारा गुरु ने कहा कि अरे दुष्ट ! तू ने यह क्या किया ? चेला बोला कि मेरे सेव्य पग के ऊपर यह

पग क्यों आ चढ़ा ? इतने में दूसरा चेला जो कि बजार हाट की गया था आ पहुँचा वह भी अपने सेव्य पग की सेवा करने लगा देखा तो पग खूना पड़ा है बोला कि गुरु जो यह मेरे सेव्य पग में क्या हुआ ? गुरु ने सब वृत्तान्त सुना दिया वह भी खूँखूँ न बोला न चला चुप चाप डगडा उठा के बड़े बल से गुरु के दूसरे पग में मारा तो गुरु ने उच्चस्वर से पुकार मचाई तब दोनों चेले उगडा लेके पड़े और गुरु के पग को पीटने लगे तब तो बड़ा कोलाहल मचा और लोग सुन कर आये कह ने लगे कि साधु जी क्या हुआ ? उन में से किसी बुद्धिमान् पुरुष ने साधु को छुड़ा के पयात् उन खूँखूँ चेलों को उपदेश किया कि देखो ये दोनों पग तुम्हारे गुरु के हैं उन दोनों की सेवा करने से उसी को सुख पहुँचता और दुःखदेने से भी उसी एक को दुःख होता है ॥

जैसे एक गुरु की सेवा में चेलाओं ने लीला की इसी प्रकार जो एक अखण्ड सच्चिदानन्दानन्तरूप परमात्मा के विष्णु ब्रह्मादि अनेक नाम हैं उन नामों का अर्थ जैसा कि प्रथम समुद्भास में प्रकाश कर आये हैं उस सत्यार्थ को न जान कर शैव शाक्त वैष्णवादि संप्रदायी लोग परस्पर एक दूसरे के नाम की निन्दा करते हैं मन्दमति तनिक भी अपनी बुद्धि को फौला कर नहीं विचारते हैं कि ये सब विष्णु, ब्रह्म, शिव आदि नाम एक अद्वितीय, सर्वनियन्ता, सर्वान्तर्यामी, जगदीश्वर के अनेक गुणकर्मस्वभावयुक्त होने से उसी के वाचक हैं भला क्या ऐसे लोगों पर ईश्वर का कोप न होता होगा ? अब देखिये चक्राङ्कित वैष्णवों की अज्ञतमाया :—

तापः पुण्ड्रं तथा नाम माला मंत्रस्तथैव च ।

अमी हि पञ्च संस्काराः परमैकान्तहेतवः ॥

अतप्ततनूर्न तदामो अश्रुते । इतिश्रुतेः ॥

रामानुजपटलपद्मौ ॥

अर्थात् (तापः) शंख, चक्र, गदा, और पद्म के चिह्नों को अग्नि में तपा के भुजा के मूल में दाग दे कर पचात् दुग्धयुक्त पान में बुझाते हैं और कोई उस दूध को पी भी लेते हैं अब देखिये प्रत्यक्ष ही मनुष्य के मांस का भी स्वाद उस में आता ही गा ऐसे २ कर्मों से परमेश्वर को प्राप्त होने की आशा करते हैं और कहते हैं कि बिना शंख, चक्रादि से शरीर तपाये जीव परमेश्वर को प्राप्त नहीं होता क्योंकि वह (आमः) अर्थात् क्षया है और जैसे राज्य के चपरास आदि चिह्नों के होने से राजपुरुष जान उस से सब लोग डरते हैं वैसे ही विष्णु के शंख, चक्रादि आयुधोंके चिह्न देख कर यमराज और उन के गण डरते हैं और कहते हैं कि :—

दो० बाना बड़ा दयाल का तिलक छाप और माल ।

यम डरपै कालू कहे भय माने भूपाल ॥

अर्थात् भगवान् का बाना तिलक, छाप और माला धारण करना बड़ा है । जिस से यमराज और राजा भी डरता है (पुण्ड्रम्) त्रिशूल के सदृश ललाट में चित्र निकालना (नाम) नारायणदास, विष्णुदास, अर्थात् दास शब्दान्त नाम रखना (माला) कमलगट्टे की रखना और पांचवां (मंत्र) जैसे :-

ओं नमो नारायणाय ॥

यह इन्हीं ने साधारण मनुष्यों के लिये मंत्र बना रक्खा है तथा ।

श्रीमन्नारायणचरणं शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः ॥

श्रीमते रामानुजाय नमः ॥

प्रत्यादि मंत्र धनाव्य और माननीयों के लिये बना रक्खे हैं । देखिये यह भी एक दुकान ठहरी ! जैसा मुख वैसा तिलक ! इन पांच संस्कारों को चक्रांकित मुक्ति के हेतु मानते हैं । इन मंत्रों का अर्थ—मैं नारायण को नमस्कार करता हूँ ॥ और मैं लक्ष्मीयुक्त नारायण के चरणारविन्द के शरण को प्राप्त होता हूँ और श्रीयुक्त नारायण को नमस्कार करता हूँ अर्थात् जो शोभायुक्त नारायण है उस को मेरा नमस्कार होवे ॥ जैसे वाममार्गी पांच मकार मानते हैं वैसे चक्रांकित पांच संस्कार मानते हैं और अपने शंख चक्र से दाग देने के लिये जो वेद मंत्र का प्रमाण रक्खा है । उस का इस प्रकार का पाठ और अर्थ है:-

पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्यपि विश्वतः ।

अतस्तनूनं तदामो अश्नुते शृतासु इह हन्तस्तत्समाश्रित ॥ १ ॥

तपोऽपि पवित्रं विततं दिवस्पदे ॥ २ ॥ ऋ० मं० १॥ सू० ८३ ॥ मन्त्र १ ॥ २ ॥

हे ब्रह्माण्ड और वेदों के पालन करने वाले प्रभु सर्वसामर्थ्ययुक्त सर्वशक्तिमान् आप ने अपनी व्याप्ति से संसार के सब अवयवों को व्याप्त कर रक्खा है उस आप का जो व्यापक पवित्रस्वरूप है उस को ब्रह्मचर्य, सत्यभाषण, शम, दम, योगाभ्यास, जितेन्द्रिय, सत्संगादि तपश्चर्या से रहित जो अपरिपक्व आत्मा अन्तःकरणयुक्त है वह उस तेरे स्वरूप को प्राप्त नहीं होता और जो पूर्वोक्त तप से शुद्ध है वे ही इस तप का आचरण करते हुए उस तेरे शुद्धस्वरूप को अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं ॥ जो प्रकाशस्वरूप परमेश्वर की सृष्टि में विस्तृत पवित्राचरणरूप तप

करते हैं वे ही परमात्मा को प्राप्त होने में योग्य होते हैं ॥ अब विचार कीजिये कि रामानुजीयादि लोग इस मन्त्र से "चक्रांकित" होना सिद्ध क्यों कर करते हैं? भला कहिये वे विद्वान् थे वा अविद्वान् ? जो कही कि विद्वान् थे । तो ऐसा असंभावित अर्थ इस मन्त्र का क्यों करते? क्योंकि इस मन्त्र में "अतप्ततनूः" शब्द है किन्तु "अतप्तभुजैकदेशः" नहीं "अतप्ततनूः" यह नक्षत्रशिखाग्रपर्यन्त समुदायार्थक है इस प्रमाण करके अग्नि ही से तपाना चक्रांकित लोग स्वीकार करें तो अपने २ शरीर को भाड़ में भोंक के सब शरीर को जलावे तो भी इस मन्त्र के अर्थ से विरुद्ध है क्योंकि इस मन्त्र में सत्यभाषणादि पवित्र कर्म करना तप लिया है ॥

ऋतं तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः शान्तं तपो दमस्तपः ॥

तैत्तिरी० प्र० १०। अ० ८ ॥

इत्यादि तप कहाता है अर्थात् (ऋतं तपः) यद्यर्थ शुद्धभाव, सत्यमानना, सत्यबोलना, सत्यकरना, मन को अधर्म में न जाने देना, बाह्य इन्द्रियों को अन्यायाचरणी में जाने से रोकना अर्थात् शरीर इन्द्रिय और मन से शुभ कर्मों का आचरण करना, आदि उत्तम धर्मयुक्त कर्मों का नाम तप है धातु को तपाके घमड़ी को जलाना तप नहीं कहाता। देखो! चक्रांकित लोग अपने को बड़े वैष्णव मानते हैं परन्तु अपनी परम्परा और कुकर्म की ओर ध्यान नहीं देते कि प्रथम इस का मूलपुरुष "शठकोप" हुआ कि जो चक्रांकितों ही के ग्रन्थों और भक्तमानु ग्रंथ जो नाभाडूम ने बनाया है उन में लिखा है :-

विक्रीय शूर्पं विचचार योगी ॥

इत्यादि वचन चक्रांकितों के ग्रंथों में लिखे हैं शठकोप योगी शूर्प को बना बेंच कर विचरता था अर्थात् कंजरजाति में उत्पन्न हुआ था जब उस ने ब्राह्मणों से पढ़ना या सुनना चाहा होगा तब ब्राह्मणों ने तिरस्कार किया होगा उस ने ब्राह्मणों के विरुद्ध सम्प्रदाय तिलक चक्राङ्कित आदि शास्त्रविरुद्ध मनमानी बातें चलाई होंगी उसका चेला "सुनिवाहन" जो कि चारणाल वर्ण में उत्पन्न हुआ था उस का चेला "यामनाचार्य" जो कि यवन कुलोत्पन्न था जिस का नाम बदल के कोई २ "यामुनाचार्य" भी कहते हैं उन के पद्यात् "रामानुज" ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो कर चक्राङ्कित हुआ उस के पूर्व मय भाषा के ग्रंथ बनाये थे रामानुज ने कुछ संस्कृत पद के संस्कृत में श्लोकवद् ग्रंथ और शारीरकचून् और उपनिषदों की टीका शंकराचार्य की टीका से विरुद्ध बनाई और शंकराचार्य की बहुतसी निन्दा की जैसा शंकराचार्य का मत है कि अद्वैत अर्थात् जीव व्रण एक ही है दूसरी कोई यत्न वास्तविक नहीं, जगत् प्रपंच सब मिथ्या मायारूप अनित्य है ।

इस से विरुद्ध रामानुज का जीव ब्रह्म और माया तीनों नित्य हैं। यहाँ शंकराचार्य का मत ब्रह्म से अतिरिक्त जीव और कारण वस्तु कान मानना अच्छा नहीं और रामानुज का इस अंग में जोकि विशिष्टाद्वैत जीव और माया सहित परमेश्वर एक है यह तीन का मानना और अद्वैत का कहना सर्वथा व्यर्थ है। ये सर्वथा ईश्वर के आधीन परतन्त्र जीव को मानना, कण्ठी, तिलक, माला, मूर्त्तिपूजनादि पाखण्डमत चलाने आदि बुरी बातें चक्रांकित आदि में हैं जैसे चक्रांकित आदि वेदविरोधी हैं वैसे शंकराचार्य के मत के नहीं।

(प्रश्न) मूर्त्तिपूजा कहां से चली? (उत्तर) जैनियों से। (प्रश्न) जैनियों ने कहां से चलाई? (उत्तर) अपनी मूर्खता से। (प्रश्न) जैनी लोग कहते हैं कि शान्त ध्यानावस्थित बैठी हुई मूर्त्ति देख के अपने जीव का भी शुभ परिणाम वैसा ही होता है (उत्तर) जीव चेतन और मूर्त्ति जड़ क्या मूर्त्ति के सदृश जीव भी जड़ हो जाय गा? यह मूर्त्तिपूजा केवल पाखण्ड मत है जैनियों ने चलाई है इस लिये इन का खण्डन १२ वें ससुक्तास में करेंगे। (प्रश्न) शान्त आदि ने मूर्त्तियों में जैनियों का अनुकरण नहीं किया है क्योंकि जैनियों की मूर्त्तियों के सदृश वैष्णवादि की मूर्त्तियां नहीं हैं। (उत्तर) हां यह ठीक है जो जैनियों के तुल्य बनाते तो जैनमत में मिल जाते इस लिये जैनों की मूर्त्तियों से विरुद्ध बनाईं क्योंकि जैनों से विरोध करना इन का काम और इन से विरोध करना मुख्य उन का काम था जैसे जैनों ने मूर्त्तियां नंगी, ध्यानावस्थित और विरक्तमनुष्य के समान बनाईं हैं उन से विरुद्ध वैष्णवादि ने यथेष्ट शृङ्गारित स्त्री के सहित रंग राग भोग विषयासक्तिसहिताकार खड़ी और बैठी हुई बनाईं हैं। जैनी लोग बहुत से शंख घण्टा घरियार आदि बाजे नहीं बजाते ये लोग बड़ा कोलाहल करते हैं तब तो ऐसी लीला के रचने से वैष्णवादि संप्रदायी पोपों के चेले जैनियों के जाल से बच के इन की लीलामें आ फंसे और बहुत से व्यासादि महर्षियों के नाम से मनमानी असंभव गाथायुक्त ग्रंथ बनाये उन का नाम "पुराण" रख कर कथा भी सुनाने लगे और फिर ऐसी २ विचित्र माया रचने लगे कि पापण की मूर्त्तियां बना कर गुप्त कहीं पहाड़ वा जङ्गलादि में धर आये वा भूमि में गाड़ दीं पश्चात् अपने चेलों में प्रसिद्ध किया कि सुभ को रात्रि को स्वप्न में महादेव, पार्वती, राधा, कृष्ण, सीता, राम, वा लक्ष्मी नारायण और भैरव, हनुमान, आदि ने कहा है कि हम अमुक २ ठिकाने हैं हम को वहां से ला, मन्दिर में स्थापन कर और तू ही हमारा पुजारी होवे तो हम मनवांछित फल देवें जब आंख के अन्धे और गांठ के पूरे लोगों ने घोप जी की लीला सुनी तब तो सच ही मान ली और उन से पूछा कि ऐसी वह मूर्त्ति कहां पर है? तब तो पोप जी बोले कि अमुक पहाड़ वा जङ्गल में है चलो मेरे साथ दिखला दूं तब तो वे अन्धे उस धूस के साथ

चल के वहाँ पहुँच कर देखा आश्चर्य में हो कर उस पोप के पग में गिर कर कहा कि आप के ऊपर इस देवता की बड़ी ही कृपा है अब आप ले चलिये और हम मन्दिर बनवा देंगे उसमें इस देवता की स्थापना कर आप ही पूजा करना और हम लोग भी इस प्रतापी देवता के दर्शन स्पर्शन करके मनोवांछित फल पावेंगे। इसी प्रकार जब एक ने लीला रची तब तो उस को देख सब पोप लोगों ने अपनी जीविकाएँ छल कपट से मूर्तियाँ स्थापन कीं। (प्रश्न) परमेश्वर निराकार है वह ध्यान में नहीं आ सकता इस लिये अवश्य मूर्ति होनी चाहिये भला जो कुछ भी नहीं करे तो मूर्ति के सम्राज जा हाथ जोड़ परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते हैं इसमें क्या हानि है? (उत्तर) जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तब उस को मूर्ति ही नहीं बन सकती और जो मूर्ति के दर्शनमात्र से परमेश्वर का स्मरण होवे तो परमेश्वर के बनाये पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति आदि अनेक पदार्थ जिनमें ईश्वर ने अद्भुत रचना की है क्या ऐसी रचनायुक्त पृथिवी पहाड़ आदि परमेश्वर रचित महामूर्तियाँ कि जिन पहाड़ आदि से मनुष्यकृत मूर्तियाँ बनती हैं उन को देख कर परमेश्वर का स्मरण नहीं हो सकता? जो तुम कहते हो कि मूर्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण होता है यह तुम्हारा कथन सर्वथा मिथ्या है और जब वह मूर्ति सामने न होगी तो परमेश्वर के स्मरण न होने से मनुष्य एकान्त पा कर चौरौ नारी आदि कुकर्म करने में प्रवृत्त भी हो सकता है क्योंकि वह जानता है कि इस समय यहाँ मुझे कोई नहीं देखता इस लिये वह अनर्थ करे बिना नहीं चूकता इत्यादि अनेक दोष पाषाणादि मूर्तिपूजा करने से सिद्ध होते हैं। अब देखिये! जो पाषाणादि मूर्तियों को न मान कर सर्वदा सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामी न्यायकारी परमात्मा को सर्वत्र जानता और मानता है वह पुरुष सर्वत्र सर्वदा परमेश्वर को सब के बुरे भले कर्मों का द्रष्टा जान कर एक क्षणमात्र भी परमात्मा से अपने को पृथक् न जाग के कुकर्म करना तो कहां रहा किन्तु मन में कुचेष्टा भी नहीं कर सकता क्योंकि वह जानता है जो मैं मन वचन और कर्म से भी कुछ बुरा काम करूँगा तो इस अन्तर्यामी के न्याय से बिना दंड पाये कदापि न बचूँगा और नामस्मरणमात्र से कुछ भी फल नहीं होता जैसा कि मिशरी रकहनेसे सुँह मीठा और नींबू रकहने से कड़वा नहीं होता किन्तु जीभ से चाखने ही से मीठा वा कड़वापन जाना जाता है। (प्रश्न) क्या नाम लेना सर्वथा मिथ्या है जो सर्वत्र पुराणों में नामस्मरण का बड़ा माहात्म्य लिखा है? (उत्तर) नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं जिस प्रकार तुम नामस्मरण करते हो वह रीति भ्रूँठी है। (प्रश्न) हमारी कैसी रीति है? (उत्तर) वेदविकृत। (प्रश्न) भला अब आप हम को वेदोक्त नामस्मरण की रीति बतलाइये? (उत्तर) नामस्मरण इस प्रकार

करना चाहिये जैसे "न्यायकारी" ईश्वर का एक नाम है इस नाम से जो इस का अर्थ है कि जैसे पक्षपातरहित हो कर परमात्मा सब का यथावत् न्याय करता है वैसे उस को ग्रहण कर न्याययुक्त व्यवहार सर्वदा करना अन्याय कभी न करना इस प्रकार एक नाम से भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है ।

(प्रश्न) हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है परन्तु उस ने शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और देवी आदि के शरीरधारण कर राम कृष्णादि अवतार लिये इस से उस की मूर्ति बनती है क्या यह भी बात झूठी है ? (उत्तर) हाँ झूठी क्योंकि "अज एकपात्" "अकायम्" इत्यादि विशेषणों से परमेश्वर को जन्म मरण और शरीरधारणरहित वेदों में कहा है तथा युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हो सकता क्योंकि जो आकाशवत् सर्वत्र व्यापक अनन्त और सुख दुःख दृश्यादि गुणरहित है वह एक छोटे से वीर्य गर्भाशय और शरीर में क्यों कर आ सकता है ? आता जाता वह है कि जो एकदेशीय हो और जो अचल अदृश्य जिस के बिना एक परमाणु भी खाली नहीं है उस का अवतार कहना जानो बन्ध्या के पुत्र का विवाह कर उस के पौत्र के दर्शन करने की बात कहना है। (प्रश्न) जब परमेश्वर व्यापक है तो मूर्ति में भी है पुनः चाहे किसी पदार्थ में भावना करके पूजा करना अच्छा क्यों नहीं ? देखो !:-

न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृगमये ।

भावे हि विद्यते देवस्तस्माद्भावो हि कारणम् ॥

परमेश्वर देव न काष्ठ न पाषाण न मृत्तिका से बनाये पदार्थों में है किन्तु परमेश्वर तो भाव में विद्यमान है अहां भाव करें वहां ही परमेश्वर सिद्ध होता है ? (उत्तर) जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो किसी एक वस्तु में परमेश्वर की भावना करना अन्यत्र न करना यह ऐसी बात है कि जैसी चक्रवर्ती राजा को सब राज्य की सत्ता से छुड़ा के एक छोटी सी भीपड़ी का स्वामी मानना देखो ! यह कितना बड़ा अपमान है वैसा तुम परमेश्वर का भी अपमान करते हो । जब व्यापक मानते हो तो बाटिका में से पुष्प पत्र तोड़ के क्यों चढ़ाते ? चन्दन घिस के क्यों लगाते ? धूप को जला के क्यों देते ? घंटा, घरियाल, भांज, पद्याजों को लकड़ी से कूटना पीटना क्यों करते हो ? तुम्हारे हाथों में है क्यों छोड़ते ? गिर में है क्यों गिर नमाते ? अन्न जलादि में है क्यों नैवेद्य धरते ? जल में है स्नान क्यों कराते ? क्यों कि उन सब पदार्थों में परमात्मा व्यापक है और तुम व्यापक की पूजा करते हो वा व्याप्य की ? जो व्यापक की करते हो तो पाषाण लकड़ी आदि पर चन्दन पुष्पादि क्यों चढ़ाते हो ? और जो व्याप्य की करते हो तो हम परमेश्वर की पूजा करते हैं ऐसा झूठ क्यों बोलते हो ? हम पाषाणादि के पुजारी हैं ऐसा सत्य क्यों नहीं बोलते ? ॥

अब कहिये "भाव" सच्चा है वा झूठा ? जो कहो सच्चा है तो तुम्हारे भाव के आधीन हो कर परमेश्वर बह हो जाय गा और तुम मृतिका में सुवर्ण रज-तादि, पाषाण में हीरा, पद्मां आदि, ससुद्र फेन में मोती, जल में घृत, दुग्ध, दधि आदि और धूलि में मैदा शकर आदि की भावना करके उन को वैसे क्यों नहीं बनाते हो ? तुम लोग दुःख की भावना कभी नहीं करते वह क्यों होता ? और सुख की भावना सदैव करते हो वह क्यों नहीं प्राप्त होता ? पन्था पुरुष नेत्र की भावना करके क्यों नहीं देखता ? मरने की भावना नहीं करते क्यों मर जाते हो ? इस लिये तुम्हारी भावना सच्ची नहीं क्योंकि जैसे में वैसी करने का नाम भावना कहते हैं जैसे अग्नि में अग्नि जल में जल जानना और जल में अग्नि अग्नि में जल समझना अभावना है । क्योंकि जैसे को वैसा जानना ज्ञान और अन्यथा जानना अज्ञान है इस लिये तुम अभावना को भावना और भावना को अभावना कहते हो (प्रश्न) अजी जब तक वेद मन्त्रों से आवाहन नहीं करते तब तक देवता नहीं आता और आवाहन करने से भूट आता और विसर्जन करने से चला जाता है (उत्तर) जो मन्त्र को पढ़ कर आवाहन करने से देवता आ जाता है तो मूर्ति चेतन क्यों नहीं हो जाती ? और विसर्जन करने से चली क्यों नहीं जाती ? और वह कहां से आता और कहां जाता है ? । सुनो भाई ! पूर्णपरमात्मा न आता और न जाता है जो तुम मन्त्रबल से परमेश्वर को बुला लेते हो तो उन्हीं मन्त्रों से अपने मरे हुए पुत्र के शरीर में जीव को क्यों नहीं बुला लेते ? और शत्रु के शरीर में जीवात्मा का विसर्जन करके क्यों नहीं मार सकते ? । सुनो भाई ! भोले भाले लोगो ! ये पोप जी तुम को ठगकर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं वेदों में पाषाणादि मूर्तिपूजा और परमेश्वर के आवाहन विसर्जन करने का एक अक्षर भी नहीं है । (प्रश्न) :—

प्राणा इहागच्छन्तु सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । आत्मेहाग-
च्छतु सुखं चिरं तिष्ठतु स्वाहा । इन्द्रियाणीहागच्छन्तु सुखं
चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ॥

इत्यादि वेदमन्त्र हैं क्यों कहते हो नहीं हैं ? (उत्तर) अरे भाई ! बुद्धिको छोड़ी सौ तो अपने काम में लाओ ये सब कपोलकल्पित वामभागियों की वेद-विरुद्ध तन्त्र ग्रन्थों की पोपरचित पंक्तियां हैं वेदवचन नहीं । (प्रश्न) क्या तन्त्र झूठा है ? (उत्तर) हां, सर्वथा झूठा है, जैसे आवाहन प्राणप्रतिष्ठादि पाषाणादि मूर्तिविषयक वेदों में एक मन्त्र भी नहीं वैसे "ज्ञानं समर्पयामि" इत्यादि वचन भी नहीं अर्थात् इतना भी नहीं है कि "पाषाणादिमूर्ति रचयित्वा मन्दिरेषु संस्थाप्य गन्धादिभिरर्चयेत्" अर्थात् पाषाण को मूर्ति बना मन्दिरों में स्थापन कर चन्दन

अज्ञतादि से पूजे ऐसा लेशमात्र भी नहीं (प्रश्न) जो वेदों में विधि नहीं तो खंडन भी नहीं है और जो खंडन है तो "प्राप्तौ सत्यां निषेधः" मूर्ति के होने ही से खंडन हो सकता है । (उत्तर) विधि तो नहीं परन्तु परमेश्वर के स्थान में किसी अन्य पदार्थ की पूजनीय न मानना और सर्वथा निषेध किया है क्या अपूर्वविधि नहीं होता ? सुनो यह है :—

अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते । ततो भूय इव
ते तमो य उ सम्भूत्याऽरताः । यजुः० ॥ अ० ४० म० ॥९॥

न तस्य प्रतिमा अस्ति । यजुः० ॥ अ० ३२ । मं० ३ ॥

यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥

यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥

यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षूषि पश्यन्ति ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥

यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥

यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ केनोपनि० ॥

जो असंभूति अर्थात् अनुत्पन्न अनादि प्रकृति कारण की ब्रह्म के स्थान में उपासना करते हैं वे अन्धकार अर्थात् अज्ञान और दुःखसागर में डूबते हैं । और संभूति जो कारण से उत्पन्न हुए कार्यरूप पृथिवी आदि भूत पापान् और वृक्षादि अवयव और मनुष्यादि के शरीर की उपासना ब्रह्म के स्थान में करते हैं वे उस अन्धकार से भी अधिक अन्धकार अर्थात् महामूर्ख चिरकाल घोर दुःखरूप नरक में गिर के महाक्लेश भोगते हैं । जो सब जगत् में व्यापक है उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा परिमाण सादृश्य या मूर्ति नहीं है । जो वाणी की "इयत्ता" अर्थात् यह जल है लीजिये वैसा विषय नहीं और जिस के धारण और सत्ता से वाणी की प्रवृत्ति होती है उसी को ब्रह्म जान और उपासना

कर और जो उस से भिन्न है वह उपासनीय नहीं ॥ जो मन से "इयत्ता" करके मन में नहीं आता जो मन को जानता है उसी ब्रह्म को तू जान और उसी की उपासना कर जो उस से भिन्न जीव और अन्तःकरण है उस की उपासना ब्रह्म के स्थान में मत कर ॥ जो आंख से नहीं देख पड़ता और जिस से सब आंखें देखती हैं उसी को तू ब्रह्म जान और उसी की उपासना कर और जो उस से भिन्न सूर्य विद्युत् और अग्नि आदि जड़ पदार्थ हैं उन की उपासना मत कर ॥ जो श्रोत्र से नहीं सुना जाता और जिस से श्रोत्र सुनता है उसी को तू ब्रह्म जान और उसी की उपासना कर और उस से भिन्न शब्दादि की उपासना उस के स्थान में मत कर ॥ जो प्राणी से चलायमान नहीं होता जिस से प्राण गमन को प्राप्त होता है उसी ब्रह्म को तू जान और उसी की उपासना कर जो यह उस से भिन्न वायु है उस की उपासना मत कर ॥ इत्यादि बहुत से निषेध हैं । निषेध प्राप्त और अप्राप्त का भी होता है "प्राप्त"का जैसे कोई कहीं बैठा हो उस को वहाँ से उठा देना "अप्राप्त" का जैसे हे पुत्र ! तू चोरी कभी मत करना, कुवे में मत गिरना, दुष्टों का संग मत करना, विद्याहीन मत रहना इत्यादि अप्राप्त का भी निषेध होता है सो मनुष्यों के ज्ञान में अप्राप्त परमेश्वर के ज्ञानमें प्राप्त का निषेध किया है । इस लिये पापाणादि मूर्त्तिपूजा अत्यन्त निषिद्ध है । (प्रश्न) मूर्त्तिपूजा में पुण्य नहीं तो पाप भी नहीं है । (उत्तर) कर्म दो ही प्रकार के होते हैं:—विहित—जो कर्त्तव्यता से वेद में सत्यभाषणादि प्रतिपादित हैं, दूसरे निषिद्ध जो अकर्त्तव्यता से मिथ्याभाषणादि वेद में निषिद्ध हैं जैसे विहित का अनुष्ठान करना वह धर्म उस का न करना अधर्म है वैसे ही निषिद्ध कर्म का करना अधर्म और न करना धर्म है जब वेदोंसे निषिद्ध मूर्त्तिपूजादि कर्मों को तुम करते हो तो पापी क्यों नहीं?(प्रश्न)देखो!वेद अनादि है उस समय मूर्त्ति का क्या काम था क्योंकि पहिले तो देवता प्रत्यक्ष थे यह रीति तो पीछेसे तंत्र और पुराणों से चली है जब मनुष्यों का ज्ञान और सामर्थ्य न्यून हो गया तो परमेश्वर का ध्यान में नहीं ला सके और मूर्त्ति का ध्यान तो कर सकते हैं इस कारण अज्ञानियों के लिये मूर्त्तिपूजा है, क्योंकि सीढ़ी २ से चढ़े तो भवन पर पहुँच जाय पहिली सीढ़ी छोड़ कर ऊपर जाना चाहे तो नहीं जा सकता इस लिये मूर्त्ति प्रथम सीढ़ी है इस को पूजतेर जब ज्ञान होगा और अन्तःकरण पवित्र होगा तब परमात्मा का ध्यान कर सकेगा जैसे लक्ष्य को मारने वाले प्रथम स्थूल लक्ष्य में तीर गोली वा गोला आदि मारतार पथात् सूक्ष्म में भी निशाना मार सकता है वैसे स्थूल मूर्त्ति की पूजा करता २ पुनः सूक्ष्म ब्रह्म को भी प्राप्त होता है । जैसे जड़कियां गुड़ियों का खेल तब तक करती हैं कि जब तक सच्चे पति को प्राप्त नहीं होती इत्यादि प्रकार से मूर्त्तिपूजा करना दुष्ट काम नहीं (उत्तर) जब

वेदविहित धर्म और वेदविरुद्धाचरण में अधर्म है तो पुनः तुम्हारे कहने से भी मूर्त्तिपूजा करना अधर्म ठहरा जोर ग्रंथ वेद से विरुद्ध हैं उनसे का प्रमाण करना जाना नास्तिक होना है सुनो :-

नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ मनु० २।११।

था वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः ।

सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तस्मोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥

उत्पद्यन्ते व्यवन्ते च यान्यतो न्यानि कानि चित् ।

तान्यर्वाक्कालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ॥ म०

अ० १२।१५।१६ ॥

मनु जी कहते हैं कि जो वेदों की निन्दा अर्थात् अपमान, त्याग, विरुद्धाचरण करता है वह नास्तिक कहाता है ॥ जो ग्रन्थ वेदबाह्य कुत्सित पुरुषों के बनाये संसार को दुःखसागर में डुबाने वाले हैं वे सब निष्फल असत्य अन्धकाररूप इस लोक और परलोक में दुःखदायक हैं ॥ जो इन वेदों से विरुद्ध ग्रन्थ उत्पन्न होते हैं वे आधुनिक होने से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं उन का मानना निष्फल और झूठा है इसी प्रकार ब्रह्मा से ले कर जैमिनि महर्षि पर्यन्त का मत है कि वेद-विरुद्ध को न मानना किन्तु वेदानुकूल ही का आचरण करना धर्म है क्योंकि वेद सत्य अर्थ का प्रतिपादक है इस से विरुद्ध जितने तन्त्र और पुराण हैं वेदवि-रुद्ध होने से झूठे हैं और जो वेद से विरुद्ध पुस्तक हैं उन में कहीं हुई मूर्त्ति-पूजा भी अधर्मरूप है । मनुष्यों का ज्ञान जड़ को पूजा से नहीं बढ़ सकता किन्तु जो कुछ ज्ञान है वह भी नष्ट हो जाता है इस लिये ज्ञानियों की सेवा, सत्त्व से ज्ञान बढ़ता है पापाणादि से नहीं । क्या पापाणादि मूर्त्तिपूजा से परमेश्वर को ध्यान में कभी ला सकता है ? नहीं २ मूर्त्तिपूजा सीढ़ी नहीं किन्तु एक बड़ी खाई है जिस में गिर कर चकनाचूर हो जाता है पुनः उस खाई से निकल नहीं सकता किन्तु उसी में मर जाता है । हाँ, छोटे धार्मिक विद्वानों से ले कर परम-विद्वान् योगियों के संग से सहिष्या और सत्यभाषणादि परमेश्वर की प्राप्ति की सीढ़ियाँ हैं जैसी जपर घर में जाने की निःश्रेणी होती है किन्तु मूर्त्तिपूजा करते २ ज्ञानी तो कोई न हुआ प्रत्युत सब मूर्त्तिपूजक अज्ञानी रह कर मनुष्य जन्म व्यर्थ खा के बहुतसे मर गये और जो अर्थ हैं या हीं गे वे भी मनुष्य जन्म के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, की प्राप्तिरूप फलों से विमुख होकर निरर्थक नष्ट हो जाय गे । मूर्त्तिपूजा ब्रह्म की प्राप्ति में स्थूल तत्त्ववत् नहीं किन्तु धार्मिक विद्वान् और

सृष्टिविद्या है इस को बढ़ाता २ ब्रह्म को भी पाता है और मूर्त्ति गुडियों के खेल
 वत् नहीं किन्तु प्रथम अक्षराभ्यास सुशिक्षा का होना गुडियों के खेलवत् ब्रह्म की
 प्राप्ति का साधन है सुनिये! जब अच्छी शिक्षा और विद्या को प्राप्त होगा तब सच्चे
 स्वामी परमात्मा को भी प्राप्त हो जायगा। (प्रश्न) साकार में मन स्थिर होता और
 निराकार में स्थिर होना कठिन है इस लिये मूर्त्तिपूजा रहनी चाहिये। (उत्तर)
 साकार में मन स्थिर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उस को मन झट ग्रहण
 करके उसी के एक २ अवयव में घूमता और दूसरे में दौड़ जाता है और निरा
 कार परमात्मा के ग्रहण में यावत्कामधर्म मन अत्यन्त दौड़ता है तो भी अन्त नहीं
 पाता निरवयव होनेसे चंचल भी नहीं रहता किन्तु उसी के गुण कर्म स्वभाव का
 विचारकरता २ आनन्द में मग्न होकर स्थिर होजाता है और जो साकार में स्थिर
 होता तो सब जगत् का मन स्थिर हो जाता क्योंकि जगत् में मनुष्य, स्त्री, पुत्र,
 धन, मित्र आदि साकार में फसा रहता है परन्तु किसी का मन स्थिर नहीं होता
 जब तक निराकार में न लगावे क्वां कि निरवयव होने से उस में मन स्थिर हो
 जाता है इस लिये मूर्त्तिपूजन करना अधर्म है। दूसरा उस में क्रोडों रुपये मन्दिरों
 में व्यय करके दरिद्र होते हैं और उस में प्रमाद होता है। तीसरा स्त्री पुरुषों का
 मन्दिरों में मेला होने से व्यभिचार लड़ाई बखेड़ा और रोगादि उत्पन्न होते हैं।
 चौथा उसी को धर्म अर्थ काम और मुक्ति का साधन मान के पुरुषार्थरहित हो
 कर मनुष्यजन्म व्यर्थ गमाते हैं। पाँचवां नाना प्रकार की विरुद्धरूपनामचरि-
 त्रयुक्त मूर्त्तियों के पुजारियों का ऐक्यमत नष्ट हो के विरुद्धमत में चल कर आपस
 में फूट बढ़ा के देश का नाश करते हैं छःठा उसी के भरोसे में शत्रु का पराजय
 और अपना विजय मान बैठे रहते हैं उन का पराजय हो कर राज्य स्वातन्त्र्य
 और धन का सुख उनके शत्रुओं के स्वाधीन होता है और आप पराधीन भठियार
 के टट्टू और कुम्हार के गदहे के समान शत्रुओं के वशमें हो कर अनेक विध दुःख
 पाते हैं। सातवां जब कोई किसी को कहे कि हम तेरे बैठने के आसन वा नाम
 पर पत्थर धरे तो जैसे वह उस पर क्रोधित हो कर मारता वा गालीप्रदान
 देता है वैसे ही जो परमेश्वर के उपासना के स्थान हृदय और नाम पर पापा-
 णादि मूर्त्तियां धरते हैं उन दुष्टबुद्धि वालों का सत्यानाश परमेश्वर क्वां न करे।
 आठवां भ्रान्त हो कर मंदिर २ देशदेशान्तर में घूमते २ दुःख पाते धर्म संसार
 और परमार्थ का काम नष्ट करते चोर आदि से पीड़ित होते ठगों से ठगाते
 रहते हैं। नववां दुष्ट पुजारियों को धन देते हैं वे उस धन को विष्णा, परस्त्रीगमन,
 मद्यमांसाहार, लड़ाई बखेड़ों में व्यय करते हैं जिस से दाता के सुख का मूल
 नष्ट हो कर दुःख होता है। दशवां माता पिता आदि माननीयों का अपमान
 कर पाषाणादि मूर्त्तियों का मान करके कृतघ्न होजाते हैं। ग्यारहवां उन मूर्त्तियों

को कोई तोड़ डालता वा चोर ले जाता है तब हाथ २ करके रोते रहते हैं । बारहवां पूजारी, परस्त्रियों के संग और पूजारिन् परपुरुषों के संग से प्रायः दुःखित हो कर स्त्रीपुरुष के प्रेम के आनन्द को हाथ से खी बैठते हैं । तेरहवां स्वामी सेवक की आज्ञा का पालन यथावत् न होने से परस्पर विरहभाव होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं । चौदहवां जड़ का ध्यान करने वाले का आत्मा भी जड़ बुद्धि हो जाता है क्योंकि ध्येय का जड़त्व धर्म अन्तःकरण द्वारा आत्मा में अवश्य आता है । पन्द्रहवां परमेश्वर ने सुगन्धियुक्त पुष्पादि पदार्थ वायु जल के दुर्गन्ध निवारण और आरोग्यता के लिये बनाये हैं उन को पुजारी जी तोड़ ताड़ कर न जाने उन पुष्पों की कितने दिन तक सुगन्धि आकाश में चढ़ कर वायु जल की शुद्धि पूर्ण सुगन्ध के समय तक उस का सुगन्ध होता है उस का नाश मध्य में ही कर देते हैं पुष्पादि कीच के साथ मिल सड़ कर उलटा दुर्गन्ध उत्पन्न करते हैं । क्या परमात्मा ने पत्थर पर चढ़ाने के लिये पुष्पादि सुगन्धियुक्त पदार्थ रचे हैं ? सोलहवां पत्थर पर चढ़े हुए पुष्प चन्दन और अक्षत आदि सब का जल और मृत्तिका के संयोग होने से मोरी वा कुण्ड में आ कर सड़ के उस से इतना दुर्गन्ध आकाश में चढ़ता है कि जितना मनुष्य के मल का । और सहस्त्रों जीव उस में पड़ते उसी में मरते सड़ते हैं । ऐसे २ अनेक मूर्तिपूजा के करने में दीप आते हैं इस लिये सर्वथा पाषाणादि मूर्तिपूजा सज्जन लोगों को त्यक्तव्य है । और जिनकी ने पाषाणमय मूर्ति की हैं करते हैं और करेंगे वे पूर्वोक्त दोषों से न बचे न बचते हैं और न बचेंगे ॥

(प्रश्न) किसी प्रकार की मूर्तिपूजा करनी करानी नहीं और जो अपने आर्यावर्त्त में पंचदेवपूजा शब्द प्राचीन परम्परा से चला आता है उस का यही पंचायतन पूजा जो कि शिव, विष्णु, अश्विना, गणेश, और सूर्य को मूर्ति बना कर पूजते हैं यह पंचायतन पूजा है वा नहीं? (उत्तर) किसी प्रकार की मूर्तिपूजा न करना किन्तु "मूर्तिमान्" जो नीचे कहे गे उन की पूजा अर्थात् सत्कार करना चाहिये वह पंचदेव पूजा पंचायतनपूजा शब्द बहुत अक्का अर्थ वाला है परन्तु विद्याहीन मूर्हीं ने उस के उत्तम अर्थ को छोड़ कर निकट अर्थ पकड़ लिया जो आज कल शिवदि पांचों की मूर्तियां बना कर पूजते हैं उन का खंडन तो अभी कर चुके हैं पर सच्ची पंचायतन वेदोक्त और वेदानुकूलोक्त देवपूजा और मूर्तिपूजा है सुनो :-

मा नो वधीः पितरं मात मातरम् ॥ यजुः०

अ० १६ । मं० १५ ॥

आचार्यैः ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥

अथर्व० कां० ११ । व० ५ । मं० १७ ॥

अतिथिर्गृहानागच्छेत् ॥ अथर्व० ॥

कां० १५ । व० १३ । मं० ६ ॥

अर्चत प्रार्चत. प्रियमेधासो अर्चत ॥ ऋग्वेदे ॥

त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वद्विष्यामि ॥

तैत्तिरीयोपनि० ॥ वल्ली० १ । अनु० १ ॥

कतम एको देव इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ॥

शतपथ० कां० १४ । प्रपाठ० ६ । ब्राह्म० ७ । कंडिकां १० ॥

मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथि-
देवो भव ॥ तैत्तिरीयोपनि० ॥ व० १ ॥ अनु० ११ ॥

पितृभिर्भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा ।

पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥

अ० ३ । ५५ ॥

उपचर्यः स्त्रिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥ ८ ॥

मनुस्मृतौ ॥

“प्रथम माता मूर्त्तिमती पूजनीय देवता” अर्थात् सन्तानों को तन मन धनसे सेवा करके माता को प्रसन्न रखना हिंसा अर्थात् ताड़ना कभी न करना दूसरा पिता सत्कर्त्तव्य देव उस की भी माता के समान सेवा करनी ॥ तीसरा आचार्य जो विद्या का देने वाला है उस की तन मन धन से सेवा करनी चौथा अतिथि जो विद्वान्, धार्मिक, निष्कपटी सब की उन्नति चाहने वाला, जगत् में भ्रमण करता हुआ, मत्स्य उपदेश से सब को सुखी करता है उस की सेवा करें ॥ पाँचवाँ स्त्री के लिये पति और पुरुष के लिये पत्नी पूजनीय है ॥ ये पाँच मूर्त्तिमान् देव जिन के संग से मनुष्यदेह की उत्पत्ति, पालन, सत्यगिष्ठा, विद्या और सत्योपदेश की प्राप्ति होती है ये ही परमेश्वर को प्राप्ति होने की सीढ़ियाँ हैं इन की सेवान करके जो पाषाणादिमूर्त्ति पूजते हैं वे अतीव वेद्विरोधी हैं । (प्रश्न) माता पिता आदि की सेवा करें और मूर्त्तिपूजा भी करें तब तो कोई दोष नहीं ? (उत्तर) पाषाणादि मूर्त्तिपूजा तो सर्वथा छोड़ने और मातादि मूर्त्तिमानों की सेवा करने

को कोई तोड़ डालता वा
 वारहवां पूजारी, परस्त्रियों
 दुःखित हो कर स्त्रीपुरुष के
 स्वामी सेवक की आज्ञा का
 नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। चीद
 बुद्धि हो जाता है क्योंकि ध्वे
 आता है। पन्द्रहवां परमेश्वर
 निवारण और आरोग्यता के
 जाने उन पुष्पी की कितने वि
 शुद्धि पूर्ण सुगन्ध के समय त
 कर देते हैं पुष्पादि कीच के
 क्या परमात्मा ने पत्थर पर
 सोलहवां पत्थर पर चढ़े
 सृष्टिका के संयोग होने से
 आकाश में चढ़ता है कि
 पड़ते उसी में मरते सड़ते
 इस लिये सर्वथा पाषाणादि
 ने पाषाणमय मूर्त्ति की
 ते हैं और न बचेंगे ॥

(प्रश्न) किसी प्रकार
 वर्त्त में पंचदेवपूजा शक्य
 पूजा जो कि शिव, वि
 है यह पंचायतन पू
 किन्तु "मूर्त्तिमान्"
 वह पंचदेव पूजा
 मूर्त्तियों ने उस के
 शिवरुद्रि पांसी
 पर सच्ची पं

मा
 अ
 मूर्त्ति है।

रुद्र रुद्र पादि
 शिव विष्णु की ५

... कि वाचात् माता आदि प्रत्यक्षसुखदायक
 ... गिर मारना भीकार किया ! इस को लोगों
 ... माता पितादि के सामने नैवेद्य वा भेट
 ... पूजा से होती हमारे मुख वा हाथ में
 ... मूर्त्ति बना कर के भागे नैवेद्य धर घंटानाद
 ... अर्थात् "त्वमंगुष्ठं गृह्णाथ
 ... हले वा चिह्नावे कि तू घंटा
 ... ले प्राप भोगे वैसी ही लीला
 ... की है। ये लोग चटक मटक
 ... तुल्य बन टनके विचारे निबुद्धि
 ... कोई धार्मिक राला होता तो
 ... रचने आदि कार्यों में लग के
 ... स्त्री आदि की पाषाणादिमूर्त्ति
 ... शान्ति की मूर्त्ति देखने से वैराग्य
) नहीं हो सकती, क्यों कि वह
 ... घट जाती है विवेक के बिना
 ... के बिना शान्ति नहीं होती और
 ... और उन के इतिहासादि के देखने से
 ... ज्ञान के उस की मूर्त्तिमात्र देखने से
 ... श शेषज्ञान है। ऐसे मूर्त्तिपूजा आदि बुरे
 ... पूजारी भिन्नक आलसी पुरुषार्थरहित मूर्त्तियों
 ... उन्हीं ने फैलाई है झूठ कल भी बहुतसा
 ... में "शौरभ्रजेव" को "लाटभैरव" आदि
 ... जब सुसलमान मारे तब बड़े
 ...) यह पाप का स्वभाव
 ... जो दूध की देणों के

... को
 ... वहाँ
 ... के
 ...

अतिथिर्गृहानागच्छेत् ॥ अथर्व० ॥

कां० १५ । व० १३ । मं० ६ ॥

अर्चत प्रार्चत. प्रियमेधासो अर्चत ॥ ऋग्वेदे ॥

त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ॥

तैत्तिरीयोपनि० ॥ वल्ली० १ । अनु० १ ॥

कतम एको देव इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ॥

शतपथ० कां० १४ । प्रपाठ० ६ । ब्राह्म० ७ । कंडिका १० ॥

मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथि-

देवो भव ॥ तैत्तिरीयोपनि० ॥ व० १ ॥ अनु० ११ ॥

पितृभिर्भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा ।

पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥

अ० ३ । ५५ ॥

उपचर्यः स्त्रिया साध्व्या

मनुस्मृतौ ॥

माता आदि देवी को लाखों मनुष्य (उत्तर) कुक्कु भी नहीं ये अन्धे लोग भेड़ पखाड़े में गिरते हैं चट नहीं सकते वैसे ही निर्मूल्यारूप गढ़े में फस कर दुःख पाते हैं ।

“प्रथम माता सूर्तिमती पूजनीयन्तु जगन्नाथ जो में प्रत्यक्ष चमत्कार है एक सेवा करके माता को प्रसन्न रखनी लकड़ा समुद्र में से स्वयमेव पाता है । बूल्हे पिता सत्कर्तव्य देव उस की, ऊपर २ के पछिले २ पकते हैं और जो कोई बर्षा जो बियाँ का देने वाला खावे तो कुंभी हो जाता है और रथ घाय से घाय जो विद्वान्, धार्मिक, नहीं होता है इन्द्रदमन के राज्य में देवताओं ने मन्दि- करता हुआ, सत्य बदलने के समय एक राता एक पगडा एक बड़ई मर जाने स्त्री के लिये पति को तुम झूठ न कर सकोगे ? (उत्तर) जिस ने बारह बर्षों जिन के संग ७ की पूजा की थी वह विरक्त हो कर मथुरा में बाबा १० कुक्कु की प्राप्ति -मने इन बातों का उत्तर पूछा था उस ने ये सब बातें झूठ कहने करके अन्धकार से निघय यह है कि जब कलेवर बदलने का समय आता है तब आदि में चन्दन की लकड़ी ले समुद्र में डालते हैं वह समुद्र की लहरियों से कि पायाग लग जातो है उस को ले सुतार लोग मूर्तियाँ बनाते हैं जब रसोई बनती है

तब कपाट बन्द करके रसोदरों के बिना अन्य किसी को न जाने न देखने देते हैं भूमि पर चारों ओर छः और बीच में एक चक्राकार बूल्हे बनते हैं उन हंडों के नीचे घी मट्टी और राख लगा छः बूल्हों पर चावल पका उन के तले मांज कर उस बीच के हंडे में उसी समय चावल डाल छः बूल्हों के मुख लोहे के तलों से बन्द कर दर्शन करने वालों को जोकि धनाव्य हों बुला के दिखलाते हैं जपर २ के हंडों से चावल निकाल पके हुए चावलों को दिखला नीचे के कच्चे चावल निकाल दिखा के उन से कहते हैं कि कुछ हण्डों के लिये रख दो आंख के अर्ध गांठ के पूरे रूपये अग्रणी धरते और कोई २ मासिक भी बांध देते हैं । शूद्र नीच लोग मन्दिर में नैवेद्य लाते हैं जब नैवेद्य हो चुकता है तब वे शूद्र नीच लोग जुंठा कर देते हैं पश्चात् जो कोई रूपया दे कर हंडा लेवे उस के घर पहुंचाते और दीन गृहस्थ और साधु सन्तों को लोके शूद्र और अन्त्यजपर्यन्त एक पंक्ति में बैठ जुंठा एक दूसरे का भोजन करते हैं जब यह पंक्ति उठती है तब उन्हीं पत्तलों पर दूसरों को बैठाते जाते हैं महा अनाचार है और बहुतेरे मनुष्य वहां जा कर उन का जुंठा न खा के अपने हाथ बना खा कर चले आते हैं कुछ भी कुठादि रोग नहीं होते और उस जगन्नाथपुरी में भी बहुत से परसादी नहीं खाते उन को भी कुठादि रोग नहीं होते और उस जगन्नाथपुरी में भी बहुत से कुठो हैं नित्यप्रति जुंठा खाने से भी रोग नहीं छूटता और यह जगन्नाथ में वाममार्गियों ने भैरवीचक्र बनाया है क्योंकि सुभद्रा श्रीकृष्ण और बलदेव की बहिन लगती है उसी को दोनों भाइयों के बीच में स्त्री और माता के स्थान बैठाई है जो भैरवीचक्र न होता तो यह बात कभी न होती । और रथ के पहियों के साथ कला बनाई है जब उन को सूधी घुमाते हैं घूमती हैं तब रथ चलता है जब मेले के बीच में पहुंचता है तभी उस की कील को चलाई घुमा देने से रथ खड़ा रह जाता है पूजारी लोग पुकारते हैं दान देओ पुण्य करो जिस से जगन्नाथ प्रसन्न हो कर अपना रथ चलावे अपना धर्म रहे जब तक भेंट आती जाती है तब तक ऐसे ही पुकारते जाते हैं जब आ चुकती है तब एक ब्रजवासी अच्छे कपड़े दुसाला ओढ़ कर आगे खड़ा रह के हाथ जोड़ स्तुति करता है कि "हे जगन्नाथ स्वामिन् ! आप क्षमा कर के रथ को चलाइये हमारा धर्म रक्खो इत्यादि कील के साथाइ दंडवत् प्रणाम कर रथ पर चढ़ता है उसी समय कील को सूधी घुमा देते हैं और जय २ शब्द बोल सहस्रों मनुष्य रक्खी खींचते हैं रथ चलता है । जबबहुत से लोग दर्शन को जाते हैं तब इतना बड़ा मन्दिर है कि जिस में दिन में भी अन्धेरा रहता है और दीपक जलाना पड़ता है उन मूर्तियों के आगे खूँच कर लगाने के पड़े दोनों ओर रहते हैं पंडे पूजारी भीतर खड़े रहते हैं जब एक ओर वाले ने पड़े को खींचा भेंट मूर्ति आड़ में आ जाती है तब सब पंडे और

पुजारी पुकारते हैं, तुम भेंट धरो तुम्हारे पाप छूट जायेंगे तब दर्शन होगा ग्रीष्म करो वे विचारे भोले मनुष्य धूर्तों के हाथ लूटे जाते हैं और भटपर्दा दूसरा खेंच लेते हैं तभी दर्शन होता है तब जयः शब्द बोल के प्रसन्न हो कर धके खा के तिरस्कृत हो चले आते हैं। इन्द्रदमन वही है जिस के कुल के लोग अब तक कलकत्ते में हैं वह धनाढ्य राजा और देवी का उपासक था उस ने लाखों रुपये लगा कर मन्दिर बनावाया था, इस लिये कि प्रार्थार्थ देश के भोजन का बखेड़ा इस रीति से छुड़ावे परन्तु वे मूर्ख कब छोड़ते हैं देव मानो तो उन्हीं कारीगरों को मानी कि जिन शिल्पियों ने मन्दिर बनाया राजा पंडा और बढ़ई उस समय नहीं मरते परन्तु वे तीनों वहाँ प्रधान रहते हैं छोटी की दुःख देते होंगे उन्हीं ने संमति करके उसी समय अर्थात् कलेवर बदलने के समय वे तीनों उपस्थित रहते हैं मूर्ति का हृदय पीला रक्खा है उस में सोने के सम्पुट में एक शालग्राम रखते हैं कि जिसकी प्रतिदिन धो के चरणाभूत बनाते हैं उस पर रात्री की शयन आर्त्ता में उन लोगों ने विष का तेजाव लपेट दिया होगा उस को धो के उन्हीं तीनों को पिलाया होगा कि जिस से वे कभी मर गये होंगे मरे तो इस प्रकार और भोजन भर्त्स ने प्रसिद्ध किया होगा कि जगन्नाथ जी अपने शरीर बदलने के समय तीनों भक्तों को भी साथ ले गये ऐसी भूठी बातें परायें धन ठगने के लिये बहुत सी हुआ करती हैं।

(प्रश्न) जो रामेश्वर में गंगोत्तरी के जल चढ़ाने समय लिंग बढ़ जाता है क्या यह भी बात भूठी है ? (उत्तर) भूठी, क्योंकि उस मन्दिर में भी दिन में अधेरा रहता है दीपक रात दिन जला करते हैं जब जल की धारा छोड़ते हैं तब उस जल में बिजुली के समान दीपक का प्रतिबिम्ब चमकता है और कुछ भी नहीं ग पापाण घटे न बढ़े जितना का उतना रहता है ऐसी लीला करके विचारे निर्वुद्धियों को ठगते हैं (प्रश्न) रामेश्वर को रामचन्द्र ने स्थापन किया है जो मूर्तिपूजा वेदविरुद्ध होती तो रामचन्द्र मूर्तिस्थापन क्यों करते और वाल्मीकि जी रामायण में क्यों लिखते ? (उत्तर) रामचन्द्र के समय में उस लिंग वा मन्दिर का नाम चिन्ह भी न था किन्तु यह ठीक है कि दक्षिणदेशस्थ रामनामक राजा ने मन्दिर बनवा, लिंग का नाम रामेश्वर धर दिया है जब रामचन्द्र सीता जी को ले हनुमान् आदि के साथ लंका से चले आकाश मार्ग में विमान पर बैठ प्रयोध्या को आते थे तब सीता जी से कहा है कि :—

अत्र पूर्वं भहादेवः प्रसादमकरोहिभुः ।

सेतुवन्य इति ख्यातम् ॥ वाल्मीकि रा० ।

लंका कां० सर्ग १२५ । श्लो० २० ॥

हे सीते ! तेरे वियोग से हम व्याकुल हो कर घूमते थे और इसी स्थान में चातुर्मास्य किया था और परमेश्वर की उपासना ध्यान भी करते थे वही जो सर्वत्र विभु (व्यापक) देवों का देव महादेव परमात्मा है उस की कृपा से हम को सब सामग्री यहां प्राप्त हुई और देख यह सेतु हमने बांध कर लंका में आके उस रावण को मार तुम्ह कोले आये इस के सिवाय वहां अब किसी ने अन्य कुछ भी नहीं लिखा ।

प्र०—“रङ्ग है कालियाकन्त को जिस ने हुक्का पिलाया सन्त को”

दक्षिण में एक कालियाकन्त की मूर्ति है वह अब तक हुक्का पिया करती है जो मूर्तिपूजा भंगी हो तो यह चमत्कार भी भंगी हो जाय । (उत्तर) भंगी २ यह सब पोपलीला है क्योंकि वह मूर्ति का मुख पोला होगा उस का छिद्र पृष्ठ में निकाल के भित्ती के पारदूसरे मकान में नल लगा होगा जब पुजारी हुक्का भरवा पेंचवां लगा मुख में नली जमा के पड़दे डाल निकल आता होगा तभी पीछे वाला आदमी मुख से खींचता होगा तो प्रधर हुक्का गड़ २ बोलता होगा दूसरा छिद्र नाक और मुख के साथ लगा होगा जब पीछे फूँके मार देता होगा तब नाक और मुख के छिद्रों से धुआं निकलता होगा उस समय बहुत से मूर्तियों की धनादि पदार्थों से लूट कर धन रहित करते होंगे ।

(प्रश्न) देखो डाकोर जी की मूर्ति द्वारिका से भगत के साथ चली आई एक सवारन्ती सोने में कई मन की मूर्ति तुल गई क्या यह भी चमत्कार नहीं ? (उत्तर) नहीं वह भक्त मूर्ति को चुरा लाया होगा और सवारन्ती के मूर्ति बराबर का तुलना किसी भंगड़ आदमी ने गप्प मारा होगा ।

(प्रश्न) देखो ! सोमनाथ जी पृथिवी से ऊपर रहता था और बड़ा चमत्कार था क्या यह भी मिथ्या बात है ? (उत्तर) हां मिथ्या है सुनो ! ऊपर गोचे चुम्बक पापाण लगा रखे उस के आकर्षण से वह मूर्ति अधर खड़ी थी जब “महामूदगजन्वी” आकर लड़ा तब यह चमत्कार हुआ कि उस का मन्दिर तोड़ा गया और पुजारी भक्तों की दुर्दशा हो गई और लाखों फीज दण सहस्र फीज से भाग गई जो पोप पुजारी पूजा, पुरस्करण, स्तुति, प्रार्थना करते थे कि “हे महादेव ! इस स्नेह को तू मार डाल हमारी रक्षा कर” और वे अपने चले राजाओं को समझाते थे कि “आप निश्चिन्त रहिये महादेव जी भैरव अथवा वीरभद्र को भेज देंगे वे सब स्नेहों को मार डालेंगे वा शंका कर देंगे अभी हमारा देवता प्रसिद्ध होता है हनुमान् दुर्गा और भैरव ने स्वप्न दिया है कि हम सब काम कर देंगे” वे विचारे भोले राजा और क्षत्रिय पोपों के बहकाने से विश्वास में रहे कितने ही ज्योतिषी पोपों ने कहा कि अभी तुम्हारी पढ़ाई का सुझाव

नहीं है एक ने आठवां चन्द्रमा बतलाया दूसरे ने योगिनी सामने दिखलाई इत्यादि वहकाषट में रहे जब स्लेच्छी की फीज ने आ कर घेर लिया तब दुर्दशा से भागे, कितने ही पोष पुजारी और उन के चले पकड़े गये पुजारियों ने यह भी हाथ छोड़ कहा कि तीन जोड़ रुपया लेलो मन्दिर और मूर्ति मत तोड़ो मुसलमानों ने कहा कि हम "वुत्परख" नहीं किन्तु "वुतशिकन्" अर्थात् मूर्त्तिपूजक नहीं किन्तु मूर्त्तिभंगक हैं जा कै भूट मन्दिर तोड़ दिया जब ऊपर की छत टूटी तब चुम्बक पापाण पृथक् होने से मूर्त्ति गिर पड़ी जब मूर्त्ति तोड़ी तब सुनते हैं कि अठारह जोड़ के रत्न निकले जब पुजारी और पोषों पर जोड़ा पड़े तब रोने लगे कहा कि कोष बतलाओ मार के मारि भूट बतला दिया तब सब कोष लूट मार कूट कर पोष और उन के चेलों को "गुलाम" बिगारी बना पिसना पिसवाया, घास खुदवाया, मलमूत्रादि उठवाया, और चना खाने को दिये ! हाय ! क्यों पत्थर की पूजा कर मत्यानाश को प्राप्त हुए ? क्यों परमेश्वर की भक्ति न की ? जो स्लेच्छी के दांत तोड़ डालते ! और अपना विनैय करते देखो । जितनी मूर्त्तियां हैं उन के स्थान में शूरवीरों की पूजा करते तो भी कितनी रक्षा होती पुजारियों ने इन पापाओं की इतनी भक्ति की परन्तु मूर्त्ति एक भी उन शत्रुओं के शिर पर उड़ के न लगी जो किसी एक शूरवीर पुरुष को मूर्त्ति के सदृश सेवा करते तो वह अपने सेवकों को यथाशक्ति बचा ता और उन शत्रुओं को मारता ।

(प्रश्न) हारिका जी के रणकोड़ जी जिस ने "नसीमहिता" के पास हुंडी भेज दी और उस का ऋण चुका दिया इत्यादि बात भी क्या भूट हैं ? (उत्तर) किसी साहूकार ने रुपये दे दिये हों गे किसी ने भूटा नाम उड़ा दिया होगा कि श्रीकृष्ण ने भेजे । जब संवत् १६१४ के वर्ष में तोपों के मारि मंदिर मूर्त्तियां अंगरेजों ने उड़ा दी थीं तब मूर्त्ति कहां गई थीं प्रत्युत बाघेर लोगों ने जितनी वीरता की और लड़े शत्रुओं को मारा परन्तु मूर्त्ति एक मक्खी की टांग भी न तोड़ सकी जो श्रीकृष्ण के सदृश कोई होता तो इन के धुरे उड़ा देता और ये भागते फिरते भला यह तो कही कि जिस का रजक मार खाय उस के शरणागत क्यों न पीटे जायें ? ॥

(प्रश्न) ज्वालामुखी तो प्रत्यक्ष देवी है सब को खा जाती है और प्रसाद देवे तो आधा खा जाती और आधा छोड़ देती है मुसलमान बादशाहों ने उस पर जल की नहर छुड़वाई और लोहे के नवे जड़वाये थे तो भी ज्वाला न बुझी और न रुकी वैसे हिंगलाज भी आधीरात को सवारी कर पहाड़ पर दिखाई देती, पहाड़ को गर्जना करती है, चंद्रकूप बोलता और योनियंत्र से निकलने से पुनर्जन्म नहीं होता, ठूगरा बांधने से पूरा महापुरुष कहाता जब तक हिंगलाज न हो यावे तब तक आधा महापुरुष बजता है इत्यादि सब बातें क्या मानने योग्य

गहीं ? (उत्तर) नहीं, क्योंकि वह ज्वालामुखी पहाड़ से आगी निकलती है उस में पुजारी लोगों कि विचित्र लीला है जैसे बघार के घी के चमचे में ज्वाला आ जाती अलग करने से वा फूक मारने से बुझ जाती और थोड़े से घी को खा जाती शेष छोड़ जाती है उसी के समान वहां भी है जैसी बूल्हे की ज्वाला में जो डाला जाय सब भस्म हो जाता जंगल वा घर में लग जाने से सब को खा जाती है इस से वहां क्या विशेष है ? बिना एक मन्दिर कुण्ड और इधर उधर नल रचना के हिंगलाब्ध में न कोई सवारी होती और जो कुछ होता है वह सब पूजारियों की लीला से दूसरा कुछ भी नहीं एक जल और दलदल का कुण्ड बना रक्खा है जिस के नीचे से बुदबुदे उठते हैं उस को सफलयात्रा होना मूढ़ मानते हैं योनि का यंत्र उन लोगों ने धन हरने के लिये बनवा रक्खा है और ठुमरे भी उसी प्रकार पीप लीला के हैं उस से महापुरुष हो तो एक पशु पर ठुमरे का बोझ लाद दें क्या महापुरुष हो जायगा ? महापुरुष तो बड़े उत्तम धर्मयुक्त पुरुषार्थ से होता है ।

(प्रश्न) अमृतसर का तालाब अमृतरूप, सुरेठी का फल आधा मीठा, और एक भिखी नमती और गिरती नहीं, रेवालसर में बड़े तरते, अमरनाथ में आप से आप लिंग बन जाते, हिमालय से कबूतर के जोड़े आ के सब को दर्शन दे कर चले जाते हैं, क्या यह भी मानने योग्य नहीं ? (उत्तर) नहीं, उस तालाब का नाम-मात्र अमृतसर है जब कभी जंगल होगा तब उस का जल अच्छा होगा इस से उस का नाम अमृतसर धरा होगा जो अमृत होता तो पुराणियों के मानने के तुल्य कोई क्यों मरता ? भिखी को कुछ बनावट ऐसी होगी जिस से नमती होगी और गिरती न होगी रीठे कमल के पैबन्दी होंगे अथवा गपोड़ा होगा रेवालसर में बड़ा तरने में कुछ कारीगरी होगी अमरनाथ में वर्ष के पहाड़ बनते हैं तो जल जम के छोटे लिंग का बनना कौन आश्चर्य है और कबूतर के जोड़े पालित होंगे पहाड़ की आड़ में से मनुष्य छोड़ते होंगे दिखला कर टका हरते होंगे ।

(प्रश्न) हरद्वार स्वर्ग का द्वार हर की पीढ़ी में स्नान करे तो पाप छूट जाते हैं और तपोवन में रहने से तपस्वी होता, देवप्रयाग, गंगोत्तरो में गोमुख, उत्तर काशी में गुप्तकाशी, त्रियुगीनारायण के दर्शन होते हैं, केदार और बद्रीनारायण की पूजा छः महीने तक मनुष्य और छः महीने तक देवता करते हैं, महादेव का मुख नेपाल में पशुपति, बूतड़ केदार और तुङ्गनाथ में जानु, पग अमरनाथ में इन के दर्शन पर्यन स्नान करने से मुक्ति हो जाती है वहां केदार और बद्री से स्वर्ग जाना चाहे तो जा सकता है इत्यादि बातें कैसी हैं ? (उत्तर) हरद्वार उत्तर से पहाड़ों में जाने का एक मार्ग का आरम्भ है हरकी पीढ़ी एक स्नान के लिये कुण्ड की शीटियों की बनाया है सब पूरों तो "हाड़पीढ़ी" है क्यों कि देशदेशान्तर

के मृतकों के हाड़ उस में पड़ा करते हैं, पाप कभी नहीं कहीं छूट सकता, बिना भोगे-अथवा नहीं कटते, "तपोवन" जब होगा तब होगा अब तो "मिक्षुवन" है तपोवन में जाने रहने से तप नहीं होता किन्तु तप तो करने से होता है क्योंकि वहां बहुत से दुकानदार झूठ बोलने वाले भी रहते हैं। "हिमवतः प्रभवति गंगा" पहाड़ के ऊपर से जल गिरता है गोमुख का आकार टका लेने वाली ने बनाया होगा और वही पहाड़ पोष का स्वर्ग है वहां उत्तरकाशी आदि स्थान ध्यानियों के लिये अच्छा है परन्तु दुकानदारों के लिये वहां भी दुकानदारी है, देवप्रयाग पुराण के गण्डों की लीला है अर्थात् जहां अनखनन्दा और गंगा मिली है इस लिये वहां देवता बसते हैं ऐसे गण्डों न मारें तो वहां कौन जाय ? और टका कौन देवे ? गुप्तकाशी तो नहीं है वह तो प्रसिद्ध काशी है तीन युग की धूनी तो नहीं दीखती परन्तु पोषों की दृश वीस पीढ़ी की होगी जैसी खाखियों की धूनी और पार्सियों की अग्गारी सदैव जलती रहती है, तम कुण्ड भी पहाड़ों के भीतर जमा गर्मी होती है उस में तप कर जल आता है उस के पास दूसरे कुण्ड में ऊपर का जल वा, जहां गर्मी नहीं वहां का आता है इस से ठण्डा है, केदार का स्थान वह भूमि बहुत अच्छी है परन्तु वहां भी एक जमें हुए पत्थर पर पुनारी वा उन के चेलों ने मन्दिर बना रक्खा है वहां महन्त पूजारी धंडे शाख के अंधे गांठ के पूरों से माल ले कर विषयानन्द करते हैं, वैसे ही बट्टीभारायण में ठग-विया वाले बहुत से बैठे हैं "रावल जी" वहां के मुख्य हैं एक स्त्री छोड़ अनेक स्त्री रख बैठे हैं पशुपति एक मन्दिर और पंचमुखी मूर्ति का नाम धर रखा है जब कोई न पूछे तभी ऐसी लीला बनवती होती है परन्तु जैसे तीर्थ के लोग धूर्त पन हर होते हैं वैसे पहाड़ी लोग नहीं होते वहां की भूमि बड़ी रमणीय और पवित्र है। (प्रश्न) विन्ध्याचल में विन्ध्येश्वरी काली अष्टभुजी प्रत्यक्ष सत्य है विन्ध्येश्वरी तीन समय में तीन रूप बदलती है और उस के बाड़े में मक्खी एक भी नहीं होती, प्रयाग तीर्थराज वहां शिर मुण्डाये सिद्धि गंगा यमुना के संग में स्नान करने से इच्छासिद्धि होती है, वैसे ही अयोध्या कद्रे बार उड़ कर सब वस्ती सहित स्वर्ग में चली गई, मधुरा सब तीर्थों से अधिक, हन्दावन लीलास्थान, और गोवर्धन त्रजयात्रा बड़े भाग्य से होती है, सूर्यग्रहण में कुक्षेत्र में लाखों मनुष्यों का मेला होता है क्या ये सब बातें मिथ्या हैं ? (उत्तर) प्रत्यक्ष तो आंखों से तीनों मूर्तियां दीखती हैं कि पाषाण की मूर्तियां हैं और तीन काल में तीन प्रकार के रूप होने का कारण पूजारी लोगों के वस्त्र आदि आभूषण पहिराने को चतुराई है और मक्खियां सड़खीं लाखों होती हैं मैं ने अपनी आंखों से देखा है; प्रयाग में कोई नापित श्लोक बनाने द्वारा अथवा पोष जी को कुछ धन दे के सुगठन कराने का माहात्म्य बनाया वा बनवाया होना प्रयाग में स्नान करके स्वर्ग को

जाता तो लीट कर घर में क्यों आता कोई भी नहीं देखता किन्तु घर को सब आते हुए देखते हैं अथवा जो कोई वहां डूब मरता और उसका जीव भी आकाश में वायु के साथ घूम कर जन्म लेता होगा तीर्थराज भी नाम टका लेने वालों ने धरा है जड़ में राजा प्रजा भाव कभी नहीं हो सकता, यह बड़ी असम्भव बात है कि अयोध्या नगरी वस्ती, कुचे, गधे, भंगी, चमार, चाज़रू, सहित तीन वार स्वर्ग में गई स्वर्ग में तो नहीं गई वहीं की वहीं है परन्तु पोप जी के मुख गपोड़ी में अयोध्या स्वर्ग को उड़ गई यह गपोड़ा शब्दरूप उड़ता फिरता है ऐसे ही नैमिषारण्य आदि की भी इन्हीं लोगों ने लीला जानी "मथुरा तीन लोक से निराली" तो नहीं परन्तु उस में तीन जन्तु बड़े लीलाधारी हैं कि जिन के मारे जल स्थल और अन्तरिक्ष में किसी को सुख मिलना कठिन है। एक चीबे जो कोई स्नान करने जाय अपना कर लेनेको खड़ा रह कर बत्ती रहते हैं लाओ यजमान ! भांग मर्ची और लड्डू खावे पीवे यजमान का जयमनावै, दूसरे जल में कछुवे काट ही खाते हैं जिन के मारे स्नान करना भी घाट पर कठिन पड़ता है, तीसरे आकाश के ऊपर लाल मुख के बन्दर, पगड़ी, टोपी, गहने और जूते तक भी न छोड़ें काट खावे धक्के दे, गिरां मार डालें और ये तीनों पोप और पोप जी के चेलों के पूजनीय हैं मनों चना आदि अन्न कछुवे और बन्दरों को चना गुड़ आदि और चीबों की दक्षिणा और लड्डुओं से उन के सेवक सेवा किया करते हैं और इन्द्रावन जब था तब था अब तो वैश्यावनवत् लल्ला लल्ली और गुरु चैला आदि की लीला फूल रही है वैसे ही दीपमालिका का मेला गोवर्द्धन और व्रजयाना में भी पोपों की बन पड़ती है कुरुक्षेत्र में भी वही जीविका की लीला समझ लो इन में जो कोई धार्मिक परोपकारी पुरुष है इस पोपलीला से पृथक् हो जाता है। (प्रश्न) यह सूर्तिपूजा और तीर्थ सनातन से चले आते हैं भूठे क्यों कर हो सकते हैं ? (उत्तर) तुम सनातन किसको कहते हो जो सदा से चला आता है, जो यह सदा से होता तो वेद और ब्राह्मणादि ऋषिसुनिकृत पुस्तकों में इन का नाम क्यों नहीं ? यह सूर्तिपूजा अर्थात् तीन सहस्र वर्ष के इधर २ वाममार्गी और जैतियों से चली है प्रथम आर्यावर्ष में नहीं थी और ये तीर्थ भी नहीं थे जब जैतियों ने गिरनार पालिठाना, शिखर, जन्नुज्जय, और आवू आदि तीर्थ बनाये उन के अनुकूल इन लोगों ने भी बना लिये जो कोई इन के आरम्भ की परोक्षा करना चाहे वे पंडों की पुरानी से पुरानी बही और तांबे के पत्र आदि का लेख देखें तो निश्चय हो जायगा कि ये सब तीर्थ पांच ही अथवा एक सहस्र वर्ष से इधर ही बने हैं सहस्र वर्ष के उधर का लेख किसी के पास नहीं निकलता इस से आधुनिक हैं। (प्रश्न) जो २ तीर्थ वा नाम का माहात्म्य अर्थात् जैसे "अन्यत्रे

कृतं पापं काशीक्षेत्रे विनश्यति” इत्यादि वाते हैं वे सच्ची हैं वा नहीं ? (उत्तर)
नहीं क्योंकि जो पाप छूट जाते हैं तो दरिद्रों को धन, राजपाट, अन्धों को
आंख, मिला जाती, कोढ़ियों का कोढ़ आदि रोग छूट जाता ऐसा नहीं होता इस
लिये पाप वा पुण्य किसी का नहीं छूटता (प्रश्न) :—

गङ्गागङ्गेति यो ब्रूयाद्योजनानां शतैरपि ।

मुच्यसे सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥

हरिहरति पापानि हरिरित्यक्षरद्वयम् ॥

प्रातःकाले शिवं दृष्ट्वा निशि पापं विनश्यति ।

आजन्मकृतं मध्याह्ने सायाह्ने सप्तजन्मनाम् ॥

इत्यादि श्लोक पोपपुराण के हैं जो सैकड़ों सहस्रों कोश दूर से भी गंगा २
कहे तो उस के पाप नष्ट हो कर वह विष्णुलोक अर्थात् वैकुण्ठ को जाता है ।
“हरि” इन दो अक्षरों का नामोच्चारण सब पाप को हर लेता है वैसे ही राम,
कृष्ण, शिव, भगवती आदि नामों का माहात्म्य है ॥ और मनुष्य प्रातःकाल
में शिव अर्थात् लिङ्ग वा उस की मूर्ति का दर्शन करे तो रात्रि में किया हुआ
मध्याह्न में दर्शन करने से जन्म भर का सायंकाल में दर्शन करने से सात जन्मों
का पाप छूट जाता है यह दर्शन का माहात्म्य है ॥ क्या झूठा हो जायगा ?
(उत्तर) मिथ्या होने में क्या शङ्का ? क्यों कि गङ्गा २ वा हरे, राम, कृष्ण,
नारायण, शिव और भगवती नामस्मरण से पाप कभी नहीं छूटता जो छूटे तो
दुःखी कोई न रहे और पाप करने से कोई भी न डरे जैसे आज कल पोपसीला
में पाप बढ़ कर हो रहे हैं झूठों को विश्वास है कि हम पाप कर नामस्मरण
वा तीर्थयात्रा करेंगे तो पापों की निवृत्ति हो जायगी। इसी विश्वास पर पाप
करके इस लोक और परलोक का नाश करते हैं । पर किया हुआ पाप भोगना
ही पड़ता है (प्रश्न) तो कोई तीर्थ नामस्मरण सत्य है वा नहीं ? (उत्तर)
है:—वेदादि सत्यशास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, धार्मिक विद्वानों का संग, परीषकार,
धर्मानुष्ठान, योगाभ्यास, निर्वैर निष्कपट, सत्यभाषण, सत्य का मानना, सत्य
करना, ब्रह्मचर्यसेवन, आचार्य्य, अतिथि, माता, पिता, की सेवा परमेश्वर की
सुति, प्रार्थना, उपासना, शान्ति, कितेन्द्रियता, सुशोभता, धर्मयुक्तपुरुषार्थ,
ज्ञान, विज्ञान, आदि शुभगुण कर्म दुःखों से तारने वाले होने से तीर्थ हैं । और
जो जल स्थलमय हैं वे तीर्थ कभी नहीं हो सकते क्योंकि “जना येन्तरन्ति तानि
तीर्थानि” मनुष्य जिन करके दुःखों से तरे उग का नाम तीर्थ है जल स्थल तराने

वाले नहीं किन्तु डुबा कर मारने वाले हैं प्रत्युत नौका आदि का नाम तीर्थ हो सकता है क्योंकि उन से भी समुद्र आदि की तरते हैं ॥

सामानतीर्थे वासी ॥ अ० ४ । पा० ४ । १०८ ॥

नमस्तीर्थ्याय च । यजुः ॥ अ० १६ ॥

जो ब्रह्मचारी एक आचार्य्य और एक शास्त्र को साथ २ पढ़ते हैं वे सब सतीर्थ्य अर्थात् समान तीर्थसेवी होते हैं जो वेदादि शास्त्र और सत्यभाषणादि धर्म लक्षणां में साधु हो उस को अन्नादि पदार्थ देना और उन से विद्या लेनी इत्यादि तीर्थ कहते हैं नामस्मरण इस को कहते हैं कि :-

यस्य नाम महद्यशः ॥ यजुः । अ० ३२ । म० ३ ॥

परमेश्वर का नाम बड़े यश अर्थात् धर्मयुक्त कामों का करना है जैसे ब्रह्म, परमेश्वर, ईश्वर, न्यायकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान् आदि नाम परमेश्वर के गुण-कर्मस्वभाव से हैं जैसे ब्रह्म सब से बड़ा, परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर, ईश्वर सामर्थ्ययुक्त न्यायकारी कभी अन्याय नहीं करता, दयालु सब पर कृपादृष्टि रखता, सर्वशक्तिमान् अपने सामर्थ्य ही से सब जगत् की उत्पत्ति स्थिति प्रलय कर्ता, सहाय किसी का नहीं लेता । ब्रह्म, विविध जगत् के पदार्थों का बनाने हारा, विष्णु सब में व्यापक हो कर रचा करता, महादेव सब देवों का देव रुद्र प्रलय करने हारा आदि नामों के अर्थों को अपने में धारण करे अर्थात् बड़े कामों से बड़ा हो, समर्थों में समर्थ हो सामर्थ्यों को बढ़ाता जाय अधर्म कभी न करे, सब पर दया रखे, सब प्रकार के साधनों को समर्थ करे, शिल्पविद्या से नाना प्रकार के पदार्थों को बनावे सब संसार में अपने आत्मा के तुल्य सुख दुःख सम-भो सब की रक्षा करे, विद्वानों में विद्वान् होवे दुष्ट कर्म और दुष्ट कर्म करने वालों को प्रयत्न से दण्ड और सज्जनों की रक्षा करे, इस प्रकार परमेश्वर के नामों का अर्थ जान कर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव को करते जाना ही परमेश्वर का नामस्मरण है । (प्रश्न) :-

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः ।

गुरुरेव परम्ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

इत्यादि गुरुमाहात्म्य तो सच्चा है ? गुरु के पग धो के पीना जैसा आज्ञा कर वैसा करना गुरु लोभी हो तो वामन के समान, क्रोधी हो तो नरसिंह के सदृश, मोही हो तो राम के तुल्य और कामी हो तो कृष्ण के समान गुरु को जानना, चाहे गुरु जी कैसा ही पाप करे तो भी अन्नदा न करनी सन्त वा गुरु

के दर्शन को जाने में पग २ में अश्वमेध का फल होता है यह बात ठीक है या नहीं ? (उत्तर) ठीक नहीं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और परब्रह्म परमेश्वर के नाम हैं उस के तुल्य गुरु कभी नहीं हो सकता यह गुरुमाहात्म्य गुरुगीता भी एक बड़ी पोपलीला है गुरु तो माता, पिता, आचार्य्य और अतिथि होते हैं उन की सेवा करनी, उन से विद्या शिक्षा लेनी देनी शिष्य और गुरु का काम है परन्तु जो गुरु लोभी, क्रोधी, मोही और कामी हो तो उस को सर्वथा छोड़ देना शिक्षा करनी सहज शिक्षा से न माने तो अर्घ्य पाद्य अर्घात् ताड़ना दण्ड प्राणहरण तक भी करने में कुछ दोष नहीं जो विद्यादि सद्गुणों में गुरुत्व नहीं है भूँट मूँठ कण्ठो, तिलक, वेदविरुद्ध मन्त्रीपदेश करने वाले हैं वे गुरु ही नहीं किन्तु गड़रिये जैसे हैं जैसे गड़रिये अपनी भेड़ बकरियों से दूध आदि से प्रयोजन सिंह करते हैं वैसे ही शिष्यों के चले चलियों के धन हरके अपना प्रयोजन करते हैं वे:-

दो० लोभी गुरु लालची चेला दोनों खेलें दाव ।

भवसागर में डूबते, बैठ पथर की नाव ॥

गुरु समझे कि चले चली कुछ न कुछ देवे हीं गे और चेला समझे कि चलो गुरु भूँठे सौगंद खाने पाप छुड़ाने आदि लालच से दोनों कपट मुनि भवसागर के दुःख में डूबते हैं जैसे पथर की नौका में बैठने वाले समुद्र में डूब मरते हैं ऐसे गुरु और चेला के मुख पर धूड़ राख पड़े उस के पास कोई भी खड़ा न रहे जो रहे वह दुःखसागर में पड़े गा । जैसी लीला गुजारी पुराणियों ने चलाई है वैसी धन गड़रिये गुरुओं ने भी लीला मचाई है यह सब काम स्वार्थी लोगों का है जो परमार्थी लोग हैं वे आप दुःख पावें तो भी अगत का उपकार करना नहीं छोड़ते और गुरुमाहात्म्य तथा गुरुगीता आदि भी इन्हीं कुकर्मों गुरु लोगों ने बनाई हैं । (प्रश्न) :-

अष्टादशपुराणानां कर्ता सत्यवती सुतः ॥

इतिहासपुराणाभ्यां वेदार्थमुपवृंहयेत् । महाभारते ॥

पुराणान्यखिलानि च ॥ मनु० ॥

इतिहासपुराणम् पंचमं वेदानां वेदः ॥

छान्दोग्य० प्र ७ । खं० १ ॥

दशमेऽहनि किंचित्पुराणमाचक्षीत् ॥

पुराणविद्या वेदः । सूत्रम् ॥

अठारह पुराणों के कर्त्ता व्यास जी हैं व्यासवचन का प्रमाण अवश्य करना चाहिये ॥ इतिहास, महाभारत, अठारह पुराणों से वेदों का अर्थ पढ़े पढ़ावे क्योंकि इतिहास और पुराण वेदों ही के अर्थ अनुकूल हैं ॥ पितृकर्म में पुराण और हरिवंश की कथा सुनें ॥ अश्वमेध की समाप्ति में दशमें दिन घोड़ी सी पुराण की कथा सुनें ॥ पुराण विद्या वेदार्थ के जनाने ही से वेद हैं ॥ इतिहास और पुराण पंचमवेद कहते हैं ॥ इत्यादि प्रमाणों से पुराणों का प्रमाण और इन के प्रमाणों से सूर्यपूजा और तीर्थों का भी प्रमाण है क्यों कि पुराणों में सूर्यपूजा और तीर्थों का विधान है । (उत्तर) जो अठारह पुराणों के कर्त्ता व्यास जी होते तो उन में इतने गपोड़े न होते क्यों कि शारीरकसूत्रयोगशास्त्र के भाष्य आदि व्यासोक्त ग्रन्थों के देखने से विदित होता है कि व्यास जी बड़े विद्वान्, सत्यवादी, धार्मिक, योगी थे वे ऐसी मिथ्या कथा कभी न लिखते और इस से यह सिद्ध होता है कि जिन संप्रदायों परस्पर विरोधी लोगों ने भागवतादि नवीन कपोलकल्पित ग्रन्थ बनाये हैं उन में व्यास जी के गुणों का लेश भी नहीं था और वेद शास्त्रविरुद्ध असत्यवाद लिखना व्यास सदृश विद्वानों का काम नहीं किन्तु यह काम विरोधी, स्वार्थी, अविद्वान् लोगों का है इतिहास और पुराण शिवपुराणादि का नाम नहीं किन्तु :—

ब्राह्मणानीतिहासान् पुराणानि कल्पान् गाथानाराशंसीरिति ॥

यह ब्राह्मण और सूत्रों का वचन है । ऐतरेय, शतपथ, साम, और गोपथ ब्राह्मण ग्रन्थों ही के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा, और नाराशंसी ये पांच नाम हैं (इतिहास) जैसे जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद (पुराण) जगदुत्पत्ति आदि का वर्णन (कल्प) वेद शब्दों के सामर्थ्य का वर्णन अर्थ निरूपण करना (गाथा) किसी का दृष्टान्त दार्ष्टान्तरूप कथा प्रसंग कहना (नाराशंसी) मनुष्यों के प्रशंसनीय वा अप्रशंसनीय कर्मों का कथन करना, इन ही से वेदार्थ का बोध होता है पितृकर्म अर्थात् ज्ञानियों की प्रशंसा में कुछ सुनना, अश्वमेध के अन्त में भी इन्हीं का सुनना लिखा है क्योंकि जो व्यासकृत ग्रन्थ हैं उन का सुनना सुनाना व्यास जी के जन्म के पश्चात् ही सकता है पूर्व नहीं जब व्यास जी का जन्म भी नहीं था तब वेदार्थ को पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते थे इसी लिये सब से प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्थों ही में यह सब घटना हो सकती हैं इन नवीन कपोलकल्पित श्रीमद्भागवत शिवपुराणादि मिथ्या वा दूषित ग्रन्थों में नहीं घट सकती । जब व्यास जी ने वेद पढ़े और पढ़ा कर वेदार्थ फैलाया इसी लिये उन का नाम "वेदव्यास" हुआ । क्योंकि व्यास कहते हैं बार बार की मध्य रेखा की अर्थात् ऋग्वेद के आरंभ से लेकर अथर्ववेद के पार पर्यन्त चारों वेद पढ़े थे और

शुकदेव तथा जमिनि आदि शिष्यों को पढ़ाये भी थ नहीं तो उन का जन्म का नाम "कण्वहैपायन" था जो कोई यह कहते हैं कि वेदों को व्यास जी ने इकट्ठे किये यह बात झूठी है क्यों कि व्यास जी के पिता, पितामह, प्रपितामह, परा-शर, शक्ति, वशिष्ठ और ब्रह्मा आदि ने भी चारों वेद पढ़े थे यह बात क्यों कर घट सके ? (प्रश्न) पुराणों में सब बातें झूठी हैं वा कोई सच्ची भी है ? (उत्तर) बहुत सी बातें झूठी हैं और कोई घुणाचरन्याय से सच्ची भी है जो सच्ची है वह वेदादि सत्यशास्त्रों की और जो झूठी है वे इन पोषों के पुराणरूप घर की हैं । जैसे शिवपुराण में शैवों ने शिव को परमेश्वर मान के विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, गणेश और सूर्यादि को उन के दास ठहराये । वैष्णवों ने विष्णुपुराण आदि में विष्णु को परमात्मा माना और शिव आदि को विष्णु के दास । देवी भागवत में देवी को परमेश्वरी और शिव, विष्णु आदि को उस के किंकर बनाये, गणेशखण्ड में गणेश को ईश्वर और शेष सब को दास बनाये । भला यह बात इन सम्प्रदायी लोगों की नहीं तो किन की है ? एक मनुष्य के बनाने में ऐसी परस्पर विरुद्ध बात नहीं होती तो विद्वान् के बनाये में कभी नहीं आ सकती इस में एक बात को सच्ची मानें तो दूसरी झूठी और जो दूसरी को सच्ची मानें तो तीसरी झूठी और जो तीसरी को सच्ची मानें तो अन्य सब झूठी होती हैं । शिवपुराण वाले शिव से, विष्णुपुराण वाले ने विष्णु से, देवीपुराण वाले ने देवी से, गणेशखण्ड वाले ने गणेश से, सूर्यपुराण वाले ने सूर्य से और वायुपुराण वाले ने वायु से सृष्टि की उत्पत्ति प्रलयलिख के पुनः एकरसे एक २ जो जगत् के कारण लिखे उन की उत्पत्ति एक २ से लिखी । कोई पूछे कि जो जगत् की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाला है वह उत्पन्न और जो उत्पन्न होता है वह सृष्टि का कारण कभी हो सकता है वा नहीं ? तो केवल रुप रहने के सिवाय कुछ भी नहीं कह सकते और इन सब के शरीर की उत्पत्ति भी इसी से हुई होगी फिर वे आप सृष्टिपदार्थ और परिच्छिन्न हो कर संसार की उत्पत्ति के कर्ता क्यों कर हो सकते हैं ? और उत्पत्ति भी विलक्षण २ प्रकार से मानी है जो कि सर्वथा अरांभव है जैसे :-

शिवपुराण में शिव ने इच्छा की कि मैं सृष्टि करूँ तो एक नारायण जलाशय को उत्पन्न कर उस की नाभी से कमल, कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ उस ने देखा कि सब जलमय है जल की अञ्जलि उठा देख जल में पटक दी उस से एक बुद्बुदा उठा और बुद्बुदे में से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उस ने ब्रह्मा से कहा कि हे पुत्र ! सृष्टि उत्पन्न कर । ब्रह्मा ने उस से कहा कि मैं तेरा पुत्र नहीं किन्तु तू मेरा पुत्र है उन में विवाद हुआ और दिव्यसहस्र वर्षपर्यन्त दोनों जल पर लड़ते रहे । तब महादेव ने विचार किया कि जिन को मैं ने सृष्टि करने के लिये भेजा था वे दोनों आपस में सड़ भगड़ रहे हैं तब उन दोनों के बीच में से एक तेलोमय

लिंग उत्पन्न हुआ और वह शीघ्र आकाश में चला गया उस को देख के दोनों साश्चर्य्य ही गये विचारा कि इस का आदि अन्त लेना चाहिये जो आदि अन्त ले के शीघ्र आवे वह पिता और जो पीछे, वा, थाह ले के न आवे वह पुत्र कहावे विष्णु कूर्म का स्वरूप धरके नीचे को चला और ब्रह्मा हंस का शरीर धारण करके ऊपर को उड़ा दोनों मनोविग से चले । दिव्यसहस्र वर्षपर्यन्त दोनों चलते रहे, तो भी उस का अन्त न पाया तब नीचे से ऊपर विष्णु और ऊपर से नीचे ब्रह्मा ने विचारा कि जो वह छोड़ ले आया होगा तो मुझ को पुत्र बनना पड़ेगा ऐसा सोच रहा था कि उसी समय एक गाय और एक केतकी का वृक्ष ऊपर से उतर आया उन से ब्रह्मा ने पूछा कि तुम कहां से आये उन्हीं ने कहा हम सहस्र वर्षों से इस लिंग के आधार से चले आते हैं ब्रह्मा ने पूछा कि इस लिंग का थाह है वा नहीं ? उन्हीं ने कहा कि नहीं । ब्रह्मा ने उन से कहा कि तुम हमारे साथ चलो और ऐसी साची देखो कि मैं इस लिङ्ग के शिर पर दूध की धारा वर्षाती थी और वृक्ष कहे कि मैं फूल वर्षाता था, ऐसी साची देखो तो मैं तुम को ठिकाने पर ले चलूँ उन्हीं ने कहा कि हम भूँठी साची नहीं देंगे तब ब्रह्मा कुपित हो कर बोला जो साची नहीं देखोगे तो मैं तुम को अभी भस्म करे देता हूँ । तब दोनों ने डर के कहा कि हम जैसी तुम कहते हो वैसी साची देखेंगे । तब तीनों नीचे की ओर चले विष्णु प्रथम ही आगये थे, ब्रह्मा भी पहुंचा, विष्णु से पूछा कि तू थाह ले आया वा नहीं ? तब विष्णु बोला मुझ को इस की थाह नहीं मिली, ब्रह्मा ने कहा मैं ले आया विष्णु ने कहा कोई साची देखो तब गाय और वृक्ष ने साची दी हम दोनों लिंग के शिर पर थे । तब लिंग में से शब्द निकला और प्रथम वृक्ष को शाप दिया कि जिस से तू भूँठ बोला इस लिये तेरा फूल मुझ वा अन्य देवता पर जगत् में कहीं नहीं चढ़ेगा और जो कोई चढ़ावे गा उस का सत्यानाश होगा । गाय को शाप दिया कि जिस मुख से तू भूँठ बोली उसी से विठा खाया करेगी तेरे मुख की पूजा कोई नहीं करेगा किन्तु पूँछ की करेंगे । और ब्रह्मा को शाप दिया कि तू मिथ्या बोला इस लिये तेरी पूजा संसार में कहीं न होगी । और विष्णु को वर दिया तू सत्य बोला इस से तेरी पूजा सर्वत्र होगी । पुनः दोनों ने लिंग की स्तुति की उस से प्रसन्न हो कर उस लिंग में से एक जटाजूट मूँ से निकल आई और कहा कि तुम को मैं ने सृष्टि करने के लिये भेजा था भू-गड्ढे में क्यों लगे रहे ? ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि हम बिना सामग्री सृष्टि कहां से करें तब महादेव ने अपनी जटा में से एक भस्म का गोला निकाल कर दिया कि जाओ इस में से सब सृष्टि बनाओ इत्यादि । भला कोई इन पुराणों के बनाने वालों से पूछे कि जब सृष्टि तत्त्व और पंचमहाभूत भी नहीं थे तो ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, के शरीर, जल, कमल, लिंग, गाय और केतकी का वृक्ष और भस्म का गोला क्या तुम्हारे बाबा के घर में से आ गिरे ? ॥

वैसे ही भागवत में विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के दहिने पग के अंगूठे से स्वयंभुव और बायें अंगूठे से सत्यरूपा राणी, ललाट से रुद्र और मरीचि आदि दश पुत्र, उन से दश प्रणापति उन की तेरह लड़कियों का विवाह कश्यप से हुआ उन में से दिति से दैत्य, दनु से दानव, अदिति से आदित्य, विनता से पक्षी, कद्रु से सर्प, शर्मन्ना से कुक्षे, पुत्र्याल आदि और अन्य स्त्रियों से हाथी, घोड़े, जंत, गधा, भैंसा, वास, फूस, और बबूर आदि वृक्ष काटें सहित उत्पन्न हो गये। बाहर बाह! भागवत के बनाने वाले लाल भुजकड़! क्या कहना तुम्ह को ऐसी २ मिथ्या बातें लिखने में तनिक भी लज्जा और शर्म न आई निपट अंधा ही बन गया। स्त्री पुरुष के रजवीर्य के संयोग से मनुष्य तो बनते ही हैं परन्तु परमेश्वर की सृष्टिक्रम के विरुद्ध पशु, पक्षी, सर्प, आदि कभी उत्पन्न नहीं हो सकते। और हाथी, जंत, सिंह, कुत्ता, गधा, और वृक्षादि का स्त्री के गर्भाशय में स्थित होने का अवकाश कहां हो सकता है? और सिंह आदि उत्पन्न हो कर अपने मा बाप को क्यों न खा गये? और मनुष्य शरीर से पशु पक्षी वृक्षादि का उत्पन्न होना क्यों कर संभव हो सकता है? शोक है इन लोगों की रची हुई इस महा असम्भव लीला पर जिस ने संसार को अभी तक भ्रमा रक्खा है। भला इन महा भ्रूंत बातों को वे अंधे पोप और बाहर भीतर की फूटी आंखों वाले उन के चले सुनते और मानते हैं बड़े ही आश्चर्य की बात है कि ये मनुष्य हैं वा अन्य कोई!!! इन भागवतादि पुराणों के बनाने वाले जन्मते ही क्यों नहीं गर्भ ही में नष्ट हो गये? वा जन्मते समय मर क्यों न गये? क्यों कि इन पोपों से बचते तो आर्यावर्त देश दुःखों से बच जाता। (अथ) इन बातों में विरोध नहीं आ सकता क्योंकि "जिस का विवाह उसी के गीत" जब विष्णु की स्तुति करने लगे तब विष्णु की परमेश्वर अन्य को दास, जब शिव के गुण जाने लगे तब शिव की परमात्मा अन्य को किंकर बनाया और परमेश्वर की माया में सब बन सकता है मनुष्य से उत्पत्ति परमेश्वर कर सकता है देखा! बिना कारण अपनी माया से सब सृष्टि खड़ी कर दी है उस में कौनसी बात अघटित है? जो करना चाहै सो सब कर सकता है। (अथ) अरे भोले लोगो! विवाह में जिस के गीत गाते हैं उस को सब से बड़ा और दूसरों को छोटा वा निन्दा अथवा उस को सबका बाप तो नहीं बनाते? कहां पोप जो तुम भाट और खुशामदी चारणों से भी बड़ करगप्पी हो अथवा नहीं? कि जिस के पीछे लगे उसी को सब से बड़ा बनाओ और जिस से विरोध करो उस को सब से नीच ठहराओ तुम को सत्य और धर्म से क्या प्रयोजन? किन्तु तुम को तो अपने स्वार्थ ही से काम है। माया मनुष्य में हो सकती है जो छली कपटी हैं उन्हीं को मायावी कहते हैं परमेश्वर में छलकपटादि दोष न होने से उस को मायावी नहीं कह सकते। जो आदि सृष्टि में कश्यप

श्रीर कश्यप की स्त्रियों से पशु, पक्षी, सर्प, वृक्षादि, हुए होते तो आज कल भी वैसे सन्तान क्यों नहीं होते ? सृष्टिक्रम जो पहिले लिख आये वही ठीक है और अनुमान है कि योप जो यहीं से धोखा खा कर वके हंगे :—

तस्मात् कश्यप्य इमाः प्रजाः ॥ शत० ७।५।१।५॥

शतपथ में यह लिखा है कि यह सब सृष्टि कश्यप की बनाई हुई है ॥

कश्यपः कस्मात् पश्यको भवतीति ।निरु०॥ अ० २। खं०२॥

सृष्टिकर्ता परमेश्वर का नाम कश्यप इस लिये है कि पश्यक अर्थात् “पश्य-तीति पश्यः पश्य एव पश्यकः” जो निर्भ्रम ही कर चराचर जगत् सब जीव और इन के कर्म सकल विद्याओं को यथावत् देखता है और “आद्यन्तविपर्ययश्च” इस महाभाष्य के वचन से आदि का अक्षर अन्त और अन्त का वर्ण आदि में आने से “पश्यक से” “कश्यप” बन गया है इस का अर्थ न जान के भांग के लोटे चढ़ा अपना जन्म सृष्टिविरुद्ध कथन करने में नष्ट किया ॥

जैसे मार्कण्डेयपुराण के दुर्गापाठ में देवों के शरीरों से तेज. निकल के एक देवी बनी उस ने महिषासुर को मारा रक्तबीज के शरीर से एक बिन्दु भूमि में पड़ने से उस के सदृश रक्तबीज के उत्पन्न होने से सब जगत् में रक्तबीज भर जाना रुधिर की नदी का बह चलना आदि गपोड़े बहुत से लिख रखे हैं जब रक्तबीज से सब जगत् भर गया था तो देवी और देवी का सिंह और उस की सेना कहां रही थी ? जो कहो कि देवी से दूर २ रक्तबीज थे तो सब जगत् रक्तबीज से नहीं भरा था ? जो भर जाता तो पशु, पक्षी, मनुष्यादि प्राणी और जल, स्थल, मगर, मच्छ, कच्छप, मत्स्यादि वनस्पति आदि वृक्ष कहां रहते ? यहां यही निश्चित जानना कि दुर्गापाठ बनाने वाले के घर में भांग कर चले गये होंगे !!! देखिये क्या ही असंभव कथा का गपोड़ा भंग की लहरी में उड़ाया जिन का ठीर न ठिकाना ॥

अब जिस को “श्रीमद्भागवत” कहते हैं उस की लीला सुनो ब्रह्मा जी को नारायण ने चतुःश्लोकी भागवत का उपदेश किया :-

ज्ञानं परमगुह्यं मे यहिज्ञानसमन्वितम् ।

सरहस्यं तदङ्गञ्च गृहाण गदितं मया ॥

भा० स्कं० २। अ० १०। श्लोक ३०॥

हे ब्रह्मा जी ! तू मेरा परमगुह्य ज्ञान जो विज्ञान और रहस्ययुक्त और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, का अङ्ग है उसी का मुझ से ग्रहण कर । जब विज्ञानयुक्त ज्ञान

कहा तो परम अर्थात् ज्ञान का विशेषण रखना व्यर्थ है और गुह्य विशेषण से रहस्य भी पुनरुक्त है जब मूल श्लोक अनर्थक है तो ग्रन्थ अनर्थक क्यों नहीं? ब्रह्मा जी को बर दिया कि :-

भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित् ॥ भाग०

स्कं० २ । अ० ९ । श्लोक ३६ ॥

आप कल्प सृष्टि और विकल्प प्रलय में भी मोह को कभी न प्राप्त होंगे ऐसा लिख के पुनः दशमस्कन्ध में मोहित हो के वत्सहरण किया इन दोनों में से एक बात सच्ची और दूसरी भ्रूँठी ऐसा ही कर दोनों बात भ्रूँठी । जब वैकुण्ठ में राग, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, दुःख नहीं हैं तो सनकादिकों को वैकुण्ठ के द्वार में क्रोध क्यों हुआ ? जो क्रोध हुआ तो वह स्वर्ग ही नहीं तब जय, विजय द्वारपाल थे स्वामी की आज्ञा पालनी अवश्य थी उन्होंने ने सनकादिकों को रोका तो क्या अपराध हुआ ? इस पर बिना अपराध श्राप ही नहीं लग सकता, जब श्राप लगा कि तुम पृथिवी में गिर पड़ो इस कहने से यह सिद्ध होता है कि वहाँ पृथिवी न होगी आकाश, वायु, अग्नि और जल होगा तो ऐसा द्वार मन्दिर और जल किस के आधार थे पुनः जय विजय ने सनकादिकों की सुति की महाराज ! पुनः हम वैकुण्ठ में कब आवेंगे ? उन्होंने ने उन से कहा कि जो प्रेम से नारायण की भक्ति करो गे तो सातवें जन्म और जो विरोध से भक्ति करो गे तो तीसरे जन्म वैकुण्ठ की प्राप्त होओ गे । इस में विचारना चाहिये कि जय विजय नारायण के नौकर थे उन की रक्षा और सहाय करना नारायण का कर्त्तव्य काम था जो अपने नौकरों को बिना अपराध दुःख देवे उन को उन का स्वामी दंड न देवे तो उसके नौकरों की दुर्दशा सब कोई कर डाले नारायण को उचित था कि जय विजय का सत्कार और सनकादिकों को खूब दंड देते क्यों कि उन्होंने ने भीतर आने के लिये हठ क्यों किया ? और नौकरों से लड़े क्यों ? श्राप दिया उन के बदले सनकादिकों को पृथिवी में डाल देना नारायण का न्याय था जब इतना अन्धे नारायण के घर में है तो उस के सेवक जो कि वैष्णव कहते हैं उन की जितनी दुर्दशा हो उतनी छोड़ी है । पुनः वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, उत्पन्न हुए उन में से हिरण्याक्ष को बराह ने मारा उस की कथा इस प्रकार से लिखी है कि वह पृथिवी को चटाई के समान लपेट गिराने धर सी गया, विष्णु बराह का स्वरूप धारण करके उस के गिर के नीचे से पृथिवी को मुख में धर लिया यह उठा दोनों की लड़ाई हुई बराह ने हिरण्याक्ष को मार डाला । इन से कोई पूछे कि पृथिवी गोल है या चटाई के समान ? तो कुछ न कह सकेंगे, क्योंकि पौराणिक लोग भूगोलविद्या के शत्रु हैं भला जब लपेट कर गिराने धर ली आप किस पर सोया ?

श्रीर वराह जी किस पर पग धर के दीड़ आये ? पृथिवी को तो वराह जी ने सुख में रखी फिर दोनों किस पर खड़े होके लड़े ? वहां तो श्रीर कोई ठहरने की जगह नहीं थी किन्तु भागवतादि पुराण बनाने वाले पोप जी की छाती पर ठड़े होके लड़े होंगे ? परन्तु पोप जी किस पर सोया होगा यह बात " जैसे गप्पी के घरं गप्पी आये बोले गप्पी जी" जब मिथ्यावादियों के घर में दूसरे गप्पी लोग आते हैं फिर इस प्रकार की गप्प मारने में क्या कमती हैं ! अब रहा हिरण्यकश्यप उस का लड़का जो प्रह्लाद था वह भक्त हुआ था उस का पिता पढ़ाने-को पाठशाला में भेजता था तब वह अध्यापकों से कहता था कि मेरी पढी में राम, राम लिख देओ । जब उस के बाप ने सुना उस से कहा तू हमारे शत्रु का भजन ज्यों करता है ? छोकरे ने न माना तब उस के बाप ने उस को बांध के पहाड़ से गिराया, कूप में डाला, परन्तु उस को कुछ न हुआ तब उस ने एक लोहे का खंभा आगी में तपा के उस से बोला जो तेरा इष्टदेव राम सच्चा ही तो तू इस को पकड़ने से न जलेगा प्रह्लाद पकड़ने को चला मन में शंका हुई जलने से बचूंगा वा नहीं ? नारायण ने उस खंभे पर छोटी र चीटियों की पंक्ति चलाई उस को निश्चय हुआ भट खंभे को जा पकड़ा, वह फट गया, उस में से नृसिंह निकला श्रीर उस के बाप को पकड़ पेट फाड़ डाला पश्चात् प्रह्लाद को सांड से चाटने लगा । प्रह्लाद से कहा वर मांग, उस ने अपने पिता की सदृगति हीनी मांगी नृसिंह ने वर दिया कि तेरे इक्कीस पुरुषे सदृगति को गये । अब देखो! यह भी दूसरे गपोड़े का भाई गपोड़ा है किसी भागवत सुनने वा वांचने वाले को पकड़ पहाड़ के ऊपर से गिरावे तो कोई न बचावे चकनाचूर ही कर मर ही जावे । प्रह्लाद को उस का पिता पढ़ने के लिये भेजता था क्या बुरा काम किया था ? श्रीर वह प्रह्लाद ऐसा सूख पढ़ना छोड़ वैरागी होना चाहता था जो जलते हुए खंभे से कीड़ी चढ़ने लगी श्रीर प्रह्लाद स्पर्श करने से न जला इस बात को श्री सच्ची माने उस को भी खंभे के साथ लगा देना चाहिये जो यह न जले तो जानो वह भी न जला होगा श्रीर नृसिंह भी क्यों न जला ? प्रथम तीसरे जन्म में वैकुण्ठ में आने का वर सनकादिक का था क्या उस को तुम्हारा नारायण भूक्त गया ? भागवत की रीति से ब्रह्मा, प्रजापति, कश्यप, हिरण्याक्ष, श्रीर हिरण्यकश्यप चौथी पीढ़ी में होता है इक्कीस पीढ़ी प्रह्लाद की हुई भी नहीं पुनः इक्कीस पुरुषे सदृगति को गये कह देना कितना प्रमाद है ! श्रीर फिर वे ही हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुम्भकरण, पुनः शिशुपाल, दन्तवक्र उत्पन्न हुए तो नृसिंह का वर कहां उड़ गया ? ऐसी प्रमाद की बातें प्रमादी करते सुनते श्रीर मानते हैं विद्वान् नहीं ।

पूतना और अक्रूर जी के विषय में देखा:-

रथेन वायुवेगेन ॥ भा०स्कं० १० । अ० ३९ । श्लोक ३८ ॥

जगाम गोकुलं प्रति ॥ भा०स्कं० १० । पू० अ० ३८ । श्लो० २४ ॥

कि अक्रूर जी कंस के भेजने से वायु के वेग के समान दौड़ने वाले घोड़े के रथपर, बैठ कर, सूर्योदय से चले और चार मील गोकुल में सूर्यास्त समय पहुँचे अथवा घोड़े भागवत बनाने वाले की परिक्रमा करते रहे होंगे ? वा मार्ग भूल भागवत बनाने वाले के घर में घोड़े हाकने वाले और अक्रूर जी आकार सोये होंगे ? ॥

पूतना का शरीर कः कोश चौड़ा और बहुतसा लंबा लिखा है मथुरा और गोकुल के बीच में उस को मार कर श्रीकृष्ण जी ने डाल दिया जो ऐसा होता तो मथुरा और गोकुल दोनों दब कर इस पीप जी का घर भी दब गया होता ! ॥

और अजामेल की कथा जट पटांग लिखी है :- उस ने नारद के कहने से अपने लड़के का नाम "नारायण" रक्खा था मरते समय अपने पुत्र को पुकारा बीच में नारायण कूद पड़े, क्या नारायण उस के अन्तःकरण के भाव को नहीं जानते थे कि वह अपने पुत्र को पुंकारता है मुझको नहीं ? जो ऐसा ही नाम-माहात्म्य है तो आज कल भी नारायण स्मरण करने वालों के दुःख छुड़ाने को क्यों जहाँ आते यदि यह बात सच्ची हो तो कौन्सी लोग नारायण २ करके क्यों नहीं छूट जाते- ? । ऐसा ही ज्योतिष् शास्त्र से विरुद्ध सुमेरु पर्वत का परिमाण लिखा है और प्रियव्रत राजा के रथ के चक्र की लीक से ससुद्र हुए उंचास कोटि योजन पृथिवी है इत्यादि मिथ्या बातों का गपोड़ा भागवत में लिखा है जिस का कुछ पारावार नहीं ॥

यह भागवत बौवदेव का बनाया है जिस के भाई जयदेव ने गीतगोविन्द बनाया है देखा ! उस ने ये श्लोक अपने बनाये "हिमाद्रि" नामक ग्रन्थ में लिखे हैं कि श्रीमद्भागवतपुराण मैंने बनाया है उस लेख के तीन पत्र हमारे पास थे उन में से एक पत्र खो गया है उस पत्र में श्लोकों का जो आशय था उस आशय के हमने दो श्लोक बना के नीचे लिखे हैं जिस को देखना है वह हिमाद्रि ग्रंथ में देख लेवे-

हिमाद्रेः सचिवस्यार्थं सूचना क्रियतेऽधुना ।

स्कन्धाऽध्यायकथानां च यत्प्रमाणं समासतः ॥ १ ॥

श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं च मयेरितम् ।

विदुषा बौवदेवेन श्रीकृष्णस्य यशोन्वितम् ॥ २ ॥

इसी प्रकार के नष्ट पत्र में श्लोक थे अर्थात् राजा के सचिव हिमाद्रि ने बौवदेव पंडित से कहा कि मुझ को तुम्हारे बनाये श्रीमद्भागवत के संपूर्ण सुनने का

अवकाश नहीं है इस लिये तुम संक्षेप से श्लोकबद्ध सूचीपत्र बनाओ जिस को देख के मैं श्रीमद्भागवत की कथा को संक्षेप से जान लूँ सो नीचे लिखा हुआ सूची-पत्र उस ब्रह्मदेव ने बनाया उस में से उस नष्टपत्र में दश १० श्लोक खो गये हैं ग्यारहवें श्लोक से लिखते हैं, ये नीचे लिखे श्लोक सब ब्रह्मदेव के बनाये हैं वे:-

बोधयन्तीति हि प्राहुः श्रीमद्भागवतं पुनः ।

पञ्च प्रश्नाः शौनकस्य सूतस्यात्रोत्तरं त्रिषु ॥ ११ ॥

प्रश्नावतारयोश्चैव व्यासस्य निर्घृतिः कृतात् ।

नारदस्यात्र हेतूक्तिः प्रतीत्यर्थं स्वजन्म च ॥ १२ ॥

सुप्तघ्नं द्रौण्यभिभवस्तदस्त्रात्पाण्डवा वनम् ।

भीष्मस्य स्वपदप्राप्तिः कृष्णस्य द्वारिकागमः ॥ १३ ॥

श्रोतुः परोक्षितो जन्म धृतराष्ट्रस्य निर्गमः ।

कृष्णमर्त्यागसूचा ततः पार्थमहापथः ॥ १४ ॥

इत्यष्टादशभिः पादैरध्यायार्थः क्रमात्स्मृतः ।

स्वपरप्रतिबन्धोनं स्फीतं राज्यं जहौ नृपः ॥ १५ ॥

इति वैराज्ञो दाढर्योक्तौ प्रोक्ता द्रौणिजयादयः ।

इति प्रथमः स्कन्धः ॥ १ ॥

श्रुत्यादि बारह स्कंधों का सूचीपत्र इसी प्रकार ब्रह्मदेव पण्डित ने बना कर हिमाद्रि सचिव को दिया जो विस्तार देखना चाहे वह ब्रह्मदेव के बनाये हिमाद्रि ग्रन्थ में देख लेवे । इसी प्रकार अन्य पुराणों की भी लीला समझनी परन्तु उन्नीस बीस श्लोकों से एक दूसरे से बढ़ कर हैं ॥

देखा ! श्रीकृष्ण जी का इतिहास महाभारत में अत्युत्तम है उन का गुण, कर्म, स्वभाव और चरित्र आम पुरुषों के सट्टग है जिस में कोई अधर्म का आचरण श्रीकृष्ण जी ने जन्म से मरणपर्यन्त बुरा काम कुछ भी किया हो ऐसा नहीं लिखा और इस भागवत वाले ने अनुचित मनमाने दोष लगाये हैं दूध, दही, मक्खन आदि की चोरी लगाई और कुष्ठा दासी से समागम, पर स्त्रियों से रास-मंडल में क्रीड़ा आदि मिथ्या दोष श्रीकृष्ण जी में लगाये हैं इस को पढ़ पढ़ा सुन सुना के अन्य मत वाले श्रीकृष्ण जी की बहुतसी निन्दा करते हैं जो यह भागवत न होता तो श्रीकृष्ण जी के सट्टग महात्माओं को झूठी निन्दा क्यों कर

होती ? शिवपुराण में वारह ज्योतिर्लिङ्ग और जिन में प्रकाश का लेश भी नहीं रात्रि को बिना दीप किये लिंग भी अन्धरे में नहीं दीखते ये सब लीला पोप जी की हैं । (प्रश्न) जब वेद पढ़ने का सामर्थ्य नहीं रहा तब स्मृति, जब स्मृति के पढ़ने की बुद्धि नहीं रही तब शास्त्र, जब शास्त्र पढ़ने का सामर्थ्य न रहा तब पुराण बनाये केवल स्त्री और शूद्रों के लिये क्योंकि इन को वेद पढ़ने सुनने का अधिकार नहीं है । (उत्तर) यह बात मिथ्या है, क्योंकि सामर्थ्य पढ़ने पढ़ाने ही से होता है और वेद पढ़ने सुनने का अधिकार सब को है देखो गार्गी आदि स्त्रियां और कान्दोग्य में जानश्रुति शूद्र ने भी वेद "रैक्षसुनि" के पास पढ़ा था और यजुर्वेद के २६ वें अध्याय २ मंत्र में स्पष्ट लिखा है कि वेदों के पढ़ने और सुनने का अधिकार मनुष्यमात्र को है पुनः जो ऐसे २ मिथ्याग्रंथ बना लोगों को सत्यग्रंथों से विमुक्त जाल में फसा अपने प्रयोजन को साधते हैं वे महापापी क्यों नहीं ? ॥

देखा ग्रहों का चक्र कैसा चलाया है कि जिस ने विद्याहीन मनुष्यों को ग्रस लिया है । "आकृष्येन रजसा०" । १ । सूर्य का मंत्र । "इमं देवा असपत्न धंसुव-ध्वम्०" । २ । चन्द्रः "अग्निमूर्धा दिवः ककुत्पतिः०" । ३ । मंगल । "उदबुध्यत्वाग्ने०" । ४ । बुध । "बृहस्पते अतियद्दुर्यो०" । ५ । बृहस्पति । "शुक्रमन्वसः०" । ६ । शुक । "शत्रो देवीरभिष्टय०" । ७ । शनि "कयानखिन्न आशुव०" । ८ । राहु । और "केतुं कृण्वन्न केतवे०" । ९ । इस को केतु की कण्डिका कहते हैं (आकृष्णी०) यह सूर्य का और भूमि का आकर्षण । १ । दूसरा राजगुण विधायक । २ । तीसरा अग्नि । ३ । और चौथा यजमान । ४ । पांचवां विद्वान् । ५ । ऋठा वीर्य अन्न । ६ । सातवां जल प्राण और परमेश्वर । ७ । आठवां मित्र । ८ । नववां ज्ञानग्रहण का विधायक मंत्र है । ग्रहों के वाचक नहीं । ९ । अर्थ न जानने से भ्रम जाल में पड़े हैं । (प्रश्न) ग्रहों का फल होता है वा नहीं ? (उत्तर) जैसा पोपलीला का है वैसा नहीं किन्तु जैसा सूर्य चन्द्रमा की किरणद्वारा उष्णता शीतलता अथवा ऋतुवत्कालचक्र का सम्बन्धमात्र से अपनी प्रकृति के अनुकूल प्रतिकूल सुख दुःख के निमित्त होते हैं परन्तु जो पोपलीला वाले कहते हैं "सुनो महाराज सेठ जी । यजमानो तुम्हारे आठ आठवां चन्द्र सूर्यादि क्रूर घर में आये हैं अट्ठाई वर्ष का शनैश्चर पग में आया है तुम को बड़ा विघ्न होगा घर हार छुड़ा कर पर-देश में घुमावेगा परन्तु जो तुम ग्रहों का दान, जप, पाठ, पूजा, कराओगे तो दुःख से बचोगे" इन से कहना चाहिये कि सुनो पोप जी ! तुम्हारा और ग्रहों का क्या सम्बन्ध है ? यह क्या बलु है ? (पोप जी) :—

दैवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनारच देवताः ।

ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनास्तस्माद् ब्राह्मणदैवतम् ॥

देखो कैसा प्रमाण है देवताओं के आधीन सब जगत्, मन्त्रों के आधीन सब देवता और वे मन्त्र ब्राह्मणों के आधीन हैं इस लिये ब्राह्मण देवता कहते हैं। क्योंकि चाहें जिस देवता को मन्त्र के बल से बुला प्रसन्न कर काम सिद्ध कराने का हमारा ही अधिकार है जो हम में मन्त्रशक्ति न होती तो तुम्हारे से नास्तिक हम को संसार में रहने ही न देते। (सत्यवादी) जो चोर, डाकू, कुकर्मों, लोग हैं वे भी तुम्हारे देवताओं के आधीन होंगे? देवता ही उन से दुष्ट काम कराते होंगे? जो वैसा है तो तुम्हारे देवता और राजसों में कुछ भेद न रहेगा जो तुम्हारे आधीन मन्त्र हैं उन से तुम चाहो सो करा सकते हो तो, उन मन्त्रों से देवताओं को वश कर राजाओं के कोष उठवा कर अपने घर में भर कर बैठ के आनन्द क्यों नहीं भोगते? घर में शनैश्वरादि के तैल आदि का छायादान लेने को मारे २ क्यों फिरते हो? और जिस को तुम कुवेर मानते हो उस को वश में करके चाहो जितना धन लिया करो विचारे गुरौं की क्यों लूटते हो? तुम को दान देने से ग्रह प्रसन्न और न देने से अप्रसन्न होते हैं तो हम को सूर्यादि ग्रहों की प्रसन्नता अप्रसन्नता प्रत्यक्ष दिखलाओ जिस को ८ वां सूर्य चन्द्र और दूसरे को २ तीसरा हो, उन दोनों को ज्येष्ठ महीने में बिना जूते पहिने तपी हुई भूमि पर चलाओ, जिस पर प्रसन्न हैं उन के पग शरीर न जलने और जिस पर क्रोधित हैं उन के जल जाने चाहिये, तथा पौषमास में दोनों को नंगे कर पौर्णमासी की राति भर मैदान में रखें एक को शीत लगे दूसरे को नहीं तो जानो कि ग्रह कर और सौम्यदृष्टि वाले होते हैं। और क्या तुम्हारे ग्रहसम्बन्धी हैं? और तुम्हारी डाक वा तार उन के पास आता जाता है? अथवा तुम उन के वा वे तुम्हारे पास आते जाते हैं? जो तुम में मन्त्रशक्ति हो तो तुम स्वयं राजा या धनाढ्य क्यों नहीं बन जाओ? वा शत्रुओं को अपने वश में क्यों नहीं कर लेते हो? नास्तिक वह होता है जो वेद ईश्वर की आज्ञा वेदविरुद्ध पोपलीला चलावे जब तुम को ग्रहदान न देवे जिस पर ग्रह है वह ग्रहदान को भोगे तो क्या चिन्ता है जो तुम कहो कि नहीं हम ही को देने से वे प्रसन्न होते हैं अन्य को देने से नहीं तो क्या तुम ने ग्रहों का ठेका ले लिया है? जो ठेका लिया हो तो सूर्यादि को अपने घर में बुला के जल मरो। सच तो यह है, कि सूर्यादि लोक बड़ हैं वे न किसी को दुःख और न सुख देने की चेष्टा कर सकते हैं किन्तु जितने तुम ग्रहदानोपधीवी हो वे सब तुम ग्रहों की मूर्तियां हो क्योंकि ग्रह शब्द का अर्थ भी तुम में ही घटित होता है “ये गृह्णन्ति ते ग्रहाः” जो ग्रहण करते हैं उन का नाम ग्रह है, जब तक तुम्हारे चरण राजा, रईम सेठ साहूकार और दरिद्रों के पास नहीं पहुँचते तब तक किसी को नवग्रह का स्मरण भी नहीं होता जब तुम साक्षात् सूर्य शनैश्वरादि मूर्तिमान् उन पर आ चढ़ते हो तब बिना ग्रहण किये उन को कभी

नहीं छोड़ते और जो कोई तुम्हारे पास में न आवे उस को निन्दा न, तिकादि शर्द्धों से काने फिरते हो ! (पीपजो) देखो ! ज्योतिष् का प्रत्यक्ष फल आकाश में रहने वाले सूर्य, चन्द्र और राहु केतु का संयोगरूप ग्रहण को पहिने ही कह देते हैं जैसा यह प्रत्यक्ष होता है वैसा ग्रहों का भी फल प्रत्यक्ष ही जाता है देखो ! धनाढ्य, दरिद्र, राजा, रङ्ग, सुखी, दुःखी, ग्रहों ही से होते हैं । (सत्यवादो) जो यह ग्रहणरूप प्रत्यक्ष फल है सो गणितविद्या का है, फलित का नहीं, जो गणितविद्या है वह सच्ची और फलितविद्या स्वाभाविक सम्बन्धजन्य को छोड़ के झूठी है, जैसे अनुलोम, प्रतिलोम, घूमने वाले पृथिवी और चन्द्र के गणित से स्पष्ट विदित होता है कि अमुक समय, अमुक देश, अमुक अवयव में सूर्य वा चन्द्र का ग्रहण होगा जैसे:-

छादयत्यर्कमिन्दुर्विधुं भूमिभाः ॥ *

यह सिद्धान्तशिरोमणि का वचन और इसी प्रकार सूर्यसिद्धान्तादि में भी है अर्थात् जब सूर्य भूमि के मध्य में चन्द्रमा आता है तब सूर्यग्रहण और जब सूर्य और चन्द्र के बीच में भूमि आती है तब चन्द्रग्रहण होता है अर्थात् चन्द्रमा की छाया भूमि पर और भूमि की छाया चन्द्रमा पर पड़ती है । सूर्य प्रकाशरूप होने से उस के सम्मुख छाया किसी की नहीं पड़ती, किन्तु जैसे प्रकाशमान सूर्य वा दीप से देहादि को छाया उल्टी जाती है वैसे ही ग्रहण में समझो । जो धनाढ्य, दरिद्र, प्रजा, राजा, रंक होते हैं वे अपने कर्मों से होते हैं ग्रहों से नहीं बहुत से ज्योतिषी लोग, अपने लड़के लड़की का विवाह, ग्रहों को गणितविद्या के अनुसार करते हैं पुनः उन में विरोध वा विधवा अथवा स्तस्त्रीक पुरुष ही जाता है जो फल सच्चा होता तो ऐसा क्यों होता? इस लिये कर्म को गति सच्ची और ग्रहों की गति सुख दुःख भोग में कारण नहीं । भला यह आकाश में और पृथिवी भी आकाश में बहुत दूर पर है इन का सम्बन्ध, कर्त्ता और कर्मों के साथ साक्षात् नहीं, कर्म और कर्मों के फल का कर्त्ता, भोक्ता जीव और कर्मों के फल भोगाने हारा परमात्मा है जो तुम ग्रहों का फल मानो तो इस का उत्तर देओ, कि जिस क्षण में एक मनुष्य का जन्म होता है, जिसको तुम ध्रुवा द्रुति मान कर जन्मपत्र बनाते हो उसी समय में भूगोल पर दूसरे का जन्म होता है वा नहीं? जो कही नहीं, तो झूठ, और जो कही होता है तो एक चक्रवर्ती के सदृश भूगोल में दूसरा चक्रवर्ती राजा क्यों नहीं होता? हां इतना तुम कह सकते हो कि यह लीला हमारे उदर भरने की है तो कोई मान भी लेवे । (प्रश्न) क्या यह भी झूठा है ? (उत्तर) हां असत्य है । (प्रश्न) फिर मरे हुए जीव को

होती है? (उत्तर) जैसे उस के कर्म हैं । (प्रश्न) जो यमराज राजा, चित्रगुप्त मन्त्री, उस के बड़े भयंकर गण, कज्जल के पर्वत के तुल्य शरीरवाले जीव को पकड़ कर ले जाते हैं पाप पुण्य के अनुसार नरक स्वर्ग में डालते हैं उस के लिये दान, पुण्य, श्राद्ध, तर्पण, गोदानादि वैतरणी नदी तरने के लिये करते हैं ये सब बात भूँड क्यों कर हो सकती हैं ? (उत्तर) ये सब बातें पोपलीला के गपोड़े हैं जो अन्यत्र के जीव वहाँ जाते हैं उन का धर्मराज, चित्रगुप्त, आदि न्याय करते हैं तो वे यमलोक के जीव पाप करें तो दूसरा यमलोक मानना चाहिये कि वहाँ के न्यायाधीश उन का न्याय करें और पर्वत के समान यमगणों के शरीर हैं तो दीखते क्यों नहीं ? और मरने वाले जीव को लेने में छोटे द्वार में उन को एक श्रंगुली भी नहीं जा सकती और सड़क गली में क्यों नहीं रुक जाते ? जो कहे कि वे सूक्ष्म देह भी धारण कर लेते हैं तो प्रथम पर्वतवत् शरीर के बड़े २ हाड़ पोप जी बिना अपने घर के कहां धरे गे? जब जङ्गल में आगी लगती है तब एक दम पिपीलिकादि जीवों के शरीर छूटते हैं उन को पकड़ने के लिये असंख्य यम के गण आवें तो वहाँ अन्धकार हो जाना चाहिये और जब आपस में जीवों को पकड़ने को दौड़ें गे तब कभी उन के शरीर ठोकर खा जाय गे तो जैसे पहाड़ के बड़े २ गिखर टूट कर पृथिवी पर गिरते हैं वैसे उन के बड़े २ अवयव गरुड़पुराण के वांचने सुनने वालों के आंगन में गिर पड़े गे तो वे दब मरे गे वा घर का द्वार अथवा सड़क रुक जायगी तो वे कैसे निकल और चल सकें गे ? श्राद्ध, तर्पण, पिण्डप्रदान, उन मरे हुए जीवों को तो नहीं पहुँचता किन्तु सृतकों के प्रतिनिधि पोप जी के घर उदर और हाथ में पहुँचता है । जो वैतरणी के लिये गोदान लेते हैं वह तो पोप जी के घर में अथवा कसाई आदि के घर में पहुँचता है वैतरणी पर गाय नहीं जाती पुनः किस का पूँछ पकड़ कर तरे गा और हाथ तो यहीं जलाया वा गाड़ दिया गया फिर पूँछ को कैसे पकड़े गा? यहाँ एक दृष्टान्त इस बात में उपयुक्त है कि:—

एक जाट था उस के घर में एक गाय बहुत अच्छी और बीस सेर दूध देने वाली थी, दूध उस का बड़ा स्वादिष्ट होता था, कभी २ पोप जी के मुख में भी पड़ता था, उस का पुरोहित यही ध्यान कर रहा था, कि जब जाट का बुढ़दा वाप मरने लगे गा तब इसी गाय का संकल्प करा लूंगा । कुछ दिनों में देवयोग से उस के वाप का मरण समय आया, जीभ बन्द हो गई और खाट से भूमि पर ले लिया अर्थात् प्राण छोड़ने का समय आ पहुँचा । उस समय जाट के इट, मिट और सम्बन्धी भी उपस्थित हुए थे, तब पोप जी ने पुकारा कि यजमान ! अब तू इस के हाथ से गोदान करा । जाट ने १०) रुपैया निकाल पिता के हाथ में रख कर बोला मट्टी संकल्प ! पोप जी बोला बाह २ क्या वाप बारम्बार मरता है ?

इस समय तो साक्षात् गाय को लाओ जो दूध देतो है, बुद्धो न है, सब प्रकार उत्तम है, ऐसी गौ का दान कराना चाहिये। (जाटजी) हमारे पास तो एक ही गाय है उस के बिना हमारे लड़के वालों का निर्वाह न है सकेगा इस लिये उस को न दूंगा तो २०) रूपये का संकल्प पढ़ देओ और इन रूपयों से दूसरी दुधार गाय ले लेना। (पोपजी) वाह जी वाह ! तुम अपने बाप से भी गाय को अधिक समझते हो ? क्या अपने बाप को वैतरणी नदी में डुबा कर दुःख देना चाहते हो ? तुम अच्छे सुपुत्र हुए ? तब तो पोप जी की ओर सब कुटुम्बो हो गये, क्योंकि उन सब को पहिले ही पोपजीने बहका रखा था और उस समय भी इशारा कर दिया सब ने मिल कर हठ से उसी गाय का दान उसी पोप जी को दिला दिया। उस समय जाट कुछ भी न बोला, उस का पिता मर गया और पोप जी बच्चासहित गाय और दोहने की बटलोही को ले, अपने घर में गौबांध, बटलोही धर, पुनः जाट के घर आया और मृतक के साथ श्मशानभूमि में जा कर दाह-कर्म कराया वहां भी कुछ २ पोपलीला चलाई। पश्चात् दशगात्र सपिंडी कराने आदि में भी उस को झूड़ा, महान्राज्ञाणां ने भी लूटा और भुखंडों ने भी बहुत सा माल पेट में भरा अर्थात् जब सब क्रिया हो चुकी तब जाट ने जिस किसी के घर से दूध मांग, भ्रूंग निर्वाह किया चौदहवें दिन प्रातःकाल पोप जी के घर पहुंचा देखा तो गाय दुह, बटलोही भर पोप जी के चठने की तैयारी थी इतने ही में जाट जी पहुंचे उस को देख पोप जी बोला आइये ! यजमान बैठिये। (जाट जी) तुम भी पुरोहित जी इधर आओ। (पोप जी) अच्छा दूध धर आज (जाट जी) नहीं २ दूध की बटलोई इधर लाओ। (पोप जी) विचारें जा बैठे और बटलोई सामने धर दी। (जाट जी) तुम बड़े झूठे हो। (पोप जी) क्या झूठ किया ? (जाट जी) कहे तुम ने गाय किस लिये ली थी ? (पोप जी) तुम्हारे पिता के वैतरणी नदी तरने के लिये। (जाट जी) अच्छा तो तुम ने वहां वैतरणी के किनारे पर गाय क्यों न पहुंचाई ? हम तो तुम्हारे भरोसे पर रहे और तुम अपने घर बांध बैठे, न जाने मेरे बाप ने वैतरणी में कितने गौते खाये होंगे ? (पोप जी) नहीं २ वहां इस दान के पुण्य के प्रभाव से दूसरी गाय बन कर उस को उतार दिया होगा। (जाट जी) वैतरणी नदी यहाँ से कितनी दूर और किधर की ओर है ? (पोप जी) अनुमान से कोई तीस कोड़ कोश दूर है क्योंकि उंचास कोटि योजन पृथिवी है और दक्षिण नैर्ऋत्य दिशा में वैतरणी नदी है (जाट जी) इतनी दूर से तुम्हारी चिड़ी वा तार का समाचार गया है उस का उत्तर आया है कि वहां पुण्य की गाय बन गई अमुक के पिता को पार उतार दिया दिखलाओ। (पोप जी) हमारे पास गरुडपुराण के लेख के बिना डाक वा तारवकीं दूसरी कोई नहीं। (जाट जी) इस गरुडपुराण को हम सच्चा कैसे मानें ? (पोप जी) जैसे

सब मानते हैं । (जाट जी) यह पुस्तक तुम्हारे पुरुषार्थों ने तुम्हारी जीविका के लिये बनाया है, क्योंकि पिता को बिना अपने पुत्रों के कोई प्रिय नहीं, जब मेरा पिता मेरे पास चिट्ठी पत्री वा तार भेजेगा तभी मैं बैतरणी के किनारे गाय पहुंछा दूंगा और उन को पार उतार, पुनः गाय को घर में ले, दूध को मैं और मेरे लड़के वाले पिया करेंगे, लाओ ! दूध को भरी हुई बटलोही, गाय, बछड़ा, लेकर जाट जी अपने घर को चला । (पोप जी) तुम दान दे कर लेते ही तुम्हारा सत्यानाश ही जाय गा । (जाट जी) चुप रहो नहीं तो तेरह दिन लो दूध के बिना जितना दुःख हम ने पाया है सब कसर निकाल दूंगा तब पोप जी चुप रहे और जाट जी गाय बछड़ा ले अपने घर पहुँचे ।

जब ऐसे ही जाट जी के से पुनश्च हीं तो पोपजीला संसार में न चले जो ये लोग कहते हैं कि दृशगात्र के पिण्डों से दृश अंग सपिंडी करने से शरीर के साथ जीव का मेल हीके अंगुष्ठमात्र शरीर वन के पश्चात् यमलोक को जाता है तो मरती समय यमदूर्ता का आना व्यर्थ होता है, त्रयोदशाह के पश्चात् आना चाहिये, तो शरीर वन जाता है तो अपनी स्त्री, सन्तान और इष्ट, मित्रों के मोह से क्यों नहीं लौट आता ? (प्रश्न) स्वर्ग में कुछ नहीं मिलता जो दान किया जाता है वही वहां मिलता है इस लिये सब दान करने चाहिये । (उत्तर) उस तुम्हारे स्वर्ग से वही लोक अच्छा जिस में धर्मशाला हैं, लोग दान देते हैं इष्ट, मित्र और जाति में खूब निमन्त्रण होते हैं, अच्छे २ बस्त्र मिलते हैं, तुम्हारे कहने प्रमाण स्वर्ग में कुछ भी नहीं मिलता ऐसे निर्दय, कृपण, कांगले, स्वर्ग में पोप जी जाके खराब हों वहां भले २ मनुष्यों का क्या काम ? । (प्रश्न) जब तुम्हारे कहने से यमलोक और यम नहीं हैं तो मर कर जीव कहाँ जाता ? और इन का न्याय कौन करता है ? (उत्तर) तुम्हारे गरुड़पुराण का कहा हुआ तो अप्रमाण है परन्तु जो वेदोक्त है कि :-

यमेन वायुना सत्यराजन् ॥

इत्यादि वेदवचनों से निश्चय है कि "यम" नाम वायु का है, शरीर छोड़ वायु के साथ अन्तरिक्ष में जीव रहते हैं और जो सत्य कर्ता पक्षपात रहित परमात्मा "धर्मराज" है वही सब का न्यायकर्ता है । (प्रश्न) तुम्हारे कहने से गोदानादि दान किसी को न देना और न कुछ दान, पुण्य करना, ऐसा सिद्ध होता है । (उत्तर) यह तुम्हारा कहना सर्वथा व्यर्थ है, क्योंकि सुपात्रों को परोपकारियों को, परोपकारार्थ सोना, चांदी, हीरा, मोती प्राणिक, अन्न, जल, स्थान, यन्त्रादि दान अवश्य करना उचित है किन्तु कुपात्रों को, कभी न देना चाहिये (प्रश्न) कुपात्र और सुपात्र का लक्षण क्या है ? । (उत्तर) जो छली, कपटी, स्वार्थी,

विषयी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, से युक्त पराई हानि करने वाले, लंपटी मिथ्या-वादी, अविद्वान्, कुसङ्गी, आलसी जो कोई दाता हो उस के पास बारम्बार मांगना, धरना, देना, नां क्रिये पश्चात् भी हठ से मांगते ही जाना, सन्तोष न चीना जो न दे उस की निन्दा करना, श्राप और गालिप्रदानादि देना, अनेक बार जो सेवा करे और एक बार न करे तो उस का शत्रु बन जाना, ऊपर से साधु का वेश बना लोगों को बहका कर ठगना और अपने पास पदार्थ है तो भी मेरे पास कुछ भी नहीं है कहना, सब को फुसला फुसलू कर स्वार्थ सिद्ध करना, रात दिन भौख मांगने ही में प्रवृत्त रहना, निमंत्रण दिये पर यथेष्ट भंगादि मादक द्रव्य खा पी कर बहुत सा पराया पदार्थ खाना, पुनः उन्मत्त हो कर प्रमादी होना, सत्य मार्ग का विरोध और झूठ मार्ग में अपने प्रयोजनार्थ चलना, वैसे ही अपने चेलों को केवल अपनी सेवा करने का उपदेश करना, अन्य योग्य पुरुषों की सेवा करने का नहीं, सद्दिव्यादि प्रवृत्ति के विरोधी, जगत् के व्यवहार अर्थात् स्त्री, पुरुष, माता, पिता, सन्तान, राजा, प्रजा, इष्ट, मित्रों में अप्रीति कराना कि ये सब असत्य हैं, और जगत् भी मिथ्या है, इत्यादि दुष्ट उपदेश करना आदि कुपात्रों के लक्षण हैं। और जो ब्रह्मचारी, जितेन्द्रिय, वेदादिविद्या के पढ़ने पढ़ाने हारे, सुशील, सत्यवादी, परोपकारप्रिय, पुरुषार्थी, उदार, विद्या धर्म की निरन्तर उन्नति करने हारे, धर्मात्मा, शान्त, निन्दा स्तुति में हर्ष शोकरहित, निर्भय, उत्साही, योगी, ज्ञानी, सृष्टिक्रम, वेदाज्ञा, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावानुकूल वर्तमान करने हारे, न्याय की रीतियुक्त पक्षपात रहित सत्योपदेश और सत्यशास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने हारे के परीक्षक किसी की लज्जा पक्षी न करे, प्रशंसा के यथार्थ समाधान कर्त्ता, अपने आत्मा के तुल्य अन्य का भी सुख, दुःख, हानि, लाभ, समझने वाले, अविद्यादि लोभ, हठ, दुराग्रहाऽभिमानरहित, अमृत के समान अपमान और विष के समान मान को समझने वाले, सन्तोषी, जो कोई प्रीति से जितना देवे उतने ही से प्रसन्न, एक बार आपत्काल में मांगे भी न देने वा वर्जने पर भी दुःख वा बुरी चेष्टा न करना, वहाँ से झूट लौट जाना, उस की निन्दा न करना, सुखी पुरुषों के साथ मित्रता, दुःखियों पर करुणा, पुण्यात्माओं से आनन्द और पापियों से "उपेक्षा" अर्थात् रागद्वेष रहित रहना, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, निष्कपट, ईर्ष्या, द्वेषरहित गंभीराशय, सत्यरूप, धर्म से युक्त और सर्वथा दुष्टाचार से रहित, अपने तन मन धन को परोपकार करने में लगाने वाले, पराये सुख के लिये अपने प्राणों को भी समर्पित कर्त्ता इत्यादि शुभलक्षणयुक्त सुपात्र होते हैं परन्तु दुर्भिक्षादि आपत्काल में अन्न, जल, वस्त्र और औषधि पण्य स्थान के अधिकारी सब प्राणीमात्र हो सकते हैं (प्रश्न) दाता कितने प्रकार के होते हैं ? (उत्तर) तीन प्रकार के:-

उत्तम, मध्यम और निम्नः—उत्तम दाता उस को कहते हैं जो देश, काल, पात्र को जान कर सत्यविद्या धर्म की उन्नतिरूप परोपकारार्थ देवे। मध्यम वह है जो कीर्ति या स्वार्थ के लिये दान करे। नीच वह है कि अपना वा पराया कुछ उपकार न कर सके, किन्तु वैश्यागमनदि वा भांड भाट आदि को देवे, देते समय तिरस्कार अपमानादि भी कुचेष्टा करे, पात्र कुपात्र का कुछ भी भेद न जाने “किन्तु सब अन्न बारह पैसेरी” बचने वालों के समान विवाद लड़ाई, दूसरे धर्मात्मा को दुःख दे कर सुखी होने के लिये दिया करे वह अधम दाता है अर्थात् जो परीक्षापूर्वक विद्वान् धर्मात्माओं का सत्कार करे वह उत्तम और जो कुछ परीक्षा करे वा न करे परन्तु जिस में अपनी प्रशंसा ही उस को मध्यम और जो अधाधुम्य परीक्षा रहित निष्फल दान दिया करे वह नीच दाता कहाता है। (प्रश्न) दान के फल यहां होते हैं वा परलोक में ? (उत्तर) सर्वत्र होते हैं। (प्रश्न) स्वयं होते हैं वा कोई फल देने वाला है (उत्तर) फल देने वाला ईश्वर है जैसे कोई चोर डाकू स्वयं बन्दीघर में जाना नहीं चाहता राजा उस को अवश्य भेजता है धर्मात्माओं के सुख की रक्षा करता भुगाता, डाकू आदि से बचा कर उन को सुख में रखता है वैसे ही परमात्मा सब को पाप पुण्य के दुःख और सुखरूप फलों को यथावत् भुगाता है (प्रश्न) जो ये गरुडपुराणादि ग्रन्थ हैं वेदार्थ वा वेद की पुष्टि करने वाले हैं वा नहीं ? (उत्तर) नहीं, किन्तु वेद के विरोधी और उलटे चलते हैं तथा तन्त्र भी वैसे ही हैं जैसे कोई मनुष्य एक का मित्र सब संसार का शत्रु हो, वैसे ही पुराण और तन्त्र का मानने वाला पुरुष होता है क्योंकि एक दूसरे से विरोध कराने वाले ये ग्रन्थ हैं इन का मानना किसी विद्वान् का काम नहीं किन्तु इन को मानना अविद्वत्ता है। देखो ! शिवपुराण में त्रयोदशी, सोमवार, आदित्यपुराण में रवि, चन्द्रखण्ड में सोमग्रह वाले मंगल, बुध, बृहस्पति, शक्र, गनैचर, राहु, केतु के, वैष्णव एकादशी, यामन की द्वादशी, नमिञ्ज वा अनन्त की चतुर्दशी, चन्द्रमा की पूर्णमासी, दिक्पालों की दशमी, दुर्गा की नौमी, वसुओं की अष्टमी, सुनियों की सप्तमी, स्वामिकार्त्तिक की षष्ठी, नाग की पंचमी, गणेश की चतुर्थी, गौरी की तृतीया, अग्निनीकुमार की द्वितीया, आद्या देवी की प्रतिपदा, और पितरों की अमावास्या पुराण रीति से ये दिन उपवास करने के हैं और सर्वत्र यही लिखा है कि जो मनुष्य इन बार और तिथियों में अन्न, पान ग्रहण करेगा वह नरकगामी होगा। अब पोष और पोष जो के चेलों को चाहिये कि किसी बार अथवा किसी तिथि में भोजन न करे क्योंकि जो भोजन वा पान किया तो नरकगामी होंगे। अब «निर्णयसिंधु» «धर्मसिंधु» «व्रतार्क» आदि ग्रंथ जो कि प्रमादी लोगों के बनाये हैं उन्हीं में एक २ व्रत की ऐसी दुर्दशा की है कि जैसे एकादशी को ग्रेव, दशमीविदा कोई द्वादशी में एकादशी व्रत करते हैं अर्थात्

क्या बड़ी विचित्र पोपलीला है कि भूखे मरने में भी वादविवाद ही करते हैं जो एकादशी का व्रत चलाया है उस में अपना स्मार्थपन ही है और दया कुछ भी नहीं वे कहते हैं :-

एकादश्यामन्ने पापानि वसन्ति

जितने पाप हैं वे सब एकादशी के दिन अन्न में वसते हैं इस पोप जी से पूछना चाहिये कि किस के पाप उस में वसते हैं ? तेरे वा तेरे पिता आदि के ? जो सब के सब पाप एकादशी में जा वसें तो एकादशी के दिन किसी को दुःख न रहना चाहिये, ऐसा तो नहीं होता किन्तु उल्टा चूधा आदि से दुःख होता है दुःख पाप का फल है इस से भूखे मरना पाप है इस का बड़ा माहात्म्य बनाया है जिस की कथा वांच के बहुत ठगे जाते हैं । उस में एक शाय्या है कि:-

ब्रह्मलोक में एक वेश्या थी उस ने कुछ अपराध किया उस को शाप हुआ, वह पृथिवी पर गिर उस ने स्तुति को कि मैं पुनः स्वर्ग में क्यों कर जा सकूंगी ? उस ने कहा जब कभी एकादशी के व्रत का फल तुम्हें कोई देगा तभी तू स्वर्ग में आजायगी । वह विमानसहित किसी नगर में गिर पड़ी वहाँ के राजा ने उस से पूछा कि तू कौन है ? तब उस ने सब हस्तान्त कह सुनाया और कहा कि जो कोई मुझ को एकादशी का फल अर्पण करे तो फिर भी स्वर्ग को जा सकती हूँ । राजा ने नगर में खोज कराया, कोई भी, एकादशी का व्रत करने वाला न मिला, किन्तु एक दिन किसी शूद्र स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई थी क्रोध से स्त्री, दिन रात भूखी रही थी देवयोग से उस दिन एकादशी ही थी, उसने कहा कि मैंने एकादशी जान कर तो नहीं की अकस्मात् उस दिन भूखी रह गई थी । ऐसे राजा के भृत्यों से कहा तब तो वे उस को राजा के सामने ले आये, उस से राजा ने कहा कि तू इस विमान को छू, उस ने कुप्रा तो उसी समय विमान ऊपर को उड़ गया । यह तो बिना जाने एकादशी के व्रत का फल है, जो जान के करे तो उस के फल का क्या पारावार है !!! बाहर रे आंख के अन्धे लोगो ! जो यह बात सच्ची है तो हम एक पान की बीड़ी जो कि स्वर्ग में नहीं जाती भोजना चाहते हैं सब एकादशी वाले अपना २ फल दे दो जो एक पान का बीड़ा ऊपर को चला जायगा तो पुनः लाखों कोड़ों पान वहाँ भेजेंगे, और हम भी एकादशी किया करेंगे और जो ऐसा न होगा तो तुम लोगों को इस भूखे मरनेरूप आपत्काल से बचावेंगे । इन चौबीस एकादशियों के नाम पृथक् २ रखे हैं किसी का "वनदा" किसी का "कामदा" किसी का "पुनदा" और किसी का "निर्जला" बहुत से दरिद्र, बहुत से कामी और बहुत से निर्बन्धी लोग एकादशी करके बूढ़े हो गये और मर भी गये परन्तु धन, कामना और पुत्र प्राप्ति न हुआ और ज्येष्ठ महीने के शुक्लपक्ष में कि जिस समय

एक बड़ी भर जल न पावे तो मनुष्य व्याकुल हो जाता है व्रत करने वालों को महादुःख प्राप्त होता है विशेष कर बंगाले में सब विधवा स्त्रियों की एकादशी के दिन बड़ी दुर्दशा होती है इस निर्दयी कथाई को लिखते समय कुछ भी मन में दयान आई नहीं तो निर्जला का नाम सञ्जला और पोष महीने की शुक्लपक्ष की एकादशी का नाम निर्जला रख देता तो भी कुछ अच्छा होता परन्तु इस पोष को दया से क्या काम ? "कोई जीवा वा मरा पोष जो का पेट पूरा भरो" गर्भवती, वा सद्योविवाहिता स्त्री, लड़के वा युवा पुरुषों को तो कभी उपवास न करना चाहिये परन्तु किसीको करना भी हो तो जिस दिन अजीर्ण हो, क्षुधा न लगे, उस दिन शर्करावत् (शर्वत्) वा दूध पी कर रहना चाहिये जो भूख में नहीं खाते और बिना भूख के भोजन करते हैं वे दोनों रागसागर में गोते खा दुःख पाते हैं इन प्रमादियों के कहने लिखने का प्रमाण कोई भी न करे ॥

अब शुद्ध शिष्य मन्त्रोपदेश और मतमतान्तर के चरित्रों का वर्तमान कहते हैं मूर्त्तिपूजक संप्रदायी लोग प्रश्न करते हैं कि वेद अनन्त हैं ऋग्वेद की २१, यजुर्वेद की १०१, सामवेद की १००० और अथर्ववेद की ६ शाखा हैं, इन में से छोड़ी भी शाखा मिलती हैं शेष लोप हो गईं हैं उन्हीं में मूर्त्तिपूजा और तीर्थों का प्रमाण होगा जो न होता तो पुराणों में कहां से आता ? जब कार्य देख कर कारण का अनुमान होता है तब पुराणों को देख कर मूर्त्तिपूजा में क्या शंका है ? (उत्तर) जैसे शाखा जिस वृक्ष की होती है उस के सदृश हुआ करती है विरुद्ध नहीं, चाहे शाखा छोटी बड़ी हो परन्तु उन में विरोध नहीं हो सकता वैसे ही जितनी शाखा मिलती हैं जब इन में पाषाणादि मूर्त्ति और जल स्थल विशेष तीर्थों का प्रमाण नहीं मिलता तो उन लुप्त शाखाओं में भी नहीं था और चार वेद पूर्ण मिलते हैं उन से विरुद्ध शाखा कभी नहीं हो सकती और जो विरुद्ध हैं, उन को शाखा कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता, जब यह बात है, तो पुराण वेदों की शाखा नहीं, किन्तु संप्रदाई लोगों ने परस्पर विरुद्धरूप ग्रन्थ बना रखे हैं वेदों को तुम परमेश्वरकृत मानते हो तो "आश्वलायनादि" ऋषिसुनियों के नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थों को वेद क्यों मानते हो ? जैसे डाली और पत्तों के देखने से पीपल, बड़ और शाल आदि वृक्षों की पहिचान होती है वैसे ही ऋषिसुनियों के किये वेदांग चारों ब्राह्मण, अंग, उपांग और उपवेद आदि से वेदार्थपहिचाना जाता है इसी लिये इन ग्रन्थों को शाखा मानी है जो वेदों से विरुद्ध है उस का प्रमाण और अनुकूल का अप्रमाण नहीं हो सकता । जो लुप्त अष्ट शाखाओं में मूर्त्ति आदि के प्रमाण की कल्पना करा जे तो जब कोई ऐसा पक्ष करे गा कि लुप्त शाखाओं में वर्णाश्रम व्यवस्था उल्टी अर्थात् अत्यज और गूद्र का नाम ब्राह्मणादि और ब्राह्मणादि का नाम गूद्र अत्यजादि, अगमनीयागमन, अकर्तव्य कर्तव्य, मिथ्याभाषणादि धर्म, सत्यभाषणादि

अथर्था, आदि लिखा होगा तो तुम हम को वही उत्तर देगे जो कि हमने दिया अर्थात् वेद और प्रसिद्ध शास्त्राओं में जैसा ब्राह्मणादि का नाम ब्राह्मणादि और शूद्रादि का नाम शूद्रादि लिखा है वैसा ही अदृष्ट शास्त्राओं में भी मानना चाहिये नहीं तो वर्णानुक्रम व्यवस्था आदि सब अन्वया ही जायेंगे । भना जैमिनि, व्यास और पतञ्जलि के समय पर्यन्त तो सब शास्त्र विद्यमान थीं वा नहीं ? यदि नहीं थीं तो तुम कभी निषेध न कर सकोगे और जो कहे कि नहीं थीं तो फिर शास्त्राओं के होने का क्या प्रमाण है ? देखो जैमिनि ने मीमांसा में सब कर्मकाण्ड, पतञ्जलि मुनि ने योगशास्त्र में सब उपासनाकाण्ड और व्यासमुनि ने शारीरक-सूत्रों में सब ज्ञानकाण्ड वेदानुकूल लिखा है उन में पापाणादि सूर्तिपूजा वा प्रयागादि तीर्थों का नाम तक भी नहीं लिखा । लिखें कहां से ? जो कहीं वेदों में होता तो लिखे बिना कभी न छोड़ते इस लिये तुम शास्त्राओं में भी इस सूर्तिपूजादि का प्रमाण नहीं था । ये सब शास्त्रा वेद नहीं हैं क्योंकि इन में ईश्वरकृत वेदों की प्रतीक धर के व्याख्या और संसारी जनों के इतिहासादि लिखे हैं इस लिये वेद में कभी नहीं हो सकते वेदों में तो केवल मनुष्यों को विद्या का उपदेश किया है किसी मनुष्य का नाममात्र भी नहीं इस लिये सूर्तिपूजा का सर्वथा खंडन है । देखो ! सूर्तिपूजा से श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण, नारायण और शिवादि की बड़ी निन्दा और उपहास होता है, सब कोई जानते हैं कि वे बड़े महाराजाधिराज और उन की स्त्री सीता तथा रुक्मिणी, लक्ष्मी और पार्वती आदि महाराणियां थीं, परन्तु जब उन की सूर्तियां मन्दिर आदि में रख के पुजारी लोग उन के नाम से भीख मांगते हैं अर्थात् उन को भिखारी बगते हैं कि आओ महाराज महाराजा जी सेठ साहूकार ! दर्शन कीलिये, बैठिये, चरणानुत् लीजिये, कुक्ष भेंट चढ़ाइये महाराज; सीताराम; कृष्ण रुक्मिणी, वा राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण और महादेव पार्वती जी को तीन दिन से बालभाग वा राजभाग अर्थात् जल पान वा खान पान भी नहीं मिला है आज इन के पास कुछ भी नहीं है सीता आदि को नथुनी आदि राणी जी वा सेठानी जी बनवा दीलिये, अन्न आदि भोज तो राम कृष्णादि को भोग लगावें, वस्त्र सब फट गये हैं, मन्दिर के कोने सब गिर पड़े हैं, जपर से झूता है और दुष्ट चोर जो कुछ था उसे चटा ले गये कुछ जंदरों (सूतों) ने काट कूट डाले देखिये ! एक दिन जंदरों ने ऐसा अनर्थ किया कि इन की आंख भी निकाल के भाग गये । अब हम चांदी की आंख न बना सके इस लिये कौड़ी की लगा दी है । रामकोत्ता और रामगण्डल भी करवाते हैं, सीताराम, राधाकृष्ण नाच रहे हैं राजा और महन्त आदि उन के सेवक प्रागन्त में बैठे हैं मन्दिर में सीता रामादि खड़े और पूजारी वा महन्त भी आसन धरणा गद्दी पर तकिया लगाये बैठे हैं, उषण काल में भी ताला लगा भीतर बंद कर

देते हैं और आप सुन्दर वायु में पलंग बिछा कर सेते हैं बहुत से पूजारी अपने नारायण को लज्जी में बंध कर ऊपर से कपड़े आदि बांध गले में लटका लेते हैं। जैसे कि वानरी अपने बच्चे को गले में लटका लेती है वैसे पूजारियों के गले में भी लटकते हैं जब कोई मूर्ति को तोड़ता है तब हाय २ ! कर छाती पीट बकते हैं कि सीताराम जी राधा कृष्ण जी और शिव पार्वती जी को दुष्टों ने तोड़ डाला! अब दूसरी मूर्ति मंगवा कर जो कि अच्छे शिल्पी ने संगमरमर की बनाई हो स्थापन कर पूजना चाहिये नारायण को घी के बिना भोग नहीं लगता बहुत नहीं तो थोड़ा सा अवश्य भोग देना इत्यादि बातें इन पर ठहराते हैं। और रास-मण्डल वा रामलीला के अन्त में सीता राम वा राधा कृष्ण से भीख मंगवाते हैं, जहां मेला ठेका होता है वहां छोकरे पर सुकुट धर कन्हैया बना मार्ग में बैठा कर भीख मंगवाते हैं इत्यादि बातों को आप लोग विचार लीजिये कि कितने बड़े शोक की बात है भला कही तो सीता रामादि ऐसे दरिद्र और भिक्षुक थे? यह उन का उपहास और निन्दा नहीं तो क्या है? इस से बड़ी अपने माननीय पुरुषों की निन्दा होती है भला जिस समय ये विद्यमान थे उस समय सीता, रुक्मिणी, लक्ष्मी और पार्वती को सड़क पर वा किसी मकान में खड़ी कर पूजारी कहते कि आओ इनका दर्शन करो और कुछ भेंट पूजा धरो तो सीतारामादि इन मूर्तियों के कहने से ऐसा काम कभी न करते और न करने देते जो कोई ऐसा उपहास उन का करता उस को बिना दण्ड दिये कभी छोड़ते? हां, जब उन्हें से दंड न पाया तो इन के कर्मों ने पूजारियों को बहुतसी मूर्ति विरोधियों से प्रसादी दिला दी और अब भी मिलती है और जब तक इस कुकर्म को न छोड़ेंगे तब तक मिलेगी इस में क्या संदेह है कि जो आर्यावर्त की प्रतिदिन महाहानि पापाणादि मूर्तिपूजकों का पराजय इन्हीं कर्मों से होता है क्योंकि पाप का फल दुःख है इन्हीं पापाणादि मूर्तियों के विश्वास से बहुतसी हानि हो गई जो न छोड़ेंगे तो प्रतिदिन अधिक २ होती जायगी इन में से वाममार्गी बड़े भारी अपराधी हैं जब वे चेजा करते हैं तब साधारण को:-

दं दुर्गायै नमः । भं भैरवाय नमः । ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ।

इत्यादि मन्त्रों का उपदेश कर देते हैं और वंगाल में विगेष करके एकाक्षरी मन्त्रोपदेश करते हैं जैसा:-

ह्रीं श्रीं क्लीं ॥ शावरतं० वं० प्रकी० प्र० ११ ॥

इत्यादि और धनाव्यों का पूर्णाभिषेक करते हैं ऐसे ही दृग महाविद्यापी के मन्त्र:-

हां ह्रीं ह्रूं वगलामुख्यै फट् स्वाहा ॥ शा० प्रकी० प्र० ४१ ॥
कहीं २

ह्रूं फट् स्वाहा ॥ कामरत्न तंत्र बीज मंत्र ४ ॥

श्रीर मारण, मोहन, उच्चाटन, विहेपण, वशीकरण आदि प्रयोग करते हैं सो मन्त्र से तो कुछ भी नहीं होता किन्तु क्रिया से सब कुछ करते हैं जब किसी को मारने का प्रयोग करते हैं तब इधर कराने वाले से धन ले के घाटे वा मिट्टी का पूतला जिस को मारना चाहते हैं उस का बना लेते हैं उस की छाती, नाभि, कण्ठ में छुरे प्रवेश कर देते हैं आंख, हाथ, पग में कीलें ठोकते हैं उस के ऊपर भैरव वा दुर्गा की मूर्ति बना हाथ में त्रिशूल दे उस के हृदय पर लगाते हैं एक वेदी बना कर मांस आदि का-होम करने लगते हैं और उधर दूत आदि भेज के उस को विष आदि से मारने का उपाय करते हैं जो अपने पुरस्करण के वीज में उस को मार डाला तो अपने को भैरव देवी का सिद्ध बतलाते हैं "भैरवो भूतनाथश्च" इत्यादि का पाठ करते हैं ॥

मारय २, उच्चाटय २, विहेपय २, छिन्धि २, भिन्धि २, वशी
कुरु २, खादय २, भक्षय २, त्रोटय २, नाशय २, भम शत्रून् वशी
कुरु २, ह्रूं फट् स्वाहा ॥ कामरत्न तन्त्र उच्चाटन प्रकरण मं० ५-७ ॥

इत्यादि मन्त्र जपते, मद्यमांसादि यद्येष्ट खाते, पीते, भृकुटी के बीच में सिन्दूर रेखा देते, कभी २ काली आदि के लिये किसी आदमी को पकड़ मार होम कर कुछ २ उस का मांस खाते भी हैं । जो कोई भैरवीचक्र में जावे, मद्य मांस न पीवे न खावे तो उस को मार होम कर देते हैं उन में से जो अघोरी होता है वह सृत मनुष्य का भी मांस खाता है अजरी वजरी करने वाले विष्ठा सूत्र भी खाते पीते हैं ॥

एक चोलीमार्गी और दूसरे बीजमार्गी भी होते हैं चोलीमार्ग वाले एक गुप्त स्थान वा भूमि में एकस्थान बनाते हैं वहां सब की स्त्रियां, पुरुष, लड़का, लड़की, वहिन, माता, पुत्रवधू आदि सब इकट्ठे ही सब लोग मिल मिल कर मांस खाते, मद्य पीते, एक स्त्री को नंगी कर उस के गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब पुरुष करते हैं और उस का नाम दुर्गा देवी धरते हैं । एक पुरुष को नंगा कर उस के गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब स्त्रियां करती हैं जब मद्य पीपी के उन्मत्त हो जाते हैं तब सब स्त्रियों के छाती के वस्त्र जिस को चोली कहते हैं एक वही मट्टी की गांठ में सब वस्त्र मिला कर रख के एक २ पुरुष उस में हाथ डाल के जिस के हाथ में जिस का वस्त्र जावे वह माता, वहिन, कन्या और पुत्रवधू की न हो उस समय

के लिये वह उस की स्त्री हो जाती है ! आपस में कुकर्म करने और बहुत नगा चढ़ने से जूते आदि से लड़ते भिड़ते हैं जब प्रातःकाल कुछ अंधेरे अपने २ घर को चले जाते हैं तब माता २, कन्या २, वहिन २ और पुत्रवधू २ हो जाती हैं । और बीज-मार्गी स्त्री पुरुष के समागम कर जल में वीर्य डाल मिला कर पीते हैं ये पामर ऐसे कर्मों को सुक्ति के साधन मानते हैं विद्याविचार सज्जनतादि रहित होते हैं ।

(प्रश्न) शैव मत वाले तो अच्छे होते हैं ? (उत्तर) अच्छे कहां से होते हैं ! “जैसा प्रेतनाथ वैसा भूतनाथ” जैसे वाममार्गी मन्त्रोपदेशादि से उन का धन हरते हैं वैसे शैव भी “ओं नमः शिवाय” इत्यादि पञ्चाक्षरादि मंत्रों का उपदेश करते, रुद्राक्ष भस्म धारण करते, मट्टी के और पाषाणादि के लिंग बना कर पूजते हैं और हर २ बं बं और बकरे के शब्द के समान बड़ बड़ बड़ सुन्न से शब्द करते हैं उस का कारण यह कहते हैं कि तानी बजाने और बं बं शब्द बोलने से पार्वती प्रसन्न और महादेव अप्रसन्न होता है, क्योंकि जब भस्मासुर के आगे से महादेव भागे थे तब बं बं और ठट्ठे की तालियां बजी थीं और गाल बजाने से पार्वती अप्रसन्न और महादेव प्रसन्न होते हैं क्योंकि पार्वती के पिता दक्षप्रजापति का गिर काट आगी में डाल उस के धड़ पर बकरे का गिर लगा दिया था उसी अनु-कारण को बकरे के शब्द के तुल्य गाल बजाना मानते हैं शिवरात्री प्रदोष का व्रत करते हैं इत्यादि से सुक्ति मानते हैं इस लिये जैसे वाममार्गी भ्रान्त हैं वैसे शैव भी इन में विशेष कर कनफटे नाथ, गिरी, पुरी, वन, आरण्य, पर्वत और सागर तथा गृहस्थ भी शैव होते हैं कोई २ “दानों घाड़ों पर चढ़ते हैं” अर्थात् वाम और शैव दानों मंत्रों को मानते हैं और कितने ही वैष्णव भी रहते हैं उन का :-

अन्तःशाक्ता वहिर्शैवा सभामध्ये च वैष्णवाः ।

नानारूपधराः कौला विचरन्ति महीतले ॥

यह तन्त्र का श्लोक है । भीतर शाक्त अर्थात् वाममार्गी, बाहर शैव अर्थात् रुद्राक्ष भस्म धारण करते हैं और सभा में वैष्णव कहते हैं कि हम विष्णु के उपासक हैं ऐसे नाना प्रकार के रूप धारण करके वाममार्गी लोग पृथिवी में विचरते हैं (प्रश्न) वैष्णव तो अच्छे हैं ? (उत्तर) क्या ? धूँड़ अच्छे हैं ? जैसे वे वैसे वे हैं देख लो वैष्णवों की लीला अपने को विष्णु का दास मानते हैं उन में से श्रीवैष्णव जो कि चक्राङ्कित होते हैं वे अपने को सर्वोपरि मानते हैं सो कुछ भी नहीं हैं ! (प्र०) क्यों ! सब कुछ नहीं ? सब कुछ हैं देखा ! जलाट में नारायण के चरणारविन्द के सदृश तिलक और बीच में पीसी रेखा श्री होती है इस लिये हम श्रीवैष्णव कहते हैं एक नारायण को छोड़ दूसरे किसी को नहीं मानते

महादेव के लिंग का दर्शन भी नहीं करते क्योंकि हमारे ललाट में श्री विराण-
मान है वह लज्जित होती है आल संधारादि स्त्रोत्रों के पाठ करते हैं नारायण
की मन्त्रपूर्वक पूजा करते हैं मांस नहीं खाते न मद्य पीते हैं फिर अच्छे क्यों नहीं ?
(उत्तर) इस तुम्हारे तिलक को हरिपदाकृति इस पीली रेखा को श्री मानना
व्यर्थ है क्योंकि यह तो हाथ की कारीगरी और ललाट का चित्र है जैसा हाथी
का ललाट चित्र विचित्र करते हैं तुम्हारे ललाट में विष्णु के पद का चिन्ह कहाँ
से आया ? क्या कोई वैकुण्ठ में जा कर विष्णु के पग का चिन्ह ललाट में करा
आया है ? (विवेकी) और श्रीजड़ है वा चेतन ? (वैष्णव) चेतन है । (विवेकी)
तो यह रेखा जड़ होने से श्री नहीं है । हम पूछते हैं कि श्री बनाई हुई है वा
विना बनाई ? जो विना बनाई है तो यह श्री नहीं क्योंकि इस को तो तुम
नित्य अपने हाथ से बनाते हो फिर श्री नहीं हो सकती जो तुम्हारे ललाट में
श्री होता कितने ही वैष्णवों का वुरा सुख अर्थात् शोभा रचित क्यों दीखता है ?
ललाट में श्री और धर २ भीख मांगते और सदावर्ष ले कर पेट भरते क्यों
फिरते हो ? यह बात स्त्रीही और निर्लज्जों की है कि कपाल में श्री और महा-
दरिद्रों के काम ही ॥

इन में एक "परिकाल" नामक वैष्णव भक्त था वह चोरी डाका मार, छल,
कपट कर, पराया धन हर वैष्णवों के पास धर प्रसन्न होता था एक समय उस
को चोरी में पदार्थ कोई नहीं मिला कि जिस को लूटे व्याकुल हो कर फिरता
रायण ने समझा कि हमारा भक्त दुःख पाता है सेठ जी का स्वरूप धर
आदि आभूषण पहिन रथ में बैठ के सामने आये तब तो परिकाल रथ
त गया सेठ से कहा सब वस्तु शीघ्र उतार दो नहीं तो मार डालूंगा ।
ते २ अंगूठी उतारने में देर लगी परिकाल ने नारायण की अंगुली काट
। ले ली नारायण बड़े प्रमन्न हो चतुर्भुज शरीर बना दर्शन दिया कहा कि
। बड़ा प्रिय भक्त है क्योंकि सब धन मार लूट चोरी कर वैष्णवों की सेवा
। है इस लिये तू धन्य है फिर उस ने जा कर वैष्णवों के पास सब गहने धर
। एक समय परिकाल को कोई साहूकार नोकर कर जहाज में बिठा के
न्तर में ले गया वहाँ से जहाज में सुपारी भरी परिकाल ने एक सुपारी तोड़
। टुकड़ा कर बनिये से कहा यह मेरी पाधी सुपारी जहाज में धर दो और
। दो कि जहाज में आधी सुपारी परिकाल की है बनिये ने कहा कि चाहे
तुम हजार सुपारी ले लेना परिकाल ने कहा नहीं हम अधर्मों नहीं हैं जो हम
भूँठ मूठ ले हम को तो पाधी चाहिये बनिया विचारा भोला भाला था उस ने
नित्य दिया जब अपने देश में बन्दर पर जहाज आया और सुपारी उतारने की
तैयारी हुई तब परिकाल ने कहा हमारी आधी सुपारी दे दो बनिया वही आधी

सुपारी देने लगा तब परिकाल भगड़ने लगा मेरी तो जहाज में आधी सुपारी है आधा बांट लूंगा राजपुरुषों तक भगड़ा गया परिकाल ने बनिये का लेख दिखलाया कि इस ने आधी सुपारी देनी लिखी है बनिया बहुतसा कहता रहा परन्तु उसने न माना आधी सुपारी ले कर वैष्णवां को अर्पण कर दी तब तो वैष्णव बड़े प्रसन्न हुए अब तक उस डाकू चोर परिकाल की मूर्ति मन्दिरों में रखते हैं यह कथा भक्तमाल में लिखी है बुद्धिमान् देख लें कि वैष्णव, उन के सेवक श्रीर नारायण तीनों चोर मण्डली हैं वा नहीं यद्यपि मतमतान्तरों में कोई थोड़ा अच्छा भी होता है तथापि उस मत में रह कर सर्वथा अच्छा नहीं हो सकता। अब देखा वैष्णवां में फूट टूट भिन्न २ तिलक कण्ठी धारण करते हैं, रामानन्दी बगल में गोपीचन्दन बीच में लाल नीमाधत दोनों पतली रेखा बीच में काला विन्दु, माधव काली रेखा और गौड़ बंगाली कटारी के तुल्य और रामासाद वाले दोनों चांदला रेखा के बीच में एक सफेद गोल टीका इत्यादि इन का कथन विलक्षण २ है रामानन्दी नारायण के हृदय में लाल रेखा को लक्ष्मी का चिह्न और गोसाईं श्रीकृष्णचन्द्र जी के हृदय में राधा विराजमान है इत्यादि कथन करते हैं ॥

एक कथा भक्तमाल में लिखी है कोई एक मनुष्य वृक्ष के नीचे सोता था सोतार ही मर गया ऊपर से काक ने बिठा कर दी वह ललाट पर तिलकाकार हो गई थी वहां यम के दूत उस को लेने आये इतने में विष्णु के दूत भी पहुंच गये दोनों विवाद करते थे कि यह हमारे स्वामी की आज्ञा है हम यमलोक में ले जाय गे विष्णु के दूतों ने कहा कि हमारे स्वामी की आज्ञा है वैकुण्ठ में ले जाने को देखो इस के ललाट में वैष्णवी तिलक है तुम कैसे ले जाओ गे ? तब तो यम के दूत चुप हो कर चले गये विष्णु के दूत सुख से उस को वैकुण्ठ में ले गये नारायण ने उस को वैकुण्ठ में रक्खा देखो जब अकस्मात् तिलक वन जाने का ऐसा माहात्म्य है तो जो अपनी प्रीति और हाथ से तिलक करते हैं वे नरक से छूट वैकुण्ठ में जावें तो इस में क्या आश्चर्य है ! ! हम पूछते हैं कि जब छोटे से तिलक के करने से वैकुण्ठ में जावें तो सब सुख के ऊपर लेपन करने या कालामुख करने वा शरीर पर लेपन करने से वैकुण्ठ से भी आगे सिधार जाते हैं वा नहीं ? इस से ये बातें सब व्यर्थ हैं अब इन में बहुत से खाखी लंगोटी लगा लकड़े की धूनी तापते, लटा बढ़ाते सिद्ध का वेप कर लेते हैं बगुले के समान ध्यानावस्थित होते हैं गांजा, भांग, चर्म के दम लगाते लाल नेत्र कर रखते सब से चुकटी २ अन्न, पिसान, कौड़ी, पैसे, मांगते गृहस्थों के लड़कों को बहका कर चले बना लेते हैं बहुत करके मजूर लोग उन में होते हैं कोई बिया को पढ़ता हो तो उस को पढ़ने नहीं देते किन्तु कहते हैं

पठितव्यं तदपि भर्तव्यं दन्तकटाकटेति किं कर्तव्यम् ॥

सन्तीं को विद्या पढ़ने से क्या काम क्योंकि विद्या पढ़ने वाले भी मर जाते हैं फिर दन्त कटाकट क्यों करना ? साधुओं को चार घाम फिर आना, सन्तीं की सेवा करनी, राम जी का भजन करना ॥

ओ किसी ने सूखे अविद्या की सूक्ति न देखी हों तो खाखी जी का दर्शन कर आवे उन के पास जो कोई जाता है उन को बच्चा, बच्ची कहते हैं चाहें वे खाखी जी के बाप मा के समान क्यों न हों जैसे खाखी जी हैं वैसे ही खूँखड़, खूँखड़, गोदड़िये और जमात वाले सुतरसाई और अकाली, कानफटे, जोगी, श्रीषड़ आदि सब एक से हैं एक खाखी का चेला "श्रीगणेशाय नमः" घोखता २ कुवे पर जल भरने की गया बर्हा पंडित बैठा था वह उस को "श्रीगणेशाय नमः" घोखते देख कर बोला अरे साधू ! अशुद्ध घोखता है "श्रीगणेशाय नमः" ऐसा घोख उसने झट लोटा भर गुरु जी के पास जा कहा कि ये वस्त्रन मेरे घोखने को अशुद्ध कहता है ऐसा सुन कर झट खाखी जी उठा कूप पर गया और पंडित से कहा तू मेरे चेले को बहकाता है ? तू गुरु की लंडी क्या पढ़ा है ? देख तू एक प्रकार का पाठ जानता है हम तीन प्रकार का जानते हैं "श्रीगणेशाय नमः" "श्रीगणेशाय नमः" "श्रीगणेशाय नमः" । (पंडित) सुनो साधू जी ! विद्या की बात बहुत कठिन है, बिना पढ़े नहीं आती। (खाखी) चलो, सब विद्वान् को हमने रगड़ मारे जो भांग में घोट एक दम सब उड़ा दिये "सन्तीं का घर बड़ा है" तू वाबूड़ा क्या जाने। (पंडित) देखो जो तुम ने विद्या पढ़ी होती तो ऐसे अणुव्यव क्यों बोलते ? सब प्रकार का तुम को ज्ञान होता। (खाखी) अब तू हमारा गुरु बनता है ? तेरा उपदेश हम नहीं सुनते। (पंडित) सुनो कहाँ से बुद्धि ही नहीं है, उपदेश सुनने समझने के लिये विद्या चाहिये। (खाखी) जो सब वेद शास्त्र पढ़े सन्तीं को न माने तो जानों कि वह कुछ भी नहीं पढ़ा। (पंडित) हाँ हम सन्तीं की सेवा करते हैं परन्तु तुम्हारे से दुर्दृष्टि को नहीं करते क्योंकि सन्त, सज्जन, विद्वान्, धार्मिक, परोपकारी, पुण्यों को कहते हैं। (खाखी) देख हम रात दिन बंगे रहते, धनी तापते, गांजा चरस के सैकड़ों दम लगाते, तीन २ लोटा भांग पीने, गांजी भांग धतूरा की पत्ती की भाजी (शाक) बना खाते, शंखिया और अफीम भी चट निगल जाते, नशा में गर्क रात दिन बेगम रहते, दुनियाँ को कुछ नहीं समझते, भीतर मांग कर टिक्कड़ बना खाते, रात भर ऐसी खांसी उठती जो पास में सोवे उन को भी नींद कभी न आवे श्ल्यादि सिद्धियाँ और साधूपन हम में हैं फिरतु हमारी निन्दा क्यों करता है ? खै बानूड़े जो हम को दिक करे गा हम तुम को भन्म कर डालेंगे। (पण्डित) ये सब लक्षण असाधु सूखे और नवर्गगुहों के हैं साधुओं के नहीं सुनो "साधोति पराणि धर्मकार्याणि स साधुः" जो धर्मयुक्त उत्तम काम करे, सदा

परोपकार में प्रवृत्त हो, कोई दुर्गुण जिस में न हो, विद्वान्, सत्योपदेश से सब का उपकार करे उस को साध कहते हैं। (खाखी) चल वे तू साधू के कर्म क्या जाने "सन्तों का घर बड़ा है" किसी सन्त से अटकना नहीं, नहीं तो देख एक चीमटा उठा कर मारे गा, कपाल फुड़वा लेगा। (पण्डित) अच्छा खाखी जाओ अपने आसन पर हम से बहुत गुरसे मत हो जानते हो राज्य कैसा है किसी को मारो गे तो पकड़े जाओ गे कारावास भोगो गे दैत खाओ गे वा कोई तुम को भी मार बैठे गा फिर क्या करो गे यह साधू का लक्षण नहीं। (खाखी) चल वे चले किस राक्षस का सुख दिखलाया। (पंडित) तुमने कभी किसी महात्मा का संग नहीं किया है नहीं तो ऐसे जड़ सूखे न रहते। (खाखी) हम आप ही महात्मा हैं हम को किसी दूसरे की गर्ज नहीं। (पंडित) जिन के भाग्य नष्ट होते हैं उन को तुम्हारी सी बुद्धि और अभिमान होता है। खाखी चला गया आसन पर और पंडित घर की गये जब संध्या आतीं हो गईं तब उस खाखी को बुद्धा समझ बहुत से खाखी "डण्डोत्तर" कहते साष्टांग करके बैठे उस खाखी ने पूछा अवे रामदासिया! तू क्या पढ़ा है? (रामदास) महाराज मैं ने "वेसुसहसर नाम" पढ़ा हैं। अवे गोविन्दासिये! तू क्या पढ़ा है? (गोविन्दास) मैं रामसतवराज पढ़ा हूं असुका खाखी जी के पास से, तब रामदास बोला कि महाराज आप क्या पढ़े है। (खाखी जी) हम गीता पढ़े हैं। (रामदास) किस के पास? (खाखी जी) चल्के छोकरे हम किसी को गुरु नहीं करते देख हम "परागराज" में रहते थे हम को अक्खर नहीं आता था जब किसी लम्बी धोती वाले पंडित की देखता था तब गीता के गोटके में पूछता था कि इस कलंगी वाले अक्खर का का नाम है? ऐसे पूछता २ अठारा अध्याय गीता रगड़ मारी गुरु एक भी नहीं किया। भला ऐसे विद्या के गुरुओं को अविद्या घर वारके ठहरे नहीं तो कहाँ जाय? ॥

ये लोग विना नगा, प्रमाद, लड़ना, खाना, सोना, भांभ पीटना, घंटा घड़ियाना शंख बजाना, धूनी चिता रखनी, नहाना, धोना, सब दिशावी में व्यर्थ घूमते फिरने के अन्य कुछ भी अच्छा काम नहीं करते चाहें कोई पत्थर को भी पिघला लेवे परन्तु इन खाखियों के आत्माओं को बोध कराना कठिन है क्योंकि बहुधा वे शूद्रवर्ण, मजूर, किसान, कहार आदि अपनी मजूरी छोड़ केवल खाखरमा के बैरागी खाखी आदि हो जाते हैं उन को विद्या वा सत्संग आदि का माहात्म्य नहीं जान पड़ सकता। इन में से नाशों का मन्त्र "नमः शिवाय"। खाखियों का "नृसिंहाय नमः"। रामावतारों का "श्रीरामचन्द्राय नमः" अथवा "सीतारामाभ्यां नमः"। कृष्णोपासकों का "श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः" "नमो भगवते वासुदेवाय" और बंगालियों का "गोविन्दाय नमः"। इन मंत्रों को जान में पढ़ने मात्र से शिष्य कर लेते हैं और ऐसी २ गिना करते हैं कि वच्चे तूँके का मंत्र पढ़ ले ॥

जल पवित्र लथल पवित्र और पवित्र कुआ ।

शिव कहे सुन पार्वती तूया पवित्र हुआ ॥

भला ऐसे की योग्यता साधू वा विद्वान् होने अथवा जगत् के उपकार करने की कभी हो सकती है ? खासही रात दिन लकड़, छाने (जंगली कांड़े) जलाया करते हैं एक महीने में कई रुपये की लकड़ी फूंक देते हैं जो एक महीने की लकड़ी के मूल्य से कखलादि वस्तु ले लें तो शतांश धनसे आनन्द में रहें उन को इतनी बुद्धि कहां से आवे ? और अपना नाम उसी धनी में तपने ही से तपस्वी धर रक्खा है जो इस प्रकार तपस्वी हो सकें तो जंगली मनुष्य इन से भी अधिक तपस्वी हो जावें जो जटा बढ़ाने, राख लगाने वा तिलक करने से तपस्वी हो जाय तो सब कोई कर सके ये ऊपर के त्यागरूप और भीतर के महासंयमी होते हैं ॥

(प्रश्न) कबीरपंथी तो अच्छे हैं ? (उत्तर) नहीं । (प्रश्न) क्यों अच्छे नहीं ? पापाणादि मूर्तिपूजा का खंडन करते हैं, कबीर साहब पूरों से उत्पन्न हुए और अन्त में भी पूल हो गये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, का जन्म जब नहीं था तब भी कबीर साहब थे बड़े सिद्ध ऐसे कि जिस बात को वेद पुराण भी नहीं जान सकता उस को कबीर जानते हैं सच्चा रस्ता है सो कबीर ही ने दिख लाया है इन का मन्त्र "सत्यनाम कबीर" आदि है । (उत्तर) पापाणादि को छोड़ पलंग, गद्दी, तकिये, खड़ाजं, ज्योति अर्थात् दीप आदि का पूजना पापाणमूर्ति से न्यून नहीं, क्या कबीर साहब मुनुगा था वा कलियां या जो फूलों से उत्पन्न हुआ ? और अन्त में फूल हो गया ? यहां जो यह बात सुनी जाती है वही सच्ची होगी कि कोई जुलाहा काशी में रहता था उस के लड़के बालक नहीं थे एक समय घोड़ी सी रात्री थी एक गली में चला जाता था तो देखा सड़क के किनारे में एक टोकनी में फूलों के बीच में उसी रात का जन्मा बालक था वह उस को उठा ले गया अपनी स्त्री को दिया उस ने पालन किया जब वह बड़ा हुआ तब जुलाहे का काम करता था किसी पंडित के पास संस्कृत पढ़ने के लिये गया उस ने उस का अपमान किया, कहा कि हम जुलाहे को नहीं पढ़ाते, इसी प्रकार कई पंडितों के पास फिरा परन्तु किसी ने न पढ़ाया, तब ऊट पटांग भाषा बना कर जुलाहे आदि नीच लोगों को समझाने लगा तंदूर ले कर गाता था भजन बनाता था विशेष पंडित, शास्त्र, वेदों की निन्दा किया करता था कुछ सूखे लोग उस के जाल में फस गये जब मर गया तब लोगों ने उस को सिद्ध बना लिया जो २ उस ने जीते जो बनाया था उस को उस के चले पढ़ते रहे कान को मूँद के जो शब्द सुना जाता है उस को अनहत शब्द सिद्धान्त ठहराया मन की वृत्ति को "सुरति" कहते हैं उस को उस शब्द सुनने में लगाना उसी को सन्त और परमेश्वर का ध्यान बतलाते हैं

वहां काल नहीं पहुँचता वहाँ के समान निराल और चन्दनादि लकड़े की कण्ठी बांधते हैं भला विचार के देखो कि इस में आत्मा की उन्नति और ज्ञान क्या बढ़ सकता है ? यह केवल लड़कों के खेल के समान लीला है । (प्रश्न) पंजाब देश में नानक जी ने एक मार्ग चलाया है क्योंकि वे भी मूर्ति का खंडन करते थे सुसलमान होने से बचाये वे साधु भी नहीं हुए किंतु गृहस्थ बने रहे देखो वहाँ ने यह मंत्र उपदेश किया है इसी से विदित होता है कि उन का आशय अच्छा था:-

ओं सत्यनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्धैर अकालमूर्त
अजोनि सहभंगुरु प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भो
सच नालक होसी भी सच ॥ जपजी पौड़ी १ ।

(श्रीः) जिस का सत्य नाम है वह कर्ता पुरुष भय और वैररहित अकाल-मूर्ति जो काल में और जोनि में नहीं आता प्रकाशमान है उसी का जप गुण की कृपा से कर वह परमात्मा आदि में सच था जुगों की आदि में सच वर्तमान में सच और होगा भी सच ? (उत्तर) नानक जी का आशय तो अच्छा था परविद्या कुछ भी नहीं थी, हाँ भाषा उस देश की जो कि ग्रामी की है उसे जानते थे वेदादि शास्त्र और संस्कृत कुछ भी नहीं जानते थे जो जानते होते तो "निर्भय" शब्द को "निर्भो" क्यों लिखते ? और इस का दृष्टान्त उन का बनाया संस्कृती स्तोत्र है चाहते थे कि मैं संस्कृत में भी "पग अड़ाज" परन्तु बिना पढ़े संस्कृत कैसे आ सकता है ? हाँ उन ग्रामीणों के सामने कि जिन्होंने संस्कृत कभी सुना भी नहीं था संस्कृती बना कर संस्कृत के भी पण्डित बन गये होंगे यह बात अपने मान प्रतिष्ठा और अपनी प्रख्याति की इच्छा के बिना कभी न करते उन को अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा अवश्य थी नहीं तो जैसी भाषा जानते थे कहते रहते और यह भी कह देते कि मैं संस्कृत नहीं पढ़ा जब कुछ अभिमान था तो मानप्रतिष्ठा के लिये कुछ दंभ भी किया होगा इसी लिये उन के ग्रन्थ में जहाँ तहाँ वेदों की निन्दा और गुति भी है क्योंकि जो ऐसा न करते तो उन से भी कोई वेद का अर्थ पूंक्तता अब न आता तब प्रतिष्ठा नष्ट होती इस लिये पहिले ही अपने शिष्यों के सामने कहीं २ वेदों के विरुद्ध बोलते थे और कहीं २ वेद के लिये अच्छा भी कहा है क्योंकि जो कहीं अच्छा न कहते तो लोग उन को नास्तिक बनाते जैसे :-

वेद पढ़त ब्रह्मा मरे चारों वेद कहानि ।

साथ कि सहिमा वेद न जाने ॥ सुख मनी पौड़ी ७। चो० ८॥

नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ॥ सु० पौ० ८। चो० ६॥

क्या वेद पढ़ने वाले मर गये और नानक जी आदि जपने को जमर समझते थे ? क्या वे नहीं मर गये ? वेद तो सब विद्यार्थी का भंडार है परन्तु जो चारों वेदों को कहानी कहे उस को सब बातें कहानी हैं जो सूखी का नाम सन्त होता है वे विचार वेदों की महिमा कभी नहीं जान सकते, जो नानक जी वेदों ही का मान करते तो उन का संप्रदाय न चलता न वे गुरु बन सकते थे क्योंकि संस्कृत विद्या तो पढ़े ही नहीं थे तो दूसरे को पढ़ा कर गिष्य कैसे बना सकते थे ? यह सच है कि जिस समय नानक जी पंजाब में हुए थे उस समय पंजाब संस्कृत विद्या से सर्वशरहित मुसलमानों से पीड़ित था उस समय उन्होंने कुछ लोगों को बचाया नानक जी के सामने कुछ उन का संप्रदाय वा बहुत से गिष्य नहीं हुए थे क्योंकि अविद्वानों में यह चाल है कि मरे पीछे उनको सिद्ध बना लेते हैं पश्चात् बहुतसा माहात्म्य करके ईश्वर के समान मान लेते हैं हां ! नानक जी बड़े धनाढ्य और रईस भी नहीं थे परन्तु उन के चेलों ने "नानकचन्द्रोदय" और "जन्मशाखी" आदि में बड़े सिद्ध और बड़े ऐश्वर्य वाले थे लिखा है नानक जी ब्रह्मा आदि से मिले, बड़ी बात चीत की; सब ने इन का मान्य किया, नानक जी के विवाह में बहुत से घोड़े, रथ, हाथी, सोने, चांदी, मोती, पद्मा, आदि रत्नों से जड़े हुए और असूख्य रत्नों का पारावार न था लिखा है भला ये गपोड़े नहीं तो क्या हैं? इसमें इन के चेलों का दोष है नानक जी का नहीं दूसरा जो उन के पीछे उन के लड़के से उदासी चले और रामदास आदि से निर्मले कितने ही गद्दी वालों ने भाषा बना कर ग्रंथ में रक्खी है अर्थात् इन का गुरु गोविन्द सिंह जी दशमा हुआ उन के पीछे उस ग्रंथ में किसी को भाषा नहीं मिलाई गई किन्तु वहां तक के कितने छोटे २ पुस्तक थे उन सब को इकट्ठे करके जिल्द बंधवा दी इन लोगों ने भी नानक जी के पीछे बहुत सी भाषा बनाई कितने ही ने नाना प्रकार की पुराणों की मिथ्या कथा के तुल्य बना दिये परन्तु ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर बन के उस पर कर्म उपासना छोड़ कर इन के गिष्य शुकते आये इस ने बहुत विगाड़ कर दिया नहीं जो नानक जी ने कुछ विशेष भक्ति ईश्वर को लिखी थी उसे करते आते तो अच्छा था अब उदासी कहते हैं हम बड़े निर्मले कहते हैं हम बड़े अकालीत थे सूतरहसाई कहते हैं कि सर्वोपरि हम हैं इन में गोविन्द सिंह जी गुरवीर हुए जो मुसलमानों ने उन के पुरुषार्थों को बहुतसा दुःख दिया था उन से बैर लेना चाहते थे परन्तु इन के पास कुछ सामग्री न थी और उधर मुसलमानों की वादशाही प्रवृत्तित ही रही थी इन्होंने एक पुरस्करण कर वाया प्रसिद्धि की कि मुझ को देखी ने वर और खड़ दिया है कि तुम मुसलमानों से लड़ी तुम्हारा विजय होगा बहुत से लोग उन के साथी हो गये और उन्होंने जैसे वाममार्गियों ने "पंच मकार" चक्रांकितों ने "पंच संस्कार" चलाये थे वैसे "पंच ककार" अर्थात्

इन के पंच ककार युद्ध के उपयोगी थे एक "केश" अर्थात् जिस के रखने से लड़ाई में लकड़ी और तलवार से कुछ बचावट हो ! दूसरा "कंगण" जो गिर के ऊपर पगड़ी में अकाली लोग रखते हैं और हाथ में "कड़ा" जिस से हाथ और गिर बच सके । तीसरा "काळ" अर्थात् जानू के ऊपर एक जांचिया कि जो दीड़ने और कूदने में अच्छा होता है बहुत करके अखाड़े के मज्जा और नट भी इस को इसी लिये धारण करते हैं कि जिस से शरीर का मर्मस्थान बचा रहे और अटकाव न हो । चौथा "कंग" कि जिस से केश सुधरते हैं । पांचवां "काजू" कि जिस से शत्रु से भेंट भटका होने से लड़ाई में काम आवे इसी लिये यह रीति गोविन्दसिंह जी ने अपनी बुद्धिमत्ता से उस समय के लिये की थी अब इस समय में उन का रखना कुछ उपयोगी नहीं है परन्तु अब जो युद्ध के प्रयोजन के लिये बातें कर्त्तव्य थीं उन को धर्म के साथ मान ली हैं मूर्त्तिपूजा तो नहीं करते किन्तु उस से विशेष ग्रंथ की पूजा करते हैं । क्या यह मूर्त्तिपूजा नहीं है ? किसी जड़ पदार्थ के सामने गिर झुकाना वा उस की पूजा करनी सब मूर्त्तिपूजा है जैसे मूर्त्ति वालों ने अपनी दुकान जमा कर जीविका ठाड़ी की है वैसे इन लोगों ने भी कर ली है जैसे पूजारी लोग मूर्त्ति का दर्शन कराते, भेंट चढ़वाते, हैं वैसे नानकपन्थी लोग ग्रन्थ की पूजा करते, कराते, भेंट भी चढ़वाते हैं अर्थात् मूर्त्तिपूजा वाले जितना वेद का मान्य करते हैं उतना ये लोग ग्रन्थसाहब वाले नहीं करते हैं यह कहा जा सकता है कि इन्हीं ने वेदों को न सुना, न देखा क्या करें जो सुनने और देखने में आवें तो बुद्धिमान् लोग जो कि हठी दुराग्रही नहीं हैं वे सब संप्रदाय वाले वेदमत में आ जाते हैं । परन्तु इन सब ने भोजन का बखेड़ा बहुत सा हटा दिया है जैसे इस को हटाया वैसे विषयमक्ति दुरभिमान को भी हटा कर वेदमत की उन्नति करें तो बहुत अच्छी बात है ॥

(प्रश्न) दादूपंथी का मार्ग तो अच्छा है ? (उत्तर) अच्छा तो वेद मार्ग है जो पकड़ा जाय तो पकड़ी नहीं तो सदा गोते खाते रहो गे इन के मत में दादू जी का जन्म गुजरात में हुआ था पुनः जयपुर के पास "अजमेर" में रहते थे तेली का काम करते थे ईश्वर की सृष्टि की विचित्र लीला है कि दादू जी भी पुजाने लग गये अब वेदादि शास्त्रों की ही सब बातें छोड़ कर "दादूराम २" में ही मुक्ति मान ली है जब सत्योपदेशक नहीं होता तब ऐसे २ ही बखेड़े चला करते हैं । छोड़े दिन हुए "रामसनेही" मत शाहपुरा से चला है उन्होंने ने सब वेदोक्त धर्म को छोड़ के "राम २" पुकारना अच्छा माना है उसी में ज्ञान ध्यान मुक्ति मानते हैं परन्तु जब भृश लगती है तब "रामनाम" में से रोटी ग्राह नहीं निकलता क्योंकि ज्ञान पान आदि तो गृहस्थों के घर ही में मिलते हैं ये भी मूर्त्तिपूजा की

धिककारते हैं परन्तु आप स्वयं सूर्ति बन रहे हैं स्त्रियों के संग में बहुत रहते हैं क्योंकि राम जी को "रामकी" के बिना आनन्द ही नहीं मिल सकता ॥

एक रामचरण नामक साधु हुआ है जिस का मत मुख्य कर "शाहपुरा" स्थान मेवाड़ से चला है वे "राम" २ कहने ही को परम मन्त्र और ब्रह्मी को महान्त मानते हैं । उन का एक ग्रंथ कि जिस में सन्तदास जी आदि की वाणी है ऐसा लिखते हैं—

उन का वचन ॥

भरम रोग तव ही मित्या । रव्या निरंजन राइ ।

तव जम का कागज फव्या । कव्या करम तव जाइ ॥ १ ॥ साखी ॥ ६ ॥

अब बुद्धिमान् लोग विचार लें कि "राम २" कहने से भ्रम जो कि अज्ञान है, वा यमराज का पापानुकूल शासन अथवा किये हुए कर्म कभी कूट सकते हैं वा नहीं ? यह केवल मनुष्यों को पापों में फसाना और मनुष्य जन्म को नष्ट कर देना है ॥ अब इन का जो मुख्य गुरु हुआ है "रामचरण" उस के वचन :-

महमा नांव प्रताप की । सुणौ सरवण चित लाइ ।

रामचरण रसना रटौ । क्रम सकल भड जाइ ॥ १ ॥

जिन जिन सुमर्या नांव कूं । सो सब उतरयापार ॥

रामचरण जो वीसर्या । सो ही जम के द्वार ॥ २ ॥

राम विना सब भूठ बतायो ॥

राम भजत छूव्या सब क्रम्मा । चंद अरु सूर देइ पर कम्मा ।

राम कहे तिन कूं भै नाहीं । तीन लोक में कीरति गाहीं ॥

राम रटत जम जोर न लागै ॥

राम नाम लिख पथर तराई । भगति हेति औतार ही धर ही ॥

ऊंच नीच कुल भेद विचारै । सो जनम आपणो हारै ॥

संता कै कुल दीसै नाहीं । राम राम कह राम सम्हां हीं ॥

ऐसो कुण जो कीरति गा वै । हरि हरि जन कौ पार न पावै ॥

राम संतां का अन्त न आवै । आप आप की बुद्धि समगावै ॥

इन का खण्डन ॥

प्रथम तो रामचरण आदि के ग्रंथ देखने से विदित होता है कि वह ग्रामीण एक सीधा सादा मनुष्य था न वह कुछ पढ़ा था नहीं तो ऐसी गपड़ चीथ क्या लिखता, यह केवल इन को भ्रम है कि राम २ कहने से कर्म छूट जाय केवल ये अपना और दूसरों का जन्म खाते हैं। जन्म का भय तो बड़ा भारी है परन्तु राज-सिपाही, चोर, डाकू, व्याध, सर्प, बीछू और मच्छर आदि का भय कभी नहीं छूटता चाहे रात दिन राम २ किया करे कुछ भी नहीं होगा। जैसे "सकर २" कहने से सुख मीठा नहीं होता वैसे सत्यभाषणादि कर्म किये बिना राम २ करने से कुछ भी नहीं होगा और यदि राम २ करना इन का राम नहीं सुनता तो जन्म भर कहने से भी नहीं सुने गा और जो सुनता है तो दूसरी बार भी राम २ कहना व्यर्थ है। इन लोगों ने अपना पेट भरने और दूसरों का भी जन्म नष्ट करने के लिये एक पाखण्ड खड़ा किया है सो यह बड़ा आश्चर्य हम सुनते और देखते हैं कि नाम तो भरा रामरनेही और काम करते हैं रांडसनेही का, जहां देखो वहां रांड ही रांड सन्तों को घेर रही हैं यदि ऐसे २ पाखण्ड न चलते तो आर्यावर्त देश की दुर्दशा क्यों होती? ये लोग अपने चेलों को झूठ खिलाते हैं और स्त्रियों भी लंबी पड़ के दंडवत् प्रणाम करती हैं एकान्त में भी स्त्रियों और साधुओं की बैठक होती रहती है। अब दूसरी इन की गान्वा "खेड़ापा" ग्राम मारवाड़ देश से चली है उस का इतिहास एक रामदास नामक जांती का देह बड़ा चालाक था उस के दो स्त्रियां थीं वह प्रथम बहुत दिन तक जीवहू हो कर कुत्तों के साथ खाता रहा पीछे वामी कुण्डापंथी पीछे "रामदेव" का "काम-डिया" * बना, अपनी दोनों स्त्रियों के साथ गाता था ऐसे घूमता २ "सोयल" † में, देहों का गुरु "रामदास" था, उस से मिला उस ने उस को "रामदेव" का, पंथ बता के अपना चेला बनाया उस रामदास ने खेड़ापा ग्राम में जगह बनाई और इस का इधर मत चला उधर ग्राहपुर में रामचरण का। उस का भी इतिहास ऐसा सुना है कि वह जयपुर का बकियां था उस ने "दांतड़ा" ग्राम में एक साधु से वेप लिया और उस को गुरु किया और ग्राहपुर में आके टिकी जमाई। भोले मनुष्यों में पाखंड की जड़ गीब्र जन्म जाती है। जन्म गई। इन सब में ऊपर के रामचरण के वचनों के प्रमाण से चेला करके जंच नीच का कुछ भेद नहीं ब्राह्मण से अन्त्यजपर्यन्त इन में चले चलते हैं अब भी कुंडापंथी से ही हैं क्योंकि मठों के कुंडों में ही खाते हैं। और साधुओं की अंठन खाते हैं, वेदधर्म से माता पिता

* राज पुताने में "समार" लोग भयंकर बन्ध रंग कर "रामदेव" आदि के गीत श्रितियों के "मद" कहते हैं समारों और इन जातियों की मुदाते हैं वे "कामादेव" कहलाते हैं।

† "सोयल" जोधपुर के राज्य में एक बड़ा ग्राम है।

संसार के व्यवहार से बहका कर फुड़ा देते और चेला बना लेते हैं, और रामनाम की महामन्त्र मानते हैं और इसी को "कुच्छम" ॥ वेद भी कहते हैं, राम कहने से अनन्त जन्मों के पाप छूट जाते हैं इस के बिना मुक्ति किसी को नहीं होती। जो खास और प्रखास के साथ राम २ कहना बतावे उस को सत्य गुरु कहते हैं, और सत्य गुरु को परमेश्वर से भी बड़ा मानते हैं, और उस की मूर्ति का ध्यान करते हैं साधुओं के चरण धो के पीते हैं जब गुरु से चेला दूर जावे तो गुरु के नख और झाड़ी के बाल अपने पास रख लेवे, उसका चरणामृत नित्य लेवे, रामदास और हररामदास के वाणी के पुस्तक को वेद से अधिक मानते हैं, उस को परिक्रमा और आठ दण्डवत् प्रणाम करते हैं और जो गुरु समीप ही तो गुरु को दण्डवत् प्रणाम कर लेते हैं स्त्री वा पुरुष को राम २ एकसा ही मन्त्रोपदेश करते हैं और नामस्मरण ही से कल्याण मानते पुनः पढ़ने में पाप समझते हैं उन की, साखी :—

पंडताइ पाने पड़ी। ओ पूरव लो पाप ॥

राम २ सुमरयां विना। रइग्यो रीतो आप ॥

वेद पुराण पढेपढगीता। रामभजन विन रइ गये रीता ॥

ऐसे २ पुस्तक बनाये हैं स्त्री को पति की सेवा करने में पाप और गुरु साधु की सेवा में धर्म बतलाते हैं वर्णश्रम को नहीं मानते ? जो ब्राह्मण रामसेही न ही तो उस को नीच और चांडाल रामसेही ही तो उस को उत्तम जानते हैं अब ईश्वर का अवतार नहीं मानते और रामचरण का वचन जो ऊपर लिख आये कि :—

भगति हेति अवतार ही धरही ॥

भक्ति और सन्तों के हित अवतार को भी मानते हैं इत्यादि पाखण्ड प्रपञ्च इन का जितना है सो सब आर्यावर्ष देश का अहितकारक है इतने ही से बुद्धिमान् बहुत सा समझ लेंगे ॥

(प्रश्न) गोकुलिये गुसाइयों का मत तो बहुत अच्छा है देखो कैसा ऐश्वर्य भोगते हैं क्या यह ऐश्वर्य लीला के बिना ऐसा ही सकता है ? (उत्तर) यह ऐश्वर्य गृहस्थ लोगों का है गुसाइयों का कुछ नहीं। (प्रश्न) वाह २ ! गुसाइयों के प्रताप से है, क्योंकि ऐसा ऐश्वर्य दूसरों को क्यों नहीं मिलता ? (उत्तर) दूसरे भी इसी प्रकार का छल प्रपञ्च रचें तो ऐश्वर्य मिलने में क्या सन्देह है ? और जो इन से अधिक पूर्णता करें तो अधिक भी ऐश्वर्य ही सकता है। (प्रश्न) वाह

जी बाह ! इस में क्या धूर्तता है ? यह तो सब गोलोक की लीला है । (उषर) गोलोक की लीला नहीं किन्तु गुसाद्यों की लीला है जो गोलोक की लीला है तो गोलोक भी ऐसा ही होगा । यह मन "तैलङ्ग" देश से चला है क्योंकि एक तैलङ्गी लक्ष्मणभट्ट नामक ब्राह्मण विवाह कर किसी कारण से माता, पिता, और स्त्री को छोड़ काशी में जा के उस ने संन्यास ले लिया था और भूठ बोला था कि मेरा विवाह नहीं हुआ, दैवयोग से उस के माता पिता और स्त्री ने सुना कि काशी में संन्यासी हो गया है उस के माता पिता और स्त्री काशी में पहुंच कर जिस ने उस को संन्यास दिया था उस से कहा कि इस को संन्यासी क्यों किया देखो ! इस की युवती स्त्री है और स्त्री ने कहा कि यदि आप मेरे पति को मेरे साथ न करें तो सुभक्त को भी संन्यास दे दीजिये तब तो उस को बुला के कहा कि तू बड़ा मिथ्यावादी है, संन्यास छोड़, गृहाश्रम कर, क्योंकि तू ने भूठ बोल कर संन्यास लिया । उसने पुनः वैसा ही किया, संन्यास छोड़ उस के साथ हो लिया ! देखा ! इस मन का मूल ही भूठ कपट से जमा जब तैलङ्ग देश में गये उस को जाति में किसी ने न लिया तब वहां से निकल कर धूमने लगे "चरणा-गंड" जो काशी के पास है उस के समीप "चंपारण्य" नामक जङ्गल में चले जाते थे वहां कोई एक लड़के को जङ्गल में छोड़ चारो ओर दूर २ आगी जला कर चला गया था क्योंकि छोड़ने वाले ने यह समझा था जो आगी न जलाऊँगा तो अभी कोई जीव मार डाले गा लक्ष्मणभट्ट और उस की स्त्री ने लड़के को ले कर अपना पुत्र बना लिया फिर काशी में जा रहे, जब यह लड़का बड़ा हुआ तब उस के मा बाप का शरीर छूट गया काशी में बाल्यावस्था से युवावस्था तक कुछ पढ़ता भी रहा, फिर और कहीं जाके एक विष्णु स्वामी के मंदिर में चेला हो गया वहां से कभी कुछ खट पट होने से काशी को फिर चला गया और संन्यास ले लिया फिर कोई वैसा ही जाति बहिष्कृत ब्राह्मण काशी में रहता था उस को लड़की युवति थी उस ने इस से कहा कि तू संन्यास छोड़ मेरी लड़की से विवाह कर ले वैसा ही हुआ जिस के बाप ने जैसी लीला की थी वैसी पुत्र क्यों न करे ? उस स्त्री को ले के वहीं चला गया कि जहां प्रथम विष्णुस्वामी के मंदिर में चेला हुआ था विवाह करने से उन को वहां से निकाल दिया । फिर ब्रजदेश में कि जहां अविद्या ने घर कर रक्खा है जा कर अपना प्रपंच अनेक प्रकार की कल युक्तियों से फैलाने लगा और मिथ्या बातों की प्रसिद्धि करने लगा कि श्रीकृष्ण सुभक्त को मिले और कहा कि जो गोलोक से "दैवीलौक" मर्त्यलोक में आये हैं उन को ब्रह्मसंबन्ध आदि से पवित्र करके गोलोक में भोजी इत्यादि मूर्खों को प्रसन्न करने की बातें सुना के श्रीकृष्ण से लोगों को अर्थात् ८४ चौरागी वैष्णव बनाये ? और निम्न क्षिप्रित मन्त्र बना लिये और उन में भी भेद रक्खा जैसे :-

श्रीकृष्णः शरणं मम ॥

क्रीकृष्णाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ॥ गोपाल सहस्र नाम

ये दोनों साधारण मन्त्र हैं परन्तु अगला मन्त्र ब्रह्मसंबन्ध और समर्पण कराने का है।

श्रीकृष्णः शरणं मम सहस्रपरिवत्सरमितकालजात-
कृष्णवियोगजनिततापक्लेशानन्ततिरोभावोऽहं भगवते कृष्णाय
देहेन्द्रियप्राणान्तःकरणतद्धर्मैश्च दारागारपुत्राप्तचित्तेहपराण्या-
त्मना सह समर्पयामि दासोऽहं कृष्ण तवास्मि ॥

इस मन्त्र का उपदेश करके शिष्य शिष्याओं को समर्पण कराते हैं। “क्रीकृष्णायेति”—यह “क्री” तन्त्र ग्रन्थ का है इस से विदित होता है कि यह बल्लभमत भी वाममार्गियों का भेद है इसी से स्त्री प्रसंग गुसाईं लोग बहुधा करते हैं। “गोपीजनवल्लभेति”—क्या कृष्ण गोपियों ही को प्रिय थे अन्य को नहीं? स्त्रियों को प्रिय वह होता है जो स्त्रीण अर्थात् स्त्री भोग में फसा हो क्या श्रीकृष्ण जी ऐसे थे? अथ “सहस्रपरिवत्सरेति”—सहस्र वर्षों की गणना व्यर्थ है क्योंकि बल्लभ और उस के शिष्य कुछ सर्वज्ञ नहीं हैं क्या कृष्ण का वियोग सहस्रों वर्ष से हुआ और आज ली अर्थात् जब ली बल्लभ का मत न था, न बल्लभ जन्मा था उस के पूर्व अपने देवी जीवों के उधार करने को क्यों न आया? “ताप” और “क्लेश” ये दोनों पर्यायवाची हैं इनमें से एक का ग्रहण करना उचित था दो का नहीं “अनन्त” शब्द का पाठ करना व्यर्थ है क्योंकि जो अनन्त शब्द रखो तो “सहस्र” शब्द का पाठ न रखना चाहिये और जो सहस्र शब्द का पाठ रखो तो अनन्त शब्द का पाठ रखना सर्वथा व्यर्थ है और जो अनन्त काल ली “तिरोहित” अर्थात् आच्छादित रहे उस की मुक्ति के लिये बल्लभ का होना भी व्यर्थ है क्योंकि अनन्त का अन्त नहीं होता भला देहेन्द्रिय, प्राणान्तःकरण और उस के धर्म स्त्री, खान, पुत्र, प्राप्तधन का अर्पण कृष्ण को क्यों करना? क्योंकि कृष्ण पूर्ण काम होने से किसी के देहादिक की इच्छा नहीं कर सकते और देहादि का अर्पण करना भी नहीं हो सकता क्योंकि देह के अर्पण से नखशिखाग्रपर्यन्त देह कहता है उस में जो कुछ अच्छी वुरी वस्तु है मलमूत्रादि का भी अर्पण कैसे कर सकोगे? और जो पाप पुण्यरूप कर्म होते हैं उन को कृष्णार्पण करने से उन के फलभागी भी कृष्ण ही होंगे अर्थात् नाम तो कृष्ण का लेते हैं और समर्पण अपने लिये कराते हैं जो कुछ देह में मलमूत्रादि हैं वह भी गोसाईं जी के अर्पण क्यों नहीं होता? “क्या मीठा २ गड़प्प और कड़वा २ घू” और यह भी सिखा है कि गोसाईं जी के अर्पण करना

अन्य मत वाले के नहीं यह सब स्वार्थसिन्धुपन और पराये धनादि पदार्थ हरने और वेदोक्त धर्म के नाश करने की लीला रची है। देखो यह ब्रह्म का प्रपञ्च :-

श्रावणस्यामले पक्ष एकादश्यां महानिशि ।
 साक्षाद्ब्रह्मवता प्रोक्तं तदक्षरज्ञ उच्यते ॥
 ब्रह्मसम्बन्धकरणात्सर्वेषां देहजीवयोः ।
 सर्वदोषनिवृत्तिर्हि दोषाः पञ्चविधाः स्मृताः ॥
 सहजा देशकालोत्था लोकवेदनिरूपिताः ।
 संयोगजाः स्पर्शजाश्च न मन्तव्याः कदाचन ॥
 अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्तिः कथञ्चन ।
 असमर्पितवस्तूनां तस्माद्दर्जनमाचरेत् ॥
 निवेदिभिः समर्प्यैव सर्वं कुर्यादिति स्थितिः ।
 न मतं देवदेवस्य स्वामिभुक्तिसमर्पणम् ॥
 तस्मादादौ सर्वकार्ये सर्ववस्तुसमर्पणम् ।
 दत्तापहारवचनं तथा च सकलं हरेः ॥
 न ग्राह्यमिति वाक्यं हि भिन्नमार्गपरं मतम् ।
 सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिध्यति ॥
 तथा कार्थ्यं समर्प्यैव सर्वेषां ब्रह्मता ततः ।
 गंगात्वे गुणदोषाणां गुणदोषादिवर्णनम् ॥

इत्यादि श्लोक गोसाइयों के सिद्धान्तरहस्यादि ग्रन्थों में लिखे हैं यही गोसाइयों के मत का मूल तत्त्व है। भला इन से कोई पूछे कि श्रीकृष्ण के देहान्त हुए कुछ कम पांच सहस्र वर्ष बीते वह ब्रह्म से श्रावण मास की आधी रात को कैसे मिल सके ? जो गोसाइं का चेला होता है और उस को सब पदार्थों का समर्पण करता है उस के शरीर और जीव के सब दोषों की निवृत्ति हो जाती है यही ब्रह्म का प्रपञ्च सूखों को बहका कर अपने मत में लाने का है जो गोसाइं के चेले चेलियोंके सब दोष निवृत्त हो जायें तो रोगदारियादि दुःखों से पीड़ित क्यों रहें ? और वे दोष पांच प्रकार के होते हैं। एक-सहज दोष जो कि प्राभाविक अर्थात् काम क्रोधादि से उत्पन्न होते हैं। दूसरे-किसी देग काल में नाना

प्रकार के पाप किये जायें । तीसरे-लोक में जिनको भय्याभय्य कहते और वेदोक्त जो कि मिथ्याभाषणादि हैं । चौथे-संयोगज जो कि बुरे संग से अर्थात् चोरी, चारी, माता, भगिनी, कन्या, पुत्रवधू, गुरुपत्नी आदि से संयोग करना । पांचवे-स्पर्शज अस्पर्शनीयों को स्पर्श करना । इन पांच दोषों को गोसाइं लोगों के मत वाले कभी न मानें अर्थात् यथेष्टाचार करें ॥ अन्य कोई प्रकार दोषों की निवृत्ति के लिये नहीं है बिना गोसाइं जी के मत के, इस लिये बिना समर्पण किये पदार्थ को गोसाइं जी के चले न भोगें इसी लिये इन के चले अपनी स्त्री, कन्या, पुत्रवधू और धनादि पदार्थों को भी समर्पित करते हैं परन्तु समर्पण का नियम यह है कि जब लो गोसाइं जी की चरणसेवा में समर्पित न होवे तब लो उस का स्वामी स्वस्त्री को स्पर्श न करे । इस से गोसाइयों के चले समर्पण करके पद्यात् अपने २ पदार्थ का भोग करें क्योंकि स्वामी के भोग करे पद्यात् समर्पण नहीं हो सकता ॥ इस से प्रथम सब कामों में सब वस्तुओं का समर्पण करे प्रथम गोसाइं जी को भार्यादि समर्पण करके पद्यात् ग्रहण करे वैसे ही हरि को सम्पूर्ण पदार्थ समर्पण करके ग्रहण करे ॥ गोसाइं जी के मत से भिन्न मार्ग के वाक्चमात्र को भी गोसाइयों के चेला चेली कभी न सुनें न ग्रहण करें यही उन के शिष्यों का व्यवहार प्रसिद्ध है ॥ वैसे ही सब वस्तुओं का समर्पण करके सब के बीच में ब्रह्म-बुद्धि करे उस के पद्यात् जैसे गङ्गा में अन्य जल मिल कर गङ्गारूप हो जाते हैं वैसे ही अपने मत में गुण और दूसरे के मत में दोष हैं इस लिये अपने मत में गुणों का वर्णन किया करे ॥ अब देखिये गोसाइयों का मत सब मतों से अधिक अपना प्रयोजन सिद्ध करने द्वारा है । भला, इन गोसाइयों को कोई पूछे, कि ब्रह्म का एक लक्षण भी तुम नहीं जानते, तो शिष्य शिष्याओं को ब्रह्मसम्बन्ध कैसे करा सकोगे ? जो कही कि हम ही ब्रह्म हैं हमारे साथ सम्बन्ध होने से सम्बन्ध हो जाता है सो तुम में ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव एक भी नहीं हैं पुनः क्या तुम केवल भोग विलास के लिये ब्रह्म बन बैठे हो ? भला शिष्य और शिष्याओं को तो तुम अपने साथ समर्पित करके शुद्ध करते हो परन्तु तुम और तुम्हारी स्त्री, कन्या, तथा पुत्रवधू आदि असमर्पित रह जाने से अशुद्ध रह गये वा नहीं ? और तुम असमर्पित वस्तु को अशुद्ध मानते हो पुनः उन से उत्पन्न हुए तुम लोग अशुद्ध क्यों नहीं ? इस लिये तुम को भी उचित है कि अपनी स्त्री, कन्या तथा पुत्रवधू आदि को अन्य मतवालों के साथ समर्पित कराया करो । जो कही कि नहीं २ तो तुम भी अन्य स्त्री पुरुषतथा धनादि पदार्थों को समर्पित करना कराना छोड़ दो । भला अब लो जो हुआ सो हुआ परन्तु अब तो अपनी मिथ्या प्रपञ्चादि बुराइयों को छोड़ो और सुन्दर ईश्वरोक्त वेदविहित सुपन में जा कर अपने मनुष्य-रूपी जन्म को सफल कर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस चतुष्टय फल को प्राप्त हो

कर आनन्द भोगे । और देखिये ! ये गोसाईं लोग अपने संप्रदाय को "पुष्टि" मार्ग कहते हैं अर्थात् खाने, पीने, पुष्ट होने और सब स्त्रियों के संग यथेष्ट भोग-विलास करने को पुष्टि मार्ग कहते हैं । परन्तु इन से पूछना चाहिये कि जब बड़े दुःखदायी भगंदरादि रोगग्रस्त हो कर ऐसे भीक र मरते हैं कि जिस को ये ही जानते हैंगे सच पूछो तो पुष्टिमार्ग नहीं किन्तु कुष्ठिमार्ग है जैसे कुष्ठी के शरीर को सब धातु पिघल कर निकल जाती है और विलाप करता हुआ शरीर छोड़ता है ऐसी ही लीला इन की भी देखने में आती है इस लिये नरकमार्ग भी इसी को कहना संवटित हो सकता है क्योंकि दुःख का नाम नरक और सुख का नाम स्वर्ग है । इसी प्रकार मिथ्या जाल रच के विचारे भोले भाले मनुष्यों को जाल में फसाया और अपने आप को श्रीकृष्ण मान कर सब के स्वामी बनते हैं । यह कहते हैं कि जितने देवी जीव गोलोक से यहां आये हैं उन के उधार करने के लिये हम लीला पुरुषोत्तम जन्मे हैं जबलों हमारा उपदेश न ले तब लों गोलोक की प्राप्ति नहीं होती वहां एक श्रीकृष्ण पुरुष और सब स्त्रियां हैं । वाह जी वाह !!! भला तुम्हारा मत है गोसांइयों के जितने चले हैं वे सब गोपियां बन जायेंगी अब विचारिये भला जिस पुरुष के दो स्त्री होती हैं उस की बड़ी दुर्दशा हो जाती है तो जहां एक पुरुष और कौड़ी स्त्री एक के पीछे लगी हैं उस के दुःख का क्या पारावार है ? जो कही कि श्रीकृष्ण में बड़ा भारी सामर्थ्य है सब को प्रसन्न करते हैं तो जो उस की स्त्री जिस को स्वामिनी जी कहते हैं उस में भी श्रीकृष्ण के समान सामर्थ्य होगा, क्योंकि वह उन की प्रहंगी है जैसे यहां स्त्री पुरुष की कामचेष्टा तुल्य अथवा पुरुष से स्त्री की अधिक होती है तो गोलोक में क्यों नहीं ? जो ऐसा है तो अन्य स्त्रियों के साथ स्वामिनी जी की अत्यन्त लड़ाई बखेड़ा मचता होगा क्योंकि सपत्नीभाव बहुत बुरा होता है पुनः गोलोक स्वर्ग की अपेक्षा नरकवत् हो गया होगा, अथवा जैसे बहुत स्त्रीगामी पुरुष भगन्दरादि रोगों से पीड़ित रहते हैं वैसा ही गोलोक में भी होगा, छि ! छि ! ! छि !!! ऐसे गोलोक से मर्त्यलोक ही विचारा भला है । देखो ! जैसे यहां गोसाईं जी अपने को श्रीकृष्ण मानते हैं और बहुत स्त्रियों के साथ लीला करने से भगन्दर तथा प्रमेहादि रोगों से पीड़ित हो कर महादुःख भोगते हैं । अब कहिये जिन का स्वरूप गोसाईं पीड़ित होता है तो गोलोक का स्वामी श्रीकृष्ण इन रोगों से पीड़ित क्यों न होगा ? और जो नहीं है तो उन का स्वरूप गोसाईं जी पीड़ित क्यों होते हैं ? । (प्रश्न) मर्त्यलोक में लीलावतार धारण करने से रोग दीप होता है गोलोक में नहीं, क्योंकि वहां रोग दीप ही नहीं है । (उत्तर) "भोगे रोगभयम्" जहां भोग है वहां रोग अवश्य होता है और श्रीकृष्ण के क्रीडान् क्रीड स्त्रियों से सन्तान होते हैं वा नहीं ? और जो होते हैं तो लड़के २

होते हैं वा लड़की २ ? अथवा दोनों ? जो कहे कि लड़कियां ही लड़कियां होती हैं तो उन का विवाह किन के साथ होता होगा ? क्योंकि वहां विना श्रीकृष्ण के दूसरा कोई पुरुष नहीं जो दूसरा है तो तुम्हारी प्रतिज्ञाहानि हुई जो कहे लड़के ही लड़के होते हैं तो भी यही दोष भ्रान पड़े गा कि उन का विवाह कहां और किन के साथ होता है ? अथवा घर के घर ही में गटपट कर लेते हैं अथवा अन्य किसी की लड़कियां वा लड़के हैं तो भी तुम्हारी प्रतिज्ञा "गोलोक में एक ही श्रीकृष्ण पुरुष" नष्ट हो जाय गी और जो कहे कि सन्तान होते ही नहीं तो श्री कृष्ण में नपुंसकत्व और स्त्रियों में वन्ध्यापन दोष आवेगा । भला यह गोलोक क्या हुआ ? जानो दिल्ली के वादशाह की बहियों की सेना हुई । अब जो गोसाईं लोग शिष्य और शिष्याओं का तन मन तथा धन अपने अर्पण करा लेते हैं सो भीठीक नहीं क्योंकि तन तो विवाह समय में स्त्री और पति के समर्पण ही जाता है पुनः मन भी दूसरे के समर्पण नहीं हो सकता, क्योंकि मन ही के साथ तन का भी समर्पण करना बन सकता और जो करें तो व्यभिचारी कहावे गे, अब, रक्षा धन उस की यही लीला समझो अर्थात् मन के विना कुछ भी अर्पण नहीं हो सकता इन गोसाईयों का अभिप्राय यह है कि कमावें तो चेला और आनन्द करें हम । जितने बल्लभसंप्रदायी गोसाईं लोग हैं वे अब लों तैलंगी जाति में नहीं हैं और जो कोई इन को भूलेभटके लड़की देता है वह भी जातिवाह्य हो कर भ्रष्ट हो जाता है क्योंकि ये जाति से पतित किये गये और विद्याहीन रात दिन प्रमाद में रहते हैं । और देखिये ! जब कोई गोसाईं ली की पधरावनी करता है तब उस के घर पर जा चुपचाप काठ की पुतली के समान बैठा रहता है न कुछ बोलता न चालता, विचारा बोले तो तब जो मूर्ख न होवे "मूर्खाणां बलं मौनम्" क्योंकि मूर्खों का बल मौन है जो बोले तो उस की पील निकल जाय परन्तु स्त्रियों की और खूब ध्यान लगा के ताकता रहता है । और जिस की ओर गोसाईं जी देखें तो जानें बड़े ही भाग्य की बात है और उस का पति, भाई, बन्धु, माता, पिता, बड़े प्रसन्न होते हैं वहां सब स्त्रियां गोसाईं जी के पग छूती हैं जिस पर गोसाईं जी का मन लगे वा छपा हो उस की अंगुली पैर से दबा देते हैं वह स्त्री और उस के पति आदि अपना धन्यभाग्य समझते हैं और उस स्त्री से पति आदि सब कहते हैं कि तू गोसाईं जी की चरणसेवा में जा और जहां कहीं उस के पति आदि प्रसन्न नहीं होते वहां दूती और कुटनियों से काम सिद्ध करा लेते हैं । सच पूछो तो ऐसे काम करने वाले उन के मंदिरों में और उन के समीप बहुत से रक्षा करते हैं । अब इन की दक्षिणा की लीला अर्थात् इस प्रकार मांगते हैं लालो भेंट गोसाईं जी की, बहू जी की, लाल जी की, बेटों जी की, मुखिया जी की, बाहरियां जी की, गवैया जी की और ठाकुर जी की, इन सात दुकानों से यद्येष्ट मात्र मारते

हैं। जब कोई गोसाईं जी का सेवक मरने लगता है तब उस की क्रांती में पग गोसाईं जी धरते हैं और जो कुछ मिलता है उस की गोसाईं जी "गडक" कर जाते हैं क्या यह काम महाब्राह्मण और कर्टिया या सुर्दावली के समान नहीं है?। कोई २ चेला विवाह में गुसाईं जी को बुला कर उन ही से लड़के लड़की का पाणिग्रहण कराते हैं और कोई २ सेवक जब केशरिया स्नान अर्थात् गोसाईं जी के शरीर पर स्त्री लोग केशर का छपटना करके फिर एक बड़े पात्र में पटा रख के गोसाईं जी को स्त्री पुरुष मिल के स्नान कराते हैं परन्तु विशेष स्त्रीजन स्नान कराती हैं पुनः जब गोसाईं जी पीताम्बर पहिर और खड़ाज पर चढ़ बाहर निकल आते हैं और धोती उसी में पटक देते हैं फिर उस जल का आचमन उस के सेवक करते हैं और अच्छे मसाला धर के पान बीड़ी गोसाईं जी को देते हैं वह चाव कर कुछ निगल जाते हैं शेष एक चांदी के कटोरे में जिस को उन का सेवक मुख के आगे कर देता है उस में पीक उगल देते हैं उस की भी प्रसादी बटती है जिस को "खास" प्रसादी कहते हैं। अब विचारिये कि ये लोग किस प्रकार के मनुष्य हैं जो मूढ़पन और अनाचार होगा तो इतना ही होगा बहुत से समर्पण लेते हैं उन में से कितने ही वैष्णवों के हाथ का खाते हैं अन्य का नहीं, कितने ही वैष्णवों के हाथ का भी नहीं खाते सकड़ेलों धो लेते हैं परन्तु आटा, गुड़, चीनी, घी, आदि धोये से उन का स्पर्श विगड़ जाता है क्या करें विचारि जो इन को धोवें तो पदार्थ ही हाथ से खो बैठें। वे कहते हैं कि हम ठाकुर जी के रङ्ग, राग, भोग, में बहुत सा धन लगा देते हैं परन्तु वे रङ्ग राग भोग आप ही करते हैं और सच पूंछो तो बड़े २ अनर्थ होते हैं अर्थात् होली के समय पिचकारियां भर कर स्त्रियों के अस्पर्शनीय अवयव अर्थात् जो गुप्त स्थान हैं उन पर मारते हैं और रसविक्रय ब्राह्मण के लिये निषिद्ध कर्म है उस को भी करते हैं। (प्रश्न) गुसाईं जी राटी, दाल, कढ़ी, शाक और मटर तथा लड्डू आदि को प्रत्यक्ष हाट में बैठ के तो नहीं बेचते किन्तु अपने नौकरो चाकरो को पत्तले बांट देते हैं वे लोग बेचते हैं गुसाईं जी नहीं। (उत्तर) जो गोसाईं जी उन को मासिक रुपये देवें तो वे पत्तले क्यों लेवें? गुसाईं जी अपने नौकरों के साथ दाल, भात, आदि नौकरी के बदले में बेच देते हैं वे लेना कर हाट बजार में बेचते हैं जो गुसाईं जी स्वयं बाहर बेचते तो नौकर जी ब्राह्मण आदि हैं वे तो रसविक्रय द्रोप से बच जाते और अकेले गुसाईं जी ही रसविक्रय रूपी पाप के भागी होते प्रथम तो इस पाप में आप डूबे फिर श्रीं को भी समेटा और कहीं २ नाथ द्वारा आदिमें गुसाईं जी भी बेचते हैं रसविक्रय करना नीचों का काम है उन्मत्तों का नहीं। ऐसे २ लोगों ने इस आर्थावर्त की प्रयोगति कर दी ॥

(प्रश्न) स्वामी नारायण का मत कैसा है ? (उत्तर) "वाटगो गीतला देवी वाटगो वाहनः स्वरः" जैसी गुसाईं जी की धनहरणादि में विचित्र लीला है वैसे ही स्वामी नारायण की भी है। देखिये ! एक सहजानन्द नामक अयोध्या के समीप एक ग्राम का जन्मा हुआ था वह ब्रह्मचारी हो कर गुजरात, काठियावाड़, कच्छभुज, आदि देशों में फिरता था उस ने देखा कि यह देश मूर्ख और भोला भाला है चाहे जैसे इन को अपने मत में भुका ले वैसे ही ये लोग भुंक सकते हैं। वहाँ उस ने दो चार शिष्य बनाये उन ने आपस में सखति कर प्रसिद्ध किया कि सहजानन्द नारायण का अवतार और बड़ा सिद्ध है, और भक्तों को चतुर्भुज स्मृतिधारण कर साक्षात् दर्शन भो देता है एक बार काठियावाड़ में किसी काठी अर्थात् जिस का नाम "दादाबाचार" गढ़ड़े का भूमिया (ज़िम्मेदार) था उस को गिर्व्यों ने कहा कि तुम चतुर्भुज नारायण का दर्शन करना चाहो तो हम सहजानन्द जी से प्रार्थना करें ? उस ने कहा बहुत अच्छी बात है यह भोला आदमी था एक कोठरी में सहजानन्द गिर पर मुकुट धारण कर और शंख चक्र अपने हाथ में ऊपर को धारण किया और एक दूसरा आदमी उस के पीछे खड़ा रह कर गदा फल अपने हाथ में ले कर सहजानन्द की बगल में से आगे को हाथ निकाल चतुर्भुज के तुल्य बन ठन गये दादाबाचार से इन के चेलों ने कहा कि एक बार आख उठा देख के फिर आख मीच लेना और भट इधर की चले आना जो बहुत देखो गे तो नारायण कोप करें गे अर्थात् चेलों के मन में तो यह था कि हमारे कपट की परीक्षा न कर लेवे ! उस को ले गये वह सहजानन्द कलावस्तु और चलकते हुए रेशम के कपड़े धारण कर रहा था अंधेरी कोठरी में खड़ा था उस के चेलों ने एक साथ लान्छटेन से कोठरी के और उगाला किया दादाबाचार ने देखा तो चतुर्भुज स्मृति देखी फिर भट दीपक को आड़ में कर दिया वे सब नीचे गिर नमस्कार कर दूसरी ओर चले आये और उसी समय बीच में बातों की कि तुम्हारा धन्य भाग्य है अब तुम महाराज के चले हो जाओ उस ने कहा बहुत अच्छी बात जबलौं फिर के दूसरे स्थान में गये तब लौं दूसरे वस्त्र धारण करके सहजानन्द गद्दी पर बैठा मिला तब चेलों ने कहा कि देखो अब दूसरा स्वरूप धारण करके यहाँ विराजमान हैं। वह दादाबाचार इन के जाल में फस गया वहीं से उन के मत की जड़ जमी क्योंकि वह एक बड़ा भूमिया था वहीं अपनी जड़ जमा ली पुनः इधर उधर घूमता रहा, सब को उपदेश करता था, बहुतों को साधू भी बनाता था कभी २ किसी साध की कण्ठ की नाही को मल कर मूर्च्छित भी कर देता था और सब से कहता था कि हमने इन की समाधि चढ़ादी है ऐसी २ धूर्तता में काठियावाड़ के भोले भाले लोग उस के पंच में फस गये जब वह मर गया तब उस के चेलों ने बहुत सा

पाखंड फैलाया इस में यह दृष्टान्त उचित होगा कि जैसे कोई एक चोरी करता पकड़ा गया था न्यायाधीश ने उस की नाक काट डालने का दंड किया जब उस की नाक काटी गई तब वह धूर्स नाचने, गाने और हंसने लगा लोगों ने पूंछा कि तू क्यों हसता है ? उस ने कहा कुछ कहने की बात नहीं है ? लोगों ने पूंछा ऐसी कौनसी बात है ? उस ने कहा बड़ी भारी आश्चर्य की बात है हम ने ऐसी कभी नहीं देखी लोगों ने कहा कही, क्या बात है ? उस ने कहा कि मेरे सामने साक्षात् चतुर्भुज नारायण खड़े मैं देख कर बड़ा प्रसन्न हो कर नाचता गाता अपने भाग्य को धन्यवाद देता हूँ कि मैं नारायण का साक्षात् दर्शन कर रहा हूँ । लोगों ने कहा हम को दर्शन क्यों नहीं होता ? वह बोला नाक की आड़ हो रही है जो नाक कटवा डालो तो नारायण देखे नहीं तो नहीं । उन में से किसी मूर्ख ने चाहा कि नाक जाय तो जाय परन्तु नारायण का दर्शन अवश्य करना चाहिये, उस ने कहा कि मेरी भी नाक काटी नारायण को दिखलाओ, उस ने उस की नाक काट कर कान में कहा कि तू भी ऐसा ही कर नहीं तो मेरा और तेरा उपहास होगा । उस ने भी समझा कि अब नाक तो आती नहीं इस लिये ऐसा ही कहना ठीक है तब तो वह भी वहाँ उसी के समान नाचने, कूदने, गाने, बजाने, हसने और कहने लगा कि मुझ को भी नारायण दीखता है वैसे होते २ एक सहस्र मनुष्यों का भुण्ड हो गया और बड़ा कोलाहल मचा और अपने संप्रदाय का नाम "नारायणदर्शी" रक्खा किसी मूर्ख राजा ने सुना उन को बुलाया जब राजा उन के पास गया तब तो वे बहुत कुछ नाचने, कूदने, हसने, लगे तब राजा ने पूंछा कि यह क्या बात है ? उन्होंने ने कहा कि साक्षात् नारायण हम को दीखता है । (राजा) हमको क्यों नहीं दीखता ? (नारायण-दर्शी) जब तक नाक है तब तक नहीं दीखे गा और जब नाक कटवा लगे तब नारायण प्रत्यक्ष दीखेंगे । उस राजा ने विचारा कि यह बात ठीक है राजा ने कहा ज्योतिषी जी मुहूर्त्त देखियो ज्योतिषी जी ने उत्तर दिया जो हुकम, अमदाता, दशमी के दिन प्रातःकाल आठ बजे नाक कटवाने और नारायण के दर्शन करने का बड़ा अच्छा मुहूर्त्त है । बाह रेपोप जी अपनी पीथी में नाक काटने कटवाने का भी मुहूर्त्त लिख दिया जब राजा की इच्छा हुई और उन सहस्रनकटी के सीधे बांध दिये तब तो वे बड़े ही प्रसन्न हो कर नाचने कूदने और गाने लगे यह बात राजा के दीवान आदि कुछ २ बुद्धि वाली को अच्छी न लगी राजा के एक चार पीढ़ी का बृद्ध ६० वर्ष का दीवान था उस को जा कर उस के परपोते ने जो कि उस समय दीवान था वह बात सुनाई तब उस बृद्ध ने कहा कि वे धूर्स हैं तू मुझ को राजा के पास ले चल । वह ले गया । बैठते समय राजा ने बड़े हर्षित हो के उन नाककटी की बातें सुनाई दीवान ने कहा कि सुनिये महाराज ! ऐसी शीघ्रता न

करनी चाहिये विना परीक्षा किये पद्याभाष होता है! (राजा) क्या ये सहस्र पुरुष भूँठ बोलते होंगे ? (दीवान) भूँठ बोलो वा सच विना परीक्षा के सच भूँठ कैसे कह सकते हैं ? (राजा) परीक्षा किस प्रकार करनी चाहिये ? (दीवान) विद्या दृष्टिक्रम प्रत्यक्षादि प्रमाणाँ से । (राजा) जो पढ़ा न हो वह परीक्षा कैसे करे ? (दीवान) विद्वानों के संग से ज्ञान की वृद्धि करके । (राजा) जो विद्वान् न मिले तो ? (दीवान) पुरुषार्थी को कोई बात दुर्लभ नहीं है । (राजा) तो आप ही कहिये कैसा किया जाय ? (दीवान) मैं बुद्धा और घर में बैठा रहता हूँ और अब थोड़े दिन जीऊँ गा भी इसलिये प्रथम परीक्षा मैं कर लेजुँ तत्पश्चात् जैसा उचित समझे वैसा कीजिये गा, (राजा) बहुत अच्छी बात है । ज्योतिषी जो दीवान जी के लिये मुहूर्त देखो । (ज्योतिषी) जो महाराज की आज्ञा, यही शुक्ल पंचमी में १० बजे का मुहूर्त अच्छा है जब पंचमी आई तब राजा जी के पास आ के आठ बजे बुद्धे दीवान जी ने राजा जी से कहा कि सहस्र दो सहस्र सेना ले के चलना चाहिये । (राजा) वहाँ सेना का क्या काम है ? (दीवान) आप को राजव्यवस्था की जानकारी नहीं है जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिये । (राजा) अच्छा भाई सेना को तैयार करो, साठे नौ बजे सवारी करके राजा सब को लेकर गया । उन को देख कर वे नाचने और गाने लगे जा कर बैठे उन के महन्त जिस ने यह संप्रदाय चलाया था जिस की प्रथम नाक काटी थी उस को बुला कर कहा कि आज हमारे दीवान जी को नारायण का दर्शन कराओ, उस ने कहा अच्छा दृश बजे का समय जब आया तब एक धाली मनुष्य ने नाक के नीचे पकड़ रखी उसे ने पैना चकू ले नाक काट धाली में डाल दी और दीवान जी की नाक से रुधिर की धार छूटने लगी दीवान जी का मुख मलीन पड़ गया । फिर उस धूर्त ने दीवान जी के कान में मन्त्रोपदेश किया कि आप भी हंस कर सब से कहिये कि मुझ को नारायण दीखता है अब नाक काटी हुई नहीं आवेगी जो ऐसा न कहो गे तो तुम्हारा बड़ा ठट्टा होगा, सब लोग हंसी करे गे, वह इतना कह अलग हुआ और दीवान जी ने अंगोछा हाथ में ले नाक की आड़ में लगा दिया जब दीवान जी से राजा ने पूँछा कहिये नारायण दीखता है वा नहीं ? दीवान जी ने राजा के कान में कहा कि कुछ भी नहीं दीखता वथा इस धूर्त ने सहस्राँ मनुष्यों को भ्रष्ट किया राजा ने दीवान से कहा अब क्या करना चाहिये ? दीवान ने कहा इन को पकड़ के कठिन दण्ड देना चाहिये जब लों जीव तब लों पन्दी-घर में रखना चाहिये और इस दुष्ट को कि जिस ने इन सब को बिगाड़ा है गधे पर चढ़ा वही दुर्दशाके साथ मारना चाहिये अब राजा और दीवान कान में बातें करने लगे तब उन्होंने ने दर के भागने की तैयारी की परन्तु चारों ओर फौज ने घेरा दे रक्खा था न भाग सके राजा ने आज्ञा दी कि सब को पकड़ बेहियाँ लास

दो और इस दुष्ट का काला सुख कर, गधे पर चढ़ा, इस के कण्ठ में फटे जूती का हार पहिना, सर्वत्र घुमा छोकरों से धूँड़ राख इस पर डलवा धीकर में जूती से पिटवा कुत्तों से लुँचवा मरवा डाला जावे । जो ऐसा न होवे तो पुनः दूसरे भी ऐसा काम करते न हरेंगे जब ऐसा हुआ तब नाककटे का संप्रदाय बंद हुआ । इसी प्रकार सब वेदविरोधी दूसरों के धन हरने में बड़े चतुर हैं यह संप्रदायों की लीला है ये स्वामिनारायण मत वाले धन हरे कल कपटयुक्त काम करते हैं कितने ही सूखों के वहकाने के लिये मरते समय कहते हैं कि सफेद घोड़े पर बैठ सहजानन्द जी मुक्ति को ले जाने के लिये आये हैं और नित्य इस मंदिर में एक बार आया करते हैं जब मेला होता है तब मंदिर के भीतर पूजारी रहते हैं और नीचे दुकान लगा रखी है मंदिर में से दुकान में जाने का द्वार रखते हैं जो किसी ने नारियल चढ़ाया वही दुकान में फेंक दिया अर्थात् इसी प्रकार एक नारियल दिन में सहस्र बार बिकता है ऐसे ही सब पदार्थों को बेचते हैं जिस जाति का साधु हो उस से वैसा ही काम कराते हैं जैसे नापित हो उस से नापित का, कुम्हार से कुम्हार का, शिल्पी से शिल्पी का, बनिये से बनिये का और शूद्र से शूद्रादि का काम लेते हैं अपने चेलों पर एक कर (टिकस) बांध रखा है लाखों कोड़ों रुपये ठग के एकत्र कर लिये हैं और करते जाते हैं जो गद्दी पर बैठता है वह गहस्य विवाह करता है, आभूषणादि पहिनाता है जहाँ कहीं पधरावनी होती है वहाँ गोकुलिये के समान गुसाईं जी वह जी आदि के नाम से भेंट पूजा लेते हैं अपने को "सत्संगी" और दूसरे मत वालों को "कुसंगी" कहते हैं अपने सिवाय दूसरा कौसा ही उत्तम धार्मिक, विद्वान् पुरुष क्यों न हो परन्तु उस कामान्य और सेवा कभी नहीं करते क्योंकि अन्य मतस्य की सेवा करने में पाप गिनते हैं प्रसिद्धि में उन के साधु स्त्री जनों का सुख नहीं देखते परन्तु गुप्त न जाने क्या लीला होती होगी इस की प्रसिद्धि सर्वत्र न्यून हुई है कहीं २ साधुओं की परस्त्रीगमनादि लीला प्रसिद्ध हो गई है और उन में जो २ बड़े २ हैं वे जब मरते हैं तब उन को गुप्त कुबे में फेंक दे कर प्रसिद्ध करते हैं कि अमुक महाराज सदेह वैकुण्ठ में गये सहजानन्द जी आ के ले गये हम ने बहुत प्रार्थना करी कि महाराज उन को न ले जायें क्योंकि इस महात्मा के यहाँ रहने से अच्छा है सहजानन्द जी ने कहा कि नहीं अब इन की वैकुण्ठ में बहुत आवश्यकता है, इस लिये ले जाते हैं हमने अपनी आँख से सहजानन्द जी को और विमान को देखा था जो मरने वाले थे उन को विमान में बैठा दिया ऊपर को ले गये पुष्पों की वर्षा करते गये और जब कोई साधु बीमार पड़ता है और उस के बचने की आशा नहीं होती तब कहता है कि मैं कल रात को वैकुण्ठ में जाऊँगा सुना है कि उस रात में जो धर्म के प्राण न छूटे और सूक्ष्म हो गया हो तो भी कुबे में फेंक देते हैं क्योंकि जो

उस रात को न फेंक दें तो झूठे पड़े इस लिये ऐसा काम करते होंगे । ऐसे ही जब गोकुलिया गोसाईं मरता है तब उन के चले कहते हैं कि गुसाईं जी लीला विस्तार कर गये जो इन गोसाईं स्वामी नारायण वालों का उपदेश करने का मन्त्र है वह एक ही है "श्रीकृष्णः शरणं मम" इस का अर्थ ऐसा करते हैं कि श्रीकृष्ण मेरा शरण है अर्थात् मैं श्रीकृष्ण के शरणागत हूँ परन्तु इस का अर्थ श्रीकृष्ण मेरे शरण को प्राप्त अर्थात् मेरे शरणागत हों ऐसा भी हो सकता है । ये सब जितने मत हैं वे जटपटांग शास्त्रविरुद्ध वाक्य रचना करते हैं क्योंकि उन को विद्याहीन होने से विद्या के नियमों को जानकारी नहीं है ॥

(प्रश्न) माध्व मत तो अच्छा है ? (उत्तर) जैसे अन्य मतावलंबी हैं वैसे ही माध्व भी है क्योंकि ये भी चक्रांकित होते हैं इन में चक्रांकितों से इतना विशेष है कि रामानुजीय एक बार चक्रांकित होते हैं और माध्व वर्ष २ में फिर २ चक्रांकित होते जाते हैं चक्रांकित कपाल में पीली रेखा और माध्व काली रेखा लगाते हैं एक माध्व पंडित से किसी एक महात्मा का शास्त्रार्थ हुआ था । (महात्मा) तुम ने यह काली रेखा और चांदला (तिलक) क्यों लगाया ? (शास्त्री) इस के लगाने से हम वैकुण्ठ को जायेंगे और श्रीकृष्ण का भी शरीर प्रयाम रंग था इस लिये हम काला तिलक करते हैं । (महात्मा) जो काली रेखा और चांदला लगाने से वैकुण्ठ में जाते हैं तो सबसुख काला कर लेओ तो कहां जाओगे ? क्या वैकुण्ठ के भी पार उतर जाओगे ? और जैसा श्रीकृष्ण का सब शरीर काला था वैसे तुम भी सब शरीर काला कर लिया करो तब श्रीकृष्ण का सादृश्य हो सकता है इस लिये यह भी पूर्वों के सदृश है ॥

(प्रश्न) लिङ्गांकित का मत कैसा है ? (उत्तर) जैसा चक्रांकित का, जैसे चक्रांकित चक्र से दगे जाते और नारायण के विना किसी को नहीं मानते वैसे लिङ्गांकित लिङ्गांकित से दगे जाते और विना महादेव के अन्य किसी को नहीं मानते इन में विशेष यह है कि लिङ्गांकित पाषाण का एक लिंग सोने अथवा चांदी में मढ़वा के गले में हार रखते हैं जब पानी भी पीते हैं तब उस को दिग्वा के पीते हैं उन का भी मन्त्र शैव के तुल्य रहता है ॥

ब्राह्मसमाज और प्रार्थनासमाज ॥

(प्रश्न) ब्राह्मसमाज और प्रार्थनासमाज तो अच्छा है वा नहीं ? (उत्तर) कुछ २ बातें अच्छी और बहुत बुरी हैं । (प्रश्न) ब्राह्मसमाज और प्रार्थनासमाज सब से अच्छा है क्योंकि इस के नियम बहुत अच्छे हैं । (उत्तर) नियम सर्वांग में अच्छे नहीं क्योंकि वेदविद्याहीन लोगों की कल्पना सर्वथा सत्य क्यों कर हो सकती है ? जो कुछ ब्राह्मसमाज और प्रार्थनासमाजियों ने ईसाई मत में मिलने

से थोड़े मनुष्यों को बचाये और कुछ पापाणादि मूर्खपूजा को हटाया अन्य जल ग्रन्थों के फन्दे से भी कुछ बचाये इत्यादि अक्की बातें हैं। परन्तु इन लोगों में स्वदेशभक्ति बहुत न्यून है इसाइयों के आचरण बहुत से लिये हैं खान पान विवाहादि के नियम भी बदल दिये हैं। २ अपने देश की प्रशंसा वा पूर्वजों की बड़ाई करनी तो दूर रही उस के स्थान में पेटभर निन्दा करते हैं व्याख्यानों में इसाई आदि अंगरेजों की प्रशंसा भरपेट करते हैं। ब्रह्मादि महर्षियों का नाम भी नहीं लेते प्रत्युत ऐसा कहते हैं कि बिना अंगरेजों के सृष्टि में आजपर्यन्त कोई भी विद्वान् नहीं हुआ आर्यावर्तों लोग सदा से मूर्ख बने आये हैं इन की उन्नति कभी नहीं हुई। ३ वेदादिकों की प्रतिष्ठा तो दूर रही परन्तु निन्दा करने से भी पृथक् नहीं रहते ब्राह्मणसमाज के उद्देश के पुस्तक में साधुओं की संख्या में "इसा" "मूसा" "महुम्मद" "नानक" और "चैतन्य" लिखे हैं किसी ऋषि महर्षि का नाम भी नहीं लिखा इस से जाना जाता है कि इन लोगों ने जिन का नाम लिखा है उन्हीं के मतानुसारी मत वाले हैं भला जब आर्यावर्त में उत्पन्न हुए हैं और इसी देश का अन्न जल खाया पिया अन्न भी खाते पीते हैं अपने माता, पिता, पिता-महादि के मार्ग को छोड़ दूसरे विदेशी मतों पर अधिक भुक्त जाना, ब्राह्मणसमाजों और प्रार्थनासमाजियों का एतद्देशस्थ संस्कृतविद्या से रहित अपने को विद्वान् प्रकाशित करना इलिङ्ग भाषा पढ़ के पण्डिताभिमानों हो कर भटिति एक मत चलाने में प्रवृत्त होना मनुष्यों का स्थिर और हृदिकारक काम क्यों कर हो सकता है ? ४ अंगरेज, यवन, अन्यजादि से भी खाने पीने का भेद नहीं रखा इन्होंने यही समझा होगा कि खाने और जाति भेद तोड़ने से हम और हमारा देश सुधर जायगा परन्तु ऐसी बातों से सुधार तो कहाँ है छलटा विगाड़ होता है। ५. (अथ) जातिभेद ईश्वरकृत है वा मनुष्यकृत ? (उत्तर) ईश्वरकृत और मनुष्यकृत भी जातिभेद है। (अथ) कौन सा ईश्वरकृत और कौन सा मनुष्यकृत ? (उत्तर) मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, जल, जन्तु आदि जातियाँ परमेश्वरकृत हैं जैसे पशुओं में गौ, अश्व, हस्ति, आदि जातियाँ वृक्षों में पीपल, बट, आम आदि, पक्षियों में हंस, काक वकादि, जलजन्तुओं में मत्स्य, मकरादि जाति भेद हैं जैसे मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अन्यज, जातिभेद है ईश्वरकृत है परन्तु मनुष्यों में ब्राह्मणादि को सामान्य जाति में नहीं किन्तु सामान्य विग्रेपात्मक जाति में गिनते हैं जैसे पूर्ववर्णायम व्यवस्था में लिख आये ऐसे ही गुण कर्म स्वभाव से वर्णव्यवस्था माननी अथर्व है इस मनुष्यकृतत्व उन के गुण कर्म स्वभाव से पूर्वज्ञानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि वर्णों की परीक्षा पूर्वक व्यवस्था करनी राजा और विद्वानों का काम। भोजन भेद भी ईश्वरकृत और मनुष्यकृत है जैसे सिंह मांसाहारी और चर्मा भेंसा घासादि का आहार करते हैं यत्र

देशरक्त और देश काल वस्तु भेद से भोजनभेद मनुष्यकृत है। (प्रश्न) देखो यूरोपियन लोग सुइडे जूते, कोट, पतलून, पहरते होटल में सब के हाथ का खाते हैं इसी लिये अपनी बढ़ती करते जाते हैं। (उत्तर) यह तुम्हारी भूल है क्योंकि सुसलमान अन्यज लोग सब के हाथ का खाते हैं पुनः उन की उन्नति क्यों नहीं होती ? जो यूरोपियनों में बाल्यावस्था में विवाह न करना लड़का लड़की को विद्यासुशिक्षा करना कराना, स्वयंवर विवाह होना, बुरे २ आदमियों का उपदेश नहीं होना, वे विद्वान् हो कर जिस किसी के पाखंड में नहीं फसते जो कुछ करते हैं वह सब परस्पर विचार और सभा से निश्चित करके करते हैं अपनी स्वजाति की उन्नति के लिये तनमन धन व्यय करते हैं आलस्य को छोड़ उद्योग किया करते हैं देखो ! अपने देश के बने हुए जूते को कार्यालय (आफिस) और कचहरी में जाने देते हैं इस देशी जूते को नहीं इतने ही में समझ लेंगे कि अपने देश के बने जूतों का भी कितना मान प्रतिष्ठा करते हैं उतना भी अन्य देशस्थ मनुष्यों का नहीं करते देखो ! कुछ सौ वर्ष से ऊपर इस देश में आये यूरोपियनों को हुए और आज तक ये लोग मोटे कपड़े आदि पहरते हैं जैसा कि स्वदेश में पहिरते थे परन्तु उन्होंने ने अपने देश का चाल चलन नहीं छोड़ा और तुम में से बहुत से लोगों ने उन का अनुकरण कर लिया इसी से तुम निर्बुद्धि और वे बुद्धिमान् ठहरते हैं अनुकरण का करना किसी बुद्धिमान् का काम नहीं और जो जिस काम पर रहता है उस को यथोचित करता है आप्तानुवर्त्ती बराबर रहते हैं अपने देश वालों को व्यापार आदि में सहाय देते हैं इत्यादि गुणों और अच्छे २ कर्मों से उन की उन्नति है सुइडे जूते, कोट, पतलून, होटल में खाने पीने आदि साधारण और बुरे कर्मों से नहीं बढ़े हैं और इन में जातिभेद भो है देखो ! जब कोई यूरोपियन चाहे कितने बड़े अधिकार पर और प्रतिष्ठित हो किसी अन्य देश अन्यमतवालों की लड़की वा यूरोपियन की लड़की अन्यदेश वाली से विवाह कर लेती है तो उसी समय उस का निमन्त्रण साथ बैठ कर खाने और विवाह आदि को अन्य लोग बन्द कर देते हैं यह जाति भेद नहीं तो क्या ? और तुम भोलेभालों को बहकाते हैं कि हम में जातिभेद नहीं तुम अपनी सूखता से मान भी लेते हो इस लिये जो कुछ करना वह सोच विचार के करना चाहिये जिस में पुनःपत्यान्ताप करना न पड़े ? देखो ! वैद्य और औषध की आवश्यकता रोगी के लिये है नीरोगके लिये नहीं विद्याभान् नीरोग और विद्यारहित अविद्या रोग से ग्रस्त रहता है उस रोग के कुड़ाने के लिये सत्यविद्या और सत्योपदेश है उन को अविद्या से यह रोग है कि खाने पीने ही में धर्म रहता और जाता है जब किसी को खाने पीने में अनाचार करते देखते हैं तब कहते और जानते हैं

कि वह धर्मभ्रष्ट हो गया उस की बात न सुननी और न उस के पास बैठते न उस को अपने पास बैठने देते अब कहिये कि तुम्हारी विद्या स्वार्थ के लिये है अथवा परमार्थ के लिये परमार्थ तो तभी होता कि जब तुम्हारी विद्या से उन अज्ञानियों को लाभ पहुँचता जो कहो कि वे नहीं लेते हम क्या करें यह तुम्हारा दोष है उन का नहीं क्योंकि तुम जो अपना आचरण अच्छा रखते तो तुम से प्रेम कर वे उपकृत होते सो तुमने सहस्रों का उपकार नाश करके अपना ही सुख किया सो यह तुम को बड़ा अपराध लगा क्योंकि परोपकार करना धर्म और परहानि करना अधर्म कहाता है इस लिये विद्वान् को यथायोग्य व्यवहार करके अज्ञानियों को दुःखसागर से तारने के लिये नौकारूप होना चाहिये सर्वथा मूर्खों के सदृश कर्म न करने चाहिये किन्तु जिस में उन की और अपनी दिन २ प्रति उन्नति हो वैसे कर्म करने उचित हैं। (प्रश्न) हम कोई पुस्तक ईश्वरप्रणीत या सर्वांग सत्य नहीं मानते क्या कि मनुष्यों की बुद्धि निर्भ्रान्त नहीं होती इस से उन के बनाये ग्रन्थ सब भ्रान्त होते हैं इस लिये हम सब से सत्य ग्रहण करते और असत्य को छोड़ देते हैं चाहे सत्य वेद में, वायविल में, या कुरान में और अन्य किसी ग्रन्थ में हो हम को ग्राह्य है असत्य किसी का नहीं। (उत्तर) जिस बात से तुम सत्यग्राही होना चाहते हो उसी बात से असत्यग्राही भी ठहरते हो क्योंकि जब सब मनुष्य भ्रान्तिरहित नहीं हो सकते तो तुम भी मनुष्य होने से भ्रान्तिसहित हो जब भ्रान्तिसहित के वचन सर्वांग में प्रामाणिक नहीं होते तो तुम्हारे वचन का भी विश्वास नहीं होगा फिर तुम्हारे वचन पर भी सर्वथा विश्वास न करना चाहिये जब ऐसा है तो विषयुक्त अन्न के समान त्याग के योग्य हैं फिर तुम्हारे व्याख्यान पुस्तक घनाये का प्रमाण किसी को भी न करना चाहिये "चले तो चीबे ली हब्बे ली बनने को गांठ के दो खो कर दुबे ली बन गये" कुछ तुम सर्वज्ञ नहीं जैसे कि अन्य मनुष्य सर्वज्ञ नहीं हैं कदाचित् भ्रम से असत्य को ग्रहण कर सत्य को छोड़ भी देते होंगे इस लिये सर्वज्ञ परमात्मा के वचन का सहाय हम अल्पज्ञों को अवश्य होना चाहिये जैसा कि वेद के व्याख्यान में लिख आये हैं वैसे तुम को अवश्य ही मानना चाहिये नहीं तो "यतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्टः" हो जाना है जब सर्व सत्य वेदों से प्राप्त होता है जिन में असत्य कुछ भी नहीं तो उन का ग्रहण करने में शंका करनी अपनी और पराई हानिमात्र कर लेनी है इसी बात से तुम को आर्यावर्तीय लोग अपने नहीं समझते और तुम आर्यावर्त की उन्नति के कारण भी नहीं हो सके क्योंकि तुम सब घर के भिक्षुक ठहरे हो तुम ने समझा है कि इस बात से हम लोग अपना और पराया उपकार कर सकेंगे सो न कर सको गे जैसे किसी के दो ही माता पिता सब संसार के लड़कों का पालन करने लगे सब का पालन करना तो असंभव है किन्तु इस बात से अपने लड़कों को भी नष्ट कर बैठें वैसे ही आप लोगो को

गति है भला वेदादिसत्यशास्त्री को माने बिना तुम अपने वचनों की सत्यता और असत्यता की परीचा और आर्यावर्ष की उन्नति भी कभी कर सकते हो जिस देश को रोग हुआ है उस की ओषधि तुम्हारे पास नहीं और यरोपियन् लोग तुम्हारी अपेक्षा नहीं करते और आर्यावर्षीय लोग तुम को अन्य मतियों के सदृश समझते हैं, अब भी समझ कर वेदादि के मान्य से देशोन्नति करने लगे तो भी अच्छा है जो तुम यह कहते हो कि सब सत्य परमेश्वर से प्रकाशित होता है पुनः ऋषियों के आत्माओं में ईश्वर से प्रकाशित हुए सत्यार्थ वेदों को क्यों नहीं मानते? हां, यही कारण है, कि तुम लोग वेद नहीं पढ़े और न पढ़ने की इच्छा करते हो क्यों कर तुम को वेदोक्त ज्ञान हो सकेगा ? । ६ । दूसरा जगत् के उपादान कारण के बिना जगत् की उत्पत्ति और जीव को भी उत्पन्न मानते हो जैसा ईसाई और मुसलमान आदि मानते हैं इस का उत्तर सृष्ट्युत्पत्ति और जीवेश्वर की व्याख्या में देख लीजिये कारण के बिना कार्य का होना सर्वथा असम्भव और उत्पन्न वस्तु का नाश न होना भी वैसा ही असंभव है एक यह भी तुम्हारा दोष है जो पश्चात्ताप और प्रार्थना से पापों की निवृत्ति मानते हो इसी बात से जगत् में बहुत से पाप बढ़ गये हैं क्योंकि पुरानी लोग तीर्थादि यात्रा से, जैनी लोग भी नवकार मन्त्र जप और तीर्थादि से, ईसाई लोग ईसा के विश्वास से, मुसलमान लोग "तोबाः" करने से पाप का छूट जाना बिना भोग के मानते हैं इस से पापों से भय न हो कर पाप में प्रवृत्ति बहुत हो गई है । इस बात में ब्राह्म और प्रार्थना-समाजी भी पुरानी आदि के समान हैं जो वेदों को सुनते तो बिना भोग के पाप-पुण्य की निवृत्ति न होने से पापों से डरते और धर्म में सदा प्रवृत्त रहते जो भोग के बिना निवृत्ति माने तो ईश्वर अन्यायकारी होता है । ८ । जो तुम जीव की अनन्त उन्नति मानते हो सो कभी नहीं हो सकती क्योंकि ससीम जीव के गुणकर्म स्वभाव का फल भी ससीम होना अवश्य है । (प्रश्न) परमेश्वर दयालु है ससीम कर्मों का फल अनन्त दे देगा । (उत्तर) ऐसा करे तो परमेश्वर का न्याय नष्ट हो जाय, और सत्कर्मों की उन्नति भी कोई न करे गा क्योंकि थोड़े से भी सत्कर्म का अनन्त फल परमेश्वर दे देगा और पश्चात्ताप वा प्रार्थना से पाप चाहें जितने हों छूट जायेंगे ऐसी बातों से धर्म की हानि और पाप कर्मों की वृद्धि होती है । (प्रश्न) हम स्वाभाविक ज्ञान को वेद से भी बड़ा मानते हैं नैमित्तिक को नहीं क्योंकि जो स्वाभाविक ज्ञान परमेश्वरदत्त हम में न होता तो वेदों को भी कैसे पढ़ पढ़ा समझ समझा सकते इस लिये हम लोगों का मत बहुत अच्छा है । (उत्तर) यह तुम्हारी बात निरर्थक है क्योंकि जो किसी का दिया हुआ ज्ञान होता है वह स्वाभाविक नहीं होता जो स्वाभाविक है वह सहज ज्ञान होता है और न वह घट बढ़ सकता उस से उन्नति कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि अंगुली

मनुष्यों में भी स्वाभाविक ज्ञान है तो भी वे अपनी उन्नति नहीं कर सकते और जो नैमित्तिक ज्ञान है वही उन्नति का कारण है। देखो ! तुम हम वाक्यावली में कर्त्तव्याऽकर्त्तव्य और धर्माऽधर्म कुछ भी ठीक २ नहीं जानते थे जब हम विद्वानों से पढ़े तभी कर्त्तव्याऽकर्त्तव्य और धर्माऽधर्म को समझने लगे इस लिये स्वाभाविक ज्ञान को सर्वोपरि मानना ठीक नहीं । ८ । जो आप लोगों ने पूर्व और पुनर्जन्म नहीं माना है वह ईसाई सुसलमानों से लिया होगा इस का भी उत्तर पुनर्जन्म की व्याख्या से समझ लेना परन्तु इतना समझो कि जीव शाश्वत अर्थात् नित्य है और उस के कर्म भी प्रवाहरूप से नित्य हैं कर्म और कर्मवान् का नित्य सम्बन्ध होता है क्या वह जीव कहीं निकम्मा बैठा रहा था? वा रहे गा ? और परमेश्वर भी निकम्मा तुम्हारे कहने से होता है पूर्वापर जन्म न मानने से छतहानि और अज्ञताभ्यागम नैर्घृण्य और वैषम्य दोष भी ईश्वर में आते हैं क्योंकि जन्म न हो तो पाप पुण्य के फल भोग की हानि हो जाय क्योंकि जिस प्रकार दूसरे को सुख, दुःख, हानि, लाभ पहुँचाया जाता है वैसे उस का फल विना शरीरधारण किये नहीं होता दूसरा पूर्वजन्म के पाप पुण्यों के विना सुख दुःख की प्राप्ति इस जन्म में क्यों कर होवे जो पूर्वजन्म के पाप पुण्यानुसार न हो वे तो परमेश्वर अन्यायकारी और विना भोग किये नाश के समान कर्म का फल हो जावे इस लिये यह भी बात आप लोगों की अच्छी नहीं । १० । और एक यह कि ईश्वर के विना दिव्य गुण वाले पदार्थों और विद्वानों को भी देव न माना ठीक नहीं क्योंकि परमेश्वर महादेव और जो देव न होता तो सब देवों का स्वामी होने से महादेव क्यों कहाता ?

॥ ११ ॥ एक अग्निहोत्रादि परोपकारक कर्मों को कर्त्तव्य न समझना अच्छा नहीं

॥ १२ ॥ ऋषि महर्षियों के किये उपकारों को न मान कर ईसा आदि के पीछे झुक पड़ना अच्छा नहीं ॥ १३ ॥ और विना कारण विद्यावेदों के अन्य कार्य विद्याओं की प्रवृत्ति मानना सर्वथा असंभव है । १४ । और जो विद्या का चिन्ह यज्ञोपवीत और गिखा को छोड़ सुसलमान ईसाइयों के सदृश बन बैठना यह भी व्यर्थ है जब पतलून आदि वस्त्र पहिरते ही और "तमगों" की इच्छा करते ही तो क्या यज्ञोपवीत आदि का कुछ बड़ा भार हो गया था ? ॥ १५ ॥ और ब्रह्मा से ले कर पीछे आर्यावर्ष में बहुत से विद्वान् ही गये हैं उन की प्रशंसा न करके यूरोपियन् ही की स्तुति में उतर पड़ना पक्षपात और खुशामद् के विना क्या कहा जाय ?

॥ १६ ॥ और बीजाङ्कुर के समान जड़ चेतन के योग से जीवोत्पत्ति मानना उत्पत्ति के पूर्व जीवतत्त्व का न मानना और उत्पन्न का नाश न मान पूर्वापर विद्वद् हैं जो उत्पत्ति के पूर्व चेतन और जड़ वस्तु न था तो जीव कहाँ से आया और संयोग किन का हुआ जो पुन दीनों को सनातन मानते ही तो ठीक है परन्तु सृष्टि के पूर्व ईश्वर के विना दूसरे किसी तत्त्व को न मानना यह आप का पक्ष व्यर्थ ही

जाय गा इस लिये जो उन्नति करना चाहो तो "आर्यसमाज" के साथ मिल कर उस के उद्देश्यानुसार आचरण करना स्वीकार कौजिये नहीं तो कुछ हाथ न लगे गा क्यों कि हम और आप को अतिउचित है कि जिस देश के पदार्थों से अपना शरीर बना अब भी पालन होता है आगे होगा उस को उन्नति तब मन धन से सब जने मिल कर प्रीति से करें इस लिये जैसा आर्यसमाज आर्यावर्त देश की उन्नति का कारण है वैसा दूसरा नहीं हो सकता यदि इस समाज को यथावत् सहायता दें तो बहुत अच्छी बात है क्यों कि समाज का सौभाग्य बढ़ाना ससु-दाय का काम है एक का नहीं । (प्रश्न) आप सब का खंडन करते ही आते हो परन्तु अपने २ धर्म में सब अच्छे हैं खंडन किसी का न करना चाहिये जो करते हो तो आप इन से विशेष क्या बतलाते हो ? जो बतलाते हो तो क्या आप से अधिक वा तुल्य कोई पुरुष न था ? और न है ? ऐसा अभिमान करना आप को उचित नहीं क्योंकि परमात्मा की सृष्टि में एकर से अधिक, तुल्य और न्यून बहुत हैं किसी को घमंड करना उचित नहीं ? (उत्तर) धर्म सब का एक होता है वा अनेक ? जो कही अनेक होते हैं तो एक दूसरे से विरुद्ध होते हैं वा अविरुद्ध जो कही कि विरुद्ध ? होते हैं तो एक के बिना दूसरा धर्म नहीं हो सकता और जो कही कि अविरुद्ध हैं तो पृथक् २ होना व्यर्थ है इस लिये धर्म और अधर्म एक ही है अनेक नहीं यही हम विशेष कहते हैं कि जैसे सब संप्रदायों के उपदेशों को कोई राजा इकट्ठा करे तो एक सहस्र से कम नहीं होंगे परन्तु इन का सुख भाग देखो तो पुरानी, किरानी जैनी और कुरानी चार ही हैं क्यों कि इन चारों में सब संप्रदाय आ जाते हैं कोई राजा उन की सभा करके जिज्ञासु हो कर प्रथम वाममार्गी से पूछे हे महाराज ! मैंने आज तक कोई गुरु और न किसी धर्म का ग्रहण किया है कहिये सब धर्मों में से उत्तम धर्म किस का है ? जिस को मैं ग्रहण करूँ । (वाममार्गी) हमारा है । (जिज्ञासु) ये नौ सौ निन्व्यानधे कैसे हैं ? (वाममार्गी) सब भूठे और नरकगामी हैं क्यों कि "कौलात्परतर-त्राप्ति" इस वचनके प्रमाण से हमारे धर्म से परे कोई धर्म नहीं है । (जिज्ञासु) आप का क्या धर्म है ? (वाममार्गी) भगवती का मानना, मयसांसादि पंच मकारों का सेवन और रुद्रवामन आदि चौसठ तन्त्रों का मानना इत्यादि जो तू सुक्ति की इच्छा करता है तो हमारा चेला हो जा । (जिज्ञासु) अच्छा परन्तु और महात्माओं का भी दर्शन कर पूछ पाऊँ आर्जुं गा यथात् जिस में मेरी ब्रह्मा और प्रीति होगी उस का चेला हो जाऊँगा । (वाममार्गी) अरे क्यों भ्रान्ति में पड़ा है ? ये लोग तुम्ह को बहका कर अपने जाल में फसादेंगे किसी के पास मत जावे हमारे ही शरणागत हो जा नहीं तो पकतावे गा । देव ! हमारे मत में भोग और मोक्ष दोनों हैं । (जिज्ञासु) अच्छा देख तो आज आगे चल कर

शैव के पास जा के पूछा तो ऐसा ही उत्तर उस ने दिया इतना विशेष कहा कि बिना गिव, बद्राज, भस्म धारण और लिंगार्चन के मुक्ति कभी नहीं होती वह उस को छोड़ नवीन वेदान्ती जी के पास गया । (जिज्ञासु) कछो महराज ! आप का धर्म क्या है ? (वेदान्ती) हम धर्माधर्म कुछ भी नहीं मानते हम साक्षात् ब्रह्म हैं हम में धर्माधर्म कहां हैं ? यह जगत् सब मिथ्या है और जो ज्ञानी शुद्ध चेतन हुआ चाहे तो अपने को ब्रह्म मान जीवभाव को छोड़ नित्यमुक्त हो जायगा । (जिज्ञासु) जो तुम ब्रह्म नित्य मुक्त हो तो ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव तुम में क्यों नहीं ? और शरीर में क्यों बंधे हो ? (वेदान्ती) तुम्हें को शरीर दीखते हैं इसी से तू भ्रान्त है हम को कुछ नहीं दीखता बिना ब्रह्म के । (जिज्ञासु) तुम देखने वाले कौन और किस को देखते हो ? (वेदान्ती) देखने वाला ब्रह्म और ब्रह्म को ब्रह्म देखता है । (जिज्ञासु) क्या दो ब्रह्म हैं ? (वेदान्ती) नहीं अपने आप को देखता है । (जिज्ञासु) क्या कोई अपने कंधे पर आप चढ़ सकता है तुम्हारी बात कुछ नहीं केवल पागलपने की है ! यह आगे चल कर जैनियों के पास जा के पूछा वन्हीं ने भी वैसा ही कहा परन्तु इतना विशेष कहा कि “जिनधर्म” के बिना सब धर्म खोटा जगत् का कर्ता अनादि ईश्वर कोई नहीं जगत् अनादि काल से जैसा का वैसा बना है और बना रहैगा या तू हमारा चेला हो जा, क्योंकि हम सम्यक्त्वो अर्थात् सब प्रकार से अच्छे हैं । इस बातों को मानते हैं जैन मार्ग से भिन्न सब मिथ्यात्वो हैं । आगे चल के ईसाई से पूछा उस ने वाममार्गों के तुल्य सब जवाब सवाल किये इतना विशेष बतलाया “सब मनुष्य पापी हैं अपने सामर्थ्य से पाप नहीं छूटता बिना ईसा पर विश्वास के पवित्र हो कर मुक्ति को नहीं पा सकता ईसा ने सब के प्रायश्चित्त के लिये अपने प्राण दे कर दया प्रकाशित की है तू हमारा ही चेला हो जा” । जिज्ञासु सुन कर मौलवी साहब के पास गया उन से भी ऐसे ही जवाब सवाल हुए इतना विशेष कहा “ला शरीर शुद्ध उस के पैगम्बर और कुरानशरीफ के बिना माने कोई निजात नहीं पा सकता । जो इस मजहब को नहीं मानता वह दीवानी और काफिर है वाजबुल्लत है” । (जिज्ञासु) सुन कर वैष्णव के पास गया वैसा ही संवाद हुआ इतना विशेष कहा कि “हमारे तिलक छापे देख कर यमराज डरता है” जिज्ञासु ने मन में रामभा कि जब मन्थर, मन्थी, पुलिस के सिपाही, चोर, डाकू और गन्धु नहीं डरते तो यमराज के गण क्यों डरेंगे ? फिर आगे चला तो सब मत वालों ने अपने २ को सच्चा कहा कोई हमारा कबीर मन्ना, कोई नानक, कोई दादू, कोई बलभ, कोई सहजानन्द, कोई माधव, आदि को बड़ा और अपतार बतलाते सुना महर्षी से पूछा उन के परमेश्वर एक दूसरे का विरोध देण विशेष निश्चय किया कि इन में कोई गुण करने योग्य नहीं क्योंकि एक २ की भूट में

नी सौ निन्न्यानवे गवाह हो गये जैसे झूठे दुकानदार वा वेश्या और भडुआ आदि अपनी २ वस्तु की बड़ाई दूसरे की बुराई करते हैं वैसे ही वे हैं ऐसा जान :-

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् । समित्पाणिः श्रोत्रियं
ब्रह्मनिष्ठम् ॥ तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक् प्रशान्तचित्ताय
शमान्विताय । येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तान्तरवतो
ब्रह्मविद्याम् ॥ मुण्डक १ । खं० २ । मं १२ । १३ ॥

उस सत्य के विज्ञानार्थं वह समित्पाणि अर्थात् हाथ जोड़ अरिक्त हस्त हो कर वेदवित् ब्रह्मनिष्ठ परमात्मा को जानने हारे गुरु के पास जावे इन पाखण्डियों के जाल में न गिरे ॥ १ ॥ जब ऐसा जिज्ञासु, विद्वान् के पास जाय शान्तचित्त जितेन्द्रिय समीप प्राप्त जिज्ञासु को यद्यार्थं ब्रह्मविद्या परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का उपदेश करे और जिस २ साधन से वह श्रोता धर्मार्थं काम मोक्ष और परमात्मा को जान सके वैसी शिक्षा किया करे । जब वह ऐसे पुरुष के पास जा कर बोला कि महाराज अब इन संप्रदायों के बखेड़ों से मेरा चित्त भ्रान्त हो गया क्योंकि जो मैं इन में से किसी एक का चेला होऊँगा तो नी सौ निन्न्यानवे से विरोधी होना पड़ेगा जिस के नी सौ निन्न्यानवे शत्रु और एक मित्र है उस को सुख कभी नहीं हो सकता, इस लिये आप मुझ को उपदेश कीजिये जिस को मैं ग्रहण करूँ । (आत्मविद्वान्) ये सब मत अविद्याजन्य विद्याविरोधी हैं मूर्ख पाप्मर और वांगली मनुष्य को वहका कर अपने जाल में फसा के अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं वे विचारे अपने मनुष्य जन्म के फल से रहित हो कर अपने मनुष्य जन्म को व्यर्थ गमाते हैं । देख ! जिस बात में ये सहस्र एक मत हों वह वेदमत ग्राह्य है और जिस में परस्पर विरोध हो वह कल्पित, झूठा, अधर्म, अग्राह्य है । (जिज्ञासु) इस की परीक्षा कैसे हो ? (आत्म) तू जा कर इन २ बातों को पूँछ सब की एक सन्धति हो जायगी तब वह उन सहस्रों की मंडली के बीच में खड़ा हो कर बोला कि सुनो सब लोगो ! सत्यभाषण में धर्म है वा मिथ्या में ? सब एक स्वर हो कर बोले कि सत्यभाषण में धर्म और असत्यभाषण में अधर्म है । वैसे ही विद्या पढ़ने, ब्रह्मचर्य करने, पूर्ण युवावस्था में विवाह, सत्सङ्ग, पुण्यार्थ, सत्यव्यवहार आदि में धर्म और अविद्या ग्रहण ब्रह्मचर्य न करने, व्यभिचार करने, कुसंग, असत्य व्यवहार, छल, कपट, हिंसा, परहानि करने आदि कर्मों में सब ने एक मत हो के कहा कि विद्यादि के ग्रहण में धर्म और अविद्यादि के ग्रहण में अधर्म तब जिज्ञासु ने सब से कहा कि तुम इसी प्रकार सब जने एकमत हो सत्यधर्म की उन्नति और मिथ्या मार्ग की हानि क्यों नहीं करते हो ? वे सब बोले जो हम ऐसा करें

तो हम को कौन पूछे ? हमारे चेले हमारी आज्ञा में न रहें जोविका नष्ट हो जाय, फिर जो हम आनन्द कर रहे हैं सो सब हाथ से जाय इस लिये हम जानते हैं तो भी अपने २ मत का उपदेश और आग्रह करते ही जाते हैं क्योंकि "रोटी खाइये गकर से और दुनियां ठगिये मकर से" ऐसी बात है देखो ! संसार में सूखे सूखे मनुष्य को कोई नहीं देता और न पूछता जो कुछ ढोंगवाजी और धूर्तता करता है वही पदार्थ पाता है । (जिज्ञासु) जो तुम ऐसा पाखंड चला कर अन्य मनुष्यों को ठगते हो तुम को राजा दण्ड क्यों नहीं देता ? (मतवाले) हम ने राजा को भी अपना चेला बना लिया है हम ने पक्का प्रवन्ध किया है छूटे गा नहीं । (जिज्ञासु) जब तुम कुल से अन्यमतस्थ मनुष्यों को ठग उन की हानि करते हो परमेश्वर के सामने क्या उत्तर दोगे ? और घोरनरक में पड़ोगे थोड़े जीवन के लिये इतना बड़ा अपराध करना क्यों नहीं छोड़ते ? (मतवाले) जब जैसा होगा तब देखा जाय गा नरक और परमेश्वर का दण्ड जब होगा तब होगा अब तो आनन्द करते हैं हम को प्रसन्नता से धनादि पदार्थ देते हैं कुछ बलात्कार से नहीं लेते । फिर राजा दण्ड क्यों देवे ? (जिज्ञासु) जैसे कोई छोटे बालक को फुसला के धनादि पदार्थ हर लेता है जैसे उस को दण्ड मिलता है वैसे तुम को क्यों नहीं मिलता ? क्योंकि :—

अज्ञो भवति वैवालः पिता भवति मन्त्रदः ॥ मनु० अ० २ । श्लो० ५३ ॥

जो ज्ञानरहित होता है वह बालक और जो ज्ञान का देने हारा है वह पिता और वह कहता है जो बुद्धिमाम् विद्वान् है वह तो तुम्हारी बातों में नहीं फसता किन्तु अज्ञानी लोग जो बालक के सदृश हैं उन को ठगने में तुम को राजदण्ड अवश्य होना चाहिये । (मतवाले) जब राजा प्रजा सब हमारे मत में हैं तो हम को दण्ड कौन देने वाला है ? जब ऐसी व्यवस्था होगी तब इन बातों को छोड़ कर दूसरी व्यवस्था करेंगे । (जिज्ञासु) जो तुम बैठे २ व्यर्थ माल मारते हो सो विद्याभ्यास कर गृहस्थों के लड़के लड़कियों को पढ़ाओ तो तुम्हारा और गृहस्थों का कल्याण हो जाय । (मतवाले) जब हम बाल्यावस्था से ले कर मरण तक के सुखों को छोड़े बाल्यावस्था से युवावस्थापर्यन्त विद्या पढ़ने में रहें पर्याप्त पढ़ने में और उपदेश करने में लक्ष भर परिश्रम करें हम को क्या प्रयोजन ? हम को ऐसे ही लाखों रुपये मिल जाते हैं चैन करते हैं उस को क्यों छोड़ें ? (जिज्ञासु) इस का परिणाम तो बुरा है देखो ! तुम को बड़े रोग होते हैं शीघ्र मर जाते हो बुद्धिमानों में निन्दित होते हो फिर भी क्यों नहीं समझते ? (मतवाले) अरे भाई !

टकार्थर्मपृकाकर्म टकाहिपरमंपदम् ।

यस्य गृहे टकानास्ति हा ! टकाटकटकायते ॥ १ ॥

आनाश्रंशकलाः प्रोक्ता रूप्योऽसौ भगवान् स्वयम् ।

अतस्तं सर्वं इच्छन्ति रूप्यं हि गुणवत्तमम् ॥ २ ॥

तु लड़का है संसार की बातें नहीं जानता देख टके के बिना धर्म, टका के बिना कर्म, टका के बिना परमपद नहीं होता जिस के घर में टका नहीं है वह हाय! टका टका करता २ उत्तम पदार्थों को टक टक देखता रहता है कि हाय! मेरे पास टका होता तो इस उत्तम पदार्थ को मैं भोगता ॥ १ ॥ क्योंकि सब कोई सोलह कलायुक्त अदृश्य भगवान् का कथन श्रवण करते हैं सो तो नहीं देखता परन्तु सोलह आने और जैसे कौड़ीरूप अंग कलायुक्त जो रूपैया है वही साक्षात् भगवान् है इसी लिये सब कोई रूपयों की खोज में लगे रहते हैं क्योंकि सब काम रूपयों से सिद्ध होते हैं ॥ २ ॥ (जिज्ञासु) ठीक है तुम्हारी भीतर की लीला बाहर गई तुम नेजितना यह पाखण्ड खड़ा किया है वह सब अपने सुख के लिये किया है परन्तु इस में जगत् का नाश होता है क्योंकि जैसा सत्यापदेश में संसार को लाभ पहुँचता है वैसी ही असत्यापदेश से हानि होती है। जब तुम को धन का ही प्रयोजन था तो नौकरी और व्यापारादि कर्म करके धन को इकट्ठा क्यों नहीं कर लेते हो? (मत वाले) उस में परिश्रम अधिक और हानि भी हो जाती है परन्तु इस हमारी लीला में हानि कभी नहीं होती किन्तु सर्वदा लाभ ही लाभ होता है। देखो! तुलसी दल डाल के चरणामृत दे, कंठी बांध देते चेला सूड़ने से जन्म भर को पशुवत् हो जाता है फिर चाहे जैसे चलावे चल सकता है। (जिज्ञासु) ये लोग तुम को बहुत सा धन किस लिये देते हैं। (मत वाले) धर्म स्वर्ग और मुक्ति के अर्थ। (जिज्ञासु) जब तुम ही सुक्त नहीं और न मुक्ति का स्वरूप वा साधन जानते हो तो तुम्हारी सेवा करने वालों को क्या मिलेगा? (मत वाले) क्या इस लोक में मिलता है? नहीं किन्तु मर कर पश्चात् परलोक में मिलता है जितना ये लोग हम को देते हैं और सेवा करते हैं वह सब इन लोगों को परलोक में मिल जाता है। (जिज्ञासु) इन को तो दिया हुआ मिल जाता है वा नहीं, तुम लेने वालों को क्या मिलेगा? नरक वा अन्य कुछ? (मत वाले) हम भजन करा करते हैं इस का सुख हमको मिलेगा। (जिज्ञासु) तुम्हारा भजन तो टका ही के लिये है वे सब टके यहीं पड़े रहेंगे और जिस मांस पिंड को यहां पालते हो वह भी भस्म हो कर यहीं रह जायगा, जो तुम परमेश्वर का भजन करते होते तो तुम्हारा आत्मा भी पवित्र होता। (मत वाले) क्या हम अशुद्ध हैं? (जिज्ञासु) भीतर के बड़े मैले हो। (मत वाले) तुम ने कैसे जाना? (जिज्ञासु) तुम्हारे चाल चलन व्यवहार से। (मत वाले) महात्माओं का व्यवहार हाथी के दांत के समान होता है जैसे हाथी के दांत खाने के भिन्न और दिखलाने के

भिन्न होते हैं वैसे ही भीतर से हम पवित्र हैं और बाहर से लीनामात्र करते हैं। (जिज्ञासु) जो तुम भीतर से शुद्ध होते तो तुम्हारे बाहर के काम भी शुद्ध होते इस लिये भीतर भी मैले हो। (मतवाले) हम चाहें जैसे हों परन्तु हमारे चले तो अच्छे हैं। (जिज्ञासु) जैसे तुम शुद्ध हो वैसे तुम्हारे चले भी होंगे। (मतवाले) एक मत कभी नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्यों के गुण कर्म स्वभाव भिन्न २ हैं। (जिज्ञासु) जो बाल्यावस्था में एक ही गिज्ञा हो सत्यभाषणादि धर्म का ग्रहण और मिथ्याभाषणादि अधर्म का त्याग करें तो एक मत अवश्य हो जाय और दो मत अर्थात् धर्मात्मा और अधर्मात्मा सदा रहते हैं वे तो रहें परन्तु धर्मात्मा अधिक होने और अधर्मात्मा न्यून होने से संसार में सुख बढ़ता है और जब अधर्मात्मा अधिक होते हैं तब दुःख जब सब विद्वान् एकसा उपदेश करें तो एक मत होने में कुछ भी विनम्र न हो। (मतवाले) आज कल कलियुग है सत्ययुग की बात मत चाहो। (जिज्ञासु) कलियुग नाम काल का है काल निष्क्रिय होने से कल धर्माधर्म के करने में साधक बाधक नहीं किन्तु तुम ही कलियुग की मूर्तियां बन रहे हो जो मनुष्य ही सत्ययुग कलियुग न हों तो कोई भी संसार में धर्मात्मा नहीं होता ये सब संग के गुण दोष हैं स्वाभाविक नहीं इतना कह कर आप के पास गया। उन से कहा कि महाराज ! तुम ने मेरा उद्धार किया नहीं तो मैं भी किसी के जाल में फस कर नष्ट भूँट हो जाता अब मैं भी इन पाखण्डियों का खंडन और वेदोक्त सत्यमत का मंडन किया करूँगा। (आप) यही सब मनुष्यों का विग्रेष विद्वान् और संन्यासियों का काम है कि सब मनुष्यों को सत्य का मंडन और असत्य का खंडन पढ़ा सुना के सत्योपदेश से उपकार पहुंचाना चाहिये।

(प्रश्न) जो ब्रह्मचारी, संन्यासी हैं वे तो ठीक हैं ? (उत्तर) ये आश्रम तो ठीक हैं परन्तु आज कल इन में भी बहुत सी गड़बड़ है कितने ही नाम ब्रह्मचारी रखते हैं और झूठ नृत्त जटा बढ़ा कर सिंहाड़े करते और जप, पुरस्तरणादि में फसे रहते हैं धिया पढ़ने का नाम नहीं लेते कि जिस हेतु से ब्रह्मचारी नाम होता है उस ब्रह्म अर्थात् वेद पढ़ने में परिश्रम कुछ भी नहीं करते वे ब्रह्मचारी बकरी के गले के स्तन के सद्ग निरर्थक हैं और जो वैसे संन्यासी धियाधीन दण्ड कमण्डलु ले भिन्नमात्र करते फिरते हैं जो कुछ भी वेदमार्ग की उन्नति नहीं करते छोटी अवस्था में संन्यास ले कर घूमा करते हैं और धियाभ्यास को छोड़ देते हैं ऐसे ब्रह्मचारी और संन्यासी धर धर जल, खल, पाषाणादि मूर्तियों का दर्शन, पूजन, करते फिरते धिया जान कर भी मौन हो रहते, एकान्त देग में यज्ञेय का पी कर मोते पड़े रहते हैं और इत्यादि में फस कर निन्दा, कुचेश कर के निर्वाह करते कापाय यस्त्र और दण्ड ग्रहणमात्र से अपने को कृतकृत्य समझते और सर्वोत्कृष्ट जान कर उत्तम काम नहीं करते वैसे संन्यासी भी जगत् में धर्म

वास करते हैं और जो सब जगत् का हित साधते हैं। वे ठीक हैं। (प्रश्न) गिरी, पुरी, भारती, आदि गुसाईं लोग तो अच्छे हैं ? क्योंकि मंडली बांध कर इधर उधर घूमते हैं सैकड़ों साधुओं को आनन्द कराते हैं और सर्वत्र अद्वैत मत का उपदेश करते हैं और कुछ २ पढ़ते पढ़ाते भी हैं इस लिये वे अच्छे होंगे। (उत्तर) ये सब दृग् नाम पीछे से कल्पित किये हैं सनातन नहीं, उन की मण्डलियाँ केवल भोजनार्थ हैं बहुत से साधु भोजन ही के लिये मंडलियों में रहते हैं दम्भी भी हैं क्योंकि एक को महन्त बना सायंकाल में एक महन्त जो कि उन में प्रधान होता है वह गद्दी पर बैठ जाता है सब ब्राह्मण और साधु खड़े हो कर हाथ में पुष्प ले:-

नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च ।

व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तम् ॥

इत्यादि श्लोक पढ़ के हर हर बोल उन के ऊपर पुष्पवर्षा कर साष्टांग नमस्कार करते हैं जो कोई ऐसा न करे उस को वहाँ रहना भी कठिन है यह दृग् संसार को दिखलाने के लिये करते हैं जिस से जगत् में प्रतिष्ठा हो कर माल मिले कितने ही मठधारी गृहस्थ हो कर भी संन्यास का अभिमानमात्र करते हैं कर्म कुछ नहीं संन्यास का वही कर्म है जो पाँचवें समुदास में लिख आये हैं उस को न करके व्यर्थ समय खोते हैं। जो कोई अच्छा उपदेश करे उस के भी विरोधी होते हैं बहुधा ये लोग भक्त, रुद्राक्ष धारण करते और कोई २ शैव संप्रदाय का अभिमान रखते हैं और जब कभी शास्त्रार्थ करते हैं तो अपने मत अर्थात् शंकराचार्योक्त का स्थापन और चक्राङ्कित आदि के खंडन में प्रवृत्त रहते हैं वेद-मार्ग की उत्पत्ति और यावत्पाखंड मार्ग हैं तावत् के खंडन में प्रवृत्त नहीं होते ये संन्यासी लोग ऐसा समझते हैं कि हम को खण्डन मंडन से क्या प्रयोजन ? हम तो महात्मा हैं ऐसे लोग भी संसार में भाररूप हैं। जब ऐसे हैं तभी तो वेदमार्ग-विरोधी वाममार्गादि संप्रदायी, ईसाई, सुसलमान, जैनी आदि बढ़ गये अब भी बढ़ते जाते हैं और इन का नाश होता जाता है तो भी इन की आंख नहीं खुलती ! खुले कहां से ? जो कुछ उन के मन में परीपकार बुद्धि और कर्तव्य कर्म करने में छप्पाह होवे किन्तु ये लोग अपनी प्रतिष्ठा खाने पीने के सामने अन्य अधिक कुछ भी नहीं समझते और संसार की निन्दा से बहुत डरते हैं पुनः (लोकैषणा) शोक में प्रतिष्ठा (वित्तैषणा) धन बढ़ाने में तत्पर होकर विषय भोग (पुत्रैषणा) पुत्रवत् शिष्यों पर मोहित होना इन तीन एषणाओं का त्याग करना उचित है जब एषणा ही नहीं छूटी पुनः संन्यास क्यों कर हो सकता है ? अर्थात् पक्षपात रहित वेदमार्गोपदेश से जगत् के कल्याण करने में अहर्निश प्रवृत्त रहना संन्यासियों का मुख्य काम है जब अपने २ अधिकार कर्मों को नहीं करते पुनः संन्यासादि नाम

धराना व्यर्थ है नहीं तो कैसे गृहस्थ व्यवहार और स्वार्थ में परिश्रम करते हैं उन से अधिक परिश्रम परोपकार करने में संन्यासी भी तत्पर रहें। तभी सब शास्त्रम उन्नति पर रहें। देखो ! तुम्हारे सामने पाखण्ड मत बढ़ते जाते हैं इसाई सुसलमान तक होते जाते हैं तनिक भी तुम से अपने घर की रक्षा और दूसरों को मिलाना नहीं बन सकता? बने तो तब जब तुम करना चाहो ! जब लीं वर्तमान और भविष्यत् में उन्नतिशील नहीं होते तब लीं आर्यावर्ष और अन्यदेशस्थ मनुष्यों की वृद्धि नहीं होती जब वृद्धि के कारण, वेदादिसत्यशास्त्रों का पठन पाठन ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के यथावत् अनुष्ठान सत्योपदेश होते हैं तभी देशोन्नति होती है। चेत रखो ! बहुत सी पाखण्ड की बातें तुम को सब सुच दीख पड़ती हैं जैसे कोई साधु दुकानदार पुत्रादि देने की सिद्धियां बतलाता है तब उस के पास बहुत सी जातों हैं और हाथ जोड़ कर पुत्र मांगती हैं और बाबा जी सब को पुत्र होने का आशीर्वाद देता है उन में से जिसर को पुत्र होता है वह २ समझती है कि बाबा जी के वचन से हुआ जब उस से कोई पूछे कि सुअरी, कुसी, गधी और कुफुटी आदि के कच्चे वच्चे किस बाबा जी के वचन से होते हैं ? तब कुछ भी उत्तर न दे सकेगी ! जो कोई कहे कि मैं लड़के को जीता रख सकता हूँ तो आप ही क्यों मर जाता है ? कितने ही धूर्त लोग ऐसी माया रचते हैं कि बड़े २ बुद्धिमान् भी धोखा खा जाते हैं जैसे धनसारी के ठग, वे लोग पांच सात मिन के दूर २ देश में जाते हैं जो शरीर से लीकडाल में अच्छा होता है उस को सिद्ध बना लेते हैं जिस नगर वा ग्राम में धनाढ्य होते हैं उस के समीप वांगल में उस सिद्ध को बैठते हैं उस के साधक नगर में जा के अज्ञान बन के जिस किसी को पूछते हैं कि तुम ने ऐसे महात्मा को यहाँ कहीं देखा वा नहीं ? वे ऐसा सुन कर पूछते हैं कि वह महात्मा कौन और कैसा है ? साधक कहता है बड़ा सिद्ध पुरुष है मन की बातें बतला देता है जो सुख से कहता है, वह ही जाता है बड़ा योगीराज है उस के दर्शन के लिये हम अपने घरदार छोड़ कर देखते फिरते हैं मरे किसी से सुना था कि वे महात्मा इधर की ओर आये हैं गृहस्थ कहता है जब यह महात्मा तुम को मिले तो हम को भी कहना दर्शन करेंगे और मन की बातें पूछेंगे इसी प्रकार दिन भर नगर में फिरते और प्रत्येक को उस सिद्ध की बात कह कर रात्रि को एकट्टे सिद्ध साधक हो कर खाते पीते और सो रहते हैं फिर भी प्रातःकाल नगर वा ग्राम में जा के उसी प्रकार दो तीन दिन कह कर फिर चार्थ साधक किसी एक २ धनाढ्य से बोलते हैं कि यह महात्मा मिल गये तुम को दर्शन करना हो तो चलो वे जब तैयार होते हैं तब साधक उन से पूछते हैं कि तुम क्या बात पूछना चाहते हो ? हम से कहीं कोई पुत्र की इच्छा करता, कोई धन की, कोई रोगनिवारण की और कोई गन्तु के जीतने की उन को वे साधक ले जाते

हैं सिद्ध साधकों ने, जैसा सङ्केत किया होता है अर्थात् जिस को धन की इच्छा ही उस को दाहनी और, जिस को पुत्र की इच्छा ही उस को सन्मुख, जिस को रोग-निवारण की इच्छा ही उस को बाँई और, और जिस को शत्रु जीतने की इच्छा ही उस को पीछे से ले जा के सामने वालों के बीच में बैठा लेते हैं जब नमस्कार करते हैं उसी समय वह सिद्ध अपनी सिद्धाई की झपट से उच्चस्वर से बोलता है "क्या यहाँ हमारे पास पुत्र रखे हैं जो तू पुत्र की इच्छा करके आया है?" इसी प्रकार धन की इच्छा वाले से "क्या यहाँ धैलियाँ रखी हैं जो धन की इच्छा करके आया?" "फकीरों" के पास धन कहां धरा है? रोग वाले से "क्या हम वैद्य हैं जो तू रोग छुड़ाने की इच्छा से आया? हम वैद्य नहीं जो तेरा रोग छुड़ावे जा किसी वैद्य के पास" परन्तु जब उस का पिता रोगी हो तो उस का साधक अंगूठा, जो माता रोगी हो तो तर्जनी जो भाई रोगी हो तो मध्यमा, जो स्त्री रोगी हो तो अनामिका, जो कन्या रोगी हो तो कनिष्ठिका, अंगुली चला देता है। उस को देख वह सिद्ध कहता है कि तेरा पिता रोगी है। तेरी माता, तेरा भाई, तेरी स्त्री और तेरी कन्या रोगी है। तब तो वे चारों के चारों बड़े मोहित हो जाते हैं साधक लोग उन से कहते हैं देखो! जैसा हज़र ने कहा था वैसे ही हैं वा नहीं? "गृहस्थ" कहते हैं हाँ जैसा तुम ने कहा था वैसे ही है तुम ने हमारा बड़ा उपकार किया और हमारा भी बड़ा भाग्योदय था जो ऐसे महात्मा मिले जिन के दर्शन करके हम कतार्थ हुए। साधक कहता है सुनो भाई! ये महात्मा मनोगामी हैं यहाँ बहुत दिन रहने वाले नहीं जो कुछ इन का आशीर्वाद लेना ही तो अपने २ सामर्थ्य के अनुकूल इन की तन, मन, धन से सेवा करो क्योंकि "सेवा से मेवा मिलती है" जो किसी पर प्रसन्न हो गये तो जानें क्या बर दे दें "सन्तों की गति अपार है" "गृहस्थ" ऐसे लक्ष्मी पत्नी की बातें सुन कर बड़े हर्ष से उन की प्रशंसा करते हुए घर की ओर जाते हैं साधक भी उन के साथ ही चले जाते हैं क्योंकि कोई उन का पाखंड खोल न देवे उन धनाढ्यों का जो कोई मित्र मिला उस से प्रशंसा करते हैं इसी प्रकार जो २ साधकों के साथ जाते हैं उन २ का वृत्तान्त सब कह देते हैं जब नगर में हल्ला मचता है कि असुक ठीर एक बड़े भारी सिद्ध आये हैं चलो उन के पास। जब मेला का मेला जा कर बहुत से लोग पूछने लगते हैं कि महाराज मेरे मन का वृत्तान्त कहिये तब तो व्यवस्था के बिगड़ जाने से चुप चाप हो कर मौन साध जाता है और कहता है कि हम को बहुत मत सताओ तब तो भट उस के साधक भी कहने लग जाते हैं जो तुम इन को बहुत सताओगे तो चले आयेगे और जो कोई बड़ा धनाढ्य होता है वह साधक को असग बुला के पूछता है कि हमारे मन की बात कहला दो तो हम सब मानें। साधक ने पूछा कि क्या बात है? धनाढ्य ने उस से कह दी तब उस की

उसी प्रकार के संकेत से ले जा के बैठाऊ देता है उसे सिद्ध ने समझ के भट्ट कह दिया तब तो सब मेला भर ने सुन ली कि अच्छी ! बड़े ही सिद्ध पुरुष हैं कोई मिठाई, कोई पैसा, कोई रुपया, कोई असर्फी, कोई कपड़ा और कोई सीधा सामग्री भेंट करता फिर जब तक मानता बहुत सी रही तब तक यथेष्ट लूट करते हैं और किन्हीं २ दो एक आंख के अंधे गांठ के पूरे को पुत्र होने का आशीर्वाद वा राख उठा के दे देता है और उस से सहस्र रुपये ले कर कह देता है कि जो तेरी सच्ची भक्ति होगी तो पुत्र हो जायगा। इस प्रकार के बहुत से ठग होते हैं जिन की विद्वान् ही परोक्षा कर सकते हैं और कोई नहीं इसलिये वेदादि विद्या का पटना सखंग करना होता है जिस से कोई उस को ठगाई में न फसा सके श्रीरों को भी बचा सके क्योंकि मनुष्य का नेत्र विद्या ही है विना विद्या शिक्षा के ज्ञान नहीं होता जो बाह्यावस्था से उत्तम शिक्षा पाते हैं वे ही मनुष्य और विद्वान् होते हैं जिन को कुसङ्ग है वे दुष्ट पापी महामूर्ख हो कर बड़े दुःख पाते हैं इसी लिये ज्ञान को विशेष कहा है कि जो जानता है वही मानता है ॥

न वेत्ति यो यस्य गुणप्रकर्षं स तस्य निन्दां सततं करोति ।

यथा किराती करिकुम्भजाता मुक्ताः परित्यज्य विभर्ति गुञ्जाः॥

वृ० चा० अ० ११ । श्लो० १२ ॥

जो जिस का गुण नहीं जानता वह उस की निन्दा निरन्तर करता है जैसे जंगली भोल गजमुक्ताओं को छोड़ गुञ्जा का हार पहिन लेता है वैसे ही जो पुरुष विद्वान्, ज्ञानी, धार्मिक, सत्पुरुषों का संगी योगी, पुरुषार्थी, जितेन्द्रिय, सुगीत होता है वही धर्मार्थ काम मोक्ष को प्राप्त हो कर इस जन्म और परजन्म में सदा आनन्द में रहता है। यह आर्यावर्तनिवासी लोगों के मतविषय में संक्षेप से लिखा। इस के आगे जो घोड़ासा आर्यराजाओं का इतिहास मिला है इस को सब सज्जनों को जनाने के लिये प्रकाशित किया जाता है।

अब आर्यावर्तदेशीयराजवंश कि जिस में श्रीमान् महाराज "युधिष्ठिरसे" ले के महाराज "यशपाल" पर्यन्त, दृष्ट हैं उस इतिहास को लिखते हैं। और श्रीमान् महाराज। "स्वायंभव मनु" जो से ले के महाराजा "युधिष्ठिर" पर्यन्त का इतिहास महाभारतादि में लिखा ही है और इस से सज्जन लोगों को इधर के कुछ इतिहास का वर्तमान विदित होगा यद्यपि यह विषय, विद्यार्थी संमिश्रित "हरियश्चन्द्र-चन्द्रिका" और "मोहनचन्द्रिका" जो कि पाञ्चिकपत्र श्रीनाथद्वार से निकलता था। जो राजपूताना देश मेवाड़ राज उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सब को विदित है उस से हमने अनुवाद किया है यदि ऐसे ही हमारे आर्यसज्जन लोग इतिहास और विद्यापुस्तकों का खोज कर प्रकाश करेंगे तो देश को बड़ा ही लाभ

पहुँचे गा ॥ उस पत्रसंपादक ने अपने मित्र से एक प्राचीन पुस्तक जो कि विक्रम के संवत् १७८२ (सत्रहसौ बयासी) का लिखा हुआ था उस से उक्त पत्र के सम्पादक महाशय ने ग्रहण कर अपने संवत् १८३८ मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष १८—२० किरण अर्थात् दो पाक्षिक पत्रों में छापा है सो निम्न लिखे प्रमाणे जानिये ।

आर्यावर्तदेशीयराजवंशावली

इन्द्रप्रस्थ में आर्यलोगों ने श्रीमन्महाराज यशपाल पर्यन्त राज्य किया जिन में श्रीमन्महाराज "युधिष्ठिर" से महाराज यशपाल तक वंश अर्थात् पीढ़ी अनुमान १२४ (एक सौ चौबीस राजा) वर्ष ४१५७ मास ८ दिन १४ समय में हुये हैं इन का व्यौरा:-

राजा	शक	वर्ष	मास	दिन	आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
आर्यराजा	१२४	४१५७	६	१४	१५ नरहरिदेव	५१	१०	२
श्रीमन्महाराज युधिष्ठिरादि वंश अनुमान पीढ़ी ३० वर्ष १७७० मास ११ दिन १० इन का विस्तार:-					१६ सुचिरथ	४२	११	२
आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन		१७ शूरसेन (दूसरा)	५८	१०	८
१ राजा युधिष्ठिर	३६	८	२५		१८ पर्वतसेन	५५	८	१०
२ राजा परीक्षित	६०	०	०		१९ मेधावी	५२	१०	१०
३ राजा जनमेजय	८४	७	२३		२० सेनचीर	५०	८	२१
४ राजा अश्वमेध	८२	८	२२		२१ भीमदेव	४७	८	२०
५ द्वितीयरामा	८८	२	८		२२ नृहरिदेव	४५	११	२३
६ कन्नमल	८१	११	२७		२३ पूर्णमल	४४	८	७
७ चित्ररथ	७५	३	१८		२४ करदवी	४४	१०	८
८ दुष्टशैल्य	७५	१०	२४		२५ अलंमिक	५०	११	८
९ राजा उग्रसेन	७८	७	२१		२६ उदयपाल	३८	८	०
१० राजा शूरसेन	७८	७	२१		२७ दुवनमल	४०	१०	२६
११ भुवनपति	६८	५	५		२८ दमात	३२	०	०
१२ रणजीत	६५	१०	४		२९ भीमपाल	५८	५	८
१३ ऋक्षक	६४	७	४		३० क्षेमक	४८	११	२१
१४ सुखदेव	६२	०	२४		राजा क्षेमक के प्रधान विश्वाने क्षेमक राजा को मार कर राज्य किया पीढ़ी १४ वर्ष ५०० मास ३ दिन १७ इन का विस्तार :-			

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ विन्धवा	१७	३	२६
२ पुरसेनो	४२	८	२१
३ वीरसेनी	५२	१०	७
४ अनङ्गायी	४७	८	२३
५ हरिजित्	३५	६	१७
६ परमसेनो	४४	२	२३
७ सुखपाताल	३०	२	२१
८ कद्रुत	४२	६	२४
९ सञ्ज	३२	२	१४
१० अमरचूड	२७	३	१६
११ अमीपाल	२२	११	२५
१२ दशरथ	२५	४	१२
१३ वीरसाल	३१	८	११
१४ वीरसालसेन	४७	०	१४

राजा वीरसालसेन को वीरमहा प्रधान ने मार कर राज्य किया वंश १६ वर्ष ४४५ मास ५ दिन ३ इन का विस्तार :-

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ राजावीरमहा	३५	१०	८
२ अजितसिंह	२७	७	२६
३ सर्वदत्त	२८	३	१०
४ भुवनपति	१५	४	१०
५ वीरसेन	२१	२	१३
६ महीपाल	४०	८	७
७ शत्रुगाल	२६	४	३
८ संघराज	१७	२	१०
९ तैलपाल	२८	११	१०
१० माणिक्यचन्द्र	३७	७	२१
११ कामसेनो	४२	५	१०

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१२ शत्रुमर्दन	८	११	१३
१३ जीवनशोक	२८	६	१७
१४ हरिराव	२६	१०	२६
१५ वीरसेन (दूसरा)	३५	२	२०
१६ आदित्यकेतु	२३	११	१३

राजा आदित्यकेतु मगध देश के राजा को "धन्वर" नामक राजा प्रयाग के ने मार कर राज्य किया वंश पीढ़ी ६ वर्ष ३७४ मास ११ दिन २६ इन का विस्तार :-

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ राजाधंधर	४२	७	२४
२ महर्षी	४१	२	२६
३ सनरञ्जी	५०	१७	१६
४ महायुद्ध	३०	३	८
५ दुरनाथ	२८	५	२५
६ जीवनराज	४५	२	५
७ रुद्रसेन	४७	४	२८
८ आरीलक	५२	१०	८
९ राजपाल	३६	०	०

राजा राजपाल को सामन्त महानपाल ने मार कर राज्य किया पीढ़ी १ वर्ष १४ मास ० दिन ० इन का विस्तार नहीं है :-

राजा महानपाल के राज्य पर राजा विक्रमादित्य ने "अवन्तिका" (वज्रसेन) से चढ़ाई करके राजा महानपाल को मार के राज्य किया पीढ़ी १ वर्ष ६ मास ० दिन ० इन का विस्तार नहीं है।

राजा विक्रमादित्य को शालिवाहन का उमराव समुद्रपाल योगी पैठण के ने मार कर राज्य किया पीढ़ी १६ वर्ष ३७२ मास ४ दिन २७ इन का विस्तार :-

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ समुद्रपाल	५४	२	२०
२ चन्द्रपाल	३६	५	४
३ साहायपाल	११	४	११
४ देवपाल	२७	१	२८
५ नरसिंहपाल	१८	०	२०
६ सामपाल	२७	१	१७
७ रघुपाल	२२	३	२५
८ गोविन्दपाल	२७	१	१७
९ अमृतपाल	३५	१०	१३
१० बलीपाल	१२	५	२७
११ महीपाल	१३	८	४
१२ हरीपाल	१४	८	४
१३ सीसपाल *	११	१०	१३
१४ मदनपाल	१०	१०	१८
१५ कर्मपाल	१६	२	२
१६ विक्रमपाल	२४	११	१३

राजा विक्रमपाल ने पश्चिमदिशा का राजा (मल्लुखचन्द बोहरा था) उस पर चढ़ाई करके मैदान में लड़ाई की, इस लड़ाई में मल्लुखचन्द ने विक्रमपाल को मार कर इन्द्रास्य का राज्य किया पीढ़ी १० वर्ष १८१ मास १ दिन १८ इन का विस्तार:-

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ मल्लुखचन्द	५४	२	१०
२ विक्रमचन्द	१२	७	१२
३ अमीनचन्द *	१०	०	५
४ रामचन्द	१३	११	८
५ हरीचन्द	१४	८	२४
६ कल्याणचन्द	१०	५	४
७ भीमचन्द	१६	२	८
८ लोवचन्द	२६	३	२२
९ गोविन्दचन्द	३१	७	१२
१० रानी पद्मावती †	१	०	०

रानी पद्मावती मर गई इस के पुत्र भी कोई नहीं था इस लिये सब सुसंहियों ने सत्ताह करके हरिप्रेम वैरागी को गद्दी पर बैठा के सुसही राज्य करने लगे पीढ़ी ४ वर्ष ५० मास ० दिन २१ हरिप्रेम का विस्तार :-

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ हरिप्रेम	७	५	१६
२ गोविन्दप्रेम	२०	२	८
३ गोपालप्रेम	१५	७	२८
४ महाबाहु	६	८	२८

राजा महाबाहु राज्यकोड़ के वन में तपस्र्या करने गये यह बंगाल के राजा आधीसेन ने सुन के इन्द्रप्रस्य में आ के आप राज्य करने लगे पीढ़ी १२ वर्ष १५१ मास ११ दिन २ इन का विस्तार :-

* किसी इतिहास में भीमपाल भी लिखा है।

† यह पद्मावती गोविन्दचन्द की रानी थी।

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ राजआधीनसे	१८	५	२१
२ बिलावसेसन	१२	४	२
३ केगवसेन	१५	७	१२
४ माधसेन	१२	४	२
५ मयूरसेन	२०	११	२७
६ भीमसेन	५	१०	८
७ काव्याणसेन	४	८	२१
८ हरीसेन	१२	०	२५
९ क्षेमसेन	८	११	१५
१० नारायणसेन	२	२	२८
११ लक्ष्मीसेन	२६	१०	०
१२ दामोदरसेन	११	५	१८

राजा दामोदरसेन ने अपने उमराव को बहुत दुःख दिया इस लिये राजा के उमराव दीपसिंह ने सेना मिला के राजा के साथ लड़ाई की उस लड़ाई में राजा को मार कर दीपसिंह आप राज्य करने लगे पीढ़ी ६ वर्ष १०७ मास ६ दिन २२ इन का विस्तार :-

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ दीपसिंह	१७	१	२६
२ राजसिंह	१४	५	०
३ रणसिंह	८	८	११
४ नरसिंह	४५	०	१५
५ हरिसिंह	१३	२	२८
६ जीवनसिंह	८	०	१

राजा जीवनसिंह ने कुछ कारण के लिये अपनी सब सेना उत्तर दिशा को भेज दी यह खबर पृथ्वीराज चतुराण तैराट के राजा सुन कर जीवनसिंह के ऊपर चढ़ाई करके आये और लड़ाई में जीवनसिंह को मार कर इन्द्राग्य का राज्य किया पीढ़ी ५ वर्ष ८६ मास ० दिन २० इन का विस्तार :-

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ पृथ्वीराज	१२	२	१८
२ अभयपाल	१४	५	१७
३ दुर्जनपाल	११	४	१४
४ उदयपाल	११	७	३
५ यशपाल	३६	४	२७

राजा यशपाल के ऊपर सुलतान गहाबुद्दीन गौरीगढ़ गजनी से चढ़ाई करके आया और राजा यशपाल को (प्रयाग) के किले में संवत् १२४८ साल में पकड़ कर कैद किया पश्चात् (इन्द्रप्रयाग) अर्थात् दिल्ली का राज्य आप (सुलतान गहाबुद्दीन) करने लगा पीढ़ी ५२ वर्ष ७५४ मास १ दिन १७ इन का विस्तार बहुत इतिहास पुस्तकों में लिखा है इस लिये यहाँ नहीं लिखा ॥ इस के आगे बौद्ध जैन मत विषय में लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविभूषित आर्यवर्तीयमतखण्डनमण्डन-

विषय एकादशः समुल्लासः संपूर्णः ॥ ११ ॥

अनुभूमिका (२) ॥

—०—॥०॥—०—

जब आर्यावर्तस्थ मनुष्यों में सत्यासत्य का यथावत् निर्णय कराने वाली वैद-
विद्या छूट कर अविद्या फौल के मतमतान्तर खड़े हुये यही जैन आदि के विद्या-
विग्रह मतप्रचार का निमित्त हुआ क्योंकि वाल्मीकीय और महाभारतादि में
जैनियों का नाममात्र भी नहीं लिखा और जैनियों के ग्रन्थों में वाल्मीकीय और
भारत में कथित "राम, कृष्णादि" की गाथा बड़े विस्तारपूर्वक लिखी हैं इस से
यह सिद्ध होता है कि यह मत इन के पीछे चला, क्योंकि जैसा अपने मत को
बहुत प्राचीन जैनी लोग लिखते हैं वैसा होता तो वाल्मीकीय आदि ग्रन्थों में उन
की कथा अवश्य होती इस लिये जैन मत इन ग्रन्थों के पीछे चला है। कोई कहे
कि जैनियों के ग्रन्थों में से कथाओं को ले कर वाल्मीकीय आदि ग्रन्थ बने हंगे तो
उन से पूछना चाहिये कि वाल्मीकीय आदि में तुम्हारे ग्रंथों का नाम लेख भी
क्यों नहीं ? और तुम्हारे ग्रन्थों में क्यों है ? क्या पिता के जन्म का दर्शन पुत्र कर
सकता है ? कभी नहीं। इस से यही सिद्ध होता है कि जैन, बौद्ध, मत शैव,
शाक्तादि मतों के पीछे चला है अब इस १२ वारहवें समुदास में जो २ जैनियों के
मतविषय में लिखा गया है सो २ उन के ग्रन्थों के पते पूर्वक लिखा है इस में जैनी
लोगों को बुरा न मानना चाहिये क्योंकि जो २ हम ने इन के मतविषय में लिखा
है वह केवल सत्यासत्य के निर्णयार्थ है न कि विरोध वा हानि करने के अर्थ।
इस लेख को जब जैनी बौद्ध वा अन्य लोग देखेंगे तब सब को सत्यासत्य के
निर्णय में विचार और लेख करने का समय मिलेगा और बोध भी होगा जब तक
बादो प्रतिवादी हो कर प्रीति से वाद् वा लेख न किया जाय तब तक सत्यासत्य
का निर्णय नहीं हो सकता। जब विद्वान् लोगों में सत्यासत्य निश्चय नहीं होता
तभी अविद्वानों को महा अन्धकार में पड़ कर बहुत दुःख उठाना पड़ता है इस
लिये सत्य के जय और असत्य के जय के अर्थ मित्रता से वाद् वा लेख करना
हमारी मनुष्य जाति का मुख्य काम है। यदि ऐसा न हो तो मनुष्यों की उन्नति
कभी न हो। और यह बौद्ध जैन मत का विषय विना इन के अन्य मत वालों को

अपूर्ण लाभ और बोध करने वाला होगा। क्योंकि ये लोग अपने पुस्तकों को किसी अन्य मत वाले के देखने, पढ़ने वा लिखने को भी नहीं देते। बड़े परिश्रम से मेरे और विशेष "आर्यसमाज" मुम्बई के मन्त्री सेठ सेवकलाल कृष्णदास जी के पुस्तक-पार्थ से ग्रन्थ प्राप्त हुये हैं तथा काशीस्थ "जैनप्रभाकर" यंत्रालय में छपने और मुम्बई में "प्रकरणरत्नाकर" ग्रन्थ के छपने से भी सब लोगों को जैनियों का मत देखना सहज हुआ है। भला यह किन विद्वानों की बात है कि अपने मत के पुस्तक आप ही देखना और दूसरों की न दिखलाना ! इसी से विदित होता है कि इन ग्रन्थों के बनाने वालों की प्रथम ही शंका थी कि इन ग्रन्थों में असंभय बातें हैं जो दूसरे मत वाले देखेंगे तो खण्डन करेंगे और हमारे मत वाले दूसरों के ग्रन्थ देखेंगे तो इस मत में शंका न रहेंगी। असु जो ही परन्तु बहुत मनुष्य ऐसे हैं कि जिन को अपने दोष तो नहीं दीखते किन्तु दूसरों के दोष देखने में अत्युद्युक्त रहते हैं। यह न्याय की बात नहीं क्योंकि प्रथम अपने दोष देख निकाल के पचात दूसरे के दोषों में दृष्टि देने के निकालें। अब इन बौद्ध जैनियों के मत का विषय सब सबजनों के सम्मुख धरता हूँ ऐसा है वैसा बिचारें ॥

किमधिकलोखेन बुद्धिमद्दृश्येषु ॥

अथ द्वादशसमुच्छासारम्भः ॥

— ५ : ० * ० : ३ —

अथ नास्तिकमतान्तर्गतचारवाकवौद्धजैनमतरखण्डनमण्डन-
विषयान् व्याख्यास्यामः ॥

कोई एक ब्रह्मस्मृति नामा पुरुष हुआ था जो वेद, ईश्वर और यज्ञादि उत्तम कर्मों को भी नहीं मानता था। देखिये उन का मत :-

यावज्जीवं सुखं जीवेन्नास्ति मृत्योरगोचरः ।

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ १ ॥

कोई मनुष्यादि प्राणी मृत्यु के अगोचर नहीं है अर्थात् सब को मरना है इस लिये जब तक शरीर में जीव रहै तब तक सुख से रहै जो कोई कहे कि धर्माचरण से कष्ट होता है जो धर्म को छोड़े तो पुनर्जन्म में बड़ा दुःख पावे ! उस को "चारवाक" उचर देता है कि अरे भोले भाई ? जो मरे के पश्चात् शरीर भस्म हो जाता है कि जिस ने खाया पिया है वह पुनः संसार में न आवे गा इस लिये कैसे हो सके वैसे आनन्द में रहो, लोक में नीति से चलो, ऐश्वर्य को बढ़ाओ और उस से शक्ति भोग करो यही लोक समझो परलोक कुछ नहीं। देखो ! पृथिवी, जल, अग्नि, वायु इन चार भूतों के परिणाम से यह शरीर बना है इस में इन के योग से चैतन्य उत्पन्न होता है जैसे मादक द्रव्य खाने पीने से मद् (नशा) उत्पन्न होता है इसी प्रकार जीव शरीर के साथ उत्पन्न हो कर शरीर के नाश के साथ आप भी नष्ट हो जाता है फिर किस को पाप पुण्य का फल होगा ? ॥

तच्चैतन्यविशिष्टदेह एव आत्मा देहातिरिक्त आत्मनि
प्रमाणाभावात् ॥

जो इस शरीर में चारों भूतों के संयोग से जीवात्मा उत्पन्न हो कर वहीं के वियोग के साथ ही नष्ट हो जाता है क्योंकि मरे पीके कोई भी जीव प्रत्यक्ष नहीं होता हम एक प्रत्यक्ष ही को मानते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष के बिना अनुमानादि होते ही नहीं इस लिये मुख्य प्रत्यक्ष के सामने अनुमानादि गौण होने से उन का ग्रहण नहीं करते सुन्दर स्त्री के आलिंगन से आनन्द का करना पुनर्पार्श का फल है। (उचर) ये पृथिव्यादि भूत जड़ हैं उन से चेतन की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती। जैसे अब माता पिता के संयोग से देह की उत्पत्ति होती है वैसे ही आदि सृष्टि

में मनुष्यादि शरीरों की आकृति परमेश्वर कर्ता के बिना कभी नहीं हो सकती। मद् के समान चेतन की उत्पत्ति और विनाश नहीं होता क्योंकि मद् चेतन को होता है जड़ को नहीं। पदार्थ नष्ट प्रयात् अदृष्ट होते हैं परन्तु अभाव किसी का नहीं होता इसी प्रकार अदृश्य होने से जीव का भी अभाव न मानना चाहिये। जब जोवाका सदेह होता है तभी उस की प्रकटता होती है जब शरीर को छोड़ देता है तब यह शरीर जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है वह जैसा चेतनयुक्त पूर्व था वैसा नहीं हो सकता। यही बात ब्रह्दारण्यक में कही है :-

नाहं मोहं ब्रवीमि अनुच्छित्तिधर्मायमात्मैति ॥

याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे मैत्रेयि ! मैं मोह से वात नहीं करता किन्तु आत्मा अविनाशी है जिस के योग से शरीर चेष्टा करता है जब जीव शरीर से पृथक् हो जाता है तब शरीर में ज्ञान कुछ भी नहीं रहता जो देह से पृथक् आत्मा न हो तो जिस के संयोग से चेतनता और वियोग से जड़ता होती है यह देह से पृथक् है जैसे आंख सब को देखती है परन्तु अपने को नहीं इसी प्रकार प्रत्यक्ष का करने वाला अपने को ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं कर सकता जैसे अपनी आंख से सब घट-पटादि पदार्थ देखता है वैसे आंख को अपने ज्ञान से देखता है। जो द्रष्टा है वह द्रष्टा ही रहता है दृश्य कभी नहीं होता, जैसे बिना आधार आधेय कारण के बिना कार्य, अवयवी के बिना अवयव और कर्ता के बिना कर्म नहीं रह सकते वैसे कर्ता के बिना प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है ? जो सुन्दर स्त्री के साथ समागम करने ही को पुरुषार्थ का फल मानो तो क्षणिक सुख और उस से दुःख भी होता है यह भी पुरुषार्थ ही का फल होगा। जब ऐसा है तो स्वर्ग की हानि होने से दुःख भोगना पड़ेगा। जो कही दुःख के छुड़ाने और सुख के बढ़ाने में यत्न करना चाहिये तो मुक्ति सुख की हानि ही जाती है इस लिये यह पुरुषार्थ का फल नहीं (चारवाक) जो दुःख संयुक्त सुख का त्याग करते हैं वे मूर्ख हैं जैसे धान्याणां धान्य का ग्रहण और वुस का त्याग करता है वैसे संसार में बुद्धिमान सुख का ग्रहण और दुःख का त्याग करें क्यों कि इस लोक के उपस्थित सुख को छोड़ के अनुपस्थित स्वर्ग के सुख की इच्छा कर धर्मकथित वेदोक्त अग्निहोत्रादि, कर्म उपासना, और ज्ञानकाण्ड का अनुष्ठान परलोक के लिये करते हैं वे अज्ञानी हैं। जो परलोक है ही नहीं तो इस की आशा करना मूर्खता का काम है क्योंकि :-

अग्निहोत्रं त्रयो वेदास्त्रिदण्डं भस्मगुण्ठनम् ।

बुद्धिपौरुषहीनानां जीविकेति बृहस्पतिः ॥

पारवाकमतप्रचारक "बृहस्पति" कहता है कि अग्निहोत्र, तीनवेद, तीन-दण्ड, और भस्म का मगाना बुद्धि और पुरुषार्थरहित पुरुषों ने आविष्कार बना भी

हे किन्तु कांटे लगने आदि से उत्पन्न हुए दुःख का नाम नरक । लोकसिंह, राजा, परमेश्वर और देह का नाश होना मोक्ष अन्य कुछ भी नहीं है । (उत्तर) विषयरूपी सुखमात्र को पुण्यार्थ का फल मान कर विषयदुःखनिवारणमात्र में कृत-कृत्यता और स्वर्ग मानना मूर्खता है अग्निहोत्रादि यज्ञों से वायु, वृष्टि, जल की शक्ति द्वारा आरोग्यता का होना उस से धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष की सिद्धि होती है उस को न जान कर वेद ईश्वर और वेदोक्त धर्म की निन्दा करना धूर्तों का काम है । जो त्रिदण्ड और भस्मधारण का खगड़न है सो ठीक है । यदि कण्टकादि से उत्पन्न ही दुःख का नाम नरक है तो उस से अधिक महारोगादि नरक क्यों नहीं ? । यद्यपि राजा को ऐश्वर्यवान् और प्रजापालन में समर्थ होने में श्रेष्ठ मानें तो ठीक है परन्तु जो अन्यायकारो पापी राजा है उस को भी परमेश्वर बत् मानते हैं तो तुम्हारे जैसा कोई भी मूर्ख नहीं । शरीर का विच्छेद होना-मात्र मोक्ष है तो गदहे कुत्ते आदि और तुम में क्या भेद रहा? किन्तु आकृति ही मात्र भिन्न रही । (चारवाक) :—

अग्निरुष्णो जलं शीतं शीतस्पर्शस्तथाऽनिलः ।
 केनेदं चित्रितं तस्मात्स्वभावात्तद्व्यवस्थितिः ॥ १ ॥
 न स्वर्गो नाऽपवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः ।
 नैव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः ॥ २ ॥
 पशुश्चेन्निहतः स्वर्गं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति ।
 स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते ॥ ३ ॥
 मृतानामपि जन्तूनां श्राद्धं चेत्तृप्तिकारणम् ।
 गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थं पाथेयकल्पनम् ॥ ४ ॥
 स्वर्गस्थिता यदा तृप्तिं गच्छेयुस्तत्र दानतः ।
 प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न दीयते ॥ ५ ॥
 यावज्जीवेत्सुखं जीवेदृणं कृत्वा घृतं पिबेत् ।
 भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ ६ ॥
 यदि गच्छेत्परं लोकं देहादेप विनिर्गतः ।
 कस्माद्भूयो न चायाति बन्धुस्नेहसमाकुलः ॥ ७ ॥

ततश्च जीवनोपायो ब्राह्मणैर्विहितस्त्वह ।

मृतानां प्रेतकार्याणि न त्वन्यद्द्विद्यते कुचित् ॥ ८ ॥

प्रयो वेदस्य कर्त्तारो भण्डधूर्त्तनिशाचराः ।

जर्फरीतुर्फरीत्यादि पण्डितानां वचः स्मृतम् ॥ ९ ॥

अथस्यात्र हि शिश्नन्तु पत्नीग्राह्यं प्रकीर्तितम् ।

भण्डैस्तद्वत्परं चैव ग्राह्यजातं प्रकीर्तितम् ॥ १० ॥

मांसानां खादनं तद्वन्निशाचरसमीरितम् ॥ ११ ॥

चारवाक, आभाणक, बौद्ध, और जैन भी जगत् की उत्पत्ति स्वभाव से मानते हैं । जो २ स्वाभाविक गुण है उस २ से द्रव्यसंयुक्त हो कर सब पदार्थ बनते हैं कोई जगत् का कर्त्ता नहीं ॥ १ ॥ परन्तु इनमें से चारवाक ऐसा मानता है किन्तु परलोक और जीवात्मा बौद्ध, जैन मानते हैं चारवाक नहीं शेष इन तीनों का मत कोई २ बात कोड़ के एकसा है न कोई स्वर्ग, न कोई नरक और न कोई परलोक में जाने वाला आत्मा है और न वर्णाश्रम की क्रिया फलदायक है ॥ २ ॥ जो यज्ञ में पशु को मार होम करने से वह स्वर्ग को जाता हो तो यजमान अपने पितादि को मार होम करके स्वर्ग को क्यों नहीं भेजता ? ॥ ३ ॥ जो मरे हुए जीवों का श्राद्ध और तर्पण तमिकारक होता है तो परदेग में जाने वाले मार्ग में निर्वाहार्थ अन्न वस्त्र और धनादि को क्यों ले जाते हैं ? क्योंकि जैसे मृतक के नाम से अर्पण किया हुआ पदार्थ स्वर्ग में पहुंचता है तो परदेग में जाने वाली के लिये उन के सम्बन्धी भी घर में उन के नाम से अर्पण करके देशान्तर में पहुंचा देवे जो यह नहीं पहुंचता तो स्वर्ग में वह क्यों कर पहुंच सकता है ? ॥ ४ ॥ जो मर्त्यलोक में दान करने से स्वर्गवासी तम होते हैं तो नीचे देने से घर के ऊपर स्थित पुरुष तम क्यों नहीं होता ? ॥ ५ ॥ इस लिये जब तक जीवे तब तक सुख से जीवे जो घर में पदार्थ न हों तो ऋण ले के आनन्द करें, ऋण देना नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस शरीर में जीव ने खाया पिया है उन देनों का पुनरागमन न होगा फिर किस से कौन मांगे गा ? और कौन देदेगा ? ॥ ६ ॥ जो मोग कहते हैं कि मृत्युसमय जीव निकल के परलोक को जाता है यह बात मिथ्या है क्योंकि जो ऐसा होता तो कुटुम्ब के मोह से बड़ हो कर पुनः घर में क्यों नहीं आ जाता ? ॥ ७ ॥ इस लिये यह सब ब्राह्मणों ने अपनी लौकिका का उपाय किया है जो दण्डगात्रादि मृतक क्रिया करते हैं यह सब इन की जीविका की भीषा है ॥ ८ ॥ वेद के बनाने वाले भांड, धूर्त्त, और निगाकर अर्थात् राजस ये तीन हैं

“जर्फरी” “तुर्फरी” इत्यादि पंडितों के धूर्ततायुक्त वचन हैं ॥ ८ ॥ देखो ! धूर्तों की रचना घोट्टे के निङ्ग की स्त्री ग्रहण कर उस के साथ समागम यजमान की स्त्री से कराना कन्या से ठठा आदि लिखना धूर्तों के बिना नहीं हो सकता ॥ १० ॥ और जो मांस का खाना लिखा है वह वेदभाग राजस का बनाया है ॥ ११ ॥

(उत्तर) बिना चेतन परमेश्वर के निर्माण किये ऊड़ पदार्थ स्वयं आपस में स्वभाव से नियमपूर्वक मिल कर उत्पन्न नहीं हो सकते । जो स्वभाव से ही होते हैं तो द्वितीय, सूर्य, चन्द्र, पृथिवी और नक्षत्रादि लोक आप से आप क्यों नहीं बन जाते हैं ? ॥ १ ॥ स्वर्ग सुख भोग और नरक दुःख भोग का नाम है । जो जीवात्मा न होता तो सुख दुःख का भोक्ता वीन हो सके ? जैसे इस समय सुख दुःख का भोक्ता जीव है वैसे परलोक में भी होता है क्या सत्त्वाभरण और परोपकारादि क्रिया भी वर्णाश्रमियों की निष्फल होगी ? कभी नहीं ॥ २ ॥ पशु मार के होम करना वेदादि सत्यशास्त्रों में कहीं नहीं लिखा और मृतकों का आह तर्पण करना कपोलकल्पित है क्यों कि यह वेदादि सत्यशास्त्रों के विरुद्ध होने से भागवतादि पुराणमत वालों का मत है इस लिये इस बात का खंडन अखंडनीय है ॥ ३ ॥ जो वस्तु है उस का अभाव कभी नहीं होता, विद्यमान जीव का अभाव नहीं हो सकता, देह भस्म हो जाता है जीव नहीं जीव तो दूसरे शरीर में जाता है इस लिये जो कोई ऋणादि कर विराने पदार्थों से इस लोक में भोग कर नहीं देते हैं वे निश्चय पापी हो कर दूसरे जन्म में दुःखरूपी नरक भोगते हैं इस में कुछ भी संदेह नहीं ॥ ४ ॥ देह से निकल कर जीव स्थानान्तर और शरीरान्तर को प्राप्त होता है और उस को पूर्वजन्म तथा कुटुम्बादि का ज्ञान कुछ भी नहीं रहता इस लिये पुनः कुटुम्ब में नहीं आ सकता ॥ ५ ॥ हां ब्राह्मणों ने प्रेतकर्म अर्थात् जीविकार्य बना लिया है परन्तु वेदोक्त न होने से खंडनीय है ॥ ६ ॥ अब कहिये जो चारवाक आदि ने वेदादि सत्यशास्त्र देखे सुने वा पढ़े होते तो वेदों की निन्दा कभी न करते कि वेद, भांड, धूर्त और निशाचरवत् पुरुषों ने बनाये हैं ऐसा वचन कभी न निकालते हां भांड, धूर्त, निशाचरवत्, महीधरादि टीकाकार हुये हैं उन की धूर्तता है वेदों की नहीं परन्तु शोक है चारवाक, आभाणक, वीर, और जीनियों पर कि इन्होंने मूल चार वेदों की संधिताओं को भी न सुना न देखा और न किसी विद्वान् से पढ़ा इसी लिये नष्ट भूष्ट बुद्धि हो कर ऊट पटांग वेदों की निन्दा करने लगे दुष्ट वाममार्गियों की प्रमाण शून्य कपोलकल्पित भूष्ट टीकाओं को देख कर वेदों से विरोधी हो कर अविद्यारूपी अगाध समुद्र में जा गिरे ॥ १ ॥ भला विचारना चाहिये कि स्त्री से अश्व के निङ्ग का ग्रहण करा के उस से समागम कराना और यजमान की कन्या से हांसी ठठा आदि करना सिवाय वाममार्गी लोगों से अन्य मनुष्यों का काम नहीं है बिना इन महापापी वाममार्गीयों

के भ्रष्ट वेदार्थ से विपरीत, अशुद्ध व्याख्यान कौन करता ? अत्यन्त गोक तो इन चारवाक आदि पर है जो कि विना विचारे वेदों की निन्दा करने पर तत्पर पुगे तनिक तो अपनी बुद्धि से काम लेते क्या करें विचारे उन में इतनी विद्या ही नहीं थी जो सत्यासत्य का विचार कर सत्य का मण्डन और असत्य का मण्डन करते ॥ ८ ॥ और जो मांस खाना है यह भी उन्हें बाममार्गी टीकाकारों की लीला है इस लिये उन को राजस कहना उचित है परन्तु वेदों में कहीं मांस का खाना नहीं लिखा इस लिये इत्यादि मिथ्या बातों का पाप उन टीकाकारों की और जिन्होंने वेदों के जाने सुने विना मनमानी निन्दा की है निःसंदेह उन को लगे गा सच तो यह है कि जिन्होंने वेदों से विरोध किया और करते हैं और करेंगे वे अवश्य अविव्यारूपी अन्धकार में पड़ के सुन्न के बदले दारुण दुःख जितना पावें उतना ही न्यून है । इस लिये मनुष्य मात्र को वेदानुकूल चलना समुचित है ॥ ९ ॥ जो बाममार्गियों ने मिथ्या कपोलकल्पना करके वेदों के नाम से अपना प्रयोजन सिद्ध करना अर्थात् यथेष्ट मद्यपान, मांस खाने और परस्त्री-गमन करने आदि दुष्ट कामों की प्रवृत्ति हानि के अर्थ वेदों को कलङ्क लगाया इन्हीं बातों को देख कर चारवाक, बौद्ध तथा जैन लोग वेदों की निन्दा करने लगे और पृथक् एक वेदविरुद्ध अनीश्वरवादी अर्थात् नास्तिक मत चला लिया । जो चारवाकादि वेदों का मूलार्थ विचारते तो भूठी टीकाओं को देख कर सत्य वेदोक्त मत से क्यों हाथ धो बैठते ? क्या करें विचारे "विनाशकाले विपरीतबुद्धिः" जब नष्ट भ्रष्ट होने का समय आता है तब मनुष्य की चलती बुद्धि ही जाती है ॥

अब जो चारवाकादिओं में भेद है सो लिखते हैं । ये चारवाकादि बहुत सी बातों में एक हैं परन्तु चारवाक देह की उत्पत्ति के साथ जीवोत्पत्ति और उसके नाश के साथ ही जीव का भी नाश मानता है । पुनर्जन्म और परलोक को नहीं मानता एक प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना अनुमानादि प्रमाणाँ को भी नहीं मानता । चारवाक शब्द का अर्थ "जो बोलने में प्रगल्भ और विशेषार्थ वैतण्डिक होता है" । और बौद्ध, जैन प्रत्यक्षादि चारों प्रमाण आनादि जीव पुनर्जन्म परलोक और मुक्ति को भी मानते हैं इतना ही चारवाक से बौद्ध और जैनों का भेद है परन्तु नास्तिकता, वेद, ईश्वर की निन्दा, परमतक्षेप (कः यतना, आगे कहे कः कर्म) और जगत् का कर्ता कोई नहीं इत्यादि बातों में सब एक ही हैं । यह चारवाक का मत संक्षेप से दर्शा दिया ।

अब बौद्धमत के विषय में संक्षेप से लिखते हैं—

कार्यकारणभावाद्वा स्वभावाद्वा नियामकात् ।

अविनाभावनियमो दर्शनान्तरदर्शनात् ॥ १ ॥

कार्यकारणभाव अर्थात् कार्य के दर्शन से कारण और कारण के दर्शन से कार्यादि का साक्षात्कार प्रत्यक्ष से श्रेय में अनुमान होता है इस के बिना प्राणियों के संपूर्ण व्यवहार पूर्ण नहीं हो सकते इत्यादि लक्षणों से अनुमान को अधिक मान कर चारवाक से भिन्न शाखा वीहों की हुई है वीह चार प्रकार के हैं:—

एक “माध्यमिक” दूसरा “योगाचार” तीसरा “सौत्रांतिक” और चौथा “वैभाषिक” “बुद्ध्या निर्वर्तते स वीहः” जो बुद्धि से सिद्ध हो अर्थात् जो २ बात अपनी बुद्धि में आवे उस २ को माने और जो २ बुद्धि में न आवे उस २ को नहीं माने । इनमें से पहिला “माध्यमिक” सर्वशून्य मानता है अर्थात् जितने पदार्थ हैं वे सब शून्य अर्थात् आदि में नहीं होते अन्त में नहीं रहते मध्य में जो प्रतीत होता है वह भी प्रतीत समय में है पश्चात् शून्य हो जाता है जैसे उत्पत्ति के पूर्व घट नहीं था प्रध्वंस के पश्चात् नहीं रहता और घट ज्ञान समय में भासता और पदार्थान्तर में ज्ञान जाने से घटज्ञान नहीं रहता इस लिये शून्य ही एक तत्व है दूसरा “योगाचार” जो बाह्यशून्य मानता है अर्थात् पदार्थ भीतर ज्ञान में भासते हैं बाहर नहीं जैसे घटज्ञान आत्मा में है तभी मनुष्य कहता है कि यह घट है जो भीतर ज्ञान न हो तो नहीं कह सकता ऐसा मानता है तीसरा “सौत्रांतिक” जो बाहर अर्थ का अनुमान मानता है क्योंकि बाहर कोई पदार्थ साङ्गोपाङ्ग प्रत्यक्ष नहीं होता किन्तु एकदेश प्रत्यक्ष होने से श्रेय में अनुमान किया जाता है इस का ऐसा मत है । चौथा “वैभाषिक” है उस का मत बाहर पदार्थ प्रत्यक्ष होता है भीतर नहीं जैसे “अयं नोसो घटः” इस प्रतीति में नीलयुक्त घटाकृति बाहर प्रतीत होती है यह ऐसा मानता है । यद्यपि इन का आचार्य बुद्ध एक है तथापि शिष्यों के बुद्धिभेद से चार प्रकार की शाखा हो गई हैं जैसे सूर्यास्त होने में नार पुरुष परस्त्रीगमन और विद्वान् सत्यभाषाणादि श्रेष्ठ कर्म करते हैं समय एक परन्तु अपनी २ बुद्धि के अनुसार भिन्न २ चेष्टा करते हैं अब इन पूर्वोक्त चारों में “माध्यमिक” सब को क्षणिक मानता है अर्थात् क्षण २ में बुद्धि के परिणाम होने से जो पूर्वक्षण में ज्ञात वस्तु था वैसा ही दूसरे क्षण में नहीं रहता इस लिये सबको क्षणिक मानना चाहिये ऐसे मानता है । दूसरा योगाचार जो प्रवृत्ति है सो सब दुःखरूप है क्योंकि प्राप्ति में सन्तुष्ट कोई भी नहीं रहता एक की प्राप्ति में दूसरे की इच्छा बनी ही रहती है इस प्रकार मानता है । तीसरा सौत्रान्तिक—सब पदार्थ अपने २ लक्षणों से लक्षित होते हैं जैसे गाय के चिन्हों से गाय और घोड़े के चिन्हों से घोड़ा ज्ञात होता है वैसे लक्षण लक्ष्य में सदा रहते हैं ऐसा कहता है । चौथा वैभाषिक—शून्य ही को एक पदार्थ मानता है । प्रथम माध्यमिक—सब को शून्य मानता था उसी का पक्ष वैभाषिक का भी है इत्यादि वीहों में बहुत से विवाद पक्ष हैं इस प्रकार चार प्रकार की भावना मानते हैं । (उत्तर) जो सब शून्य ही तो शून्य का

जानने वाला गून्ध नहीं हो सकता और जो सब गून्ध होवे तो गून्ध को गून्ध नहीं जान सके इस लिये गून्ध का ज्ञाता और ज्ञेय दो पदार्थ सिद्ध होते हैं और जो योगाचार बाह्य गून्धत्व मानता है तो पर्वत इस के भीतर होना चाहिये जो कहे कि पर्वत भीतर है तो उस के हृदय में पर्वत के समान अवकाश कहां है इस लिये बाहर पर्वत है और पर्वतज्ञान आत्मा में रहता है सौत्रान्तिक किसी पदार्थ को प्रत्यक्ष नहीं मानता तो वह आप स्वयं और उस का वचन भी अनुमेय होना चाहिये प्रत्यक्ष नहीं जो प्रत्यक्ष न हो तो "अयं घटः" यह प्रयोग भी न होना चाहिये किन्तु "अयं घटैकदेशः" यह घट का एक देश है और एक देश का नाम घट नहीं किन्तु समुदाय का नाम घट है। "यह घट है" यह प्रत्यक्ष है अनुमेय नहीं क्योंकि सब अवयवों में अवयवी एक है उस के प्रत्यक्ष होने से सब घट के अवयव भी प्रत्यक्ष होते हैं अर्थात् सावयव प्रत्यक्ष होता है। चौथा वैभाषिक-बाह्य पदार्थों को प्रत्यक्ष मानता है यह भी ठीक नहीं क्योंकि जहां ज्ञाता और ज्ञान होता है वहीं प्रत्यक्ष होता है यद्यपि प्रत्यक्ष का विषय बाहर होता है तदाकार ज्ञान आत्मा को होता है जैसे जो क्षणिक पदार्थ और उस का ज्ञान क्षणिक हो तो "प्रत्यभिज्ञा" अर्थात् मैंने यह बात की थी ऐसा स्मरण न होना चाहिये परन्तु पूर्वदृष्ट व्युत्पत्तिका कारण होता है इस लिये क्षणिकवाद भी ठीक नहीं जो सब दुःख ही हो और सुख कुछ भी न हो तो सुख की अपेक्षा के बिना दुःख सिद्ध नहीं हो सकता। जैसे रात्रि की अपेक्षा से दिन और दिन की अपेक्षा से रात्रि होती है इस लिये सब दुःख मानना ठीक नहीं जो स्वलक्षण ही माने तो नेत्र रूप का लक्षण है और रूपलक्षण है जैसे घट का रूप घट के रूप का लक्षण चक्षु लक्ष्य से भिन्न है और गन्ध पृथिवी से अभिन्न है इसी प्रकार भिन्नाभिन्न लक्ष्य लक्षण मानना चाहिये। गून्ध का जो उपाय पूर्व दिया है वही अर्थात् गून्ध का जानने वाला गून्ध से भिन्न होता है।

सर्वस्य संसारस्य दुःखात्मकत्वं सर्वतीर्थकरसंमतम् ॥

जिन को बौद्ध तीर्थकर मानते हैं वही को जैन भी मानते हैं इसी लिये ये दोनों एक हैं और पूर्वोक्त भाषना चतुष्टय अर्थात् चार भाषनाओं से सकल यामनाओं की निवृत्ति से गून्धरूप निर्वाण अर्थात् मुक्ति मानते हैं अपने गिण्यों को योग आचार का उपदेश करते हैं गुरु के वचन का प्रमाण करना अनादि बुद्धि में वासना होने से बुद्धि ही अनेकाकार भासती है उन में से प्रथम स्कंध :-

रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारसंज्ञकः ॥

(प्रथम) जो इन्द्रियों से रूपादि विषय ग्रहण किया जाता है वह "रूपस्कंध" (दूसरा) आत्मविज्ञान प्रवृत्ति का जानना रूप व्यवहार को "विज्ञानस्कंध" (तीसरा) रूपस्कंध और विज्ञानस्कंध से उत्पन्न हुआ सुख दुःख आदि प्रतीति

रूप व्यवहार को "वेदनास्कन्ध" (चौथा) गो आदि संज्ञा का सम्बन्ध नामी के साथ माननेरूप को "संज्ञास्कन्ध" । (पांचवां) वेदनास्कन्ध से राग हेपादि क्षीण और च्युधा तृपादि उपलक्ष्य, मद, प्रमाद, अभिमान, धर्म और अधर्मरूप व्यवहार को "संस्कार स्कन्ध" मानते हैं । सब संसार में दुःखरूप दुःख का घर दुःख का साधनरूप भावना करके संसार से छूटना चारवाकों में अधिकमुक्ति और अनुमान तथा जीव को न मानना बौद्ध मानते हैं ॥

देशना लोकनाथानां सत्त्वाशयवशानुगाः ।

भिद्यन्ते बहुधा लोके उपायैर्बहुभिः किल ॥ १ ॥

गम्भीरोत्तानभेदेन क्वचिच्चोभयलक्षणः ।

भिन्ना हि देशना भिन्ना शून्यताह्वयलक्षणा ॥ २ ॥

द्वादशायतनपूजा श्रेयस्करीति बौद्धा मन्यन्ते ।

अर्थानुपार्य्य बहुशो द्वादशायतनानि वै ।

परितः पूजनीयानि किमन्यैरिह पूजितैः ॥ ३ ॥

ज्ञानेन्द्रियाणि पंचैव तथा कर्मेन्द्रियाणि च ।

मनो बुद्धरिति प्रोक्तं द्वादशायतनं बुधैः ॥ ४ ॥

अर्थात् जो ज्ञानी विरक्त, जीवनमुक्त, लोकों के नाथ, बुद्ध आदि तीर्थकारी के पदार्थों के स्वरूप को जनाने वाला, जो कि भिन्न २ पदार्थों का उपदेशक है, जिस को बहुत से भेद और बहुत से उपायों से कहा है उस को मानना ॥ १ ॥ बड़े गंभीर और प्रसिद्ध भेद से कहीं २ गुप्त और प्रकटता से भिन्न २ गुरुओं के उपदेश जो कि न्यून लक्षणयुक्त पूर्व कछ आये उन को मानना ॥ २ ॥ जो द्वादशायतन पूजा है वही मोक्ष करने वाली है उस पूजा के लिये बहुत से द्रव्यादि पदार्थों को प्राप्त ही के द्वादशायतन अर्थात् बारह प्रकार के स्थान विशेष बना के सब प्रकार से पूजा करनी चाहिये अन्य की पूजा करने से क्या प्रयोजन? ॥ ३ ॥ इन की द्वादशायतन पूजा यह है:—पांच ज्ञान इन्द्रिय अर्थात् श्रोत्र, त्वक् चक्षु, जिह्वा, और नासिका पांच कर्मेन्द्रिय अर्थात् वाक्, हस्त, पाद, गुह्य और उपस्थ ये १० इन्द्रियां और मन, बुद्धि इन ही का सत्कार अर्थात् इन को आनन्द में प्रवृत्त रखना इत्यादि बौद्ध का मत है ॥ ४ ॥ (उत्तर) जो सब संसार दुःखरूप होता तो किसी जीव को प्रवृत्ति न होनी चाहिये संसार में जीवों की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष दीखती है इस लिये सब संसार दुःखरूप नहीं हो सकता किन्तु इस में सुख दुःख दोनों हैं ।

श्रीर जो बौद्ध लोग ऐसा ही सिद्धान्त मानते हैं तो खान पानादि करना और पध्प तथा श्रोपध्यादि सेवन करके शरीर रक्षण करने में प्रवृत्त हो कर सुख क्यों मानते हैं ? जो कहें कि हम प्रवृत्त तो होते हैं परन्तु इस को दुःख ही मानते हैं तो यह कथन ही सम्भव नहीं क्योंकि जीव सुख जान कर प्रवृत्त और दुःख जान के निवृत्त होता है । संसार में धर्म क्रिया विद्या ससंगादि ग्रैष्ठ व्यवहार सब सुखकारक हैं इन को कोई भी विद्वान् दुःख का लिंग नहीं मान सकता बिना बौद्धों के । जो पांच स्कन्ध हैं वे भी पूर्ण अपूर्ण हैं क्योंकि जो ऐसे ऐसे स्कन्ध विचारनं लगे तो एक एक के अनेक भेद हो सकते हैं । जिन तीर्थंकरों को उपदेशक और लोकनाथ मानते हैं और अनादि जो नाथों का भी नाथ परमात्मा है उस को नहीं मानते तो उन तीर्थंकरों ने उपदेश किस से पाया ? जो कहें कि स्त्रयं प्राप्त हुआ तो ऐसा कथन सम्भव नहीं क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता । अथवा उन के कथनानुसार ऐसा ही होता तो अब भी उन में बिना पढ़े पढ़ाये सुने सुनाये और ज्ञानियों के सल्लङ्ग किये बिना ज्ञानी क्यों नहीं हो जाते ? जब नहीं होते तो ऐसा कथन सर्वथा निर्मूल और युक्तिशून्य सन्निपात रोगग्रस्त मनुष्य के बड़ाने के समान है । जो शून्यरूप ही अद्वैत उपदेश बौद्धों का है तो विद्यमान वस्तु शून्यरूप कभी नहीं हो सकता हां सञ्जा कारणरूप तो हो जाता है इस लिये यह भी कथन भ्रमरूपी है । जो द्रव्यों के उपार्जन से हो पूर्वोक्त द्वादशायतन पूजा मोक्ष का साधन मानते हैं तो दण प्राण और शयारह्ये जोषाया की पूजा क्यों नहीं करते ? जब इन्द्रिय और अन्तःकरण की पूजा भी मोक्षपद है तो इन बौद्धों और विपयी जनों में क्या भेद रहा ? जो उन से ये बौद्ध नहीं बच सके तो यहाँ मुक्ति भी कहाँ रही जहाँ ऐसी बातें हैं वहाँ मुक्ति का क्या काम ? क्या ही इन्होंने अपनी अविद्या की उन्नति की है जिस का सादृश्य इन के बिना दूसरों से नहीं घट सकता नियय तो यही होता है कि इन को वेद ईश्वर से विरोध करने का यही फल मिला । पूर्व तो सब संसार को दुःखरूपी भावना की, फिर बोध में द्वादशायतन पूजा लगा दी, क्या इन को द्वादशायतन पूजा संसार के पदार्थों से बाहर की है जो मुक्ति की देने हारी हो सके तो भला कभी आंध्र मोक्ष के कोई रत्न ढूँढा चाहे वा ढूँढे कभी प्राप्त हो सकता है ? ऐसी ही इन की जोला वेद ईश्वर को न मानने से हुई अब भी सुख चाहें तो वेद ईश्वर का आश्रय ले कर अपना जन्म सफल करें । विवेकविलास ग्रन्थ में बौद्धों का इस प्रकार का मत लिखा है:—

बौद्धानां सुगतो देवो विश्वं च क्षणभंगुरम् ।

आर्यसत्त्वाख्यथादत्त्वचतुष्टयमिदं क्रमात् ॥ १ ॥

दुःखमायतनं चैव ततः समुदयो मतः ।

मार्गश्चेत्यस्य च व्याख्या क्रमेण श्रूयतामतः ॥ २ ॥

दुःखसंसारिणस्कन्धास्ते च पञ्च प्रकीर्तिताः ।

विज्ञानं वेदनासंज्ञा संस्कारो रूपमेव च ॥ ३ ॥

पंचेन्द्रियाणि शब्दा वा विषयाः पञ्च मानसम् ।

धर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि तु ॥ ४ ॥

रागादीनां गणो यः स्यात्समुद्रेति नृणां हृदि ।

आत्मात्मीयस्वभावाख्यः स स्यात्समुदयः पुनः ॥ ५ ॥

क्षणिकाः सर्वसंस्कारा इति या वासना स्थिरा ।

स मार्ग इति विज्ञेयः स च मोक्षाऽभिधीयते ॥ ६ ॥

प्रत्यक्षमनुमानं च प्रमाणं द्वितयं तथा ।

चतुःप्रस्थानिका बौद्धाः ख्याता वैभाषिकादयः ॥ ७ ॥

अथो ज्ञानान्वितो वैभाषिकेण बहु मन्यते ॥

सौत्रान्तिकेन प्रत्यक्षग्राह्योऽर्थो न वहिर्मतः ॥ ८ ॥

आकारसहिता बुद्धिर्योगाचारस्य संमता ।

केवलां संविदं स्वस्थां मन्यन्ते मध्यमाः पुनः ॥ ९ ॥

रागादिज्ञानसन्तानं वासनाच्छेदसंभवा ।

चतुर्णामपि बौद्धानां मुक्तिरेषा प्रकीर्तिता ॥ १० ॥

कृत्तिः कमण्डलुर्मौण्ड्यं चीरं पूर्वाह्नभोजनम् ।

संघो रक्तावरत्वं च शिश्रिये बौद्धभिक्षुभिः ॥ ११ ॥

बौद्धों का सुगतदेव बुद्ध भगवान् पूजनीय देव और जगत् क्षणभंगुर आर्य्य पुत्रप और आर्य्या स्त्री तथा तत्त्वों की व्याख्या संज्ञादि प्रसिद्धि ये चार तत्त्व बौद्धों में मन्तव्य पदार्थ हैं ॥ १ ॥ इस विषय को दुःख का घर जाने तदनन्तर समुदय अर्थात् उत्पत्ति होती है और इन की व्याख्या क्रम से सुनो ॥ २ ॥ संसार में दुःख

ही है जो पंच स्कंध पूर्व कह आये हैं उन को जानना ॥ ३ ॥ पंच ज्ञानेन्द्रिय इन के शब्दादि विषय पांच और मन बुद्धि अन्तःकरण धर्म का स्थान ये छः ही हैं ॥ ४ ॥ जो मनुष्यों के हृदय में रागद्वेषादि समूह की उत्पत्ति होती है वह समुदय और जो आत्मा आत्मा के सम्बन्धी और स्वभाव है वह आत्मा इन्हीं से फिर समुदय होता है ॥ ५ ॥ सब संस्कार क्षणिक हैं जो यह वासना स्थिर होना वह वीहों का मार्ग है और वही शून्य तत्त्व शून्यरूप ही जाना मोक्ष है ॥ ६ ॥ बौद्ध लोग प्रत्यक्ष और अनुमान ही ही प्रमाण मानते हैं चार प्रकार के इन में भेद है वैभाषिक, सौतांतिक, योगाचार और माध्यमिक ॥ ७ ॥ इन में वैभाषिक ज्ञान में जो अर्थ है उस को विद्यमान मानता है क्योंकि जो ज्ञान में नहीं है उस का होना सिद्ध पुरुष नहीं मान सकता। और सौतान्त्रिक-भीतर को प्रत्यक्ष पदार्थ मानता है बाहर नहीं ॥ ८ ॥ योगाचार—आकारसहित विज्ञानयुक्त बुद्धि को मानता है। और माध्यमिक केवल अपने में पदार्थों का ज्ञानमात्र मानता है पदार्थों को नहीं मानता ॥ ९ ॥ और रागादि ज्ञान के प्रवाह की वासना के नाश से उत्पन्न छुट्टे सुक्ति चारों वीहों की है ॥ १० ॥ ऋगादि का चमड़ा कमण्डलु मूण्ड मुड़ाये, बल्कल वस्त्र, पूर्वाहण अर्थात् ८ वजे से पूर्व भोजन अकेला न रहे रक्त वस्त्र का धारण यह वीहों के साधुओं का वेग है ॥ ११ ॥ (उत्तर) जो वीहों का सुगत बुद्ध ही देव है तो उस का गुरु कौन था? और जो विश्व ज्ञणभङ्ग ही तो चिरदृष्ट पदार्थ का यह वही है ऐसा स्मरण न होना चाहिये जो ज्ञणभङ्ग होता तो वह पदार्थ नहीं रहता पुनः स्मरण किस का होवे? ॥ १ ॥ जो क्षणिकवाद ही वीहों का मार्ग है तो इन का मोक्ष भी क्षणभङ्ग होगा जो ज्ञान से युक्त अर्थ द्रव्य ही तो जड़ द्रव्य में भी ज्ञान होना चाहिये और वह ज्ञाननादि क्रिया किस पर करता है? भला जो बाहर दीप्तता है वह मिथ्या कैसे हो सकता है? जो आकाश से संचित बुद्धि होवे तो दृश्य होना चाहिये जो केवल ज्ञान ही हृदय में आत्मसा होवे वास्तव पदार्थों को केवल ज्ञान ही माना जाय तो ज्ञेय पदार्थ के बिना ज्ञान ही नहीं हो सकता, जो वासनाच्छेद ही सुक्ति है तो सुप्ति में भी सुक्ति माननी चाहिये ऐसा मानना विद्या से विरुद्ध होने के कारण तिरस्करणीय है। इत्यादि बातें संक्षेपतः बौद्ध मत-स्थों की प्रदर्शित कर दी हैं अब बुद्धिमान् विचारशील पुरुष अथलोकन करके जान जायेंगे कि इन की कौसी विद्या और कौसा मत है। इस को कौन लोग भी मानते हैं ॥

यहां से आगे जैनमत वर्णन है—

प्रकरणरत्नाकर १ भाग, नवचक्रसार में निम्नलिखित बातें लिखी हैं :—
बौद्ध लोग समय २ में नवीनपन से (१) आकाश, (२) काल, (३) ज्ञान, (४) पुद्गल, ये चार द्रव्य मानते हैं और जैनी लोग धर्मादिकाय, अधर्मादि-

काय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, और काल इन छः द्रव्यों को मानते हैं। इन में काल को आस्तिकाय नहीं मानते किन्तु ऐसा कहते हैं कि काल उपचार से द्रव्य है वस्तुतः नहीं इन में से "धर्मास्तिकाय" जो गतिपरिणामीपन से परिणाम को प्राप्त हुआ जीव और पुद्गल इस की गति के समीप से स्तम्भन करने का हेतु है वह धर्मास्तिकाय। और वह असंख्य प्रदेश परिमाण और लोक में व्यापक है दूसरा "अधर्मास्तिकाय" यह है कि जो स्थिरता से परिणामी हुए जीव तथा पुद्गल की स्थिति के आश्रय का हेतु है। तीसरा "आकाशास्तिकाय" उस को कहते हैं कि जो सब द्रव्यों का आधार जिस में अवगाहन प्रवेश निर्गम आदि क्रिया करने वाले जीव तथा पुद्गलों को अवगाहन का हेतु और सर्वव्यापी है। चौथा "पुद्गलास्तिकाय" यह है कि जो कारणरूप सूक्ष्म, नित्य, एक रस, वर्ण, गन्ध, स्पर्श, कार्य का लिङ्गपूरने और गलने के स्वभाव वाला होता है। पांचवां "जीवास्तिकाय" जो चेतना लक्षण ज्ञान दर्शन में उपयुक्त अनन्त पर्यायों से परिणामी होने वाला कर्ता भोक्ता है। और छठा "काल" यह है कि जो पूर्वाक्त पंचास्तिकायों का परत्व अपरत्व नवीन प्राचीनता का चिह्नरूप प्रसिद्ध वर्तमानरूप पर्यायों से युक्त है वह काल कहाता है (समीचक) जो वीहों ने चार द्रव्य प्रति समय में नवीन २ माने हैं वे झूठे हैं क्योंकि आकाश, काल, जीव और परमाणु ये नये वा पुराने कभी नहीं हो सकते, क्योंकि ये अनादि और कारणरूप से अविनाशी हैं पुनः नया और पुरानापन कैसे घट सकता है। और जैतियों का मानना भी ठीक नहीं क्योंकि धर्माऽधर्म द्रव्य नहीं किन्तु गुण हैं ये दोनों जीवास्तिकाय में आ जाते हैं इस लिये आकाश, परमाणु, जीव और काल मानते तो ठीक था और जो नव द्रव्य वैशेषिक में माने हैं वे ही ठीक हैं क्योंकि पृथिव्यादि पांच तत्व, काल, दिशा, आत्मा और मन ये नव पृथक् २ पदार्थ निश्चित हैं एक जीव को चेतन मान कर ईश्वर को न मानना यह जैन वीहों की मिथ्या पक्षपात की बात है।

अब जो बौद्ध और जैनी लोग सग भङ्गी और स्याहाद मानते हैं सो यह है कि "सन् घटः" इस को प्रथम भंग कहते हैं क्योंकि घट अपनी वर्तमानता से युक्त अर्थात् घड़ा है इस ने अभाव का विरोध किया है। दूसरा भंग "असन् घटः" घड़ा नहीं है प्रथम घट के भाव से इस घड़े के असद्भाव से दूसरा भंग है। तीसरा भंग यह है कि "सन्नसन्न घटः" अर्थात् यह घड़ा तो है परन्तु पट नहीं क्योंकि उन दोनों से पृथक् हो गया। चौथा भंग "घटोऽघटः" जैसे "अघटः, पटः" दूसरे पट के अभाव की अपेक्षा अपने में होने से घट अघट कहाता है युगपत् उस की दो संज्ञा अर्थात् घट और अघट भी है। पांचवां भंग यह है कि घट को पट कहना अयोग्य अर्थात् उस में घटपन वक्तव्य है और पटपन अवक्तव्य है। छठा

भंग यह है कि जो घट नहीं है वह कहने योग्य भी नहीं और जो है वह है और कहने योग्य भी है । और सातवां भंग यह है कि जो कहने को इष्ट है परन्तु वह नहीं है और कहने के योग्य भी घट नहीं यह सप्तमभंग कहाता है इसी प्रकार:-

स्यादस्ति जीवोऽयं प्रथमो भंगः ॥१॥ स्यान्नास्ति जीवो
द्वितीयो भंगः ॥ २ ॥ स्यादवक्तव्यो जीवस्तृतीयो भंगः ॥३॥
स्यादस्ति नास्ति नास्तिरूपो जीवश्चतुर्थो भंगः ॥४॥ स्यात्
अस्ति अवक्तव्यो जीवः पंचमो भंगः ॥५॥ स्यान्नास्ति अव-
क्तव्यो जीवः षष्ठो भंगः ॥ ६ ॥ स्यात् अस्ति नास्ति अव-
क्तव्यो जीव इति सप्तमो भंगः ॥ ७ ॥

अर्थात्—है जीव, ऐसा कथन होवे तो जीव के विरोधी जड़ पदार्थों का जीव में अभावरूप भंग प्रथम कहाता है । दूसरा भंग यह है कि नहीं है जीव जड़ में ऐसा कथन भी होता है इस से यह दूसरा भंग कहाता है । जीव है परन्तु कहने योग्य नहीं यह तीसरा भंग । जब जीव शरीरधारण करता है तब प्रसिद्ध और जब शरीर से पृथक् होता है तब अप्रसिद्ध रहता है ऐसा कथन होवे उस को चतुर्थभंग कहते हैं । जीव है परन्तु कहने योग्य नहीं जो ऐसा कथन है उस को पंचमभंग कहते हैं । जीव प्रत्यक्ष प्रमाण से कहने में नहीं आता इस लिये षष्ठ-प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा व्यवहार है उस को षष्ठा भंग कहते हैं । एक काल में जीव का अनुमान से होना और अदृश्यपन में न होना और एकसा न रहना किन्तु क्षण २ में परिणाम को प्राप्त होना अस्ति नास्ति न होवे और नास्ति अस्ति व्यव-हार भी न होवे यह सातवां भंग कहाता है ॥

इसी प्रकार नित्यत्व समभंगी और अनित्यत्व समभंगी तथा सामान्य धर्म विशेष धर्म गुण और पर्यायों की प्रत्यक्ष वस्तु में समभंगी होती है जैसे द्रव्य, गुण, स्वभाव और पर्यायों के अनन्त होने से समभंगी भी अनन्त होती है ऐसा ब्रौह्म तथा जैनियों का स्याद्वाद और समभंगी न्याय कहाता है । (समीक्षक) यह कथन एक अन्योऽन्याभाव में साधर्म्य और वैधर्म्य में चरितार्थ हो सकता है । इस सरल प्रकरण को छोड़ कर कठिन ज्ञान रचना केवल अज्ञानियों के फसल के लिये होता है । देखो ! जीव का अजीव में और अजीव का जीव में अभाव रहता ही है जैसे जीव और जड़ के वर्तमान होने से साधर्म्य और चेतन तथा जड़ होने से वैधर्म्य अर्थात् जीव में चेतनत्व (अस्ति) है और जड़त्व (नास्ति) नहीं है । इसी प्रकार जड़ में जड़त्व है और चेतनत्व नहीं है इस से गुण कर्म पभाव के समान

धर्म और विरह धर्म के विचार से सब इन का सप्तभंगी और स्याद्वाद सहजता से समझ में आता है फिर इतना प्रपंच बढ़ाना किस काम का है? इसमें बौद्ध और जैनों का एक मत है। घोड़ा सा ही पृथक् २ होने से भिन्नभाव भी ही जाता है ॥

पब इस के आगे केवल जैनमतविषय में लिखा जाता है :—

चिदचिद्हे परे तत्त्वे विवेकस्तद्विवेचनम् ।

उपादेयमुपादेयं हेयं हेयं च कुर्वतः ॥ १ ॥

हेयं हि कर्तुरागादि तत्कार्यमविवेकिनः ।

उपादेयं परं ज्योतिरुपयोगैकलक्षणम् ॥ २ ॥

जैन लोग "चित्" और "अचित्" अर्थात् चेतन और जड़ दो ही परतत्त्व मानते हैं उन दोनों के विवेचन का नाम विवेक जो २ ग्रहण के योग्य है उस २ का ग्रहण और जो २ त्याग करने योग्य है उस २ के त्याग करने वाले को विवेकी कहते हैं ॥ १ ॥ जगत् का कर्ता और रागादि तथा ईश्वर ने जगत् किया है इस अविवेकी मत का त्याग और योग से सच्चित परमज्योतिस्वरूप जो जीव है उस का ग्रहण करना उत्तम है ॥ २ ॥ अर्थात् जीव के बिना दूसरा चेतन तत्त्व ईश्वर को नहीं मानते कोई भी अनादि सिद्ध ईश्वर नहीं ऐसा बौद्ध जैन लोग मानते हैं। इसमें राजा शिवप्रसाद जी इतिहासतिमिरनाशक ग्रन्थ में लिखते हैं कि इन के दो नाम हैं एक जैन और दूसरा बौद्ध ये पर्यायवाची शब्द हैं परन्तु बौद्धों में वाममार्गी मध्यमांसाहारी बौद्ध हैं उन के साथ जैनियों का विरोध परन्तु जो महावीर और गौतम गणधर हैं उन का नाम बौद्धों ने बुद्ध रक्खा है और जैनियों ने गणधर और जिनवर इसमें जिन को परंपरा जैन मत है उन राजा शिवप्रसाद जी ने अपने "इतिहासतिमिरनाशक" ग्रन्थ के तीसरे खण्ड में लिखा है कि "स्वामी शंकराचार्य" से पहिले जिन को हुए कुल हजार वर्ष के लग भग गुजरे हैं सारे भारतवर्ष में बौद्ध अथवा जैनधर्म फैला हुआ था इस पर नोट "बौद्ध कहने से हमारा आशय इस मत से है जो महावीर के गणधर गौतम स्वामी के समय से शंकरस्वामी के समय तक वेदविरुद्ध सारे भारतवर्ष में फैला रहा और जिस को अशोक और संप्रति महाराज ने माना उस से जैन बाहर किसी तरह नहीं निकल सकते। जिन जिस से जैन निकला और बुद्ध जिस से बौद्ध निकला दोनों पर्यायवाची शब्द हैं जो दोनों का अर्थ एक ही लिखा है और गौतम को दोनों मानते हैं वर्ना दीपवंश इत्यादि पुराने बौद्ध ग्रन्थों में शाक्यमुनि गौतम बुद्ध को अकगर महावीर ही के नाम से लिखा है पस उस के समय में एक ही उन का मत रहा होगा हम ने जो जैन न लिख कर गौतम के मत वालों को

बौद्ध लिखा उस का प्रयोजन केवल इतना ही है कि उन को दूसरे देग वालों ने बौद्ध ही के नाम से लिखा है" ॥ ऐसा ही अमरकोश में भी लिखा है :—

सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः ।

समन्तभद्रो भगवान्मारजिह्लोकजिजिनः ॥ १ ॥

पडभिज्ञो दशवलोऽद्वयवादी विनायकः ।

मुनीन्द्रः श्रीघनः शास्ता मुनिः शाक्यमुनिस्तु यः ॥ २ ॥

स शाक्यसिंहः सर्वार्थः सिद्धशौद्धोदनिश्च सः ।

गौतमश्चार्कबन्धुश्च मायादेवीसुतश्च सः ॥ ३ ॥

अमरकोश कां० १—वर्ग १—श्लोक ८—से १० तक ॥

अब देखो ! बुद्ध जिन और बौद्ध तथा जैन एक के नाम हैं वा नहीं ? क्या "अमरसिंह" भी बुद्ध जिन के एका लिखने में भूल गया है ? जो अविद्वान् जैन हैं वे तो न अपना जानते और न दूसरे का केवल हठमात्र से बर्झाया करते हैं परन्तु जो जैनों में विद्वान् हैं वे सब जानते हैं कि "बुद्ध" और "जिन" तथा "बौद्ध" और "जैन" पर्यायवाची हैं इस में कुछ सन्देह नहीं । जैन लोग कहते हैं कि जीव ही परमेश्वर ही जाता है वे जो अपने तीर्थंकरों ही को केवली मुक्ति प्राप्त और परमेश्वर मानते हैं अनादि परमेश्वर कोई नहीं सर्वज्ञ, चोतराग, अर्हन्, केवली, तीर्थंकर, जिन, ये छः नास्तिकों के देवताओं के नाम हैं । आदिदेव का स्वरूप चन्द्रसूरि ने "आमन्त्रियालंकार" ग्रन्थ में लिखा है :—

सर्वज्ञो वीतरागादिदोषस्त्रैलोक्यपूजितः ।

यथा स्थितार्थवादी च देवोऽर्हन् परमेश्वरः ॥ १ ॥

वैश्वे ही "तीतातितो" ने भी लिखा है कि :—

सर्वज्ञो दृश्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः ।

दृष्टो न चैकदेशोऽस्ति लिङ्गं वा योऽनुमापयेत् ॥ २ ॥

न चागमविधिः कश्चिन्नित्यसर्वज्ञबोधकः ।

न च तत्रार्थवादानां तात्पर्यमपि कल्पते ॥ ३ ॥

न चान्यार्थप्रधानैस्तैस्तदस्तिद्वं विधीयते ।

न चानुवादितुं शक्यः पूर्वमन्यैरवाधितः ॥ ४ ॥

जो रागादिदोषों से रहित, त्रैलोक्य में पूजनीय, यथावत् पदार्थों का वक्ता सर्वज्ञ अर्हन् देव है वही परमेश्वर है ॥ १ ॥ जिस लिये हम इस समय परमेश्वर को नहीं देखते इस लिये कोई सर्वज्ञ अनादि परमेश्वर प्रत्यक्ष नहीं जब ईश्वर में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं तो अनुमान भी नहीं घट सकता क्योंकि एकदेश प्रत्यक्ष के बिना अनुमान नहीं हो सकता ॥ २ ॥ जब प्रत्यक्ष अनुमान नहीं तो आगम अर्थात् नित्य अनादि सर्वज्ञ परमात्मा का बोधक शब्दप्रमाण भी नहीं हो सकता जब तीनों प्रमाण नहीं तो अर्थवाद् अर्थात् स्तुति निन्दा परस्मृति अर्थात् पचाये चरित्र का वर्णन और पुराकल्प अर्थात् इतिहास का तात्पर्य भी नहीं घट सकता ॥ ३ ॥ और अन्यार्थप्रधान अर्थात् बहुव्रीहि समास के तुल्य परोक्ष परमात्मा की सिद्धि का विधान भी नहीं हो सकता पुनः ईश्वर के उपदेष्टाओं से सुने बिना अनुवाद भी कैसे हो सकता है ? ॥ ४ ॥ (इस का प्रत्याख्यान अर्थात् खण्डन) जो अनादि ईश्वर न होता तो "अर्हन्" देव के माता पिता आदि के शरीर का सांघा कौन बनाता ? विना संयोगकर्ता के यथायोग्य, सर्वावयवसम्पन्न, यथोचित कार्य करने में उपयुक्त शरीर बन ही नहीं सकता और जिन पदार्थों से शरीर बना है उन के जड़ होने से स्वयं इस प्रकार की उत्तम रचना से युक्त शरीररूप नहीं बन सकते क्योंकि उन में यथायोग्य बनने का ज्ञान ही नहीं, और जो रागादि दोषों से सहित होकर पद्यात् दोषरहित होता है वह ईश्वर कभी नहीं हो सकता क्योंकि जिस निमित्त से वह रागादि से मुक्त होता है वह मुक्ति उस निमित्त के छूटने से उस का कार्य मुक्ति भी अनित्य होगी, जो अल्प और अल्पज्ञ है वह सर्वव्यापक और सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता क्योंकि जीव का स्वरूप एकदेशी और परिमित गुण, कर्म, स्वभाव, वाला होता है वह सब विद्याओं में सब प्रकार यथार्थवक्ता नहीं हो सकता इस लिये तुम्हारे तीर्थंकर परमेश्वर कभी नहीं हो सकते ॥ १ ॥ क्या तुम जो प्रत्यक्ष पदार्थ हैं उन्हें को मानते हो अप्रत्यक्ष को नहीं जैसे काम से रूप और घट्ट से शब्द का ग्रहण नहीं हो सकता वैसे अनादि परमात्मा को देखने का साधन शब्दान्तःकरण, विद्या और योगाभ्यास से पयितात्मा परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता है जैसे बिना पढ़े विद्या के प्रयोजनों की प्राप्ति नहीं होती वैसे ही योगाभ्यास और विज्ञान के बिना परमात्मा भी नहीं देख पड़ता जैसे भूमि के रूपादि गुण ही को देख जान के गुणों से अव्यवहित मन्वन्व से पृथिवी प्रत्यक्ष होती है वैसे इस सृष्टि में परमात्मा की रचना विशेष लिङ्ग देख के परमात्मा प्रत्यक्ष होता है और जो पापाचरणेका समय में भय, शंका, लज्जा, उत्पन्न होती है वह अन्तर्यामी परमात्मा की ओर से है इस से भी परमात्मा प्रत्यक्ष होता है । अनुमान के होने में क्या संदेह हो सकता है ? और प्रत्यक्ष तथा अनुमान के होने से ॥ २ ॥ आगम प्रमाण भी नित्य, अनादि, सर्वज्ञ, ईश्वर का बोधक होता है इस लिये शब्द-

प्रमाण भी ईश्वर में है जब तीनों प्रमाणां से ईश्वर को जीव जान सकता है तब अर्थवाद अर्थात् परमेश्वर के गुणों की प्रशंसा करना भी यथार्थ घटता है क्योंकि जो नित्य पदार्थ हैं उन के गुण, कर्म, स्वभाव भी नित्य होते हैं उन की प्रशंसा करने में कोई भी प्रतिबंधक नहीं ॥ १ ॥ जैसे मनुष्यों में कर्ता के बिना कोई भी कार्य नहीं होता वैसे ही इस महत्कार्य का कर्ता के बिना होना सर्वथा असंभव है। जब ऐसा है तो ईश्वर के होने में सूढ़ को भी संदेह नहीं हो सकता। जब परमात्मा के उपदेश करने वालों से सुनें गे पद्यात् उस का अनुवाद करना भी सरल है। इस से जैनों के प्रत्यक्षादि प्रमाणां से ईश्वर का खंडन करना आदि व्यवहार अनुचित है ॥

प्रश्न—अनादेरागमस्यार्थो न च सर्वज्ञ आदिमान् ।

कृत्रिमेण त्वसत्येन स कथं प्रतिपाद्यते ॥ १ ॥

अथ तद्वचनेनैव सर्वज्ञोऽन्यैः प्रदीयते ।

प्रकल्पेत कथं सिद्धिरन्योऽन्याश्रययोस्तयोः ॥ २ ॥

सर्वज्ञोक्ततया वाक्यं सत्यं तेन तदस्तिता ।

कथं तदुभयं सिध्येत् सिद्धमूलान्तरादृते ॥ ३ ॥

बीच में सर्वज्ञ हुआ अनादि शास्त्र का अर्थ नहीं हो सकता क्योंकि किये हुए असत्य बचन से उस का प्रतिपादन किस प्रकार से हो सके ॥ १ ॥ और जो परमेश्वर ही के वचन से परमेश्वर सिद्ध होता है तो अनादि ईश्वर से अनादि शास्त्र की सिद्धि अनादि शास्त्र से अनादि ईश्वर की सिद्धि, अन्योऽन्याश्रय दीप आता है ॥ २ ॥ क्योंकि सर्वज्ञ के कथन से यह वेदवाक्य सत्य और उसी वेद वचन से ईश्वर की सिद्धि करते हैं यह कैसे सिद्ध हो सकता है ? उस शास्त्र और परमेश्वर की सिद्धि के लिये तीसरा कोई प्रमाण चाहिये जो ऐसा मानो गे तो अनवस्था दीप पावेगा ॥ ३ ॥ (उत्तर) हम लोग परमेश्वर और परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव को अनादि मानते हैं अनादि नित्य पदार्थों में अन्योऽन्याश्रय दीप नहीं आ सकता जैसे कार्य से कारण का ज्ञान और कारण से कार्य का बोध होता है कार्य में कारण का स्वभाव और कारण में कार्य का स्वभाव नित्य है वैसे परमेश्वर और परमेश्वर के अनन्त विद्यादि गुण नित्य होने से ईश्वरपणीत वेद में अनवस्था दीप नहीं आता ॥ १ २ ३ ॥ और तुम तीर्थंकरों को परमेश्वर मानने ही यह कभी नहीं घट सकता क्योंकि बिना माता पिता के उन का गरीर ही नहीं होता तो वे तपयर्था-ज्ञान और मुक्ति को कैसे पा सकते हैं वैसे ही संयोग का आदि अशक्य होता है

क्योंकि बिना वियोग के संयोग ही ही नहीं सकता इस लिये अनादि सृष्टिकर्ता परमात्मा को मानो । देखो ! चाहे कितना ही कोई सिद्ध हो तो भी शरीर आदि की रचना को पूर्णता से नहीं जान सकता जब सिद्ध जीव सुषुप्ति दशा में जाता है तब उस की कुछ भी भान नहीं रहता जब जीव दुःख को प्राप्त होता है तब उस का ज्ञान भी न्यून ही जाता है ऐसे परिच्छिन्न सामर्थ्य वाले एकदेश में रहने वाले को ईश्वर मानना बिना भ्रान्तिबुद्ध्युक्त जैतियों से अन्य कोई भी नहीं मान सकता । जो तुम कहो कि वे तीर्थंकर अपने माता पिताओं से हुए तो वे किन से और उन के माता पिता किन से ? फिर उन के भी माता पिता किन से उत्पन्न हुए ? इत्यादि अनवस्था आविगी ।

(आस्तिक और नास्तिक का संवाद)

इस के आगे प्रकरणरत्नाकर के दूसरे भाग आस्तिक नास्तिक के संवाद के प्रश्नोत्तर यहाँ लिखते हैं जिस को बड़े जैतियों ने अपनी सम्प्रति के साथ माना और सुखई में छुपाया है । (नास्तिक) ईश्वर की इच्छा से कुछ नहीं होता जो कुछ होता है वह कर्म से । (आस्तिक) जो सब कर्म से होता है तो कर्म किस से होता है ? जो कहो कि जीव आदि से होता है तो जिन श्रोत्रादि साधनों से जीव कर्म करता है वे किन से हुए ? जो कहो कि अनादि काल और स्वभाव से होते हैं तो अनादि का छूटना असंभव हो कर तुम्हारे मत में सुक्ति का अभाव होगा । जो कहो कि प्रागभाववत् अनादि सान्त हैं तो विना यत्न के सब के कर्म निवृत्त हो जायेंगे । यदि ईश्वर फलप्रदाता न हो तो पाप के फल दुःख की जीव अपनी इच्छा से कभी नहीं भोगे गा, जैसे चोर आदि चोरी का फल दंड अपनी इच्छा से नहीं भोगते किन्तु राज्यव्यवस्था से भोगते हैं वैसे ही परमेश्वर के भुगाने से जीव पाप और पुण्य के फलों को भोगते हैं अन्यथा कर्म संकर हो जायेंगे अन्य के कर्म अन्य को भोगने पड़ेंगे । (नास्तिक) ईश्वर अक्रिय है क्योंकि जो कर्म करता होता तो कर्म का फल भी भोगने पड़ता इस लिये जैसे हम केवली प्राप्त सुक्ती को अक्रिय मानते हैं वैसे तुम भी मानो । (आस्तिक) ईश्वर अक्रिय नहीं किन्तु सक्रिय है जब चेतन है तो करता क्यों नहीं ? और जो करता है तो वह क्रिया से पृथक् कभी नहीं हो सकता जैसा तुम्हारा कृत्रिम, बनावट के ईश्वर तीर्थंकर को जीव से बने हुए मानते हो इस प्रकार के ईश्वर को कोई भी विद्वान् नहीं मान सकता क्योंकि जो निमित्त से ईश्वर बने तो अनित्य और पराधीन हो जाय क्योंकि ईश्वर बने के प्रथम जीव था पश्चात् किसी निमित्त से ईश्वर बना तो फिर भी जीव हो जायगा अपने जीवत्व स्वभाव को कभी नहीं छोड़ सकता क्योंकि अनन्त काल से जीव है और अनन्त काल तक रहेगा इस लिये इस अनादि स्वतः-

सिद्ध ईश्वर को मानना योग्य है। देखो! जैसा वर्तमान समय में जीव पाप पुण्य-करता, सुख दुःख भोगता है वैसे ईश्वर कभी नहीं होता जो ईश्वर क्रियावान् न होता तो इस जगत् को कैसे बना सकता? जो कर्मों को प्रागभाषवत् अनादि सान्त मानते हो तो कर्म समवाय सम्बन्ध से नहीं रहेगा जो समवाय सम्बन्ध से नहीं वह संयोगज हो के अनित्य होता है जो सुक्ति में क्रिया ही न मानते हो तो वे सुक्त जीव ज्ञान वाले होते हैं वा नहीं? जो कही होते हैं तो अनाःक्रिया वाले हुए, क्या सुक्ति में पापाणवत् जड़ हो जाते एक ठिकाने पड़े रहते और कुछ भी चेष्टा नहीं करते तो सुक्ति क्या हुई किन्तु अन्वकार और बन्धन में पड़ गये। (नास्तिक) ईश्वर व्यापक नहीं है जो व्यापक होता तो सब वस्तु चेतन क्यों नहीं होती? और ब्राह्मण, चतुर्य, वैश्य, शूद्र, आदि की उत्तम, मध्यम, निजकट, अवस्था क्यों हुई? क्योंकि सब में ईश्वर एक सा व्याप्त है तो कुटार्द्र बड़ाई न होनी चाहिये। (आस्तिक) व्याप्य और व्यापक एक नहीं होते किन्तु व्याप्य एकदेशी और व्यापक सर्वदेशी होता है जैसे आकाश सब में व्यापक है और भूगोल और घटपटादि सब व्याप्य एकदेशी हैं जैसे पृथिवी आकाश एक नहीं वैसे ईश्वर और जगत् एक नहीं, जैसे सब घटपटादि में आकाश व्यापक है और घटपटादि आकाश नहीं, वैसे परमेश्वर चेतन सब में है और सब चेतन नहीं होता जैसे विद्वान् अविद्वान् और धर्मात्मा अधर्मात्मा बराबर नहीं होते विद्यादि सदगुण और सत्य-भाषणादि कर्म सुगीलतादि स्वभाव के न्यूनताधिक होने से ब्राह्मण, अत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्त्यज बड़े कोटे माने जाते हैं वर्णों की व्याख्या जैसे "चतुर्थसमुदास में" लिख आये हैं वहाँ देख लो। (नास्तिक) जो ईश्वर की रचना से सृष्टि होती तो माता पितादि का क्या काम? (आस्तिक) ऐश्वरी सृष्टि का ईश्वर कर्ता है जैसी सृष्टि का नहीं जो जीवों के कर्षव्य कर्म हैं उन को ईश्वर नहीं करता किन्तु जीव ही करता है जैसे वृक्ष, फल, शोषधि, अन्नादि ईश्वर ने उत्पन्न किया है उस को लेकर मनुष्य न पीसे, न कूटे, न रोटी आदि पदार्थ बनावे और न खावे तो क्या ईश्वर उस के बदले इन कामों को कभी करेगा? और जो न करे तो जीव का जीवन भी न हो सके इस लिये आदि सृष्टि में जीव के शरीरों और मांसों को बनाना ईश्वराधीन पश्चात् उन से पुत्रादि की उत्पत्ति करना जीव का कर्षव्य काम है। (नास्तिक) जब परमात्मा शाश्वत, अनादि, चिदानन्दज्ञान स्वरूप है तो जगत् के प्रपंच और दुःख में क्यों पड़ा? आनन्द छोड़ दुःख का ग्रहण ऐसा काम कोई साधारण मनुष्य भी नहीं करता ईश्वर ने क्यों किया? (आस्तिक) परमात्मा किसी प्रपंच और दुःख में नहीं गिरता न अपने आनन्द को छोड़ता है क्योंकि प्रपंच और दुःख में गिरना जो एकदेशी हो उस का हो सकता है सर्वदेशी का नहीं। जो अनादि, चिदानन्द, ज्ञानस्वरूप परमात्मा जगत् को न बनाये तो कर्म

कीन बना सके? जगत् बनाने का जीव में सामर्थ्य नहीं और जड़ में स्वयं बनने का भी सामर्थ्य नहीं इस से यह सिद्ध हुआ कि परमात्मा ही जगत् को बनाता और सदा आनन्द में रहता है जैसे परमात्मा परमाणुओंसे सृष्टि करता है वैसे माता पितारूप निमित्तकारण से भी उत्पत्ति का प्रबन्ध का नियम उसी ने किया (नास्तिक) ईश्वर मुक्तिरूप सुख को छोड़ जगत् की सृष्टिकरण धारण और प्रलय करने के बखड़े में क्यों पड़ा? (आस्तिक) ईश्वर सदा मुक्त होने से तुम्हारे साधनों से सिद्ध हुए तीर्थंकरों के समान एक देश में रहने हारे बन्धपूर्वक मुक्ति से युक्त सनातन परमात्मा नहीं है जो अनन्तस्वरूप गुण कर्म स्वभावयुक्त परमात्मा है वह इस किञ्चिन्नात्र जगत् को बनाता धरता और प्रलयकरता हुआ भी बन्ध में नहीं पड़ता क्योंकि बन्ध और मोक्ष सापेक्षता से हैं जैसे मुक्ति की अपेक्षा से बन्ध और बन्ध की अपेक्षा से मुक्ति होती है जो कभी बड़-नहीं था वह मुक्त क्योंकर कहा जासकता है? और जो एकदेशी जीव हैं वे ही बड़ और मुक्त सदा हुआ करते हैं अनन्त, सर्वदेशी, सर्वव्यापक, ईश्वर बन्धन वा नैमित्तिक मुक्ति के चक्र में जैसे कि तुम्हारे तीर्थंकर हैं कभी नहीं पड़ता। इस लिये वह परमात्मा सदैव मुक्त कहाता है। (नास्तिक) जीव कर्मों के फल ऐसे ही भोग सकते हैं जैसे भांग पीने के मद को स्वयमेव भोगता है इस में ईश्वर का काम नहीं। (आस्तिक) जैसे विना राजा के हाकू लंपट चौरादि दुष्ट मनुष्य स्वयं फांसी वा कारागृह में नहीं जाते न वे जाना चाहते हैं किन्तु राजा की न्यायव्यवस्थानुसार बलात्कार से पकड़ा कर यथोचित राजा दंड देता है इसी प्रकार जीव को भी ईश्वर अपनी न्यायव्यवस्था से स्व २ कर्मानुसार यथायोग्य दंड देता है क्योंकि कोई भी जीव अपने दुष्ट कर्मों के फल भोगना नहीं चाहता इस लिये अवश्य परमात्मा न्यायाधीश होना चाहिये। (नास्तिक) जगत् में एक ईश्वर नहीं किन्तु जितने मुक्त जीव हैं वे सब ईश्वर हैं। (आस्तिक) यहकथन सर्वथा व्यर्थ है क्योंकि जो प्रथम बड़ होकर मुक्त हो तो पुनः बन्ध में अवश्य पड़े क्योंकि वे स्वाभाविक सदैव मुक्त नहीं जैसे तुम्हारे चौबीस तीर्थंकर पहिले बड़ थे पुनः मुक्त हुए फिर भी बन्ध में अवश्य गिरेंगे और जब बहुत से ईश्वर हैं तो जैसे जीव अनेक होने से लड़ते भिड़ते फिरते हैं वैसे ईश्वर भी लड़ा भिड़ा करेंगे। (नास्तिक) हे मूढ़! जगत् का कर्ता कोई नहीं किन्तु जगत् स्वयं सिद्ध है। (आस्तिक) यह जैनिशों की कितनी बड़ी भूल है भना विना कर्ता के कोई कर्म, कर्म के बिना कोई कार्य जगत् में होता दीखता है यह ऐसी बात है कि जैसे गेड़ के खेत में स्वयं सिद्ध पिसान रोटी बन के जैनिशों के पेट में चली जाती है कपास, सूत, कपड़ा, अहरखा, दुपट्टा, धोती, पगड़ी, आदि बन के कभी नहीं आते जब ऐसा नहीं तो ईश्वर कर्ता के बिना यह विविध जगत् और नाना प्रकार की रचना विशेष कैसे बन सकती? जो हठ धर्म से

अयं सिद्ध जगत् को मानो तो अयं सिद्ध उपरोक्त ब्रह्मादिकों को कर्ता के बिना प्रत्यक्ष कर दिखलाओ जब ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते पुनः तुम्हारे प्रमाणग्रन्थ कथन को कौन बुझिमान् मान सकता है ? । (नास्तिक) ईश्वर विरक्त है वा मोहित ? जो विरक्त है तो जगत् के प्रपञ्च में क्यों पड़ा ? जो मोहित है तो जगत् के बनाने को सामर्थ्य नहीं हो सकेगा (आस्तिक) परमेश्वर में वैराग्य वा मोह कभी नहीं घट सकता, क्योंकि जो सर्वव्यापक है वह किस को छोड़े और किस को ग्रहण करे ईश्वर से उत्तम वा उस को अप्राम कोई पदार्थ नहीं है इस लिये किसी में मोह भी नहीं होता वैराग्य और मोह का होना जीव में घटता है ईश्वर में नहीं । (नास्तिक) जो ईश्वर को जगत् का कर्ता और जीवों के कर्मों के फलों का दाता मानो तो ईश्वर प्रपञ्ची हो कर दुःखी हो जायगा । (आस्तिक) भला अनेक-विध कर्मों का कर्ता और प्राणियों को फलों का दाता धार्मिक न्यायाधीश विद्वान् कर्मों में नहीं फसता न प्रपञ्ची होता है तो परमेश्वर अनन्त सामर्थ्य वाला प्रपञ्ची और दुःखी क्यों कर होगा ? हां तुम अपने और अपने तीर्थंकरों के समान परमेश्वर को भी अपने अज्ञान से समझते हो तो तुम्हारी अविद्या की लीला है जो अविद्यादि दोषों से छूटना चाहे तो वेदादि सत्यशास्त्रों का आश्रय लेओ क्यों भ्रम में पड़े रे ठाकरे खाते हो ? ॥

अब जैन लोग जगत् को जैसा मानते हैं वैसा इन के सूत्रों के अनुसार दिखलाते और संक्षेपतः सूत्रार्थ के किये पथात् सत्य झूठ की समीक्षा कर के दिखलाते हैं:—

मूल—सामिअणाइ अणन्ते च नूगइ संसार धारकान्तरे ।
मोहाइ कम्मगुरु ठिइ विवाग वसनुभमइ जीव रो । प्रकरणरत्ताकर
भाग दूसरा २ पष्ठीशतक यह रत्नसार भागनामक ग्रन्थ के
सम्यक्त्व प्रकाश प्रकरण में गौतम और महावीर का संवाद
है ॥ ६० सूत्र २ ॥

इस का संक्षेप से उपयोगी यह अर्थ है कि यह संसार अनादि अनन्त है न कभी इस की उत्पत्ति हुई न कभी विनाश होता है अर्थात् किसी का बनाया जगत् नहीं हो ही आस्तिक नास्तिक के संवाद में, हे मूढ़ ! जगत् का कर्ता कोई नहीं न कभी बना और न कभी नाश होता । (समीक्षक) जो संयोग से उत्पन्न होता है वह अनादि और अनन्त कभी नहीं हो सकता । और उत्पत्ति तथा विनाश हुए बिना कर्म नहीं रहता जगत् में जितने पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे सब संयोग

उत्पत्ति विनाश वाले देखे जाते हैं पुनः जगत् उत्पन्न और विनाश यान्ता क्यों नहीं ? इस लिये तुम्हारे तीर्थकरों को सम्यग्बोध नहीं था जो उन को सम्यग्ज्ञान होता तो ऐसी असम्भव बातें क्यों लिखते ? ॥२॥ जैसे तुम्हारे गुरु हैं वैसे तुम शिष्य भी हो तुम्हारी बातें सुनने वाले को पदार्थज्ञान कभी नहीं हो सकता भला जो प्रत्यक्ष संयुक्त पदार्थ देखता है उस को उत्पत्ति और विनाश क्यों कर नहीं मानते अर्थात् इन के आचार्य वा जैनियों को भूगोल खगोल विद्या भी नहीं आती थी और न अब यह विद्या इन में है नहीं तो निम्नलिखित ऐसी असम्भव बातें क्यों कर मानते और कहते देखो । इस सृष्टि में पृथिवी गाय अर्थात् पृथिवी भी जीव का शरीर है और जलकायादि जीव भी मानते हैं इस को कोई भी नहीं मान सकता । और भी देखा ! इन की मिथ्या बातें जिन तीर्थकरों को जैन लोग सम्यग्ज्ञानी और परमेश्वर मानते हैं उन की मिथ्या बातों के ये नमूने हैं। (रत्नसारभाग) के पृष्ठ १४५ इस ग्रन्थ को जैन लोग मानते हैं और यह (ईसवी सन् १८७६ अप्रैल मा. २८ में) बनारस जैनप्रभाकर प्रेस में नानकचन्द्र खती ने छपवा कर प्रसिद्ध किया है उस के पूर्वोक्त पृष्ठ में काल की इस प्रकार व्याख्या की है अर्थात् समय का नाम सूक्ष्म-काल है । और असंख्यात समयों को "आवलि" कहते हैं । एक क्रीड़, ससंठलाख, सत्तर सहस्र, दो सौ सोलह आवक्तियों का एक मुहूर्त होता है वैसे तीस मुहूर्तों का एक दिवस, वैसे पन्द्रह दिवसों का एक पक्ष, वैसे दो पक्षों का एक मास वैसे बारह महीनों का एक वर्ष होता है । वैसे सत्तर लाखक्रीड़, छप्पन सहस्र क्रीड़ वर्षों का एक पूर्ण होता है ऐसे असंख्यात पूर्णों का एक "पक्षोपम" काल कहते हैं। असंख्यात इस को कहते हैं कि एक चारकोश का चौरस और उतना ही गहरा कुआ खोद कर उस को जुगुलिये मनुष्य के शरीर के निम्नलिखित वालों के टुकड़ों से भरना अर्थात् वर्तमान मनुष्य के शरीर से जुगुलिये मनुष्य के बाल चारहजार छानवे भाग सूक्ष्म होता है जब जुगुलिये मनुष्यों के चार सहस्र छानवे वालों को इकट्ठा करें तो इस समय के मनुष्यों का एक बाल होता है ऐसे जुगुलिये मनुष्य के एक बाल के एक अंगुल भाग के सात बार आठ २ टुकड़े करने से २०६०१५२ अर्थात् बीसलाख सत्तानवे सहस्र एक सौ भावन टुकड़े होते हैं ऐसे टुकड़ों से पूर्वोक्त कुआ को भरना उस में से सौ वर्ष के अन्तर एक २ टुकड़ा निकालना जब सब टुकड़े निकल जावें और कुआ खाली हो जाय तो भी वह संख्यात काल है और जब उनमें से एक २ टुकड़े के असंख्यात टुकड़े करके उन टुकड़ों से उसी कुए को ऐसा ठस के भरना कि उस के ऊपर से चक्रवर्ती राजा को सेना चली जाय तो भी न दूरे उन टुकड़ों में से सौ वर्ष के अन्तर एक टुकड़ा निकाले जब वह कुआ रीता हो जाय तब उस में असंख्यात पूर्ण पहुँचे तब एक २ पक्षोपम काल होता है । वह पक्षोपम काल कुआ के दृष्टान्त से जानना जब दश क्रीडान् क्रीड़

पल्योपम काल बीते तब एक सागरोपम काल होता है जब दृग कोहान् को उ साग-
रोपम काल बीत जाय तब एक उत्सर्पणी काल होता है। और जब एक उत्स-
र्पणी और एक अवसर्पणी काल बीत जाय तब एक कालचक्र होता है, जब
अनन्त कालचक्र बीत जावे तब एक पुद्गल पराहस होता है अब अनन्त काल
किस को कहते हैं जो सिद्धान्त पुस्तकों में नव दृष्टान्तों से काल की संख्या को है
उस से उपरान्त अनन्त काल कहता है जैसे अनन्त पुद्गल पराहस काल जीव
को भ्रमते हुए बीते हैं इत्यादि। सुनो भाई! गणितविद्या वाले लोगो! जैनियों
के ग्रन्थों की काल संख्या कर सकोगे वा नहीं? और तुम इस को सच भी मान
सकोगे वा नहीं? देखो! इन तीर्थंकरों ने ऐसी गणितविद्या पढ़ी थी ऐसे २ तो
इन के मत में गुरु और शिष्य हैं जिन की अधिद्या का कुछ पारावार नहीं।
और भी इन का अन्धेर सुनो (रत्नसारभाग, पृ० १३२) से लेके जो कुछ बृटाबोल
अर्थात् जैनियों के सिद्धान्त ग्रन्थ जो कि उन के तीर्थंकर अर्थात् ऋषभदेव से ले
के महावीर पर्यन्त चौबीस हुए हैं उन के वचनों का सार संग्रह है ऐसा रत्नसा-
रभाग पृ० १४८ में लिखा है कि पृथिवीकाय के जीव मत्थी पापाणादि पृथिवी के
भेद जानना, उन में रहने वाले जीवों के शरीर का परिमाण एक अंगुल का असं-
ख्यातवां समझना अर्थात् अतीव सूक्ष्म होते हैं उन का आयुमान अर्थात् से अधिक
से अधिक २२ सहस्र वर्ष पर्यन्त जीते हैं। रत्न० पृ० १४६ वनस्पति के एक शरी-
र में अनन्त जीव होते हैं वे साधारण वनस्पति कहती हैं जो कि कन्दमूलप-
मुख और अनन्तकायप्रमुख होते हैं उन की साधारण वनस्पति के जीव कहने
चाहिये उन का आयुमान अन्तर्मुहूर्त्त होता है परन्तु यहाँ पूर्वोक्त इन का मुह-
ूर्त्त समझना चाहिये और एक शरीर में जो एकेन्द्रिय अर्थात् स्पर्श इन्द्रिय इन
में है और उस में एक जीव रहता है उस को प्रत्येक वनस्पति कहते हैं उस का
देहमान एक सहस्र योजन अर्थात् पुराणियों का योजन ४ कोश का परन्तु जैनि-
यों का योजन १०००० दशसहस्र कोशों का होता है ऐसे चार सहस्र कोश का
शरीर होता है उस का आयुमान अधिक से अधिक दश सहस्र वर्ष का होता है
अब दो इन्द्रिय वाले जीव अर्थात् एक उन का शरीर और एकमुख जो गंग
कौड़ी और जू आदि होते हैं उन का देहमान अधिक से अधिक, अड़तालीस कोश
का स्थूल शरीर होता है। और उन का आयुमान अधिक से अधिक बारह वर्ष
का होता है यहाँ बहुत ही भूल गया क्योंकि इतने बड़े शरीर का आयु अधिक
लिखता और अड़तालीसकोश की स्थूल जू जैनियों के शरीर में पड़ती होगी
और उन्हीं ने देखी भी होगी और का भाग्य ऐसा कहें जो इतनी बड़ी जू की
है !!! रत्नसार भा० पृ० १५० और देखो! इन का अन्यापुन्ध बोध, बगार्ड, कमारी
और मक्खी एक योजन के शरीर वाले होते हैं इन का आयुमान अधिक से अधिक

कः महीने का है। देखो भाई! चार २ कोश का वीकू अन्य किसी ने देखा न होगा जो आठ मील तक का शरीर वाला वीकू और मक्खी भी जैनियों के मत में होती है ऐसे वीकू और मक्खी उन्हीं के घर में रहते होंगे और उन्हीं ने देखे होंगे। अन्य किसी ने संसार में नहीं देखे होंगे कभी ऐसे वीकू किसी जैन को काटे तो उस का क्या होता होगा? जलचर मक्खी आदि के शरीर का मान एक सहस्र योजन अर्थात् १०००० कोश के योजन के हिसाबसे १००००००० एक क्रीड़ कोश का शरीर होता है और एक करोड़ पूर्व वर्षों का इन का आयु होता है वैसा स्थूल जलचर सिवाय जैनियों के अन्य किसीने न देखा होगा। और चतुष्पाद हाथी आदि का देहमान दो कोश से नव कोश पर्यन्त और आयुमान चौरासी सहस्र वर्षों का इत्यादि ऐसे बड़े २ शरीर वाले जीव भी जैनी लोगों ने देखे होंगे और मानते हैं और कोई बुद्धिमान नहीं मान सकता। (रत्नसार भा० पृ० १५१) जलचर गर्भज जीवों का देहमान उत्कृष्ट एक सहस्र योजन अर्थात् १००००००० एक करोड़ कोशों का और आयुमान एक क्रीड़ पूर्व वर्षों का होता है इतने बड़े शरीर और आयु वाले जीवों को भी इन्हीं के आचार्यों ने स्वप्न में देखे होंगे। क्या यह महाभूठ बात नहीं कि जिस का कदापि सम्भव न हो सके? ॥

अब सुनिये भूमि के परिमाण को। (रत्नसार भा० पृ० १५२) इस तिरछे लोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं इन असंख्यात का प्रमाण अर्थात् जो अट्टाई सागरोपम काल में जितना समय है उतने द्वीप तथा समुद्र जानना अब इस पृथिवी में एक "जम्बूद्वीप" प्रथम सब द्वीपों के बीच में है इस का प्रमाण एक लाख योजन अर्थात् चार लाख कोश का है और इस के चारों ओर लवण समुद्र है उस का प्रमाण दो लाख योजन कोश का है अर्थात् आठ लाख कोश का। इस जम्बूद्वीप के चारों ओर जो "धातकीखण्ड" नाम द्वीप है उस का चार-लाख योजन अर्थात् सोलह लाख कोश का प्रमाण है और उस के पीछे "कालो-दधि" समुद्र है उस का आठ लाख अर्थात् बत्तीस लाख कोश का प्रमाण है उस के पीछे "पुष्करावर्त" द्वीप है उस का प्रमाण शोलह कोश का है उस द्वीप के भीतर की कोरें हैं उस द्वीप के आधे में मनुष्य बसते हैं और उस के उपरान्त असंख्यात द्वीप समुद्र हैं उन में तिर्यग् योनी के जोय रहते हैं। (रत्नसार भा० पृ० १५३) जम्बूद्वीप में एक हिमवन्त, एक ऐरष्यवन्त, एक हरिवर्ष, एक रस्यक, एक देव-कुण्ड, एक उत्तरकुण्ड, ये कः क्षेत्र हैं ॥ (समीचक) सुनो भाई! भूगोलविद्या के जानने वाले लोगो! भूगोल के परिमाण करने में तुम भूलें वा जैन? जो जैन भूल गये हों तो तुम उन को समझाओ और जो तुम भूलें हो तो उन से समझ लो। घोड़ासा विचार कर देखो तो यही निश्चय होता है कि जैनियों के आचार्यों और गिद्धों ने भूगोल खगोल और गणितविद्या कुछ भी नहीं पढ़ी थी जो पढ़े

होते तो महाअसंभव गपोड़ा क्यों मारते ? भला ऐसे अविद्वान् पुरय जगत् को प्रकर्तु और ईश्वर को न मानें इस में क्या आश्चर्य्य है ? इस लिये जैनी लोग अपने पुस्तकों को किन्ही विद्वान् अन्य मतस्थों को नहीं देते क्योंकि जिन को जोग ये प्रामाणिक तीर्थंकरों के बनाये हुए सिद्धान्त ग्रंथ मानते हैं उन में इसी प्रकार की अविद्यायुक्त बातें भरी पड़ी हैं इस लिये नहीं देखने देते जो देखें तो पील खुल जाय इन के बिना जो कोई मनुष्य कुछ भी बुद्धि रखता होगा वह कदापि इस गपोड़ाध्याय को सत्य नहीं मान सकेगा यह सब प्रपञ्च जैनियों ने जगत् को अनादि मानने के लिये खड़ा किया है परन्तु यह निरा भूठ है ही जगत् का कारण अनादि है क्योंकि वह परमाणु आदि तत्त्वस्वरूप प्रकर्तु है परन्तु उन में नियम पूर्वक बनने वा विगड़ने का सामर्थ्य कुछ भी नहीं क्योंकि जब एक परमाणु द्रव्य किसी का नाम है और स्वभाव से पृथक् २ रूप और जड़ है वे अपने आप यथायोग्य नहीं बन सकते इस लिये इन का बनाने वाला चेतन अवश्य है और वह बनाने वाला ज्ञानस्वरूप है । देखा ! पृथिवी सूर्यादि सब लोकों को नियम में रखना अनन्त अनादि चेतन परमात्मा का काम है जिस में संयोग रचना विशेष दीखता है वह स्थूल जगत् अनादि कभी नहीं हो सकता जो कार्य जगत् को नित्य मानो गे तो उस का कारण कोई न होगा किन्तु वही कार्यकारणरूप ही जायगा जो ऐसा कहो गे तो अपना कार्य और कारण आप ही होने से अन्योऽन्याश्रय और आत्माश्रय दोष आवेगा, जैसे अपने कन्धे पर आप चढ़ना और अपना पिता पुत्र आप नहीं हो सकता, इस लिये जगत् का कर्ता अवश्य ही मानना है । (प्रश्न) जो ईश्वर को जगत् का कर्ता मानते हो तो ईश्वर का कर्ता कौन है ? (उत्तर) कर्ता का कर्ता और कारण का कारण कोई भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रथम कर्ता और कारण के होने से ही कार्य होता है जिस में संयोग वियोग नहीं होता, जो प्रथम संयोग वियोग का कारण है उस का कर्ता वा कारण किसी प्रकार नहीं हो सकता इस की विशेष व्याख्या आठवें समुखाम सृष्टि की व्याख्या में लिखी है देख लेना । इन जैन लोगों को स्थूल बात का भी यथावत ज्ञान नहीं तो परमसूक्ष्म सृष्टिविद्या का बोध कैसे हो सकता है ? इस लिये जो जैनी लोग सृष्टि को अनादि, अनन्त मानते और दृश्यापर्यायों को भी अनादि अनन्त मानते हैं और प्रतिगुण प्रतिदेग में पर्यायों और प्रतिशतु में भी अनन्त पर्याय को मानते हैं वह प्रकरणरत्नाकर के प्रथम भाग में लिखा है यह भी बात कभी नहीं घट सकती क्योंकि जिन का अन्त अर्थात् मर्यादा होती है उन के सब सम्बन्धी अन्त वाले ही होते हैं यदि अनन्त को असंख्य कहेंगे तो भी नहीं घट सकता किन्तु जीवापेक्षा में यह बात घट सकती है परमेश्वर के सामने नहीं । क्योंकि एक २ द्रव्य में अपने २ एकर कार्यकारण सामर्थ्य को अविभाग पर्यायों से

से अनन्त सामर्थ्य मानना केवल अविद्या की बात है जब एक परमाणु द्रव्य की सीमा है तो उस में अनन्त विभागरूप पर्याय कैसे रह सकते हैं ? ऐसे ही एक २ द्रव्य में अनन्त गुण और एक गुण प्रदेश में अविभागरूप अनन्त पर्यायों को भी अनन्त मानना केवल बालकपन की बात है क्योंकि जिस के अधिकरण का अन्त है तो उस में रहने वालों का अन्त क्यों नहीं ? ऐसी ही लम्बी चौड़ी मिथ्या बातें लिखी हैं अब जीव और अजीव इन दो पदार्थों के विषय में जैनियों का नियम ऐसा है :—

चेतनालक्षणो जीवः स्यादजीवस्तदन्यकः ।

सत्कर्मपुद्गलाः पुण्यं पापं तस्य विपर्ययः ॥

बह जिनदत्तसूरि का वचन है—और यही प्रकरणरत्नाकरभाग पहिले में मयचक्रसार में भी लिखा है कि चेतनालक्षण जीव और चेतनारहित अजीव अर्थात् जड़ है । सत्कर्मरूप पुद्गल पुण्य और पापकर्मरूप पुद्गल पाप कहाते हैं । (समीचक) जीव और जड़ का लक्षण तो ठीक है परन्तु जो जड़रूप पुद्गल है वे पापपुण्ययुक्त कभी नहीं हो सकते क्योंकि पाप पुण्य करने का स्वभाव चेतन में होता है देखो ! ये जितने जड़ पदार्थ हैं वे सब पाप पुण्य से रहित हैं जो जीवों को अनादि मानते हैं यह तो ठीक है परन्तु उसी अल्प और अल्पज्ञ जीव को मुक्ति दशा में सर्वज्ञ मानना भ्रूठ है क्योंकि जो अल्प और अल्पज्ञ है उस का सामर्थ्य भी सर्वदा ससीम रहेगा । जैनी लोग जगत्, जीव, जीव के कर्म और बन्ध अनादि मानते हैं यहां भी जैनियों के तीर्थंकर भूल गये हैं क्योंकि संयुक्त जगत् का कार्यकारण, प्रवाह से कार्य, और जीव के कर्म, बन्ध भी अनादि नहीं हो सकते जब ऐसा मानते हो तो कर्म और बन्ध का छूटना क्यों मानते हो ? क्योंकि जो अनादि पदार्थ है वह कभी नहीं छूट सकता । जो अनादि का भी नाश मानोगे तो तुम्हारे सब अनादि पदार्थों के नाश का प्रसंग होगा और जब अनादि को नित्य मानोगे तो कर्म और बन्ध भी नित्य होगा । और जब सब कर्मों के नाश का प्रसंग होगा और जब अनादि को नित्य मानोगे तो कर्म और बन्ध भी नित्य होगा और जब सब कर्मों के छूटने से मुक्ति मानते हो तो सब कर्मों का छूटना रूप मुक्ति का निमित्त हुआ तब नैमित्तिककी मुक्ति होगी तो सदा नहीं रह सकेगी और कर्म कर्ता का नित्य सम्बन्ध होने से कर्म भी कभी न छूटेंगे पुनः जब तुम ने अपनी मुक्ति और तीर्थंकरों की मुक्ति नित्य मानो है सो नहीं बन सकेगी ! (प्रश्न) जैसे धान्य का क्लिकला उतारने वा अग्नि के संयोग होने से वह बीज पुनः नहीं उगता इसी प्रकार मुक्ति में गया हुआ जीव पुनः जन्ममरणरूप संसार में नहीं आता (उत्तर) जीव और कर्म का सम्बन्ध क्लिकले और

जीव के समान नहीं है किन्तु इन का समवाय सम्बन्ध है, इस से अनादि काल से जीव और उस में कर्म और कर्तृत्व शक्ति का सम्बन्ध है जो उस में कर्म करने की शक्ति का भी अभाव मानो गे तो सब जीव पापाणयत् हो जाते गे और मुक्ति का भोगने का भी सामर्थ्य नहीं रहे गा, जैसे अनादि काल का कर्मबन्धन छूट कर जीव मुक्त होता है तो तुम्हारी नित्यमुक्ति से भी छूट कर बन्धन में पड़े गा क्योंकि जैसे कर्मरूप मुक्ति के साधनों से भी छूट कर जीव का मुक्त होना मानते हो ऐसे ही नित्यमुक्ति से भी छूट के बन्धन में पड़ेगा साधनों से सिद्ध हुआ पदार्थ नित्य कभी नहीं हो सकता और जो साधन सिद्ध के बिना मुक्ति मानो गे तो कर्मों के बिना ही बन्ध प्राप्त हो सकेगा । जैसे बस्ती में मेल लगता और धोने से छूट जाता है पुनः मेल लग जाता है वैसे मिथ्यात्वादि हेतुओं से रागद्वेषादि के आश्रय से जीव को कर्मरूप फल लगता है और जो सम्यक्ज्ञान दर्शन चारित्र्य से निर्मल होता है और मत्त लगने के कारणों से मत्तों का लगना मानते हो तो मुक्त जीव संसारी और संसारी जीव का मुक्त होना अवश्य मानना पड़े गा क्योंकि जैसे निमिषों से मस्तिनता छूटतो है वैसे निमिषों से मस्तिनता लग भी जायगी इस लिये जीव को बन्ध और मुक्ति प्रवाहरूप से अनादि मानो अनादि अनन्तता से नहीं । (प्रश्न) जीव निर्मल कभी नहीं था किन्तु मलसहित है । (उत्तर) जो कभी निर्मल नहीं था तो निर्मल भी कभी नहीं हो सके गा जैसे शूद्र वस्त्र में पोछे से लगे हुए मैल को धोने से छुड़ा देते हैं उस के स्वाभाविक श्वेत वर्ण को नहीं छुड़ा सकते मैल फिर भी वस्त्र में लग जाता है इसी प्रकार मुक्ति में भी लगे गा । (प्रश्न) जीव पूर्वोपाजित कर्म ही से शरीर धारण कर लेता है ईश्वर का मानना व्यर्थ है । (उत्तर) जो केवल कर्म ही शरीरधारण में निमित्त हो ईश्वर कारण न हो तो वह जीव बुरा जन्म कि जहाँ बहुत दुःख हो उस को धारण कभी न करे किन्तु सदा अच्छे २ जन्म धारण किया करे । जो कहे कि कर्म प्रतिबन्धक है, तो भी जैसे पोर आप से आ के बन्धीगृह में नहीं जाता, और अर्थ फाँसी भी नहीं खाता, किन्तु राजा देता है, इसी प्रकार जीव को शरीरधारण करना और उस के कर्मानुसार फल देने वाले परमेश्वर को तुम भी मानो । (प्रश्न) मद (नगा) के समान कर्म फल प्राप्त होता है फल देने में दूसरे की आवश्यकता नहीं । (उत्तर) जो ऐसा हो तो जैसे मदपान करने वालों को मद कम चढ़ता, अनभ्यासी को बहुत पड़ता है, वैसे नित्य बहुत पाप पुण्य करने वालों को लून और कभी २ छोड़ा २ पाप पुण्य करने वालों को अधिक फल होना चाहिये और छोटे कर्म वालों को अधिक फल होवे । (प्रश्न) जिम का ऐसा अभाव होता है उस को वैसा ही फल दिया करता है । (उत्तर) जो अभाव से है तो उस का छूटना वा मिलना नहीं हो सकता हाँ जैसे शूद्र वस्त्र में निमिषों से मल लगता है उस के छुड़ाने के निमिषों से छूट

भी जाता है ऐसा मानना ठीक है । (प्रश्न) संयोग के बिना कर्म परिणाम को प्राप्त नहीं होता, जैसे दूध और खटाई के संयोग के बिना दही नहीं होता इसी प्रकार जीव और कर्म के योग से कर्म का परिणाम होता है । (उत्तर) जैसे दही और खटाई का मिलाने वाला तीसरा होता है, वैसे ही जीवों को कर्मों के फल के साथ मिलाने वाला तीसरा ईश्वर होना चाहिये, क्योंकि जड़ पदार्थ स्वयं नियम से संयुक्त नहीं होते और जीव भी अल्पज्ञ होने से स्वयं अपने कर्म फल को प्राप्त नहीं हो सकते, इस से यह सिद्ध हुआ कि बिना ईश्वर स्थापित सृष्टिक्रम के कर्मफलव्यवस्था नहीं हो सकती । (प्रश्न) जो कर्म से मुक्त होता है वही ईश्वर कहा जाता है । (उत्तर) जब अनादि काल से जीव के साथ कर्म लगे हैं तो उन से जीव मुक्त कभी नहीं हो सके गे । (प्रश्न) कर्म का बंध सादि है । (उत्तर) जो सादि है तो कर्म का योग अनादि नहीं और संयोग की आदि में जीव निष्कर्म होगा और जो निष्कर्म को कर्म लग गया तो मुक्तों को भी लग जायगा और कर्म कर्ता का समवाय अर्थात् निव्य संबन्ध होता है यह कभी नहीं छूटता, इस लिये जैसा ६ समुत्पत्ति में लिख आये हैं वैसा ही मानना ठीक है । जीव चाहें जैसे अपना ज्ञान और सामर्थ्य बढ़ावे तो भी उस में परिमितज्ञान और ससीम सामर्थ्य रहेगा, ईश्वर के समान कभी नहीं हो सकता । हां जितना सामर्थ्य बढ़ाना उचित है उतना योग से बढ़ा सकता है और जो जैनियों में आर्हत लोग देह के परिमाण से जीव का भी परिमाण मानते हैं उन से पूछना चाहिये कि जो ऐसा हो तो हाथी का जीव कीड़ी में, और कीड़ी का जीव हाथी में कैसे समा सकेगा ? यह भी एक मूर्खता की बात है क्योंकि जीव एक सूक्ष्म पदार्थ है जो कि एक परमाणु में भी रह सकता है । परन्तु उस की शक्तियां शरीर में प्राण विजुली और नाड़ी आदि के साथ संयुक्त हो रहती हैं उन से सब शरीर का वर्तमान जानता है अच्छे संग से अच्छा और बुरे संग से बुरा हो जाता है । अब जैन लोग धर्म इस प्रकार का मानते हैं ।

मूल—रे जीव भवदुहाइं इकं चिय हरइ जिएमयं धम्मं ।

इयराणं परमं तो सुहकप्ये मूढमुसि ओसि ॥

प्रकरणरत्नाकर—भाग २—पृष्ठी शतक ६० । सूत्रांक ३ ॥

संक्षेप से अर्थ—अरे जीव । एक ही जिन मत त्रीवीतरागभाषित धर्म संसार सम्बन्धी जन्म जरामरणादि दुःखों का हरणकर्ता है इसी प्रकार सुदेव और सुगुरु भी जैन मत वाले को जानना इतर जो वीतराग ऋषभदेव से लेके महावीर पर्यन्त वीतराग देवी से भिन्न अन्य हरि हर ब्रह्मादि कुदेव हैं उन को अपने कल्याणार्थ जो जीव पूजा करते हैं वे सब मनुष्य ठगाये गये हैं । इस का यह भावार्थ है कि

जैन मत के सुदेव सुगुरु तथा सुधर्म को छोड़ के अन्य कुदेव कुगुरु तथा कुधर्म को सेवने से कुछ भी कल्याण नहीं होता ॥ १ ॥ (समीक्षक) अब विद्वानों को विचारना चाहिये कि कैसे निन्द्यायुक्त इन के धर्म के प्रसङ्ग हैं ? ॥

मूल—अरिहं देवो सुगुरु सुद्वं धम्मं च पंच नवकारो ।

धन्नाणं कयच्छाणं निरन्तरं वसइ हिययम्मि ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० ६० । सू० १ ॥

जो अरिहन् देवेन्द्रकृत पूजादिकन के योग्य दूसरा पदार्थ उत्तम कोई नहीं ऐसा जो देवों का देव शोभायमान अरिहन्त देव ज्ञानक्रियावान् शास्त्री का उपदेष्टा शुद्ध कपाय मलरहित संस्यक्त विनय दयामूल श्रीजिनभाषित जो धर्म है वही दुर्गति में पड़ने वाले प्राणियों का उद्धार करने वाला है और अन्य हरिहरादि का धर्म संसार से उद्धार करने वाला नहीं और पंच अरिहन्तादिक परमेष्ठी तत्त्वमन्धी उन को नमस्कार ये चार पदार्थ धन्य हैं अर्थात् ये छ हैं अर्थात् दया, क्षमा, सम्यक्, ज्ञान, दर्शन, और चारित्र यह जैनों का धर्म है ॥ १ ॥ (समीक्षक) जब मनुष्य-मात्र पर दया नहीं वह दया न क्षमा ज्ञान के बदले अज्ञान दर्शन अंधेर और चारित्र के बदले भूखे मरना कौन सी अच्छी बात है ? ॥ जैन मत के धर्म की प्रशंसा :-

मूल—जइन कुणसि तव चरणं न पढसि न गुणोसि देसि नो

दाणम् । ता इत्तियं न सक्किसिजं देवो इक्क अरिहन्तो ॥

प्रकरण० भा० २ । पृष्ठी सू० २ ॥

हे मनुष्य ? जो तू तप चारित्र नहीं कर सकता, न सूत्र पढ़ सकता, न प्रकरणादि का विचार कर सकता और सुपात्रादि को दान नहीं दे सकता तो भी जो तू देवता एक अरिहन्ता ही हमारे आराधना के योग्य सुगुरु सुधर्म जैन मत में श्रद्धा रखना सर्वोत्तम बात और उद्धार का कारण है ॥ २ ॥ (समीक्षक) यद्यपि दया और क्षमा अच्छी वस्तु है तथापि पक्षपात में फसने से दया पद्व्या और क्षमा अक्षमा हो जाती है इस का प्रयोजन यह है कि किसी जीव को दुःख न देना यह बात सर्वथा संभव नहीं हो सकती क्योंकि दुष्टों को दंड देना भी दया में गणनीय है, जो एक दुष्ट को दंड न दिया जाय तो सबकी मनुष्यों को दुःख प्राप्त हो इस लिये वह दया अदया और क्षमा अक्षमा हो जाय यह तो ठीक है कि सब प्राणियों के दुःखनाश और सुख की प्राप्ति का उपाय करना दया कहानी है । केवल जल ज्ञान के पीना, सुदृजनुषों को बचाना ही दया नहीं कहानी

किन्तु इस प्रकार की दया जैनियों के कथनमात्र ही है क्योंकि वैसा, वरतें नहीं। क्या मनुष्यादिपर चाहें किसी मत में क्यों न हो दया करके उस को भ्रमपानादि से सत्कार करणा और दूसरे मत के विद्वानों का मान्य और सेवा करना दया नहीं है ? जो इन की सच्ची दया होती तो "विवेकसार" के पृष्ठ २२१ में देखो ! क्या लिखा है "एक परमती की स्तुति" अर्थात् उन का गुण कीर्तन कभी न करना। दूसरा "उन को नमस्कार" अर्थात् वंदना भी न करनी। तीसरा "आलापन" अर्थात् अन्य मत वालों के साथ घोड़ा बोलना। चौथा "संलपन" अर्थात् उन से बार २ न बोलना। पांचवां "उन को भ्रम वस्त्रादि दान" अर्थात् उन को खाने, पीने की वस्तु भी न देनी। छःठा "गन्धपुष्पादि दान" अन्य मत की प्रतिमा पूजन के लिये गंध पुष्पादि भी न देना। ये छः यतना अर्थात् इन छः प्रकार के कर्मों को जैन लोग कभी न करें (समीक्षक) अब बुद्धिमानों को विचारना चाहिये कि इन जैनो लोगों की अन्य मत वाले मनुष्यों पर कितनी अदया, कुदृष्टि, और द्वेष है। जब अन्य मतस्थ मनुष्यों पर इतनी अदया है तो फिर जैनियों को दयाहीन कहना संभव है क्योंकि अपने घर वालों ही की सेवा करना विशेष धर्म नहीं कहाता उन के मत के मनुष्य उन के घर के समान हैं इस लिये उन की सेवा करते अन्य मतस्थों की नहीं फिर उन को दयावान् कौन बुद्धिमान् कह सकता है ? विवेक० पृष्ठ० १०८ में लिखा है कि मथुरा के राजा के नमुची नामक दिवान को जैनमतियों ने अपना विरोधी समझ कर मार डाला और आलोचना (प्रायश्चित्त) करके शूद्र हो गये। क्या यह भी दया और क्षमा का नाशक कर्म नहीं है ? जब अन्य मत वालों पर प्राण लेने पर्यन्त वैर बुद्धि रखते हैं तो इन की दयालु के स्थान पर हिंसक कहना ही सार्थक है। अब सम्यक् दर्शनादि के लक्षण आर्हत प्रवचन संग्रह परमाणुसंसार में कथित है सम्यक् अज्ञान, सम्यक् दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य ये चार मोक्ष मार्ग के साधन हैं इन की व्याख्या योग-देव ने की है जिस रूप से जीवादि द्रव्य अवस्थित हैं उसी रूप से जिन प्रतिपादित ग्रन्थानुसार विपरीत अभिनिवेशादि रहित जो अज्ञान अर्थात् जिन मत में प्रीति है सो सम्यक् अज्ञान, और सम्यक् दर्शन, है।

रुचिर्जिनोक्ततत्त्वेषु सम्यक् अज्ञानमुच्यते ।

जिनोक्त तत्त्वों में सम्यक् अज्ञान करनी चाहिये अर्थात् अन्यत्र कहीं नहीं ॥

यथावस्थिततत्त्वनां संक्षेपादिस्तरेण वा ।

यो बोधस्तमत्राहुः सम्यग्ज्ञानं मनीषिणः ॥

जिस प्रकार के जीवादि तत्त्व हैं उन का संक्षेप वा विस्तार से जो बोध होता है उसी को सम्यग्ज्ञान बुद्धिमान् कहते हैं।

सर्वथाऽनवद्ययोगानां त्यागश्चारित्रमुच्यते ।

कीर्तितं तदहिंसादि व्रतभेदेन पञ्चया ॥

अहिंसासूनुतास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहाः ।

सब प्रकार से निन्दनीय अन्य मत सम्बन्ध का त्याग चारित्र कहाता है और अहिंसादि भेद से पांच प्रकार का व्रत है । एक (अहिंसा) किसी प्राणिमात्र को न मारना । दूसरा (सूनुता) प्रिय वाणी बोलना । तीसरा (अस्तेय) चोरी न करना । चौथा (ब्रह्मचर्य) उपस्थ इन्द्रिय का संयमन । और पांचवां (अपरिग्रह) सब वस्तुओं का त्याग करना । इन में बहुत सी बातें अच्छी हैं अर्थात् अहिंसा और चोरी आदि निन्दनीय कर्मों का त्याग अच्छी बात है परन्तु ये सब सत्यमत की निन्दा करने आदि दोषों से सब अच्छी बातें भी दोषयुक्त हो गई हैं जैसे प्रथम सूत्र में लिखी है अन्य हरिहरादि का धर्म संसार में उधार करने वाला नहीं । क्या यह छोटी निन्दा है कि जिन के अन्य देखने से ही पूर्णतया और धार्मिकता पाई जाती है उस को बुरा कहना ? और अपने महा असंभव धोखा कि पूर्व लिख आये वैसी बातों के कहने वाले अपने तीर्थंकरों की स्तुति करना ? केवल हठ की बातें हैं मला जो जैनी कुछ चारित्र न कर सके, न पढ़ सके, न दान देने का सामर्थ्य हो, तो भी जैन मत सच्चा है क्या इतना कहने ही से वह उराम हो जाय ? और अन्य मत वाले श्रेष्ठ भी अश्रेष्ठ हो जायें ? ऐसे कथन करने वाले मनुष्यों को भ्रान्त और बालबुद्धि न कहा जाय तो क्या कहें ? इस में यही विदित होता है कि इन के आचार्य स्वर्गों से पूर्ण विद्वान् नहीं । क्योंकि जो सब की निन्दा न करते तो ऐसी भूठी बातों में कोई न फसता न उन का प्रयोजन सिद्ध होता । देखो ! यह तो सिद्ध होता है कि जैनियों का मत हुजाने वाला और वेदमत सब का उधार करने हारा हरिहरादिदेव सुदेव और इन के ऋषभदेवादि सब कुदेव दूसरे लोग कहें तो क्या वैसा ही उन को बुरा न लगे गा । और भी इन के आचार्य और मानने वालों की भूल देख लो ॥

मूल—जिणवर आणा भंगं उमग्ग उस्सुत्तत्ते सदेसणउ ।

आणा भंगे पावंता जिणमय दुक्करं धम्मम् ।

प्रकर० भाग० २ । पृष्ठी० ६ । सू० ११ ॥

उत्तमं उक्त्वं के जेग दिखाने से जो जिनवर अर्थात् वीतराग तीर्थंकरों को आणा का भंग होता है वह दुःख का हेतु पाप है जिनेवर के कष्ट सम्बन्धादि धर्म ग्रहण करना बड़ा कठिन है इस लिये जिस प्रकार जिन आणा का भंग न

ही वैसा करना चाहिये ॥११॥ (समीचक) जो अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा और अपने ही धर्म को बड़ा कहना और दूसरे की निन्दा करनी है वह सूखता की बात है क्योंकि प्रशंसा उसी की ठीक है जिस की दूसरे विद्वान् करें अपने मुख से अपनी प्रशंसा तो चोर भी करते हैं तो क्या वे प्रशंसनीय हो सकते हैं ? इसी प्रकार की इन की बातें हैं ॥

मूल—बहुगुणविज्ज्ञा निलत्रो उस्सुत्तभासी तहा विमुत्तव्वो ।

जहवरमणिजुतो विहुविग्घकरो विसहरो लोए ॥

प्रकर० भा० २ । पष्ठी० सू० ॥ १८ ॥

जैसे विषधर सर्प में मणि त्यागने योग्य है वैसे जो जैन मत में नहीं वह चाहे कितना बड़ा धार्मिक पंडित हो उस को त्याग देना ही जैनियों को उचित है ॥ १८ ॥ (समीचक) देखिये ! कितनी भूल की बात है जो इन के चले और आचार्य्य विद्वान् होते तो विद्वानों से प्रेम करते जब इन के तीर्थंकर सहित विद्वान् हैं तो विद्वानों का मान्य क्यों करें ? क्या सुवर्ण को मग्न या धूल में पड़े को कोई त्यागता है इस से यह सिद्ध हुआ कि बिना जैनियों के वैसे दूसरे कौन पचपाती हठी दुरायही विद्याहीन होंगे ? ॥

मूल—अइ सयपा वियपा वाधम्मि अपवे सुतो विपावरया ।

न चलन्ति सुद्धधम्मा धन्ना किविपावपव्वेसु ॥

प्रकर० भा० २ । पष्ठी० सू० ॥ २९ ॥

अन्यदर्शनी कुलिंगी अर्थात् जैन मत विरोधी उन का दर्शन भी जैनी लोग न करें ॥ २९ ॥ (समीचक) बुद्धिमान् लोग विचार लें गे कि यह कितनी पामरपन की बात है सच तो यह है कि जिस का मत सत्य है उस को किसी से डर नहीं होता इन के आचार्य्य जानते थे कि हमारा मत पोल पात्र है जो दूसरे को सुनायेंगे तो खण्डन हो जायगा इस लिये सब की निन्दा करो और सूख जनों को फसाओ ॥

मूल—नाम पितस्सअ सुहं जेएनिदिठाइ मिच्छपव्वाइ ।

जेसिं अणुसंगा उधम्मीणविहोई पावमई ॥

प्रक० भा० २ । पष्ठी० ६ । सू० २७ ॥

जो जैन धर्म से विरुद्ध धर्म हैं वे सब मनुष्यों को पापी करने वाले हैं इस लिये किसी के अन्य धर्म को न मान कर जैन धर्म ही को मानना श्रेष्ठ है ॥ २७ ॥

(समीचक) इस से यह सिद्ध होता है कि सब से बैर, विरोध, निन्दा, ईर्ष्या आदि दुष्टकर्मरूप सागर में डुबाने वाला जैन मार्ग है जैसे जैनी लोग सब के निन्दक हैं वैसे कोई भी दूसरे मत वाला महानिन्दक और अधर्मी न होगा। मजा एक और से सब की निन्दा और अपनी अतिप्रशंसा करना गठ मनुष्यों की बातें नहीं हैं। विवेकी लोग तो चाहें किसी के मत के हों उन में अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहते हैं ॥

मूल—हाहा गुरुब्रह्म कज्जं स्वामीनहु अच्छिक्खस्स पुक्करिमो ।

कह जिए वयण कह सुगुरु सावया कहइय अकज्जं ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सू० ३५ ॥

सर्वप्रभाषित जिन वचन, जैन के सुगुरु, और जैनधर्म कहां और उन से बिकर कुगुरु अन्य मार्गों के उपदेशका कहां अर्थात् हमारे सुगुरु सुदेव सुधर्म और अन्य के कुदेव कुगुरु कुधर्म हैं ॥ ३५ ॥ (समीचक) यह बात बेर बेचने हारी कुंठड़ी के समान है जैसे यह अपने खड़े बैरों को मीठा और दूसरे के मीठों को खटा और निकम्मे बतलातो है। इसी प्रकार की जैनियों की बातें हैं ये लोग अपने मत से भिन्न मत वालों की सेवा में बड़ा अकार्य्य अर्थात् पाप गिनते हैं ॥

मूल—सप्पो इक्कं मरणं कुगुरु अणंता इदेइ मरणाइ ।

तोवरिसप्पं गहियुं मा कुगुरुसेवणं भदम् ॥

प्रक० भा० २ । सू० ३७ ॥

जैसे प्रथम लिख आये कि सर्प में मणि का भी त्याग करना उचित है वैसे अन्य मार्गियों में श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों का भी त्याग कर देना अब उस से भी विगीत निन्दा अन्य मत वालों को करते हैं जैन मत से भिन्न सब कुगुरु अर्थात् वे सर्प से भी बुरे हैं उन का दर्शन, सेवा, संग कभी न करना चाछिये क्योंकि सर्प के संग से एक बार मरण होता है और अन्य मार्गों कुगुरुओं के संग से अनेक बार जन्म मरण में गिरना पड़ता है इस लिये है भद्र। अन्य मार्गियों के गुरुओं के पास भी मत खड़ा रह क्योंकि जो तू अन्य मार्गियों की कुछ भी सेवा करेगा तो दुःख में पड़ेगा ॥ ३७ ॥ (समीचक) देखिये जैनियों के समान कठोर, भ्रान्त, हेपी, निन्दक भूना हुआ दूसरे मत वाले कोई भी न हों गे इन्होंने मन से यह विचार है कि जो हम अन्य की निन्दा और अपनी प्रशंसा न करे गे तो हमारी सेवा और प्रतिष्ठा न होगी परन्तु यह बात उन के दीर्भाग्य की है क्योंकि जब तक उत्तम विद्वानों का संग, सेवा न करे गे तब तक इन को बुराई ज्ञान और सत्य धर्म की प्राप्ति

कभी न होगी इस लिये जैनियों को उचित है कि अपनी विद्याविरुद्ध मिथ्या बातें छोड़ वेदोक्त सत्य बातों का ग्रहण करें तो उन के लिये बड़े कल्याण की बात है ॥

मूल—किं भणिमो किं करिमो ताणहयासाण धिठदुठाणं ।

जे दंसि ऊण लिंगं खिवन्ति नरयम्मि मुद्धजणं ॥

प्रक० भा० । पृष्ठी० सू० ४० ॥

जिस की कल्याण की आशा नष्ट हो गई, धोठ, बुरे काम करने में अतिचतुर दुष्ट दोष वाले से क्या कहना ? और क्या करना ? क्योंकि जो उस का उपकार करे तो उल्टा उस का नाश करे जैसे कोई दया करके अन्धे सिंह की आंख खोलने को जाय तो वह उसी को खा लेवे वैसे ही कुशुभार्थात् अन्य मार्गियों का उपकार करना अपना नाश कर लेना है अर्थात् उन से सदा अलग ही रहना ॥ ४० ॥ (समोच्चक) जैसे जैन लोग विचारते हैं वैसे दूसरे मत वाले भी विचारें तो जैनियों की कितनी दुर्दशा हो ? और उन का कोई किसी प्रकार का उपकार न करे तो उन के बहुत से काम नष्ट हो कर कितना दुःख प्राप्त हो ? वैसे अन्य के लिये जैनी क्यों नहीं विचारते ? ॥

मूल—जहजहतुद्दइ धम्मो जहजह दुठाणहोय अइउदउ ।

समदिठिजियाणं तह तह उहसइस मत्तं ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सू० ४२ ॥

जैसे २ दर्शन भ्रष्ट निह्नव, पाकता, उसदा, तथा कुसीलियादिक और अन्य दर्शनी, त्रिदण्डी, परिव्राजक, तथा विप्रादिक दुष्ट लोगों का अतिग्रह बल सत्कार पूजादिक होवे वैसे २ सम्यग्दृष्टी जीवों का सम्यक् विशेष प्रकाशित होवे यह बड़ा आश्चर्य है ॥ ४२ ॥ (समोच्चक) अब देखो ! क्या इन जैनों से अधिक ईर्ष्या, द्वेष, वीर बहियुक्त दूसरा कोई होगा ? हां दूसरे मत में भी ईर्ष्या, द्वेष, है परन्तु जितनी इन जैनियों में है उतनी किसी में नहीं और द्वेष ही पाप का मूल है इस लिये जैनियों में पापाचार क्यों न हो ? ॥

मूल—संगो विजाण अहिउते सिंधम्माइ जेपकुव्वन्ति ।

मूतूण चोरसंगं करन्ति ते चोरियं पावा ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सू० ७५ ॥

इस का मुख्य प्रयोजन इतना ही है कि जैसे मूढ़ जन चोर के संग में नासिका केदादि दण्ड से भय नहीं करते वैसे जैन मत से भिन्न चोर धर्मों में स्थित

जन अपने अकल्याण से भय नहीं करते ॥७५॥ (समीक्षक) जो ऐसा मनुष्य होता है वह प्रायः अपने ही सदृश दूसरों को समझता है क्या यह बात सत्य हो सकती है कि अन्य सब चौर मत और जैन का साङ्गकार मत है ? जब तक मनुष्य में अतिअज्ञान और कुसंग से भ्रष्ट बुद्धि होती है तब तक दूसरों के साथ अतिईर्ष्या द्वेषादि दुष्टता नहीं छोड़ता ऐसा जैन मत पराया है ही है ऐसा अन्य कोई नहीं ॥

मूल—जञ्च पसुमहिसलरका पव्वंही भन्ति पावन वमीए ।

पूअन्तितंपि सद्वाहा ही लावी पराधस्त ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सू० ७६ ॥

पूर्व सूत्र में जो मिय्यात्वी अर्थात् जैनमार्ग भिन्न सब मिय्यात्वी और आप सम्बन्धी अर्थात् अन्य सब पापी, जैन लोग सब पुण्यात्मा इस लिये जो कोई मिय्यात्वी के धर्म का स्थापन करे वह पापी है ॥ ७६ ॥ (समीक्षक) जैसे जैन के स्थानों में चामुण्डा, कालिका, ज्वाला, प्रमुख के आगे पापनीमो अर्थात् दुर्गा-नीमो तिथि आदि सब बुरे हैं वैसे क्या तुम्हारे पञ्चमण आदि व्रत बुरे नहीं हैं जिन से महाकष्ट होता है ? यहाँ वाममार्गियों की लोला का गुण्डन तो ठीक है परन्तु जो शासन देवी और मगत देवी आदि को मानते हैं उन का भी गुण्डन करते तो अच्छा था जो कहें कि हमारी देवी हिंसक नहीं तो इन का कहना मिय्या है क्योंकि शासनदेवी ने एक पुरुष और दूसरा बकरे की आँखें निकाल ली थीं पुनः वह राक्षसी और दुर्गा कालिका की संगी बहिन क्यों नहीं ? और अपने यज्ञक्षान आदि व्रतों को अतिश्रेष्ठ और नवमी आदि को दुष्ट कहना सूक्ष्मता की बात है क्योंकि दूसरे के उपवासों को तो निन्दा और अपने उपवासों की गुति करना सज्जनों का काम नहीं है जो सत्यभाषणादि व्रत धारण करते हैं वे तो सब के लिये उत्तम हैं जैनियों और अन्य किसी का उपवास सत्य नहीं है ॥

मूल—वेसाएवदियाणय माहण्डुं वाएजर कस्तिरकाणम् ।

भत्ता भर कटाणं वियाणं जन्ति दूरेणं ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सूत्र० ८२ ॥

इस का मुख्य प्रयोजन यह है कि जो वेसा, चारण, भाटादि लोगों काक्षण, यज्ञ, गणेशादिक मिथ्यादृष्टि देवी आदि देवताओं का भक्त है जो इन के मानने वाले हैं वे सब दूबाने और दूबने वाले हैं क्योंकि उर्हाँ के पास वे सब बन्दुये मानने हैं और कीतराग पुरुषों से दूर रहते हैं ॥ ८२ ॥ (समीक्षक) अन्य मार्गियों के देवताओं को भूठ कहना और अपने देवताओं को सब कहना केवल पक्षपात

की बात है और अन्य वाममार्गियों की देवी आदि का निषेध करते हैं परन्तु जो ब्राह्मदिनकृत्य के पृष्ठ ४६ में लिखा है कि शासन देवी ने रात्रि में भोजन करने के कारण एक पुरुष के घपेड़ा मारा उस को आंख निकाल डाली उस के बदले वकरे को आंख निकाल कर उस मनुष्य के लिये लगा दो इस देवी को हिंसक क्यों नहीं मानते ? रत्नसार भाग १ पृ० ६० में देखो क्या लिखा है मरुत देवी पथिकों को पत्थर की मूर्ति हो कर सहाय करती थी इस को भी वैसी क्यों नहीं मानते ? ॥

मूल-किं सोपि जणपि जाओ जाणो जणणी इकिं अगोविद्धिं ।

जइमिच्छरओ जाओ गुणे सुतमच्छरं वहइ ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सू० ८१ ॥

जो जैन मत विरोधी मिथ्यात्वी अर्थात् मिथ्या धर्म वाले हैं वे क्यों जन्मे ? जो जन्मे तो बढ़े क्यों ? अर्थात् शीघ्र ही नष्ट हो जाते तो अच्छा होता ॥ ८१ ॥ (समीचक)—देखो ! इन के बीतरागभाषित दया धर्म दूसरे मत वालों का जीवन भी नहीं चाहते केवल इन का दयाधर्म कथनमात्र है और जो है सो सुदृ जीवों और पशुओं के लिये है जैन भिन्न मनुष्यों के लिये नहीं ॥

मूल-सुद्धे मग्गे जाया सुहेण मच्छति सुद्धिमग्गमि ।

जे पुणअमग्गजाया मग्गे गच्छंति तं चुप्पं ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सू० ८३ ॥

सं० अर्थ—इस का मुख्य प्रयोजन यह है कि जो जैन कुल में जन्म ले कर मुक्ति की जाय तो कुछ आश्चर्य नहीं परन्तु जैन भिन्न कुल में जन्मे हुए मिथ्यात्वी अन्य-मार्गी मुक्ति को प्राप्त हैं इस में बड़ा आश्चर्य है इस का फलितार्थ यह है कि जैन मत वाले ही मुक्ति को जाते हैं अन्य कोई नहीं जो जैन मत का ग्रहण नहीं करते वे नरकगामी हैं ॥ ८३ ॥ (समीचक) क्या जैन मत में कोई दुष्ट वा नरकगामी नहीं होता ? सब ही मुक्ति में जाते हैं ? और अन्य कोई नहीं ? क्या यह उन्नतपन की बात नहीं है ? विना भोले मनुष्यों के ऐसी बात कौन मान सकता है ? ॥

मूल-तिच्छराणं पूआसंमत्तगुणाणकारिणी भणिया ।

सावियमिच्छत्तयरी जिण समये देसिया पूआ ॥

प्रक० भाग० २ । पृष्ठी० सू० ९० ॥

सं० अर्थ—एक जिन मूर्तियों की पूजा सार और इस से भिन्न मार्गियों की मूर्तिपूजा असार है जो जिन मार्ग की आशा पालता है वह तत्त्वज्ञानी जो नहीं पालता है वह तत्त्वज्ञानी नहीं ॥ ९० ॥ (समीचक) वाह जी ! क्या कहना ! !

क्या तुम्हारी मूर्ति पापादि जड़ पदार्थों की नहीं? जैसे कि वैष्णवादिकों की है
जैसी तुम्हारी मूर्तिपूजा मिथ्या है वैसे ही मूर्तिपूजा वैष्णवादिकों की भी मिथ्या
है जो तुम तत्त्वज्ञानी बनते हो और अर्थों को अतत्त्वज्ञानी बनाते हो इस में
विदित होता है कि तुम्हारे मत में तत्त्वज्ञान नहीं ॥

मूल—जिए आणा एधम्मो आणा रहि आण फुडं भहमुत्ति ।

इयमुणि ऊण यतत्तांजिए आणाए कुणहु धम्मं ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सू० ९२ ॥

सं० अर्थ—जो जिन देव की आज्ञा दया चमादिरूपधर्म है उस से अन्य सब
आज्ञा अधर्म है ॥८२॥ (समीपक) यह कितने बड़े अन्याय की बात है क्या जैन
मत से भिन्न कोई भी पुरुष सत्यवादी धर्मात्मा नहीं है? क्या उस धार्मिक जन
को न मानना चाहिये? हां जो जैनमतस्य मनुष्यों के सुख, जिज्ञा, चमड़े की
न होती और अन्य को चमड़े की होती तो यह बात घट सकती थी इस से प्रपन्न
ही मत के ग्रन्थ बचन साधु आदि की ऐसी बड़ाई की है कि जानो भाटों के बड़े
भाई ही जैन लोग बन रहे हैं ॥

मूल—वन्नेमिनारया उविजेसिन्दुरकाइ सम्भरंताणाम् ।

भव्वाण जणइ हरिहररिद्धि समिद्धी विउद्धोसं ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी सू० ९५ ॥

सं० अर्थ—इस का मुख्य तात्पर्य यह है कि जो हरिहरादि देवों की विभूति
है वह नरक का हेतु है उस को देव के जैनियों के रोमांच खड़े हो जाते हैं जैसे
राजाशा भंग करने से मनुष्य मरणतक दुःख पाता है वैसे जिनेन्द्र आज्ञा भंग से
क्यों न उस मरण दुःख पावेगा? (समीपक) देखिये! जैनियों के प्राचार्य आदि
को मानसीदृष्टि अर्थात् ऊपर के कपट और ढोंग की सीला अब तो इन के भीतर
की भी खुल गई हरिहरादि और उन के उपासकों के ऐश्वर्य और बढ़ती को देख
भी नहीं सकते उन के रोमांच इस लिये खड़े होते हैं कि दृसर को बढ़ती वर्गी दुर्गा
बहुधा वैसे चाहते होंगे कि इन का सब ऐश्वर्य हम को मिल जाय और ये दग्ध
हो जायें तो अक्का और राजाशा का दृष्टान्त इस लिये देते हैं कि ये जैन लोग
राज्य के बड़े सुगामदी भूटे और दरपुकने हैं क्या भूठी बात भी राजा को मान
लेनी चाहिये? जो शर्पा देवी हो तो जैनियों से बढ़ के दृमरा कोई भी न होगा ॥

मूल—जो देइशुद्धधम्मं सो परमण्या जयम्मि नहु अन्नो ॥

किं कप्पहुम्म सरिसो इयरतरु होइकइयावि ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सू० १०१ ॥

सं० अर्थ—वे मूर्ख लोग हैं जो जैन धर्म से विरुद्ध हैं और जो जिनेन्द्रभाषित धर्मोपदेश साधु वा गृहस्थ अथवा ग्रंथकर्ता हैं वे तीर्थंकरों के तुल्य हैं उन को तुल्य कोई भी नहीं । (समीचक) क्यों न हो जो जैनी लोग क्रीकरबुद्धि न होते तो ऐसी बातें क्यों मान बैठते ? जैसे वेद्या बिना अपने के दूसरी की स्तुति नहीं करती वैसे ही यह बात भी दीक्षती है ॥

मूल—जे अमुणि अगुण दोपाते कह अबुहाणद्दुन्तिमभच्छा ।

अहते विद्दुम भच्छाता विसअमि आण तुल्लत्तं ॥

प्रक० भा० २ । पष्ठी० सू० १०२ ॥

सं० अर्थ—जिनेन्द्रदेव तदुक्त सिद्धान्त और जिन मत के उपदेशों का त्याग करना जैनियों को उचित नहीं है ॥ १०२ ॥ (समीचक) यह जैनियों का छठ पक्षपात और अविद्या का फल नहीं तो क्या है ? किन्तु जैनियों को छोड़ी सी बात छोड़ के अन्य सब व्यवहार हैं जिस की कुछ छोड़ी सी भी बुद्धि होगी यह जैनियों के देव सिद्धान्तग्रन्थ और उपदेशों को देखे सुने विचारें तो उसी समय निःसंदेह छोड़ देगा ॥

मूल—वयणे विसुगुरुजिणवल्लहरसके सिंन उल्लस इसम्मं ।

अहकहदिए मणितेयं उलुआणंहरइ अन्धत्तं ॥

प्रक० भा० २ । पष्ठी० सू० १०८ ॥

सं० अर्थ—जो जिन ध्वज के अनुकूल चलते हैं वे पूजनीय और जो विरुद्ध चलते हैं वे अपूज्य हैं जैनगुरुओं को मानना अर्थात् अन्य मार्गियों को न मानना ॥ १०८ ॥ (समीचक) भला जो जैन लोग अन्य अज्ञानियों को पशुवत् पेलें करके न बांधते तो उन के जात में से छूट कर अपनी सुक्ति के साधन कर जन्म सफल कर लेते भला जो कोई तुम को कुमार्गों, कुगुरु, मिथ्यात्वों और कूपदेशों कहें तो तुम को कितना दुःख लगे ? वैसे ही जो तुम दूसरे को दुःखदायक हो इसी लिये तुम्हारे मत में आसार बातें बहुतसो भरौ हैं ॥

मूल—तिहुअण जणं मरंतं दठूण निअन्तिजेण अप्पाणं ।

विरमंतिन पावा उधिद्धी धिठत्तणं ताणम् ॥

प्रक० भा० २ । पष्ठी० सू० १०९ ॥

सं० अर्थ—जो मनुष्यपर्यन्त दुःख हो तो भी कृपे व्यापारादि कर्म जैनों लोग न करें क्योंकि ये कर्म नरक में ले जाने वाले हैं ॥ १०९ ॥ (समीचक) अब कोई

जनियों से पूछे कि तुम व्यापारादि कर्म क्यों करते हो ? इन कर्मों को क्यों नहीं छोड़ देते ? और जो छोड़ देओ तो तुम्हारे शरीर का पावन पोषण भी न हो सके और जो तुम्हारे कहने से सब लोग छोड़ दें तो तुम क्या बगु रा के लोचो गे ? ऐसा अत्याचार का उपदेश करना सर्वथा व्यर्थ है क्या ! करें बिचार विद्या सतंग के बिना जो मन में आया सो बक दिया ॥

मूल—तइया हमाए अहमा कारण रहिया अनाए गव्येए ।

जेजंपन्ति उशुत्तं तेसिंदिद्विछपम्मिच्चं ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सू० १२१ ॥

सं० अर्थ—जो जैनागम से विरह शास्त्रों के मानने दाने हैं वे अधमाऽधम हैं चाहे कोई प्रयोजन भी सिद्ध होता हो तो भी जैनमत से विरह न बोलें न मानें चाहे कोई प्रयोजन सिद्ध होता है तो भी अन्य मत का त्याग कर दे ॥ १२१ ॥ (समीक्षक) तुम्हारे सूत्र पुनरा से लेके आज तक जितने ही गवे और हींगे वे बिना दूसरे मत को गालिप्रदान के अन्य कुछ भी दूसरी बात न किये थे और न करें गे भला जहाँ जहाँ जैनी लोग अपना प्रयोजन सिद्ध होता देखते थे वहाँ चेलों के भी चले बन जाते हैं तो ऐसी मिथ्या लम्बी चौड़ी बातों के हांकने में तनिक भी लज्जा नहीं आती यह बड़े शोक की बात है ॥

मूल—जम्वीर जिणस्सजिओ मिरई उस्सुत्तले सदेसणओ ।

सायर कोड़ा कोडिहिं मइ अइ भी भवरणे ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सू० १२२ ॥

सं० अर्थ—जो कोई ऐसा कहे कि जैन साधुओं में धर्म है हमारे और अन्य में भी धर्म है तो वह मनुष्य कोड़ानकोड़ वर्ष तक नरक में रह कर फिर भी नीच लक्ष पाता है ॥ १२२ ॥ (समीक्षक) याह रे ! याह ! ! विद्या के शत्रुओ तुम ने यही दिवारा होगा कि हमारे मिथ्या बचनों का कोई खण्डन न करे इसी लिये यह भयंकर बचन शिखा है तो प्रसन्न है अब कहां तक तुम को समझाये तुमने तो झूठ निन्दा और अन्य मतों से बंद विरोध करने पर ही कटिबद्ध हो कर अपना प्रयोजन सिद्ध करना मोड़नयोग के समान समझ लिया है ॥

मूल—दूरे करणं दूरम्मि साहूणं तहयभावणा दूरे ।

जिणधम्म सबहाए पित्तिर कदुरकाइनिठवट्ठ ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सू० १२७ ॥

सं० अर्थ—जिस मनुष्य से जैन धर्म का कुछ भी अगुठान न हो सके तो भी जो जैन धर्म सच्चा है अन्य कोई नहीं इतनी अदामात्र ही से दुःखों से तर जाता है ॥१२७॥ (समीचक) भला इस से अधिक मूर्खों को अपने मत जाल में फसाने की दूसरी कौनसी बात होगी ? क्योंकि कुछ कर्म करना न पड़े और सुक्ति ही ही जाय ऐसा भून्दू मत कौनसा होगा ? ॥

मूल—कइया होही दिवसो जइया सुगुरूण पायमूलम्मि ।

उस्सुत्तले सविसलवर हिअोनिसेणे सुजिणधम्मं ॥

प्रक० भा० २ । पट्ठी० सू० ॥ १२८ ॥

सं० अर्थ—जो मनुष्य हं तो जिनागम अर्थात् जैनों के शास्त्रोंको सुनूंगा उत्तम अर्थात् अन्य मत के ग्रन्थोंको कभी न सुनूंगा इतनी इच्छा करे वह इतनी इच्छामात्र ही से दुःखसागर से तर जाता है ॥ १२८ ॥ (समीचक) यह भी बात भोले मनुष्यों को फसाने के लिये है क्योंकि इस पूर्वोक्त इच्छा से यहां के दुःखसागर से भी नहीं तरता और पूर्वजन्म के भी संचित पापों के दुःखरूपी फल भोगे बिना नहीं छूट सकता । जो ऐसी २ भूठ अर्थात् यिया विरह बात न लिखते तो इन के अविद्यारूप ग्रन्थों को वेदादि शास्त्र देख सुन सत्यासत्य जान कर इन के पोषक ग्रन्थों को छोड़ देते परन्तु ऐसा जकाड़ कर इन अधिदानों की बाधा है कि इस जाल से कोई एक बुद्धिमान् सखंगो चाहें छूट सकें तो सम्भव है परन्तु अन्य जड़बुद्धियों का छूटना तो अतिकठिन है ॥

मूल—जह्माजेणं हिंभणियं सुयववहारं विसोहियंतस्स ।

जायइ विसुद्ध बोही जिणआणा राह गत्ताओ ॥

प्रक० भा० २ । पट्ठी० सू० ॥ १३० ॥

सं० अर्थ—जो जिनाचार्यों ने कहे सत्य निरुक्ति वृत्ति भाष्यपत्तियों मानते हैं वे ही शुभ व्यवहार और दुःसह व्यवहार के करने से चारित्र्ययुक्त ही कर सुखों को प्राप्त होते हैं अन्यमत के ग्रंथ देखने से नहीं । (समीचक) क्या अत्यन्त भूखी मरने आदि कष्ट सहने को चारित्र्य कहते हैं जो भूखा प्यासा मरना आदि ही चारित्र्य है तो बहुत से मनुष्य अकाल वा जिन को अत्रादि नहीं मिलते भूखी मरते हैं वे शुक्त ही कर शुभ फलों को प्राप्त होने चाहिये सो न ये शुक्त होंगे और न तम किन्तु पित्तादि के प्रकोप से रोगी हो कर सुख के बदले दुःख को प्राप्त होते हैं धर्म तो न्यायाचरण ब्रह्मचर्य सत्यभाषणादि हैं और असत्यभाषण अन्यायाचरणदि पाप हैं और सब से प्रीतिपूर्वक परीषकारार्थ परीक्षा शुभवचित्र कहाता है धर्म मतियों का

भूखा, प्यासा रहना आदि धर्म नहीं इन सूत्रादि को मानने से छोड़ा जा सक्त और अधिक भूठ को प्राप्त हो कर दुःखसागर में डूबते हैं ॥

मूल—जइजाणसि जिणनाहो लोयाया राविपरकएभूओ ।

तातंतं मन्नं तो कहमन्नसि लोअ आयारं ॥

प्रक० भा० २। पट्ठी० सू० १४८ ॥

सं० अर्थ—जो उत्तम प्रारब्धवान् मनुष्य होते हैं वे ही जिन धर्मों का ग्रहण करते हैं अर्थात् जो जिन धर्मों का ग्रहण नहीं करते उन का प्रारब्ध नष्ट है ॥ १४८ ॥ (समीक्षक) क्या यह बात मूल की और भूठ नहीं है ? क्या अन्य-मत में श्रेष्ठ प्रारब्धों और जैन मत में नष्ट प्रारब्धों कोई भी नहीं है ? और जो यह जाना कि मधर्मों अर्थात् जैन धर्म वाले आपस में हँस न करें किन्तु प्रीतिपूर्वक यहाँ इस से यह बात सिद्ध होती है कि दूसरे के साथ कलत्र करने में बुराई जैन लोग नहीं मानते हीं गे यह भी इन की बात अयुक्त है क्योंकि सज्जन पुरुष सज्जनों के साथ प्रेम और दुष्टों को शिखा दे कर सुशिक्षित करते हैं और जो यह शिखा कि ब्राह्मण, त्रिदण्डी, परिव्राजकाचार्य, अर्थात् संन्यासी और तापसादि अर्थात् वैरागी आदि सब जैन मत के शत्रु हैं । अब देखिये कि सब को शत्रुभाव से देखते और निन्दा करते हैं तो जैनियों की दया और क्षमारूप धर्म कर्षा रहना क्योंकि जब दूसरों पर द्वेष रखना दया क्षमा का नाश और इस के समान कोई दूसरा किंसा रूप दाय नहीं जैसे द्वेषसूर्तिवा औनिलोग है वैसे दूसरे छोड़े ही हीं गे । ऋषभदेव से जेने महावीरपर्यन्त २४ तीर्थंकरों को रागी हेपी मिष्याली कहे और जैन मत मानने वालों को सन्निपातव्वर से फसे हुए मानें और उन का धर्म नरक और विष के समान समझें तो जैनियों को कितना बुरा लगे गा ? इस लिये जेनी लोग निन्दा और परमतद्वेषरूप नरक में डूब कर महाक्षीण भोग रहे हैं इस बात को छोड़ दें तो बहुत अच्छा होवे ॥

मूल—एगो अगूह एगो विसाव गोचे इआणि विवहाणि ।

तच्छयजं जिणदव्वं परुपरन्तं न विच्चन्ति ॥

प्रक० भा० २। पट्ठी० सू० । १५० ॥

सं० अर्थ—मत्र चायकों का देवगुरुधम एक है चैन्यवन्दन अर्थात् जिनप्रतिष्ठित मूर्तिदेवता और जिनद्रव्य की रक्षा और मूर्ति की पूजा करना धर्म है ॥ १५० ॥ (समीक्षक) अब देखो! जितना मूर्तिपूजा का भगवा चला है यह सब जैनियों के घर में और पानगलों का मूल भी जैनमत है। आठदिनकाल पृष्ट में मूर्तिपूजा के प्रमाण ॥

नवकारेण विवोहो ॥ १ ॥ अनुसरणं सावउ ॥ २ ॥ वयाइं इमे
॥ ३ ॥ जोगो ॥ ४ ॥ चिय वन्दणगो ॥ ५ ॥ यच्चरखाणं तु विहि
पुच्छम् ॥ ६ ॥

इत्यादि श्रावकों को पहिले द्वार में नवकार का जप कर जाना ॥ १ ॥ दूसरा
नवकार जपे पीछे मैं श्रावक हं स्मरण करना ॥ २ ॥ तीसरे अणुद्रतादिक हमारे
कितने हैं ॥ ३ ॥ चौथे द्वारे में चार वर्ग में अग्रगामी मोज है उस कारण ज्ञानादिक
है सो योग उस का सब अतीचार निर्मल करने से कः श्रावण्यक कारण सो भी
उपचार से योग कहाता है सो योग कहेंगे ॥ ४ ॥ पांचवें चैत्यवन्द अर्थात् मूर्त्ति
को नमस्कार द्रव्यभाव पूजा कहेंगे ॥ ५ ॥ छःठा प्रत्याख्यान द्वार नवकारसौ-
प्रमुख विधिपूर्वक कहेंगे या इत्यादि ॥ ६ ॥ और इसी ग्रंथ में आगे २ बहुत सी विधि
लिखी हैं अर्थात् संध्या के भोजन समय में जिनविश्व अर्थात् तीर्थंकरों की मूर्त्ति
पूजना और द्वार पूजना और द्वारपूजा में बड़े २ बड़े हैं । मन्दिर बनाने के
नियम पुराने मन्दिरों को बनवाने और सुधारने से सुक्ति हो जाती है मन्दिर में
इस प्रकार जा कर बैठे बड़े भाव प्रीति से पूजा करे «नमो जितेन्द्रेभ्यः» इत्यादि
मन्त्रों से स्नानादि कराना । और «जलचन्दनपुष्प धूपदीपनैः» इत्यादि से गन्धादि
चढ़ावे । रत्नसार भाग के १२ वें पृष्ठ में मूर्त्तिपूजा का फल यह लिखा है कि
पुजारो को राजा या प्रजा कोई भी न रोक सके। (समीचक) ये बातें सब कपील
कल्पित हैं क्योंकि बहुत से जैन पूजारियों को राजादि रोकते हैं। रत्नसार ० पृष्ठ ३
में लिखा है मूर्त्तिपूजा से रोग पीड़ा और महादोष छूट जाते हैं एक किसी ने
५ कौड़ी का फूल चढ़ाया उस ने १८ देग का राज पाया उस का नाम कुमार-
पाल हुआ था इत्यादि सब बातें भूठी और मूर्त्तियों को लुभाने की हैं क्योंकि अनेक
जैनी लोग पूजा करते २ रोगी रहते हैं और एक धीरे का भी राज्य पावाणादि
मूर्त्तिपूजा से नहीं मिलता । और जो पांच कौड़ी का फूल चढ़ाने से राज्य मिले
तो पांच २ कौड़ी के फूल चढ़ा के सब भोगों का राज्य क्यों नहीं कर लेते ?
और राजदंड क्यों भोगते हैं ? और जो मूर्त्ति पूजा करके भवसागर से तर जाते
हो तो ज्ञान सम्यग्दर्शन और चरित्र क्यों करते हो ? रत्नसार भाग पृष्ठ १३ में
लिखा है कि गोतम के अंगूठे में अमृत और उस के स्मरण से मनवांछित फल
पाता है। (समीचक) जो ऐसा हो ता सब अनीलोग शमर हो जाते चाहिये सो नहीं
होते इस से यह इन की केषल मूर्त्तियों के यह माने की बात है दूसरा इस में कुछ
भी तत्त्व नहीं इन की पूजा करने का श्लोक रत्नसार भा० पृष्ठ ५२ में :—

जलचन्दनधूपनैरथ दीपान्नतकैर्नैवेद्यवस्त्रैः ।

उपचारवरैर्जितेन्द्रान् रुचिरैरथ यजामहे ॥

हम जल, चन्दन, चायन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, और अतिशय उप-
चारों से जिनमूर्त्तियों को पूजा करें ! इसी से हम कहते हैं कि मूर्त्ति-
पूजा जैनियों से चली है । विवेकसार पृष्ठ २१ जिन मन्दिर में मोह नहीं आता
और भवसागर के पार उतारने वाला है । विवेकसार पृष्ठ ५१ से ५२ मूर्त्तिपूजा से
मुक्ति होती है और जिन मन्दिर में जाने से सद्गुण आते हैं जो जल चन्दनदि
से तीर्थकारों की पूजा करे वह नरक से छूट स्वर्ग को जाय विवेकसार पृष्ठ ५५
जिनमन्दिर में ऋषभदेवादि की मूर्त्तियों के पूजने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष
की सिद्धि होती है । विवेकसार पृष्ठ ६१ जिन मूर्त्तियों की पूजा करते समय जगत्
के लोग छूट जायें । (समीचक) अब देखो ! इन की अविद्यायुक्त असंभव बातें
जो इस प्रकार से पापादि बुरे कर्म छूट जायें, मोह न आवे, भवसागर से पार
उतर जायें, सद्गुण आ जायें, नरक को छोड़ स्वर्ग में जायें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष
की प्राप्ति होवे और सब लोग छूट जायें तो सब जैनों लोग सुखी और सब पदार्थों
की सिद्धि की प्राप्ति क्यों नहीं होती ? इसी विवेकसार के २ पृष्ठ में लिखा है कि
जिन्होंने जैनमूर्त्ति का स्थापन किया हैं उन्होंने ने अपनी और अपने कुटुम्ब की
जीविका खुड़ी की है । विवेकसार पृष्ठ २२५ जिन, विष्णु, आदि की मूर्त्तियों की
पूजा करने बहुत बुरी है अर्थात् नरक का साधन है । (समीचक) भला जय
शिवदि की मूर्त्तियां नरक के साधन हैं तो जैनियों की मूर्त्तियां क्या बेसी नहीं ?
जो कहें कि हमारी मूर्त्तियां त्यागी, गान्त और शुभमुद्रायुक्त हैं इस लिये अच्छी
और शिवदि की मूर्त्ति बेसी नहीं इस लिये बुरी हैं इन से कहना चाहिये कि
तुम्हारी मूर्त्तियां तो लाखों रूपयों के मन्दिर में रहती हैं और चन्दन केगरादि
चढ़ता है पुनः त्यागी कैसी ? और शिवदि की मूर्त्तियां तो बिना कपड़े के भी
रहती हैं वे त्यागी क्यों नहीं ? और जो गान्त कहो तो वह पदार्थ सब निराल
होने से गान्त हैं सब मर्तों की मूर्त्तिपूजा व्यर्थ है । (प्रश्न) हमारी मूर्त्तियां बड़ा
आभूषणादि धारण नहीं करती इस लिये अच्छी हैं । (उत्तर) सब के सामने जंगी
मूर्त्तियों का रहना और रखना पशवत् सीला है । (प्रश्न) जैसे स्त्री का शिव वा
मूर्त्ति देखने से कामोत्पत्ति होती है वैसे जाध और योगियों की मूर्त्तियों को देखने
से शुभ गुण प्राप्त होते हैं । (उत्तर) जो पापानामूर्त्तियों के देखने से शुभ परिणाम
मानते हो तो उस के लहलहादि गुण भी तुम्हारे में आ जायेंगे । जब वह बुद्धि
होगे तो सर्वथा नष्ट हो जाओगे दूसरे जो प्रथम विद्वान् हैं उन के संग सेवा से
हटने से सूदता भी अधिक होगी और जो २ दीप रखकर सब समाप्त में लिखे
हैं वे सब पापानादि मूर्त्तिपूजा करने वालों को लगते हैं । हम लिये जैना अभियो
ने मूर्त्तिपूजा में झूठा कोलाहन चलाया है वैसे इन के मंत्रों में भी बहुत भी
असंभव बातें लिखी हैं यह प्रश्न का मंत्र है । रत्नमार भाग पृष्ठ १ में :-

नमो अरिहन्तायं नमोसिद्धायं नमो आयरियाणं नमो
उवज्झायायं नमो लोए सवञ्जाहूणं एसो पञ्च नमुक्कारो
सव्व पावप्पणासणो मङ्गलाचरणं च सव्वे सिपढमं हवइ
मङ्गलम् ॥ १ ॥

इस मन्त्र का बड़ा माहात्म्य लिखा है और सब जैनियों का यह गुणमंत्र है।
इस का ऐसा माहात्म्य धरा है कि तंत्र पुराण भाटों की भी कथा को पराजय कर
दिया है आद्यदिनकृत्य पृ० ३ :—

नमुक्कार तउपढे ॥ ९ ॥

जउकव्वं । मन्ताणमन्तो परमो इमुत्ति धेयाणधेयं परमं इमुत्ति ।
तत्ताणतत्तं परमं पवित्तं संसारसत्ताणदुहाहयाणं ॥ १० ॥

ताणं अन्नन्तु नो अत्थि । जीवाणं भव सायरे ।

बुद्धुं ताणं इमं मुत्तुं । न मुक्कारं सुपोययम् ॥ ११ ॥

कव्वं । अणोगजम्मंतरस चित्राणं । दुहाणंसारीरिमाणुसाणुसाणं ।
कत्तोय भव्वाणभविज्जनासो न जावपत्तो नवकारमन्तो ॥ १२ ॥

जो यह मंत्र है पवित्र और परममंत्र है यह ध्यानके योग्य में परमधेय है
तत्त्वों में परमतत्त्व है, दुःखों से पीड़ित संसारी जीवों को नवकार मंत्र ऐसा है कि
जैसी समुद्र के पार उतारने की नौका होती है ॥ १० ॥ जो यह नवकार मंत्र है
यह नौका के समान है जो इस को छोड़ देते हैं वे भवसागर में डूबते हैं और जो
इस का ग्रहण करते हैं वे दुःखों से तर जाते हैं जीवों को दुःखों से पृथक् रखने
वाला, सब पापों का नाशक, मुक्तिकारक, इस मंत्र के बिना दूसरा कोई नहीं
॥ ११ ॥ अनेक अवान्तर में उत्पन्न हुआ शरीर सम्बन्धी दुःख भव्य जीवों को भवसागर
से तारने वाला यही है, जब तक नवकार मंत्र नहीं पाया तब तक भवसागर से
जीव नहीं तर सकता यह अर्थ सूत्र में कहा है और जो अग्निप्रमुख अष्टमहाभयों
में सहाय एक नवकार मंत्र को छोड़ कर दूसरा कोई नहीं जैसे महारत्न वैदूर्य
नामक मणिग्रहण करने में आवे अथवा शत्रुभय में अमोघ शस्त्र के ग्रहण करने में
आवे वैसे श्रुत केवली का ग्रहण करे और सब द्वादशांगी का नवकार मंत्र रहस्य
है इस मंत्र का अर्थ यह है । (नमो अरिहन्तायं) सब तीर्थंकरों को नमस्कार है
(नमो सिद्धायं) जैनमत के सब सिद्धों को नमस्कार। (नमो आयरियाणं) जैनमत के

सब आचार्यों को नमस्कार (नमो उदयभाष्याणि) जैनमत के सब उपाध्यायों को नमस्कार है (नमो लोच सच्चसारणं) जितने जैन मत के साधु इस लोक में हैं उन सब को नमस्कार है। यद्यपि मंत्र में जैन पद नहीं है तथापि जैनियों के अनेक ग्रंथों में विना जैनमत के अन्य किसी को नमस्कार भी न करना लिखा है इस लिये वही अर्थ ठीक है। तत्र विवेक पृष्ठ १६८ जो मनुष्य एकही पदार को देववृद्धि कर पूजता है वह अच्छे फलों को प्राप्त होता है। (समोक्षक) जो ऐसा हो तो सब कोई दर्शन करके सुखरूप फलों को प्राप्त क्यों नहीं होते ? (रत्नसार-भाग पृष्ठ १०) पार्वनाथ की मूर्त्ति के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं कल्पभार्य पृष्ठ ५१ में लिखा है कि सवालाम्न मन्दिरों का जीर्णोद्धार किया इत्यादि सृष्टि-पूजा विषय में इन का बहुतसा लेश है इसी से समझा जाता है कि सृष्टिपूजा का मूलकारण जैनमत है। अब इन जैनियों के साधुओं की लीला देखिये (विवेक-सार पृष्ठ २२८) एक जैन मत का साधु कोणा वेण्या से भोग करके पचात् त्यागी हो कर स्वर्गलोक को गया (विवेकसार पृष्ठ १०) अर्गकमुनि चारित्र्य से पूक कर २६ वर्षपर्यन्त दृष्ट मेठ के घर में विषयभोग करके पचात् देवलोक को गया श्रीकृष्ण के पुत्र दंडण मुनि को स्नानिया उठा ले गया पचात् देवता हुआ। विवेकसार पृष्ठ १५६) जैनमत का साधु सिंगधारी अर्थात् वेगधारी मात्र ही तो भी उस का सत्कार आवश्यक लोग करें चाहें साधु शुद्धचरित्र हों चाहें अशुद्धचरित्र सब पूजनीय हैं। (विवेक सार पृष्ठ १६८) जैनमत का साधु चरित्र हीन हो तो भी अन्य मत के साधुओं से श्रेष्ठ है। (विवेकसार पृष्ठ १०१) आगक लोग जैनमत के साधुओं को चरित्ररहित भटाचारी देखें तो भी उन की सेवा करनी चाहिये। (विवेकसार पृष्ठ २१६) एक चोरने पाँच सूटो लांच कर चारित्र्य परण किया बड़ा कष्ट और पचात्ताप किया छःठे महीने में कैवल्य ध्यान पाके सिद्ध हो गया। (समोक्षक) अब देखिये इन के साधु और गृहस्थों की लीला इन के मत में द्रष्ट इष्ट करने वाला साधु भी मद्गति को गया और (विवेकसार पृष्ठ १०६) में लिखा है कि श्रीकृष्ण तीसरे नरक में गया। (विवेकसार पृष्ठ १४५) में लिखा है कि धन-न्तरि नरक में गया (विवेकसार पृष्ठ ४८) में लोना, जंगम, काजी, मुना, किताने ही अज्ञान से तप कष्ट करके भी बुगति को पाते हैं (रत्नसारभा० पृष्ठ १०१) में लिखा है कि नव वासुदेव अर्थात् द्विपुत्र वासुदेव, त्रिपुत्र वासुदेव, चतुर्भू वासुदेव, पुरुषोत्तम वासुदेव, सिद्ध पुत्र वासुदेव, पुत्र्य पुत्रोक्त वासुदेव, दृष्ट वासुदेव, और अष्टम वासुदेव ८ श्रीकृष्ण वासुदेव, ये सब स्वारूप, वारुण्य, चौदरुण्य, पन्द्रह, पठारुण्य, बीसवे और बारहमे तीर्थकरों के समय में नरक की गये और नवमति वासुदेव अर्थात् अगमीप्रतिवासुदेव, तारकप्रतिवासुदेव, मोदकप्रतिवासुदेव, मधुप्रतिवासुदेव, निगुधप्रतिवासुदेव, बलीप्रतिवासुदेव, प्रह्लादप्रतिवासुदेव, रावणप्रतिवासुदेव और

जरासिंधु प्रतिशासुदेव, ये भी सब नरक को गये । और कल्पभाष्य में लिखा है कि ऋषभदेव से लेके महावीर पर्यन्त २४ तीर्थंकर सब गोल को प्राप्त हुए । (समी-
चक) भला कोई बुद्धिमान् पुरुष विचार कि इन के साधु चरित्र और तीर्थंकर जिन
में बहुत से वैश्यागामी, परश्वीगामी, नीर आदि सब जैनमतस्थ वह स्वर्ग और मुक्ति
को गये और श्रीकृष्णादि महाधार्मिक महात्मा सब नरक को गये वह कितनी
बड़ी बुरी बात है? प्रत्युत विचार के देखे तो अच्छे पुरुष को जैनियों का संग करना
वा उन को देखना भी बुरा है क्यों कि जो इन का संग करे तो ऐसी ही भूठोर
बातें उस के भी हृदय में स्थित हो जायेंगी क्योंकि इन भद्राहरी, दुरापही,
मनुष्यों के सङ्ग से सिषाय बुराश्यों के अन्य कुछ भी पत्ते न पड़ेगा । हाँ । जो
जैनियों में उत्तम जन हैं :- उन से सखंगादि करने में कुछ भी दोष नहीं (विषे-
कसार पृष्ठ ५५) में लिखा है कि गंगादि तीर्थ और काशी आदि जैनों के सेवने
से कुछ भी परमार्थ सिद्ध नहीं होता और अपने गिरनार, पालीटाणा और
आवू आदि तीर्थ क्षेत्र मुक्तिपर्यन्त के देने वाले हैं । (समीचक) यहाँ विचारना
चाहिये कि जैसे शैव वैष्णवादि के तीर्थ और क्षेत्र जल स्थल जड़ स्वरूप हैं वैसे
जैनियों के भी हैं इन में से एक को निन्दा और दूसरे की स्तुति करना मूर्खता का
काम है ॥

जैनों की मुक्ति का वर्णन ।

(रत्नसार भा० पृष्ठ २३) महावीर तीर्थंकर गौतम जी से कहते हैं कि जहाँ
लोक में एक सिद्धगिला स्थान है स्वर्गपुरी के ऊपर पैंतालीस लाख योजन लंबी
उतनी हो पोलो है, तथा ८ योजन मोटी है जैसे मोती का स्वेत हार वा गोदुग्ध
है उस से भी उजली है सोने के समान प्रकाशमान और स्फटिक से भी निर्मल है
वह सिद्धगिला १४ चौदहवें लोक की गिखा पर है और उस सिद्धगिला के ऊपर
शिवपुर धाम उसमें भी मुक्त पुरुष अधर रहते हैं वहाँ जन्ममरणादि कोई दोष नहीं
और आनन्द करते रहते हैं पुनः जन्ममरण में नहीं आते सब कर्मों में छूट जाते
हैं यह जैनियों की मुक्ति है । (समीचक) विचारना चाहिये कि जैसे अन्यमत
में वैकुण्ठ कौलाश, गोलोक, श्रीपुर, आदि पुराणों । चौथे आसमान में ईसाई सात-
वें आसमान में सुसलमानों के मत में मुक्ति के स्थान लिखे हैं वैसे ही जैनियों
की सिद्धगिला और शिवपुर भी है । क्यों कि जिस को जैनी लोग जंघा मानते
हैं वही नीचे वाले लोक हम से भूगोल के नीचे रहते हैं उन की अपेक्षा
में नीचा है जंघा नीचा व्यवस्थित पदार्थ नहीं है जो आर्यावर्षवामो जैनी लोग
जंघा मानते हैं उसी में आमेरिका वाली नीचा मानते हैं और आर्यावर्षवामो

* जो उत्तम जन हैं वा ५५ इन प्रकार जैनमत में सभी न रहता ।

जिस को नीचा मानते हैं उसको अमेरिका वाले जं चा मानते हैं चाहे वह गिला पैंतालीस लाख से दूनी नब्बे लाख कोश की होती तो भी वे सुक्त बंधन में हैं क्योंकि उस गिला वा शिवपुर के बाहर निकलने से उन की मुक्ति छूट जाती होगी। और सदा उस में रहने की प्रीति और उस से बाहर जाने में अप्रीति भी रहती होगी जहां अटकाव प्रीति और अप्रीति है उस को मुक्ति क्यों कर कह सकते हैं ? मुक्ति तो जैसी नवमें समुत्सास में वर्णन कर आये हैं वैसी माननी ठीक है और यह जैनियों की मुक्ति भी एक प्रकार का बन्धन है ये जैनी भी मुक्ति विषय में भ्रम से फसे हैं। यह सच है कि बिना वेदों के यथार्थ अर्थ बोध के मुक्ति के स्वरूप को कभी नहीं जान सकते। अब और थोड़ी सी असम्भव बातें इन की सुनो (विवेकसार ७८) एक करोड़ साठ लाख कलशों से महावीर को जन्म समय में स्नान कराया। (विवेक० पृष्ठ १३६) दर्शार्ण राजा महावीर के दर्शन को गया वहां कुछ अभिमान किया उस के निवारण के लिये १६,७७,७२,१६००० इतने इन्द्र के स्वरूप और १३,३७०५७,२८००००००००० इतनी इन्द्राणी वहां आई थीं देख कर राजा आश्चर्य्य होगये। (समीक्षक) अब विचारना चाहिये कि इन्द्र और इन्द्राणियों के खड़े रहने के लिये ऐसे २ कितने ही भूगोल चाहिये। आहदिनकृत्य आत्मनिन्दा भावना पृष्ठ ३१ में लिखा है कि बावड़ी, कुआ और तालाब न बनवाना चाहिये। (समीक्षक) भला जो सब मनुष्य जैन मत में हो जायें और कुआ, तलाब, बावड़ी आदि कोई भी न बनवायें तो सब लोग जल कहां से पियें ? (प्रश्न) तालाब आदि बनवाने से जीव पड़ते हैं उस से बनवाने वाले को पाप लगता है इस लिये हम जैनी लोग इस काम को नहीं करते। (उत्तर) तुम्हारी बुद्धि गष्ट क्यों हो गई ? क्यों कि जैसे सुदृ २ जीवों के मरने से पाप गिनते हो तो बड़े २ गाय आदि पशु और मनुष्यादि प्राणियों के जल पीने आदि से महापुण्य होगा उस को क्यों नहीं गिनते ? (तत्त्वविवेक पृष्ठ १८६) इस नगरी में एक नन्दमणिकार सेठ ने बावड़ी बनवाई उस से धर्मभ्रष्ट हो कर सोलह महारोग हुए, मर के उसी बावड़ी में मेडुका हुआ, महावीर के दर्शन से उस को जाति स्मरण हो गया, महावीर कहते हैं कि मेरा आना सुन कर वह पूर्व जन्म के धर्माचार्य्य जान बन्दना को आने लगा, मार्ग में श्रेणिक के घोड़े की टाप से मर कर शुभध्यान के योग से द्दुरांक नाम महर्द्धिक देवता हुआ अबधिज्ञान से मुक्त को यहां आया जान बन्दना पूर्वक ऋद्धि दिखा के गया। (समीक्षक) इत्यादि विद्या विरुद्ध असंभव मिथ्या बात के कहने वाले महावीर को सर्वोत्तम मानना महाभ्रान्ति की बात है। आहदिनकृत्य पृष्ठ ३६ में लिखा है कि सृतक वस्त्र साधू ले लें। (समीक्षक) देखिये इन के साधु भी महात्राहण के समान ही गये वस्त्र तो साधु लेवें परन्तु सृतक के आभूषण कौन लेवे बहुमूल्य होने से घर में

रख लेते हैंगे तो आप कौन हुए । (रत्नसार पृष्ठ १०५) भंजने, कूटने, पीसने, अन्न पकाने आदि में पाप होता है । (समीचक) अब देखिये इन को विद्याहीनता भला ये कर्म न किये जायें तो मनुष्यादि प्राणी कैसे जी सकें ? और जैनी लोग भी पीड़ित हो कर मर जायें । (रत्नसार पृष्ठ १०४) बगीचा लगाने से एक लक्ष पाप माली को लगता है । (समीचक) जो मान्दो को लक्ष पाप लगता है तो अनेक जीव पत्र, फल, फूल और कायासे आनन्दित होने हैं तो करोड़ों गुणा पुण्य भी होता ही है इस पर कुछ ध्यान भी न दिया यह कितना अंधेर है ? । (तत्त्वविवेकपृष्ठ) २०२ एक दिन लब्धि साधू भूल से वेश्या के घर में चला गया और धर्म से भिचा मांगी वेश्या बोली कि यहाँ धर्म का काम नहीं किन्तु अर्थ का काम है तो उस लब्धि साधू ने साढ़े बारह लाख अगर्षो उस के घर में वर्षा दीं (समीचक) इस बात को सत्य विना नष्टबुद्धि पुरुष के कौन माने गा ? । रत्नसार भाग पृष्ठ ६० में लिखा है कि एक पापाण की गर्भिणी घोड़े पर चढ़ी हुई उस का जहाँ स्मरण करे वहाँ उपस्थित हो कर रक्षा करती है (समीचक) कही जैनी जी आज फल तुम्हारे यहाँ चोरी, डाँका आदि और शत्रु से भय होता ही है तो तुम उस का स्मरण करके अपनी रक्षा क्यों नहीं करा लेते हो ? क्यों जहाँ तहाँ पुलिस आदि राजस्थानों में मारे २ फिरते हो ? अब इन के साधुओं के लक्षणः—

सरजोहरणभैक्ष्यभुजो लुञ्चितमूर्द्धजाः ।

श्वेताम्बराः क्षमाशीला निःसंगा जैनसाधवः ॥ १ ॥

लुञ्चिता पिच्छिका हस्ता पाणिपात्रा दिगम्बराः ।

ऊर्ध्वासिनो गृहेदातुर्हितीयास्युर्जिनर्षयः ॥ २ ॥

भुङ्क्तेन केवलं न स्त्रीमोक्षमेति दिगम्बरः ।

प्राहुरेपामयं भेदो महान् श्वेताम्बरैः सह ॥ ० ॥

जैन के साधुओं के लक्षणार्थ जिन दससूरी ने ये श्लोकों से कहे हैं सरजोहरण चमरो रखना, और भिचा मांग के खाना, गिर के वान्त लुञ्चित कर देना, श्वेत वस्त्र धारण करना, चमायुक्त रहना, किसी का संग न करना, ऐसे लक्षणयुक्त जैनियों के श्वेताम्बर जिन को यती कहते हैं । दूसरे दिगम्बर अर्थात् वस्त्र धारण न करना, गिर के वान्त उठाड़ डालना, पिच्छिका एक जन के सूती का भाडू मगाने का साधन बगल में रखना, जो कोई भिचा दे तो हाथ में ले कर खा लेना ये दिगम्बर दूसरे प्रकार के साधू होते हैं और भिचा देने वाला गृहस्थ जब भोजन

कर चुके उस के पश्चात् भोजन करें वे जिनर्षि अर्थात् तीसरे प्रकार के साधू होते हैं । दिनम्बरों का श्वेताम्बरों के साथ इतना ही भेद है कि दिग्म्बर लोग स्त्री का संसर्ग नहीं करते और श्वेताम्बर करते हैं इत्यादि बातों से मोच को प्राप्त होते हैं यह इन के साधुओं का भेद है। इस से जैन लोगों का केशलुचन सर्वत्र प्रसिद्ध है और पांच मुष्टि लुचन करना इत्यादि भी लिखा है । विवेकसार भा० पृष्ठ २१६ में लिखा है कि पांच मुष्टि लुचन कर चारित्र्य ग्रहण किया अर्थात् पांच मूली गिर के बाल उखाड़ के साधू हुआ । (कल्पसूत्रभाष्य पृष्ठ १०८) केश लुचन करे गौ के बालों के तुल्य रखो । (समीक्षक) अब कहिये जैन लोगो तुम्हारा दया धर्म कहाँ रहा ? क्या यह हिंसा अर्थात् चाहें अपने हाथ से लुचन करें चाहें उस का गुरु करे वा अन्य कोई परन्तु कितना बड़ा कष्ट उस जीव को होता होगा ? जीव को कष्ट देना ही हिंसा कहती है । विवेकसार पृष्ठ संवत् १६३३ के साल में श्वेताम्बरों में से टूटिया और टूटियों में से तेरह पंथी आदि ढोंगी निकले हैं । टूटिये लोग पाषाणादि भूर्त्ति को नहीं मानते और वे भोजन स्नान को छोड़ सर्वदा सुख पर पट्टी बांधे रहते हैं और जती आदि भी जब पुस्तक वांचते हैं तभी सुख पर पट्टी बांधते हैं अन्य समय नहीं । (प्रश्न) सुख पर पट्टी अवश्य बांधना चाहिये क्योंकि "वायुकाय" अर्थात् जो वायु में सूक्ष्म शरीर वाले जीव रहते हैं वे सुख के वाफ की उष्णता से मरते हैं और उस का पाप सुख पर पट्टी न बांधने वाले पर होता है इसी लिये हम लोग सुख पर पट्टी बांधना अच्छा समझते हैं (उत्तर) यह बात विद्या और प्रत्यक्ष प्रमाण आदि की रीति से अयुक्त है क्योंकि जीव अजर अमर हैं फिर वे सुख की वाफ से कभी नहीं मर सकते इन को तुम भी अजर अमर मानते हो । (प्रश्न) जीव तो नहीं मरता परन्तु जो सुख के उष्ण वायु से उन को पीड़ा पहुंचती है उस पीड़ा पहुंचाने वाले को पाप होता है इसी लिये सुख पर पट्टी बांधना अच्छा है । (उत्तर) यह भी तुम्हारी बात सर्वथा असंभव है क्योंकि पीड़ा दिये बिना किसी जीव का किंचित् भी निर्वाह नहीं हो सकता जब सुख के वायु से तुम्हारे मत में जीवों को पीड़ा पहुंचती है तो चलने, फिरने, बैठने, हाथ उठाने और नेत्रादि के चलाने में भी पीड़ा अवश्य पहुंचती होगी इस लिये तुम भी जीवों को पीड़ा पहुंचाने से पृथक् नहीं रह सकते । (प्रश्न) हाँ हाँब तक बन सके वहाँ तक जीवों की रक्षा करनी चाहिये और जहाँ हम नहीं बचा सकते वहाँ अग्रज हैं क्योंकि सब वायु आदि पदार्थों में जीव भरे हुए हैं जो हम सुख पर कपड़ा न बांधें तो बहुत जीव मरें कपड़ा बांधने से न्यून मरते हैं । (उत्तर) यह भी तुम्हारा कथन युक्तिशून्य है क्योंकि कपड़ा बांधने से जीवों को अधिक दुःख पहुंचता है जब कोई सुख पर कपड़ा बांधे तो उस का सुख का वायु रुक के नीचे वा पात्र और मीन समय में नासिकाद्वारा इकट्ठा होकर वेग से निकलता है उस से उष्णता

अधिक हो कर जीवों को विगेष पीड़ा तुम्हारे मतानुसार पहुँचती होगी। देखो ! जैसे घर वा कीठरी के सब दरवाजे बंद किये वा पड़ने डाले जायें तो उस में उष्णता विगेष होती है खुला रखने से उतनी नहीं होती वैसे मुख पर कपड़ा बांधने से उष्णता अधिक होती है और खुला रखने से न्यून वैसे तुम अपने मतानुसार जीवों को अधिक दुःखदायक हो और जब मुख बंध किया जाता है तब नासिका के किट्टों से वायु रुक ड्रकड़ा होकर वेग से निकलता हुआ जीवों को अधिक धक्का और पीड़ा करता होगा। देखो ! जैसे कोई मनुष्य अग्नि को सुख से फूँकता और कोई नली से तो मुख का वायु फैलने से कम बल और नली का वायु ड्रकड़ा होने से अधिक बल से अग्नि में लगता है वैसे ही मुख पर पट्टी बांध कर वायु को रोकने से नासिकाद्वारा अतिवेग से निकल कर जीवों को अधिक दुःख देता है इस से मुख पर पट्टी बांधने वालों से नहीं बांधने वाले धर्मात्मा हैं। और मुख पर पट्टी बांधने से अक्षरों का यथायोग्य स्थान प्रयत्न के साथ उच्चारण भी नहीं होता निरनुनासिक अक्षरों को सानुनासिक बोलने से तुम को दोष लगता है तथा मुख पर पट्टी बांधने से दुर्गन्ध भी अधिक बढ़ता है क्योंकि शरीर के भीतर दुर्गन्ध भरा है। शरीर से जितना वायु निकलता है वह दुर्गन्धयुक्त प्रत्यक्ष है जो वह रोक जाय तो दुर्गन्ध भी अधिक बढ़ जाय जैसा कि बंध "जाजरुह" अधिक दुर्गन्धयुक्त और खुला हुआ न्यून दुर्गन्धयुक्त होता है वैसे ही मुखपट्टी बांधने, दन्तधावन, मुख-प्रचालन, और स्नान न करने तथा वस्त्र न धोने से तुम्हारे शरीरों से अधिक दुर्गन्ध उत्पन्न हो कर संसार में बहुत रोग करके जीवों को जितनी पीड़ा पहुँचाते हो उतना पाप तुम को अधिक होता है। जैसे मेले आदि में अधिक दुर्गन्ध होने से "बिसूचिका" अर्थात् हैजा आदि बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न हो कर जीवों को दुःखदायक होते हैं और न्यून दुर्गन्ध होने से रोग भी न्यून हो कर जीवों को बहुत दुःख नहीं पहुँचता इस से तुम अधिक दुर्गन्ध बढ़ाने में अधिक अपराधी और जो मुख पर पट्टी नहीं बांधने, दन्तधावन मुखप्रचालन स्नान करके स्थान वस्त्रों को शुद्ध रखते हैं वे तुम से बहुत अच्छे हैं। जैसे अन्वर्जों की दुर्गन्ध के सहवास से पृथक् रहने वाले बहुत अच्छे हैं जैसे अन्वर्जों की दुर्गन्ध के सहवास से निर्मल बुद्धि नहीं होती वैसे तुम और तुम्हारे संगियों की भी बुद्धि नहीं बढ़ती, जैसे रोग की अधिकता और बुद्धि के खल्य होने से धर्मानुष्ठान की बाधा होती है वैसे ही दुर्गन्धयुक्त तुम्हारा और तुम्हारे संगियों का भी वर्तमान होता होगा। (प्रश्न) जैसे बंध मकान में जलाये हुए अग्नि की ध्वाना बाहर निकल के बाहर के जीवों को दुःख नहीं पहुँचा सकती वैसे हम मुख पट्टी बांध के वायु को रोक कर बाहर के जीवों को न्यून दुःख पहुँचाने वाले हैं। मुख पट्टी बांधने से बाहर के वायु के जीवों को पीड़ा नहीं पहुँचती, और जैसे सामने अग्नि जलता है उस को

आड़ा हाथ देने से कम लगती है और वायु के जीव शरीर वाले होने से उन को पीड़ा अवश्य पहुंचती है । (उत्तर) यह तुम्हारी बात लड़कपन की है प्रथम तो देखो जहां छिद्र और भीतर के वायु का योग बाहर के वायु के साथ न हो तो वहां अग्नि जल ही नहीं संकता जो इन को प्रत्यक्ष देखना चाहो तो किसी फानूस में दीप जला कर सब छिद्र बन्ध करके देखो तो दीप उसी समय बुझ जाय गा जैसे पृथिवी पर रहने वाले मनुष्यादि प्राणि बाहर के वायु के योग के बिना नहीं जी सकते वैसे अग्नि भी नहीं जल सकता जब एक ओर से अग्नि का वेग रोका जाय तो दूसरी ओर अधिक वेग से निकले गा और हाथ की आड़ करने से मुख पर आंच न्यून लगती है परन्तु वह आंच हाथ पर अधिक लग रही है इस लिये तुम्हारी बात ठीक नहीं । (प्रश्न) इस को सब कोई जानता है कि जब किसी बड़े मनुष्य से कोटा मनुष्य कान में वा निकट ही कर बात कहता है तब मुख पर पल्ला वा हाथ लगाता है इस लिये कि मुख से धूंक उड़ कर वा दुर्गंध उस को न लगे और जब पुस्तक बांचता है तब अवश्य धूंक उड़ कर उस पर गिरने से उच्छिष्ट ही कर वह बिगड़ जाता है इस लिये मुख पर पट्टी का बांधना अच्छा है । (उत्तर) इस से यह सिद्ध हुआ कि जीवरचार्य मुख पट्टी बांधना व्यर्थ है और जब कोई बड़े मनुष्य से बात करता है तब मुख पर हाथ वा पल्ला इस लिये रखता है कि उस गुप्त बात को दूसरा कोई न सुन लेवे क्योंकि जब कोई प्रसिद्ध बात करता है तब कोई भी मुख पर हाथ वा पल्ला नहीं धरता, इस से क्या विदित होता है कि गुप्त बात के लिये यह बात है । दन्तधावनादि न करने से तुम्हारे सुखादि अवयवों से अत्यन्त दुर्गंध निकलता है और जब तुम किसी के पास वा कोई तुम्हारे पास बैठता होगा तो बिना दुर्गंध के अन्य क्या आता होगा ? इत्यादि मुख के आड़ा हाथ वा पल्ला देने के प्रयोजन अत्यन्त बहुत हैं जैसे बहुत मनुष्यों के सामने गुप्त बात करने में जो हाथ वा पल्ला न लगाया जाय तो दूसरों की ओर वायु के फैलने से बात भी फैल जाय जब वे दोनों एकान्त में बात करते हैं तब मुख पर हाथ वा पल्ला इस लिये नहीं लगाते कि यहां तीसरा कोई सुनने वाला नहीं जो बड़ों ही के ऊपर धूंक न गिरे इस से क्या कोटों के ऊपर धूंक गिराना चाहिये ? और उस धूंक से बच भी नहीं सकता क्योंकि हम दूरस्थ बात करें और वायु हमारी ओर से दूसरे की ओर जाता ही तो सूत्र ही कर उस के शरीर पर वायु के साथ त्रसरण अवश्य गिरेगे उस का दीप गिनना अविद्या की बात है क्योंकि जो मुख की उष्णता से जीव मरते वा उन को पीड़ा पहुंचती हो तो वैशाख वा ज्येष्ठ महीने में सूर्य की महा उष्णता से वायुकाय के जीवों में से मरे बिना एक भी न बच सके, सो उस उष्णता से भी वे जीव नहीं मर सकते इस लिये यह तुम्हारा सिद्धान्त भ्रूठा है क्योंकि जो

तुम्हारे तीर्थंकर भी पूर्ण विद्वान् होते तो ऐसी व्यर्थ बातें क्यों करने ? देखो ! पीड़ा उन्हीं जीवों को पहुँचती है जिन को वृत्ति सब अवयवों के साथ विद्यमान है। इस में प्रमाण :-

पञ्चावयवात्सुखसंवित्तिः ॥

यह सांख्यशास्त्र का सूत्र है—जब पाँचों इन्द्रियों का पाँच विषयों के साथ सम्बन्ध होता है तभी सुख या दुःख की प्राप्ति जीव को होती है जैसे बधिर को गालोपदान, अन्ध को रूप वा आगे से सर्प व्याघ्रादि भयदायक जीवों का चला जाना, शून्य बहिरी वाले की स्पर्श, पित्रस रोग वाले को गन्ध, और शून्य जिह्वा वाले को रस प्राप्त नहीं हो सकता प्रती प्रकार उन जीवोंकी भी व्यवस्था है। देखो ! जब मनुष्य का जीव सुषुप्ति दशा में रहता है तब उस को सुख या दुःख की प्राप्ति कुछ भी नहीं होती, क्योंकि वह शरीर के भीतर तो है परन्तु उस का बाहर के अवयवों के साथ उस समय सम्बन्ध न रहने से, सुख दुःख की प्राप्ति नहीं करसकता और जैसे वैद्य वा आज कल के डाक्टर लोग नगा की वस्तु खिला वा सुँघा के रोगी पुरुष के शरीर के अवयवों को काटते वा चीरते हैं उस को उस समय कुछ भी दुःख विदित नहीं होता । वैसे वायुकाय अथवा अन्य स्थावर शरीर वाले जीवों को सुख वा दुःख प्राप्त कभी नहीं हो सकता । जैसे मूर्च्छित प्राणी सुख दुःख को प्राप्त नहीं हो सकता वैसे वे वायुकायादि के जीव भी अत्यन्त मूर्च्छित होने से सुख दुःख को प्राप्त नहीं हो सकते फिर इन को पीड़ा से बचाने की बात सिंह कैसे हो सकती है ? जब उन को सुख दुःख की प्राप्ति ही प्रत्यक्ष नहीं होती तो अनुमानादि यहाँ कैसे युक्त हो सकते हैं । (प्रश्न) जब वे जीव हैं तो उन को सुख दुःख क्यों नहीं होगा ? (उत्तर) सुनो भोले भाइयो ! जब तुम सुषुप्ति में होते हो तब तुम को सब दुःख प्राप्त क्यों नहीं होते ? सुख दुःख की प्राप्ति का हेतु प्रसिद्धसंबन्ध है अभी हम इस का उत्तर दे आये हैं कि नगा सुँघा के डाक्टर लोग अंगों को चीड़ते फाड़ते और काटते हैं जैसे उन को दुःख विदित नहीं होता इसी प्रकार प्रति मूर्च्छित जीवोंको सुख दुःख क्यों कर प्राप्त होवेँ क्योंकि ? वहाँ प्राप्ति होने का साधन कोई भी नहीं । (प्रश्न) देखो ! निलोति अर्थात् जितने हरेगाक, पात, और कंदमूल हैं उन को हम लोग नहीं खाते क्योंकि निलोति में बहुत और कंदमूल में अनन्त जीव हैं जो हम उन को खावें तो उन जीवों को मारने और पीड़ा पहुँचने से हम लोग पापी हो जावें । (उत्तर) यह तुम्हारी बड़ी अविद्या की बात है क्योंकि हरित शाक के खाने में जीव का मरना उन को पीड़ा पहुँचनी क्यों कर मानते हो ? भला जब तुम को पीड़ा प्राप्त होती प्रत्यक्ष नहीं दीखती और जो दीखती है तो हम को भी दिखलाओ, तुम कभी न प्रत्यक्ष देख वा हम को दिखा सकोगे । जब प्रत्यक्ष नहीं तो अनुमान, उपमान, और शब्दप्रमाण भी

कभी नहीं घट सकता फिर जो हम ऊपर उत्तर दे आये हैं वह इस बात का भी उत्तर है क्योंकि जो अत्यन्त अधकार महासुप्ति और महानगा में जीव हैं इन को सुख दुःख की प्राप्ति मानना तुम्हारे तीर्थंकरों की भी भूल विदित है। जिन्होंने तुम को ऐसी युक्ति और विद्याविरुद्ध उपदेश किया है भला जब घर का अन्त है तो उस में रहने वाले जीव अनन्त क्योंकर हो सकते हैं ? जब कन्द का अन्त हम देखते हैं तो उस में रहने वाले जीवों का अन्त क्या नहीं ? इस से यह तुम्हारी बात बड़ी भूल की है। (प्रश्न) देखो ! तुम लोग बिना उष्ण किये कच्चा पानी पीते हो वह बड़ा पाप करते हो, जैसे हम उष्ण पानी पीते वैसे तुम लोग भी पिया करो। (उत्तर) यह भी तुम्हारी बात भ्रमजाल की है क्योंकि जब तुम पानी को उष्ण करते हो तब पानी के जीव सब मरते होंगे और उन का शरीर भी जल में रन्ध कर वह पानी सोंफ के अर्क के तुल्य होने से जानो तुम उन के शरीरों का "तेजाव" पीते हो इस में तुम बड़े पापी हो। और जो ठंडा जल पीने हैं वे नहीं क्योंकि जब ठंडा पानी पिये गे तब उदर में जाने से किंचित् उष्णता पा कर श्वास के साथ वे जीव बाहर निकल जायेंगे जलवायु जीवों को सुख दुःख प्राप्त पूर्वाक्त रीति से नहीं हो सकता पुनः इस में पाप किसी को नहीं होगा। (प्रश्न) जैसे जाठराग्नि से वैसे उष्णता पा के जल से बाहर जीव क्यों न निकल जायेंगे ? (उत्तर) हां निकल तो जाते परन्तु जब तुम सुख के वायु की उष्णता से जीव का मरना मानते हो तो जल उष्ण करने से तुम्हारे मतानुसार जीव मर जावेंगे वा अधिक पीड़ा पा कर निकलेंगे और उन के शरीर उस जल में रन्ध जायेंगे इस से तुम अधिक पापी होगे वा नहीं ? (प्रश्न) हम अपने हाथ से उष्ण जल नहीं करते और न किसी गृहस्थ को उष्ण जल करने की आज्ञा देते हैं इस लिये हम को पाप नहीं। (उत्तर) जो तुम उष्ण जल न लेते न पीते तो गृहस्थ उष्ण क्यों करते ? इस लिये उस पाप के भागी तुम ही हो प्रत्युत अधिक पापी हो क्योंकि जो तुम किसी एक गृहस्थ को उष्ण करने को कहते तो एक ही ठिकाने उष्ण होता जब वे गृहस्थ इस भ्रम में रहते हैं कि न जाने साधू जी किस के घर को आवेंगे इस लिये प्रत्येक गृहस्थ अपने २ घर में उष्ण जल कर रखते हैं इस के पाप के भागी मुख्य तुम ही हो। दूसरा अधिक काष्ठ और अग्नि के जलने जलाने से भी ऊपर लिखे प्रमाण रसोई खिती और व्यापारादि में अधिक पापी और नरकगामी होते हो फिर जब तुम उष्ण जल करने के मुख्य निमित्त और तुम उष्ण जल के पीने और ठंडे के न पीने के उपदेश कराने से तुम ही मुख्य पाप के भागी हो और जो तुम्हारा उपदेश मान कर ऐसी बातें करते हैं वे भी पापी हैं। अब देखो ! कि तुम बड़ी अविद्या में होते हो वा नहीं कि छोटे २ जीवों पर दया करनी और अन्य मत वालों की निन्दा, अनुपकार, करना क्या छोड़ा

पाप है ? जो तुम्हारे तीर्थंकरों का मत सच्चा होता तो सृष्टि में इतनी वर्षा नदियों का चलना और इतना जन वर्षों उत्पन्न ईश्वर ने किया ? और सूर्य को भी उत्पन्न न करता क्योंकि इन में क्रीड़ान् क्रीड़ जीव तुम्हारे मतानुसार मरते ही होंगे जब वे विद्यमान थे और तुम जिन को ईश्वर मानते हो उन्हें न दया कर सूर्य का ताप और मेघ को बन्ध क्यों न किया ? और पूर्वाक्त प्रकार से बिना विद्यमान प्राणियों के दुःख सुख की प्राप्ति, कन्दमूलादि पदार्थों में रहने वाले जीवों को नहीं छोटी सर्वथा सब जीवों पर दया करना भी दुःख का कारण होता है क्योंकि जो तुम्हारे मतानुसार सब मनुष्य ही जावें चौर हाकुओं को कोई भी दंड न देवे तो कितना बड़ा पाप पड़ा हो जाय ? इस लिये दुष्टों को यथावत् दंड देने और श्रेष्ठों के पालन करने में दया और इस से विपरीत करने में दया समारूप धर्म का नाश है। कितनेक जैनो लोग दुकान करते उन व्यवहारों में झूठ बोलते, पराया धन मारते और दीनों को छलने आदि कुकर्म करते हैं उन के निवारण में विशेष उपदेश क्यों नहीं करते ? और सुखपट्टी बांधने आदि ढोंग में क्यों रहते हो ? जब तुम चेला चेली करते हो तब केशलुचन और बहुत दिवस भूखे रहने में पराये वा अपने आत्मा को पीड़ा दे और पीड़ा को प्राप्त हो के दूसरों को दुःख देते और आत्महत्या अर्थात् आत्मा को दुःख देने वाले हो कर हिंसक क्यों बनते हो ? जब हाथी, घोड़े, बैल, जूट, पर चढ़ने और मनुष्यों को मजुरी कराने में पाप छेनी लोग क्यों नहीं गिनते ? जब तुम्हारे चले जटपटांग वातों को सत्य नहीं कर सकते तो तुम्हारे तीर्थंकर भी सत्य नहीं कर सकते जब तुम कथा वांचते हो तब मार्ग में शीतलों के और तुम्हारे मतानुसार जीव मरते ही होंगे इस लिये तुम इस पाप के मुख्य कारण क्यों होते हो ? इस थोड़े कथन से बहुत समझ लेना कि उन जन, खन, वायु के स्वावरशरीर वाले अत्यन्तसूक्ष्म जीवों को दुःख वा सुख कभी नहीं पहुँच सकता।

अब जैनियों की और भी थोड़ी सी असंभव कथा लिखते हैं सुनना चाहिये और यह भी ध्यान में रखना कि अपने हाथ से साढ़े तीन हाथ का धनुष होता है और काल की संख्या जैसी पूर्व लिख आये हैं वैसी ही समझना रत्नसार भाग १। पृष्ठ १६६-१६७ तक में लिखा है (१) ऋषभदेव, का शरीर ५०० पाँच सौ धनुष लंबा और ८४००००० (चौदासी लाख) पूर्व वर्ष का आयु। (२) अजितनाथ, का ४५० धनुष परिमाण का शरीर और ७२००००० (बहत्तर लाख) पूर्व वर्ष का आयु (३) संभवनाथ का ४०० चार सौ धनुष परिमाण शरीर और ६०००००० (साठ लाख) पूर्व वर्ष का आयु। (४) अभिनन्दन, का ३५० साढ़ेतीन सौ धनुष का शरीर और ५०००००० (पचास लाख) पूर्व वर्ष का आयु। (५) सुमतिनाथ का ३०० धनुष परिमाण का शरीर और ४०००००० (चालीस लाख) पूर्व वर्ष

का आयु । (६) पद्मप्रभ का १४० धनुष का शरीर और ३०००००० (तीस लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (७) पार्श्वनाथ का २०० धनुष का शरीर और २०००००० (बीस लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (८) चन्द्रप्रभ का १५० धनुष परिमाण का शरीर और १०००००० (दश लाख) पूर्व वर्षों का आयु । (९) सुविधिनाथ का १०० सौ धनुष का शरीर और २०००००० (दो लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (१०) शीतलनाथ, का ६० नव्वे धनुष का शरीर और १०००००० (एकलाख) पूर्व वर्ष का आयु । (११) त्र्यम्बकनाथ का ८० धनुष का शरीर और ८४००००० (चौरासी लाख) वर्ष का आयु । (१२) वासुपूज्य, स्वामि का ७० धनुष का शरीर और ७२००००० (बहत्तर लाख) वर्ष का आयु । (१३) विमलनाथ का ६० धनुष का शरीर और (६००००००) साठ लाख वर्षों का आयु । (१४) अनन्तनाथ का ४० धनुष का शरीर और ३००००००० (तीस लाख) वर्षों का आयु । (१५) धर्मनाथ का ४५ धनुषों का शरीर और १०००००० (दश लाख) वर्षों का आयु । (१६) शान्तिनाथ का ४० धनुषों का शरीर और १०००००० (एक लाख) वर्षों का आयु । (१७) कुण्डुनाथ का ३५ धनुष का शरीर और ६५००० (पंचानवे सहस्र) वर्षों का आयु । (१८) अमरनाथ का ३० धनुषों का शरीर और ८४००० (चौरासी सहस्र) वर्षों का आयु । (१९) मल्लीनाथ, का २५ धनुषों का शरीर और ५५००० (पचपन सहस्र) वर्षों का आयु (२०) सुनिसुहृत्, का २० धनुषों का शरीर और ३०००० (तीस सहस्र) वर्षों का आयु । (२१) नमिनाथ का १४ धनुषों का शरीर और १०००० (दश सहस्र) वर्षों का आयु । (२२) नेमिनाथ का १० दश धनुषों का शरीर और १००० (एक सहस्र) वर्ष का आयु । (२३) पार्श्वनाथ, का ६ हाथ का शरीर और १०० (सौ) वर्ष का आयु । (२४) महावीर स्वामी, का ७ हाथ का शरीर और ७२ वर्षों का आयु । ये चौबीस तीर्थंकर जैनियों के मत चलाने वाले आचार्य और गुरु हैं इन्हीं को जैनी लोग परमेश्वर मानते हैं और ये सब मोक्ष को गये हैं इसमें बुद्धिमान् लोग विचार लें कि इतने बड़े शरीर और इतना आयु मनुष्य देह का होना कभी संभव है ? इस भूगोल में बहुत ही थोड़े मनुष्य बस सकते हैं । इन्हीं जैनियों के गपोड़े ले कर जो पुराणियों ने एकलाख, दशसहस्र और एकसहस्र वर्ष का आयु लिखा सो भी संभव नहीं हो सकता तो जैनियों का कथन संभव कैसे हो सकता है ? अब और भी सुनो कल्पभाष्य पृष्ठ ४ नाग कितने ग्राम की बराबर एक शिला अंगुली पर धरली (!) कल्पभाष्य पृष्ठ ३५ महावीर ने अंगूठे से पृथिवी को दवाई उस से जेपनाग कंप गया (!) कल्पभाष्य पृष्ठ ४६ महावीर को सर्प ने काटा रुधिर के बदले दूध निकला और वह सर्प ८ वें स्वर्ग को गया (!) । कल्पभाष्य पृष्ठ ४७ महावीर के पग पर खीर पकाई और पग न जले (!) । कल्पभाष्य पृष्ठ १६ कोटि से पात्र में

जंठ बुलाया (!) । रत्नसारभाग १ प्रथम पृष्ठ १४ शरीर के मैल को न उतारि और न खुजलाये विवेकसार भा० पृष्ठ १५ जैनियों के एक दमसार साधू ने क्रोधित हो कर उहेग जनकसूत्र पढ़ कर एक शहर में आग लगा दी और महावीर तीर्थंकर का अतिप्रिय था । विवेक० भा० १ पृष्ठ १२० राजा की आज्ञा अवश्य माननी चाहिये । विवेक० भा० १ पृष्ठ २२० एक कोशा वेश्या ने घाली में सरसों की ढेरी लगा उस के ऊपर फूलों से ढकी हुई सुई खड़ी कर उस पर अच्छे प्रकार नाच किया परन्तु सुई पग में गड़ने न पाई और सरसों की ढेरी बिखरी नहीं (!!!) तत्त्वविवेक पृष्ठ २२८ इसी कोशा वेश्या के साथ एक स्थूल मुनि ने ११ वर्ष तक भोग किया और पछात् दीक्षा ले कर सद्गति को गया और कोशा वेश्या भी जैन धर्म को पालती हुई सद्गति को गई ! विवेक० भा० १ पृष्ठ १८५ एक सिद्ध की कंधा जो गले में पहिनी जाती है वह ५०० अशर्फी एक वैश्यकी नित्य देती रही । विवेक० भा० १ पृष्ठ २२८ बलवान् पुरुष की आज्ञा, देव की आज्ञा, घोर वन में कष्टसे निर्वाह, गुरु के रोकने, माता, पिता, कुलाचार्य, ज्ञातीयलोग और धर्मापदेष्टा के रोकने से इन छः के रोकने से धर्म में न्यूनता होने से धर्म की हानि नहीं होती (समीचक) अब देखिये इन की मिथ्या बातें ! एक मनुष्य ग्राम के बराबर पापाण की शिला को अंगुली पर कभी धर सकता है और पृथिवी के ऊपर अंगुठे दबाने से पृथिवी कभी दब सकती है ? और जब शेषनाग ही नहीं तो कोंपे गा कौन ? ॥ ३ ॥ भला शरीर के काटने से दूध निकलना किसी ने नहीं देखा सिषाय इन्द्रजाल के दूसरी बात नहीं उस को काटने वाला सर्प तो स्वर्ग में गया और महात्मा श्रीकृष्ण आदि तीसरे नरक को गये यह कितनी मिथ्या बात है ? ॥ ४ ॥ जब महावीर के पग पर खीर पकाई तब उस के पग जल क्यों न गये ? ॥ ५ ॥ भना छोटे से पात्र में कभी जंठ आ सकता है ? । जो शरीर का मैल नहीं उतारते और न खुजलाते होंगे वे दुर्गन्धरूप महानरक भोगते होंगे ॥ ६ ॥ जिस साधू ने नगर जलाया उस की दया और क्षमा कहां गई ? जब महावीर के संग से भी उस का पवित्र आत्मा न हुआ तो अब महावीर के मरे पीछे उस के आश्रय से जैन लोग कभी पवित्र न होंगे ॥ ८ ॥ राजा की आज्ञा माननी चाहिये परन्तु जैन लोग बनिये हैं इस लिये राजा से डर कर यह बात लिखदो होगी ॥ ९ ॥ कोशा वेश्या चाहे उस का शरीर कितना ही हलका हो तो भी सरसों की ढेरी पर सुई खड़ी कर उस के ऊपर नाचना सुई का न छिदना और सरसों का न बिखरना अतोप शूठ नहीं तो क्या है ? ॥ १० ॥ धर्म किसी को किसी अवस्था में भी न छोड़ना चाहिये चाहे कुछ भी हो जाय ? ॥ ११ ॥ भला कंधा बस का होता है वह नित्यगति ५०० अशर्फी किस प्रकार दे सकता है ? ॥ १२ ॥ अब ऐसी २ प्रसंभव

कहानी इन की लिखें तो जैनियों के थोड़े पाठों के सट्टण बहुत बढ़ जाय इस लिये अधिक नहीं लिखते अर्थात् थोड़ी सी इन जैनियों की बातें छोड़ के शेष सब मिथ्या जाल भरा है देखिये :-

दोससि दोरवि पढमे । दुगुणा लवणं मिधाय ईसं मे ।
वारसससि वारसरवि । तप्यभि इनि दिष्ट ससि रविणो ॥

प्रकरण० भा० ४ संग्रहणी सूत्र ॥ ७७ ॥

जो जम्बूद्वीप लाश्रयोजन अर्थात् ४ चार लाख कोश का लिखा है उन में यह पहिला द्वीप कहाता है इस में दो चन्द्र और दो सूर्य हैं और वैसे ही लवण समुद्र में उस से दुगुण अर्थात् ४ चन्द्रमा और चार सूर्य हैं तथा धातकी खण्ड में वारह चन्द्रमा और वारह सूर्य हैं ॥ ७७ ॥ और इन को तिगुणा करने से कच्चीस होते हैं उन के साथ दो जम्बूद्वीप के और चार लवण समुद्र के मिल कर व्यालीस चन्द्रमा और व्यालीस सूर्य कालोदधि समुद्र में हैं इसी प्रकार अगले २ द्वीप और समुद्री में पूर्वोक्त व्यालीस को तिगुणा करें तो एक सौ कच्चीस होते हैं उन में धात की खण्ड के वारह लवण समुद्र के ४ चार और जंबूद्वीप के जो २ दो इसी रीति से निकाल कर १४४ एक सौ चवालीस चन्द्र और १४४ सूर्य पुष्करद्वीप में हैं वह भी आधे मनुष्य क्षेत्र की गणना है परन्तु जहां तक मनुष्य नहीं रहते हैं वहां बहुत से सूर्य और बहुत से चन्द्र हैं और जो पिक्किले अर्ध पुष्करद्वीप में बहुत चन्द्र और सूर्य हैं वे स्थिर हैं पूर्वोक्त एकसौ चवालीस को तिगुणा करने से ४३२ और उन में पूर्वोक्त जंबूद्वीप के दो चन्द्रमा, दो सूर्य, चार २ लवण समुद्र के और वारह २ धातकी खण्ड के और व्यालीस कालोदधि के मिलाने से ४६२ चन्द्र तथा ४६२ सूर्य पुष्कर समुद्र में हैं ये सब बातें श्रीजिनभद्रगणौजमाश्रमण ने बड़ी "संघयणी में" तथा "योतीसकरण्डक पयन्ना" मध्ये और "चन्द्रपन्नति" तथा "सूर्यपन्नति" प्रमुखसिद्धान्त ग्रन्थों में इसी प्रकार कहा है (समी जक) अब सुनिये ! भूगोल खगोल के जानने वालो ! इस एक भूगोल में एक प्रकार ४६२ चारसौ बानवे और दूसरी प्रकार असंख्य चन्द्र और सूर्य जैनी लोग मानते हैं ! आप लोगों का बड़ी भाग्य है कि वेदमतानुयायी सूर्यसिद्धान्तादि ज्योतिष् ग्रंथों के अध्ययन से ठीकर भूगोल खगोल विदित हुए जो कहीं जैन के महाअन्धेर में होते तो जन्म भर अन्धेर में रहते जैसे कि जैनी लोग आज कल हैं इन अविद्वानों को यह शंका हुई कि जंबूद्वीप में एक सूर्य और एक चन्द्र से काम नहीं चलता क्योंकि इतनी बड़ी पृथिवियों की तीस घड़ी में चन्द्र सूर्य कैसे आ सकें क्योंकि पृथिवी की ये लोग सूर्यादि से भी बड़ी मानते हैं यही इन की बड़ी भूल है ॥

दो सति दो रवि यंती एगंतरियाछ सठिसंवाया ।
मेरुपयाहिएंता । माणुसखित्ते परिअडंति ॥
प्रकरण० भा० ४ । संग्रह सू० ॥ ७९ ॥

मनुष्य लोक में चन्द्रमा और सूर्य की पंक्ति की संख्या कहते हैं दो चन्द्रमा और दो सूर्य की पंक्ति (अणी) हैं एक २ लाख योजन अर्थात् चारलाख कोश के आन्तर से चलते हैं, जैसे सूर्य की पंक्ति के आंतरे एक पंक्ति चन्द्रकी है इसी प्रकार चंद्रमा की पंक्ति के आंतरे सूर्य की पंक्ति हैं, इसी रीति से चार पंक्ति हैं वे एक २ चन्द्रपंक्ति में ६६ चन्द्रमा और एक २ सूर्यपंक्ति में ६६ सूर्य हैं वे चारों पंक्ति जंबू-द्वीप के मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करती हुई मनुष्यक्षेत्र में परिभ्रमण करती हैं अर्थात् जिस समय जंबूद्वीप के मेरु से एक सूर्य दक्षिण दिशा में विहरता उस समय दूसरा सूर्य उत्तर दिशा में फिरता है, वैसे ही लवण समुद्र की एक २ दिशा में दो २ चलते फिरते घातकी जख्ख के ६, कालोदधि के २१, पुष्करार्ध के ३६, इस प्रकार सब मिला कर ६६ सूर्य दक्षिण दिशा और ६६ सूर्य उत्तर दिशा में अपने-२ क्रम से फिरते हैं । और जब इन दोनों दिशा के सब सूर्य मिनाये जायें तो १३२ सूर्य और ऐसे ही बासठ २ चन्द्रमा की दोनों दिशाओं की पंक्तियां मिलाई जायें तो १३२ चंद्रमा मनुष्यलोक में चाल चलते हैं । इसी प्रकार चंद्रमा के साथ नक्षत्रादि की भी पंक्तियां बहुतसी जाननी (समीचक) अब देखो भाई! इस भूगोल में १३२ सूर्य और १३२ चंद्रमा जैनियों के घर पर तपते होंगे भला जो तपते होंगे तो वे जीते कैसे हैं? और रात्रि में भी शीत के मार जैनी लोग जकड़ जाते होंगे? ऐसी अलम्भव बात में भूगोल खगोल के न जानने वाले फसते हैं अन्य नहीं । जब एक सूर्य इस भूगोल के सट्टग अन्य अनेक भूगोलों को प्रकाशता है तब इस कोटे से भूगोल की क्या कथा कहनी ? और जो पृथिवी न घूमे और सूर्य पृथिवी के चारों ओर न घूमे तो कै एक वर्षों का दिन और रात होवे । और सुमेरु विना हिमालय के दूसरा कोई नहीं यह सूर्य के सामने ऐसा है कि जैसे बड़े के सामने राई का दाना भी नहीं इन बातों को जैनी लोग जब तक उसी मत में रहेंगे तो तब तक नहीं जान सकने किन्तु सदा अंधेर में रहेंगे :—

सप्तचरण सहियासव्वंलोगं फुसे निरवसेसं ।

सत्तयचउदसभाए पंचयसुपदेसविरईए ॥

प्रकरण० भा० ४ । संग्रह सू० १३५ ॥

सत्यक्षारिज सहित ली केवली वे केवल समुद्रघात अबस्या से सय चौदस राज्यलोक अपने आत्मप्रदेश करके फिरेंगे ॥ (समीचक) जैनी लोग १४ चौदह

राज्य मानते हैं उन में से चौदहवें की शिखा पर सर्वार्थसिद्धि विमान की ध्वजा से ऊपर थोड़े दूर पर सिद्धशिला तथा दिव्य आकाश को शिवपुर कहते हैं उस में केवली अर्थात् जिन को केवलज्ञान सर्वज्ञता और पूर्ण पवित्रता प्राप्त हुई है वे उस लोक में जाते हैं और अपने आत्मप्रदेश से सर्वज्ञ रहते हैं। जिस का प्रदेश होता है वह विभू नहीं, जो विभू नहीं वह सर्वज्ञ केवलज्ञानी कभी नहीं हो सकता क्योंकि जिस का आत्मा एकदेशी है वही जाता आता और वह, मुक्त ज्ञानी, अज्ञानी, होता है सर्वव्यापी सर्वज्ञ वैसा कभी नहीं हो सकता जो जैनियों के तीर्थ-कर जीवरूप अल्प अल्पज्ञ हो कर स्थित थे वे सर्वव्यापक सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकते किन्तु जो परमात्मा अनाद्यनन्त, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, पवित्र, ज्ञानस्वरूप, है उस को जैनी लोग मानते नहीं कि जिस में सर्वज्ञादि गुण याथातथ्य घटते हैं ॥

गर्भनरति पलियाऊ । तिगाउ उक्कोसते जहन्नेणं ।

मुच्छिम दुहावि अन्तमुहु । अङ्गुल असंख भागतणू ॥ २१ ॥

अर्थ—यहां मनुष्य दो प्रकार के हैं, एक गर्भज दूसरे जो गर्भ के बिना उत्पन्न हुए उन में गर्भज मनुष्य का उत्कृष्ट तीन पल्योपम का आयु जानना और तीन कोश का शरीर ! (समीचक) भला तीन पल्योपम का आयु और तीन कोश के शरीर वाले मनुष्य इस भूगोल में बहुत थोड़े समा सकें और फिर तीन पल्योपम की आयु जैसा कि पूर्व लिख आये हैं उतने समय तक जीवें तो वैसे ही उन के सन्तान भी तीन कोश के शरीर वाले होने चाहिये जैसे "मुखई" से शहर में दो और कलकत्ता ऐसे शहर में तीन वा चार मनुष्य निवास कर सकते हैं जो ऐसा है तो जैनियों ने एक नगर में लाखों मनुष्य लिखे हैं तो उन के रहने का नगर भी लाखों कोशों का चाहिये तो सब भूगोल में वैसा एक नगर भी न बस सके ॥

पणया ललरकयोयण । विरकंभा सिद्धिसिल फलिहविमला ।

तदुवरि गजोयणंते लोगन्तो तच्छ सिद्धिठिई ॥ २५८ ॥

जो सर्वार्थ सिद्धि विमान की ध्वजा से ऊपर १२ योजन सिद्धसिला है वह वाटला और लंथा बेपन और पोत्तपन में ४५ पैतालीस लाख योजन प्रमाण है वह सब धवला अर्जुन सुवर्णमय स्फटिक के समान निर्मल सिद्धसिला की सिद्ध भूमि है इस को कोई "ईषत्" "प्राग्भरा" ऐसा नाम कहते हैं यह सर्वार्थ सिद्ध शिला विमान से १२ योजन अलोक भी है यह परमार्थ केवली युत जानता है यह सिद्धशिला सर्वार्थ मध्यभाग में ८ योजन स्थूल है वहां से ४ दिशा और ३ उपदिशा में घटती २ मखी के पांख के सदृश पतली उत्तानकृत्त और आकार करके सिद्धशिला की स्थापना है उस शिला से ऊपर १ एक योजन के आन्तर

लाख त्रेपन हजार और कःसी कोड़ा कोड़ी” इतनी वाटका घन योजन पलोपम में सर्व स्थूल रोम खण्ड की संख्या होवे यह भी संख्यात काल होता है पूर्वाक्त एक लोम खण्ड के असंख्यात खण्ड मन से कल्पे तब असंख्यात सूक्ष्म रोमाण होवें ! (समीचक)—अब देखिये ! इनकी गिनती की रीति एकअंगुल प्रमाण लोम के कितने खण्ड किये यह कभी किसी गिनती में आसकते हैं ? और उस के उपरान्त मन से असंख्य खण्ड कल्पते हैं इस से यह भी सिद्ध होता है कि पूर्वाक्त खण्ड हाथ से किये होंगे जब हाथ से न हो सके तब मन से किये भला यह बात कभी संभव हो सकती है कि एक अङ्गुल रोम के असंख्य खण्ड हो सके ? ॥

जंबूदीपप्रमाणं गुलजोयाएलरक वट्टविरकंभी ।

लवणाईयासेसा । बलया भादुगुणदुगुणाय ॥

प्रकरणर० भा० ४ । लघुक्षेत्रसमा० सू० ॥ १२ ॥

प्रथम जंबूदीप का लाख योजन का प्रमाण और पोला है और बाकी लवणादि सात समुद्र, सात द्वीप, जंबूदीप के प्रमाण से दुगुणे २ हैं इस एक पृथिवी में जंबूदीपादि सात द्वीप और सात समुद्र हैं, जैसे कि पूर्व लिख आये हैं ॥ १२ ॥ (समीचक)—अब जंबूदीप से दूसरा द्वीप दो लाख योजन, तीसरा चार लाख योजन, चौथा आठ लाख योजन, पांचवां सोलह लाख योजन, ऋठा बत्तीस लाख योजन और सातवां चौसठ लाख योजन और उतने प्रमाण वा उन से अधिक समुद्र के प्रमाण से इस पन्द्रह सहस्र परिधि वाले भूगोल में क्यों कर समा सकते हैं ? इस से यह बात केवल मिथ्या है ॥

कुरुनड्चुलसी सहसा । छच्चेवन्तरनई उपइ विजयं ।

दोद महानईउ । चनुदस सहसा उपत्तेयं ॥

प्रकरणरत्ना० भा० ४ । लघुक्षेत्र समा सू० ॥ ६३ ॥

कुरुक्षेत्र में ८४ चौरासी सहस्र नदी हैं ॥ ६३ ॥ (समीचक) भला कुरुक्षेत्र बहुत छोटा देश है उस को न देख कर एक मिथ्या बात लिखने में इन की सजा भी न आई ॥

यामुत्तरा उताउ । इगेग सिंहासणाउ अइपुव्वं । चउसु
वितास नियासण, दिसिभवजिए मज्जणं होई ॥ प्रकरण-
रत्नाकर भा० ४ । लघुक्षेत्रसमा० सू० ॥ ११९ ॥

उस शिला के विग्रह दक्षिण और उत्तर दिशा में एक २ सिंहासन जानना चाहिये । उन शिलारथों के नाम दक्षिण दिशा में अतिपाण्डुकम्बला, उत्तर दिशा में अतिरक्तकम्बला शिला है उन सिंहासनों पर तीर्थंकर बैठते हैं ॥ ११६ ॥

(समीक्षक)-देखिये। इन के तीर्थंकरों के ज्योत्स्वादि करने की शिला को ऐसी ही मुक्ति की सिद्धशिला है ऐसी इन की बहुत सी बातें गोलमाल हैं, कहां तक लिखें, किन्तु जल छान के पीना, और सूक्ष्म जीवों पर नाममात्र दया करना, रात्रि को भोजन न करना ये तीन बातें अच्छी हैं बाकी जितना इन का कथन है सब असम्भवग्रस्त है इतने ही लेख से बुद्धिमान् लोग बहुतसा ज्ञान लेंगे थोड़ा सा यह दृष्टान्तमात्र लिखा है जो इन की असम्भव बातें सब लिखें तो इतने पुस्तक हो जायें कि एक पुरुष आयु भर में पढ़ें भी न सके इस लिये जैसे एक हंडे में चुड़ते चावलों में से एक चावल को परीक्षा करने से काड़े वा पकें हैं सब चावल बिदित हो जाते हैं ऐसे ही इस थोड़े से लेख से सज्जन लोग बहुतसी बातें समझ लेंगे बुद्धिमानों के सामने बहुत लिखना आवश्यक नहीं क्योंकि दिग्दर्शनवत् संपूर्ण आशय को बुद्धिमान् लोग जान ही लेते हैं इस के आगे ईसाइयों के मत के विषय में लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्वयानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविभूषिते नास्तिकमतान्तर्गतचार्वाक-

बौद्धजैनमतखंडनमंडनविषये द्वादशः

समुद्भासः सम्पूर्णः ॥ १२ ॥

अनुभूमिका (३)

—:—

जो वह बाइबल का मत है वह केवल ईसाइयों का है सो नहीं किन्तु इस से यहूदी आदि भी गृहीत होते हैं जो यहाँ (१३) तेरहवें समुदास में ईसाई मत के विषय में लिखा है इस का यही अभिप्राय है कि, आज कल बाइबल के मत में ईसाई मुख्य हो रहे हैं और यहूदी आदि गौण हैं मुख्य के ग्रहण से गौण का ग्रहण हो जाना है, इस से यहूदियों का भी ग्रहण समझ लीजिये इन का जो विषय यहाँ लिखा है सो केवल बाइबल में से कि जिस को ईसाई और यहूदी आदि सब मानते हैं और इसी पुस्तक को अपने धर्म का मूलकारण समझते हैं। इस पुस्तक के भाषान्तर बहुत से हुए हैं जो कि इन के मत में बड़े २ पादरी हैं उन्हीं ने किये हैं। उन में से देवनागरी वा संस्कृत भाषान्तर देख कर मुझ को बाइबल में बहुत सी शंका हुई है उन में से कुछ थोड़ी सी इस १३ तेरहवें समुदास में सब के विचारार्थ लिखी है यह लेख केवल सत्य की हृष्टि और असत्य के ह्रास होने के लिये है न कि किसी को दुःख देने वा हानि करने अथवा मिथ्या दोषलगाने के अर्थ है। इस का अभिप्राय उक्त लेख में सब कोई समझ लेंगे कि यह पुस्तक कैसा है ? और इन का मत भी कैसा है ? इस लेख से यही प्रयोजन है कि सब मनुष्यमात्र को देखना, सुनना, लिखना आदि करना सहज होगा और पक्षी, प्रतिपक्षी हो के विचार कर, ईसाई मत का आन्दोलन सब कोई कर सकेंगे इस से एक यह प्रयोजन सिद्ध होगा कि मनुष्यों को धर्मविषयक ज्ञान बढ़ कर यथा-योग्य सत्यासत्यमत और कर्त्तव्याकर्त्तव्य कर्म सम्बन्धी विषय विदित हो कर सत्य और कर्त्तव्य कर्म का स्वीकार, असत्य और अकर्त्तव्य कर्म का परित्याग करना सहजता से हो सकेगा। सब मनुष्यों को उचित है कि सब के मतविषयक पुस्तकों को देख सप्रभ कर कुछ सम्मति वा असम्मति देवे वा लिखें, नहीं तो सुना करे क्योंकि जैसे पढ़ने से पण्डित होता है वैसे सुनने से बहुच्युत होता है। यदि थोटा दूसरे को नहीं समझा सके तथापि आप स्वयं तो समझ सा जाता है जो कोई पक्षपातरूप यानारूढ़ हो के देखते हैं उन को न अपने और न पराये गुण

दोप विदित है। स मते हैं। मनुष्य का आत्मा यथायोग्य सत्याऽसत्य के निर्णय करने का सामर्थ्य रखता है जितना अपना पठित वा श्रुत है उतना नियम कर सकता है यदि एक मत वाले दूसरे मत वाले के विषयों को जानें और अन्य न जानें तो यथावत् संवाद नहीं हो सकता किन्तु अज्ञानी किसी भ्रमरूप बाड़े में गिर जाते हैं ऐसा न हो इस लिये इस घंघ में प्रचरित सब मतों का विषय घोड़ा २ निष्ठा है इतने ही से शेष विषयों में अनुमान कर सकता है कि वे सच्चे हैं वा झूठे ? जो २ सर्वमान्य सत्य विषय हैं वे तो सब में एक से हैं भगवां झूठे विषयों में होता है। अथवा एक सच्चा और दूसरा झूठा हो तो भी झूठ, घोड़ा सी विवाद चलता है। यदि वादीप्रतिवादी सत्याऽसत्य नियम के लिये वादप्रतिवाद करें तो अवश्य नियम हो जाय। अब मैं प्रस १३वें समुदास में ईसाईमतविषयक घोड़ा सा लिख कर सब के सम्मुख स्थापित करता हूँ विश्वास्तिये कि कौसा है ॥

अलमतिलेखनेन त्रिचक्षणवरेषु ॥

अनुभूमिका (३)

जो यह बाइबल का मत है वह केवल ईसाइयों का है सो नहीं किन्तु इस से यहूदी आदि भी गृहीत होते हैं जो यहां (१३) तैरहवें समुदास में ईसाई मत के विषय में लिखा है इस का यही अभिप्राय है कि, आज कल बाइबल के मत में ईसाई मुख्य हो रहे हैं और यहूदी आदि गौण हैं मुख्य के ग्रहण से गौण का ग्रहण हो जाता है, इस से यहूदियों का भी ग्रहण समझ लीजिये इन का जो विषय यहां लिखा है सो केवल बाइबल में से कि जिस को ईसाई और यहूदी आदि सब मानते हैं और इसी पुस्तक को अपने धर्म का मूलकारण समझते हैं। इस पुस्तक के भाषान्तर बहुत से हुए हैं जो कि इन के मत में बड़े २ पादरी हैं उन्हीं ने लिखे हैं। उन में से देवनागरी वा संस्कृत भाषान्तर देख कर सुभ को बाइबल में बहुत सी अंका छुट्टे हैं उन में से कुछ थोड़ी सी इस १३ तैरवें समुदास में सब के विचारार्थ लिखी हैं यह लेख केवल सत्य की वृद्धि और असत्य के ह्रास होने के लिये है न कि किसी को दुःख देने वा हानि करने अथवा मिथ्या दोष लगाने के अर्थ है। इस का अभिप्राय उत्तर लेख में सब कोई समझ लेंगे कि यह पुस्तक कैसा है ? और इन का मत भी कैसा है ? इस लेख से यही प्रयोजन है कि सब मनुष्यमात्र को देखना, सुनना, लिखना आदि करना सहज होगा और पक्षी, प्रतिपक्षी हो के विचार कर, ईसाई मत का आन्दोलन सब कोई कर सकेंगे इस से एक यह प्रयोजन सिद्ध होगा कि मनुष्यों को धर्मविषयक ज्ञान बढ़ कर यथा-योग्य सत्यासत्यमत और कर्त्तव्याकर्त्तव्य कर्म सम्बन्धी विषय विदित हो कर सत्य और कर्त्तव्य कर्म का स्वीकार, असत्य और अकर्त्तव्य कर्म का परित्याग करना सहजता से हो सकेगा। सब मनुष्यों को उचित है कि सब के मतविषयक पुस्तकों को देख समझ कर कुछ सम्मति वा असम्मति दें वा लिखें, नहीं तो सुना करें क्योंकि जैसे पढ़ने से परिष्ठित होता है वैसे सुनने से बहुश्रुत होता है। यदि थोटा दूसरे को नहीं समझा सके तथापि आप स्वयं तो समझ सा जाता है जो कोई पक्षपातरूप यानाहूद हो के देखते हैं उन को न अपने और न पराये गुण

(समीचक) वह साकार है वा निराकार तथा व्यापक है वा एकदेशी ? (ईसाई) निराकार चेतन और व्यापक है परन्तु किसी एक सनाई पर्वत चौथा आसमान आदि स्थानों में विभेद करके रहता है । (समीचक) जो निराकार है तो उस को किस ने देखा और व्यापक का जल पर डोलना कभी नहीं हो सकता भया जब ईश्वर का आत्मा जल पर डोलता था तब ईश्वर कहाँ था ? । इस से यही सिद्ध होता है कि ईश्वर का शरीर कहीं अन्यत्र स्थित होगा अथवा अपने कुछ आत्मा के एक टुकड़े को जल पर डुलाया होगा जो ऐसा है तो विभु और सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता जो विभु नहीं तो जगत् की रचना, धारण, पालन, और जीवों के कर्मों की व्यवस्था वा प्रलय कभी नहीं कर सकता क्यों कि जिस पदार्थ का स्वरूप एकदेशी है उस के गुण कर्म स्वभाव भी एकदेशी होते हैं जो ऐसा है तो वह ईश्वर नहीं हो सकता क्यों कि ईश्वर सर्वव्यापक, अनन्त गुण कर्म स्वभाव युक्त, सच्चिदानन्दस्वरूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव अनादि अनन्तादि लक्षणयुक्त वेदों में कहा है उसी को मानो तभी तुम्हारा कल्याण होगा अन्यथा नहीं ॥ १ ॥

२—और ईश्वर ने कहा कि उलियाला होवे और उलियाला हो गया ॥ और ईश्वर ने उलियाले को देखा कि अच्छा है । पर्व १ । आ० ३ । ४ ॥

समीचक—क्या ईश्वर की बात जड़रूप उलियाले ने सुन ली? जो सुनी हो तो इस समय भी सूर्य और दीप अग्नि का प्रकाश हमारी तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनता ? प्रकाश जड़ होता है वह कभी किसी की बात नहीं सुन सकता क्या जब ईश्वर ने उलियाले को देखा तभी जाना कि उलियाला अच्छा है ? पहिले नहीं जानता था ? जो जानता होता तो देख कर अच्छा क्यों कहता ? जो नहीं जानता था तो वह ईश्वर ही नहीं इसी लिये तुम्हारी वाश्वल ईश्वरोक्त और उस में कहा हुआ ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है ॥ २ ॥

३—और ईश्वर ने कहा कि पानियों के मध्य में आकाश होवे और पानियों को पानियों से विभाग करे तब ईश्वर ने आकाश को बनाया और आकाश के नीचे के पानियों को आकाश के ऊपर के पानियों से विभाग किया और ऐसा हो गया । और ईश्वर ने आकाश को स्वर्ग कहा और सांभ और विशान दूसरा दिन हुआ ॥ पर्व १ । आ० ६ । ७ । ८ ॥

समीचक—क्या आकाश और जल ने भी ईश्वर की बात सुन ली ? और जो जल के बीच में आकाश न होता तो जल रहताही कहाँ ? प्रथम वायव में आकाश को गवा था पुनः आकाश का बनाना व्यर्थ हुआ । जो आकाश को स्वर्ग कहा तो वह सर्वव्यापक है इस लिये सर्वत्र स्वर्ग हुआ फिर ऊपर को स्वर्ग है यह कहना व्यर्थ है । जब सूर्य उत्पन्न हो नहीं हुआ था तो पुनः दिन और रात कहाँ से हो गई ऐसी ही असंभव बातें आगे की आयतों में भरी हैं ॥ ३ ॥

अथ त्रयोदशसमुह्लासारम्भः ॥

अथ कश्चीनमतविषयं समीक्ष्यामः ॥

अब इस के आगे इसाइयों के मतविषय में लिखते हैं, जिस से सब को विदित हो जाय कि इन का मत निर्दोष और इन की वाइबल पुस्तक ईश्वरकृत है वा नहीं ? प्रथम वाइबल के त्थोरेत का विषय लिखा जाता है—

१—आरम्भ में ईश्वर ने आकाश और पृथिवी को सृजा ॥ और पृथिवी बेडौल और चूनी थी । और गहिराव पर अभियारा था और ईश्वर का आत्मा जल के ऊपर डोलता था । पर्व १ आय० १ । २ ॥

समीक्षक—आरम्भ किस को कहते हो ? (ईसाई) सृष्टि के प्रथमोत्पत्ति को । (समीक्षक) क्या यही सृष्टि प्रथम हुई इस के पूर्व कभी नहीं हुई थी ? (ईसाई) हम नहीं जानते हुई थी वा नहीं ईश्वर जाने । (समीक्षक) जब नहीं जानते तो इस पुस्तक पर विश्वास क्यों किया ? क्योंकि जिस से सन्देह का निवारण नहीं हो सकता और इसी के भरोसे लोगों को उपदेश कर इस संदेह के भरे हुए मत में क्यों फसाते हो ? और निःसंदेह सर्वशंकानिवारक वेदमत को स्वीकार क्यों नहीं करते ? जब तुम ईश्वर की सृष्टि का हाल नहीं जानते तो ईश्वर को कैसे जानते हागे ? आकाश किस को मानते हो ? (ईसाई) पोल और ऊपर को ? (समीक्षक) पोल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई क्योंकि यह विभु पदार्थ और अतिसूक्ष्म है और ऊपर नीचे एकसा है । जब आकाश नहीं सृजा था तब पोल और आकाश था वा नहीं ? जो नहीं था तो ईश्वर जगत् का कारण और जीव कहां रहते थे ? विना अक्काश के कोई पदार्थ स्थित नहीं हो सकता इस लिये तुम्हारी वाइबल का कथन युक्त नहीं । ईश्वर बेडौल उस का भ्रान कर्म बेडौल होता है वा सब डोल वाला । (ईसाई) डोल वाला होता है । (समीक्षक) तो यहां ईश्वर की बनाई पृथिवी बेडौल थी ऐसा क्यों लिखा ? (ईसाई) बेडौल का अर्थ यह है कि जंची नीची थी बराबर नहीं थी । (समीक्षक) फिर बराबर किस ने की ? और क्या अब भी जंची नीची नहीं है ? इस लिये ईश्वर का काम बेडौल नहीं हो सकता, क्योंकि वह सर्वज्ञ है, उस के काम में न भूल, न चूक कभी हो सकती है । और वाइबल में ईश्वर की सृष्टि बेडौल लिखी इस लिये यह पुस्तक ईश्वरकृत नहीं हो सकता है । प्रथम ईश्वर का आत्मा क्या पदार्थ है ? । (ईसाई) चेतन

(समीक्षक) वह साकार है वा निराकार तथा व्यापक है वा एकदेशी ? (ईसाई) निराकार चेतन और व्यापक है परन्तु किसी एक सनाई पर्वत चौथा आसमान आदि स्थानों में विशेष करके रहता है । (समीक्षक) जो निराकार है तो उस को किस ने देखा और व्यापक का जगत् पर डोलना कभी नहीं हो सकता भला जब ईश्वर का आत्मा जल पर डोलता था तब ईश्वर कहाँ था ? । इस से यही सिद्ध होता है कि ईश्वर का शरीर कहीं अन्यत्र स्थित होगा अथवा अपने कुछ आत्मा के एक टुकड़े को जल पर डुलाया होगा जो ऐसा है तो विभु और सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता जो विभु नहीं तो जगत् की रचना, धारण, पालन, और जीवों के कर्मों की व्यवस्था वा प्रलय कभी नहीं कर सकता क्यों कि जिस पदार्थ का स्वरूप एकदेशी है उस के गुण कर्म स्वभाव भी एकदेशी होते हैं जो ऐसा है तो वह ईश्वर नहीं हो सकता क्यों कि ईश्वर सर्वव्यापक, अनन्त गुण कर्म स्वभाव युक्त, सच्चिदानन्दस्वरूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुक्तस्वभाव अनादि अनन्तादि लक्षणयुक्त वेदों में कहा है उसी को मानो तभी तुम्हारा कल्याण होगा अन्यथा नहीं ॥ १ ॥

२—और ईश्वर ने कहा कि उजियाला होवे और उजियाला हो गया ॥ और ईश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है । पर्व १ । आ० ३ । ४ ॥

समीक्षक—क्या ईश्वर की बात जड़रूप उजियाले ने सुन ली ? जो सुनी है तो इस समय भी सूर्य और दीप अग्नि का प्रकाश हमारे तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनता ? प्रकाश जड़ होता है वह कभी किसी की बात नहीं सुन सकता क्या जब ईश्वर ने उजियाले को देखा तभी जाना कि उजियाला अच्छा है ? पहिले नहीं जानता था ? जो जानता होता तो देख कर अच्छा क्यों कहता ? जो नहीं जानता था तो वह ईश्वर ही नहीं इसी लिये तुम्हारी वाग्दत्त ईश्वरों और उस में कहा हुआ ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है ॥ २ ॥

३—और ईश्वर ने कहा कि पानियों के मध्य में आकाश होवे और पानियों को पानियों से विभाग करे तब ईश्वर ने आकाश को बनाया और आकाश के नीचे के पानियों को आकाश के ऊपर के पानियों से विभाग किया और ऐसा हो गया । और ईश्वर ने आकाश को स्वर्ग कहा और सांभ और दिवान दूमरा दिन हुआ ॥ पर्व १ । आ० ६ । ७ । ८ ॥

समीक्षक—क्या आकाश और जल ने भी ईश्वर की बात सुन ली ? और जो जल के बीच में आकाश बन जाता तो जल रहताही कहाँ ? प्रथम पायत में आकाश को सजा था पुनः आकाश का बनाना व्यर्थ हुआ । जो आकाश को स्वर्ग कहा तो वह सर्वव्यापक है इस लिये सर्वत्र स्वर्ग हुआ फिर ऊपर को स्वर्ग है यह कहना व्यर्थ है । जब मूर्ख उत्पन्न ही नहीं हुआ था तो पुनः दिन और रात कहाँ से हो गई ऐसी ही असंभव बातें आगे की पायतों में भरो हैं ॥ ३ ॥

४—तब ईश्वर ने कहा कि हम आदम को अपने स्वरूप में अपने समान बनावे ॥ तब ईश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उसे ईश्वर के स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उन्हें नर और नारी बनाया ॥ और ईश्वर ने उन्हें आशीष दिया ॥ पर्व १ ॥ आ० २६ । २७ । २८ ।

समीचक—यदि आदम को ईश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया तो ईश्वर का स्वरूप पवित्र, ज्ञानस्वरूप, आनन्दमय, आदि लक्षणयुक्त है उस के सदृश आदम क्यों नहीं हुआ ? जो नहीं हुआ तो उस के स्वरूप में नहीं बना और आदम को उत्पन्न किया तो ईश्वर ने अपने स्वरूप ही को उत्पत्तिवाला किया पुनः वह अनित्य क्यों नहीं ? और आदम को उत्पन्न कहां से किया ? (ईसाई) मट्टी से बनाया । (समीचक) मट्टी कहां से बनाई ? (ईसाई) अपनी कुदरत अर्थात् सामर्थ्य से । (समीचक) ईश्वर का सामर्थ्य अनादि है वा नवीन ? (ईसाई) अनादि है । (समीचक) जब अनादि है तो जगत् का कारण सनातन हुआ फिर अभाव से भाव क्यों मानते हो ? (ईसाई) सृष्टि के पूर्व ईश्वर के विना कोई वस्तु नहीं था । (समीचक) जो नहीं था तो यह जगत् कहां से बना ? और ईश्वर का सामर्थ्य द्रव्य है वा गुण ? जो द्रव्य है तो ईश्वर से भिन्न दूसरा पदार्थ था और जो गुण है तो गुण से द्रव्य कभी नहीं बन सकता जैसे रूप से अग्नि और रस से जल नहीं बन सकता और जो ईश्वर से जगत् बना होता तो ईश्वर के सदृश गुण कर्म स्वभाव वाला होता उस के गुण कर्म स्वभाव के सदृश न होना से यही निश्चय है कि ईश्वर से नहीं बना किन्तु जगत् के कारण अर्थात् परमाणु आदि नाम वाले जड़ से बना है जैसी कि जगत् की उत्पत्ति वेदादि शास्त्रों में लिखी है मान लो जिस से ईश्वर जगत् को बनाता है जो आदम के भीतर स्वरूप जीव और बाहर का मनुष्य के सदृश है तो वैसा ईश्वर का स्वरूप क्यों नहीं ? क्योंकि जब आदम ईश्वर के सदृश बना तो ईश्वर आदम के सदृश अवश्य होना चाहिये ॥ ४ ॥

५—तब परमेश्वर ईश्वर ने भूमि की धूल से आदम को बनाया और उस के नथुनों में जीवन का श्वास फूँका और आदम जीवता प्राण हुआ ॥ और परमेश्वर ईश्वर ने अदन में पूर्व की ओर एक बारी लगाई और आदम को जिसे उस ने बनाया था उस में रक्खा ॥ और उस बारी के मध्य में जीवन का पेड़ और भले बुरे के ज्ञान का पेड़ भूमि से उगाया । पर्व० २ आ० ७ । ८ । ९ ॥

समीचक—जब ईश्वर ने अदन में वाड़ी बना कर उस में आदम को रक्खा तब ईश्वर नहीं जानता था कि इस को पुनः यहां से निकालना पड़ेगा ? और जब ईश्वर ने आदम को धूली से बनाया तो ईश्वर का स्वरूप नहीं हुआ और जो है तो ईश्वर भी धूली से बना होगा ? जब उस के नथुनों में ईश्वर ने श्वास फूँका तो वह श्वास ईश्वर का स्वरूप था वा भिन्न ? जो भिन्न था तो आदम ईश्वर के

स्वरूप में नहीं बना जो एक है तो आदम और ईश्वर एक से हुए और जो एक से हैं तो आदम के सदृश जन्म, मरण, वृद्धि, क्षय, लुधा, लुपा, आदि दोष ईश्वर में आवे, फिर वह ईश्वर क्यों कर हो सकता है ? इस लिये यह तीरत की बात ठीक नहीं विदित होती और यह पुस्तक भी ईश्वरकृत नहीं है ॥ ५ ॥

६-और परमेश्वर ईश्वर ने आदम को वही नींद में डाला और वह सो गया तब उस ने उस की पसलियों में से एक पसली निकाली और उस की सन्ति मांस भर दिया ॥ और परमेश्वर ने आदम की उस पसली से एक नारी बनाई और उसे आदम के पास लाया ॥ पर्व० २ । आ० २१ । २२ ॥

समोचक--जो ईश्वर ने आदम को धनी से बनाया तो उस की स्त्री को धनी से क्यों नहीं बनाया ? और जो नारी को हड्डी से बनाया तो आदम को हड्डी में क्यों नहीं बनाया ? और जैसे नर से निकलने से नारी न.म हुआ तो नारी से नर नाम भी होना चाहिये और उन में परस्पर प्रेम भी रहे जैसे स्त्री के साथ पुरुष प्रेम करे वैसे पुरुष के साथ स्त्री भी प्रेम करे । देखो विद्वान् लोगो ! ईश्वर को कैसी पदार्थ विद्या अर्थात् " फिनासफी " चिलकती है ! जो आदम की एक पसली निकाल कर नारी बनाई तो सब मनुष्यों की एक पसली कम क्यों नहीं जाती ? और स्त्री के शरीर में एक पसली जानी चाहिये क्योंकि वह एक पसली से बनी है क्या जिस सामग्री से सब जगत् बनाया उस सामग्री से स्त्री का शरीर नहीं बन सकता था ? इस लिये यह बाइबल का सृष्टिक्रम सृष्टिविद्या से विरुद्ध है ॥ ६ ॥

७--शव सर्प भूमि के हर एक पशु से जिसे परमेश्वर ईश्वर ने बनाया था धर्त था और उस ने स्त्री से कहा क्या निश्चय ईश्वर ने कहा है कि तुम इस वारी के हर एक पेड़ से न खाना ? और स्त्री ने सर्प से कहा कि हम तो इस वारी के पेड़ों का फल खाते हैं । परन्तु उस पेड़ का फल जो वारी के बीच में है ईश्वर ने कहा कि तुम उसे न खाना और न छूना न हो कि मर जाओ ॥ तब सर्प ने स्त्री से कहा कि तुम निश्चय न मरोगे । क्योंकि ईश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आँखें खुल जायेंगी और तुम भले और बुद्धि की पहचान में ईश्वर के समान हो जाओगे । और जब स्त्री ने देखा कि कुछ पेड़ खाने में सुखाद और वृद्धि में सुन्दर और बुद्धि देने के योग्य है तो उस के फल में से लिया और खाया और अपने पती को भी दिया और उस ने खाया ॥ तब उन दोनों की आँखें खुल गइं और वे जान गये हम नंगे हैं सो उन्होंने ने अल्वोर के पत्तों की मिला के सिंघा और अपने लिये ओढ़ना बनाया ॥ तब परमेश्वर ईश्वर ने सर्प से कहा कि जो तू ने यह किया है इस कारण तू सारे टोर और हर एक घन के पशु में अधिक खादित होगा तू अपने पेट के बल चलेगा और अपने जोवन भर पून खाया

करेगा ॥ और मैं तुम्ह में और स्त्री में और तेरे बंग और उस के बंग में बैर डालूंगा वह तेरे गिर को कुचले गा और तू उस की एड़ी को काटेगा ॥ और उस ने स्त्री को कहा कि मैं तेरी पीड़ा और गर्भधारण को बहुत बढ़ाऊंगा तू पीड़ा से बालक जनेगी और तेरी इच्छा तेरे पती पर होगी और वह तुम्ह पर प्रभुता करेगा ॥ और उस ने आदम से कहा कि तू ने जो अपनी पत्नी का शब्द माना है और जिस पेड़ से मैं ने तुम्हें खाने को वर्जा था तू ने खाया है इस कारण भूमि तेरे लिये स्थापित है अपने जीवन भर तू उससे पीड़ा के साथ खाय गा ॥ और वह काटे और जंठ कटारे तेरे लिये उगायेगी और तू खेत का साग पात खायगा ॥ तौरत उत्पत्ति० पर्व ३ । आ० १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ । ७ । १४ । १५ । १६ । १७ । १८ ॥

समीक्षक—जो ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो इस धूर्त सर्प अर्थात् शैतान को क्यों बनाता ? और जो बनाया तो वही ईश्वर अपराध का भागी है क्योंकि जो वह उस को दुष्ट न बनाता तो वह दुष्टता क्यों करता ? और वह पूर्व जन्म नहीं मानता तो बिना अपराध उस को पापी क्यों बनाया ? और सच पूछो तो वह सर्प नहीं था किन्तु मनुष्य था क्यों कि जो मनुष्य न होता तो मनुष्य की भाषा क्यों कर बोल सकता ? और जो आप भूठा और दूसरे को भूठ में चलावे उस को शैतान कहना चाहिये सो यहां शैतान सत्यवादी और इस से उस ने उस स्त्री को नहीं बहकाया किन्तु सच कहा और ईश्वर ने आदम और हव्वा से भूठ कहा कि इस के खाने से तुम मर जाओगे जब वह पेड़ ज्ञानदाता और अमर करने वाला था तो उस के फल खाने से क्यों वर्जा ? और जो वर्जा तो वह ईश्वर भूठा और बहकाने वाला ठहरा । क्यों कि उस वृक्ष के फल मनुष्यों को ज्ञान और सुखकारक थे अज्ञान और मृत्युकारक नहीं, जब ईश्वर ने फल खाने से वर्जा तो उस वृक्ष की उत्पत्ति किस लिये की थी ? जो अपने लिये की तो क्या आप अज्ञानी और मृत्यु धर्म वाला था ? और जो दूसरों के लिये बनाया तो फल खाने में अपराध कुछ भी न हुआ और आज काल कोई भी वृक्ष ज्ञानकारक और मृत्युनिवारक देखने में नहीं आता क्या ईश्वर ने उस का बीज भी नष्ट कर दिया ? ऐसी बातों से मनुष्य छली कपटी होता है तो ईश्वर वैसा क्यों नहीं हुआ ? क्योंकि जो कोई दूसरे से छल कपट करेगा वह छली कपटी क्यों न होगा ? और जो इन तीनों को स्थाप दिया वह बिना अपराध से है पुनः वह ईश्वर अन्यायकारी भी हुआ और यह स्थाप ईश्वर को होना चाहिये क्योंकि वह भूठ बोला और उन को बहकाया यह "फिलासफी" देखो ! क्या बिना पीड़ा के गर्भधारण और बालक सकता था ? और बिना अम के कोई अपनी जीविका कर सकता काटे आदि के वृक्ष न थे ? और जब शाक पात खाना सब मनुष्यों

को ईश्वर के कहने से उचित हुआ तो वो उत्तर में मांस खाना वाइवल में लिखा वह भूठा क्यों नहीं ? और जो वह सधा ही तो यह भूठा है जब आदम का कुछ भी अपराध सिद्ध नहीं होता तो ईसाई लोग सब मनुष्यों को आदम के अपराध से क्षत्ताने होने पर अपराधी क्यों कहते हैं ? भना ऐसा पुस्तक और ऐसा ईश्वर कभी बुद्धिमानों के सामने योग्य हो सकता है ? ॥ ७ ॥

८—श्रीर परमेश्वर ईश्वर ने कहा कि देखो ! आदम भरो बुरे के जानने में हम में से एक को नाईं हुआ और अब ऐसा न होवे कि वह अपना हाथ डाले और जीवन के पेड़ में से भी ले कर खावे और अमर हो जाय सो उस ने आदम को निकाल दिया और अदन की बारी की पूर्व ओर करोवीम चमकते हुए खड़ग जो चारों ओर घूमते थे लिये हुए ठहराये जिन से जीवन के पेड़ के मार्ग की रख वाली करे ॥ पर्व ३ । आ० २२ । २४ ॥

समीक्षक-भला ! ईश्वर को ऐसी ईर्ष्या और भ्रम क्यों हुआ कि ज्ञान में हमारे तुल्य हुआ ? क्या यह बुरी बात हुई ? यह शंका ही क्यों पड़ी ? क्योंकि ईश्वर के तुल्य कभी कोई नहीं हो सकता परन्तु इस लेख से यह भी सिद्ध हो सकता है कि वह ईश्वर नहीं था किन्तु मनुष्य विशेष था वाइवल में जहाँ कहीं ईश्वर की बात आती है वहाँ मनुष्य के तुल्य ही लिखी आती है अब देखो ! आदम को ज्ञान की बढ़ती में ईश्वर कितना दुःखी हुआ, और फिर अमर वृक्ष के फल खाने में कितनी ईर्ष्या की, और प्रथम जब उस को बारी में रखा तब उस को भविष्यत् का ज्ञान नहीं था कि इस को पुनः निकालना पड़ेगा इस लिये ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं था और चमकते खड़ग का पछिरा रखा यह भी मनुष्य का काम है ईश्वर का नहीं ॥ ८ ॥

९—श्रीर कितने दिनों के पीछे था हुआ कि काइन भूमि के फलों में से परमेश्वर के लिये भेंट लाया ॥ और हावील भी अपनी भुंड ० में से पछिनीठी और मोटी २ भेड़ लाया और परमेश्वर ने हावील का और उस की भेंट का आदर किया परन्तु काइन का उस की भेंट का आदर न किया इस लिये काइन प्रति-कुपित हुआ और अपना मुंह फलाया ॥ तब परमेश्वर ने काइन से कहा कि तू क्यों क्रुद्ध है और तेरा मुंह क्यों फूल गया ॥ तीरे० । पर्व ४ । आ० ३ । ४ । ५ । ६ ॥

समीक्षक-यदि ईश्वर मांसाहारी न होता तो भेड़ की भेंट और हावील का सत्कार और काइन का तथा उस की भेंट का तिरस्कार क्यों करता ? और ऐसा भगड़ा लगाने और हावील के चतु का कारण भी ईश्वर ही हुआ और जैसे आपस में मनुष्य लोग एक दूसरे से बातें करने के वैसे ही ईसाइयों के ईश्वर की

वाते हैं। वगीचे में आना जाना उस का बनाना भी मनुष्यों का कर्म है इस से विदित होता है कि यह वाइवल मनुष्यों की बनाई है ईश्वर की नहीं ॥ ८ ॥

१०—जब परमेश्वर ने काइन से कहा तेरा भाई हाबिल कहां है और वह बोला मैं नहीं जानता क्या मैं अपने भाई का रख वाला हूँ ॥ तब उस ने कहा तू ने क्या किया तेरे भाई के लोह का शब्द भूमि से सुभे पुकारता है ॥ और अब तू पृथिवी से स्थापित है ॥ ती० पर्व ४ । आ० ८ । १० । ११ ॥

समीक्षक—क्या ईश्वर काइन से पूछें विना हाबिल का हाल नहीं जानता था और लोह का शब्द भूमि से कभी किसी को पुकार सकता है ? ये सब बातें अविद्वानों की हैं इसी लिये यह पुस्तक न ईश्वर और न विद्वान् का बनाया हो सकता है ॥ १० ॥

११—और हनूक मत्सिलह की उत्पत्ति के पीछे तीन सौ वर्षों ईश्वर के साथ चलता था ॥ ती० पर्व ५ । आ० २२ ॥

समीक्षक—भला इसाइयों का ईश्वर मनुष्य न होता तो हनूक उस के साथ २ क्यों चलता ? इस से जो वेदोक्त निराकार ईश्वर है उसी को इसाई लोग मानें तो उन का कल्याण होवे ॥ ११ ॥

१२—और उन से बेटियां उत्पन्न हुईं ॥ तो ईश्वर के पुत्रों ने आदम की पुत्रियों को देखा कि वे सुन्दरी हैं और उन में से जिन्हें उन्हीं ने चाहा उन्हें व्याहा ॥ और उन दिनों में पृथिवी पर दानव थे और उस के पीछे भी जब ईश्वर के पुत्र आदम की पुत्रियों से मिले तो उन से बालक उत्पन्न हुए जो बलवान् हुए जो आगे से नामी थे ॥ और ईश्वर ने देखा कि आदम की दुष्टता पृथिवी पर बहुत हुई और उन के मन की चिन्ता और भावना प्रतिदिन केवल बुरी होती है ॥ तब आदमी को पृथिवी पर उत्पन्न करने से परमेश्वर पकताया और उसे अतीशोक हुआ तब परमेश्वर ने कहा कि आदमी को जिसे मैं ने उत्पन्न किया आदमी से ले के पशुओं और रेंगवैयों को और आकाश के पक्षियों को पृथिवी पर से नष्ट करूंगा क्योंकि उन्हें बनाने से मैं पकताता हूँ ॥ ती० पर्व ६ । आ० १ । २ । ४ । ५ । ६ । ७ ॥

समीक्षक—इसाइयों से पूछना चाहिये कि ईश्वर के बेटे कौन हैं ? और ईश्वर की स्त्री, सास, श्वसुर, शाला और सम्बन्धी कौन हैं ? क्योंकि अब तो आदमी की बेटियों के साथ विवाह होने से ईश्वर इन का सम्बन्धी हुआ और जो उन से उत्पन्न होते हैं वे पुत्र और प्रपौत्र हुए क्या ऐसी बात ईश्वर और ईश्वर के पुत्रों की हो सकती है ? किन्तु यह सिद्ध होता है कि उन जड़ली मनुष्यों ने यह पुस्तक बनाया है वह ईश्वर ही नहीं जो सर्वज्ञ न हो न भविष्यत् को बात जाने वह जीव है क्या जब सृष्टि की थी तब आगे मनुष्य दुष्ट होंगे ऐसा नहीं जानता था ? और पकताना अतीशोकादि होना भूल से काम करके पीछे पश्चात्ताप करना आदि

इसाइयों के ईश्वर में घट सकता है कि ईसाइयों का ईश्वर पूरे विद्वान् योगी भी नहीं था नहीं तो गान्ति और विज्ञान से अतिशोकादि से पृथक् ही सकता था। भना पशु पक्षी भी दुष्ट हो गये यदि वह ईश्वर सर्वज्ञ होता तो ऐसा विपादी क्यों होता ? इस लिये न यह ईश्वर और न यह ईश्वरकृत पुस्तक हो सकता है जैसे वेदीय परमेश्वर सब पाप, क्लेश, दुःखशोकादि से रहित "सच्चिदानन्दस्वरूप" है उस को ईसाई लोग मानते वा अब भी मानें तो अपने मनुष्य जन्म को सफल कर सकें ॥ १२ ॥

१३-उस नाव को लम्बाई तीन सौ हाथ और चौड़ाई पचास हाथ और ऊँचाई तीस हाथ की होवे ॥ तू नाव में जाना तू और तेरे बेटे और तेरी पत्नी और तेरे बेटों की पत्नियाँ तेरे साथ ॥ और सारे गरीबों में से कीड़ता जन्तु दो २ अपने साथ नाव में लेना जिस से वे तेरे साथ जीते रहें वे नर और नारी होवें ॥ पंखी में से उस के भाँतिर के और दोरः में से उस के भाँतिर के और पृथिवी के हर एक रेंगवैये में से भाँतिर के हर एक में से दोर तुझ पास आवें जिस से जीते रहें ॥ और तू अपने लिये खाने को सब सामग्री अपने पास इकट्ठा कर वह तुम्हारे और उन के लिये भोजन होगा। सो ईश्वर की सारी आज्ञा के समान नूह ने किया। ती० पर्व० ६। आ० १५। १८। १९। २०। २१। २२ ॥

समीक्षक—भला कोई भी विद्वान् ऐसी विद्या से विन्मत्त असम्भव बात के याता को ईश्वर मान सकता है ? क्योंकि इतनी बड़ी चौड़ी जड़ी नाव में हाथी, हथनी, ऊँट, ऊँटनी, आदि कोड़ों जन्तु और उन के खाने पीने की चीजें वे सब कुटुम्ब के भी समा सकते हैं ? यह इसी लिये मनुष्यकृत पुस्तक है जिस ने यह लेख किया है वह विद्वान् भी नहीं था ॥ १३ ॥

१४-और नूह ने परमेश्वर के लिये एक वेदी बनाई और सारे पवित्र पशु और हर एक पवित्र पंखियों में से लिये और होम की भेट उस वेदी पर चढ़ाई और परमेश्वर ने सुगन्ध संघा और परमेश्वर ने अपने मन में कहा कि आदमी के लिये मैं पृथिवी को फिर कभी स्थाप न दूँगा इस कारण कि आदमी के मन की भायना उस की लहकाई से बुरी है और जिस रीति से मैं ने सारे जीवधारियों को मारा फिर कभी न मारूँगा ॥ ती० पर्व० ८। आ० २०। २१ ॥

समीक्षक—वेदी के बनाने, होम करने के लेख से यही शिब होता है कि ये बातें वेदों से वास्तव्य में नहीं हैं क्या परमेश्वर के नाक भी है कि जिस से सुगन्ध संघा ? क्या यह ईसाइयों का ईश्वर मनुष्यकृत कल्पन नहीं है ? कि कभी स्थाप होता है और कभी पड़ता है, कभी कटता स्थाप न दूँगा, पछिसे दिया था

और फिर भी देगा प्रथम सब को मार डाला और अब कहता है कि कभी न मारूंगा !!! ये बातें सब लड़कों कीसी हैं ईश्वर की नहीं और न किसी विद्वान् की क्योंकि विद्वान् की बात और प्रतिज्ञा स्थिर होती है ॥ १४ ॥

१५—और ईश्वर ने नूह को और उसके बेटों को आशीर्ष दिया और उन्हें कहा ॥ कि हर एक जीता चलता जंतू तुम्हारे भोजन के लिये होगा मैंने हरी तरकारी के समान सारी वस्तु तुम्हें दीं केवल मांस उस के जीव अर्थात् उस के लोह्र समेत मत खाना ॥ ती० । पर्व ८ । आ० १ । ३ । ४ ॥

समीक्षक—क्या ! एक को प्राण कष्ट दे कर दूसरों को आनन्द कराने से दयाहीन ईसाइयों का ईश्वर नहीं है ? जो माता पिता एक लड़के को मरवा कर दूसरे को खिलावे तो महापापी नहीं हैं ? इसी प्रकार यह बात है क्योंकि ईश्वर के लिये सब प्राणी पुत्रवत् हैं ऐसा न होने से ब्रह्म का ईश्वर कसाईवत् काम करता है और सब मनुष्यों को हिंसक भी इसी ने बनाया है इस लिये ईसाइयों का ईश्वर निर्दय होने से पापी क्यों नहीं ? ॥ १५ ॥

१६—और सारी पृथिवी पर एक ही बोली और एक ही भाषा थी ॥ फिर उन्होंने ने कहा कि आओ हम एक नगर और एक गुम्बट जिस की छोटी खर्ग तक पहुंचे अपने लिये बनावे और अपना नाम करें न हो कि हम सारी पृथिवी पर छिन्न भिन्न हो जायें ॥ तब ईश्वर उस नगर और उस गुम्बट को जिसे आदम के सन्तान बनाते थे देखने को उतरा ॥ तब परमेश्वर ने कहा कि देखो ! ये लोग एक ही हैं और उन सब की एक ही बोली है अब वे ऐसा कुछ करने लगे सो वे जिस पर मन लगावेंगे उस से अलग न किये जायेंगे ॥ आओ हम उतरे और वहां उन की भाषा को गड़बड़ावें जिस से एक दूसरे की बोली न समझे ॥ तब परमेश्वर ने उन्हें वहां से सारी पृथिवी पर छिन्न भिन्न किया और वे उस नगर के बनाने से अलग रहे ॥ ती० पर्व ११ । आ० १ । ४ । ५ । ६ । ७ । ८ ॥

समीक्षक—जब सारी पृथिवी पर एक भाषा बोली जागी उस समय सब मनुष्यों को परस्पर अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ होगा परन्तु क्या किया जाय यह ईसाइयों के ईर्ष्यक ईश्वर ने सब की भाषा गड़बड़ा के सब का सत्वानाश किया उस ने यह बड़ा अपराध किया । क्या यह शैतान के काम से भी बुरा काम नहीं है ? और इस से यह भी विदित होता है कि ईसाइयों का ईश्वर सनाई पहाड़ आदि पर रहता था और जीवों की उन्नति भी नहीं चाहता था यह विना एक अविद्वान् के ईश्वर की बात और यह ईश्वरोक्त पुस्तक क्यों कर हो सकता है ? ॥ १६ ॥

१७—तब उस ने अपनी पत्नी सरी से कहा कि देख मैं जानता हूँ तू देखने में सुन्दर स्त्री है ॥ इस लिये यों होगा कि जब मिथी तुझे देखें तब वे कहेंगे कि

२२—आओ हम अपने पिता को दाख रस पिलावे और हम उस के साथ शयन करें कि हम अपने पिता से बंग चलावे ॥ तब उन्होंने उस रात अपने पिता को दाख रस पिलाया और पहिलोटी गई और अपने पिता के साथ शयन किया ॥ हम उसे आज रात भी दाख रस पिलावे तू जा के शयन कर ॥ सो मूत की दोनो वेटियां अपने पिता से गर्भियो हुई ॥ तो० उत्प० पर्व० १८। आ० ३२। ३३। ३४। ३५ ॥

समीचक-देखिये! पिता पुत्री भी जिस मद्यपान के नश में कुकर्म करने से न बच सके ऐसे दुष्ट मद्य को जो ईसाई आदि पीते हैं उन की बुराई का क्या पारावार है? इस लिये सज्जन लोगों को मद्य के पीने का नाम भी न लेना चाहिये ॥ २३ ॥

२४—और अपने कहने के समान परमेश्वर ने सरः से भेंट किया और अपने वचन के समान परमेश्वर ने सरः के विषय में किया ॥ और सरः गर्भियो हुई ॥ तो० उत्प० पर्व० २१। आ० १। २ ॥

समीचक—अब विचारिये कि सरः से भेंट कर गर्भवती की यह काम कैसे हुआ? क्या बिना परमेश्वर और सरः के तीसरा कोई गर्भस्थापन का कारण दीक्षता है? ऐसा विदित होता है कि सरः परमेश्वर की कृपा से गर्भवती हुई!!! ॥ २४ ॥

२५—तब अबिरहाम ने बड़े लड़के उठ के रोटी और एक पख्खान में जल लिया और हाजिरः के कंधे पर धर दिया और लड़के को भी उसे सौंप के उसे बिदा किया ॥ उस ने उस लड़के को एक भाड़ी के तले हाल दिया ॥ और वह उस के सम्मुख बैठ के चिन्ता २ रोई ॥ तब ईश्वर ने उस बालक का शब्द सुना ॥ तो० उत्प० २१। आ० १४। १५। १६। १७ ॥

समीचक—अब देखिये! ईसाइयों के ईश्वर की लीला कि प्रथम तो सरः का पचपात करके हाजिरः को बर्हा से निकलवा दी और चिन्ता २ रोई हाजिरः और शब्द सुना लड़के का यह कौसी अद्भुत बात है? यह ऐसा हुआ जागा कि ईश्वर को भ्रम हुआ जागा कि यह बालक ही रोता है भला यह ईश्वर और ईश्वर की पुस्तक की बात कभी हो सकती है? बिना साधारण मनुष्य के वचन के इस पुस्तक में घोंड़ी सी बात सत्य के सब असार भरा है ॥ २५ ॥

२६—और इन बातों के पीछे यों हुआ कि ईश्वर ने अबिरहाम की परोषा किई और उसे कहा। हे अबिरहाम! तू अपने बेटे को अपने इकलौटे इजहाक को जिसे तू प्यार करता है ले ॥ उसे होम की भेंट के लिये चढ़ा और अपने बेटे इजहाक को बांध के उस वेदी में लड़कियों पर धरा ॥ और अबिरहाम ने पुत्री लेके अपने बेटे की घात करने के लिये हाथ बढ़ाया ॥ तब परमेश्वर के दूतने स्वर्ग पर से उसे पुकारा कि अबिरहाम २ अपना हाथ लड़के पर मत चढ़ा उसे हार मत कर वही कि अब मैं जानता हूँ कि तू ईश्वर से डरता है ॥ तो० उत्प० पर्व० २२। आ० १। २। ६। १०। ११। १२ ॥

और क्या देखा कि तीन मनुष्य उस के पास खड़े हैं और उन्हें देख के बृहत्सू के द्वार पर से उन की भेंट को दीड़ा और भूमि तक दण्डवत् की ॥ और कहा हे मेरे स्वामि यदि मैंने अब आप की दृष्टि में अनुग्रह पाया है तो मैं आप की विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाइये ॥ इच्छा होय तो थोड़ा जल लाया जाय और अपने चरण धोइये और पेड़ तले विश्राम कीजिये ॥ और मैं एक कौर रोट्टी लाऊँ और आप तप्त हजिये उस के पीछे आगे बढ़िये क्योंकि आप इसी लिये अपने दास के पास आये हैं तब वे बोले कि जैसा तू ने कहा वैसा कर ॥ और अबिरहाम तंबू में सरः पास उतावली से गया और उसे कहा कि फुरती कर और तीन नपुआ छोखा पिसान ले के गूँध और उस के फुलके पका ॥ और अबिरहाम भुँड की ओर दीड़ा गया और एक अच्छा कोमल बछड़ा लेके दास को दिया उस ने भी उसे सिद्ध करने में चटक किया ॥ और उस ने मक्खन और दूध और वह बछड़ा जो पकाया था लिया और उन के आगे धरा और आप उन के पास पेड़ तले खड़ा रहा और उन्हीं ने खाया ॥ ती० पर्व० १८ । आ० १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ । ७ । ८ ॥

समीचक-अब देखिये ! सज्जन लोगो ! जिन का ईश्वर बछड़े का मांस खावे उस के उपासक गाय बछड़े आदि पशुओं को क्यों छोड़ें ? जिस को कुछ दया नहीं और मांस के खाने में आतुर रहै वह बिना हिंसक मनुष्य के ईश्वर का भी हो सकता है ? और ईश्वर के साथ देा मनुष्य न जाने कौन थे ? इस से विदित होता है कि जंगली मनुष्यों की एक मंडली थी उन का जो प्रधान मनुष्य था उस का नाम बाइवल में ईश्वर रक्खा होगा इन्हीं बातों से बुद्धिमान लोग इन के पुस्तक को ईश्वरकृत नहीं मान सकते और न ऐसे को ईश्वर समझते हैं ॥ २० ॥

२१-और परमेश्वर ने अबिरहाम से कहा कि सरः क्यों यह कह के मुस्कुराई कि जो मैं बुढ़िया हूँ सच मुच बालक जन्गी क्या परमेश्वर के लिये कोई बात असाध्य है ॥ ती० पर्व० १८ । आ० १३ । १४ ॥

समीचक-अब देखिये ! कि क्या इसाइयों के ईश्वर की लीला कि जो लड़के वा स्त्रियों के समान चिड़ता और ताना मारता है !!! ॥ २१ ॥

२२-तब परमेश्वर ने सदृमसूरा पर गंधक और आग परमेश्वर की ओर से वर्षाया ॥ और उन नगरों को और सारे चौगान को और नगरों के सारे निवासियों को और जो कुछ भूमि पर जगता था उलट दिया ॥ ती० उत्प० पर्व० १६ । आ० २४ । २५ ॥

समीचक-अब यह भी लीला बाइवल के ईश्वर की देखिये । कि जिस को बालक आदि पर भी कुछ दया न आई । क्या वे सब ही अपराधी थे जो सब को भूमि उलटा के दवा मारा ? यह बात न्याय, दया और विवेक से विग्रह है जिन का ईश्वर ऐसा काम करे उन के उपासक क्यों न करें ? ॥ २२ ॥

२३-आओ, हम अपने पिता को दाख रस पिलावें और हम हम के साथ गयन करें कि हम अपने पिता से बंग चलावें ॥ तब उन्होंने उस रात अपने पिता को दाख रस पिलाया और पहिलोठी गई और अपने पिता के साथ गयन किया ॥ हम उसे आज रात भी दाख रस पिलावें तु जा के गयन कर ॥ सो नूत की दोनी बेटियां अपने पिता से गर्भिणी हुईं । तौ० उत्प० पर्व० १८। आ० ३२। ३३। ३४। ३५ ॥

समीचक-देखिये! पिता पुत्री भी जिस मद्यपान के नशे में कुकर्म करने से न बच सके ऐने दुष्ट मद्य को जो ईसाई आदि पीते हैं उन की बुराई का क्या पारावार है? इस लिये सज्जन लोगों को मद्य के पीने का नाम भी न लेना चाहिये ॥ २३ ॥

२४--और अपने कहने के समान परमेश्वर ने सरः से भेंट किया और अपने वचन के समान परमेश्वर ने सरः के विषय में किया ॥ और सरः गर्भिणी हुई ॥ तौ० उत्प० पर्व० २१ । आ० १ । २ ॥

समीचक--अब विचारिये कि सरः से भेंट कर गर्भवती की यह काम कैसे हुआ ? क्या बिना परमेश्वर और सरः के तीसरा कोई गर्भस्थापन का कारण दीखता है? ऐसा विदित होता है कि सरः परमेश्वर की कृपा से गर्भवती हुई!!! ॥ २४ ॥

२५--तब अबिरहाम ने बड़े लड़के उठ के रोटी और एक पत्ताभ में दाल लिया और हालिरः के कंधे पर धर दिया और लड़के को भी उसे सोंप के छसे विदा किया ॥ उस ने उस लड़के को एक भाड़ी के तले डाल दिया ॥ और वह उस के सम्मुख बैठ के चिला २ रोई ॥ तब ईश्वर ने उस बालक का शब्द सुना ॥ तौ० उत्प० २१ । आ० १४ । १५ । १६ । १७ ॥

समीचक--अब देखिये ! ईसाइयों के ईश्वर की लीला कि प्रथम तौ सरः का पचपात करके हालिरः को वहाँ से निकलवा दी और चिला २ रोई हालिरः और शब्द सुना लड़के का यह कौसी अद्भुत बात है ? यह ऐसा हुआ होगा कि ईश्वर की भ्रम हुआ होगा कि यह बालक ही रोता है भला यह ईश्वर और ईश्वर की पुस्तक की बात कभी हो सकती है ? बिना साधारण मनुष्य के वचन के इस पुस्तक में घोड़ी सी बात मत्य के सब असार भरा है ॥ २५ ॥

२६--और इन बातों के पीछे यों हुआ कि ईश्वर ने अबिरहाम की परीक्षा किई और उसे कहा । हे अबिरहाम ! तू अपने बेटे को अपने इकलौठे इजहाक को जिसे तू प्यार करता है ले ॥ उसे हाम को भेंट के लिये चढ़ा और अपने बेटे इजहाक को बांध के उस बंदी में लड़कियों पर धरा ॥ और अबिरहाम ने पुरी लेके अपने बेटे को घात करने के लिये हाथ बढ़ाया ॥ तब परमेश्वर के दूत ने मार्ग पर से उसे पुकारा कि अबिरहाम २ अपना हाथ लड़के पर मत धरा उसे नुक मत कर क्यों कि अब मैं जानता हूँ कि तू ईश्वर से डरता है ॥ तौ० उत्प० पर्व० २२ । आ० १ । २ । ६ । १० । ११ । १२ ॥

३१—और यज्ञकूब बिहान को तड़के उठा और उस पत्थर को जिसे उस ने अपना उसीसा किया था खम्भा खड़ा किया और उस पर तेल ढाला ॥ और उस स्थान का नाम बैतएल रक्खा ॥ और यह पत्थर जो मैं ने खम्भा खड़ा किया ईश्वर का घर ही था ॥ तौ० उत्प० पर्व २८ । आ० १८ । १९ । २२ ॥

समीचक—अब देखिये ! जड़लियों के काम इन्हीं ने पत्थर पूजे और पुजवाये और इस को मुसलमान लोग "बयतलमुकद्दस" कहते हैं क्या यही पत्थर ईश्वर का घर और उसी पत्थरमात्र में ईश्वर रहता था ? वाह ! वाह ! ! जी क्या कहना है इसाइ लोगो महाबुत्परस्त तो तुम्हीं हो ॥ ३१ ॥

३२—और ईश्वर ने राखिल को स्मरण किया और ईश्वर ने उस की सुनी और उस की कोख को खोला और बुद्ध गर्भिणी हुई और बेटा जनी और बोली कि ईश्वर मेरी निन्दा दूर कीई ॥ तौ० उत्प० पर्व ३० । आ० २२ । २३ ॥

समीचक—वाह इसाइयों के ईश्वर ! क्या बड़ा डाक्टर है ! स्त्रियों की कोख खोलने को कौन से शस्त्र वा औषध थे जिन से खोलो ये सब बातें अन्धाधुन्ध की हैं ॥ ३२ ॥

३३—परन्तु ईश्वर आरामी लावनकने स्वप्न में रात को आया और उसे कहा कि चौकास रह तू यज्ञकूब को भला बुरा मत कहना क्योंकि तू अपने पिता के घर का निपट अभिलाषी है तू ने किस लिये मेरे देवों को चुराया है ॥ तौ० । उत्प० पर्व ३१ । आ० २४ । ३० ॥

समीचक—यह हम नमूना लिखते हैं हजारों मनुष्यों को स्वप्न में आया बातें किई जायत् साक्षात् मिला, खाया, पिया, आया, गया, आदि बाइबल में लिखा है परन्तु अब न जाने वह है वा नहीं ? क्योंकि अब किसी को स्वप्न वा जायत् में भी ईश्वर नहीं मिलता और यह भी विदित हुआ कि ये जंगली लोग पाषाणादि मूर्त्तियों को देव मान कर पूजते थे परन्तु इसाइयों का ईश्वर भी पत्थर ही को देव मानता है नहीं तो देवों का चुराना कैसे घटे ? ॥ ३३ ॥

३४—और यज्ञकूब अपने मार्ग चला गया और ईश्वर के दूत उसे आ मिले ॥ और यज्ञकूब ने उन्हें देख के कहा कि यह ईश्वर की सेना है ॥ तौ० उत्प० पर्व ३२ । आ० । १ । २ ॥

समीचक—अब इसाइयों के ईश्वर के मनुष्य होने में कुछ भी संदिग्ध नहीं रहा क्योंकि सेना भी रखता है जब सेना हुई तब शस्त्र भी होंगे और जहाँ तहाँ चढ़ाई करके लड़ाई भी करता होगा नहीं तो सेना रखने का क्या प्रयोजन है ? ॥ ३४ ॥

३५—और यज्ञकूब अकेला रह गया और वहाँ पौफटेलों एक जन उस से मस्युद्ध करता रहा ॥ और जब उस ने देखा कि बुद्ध उस पर प्रवल न हुआ तो उस की जांघ की भीतर से हुआ तब यज्ञकूब के जांघ की नस उस के संघ मस्युद्ध करने में चढ़ गई ॥ तब बुद्ध बोला कि मुझे जाने दे क्योंकि मैं फटती है और बुद्ध

बोला मैं तुम्हें जाने न देऊंगा जब लों तू मुझे आशीष न देवे ॥ तब उस ने उसे कहा कि तेरा नाम क्या और बुढ़ बोला कि यशकूब ॥ तब उस ने कहा कि तेरा नाम आगे को यशकूब न होगा परन्तु इसरायेल क्योंकि तूने ईश्वर के आगे और मनुष्यों के आगे राजा की नाईं मङ्गयुक्त किया और जीता ॥ तब यशकूब ने यह कहि के उस से पूछा कि अपना नाम बताइये और बुढ़ बोला कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है और उस ने उसे वहां आशीष दिया ॥ और यशकूब ने उस स्थान का नाम फनूएल रक्खा क्योंकि मैं ने ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा और मेरा प्राण बचा है ॥ और जब बुढ़ फनूएल से पार चला तो सूर्य की ज्योति उस पर पड़ी और वह अपनी जांघ से लंगड़ाता था ॥ इस लिये इसरायेल के वंश उस जांघ की नस को जो चढ़ गई थी आज लों नहीं खाते क्योंकि उस ने यशकूब के जांघ की नस को चढ़ गई थी हुआ था ॥ तौ० उत्प० पर्व ३२ । आ० २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० । ३१ । ३२ ॥

समीक्षक—जब इस्रायेलों का ईश्वर अखाहमस है तभी तो सरः और राखल पर पुत्र होने की कृपा की भना यह कभी ईश्वर ही सकता है ? और देखा ! लीला कि एक जना नाम पूछे तो दूसरा अपना नाम ही न बतलावे ? और ईश्वर ने उस की नाड़ी को चढ़ा तो दी और जीता गया परन्तु जो डाक़र होता तो जांघ की नाड़ी को अच्छी भी करता और ऐसे ईश्वर की भक्ति से ठीसा कि यशकूब लंगड़ाता रहा तो अन्य भक्त भी लंगड़ाते होंगे जब ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा और मङ्गयुक्त किया यह बात बिना शरीर वाले के कैसे ही सकती है ? यह केवल लड़कपन की लीला है ॥ ३५ ॥

३६—और यहदाह का पहिलौठा एर परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट था सो परमेश्वर ने उसे मार डाला ॥ तब यहदाह ने ओनान को कहा कि अपनी भाई की पत्नी पास जा और उस से व्याह कर अपने भाई के लिये वंश चला ॥ और ओनान ने जाना कि यह वंश मेरा न होगा और यों हुआ कि जब बुढ़ अपनी भाई की पत्नी पास गया तो सूर्य को भूमि पर गिरा दिया ॥ और उस का यह कार्य परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था इस लिये उस ने उसे भी मार डाला ॥ तौ० उत्प० प० ३८ । आ० ७ । ८ । ९ । १० ॥

समीक्षक—अब देख लीजिये ! ये मनुष्यों के काम हैं कि ईश्वर को? जब उस के साथ नियोग हुआ तो उस को क्यों मार डाला ? उस को बुद्धि शुद्ध क्यों न कर दी और बेदोक्त नियोग भी प्रथम सर्वत्र चलता था यह निश्चय हुआ कि नियोग की बातें सब देशों में चलती थीं । ३६ ॥

तैरैत यात्रा की पुस्तक

३७—अब मूसा सयाना हुआ और अपने भाइयों में से एक इवरानी को देखा कि मिथी उसे मार रहा है ॥ तब उस ने उधर उधर दृष्टि किई देखा कि

कोई नहीं तब उस ने उस मिश्री को मार डाला और बालू में उसे छिपा दिया ॥ जब वह दूसरे दिन बाहर गया तो देखो दो इबरानी आपुस में भगड़ रहे हैं तब उस ने उस अंधेरी को कहा कि तू अपने परीसी को क्यों मारता है ॥ तब उस ने कहा कि किस ने तुम्हे हम पर अथ्यन्न अथवा न्यायी ठहराया क्या तू चाहता है कि जिस दीति से तू ने मिश्री को मार डाला सुभी भी मार डाले तब मूसा डरा ॥ और नाग निकला ॥ ती० या० प० २ । आ० ११ । १२ । १३ । १४ । १५ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! जो बाइबल का मुख्य सिद्ध कर्ता मत का आचार्य मूसा कि जिस का चरित्र क्रोधादि गुणों से युक्त, मनुष्य की हत्या करने वाला, और चोरवत् राजदंड से बचने हारा, अर्थात् जब बात को छिपाता था तो भूठ बोलने वाला भी अवश्य होगा ऐसे को भी जो ईश्वर मिला वह पैगम्बर बना, उस ने यहूदी आदि का मत चलाया, वह भी मूसा ही के सदृश हुआ । इस लिये ईसाइयों के जो मूल पुरुषा हुए हैं वे सब मूसा से आदि ले करके जंगली अवस्था में थे यिद्यावस्था में नहीं, इत्यादि ॥ ३७ ॥

३८—और फसह मेन्ना मारो ॥ और एक मूठी जूफा लेओ और उसे उस लोह में जो बासन में है वीर के ऊपर की चौखट के और द्वार की दोनों और उस से छापो और तुम में से कोई विहानली अपने घर के द्वार से बाहर न जावे ॥ क्यों-कि परमेश्वर मिस्र के मारने के लिये आर प्रार जायगा और जब वह ऊपर की चौखट पर और द्वार की दोनों और लोह को देखे तब परमेश्वर द्वार से वीत जाय गा और नाशक तुम्हारे घरों में न जाने देगा कि मारे ॥ ती० या० प० । १२ । आ० २१ । २२ । २३ ॥

समीक्षक—भन्ता यह जो टोने टामन करने वाले के समान है वह ईश्वर सर्वत्र कभी हो सकता है ? जब लोह का छापा देखे तभी इसराइल कुल का घर जाने अन्वया नहीं । यह काम जुद्रुक्ति वाले मनुष्य के सदृश है इस से यह सिद्धित होता है कि ये बातें किसी जङ्गली मनुष्य की लिखी हैं ॥ ३८ ॥

३९—और यों हुआ कि परमेश्वर ने आधीरात को मिस्र के देश में सारे पहिली-लौठे को फिरा उन के पहिलीठे से ले के जो अपने सिंहासन पर बैठता था उस बन्धुआ के पहिलीठे लों जो बन्दो गृह में था पशुन के पहिलीठे समेत नाश किये और रात को फिर उन उठा वह और उस के सब सेवक और सारे मिश्री उठे और मिस्र में बड़ा विलाप था क्योंकि कोई घर न रहा जिस में एक न मरा ॥ ती० या० प० १२ । आ० २६ । ३० ॥

समीक्षक—वाह ! अच्छा आधीरात को टाकू के समान निर्दयी हो कर ईसाइयों के ईश्वर ने लड़के, बाले, बूढ़ और पशु तक भी बिना अपराध मार दिये और कुछ भी दया न आई और मिस्र में बड़ा विलाप होता रहा तो भी क्या ईसाइयों

के ईश्वर के चित्त से निष्ठुरता नष्ट न हुई ऐसा काम ईश्वर का तो क्या किन्तु किसी साधारण मनुष्य के भी करने का नहीं है । यह आश्चर्य नहीं क्योंकि लिखा है "मांसाहारिणः कुतो द्या" जब ईसाइयों का ईश्वर मांसाहारी है तो उस को दया करने से क्या काम है ? ॥ ३६ ॥

४०-परमेश्वर तुम्हारे लिये युद्ध करे गा ॥ इस्त्रायेल के सन्तान से कह कि वे आगे बढ़ें ॥ परन्तु तू अपनी छड़ी उठा और समुद्र पर अपना हाथ बढ़ा और उस से दो भाग कर और इस्त्रायेल के सन्तान समुद्र के बीचों बीच से सूखी भूमि में हो कर चले जायेंगे ॥ ती० या० प० १४ । आ० १४ । १५ । १६ ॥

समीक्षक-क्यों जी आगे तो ईश्वर भेड़ों के पीछे गड़रिये के समान इस्त्रायेल कुल के पीछे २ डोला करता था अब न जाने कहां अन्तर्धान हो गया ? नहीं तो समुद्र के बीचों बीच से चारों ओर की रेलगाड़ियों की सड़क बनवा लेते जिस से सब संसार का उपकार होता और नाव आदि बनाने का श्रम छूट जाता । परन्तु क्या किया जाय ईसाइयों का ईश्वर जाने कहां छिप रहा है ? इत्यादि बहुत सी मूसा के साथ असम्भव लीला बाइबल के ईश्वर ने की है परन्तु यह विदित हुआ कि जैसा ईसाइयों का ईश्वर है वैसे ही उस के सेवक और ऐसी ही उस की बनाई पुस्तक है । ऐसी पुस्तक और ऐसा ईश्वर हम लोगों से दूर रहे तभी अच्छा है ॥ ४० ॥

४१-क्योंकि मैं परमेश्वर तेरा ईश्वर ज्वलित सर्वशक्तिमान् हूँ पितरों के अपराध का दण्ड उन के पुत्रों को जो मेरा वैर रखते हैं उन की तीसरी और चौथी पीढ़ी लों देवैया हूँ ॥ ती० य० प० २० । आ० ॥ ५ ॥

समीक्षक-भला यह किस घर का न्याय है कि जो पिता के अपराध से चार पीढ़ी तक दण्ड देना अच्छा समझना । क्या अच्छे पिता के दुष्ट और दुष्ट के अच्छे सन्तान नहीं होते ? जो ऐसा है तो चौथी पीढ़ी तक दण्ड कैसे दे सकेगा ? और जो पांचवीं पीढ़ी से आगे दुष्ट होगा उस को दंड कैसे न दे सकेगा बिना अपराध किसी को दंड देना अन्यायकारी की बात है ॥ ४१ ॥

४२-विश्राम के दिन को उसे पवित्र रखने के लिये स्मरण कर ॥ छः दिनलों तू परिश्रम कर ॥ और सातवां दिन परमेश्वर तेरे ईश्वर का विश्राम है ॥ परमेश्वर ने विश्राम दिन को आशीष दी ॥ ती० या० प० २० । आ० ८ । ९ । १० । ११ ॥

समीक्षक-क्या रविवार एक ही पवित्र और छः दिन अपवित्र हैं ! और क्या परमेश्वर ने छः दिन तक बड़ा परिश्रम किया था ! कि जिस से थक के सातवें दिन सो गया ? और जो रविवार को आशीर्वाद दिया तो सोमवार आदि छः दिनों को क्या दिया ? अर्थात् शाप दिया होगा ऐसा काम विद्वान् का भी नहीं तो ईश्वर का क्यों कर हो सकता है ? भला रविवार में क्या गुण और सोमवार

आदि ने क्या दोष किया था कि जिस से एक को पवित्र तथा वर दिया और अन्यो को ऐसे ही अपवित्र कर दिये । ॥ ४२ ॥

४३—अपने परोसी पर झूठी साक्षी मत दे ॥ अपने परोसी की स्त्री और उस के दास उस की दासी और उस के बैल और उस के गदहे और किसी वस्तु का जो तेरे परोसी की है लालच मत कर ॥ तौ० या० प० २० । आ० १६ । १७५

समीक्षक—वाह ! तभी तो ईसाई लोग परदेशियों के माल पर ऐसे झुकते हैं कि जानों घासा जल पर, भूखा अन्न पर, जैसी यह केवल मतलब सिंधु और पक्षपात की बात है ऐसा ही ईसाइयों का ईश्वर अवश्य होगा । यदि कोई कहे कि हम सब मनुष्यमात्र को परोसी मानते हैं तो सिवाय मनुष्यों के अन्य कौन स्त्री और दासी वाले हैं कि जिन को अपरोसी गिने ? इस लिये ये बातें स्वार्थी मनुष्यों की हैं ईश्वर की नहीं ॥ ४३ ॥

४४—सो अब लड़कों में से हर एक बेटे को और हर एक स्त्री को जो पुरुष से संयुक्त हुई हो प्राण से मारो ॥ परन्तु वे बेटियां जो पुरुष से संयुक्त नहीं हुई हैं उन्हें अपने लिये जीती रक्खो ॥ तौ० गिनती० प० ३१ । आ० १७ । १८ ॥

समीक्षक—वाह ! जो मूसा पैगम्बर और तुम्हारा ईश्वर धन्य है ! कि जो स्त्री, बालक, वृद्ध और पशु आदि को हत्या करने से भी अलग न रहे और इस से स्पष्ट निश्चित होता है कि मूसा विषयी था, क्योंकि जो विषयी न होता तो अक्षतयोनि अर्थात् पुरुषों से समागम न की हुई कन्याओं को अपने लिये भंगवाता वा उन को ऐसी निर्दय वा विषयीपन की आज्ञा क्यों देता ? ॥ ४४ ॥

४५—जो कोई किसी मनुष्य को मारे और वह मर जाय वह नियम घात किया जाय ॥ और वह मनुष्य घात में न लगा हो परन्तु ईश्वर ने उस के हाथ में सौंप दिया हो तब मैं तुम्हें भागने का स्थान बता दूंगा ॥ तौ० या० प० २१ । आ० १२ । १३ ॥

समीक्षक—जो यह ईश्वर का न्याय सच्चा है तो मूसा एक आदमी को मार गाड़ कर भाग गया था उस को यह दंड क्यों न हुआ ? जो कहे ईश्वर ने मूसा को मारने के निमित्त सौंपा था तो ईश्वर पक्षपाती हुआ क्योंकि उस मूसा का राजा से न्याय क्यों न होने दिया ? ॥ ४५ ॥

४६—और कुशल का बलिदान बेलों से परमेश्वर के लिये चढ़ाया ॥ और मूसा ने आधा लोह ले के पारों में रक्खा और आधा लोह वेदी पर छिड़का ॥ और मूसा ने उस लोह को ले के लोगों पर छिड़का और कहा कि यह लोह उस नियम का है जिसे परमेश्वर ने इन बातों के कारण तुम्हारे साथ किया है ॥ और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर सुभ्र पास आ और वहां रह और मैं

तुम्हे पत्थर की पटियां और व्यवस्था और आशा जो मैं ने लिखी है दूंगा । तौ० या० प० २४ । आ० ५ । ६ । ८ । १२ ॥

समीचक-अब देखिये ! ये सब जंगली लोगों कि बातें हैं वा नहीं ? और परमेश्वर बैलों का बलिदान लेता और वेदी पर लोह किड़कना यह कैसी जंगली-पन और असभ्यता की बात है ? जब ईसाइयों का खुदा भी बैलों का बलिदान लेवे तो उस के भक्त बैल गाय के बलिदान की प्रसादी से पेट क्यों न भरें ? और जगत् की हानि क्यों न करें ? ऐसी २ बुरी बातें बाइबल में भरी हैं इसी के कुसंस्कारों से वेदों में भी ऐसा झूठा दोष लगाना चाहते हैं परन्तु वेदों में ऐसी बातों का नाम भी नहीं । और यह भी निश्चय हुआ कि ईसाइयों का ईश्वर एक पहाड़ी मनुष्य था पहाड़ पर रहता था जब वह खुदा, स्याही, लेखनी, कागज़, नहीं बना जानता और न उस को प्राप्त था इसी लिये पत्थर की पटियों पर लिख २ देता था और इन्हीं जंगलियों के सामने ईश्वर भी बन बैठा था ॥ ४६ ॥

४७-और बोला कि तू मेरा रूप नहीं देख सकता क्योंकि मुझे देख के कोई मनुष्य न लियेगा ॥ और परमेश्वर ने कहा कि देख एक स्थान मेरे पास है और तू उस टीले पर खड़ा रह ॥ और यों हीगा कि जब मेरा विभव चसक निकलेगा तो मैं तुम्हे पहाड़ के दरार में रक्खूंगा और जब लों जा निकलूं तुम्हे अपने हाथ से ढांपूंगा ॥ और अपना हाथ उठा लूंगा और तू मेरा पीछा देखेगा परन्तु मेरा रूप दिखाई न देगा ॥ तौ० या० प० ३३ । आ० २० । २१ । २२ । २३ ॥

समीचक-अब देखिये ! ईसाइयों का ईश्वर केवल मनुष्यवत् शरीरधारी और मूसा से कैसा प्रपंच रच के आप स्वयं ईश्वर बन गया जो पीछा देखेगा रूप न देखेगा तो हाथ से उस को ढांप दिया भी न हीगा जब खुदा ने अपने हाथ से मूसा को ढांपा हीगा तब क्या उस के हाथ का रूप उस-ने न देखा हीगा ॥ ४७ ॥

लय व्यवस्था की पुस्तक तौ०

४८-और परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, और मण्डली के तंबू में से यह वचन उसे कहा कि ॥ इसराएल के सम्मान में से बोल और उन्हें कह यदि कोई तुम में से परमेश्वर के लिये भेंट जावे तो तुम-दोर में से अर्थात् गाय बैल और भेड़ बकरी में से अपनी भेंट लाओ ॥ तौ० ली० व्यवस्था की पुस्तक-प० १ । आ० १ । २ ॥

समीचक-अब विचारिये ! ईसाइयों का परमेश्वर गाय बैल आदि की भेंट लेने वाला जो कि अपने लिये बलिदान कराने के लिये उपदेश करता है वह बैल गाय आदि पशुओं के लोह मांस का प्यासा भूखा है वा नहीं ? इसी से वह अहिंसक और ईश्वर कोटि में गिना कभी नहीं जा सकता किन्तु मांसाहारी प्रपंची मनुष्य के सदृश है ॥ ४८ ॥

४६—और वह उस बैल को परमेश्वर के आगे बलि करे और हारून के बेटे याजक लोह को निकट लावे और लोह को यज्ञवेदी के चारों ओर जो मण्डली के तंबू के द्वार पर है छिड़के ॥ तब वह उस भैंट के बलिदान की खाल निकाले और उसे टुकड़ा २ करे ॥ और हारून के बेटे याजक यज्ञवेदी पर आग रखे और उस पर लकड़ी चुने ॥ और हारून के बेटे याजक उस के टुकड़ों को और गिर और चिकनाई को उन लकड़ियों पर जो यज्ञवेदी की आग पर हैं विधि से धरे ॥ जिस ते बलिदान की भेंट लावे जो आग से परमेश्वर के सुगन्ध के लिये भेंट किया गया ॥ तौ० लयव्यवस्था की पुस्तक ॥ प० १ आ० ५ । ६ । ७ । ८ । ९ ॥

समीक्षक—तनिक विचारिये ! कि बैल को परमेश्वर के आगे उस के भक्त मारे और वह मरवावे और लोह को चारों ओर छिड़के, अग्नि में हीम करे, ईश्वर सुगन्ध लेवे, भला यह कसाई के घर से कुछ कमती लीला है? इसी से न बाइबल ईश्वरकृत और न वह जंगली मनुष्य के सदृश लीलाधारी ईश्वर हो सकता है ॥ ४६ ॥

५०—फिर परमेश्वर मूसा से यह कह के बोला यदि वह अभिषेक किया हुआ याजक लोगों के पाप के समान पाप करे तो वह अपने पाप के कारण जो उस ने किया है अपने पाप की भेंट के लिये निसखोट एक बकिया परमेश्वर के लिये लावे ॥ और बकिया के गिर पर अपना हाथ रखे और बकिया को परमेश्वर के आगे बली करे ॥ लैव्य० तौ० प० ४० । आ० १ । २ । ४ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! पापों के कुड़ाने के प्रायश्चित्त स्वयं पाप करे गाय आदि उत्तम पशुओं की हत्या करे और परमेश्वर करवावे धन्य हैं इसाई लोग कि ऐसी बातों के करने कराने हारे को भी ईश्वर मान कर अपनी सुक्ति आदि की आशा करते हैं ! ! ! ॥ ५० ॥

५१—जब कोई अथर्व पाप करे ॥ तब वह बकरी का निसखोट नर मन्त्रा अपनी भेंट के लिये लावे ॥ और उसे परमेश्वर के आगे बली करे यह पाप की भेंट है ॥ तौ० लै० प० ४ । आ० २२ । २३ । २४ ॥

समीक्षक—वाह जी ! वाह !! यदि ऐसा है तो इन के अथर्व अर्थात् न्यायाधीश तथा सेनापति आदि पाप करने से क्यों डरते होंगे ? आप तो यथेष्ट पाप करें और प्रायश्चित्त के बदले में गाय, बकिया, बकरे आदि के प्राण लेवे, तभी तो इसाई लोग किसी पशु वा पत्नी के प्राण लेने में शंकित नहीं होते । सुनो इसाई लोगो ! अब तो इस जंगली मत की छीड़ के सुसभ्यधर्ममय वेदमत को स्वीकार करो कि जिस से तुम्हारा कल्याण हो ॥ ५१ ॥

५२—और यदि उम्र भेड़ लाने की पूंजी न होती वह अपने किये हुए अपराध के लिये दो पिंडुकियां और कपोत के दो बच्चे परमेश्वर के लिये लावे ॥ और उस का गिर उस के गले के पास से मरोड़ डाले परन्तु अन्न न करे ॥ इस के

किये हुए पाप का प्रायश्चित्त करे और उस के किये जमा किया जायगा ॥ पर यदि उसे दो पिंडुकियां और कपोत के दो बच्चे खाने की पूंजी न हो तो सेर भर चौखा पिसान का दशवां हिस्सा पाप की भेंट के लिये लावे * उस पर तेल न डाले ॥ और वह जमा किया जायगा ॥ तौ० लै० प० ५ । आ० ७ । ८ । १० । ११ । १३ ॥

समीचक-अब सुनिये ! ईसाइयों में पाप करने से कोई धनाढ्य दरिद्र भी न डरता होगा और न गरीब क्योंकि इनके ईश्वर ने पापों का प्रायश्चित्त करना सहज कर रक्खा है एक यह बात ईसाइयों की बायबल में बड़ी अद्भुत है कि बिना कष्ट किये पाप से पाप छूट जाय क्योंकि एक तो पाप किया और दूसरे जीवों की हिंसा की और खून आनन्द से मांस खाया, और पाप भी छूट गया भला कपोत के बच्चे का गला मरोड़ने से वह बहुत देर तक तड़फता होगा तब भी ईसाइयों का दया नहीं आती । दया क्यों कर आवे इनके ईश्वर का उपदेश ही हिंसा करने का है और जब सब पापों का ऐसा प्रायश्चित्त है तो ईसा के विश्वास से पाप छूट जाता है यह बड़ा आडंबर क्यों करते हैं ? ॥ ५२ ॥

५३—सो उसी बलिदान की खाल उसी याजक की होगी जिस ने उसे चढ़ाया ॥ और समस्त भोजन को भेंट जो तन्दूर में पकाई जावे और सब जो कड़ाही में अथवा तवे पर सो उसी याजक की होगी ॥ तौ० लै० प० ७ । आ० ८ । ९ ॥

समीचक-हम जानते थे कि यहां देवी के भोपे और मन्दिरों के पुजारियों की पोपलीला विचित्र है परन्तु ईसाइयों के ईश्वर और उन के पुजारियों की पोपलीला इस से सहस्र गुणी बड़ कर है क्योंकि चाम के दाम और भोजन के पदार्थ खाने को आवें फिर ईसाइयों ने खून मीज उड़ाई होगी ? और अब भी उड़ाते हीं गे ? भला कोई मनुष्य एक लड़के को मरवावे और दूसरे लड़के को उस का मांस खिलावे ऐसा कभी हो सकता है ? वैसे ही ईश्वर के सब मनुष्य और पशु, पक्षी आदि सब जीव पुत्रवत् हैं । परमेश्वर ऐसा काम कभी नहीं कर सकता, इसी से यह बाइबल ईश्वरकृत और इस में लिखा ईश्वर और इस के मानने वाले धर्मज्ञ कभी नहीं हो सकते ऐसी ही सब बातें लयव्यवस्था आदि पुस्तकों में भरी हैं कहां तक गिनावें ॥ ५३ ॥

* इस ईश्वर का धर्म है ! कि जिस ने बकड़ा; भेड़ी और बकरी का यज्ञ; कपोत और पिसान (चाटे) तक लेने का नियम किया । अद्भुत बात तो यह है कि कपोत के बच्चे "गरदन मरोड़वाके" लेता था अर्थात् गर्दन तोड़ने का परिश्रम न करना पडे । इन सब बातों के देखने से विदित होता है कि जंगलियों में कोई चमुर पुरुष या वह पहाड पर जा बैठा और अपने को ईश्वर प्रसिद्ध किया । जो जंगली अज्ञानी थे उन्होने उसी को ईश्वर स्वीकार कर लिया । अपनी युक्तियों से वह पहाड परहीं पाने के लिये पशु पक्षी और अनादि नंगा लिया करता था और मीज करता था । उस के दूत फरिश्ते काम किया करते थे । सज्जन लोग विचारें कि कहां तो बाइबल में बकड़ा; भेड़ी; बकरी का यज्ञ; कपोत और "अच्छे" पिसान का पाने वाला ईश्वर और कहां सर्वथापक, सर्वज्ञ, अजन्मा, निराकार, सर्वशक्तिमान् और न्यायकारी इत्यादि उच्चत गुणयुक्त वेदीत ईश्वर ? ।

गिनती की पुस्तक

५४—सो गदही ने परमेश्वर के दूत को अपने हाथ में तलवार खेंचे हुए मार्ग में खड़ा देखा तब गदही मार्ग से अलग रीत में फिर गई उसे मार्ग में फिरने के लिये बलत्रामने गदही को लाठी से मारा ॥ तब परमेश्वर ने गदही का मुह खोला और उस ने बलत्राम से कहा कि मैं ने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे अब तीन बार मारा । ती० गि० प० २२ । आ० २३ । २८ ॥

समीचक-प्रथम तो गदही तक ईश्वर के दूतों को देखते थे और आज कल विग्रह पादरी आदि अष्ट वा अष्ट मनुष्यों को भी खुदा वा उस के दूत नहीं देखते हैं क्या आज कल परमेश्वर और उस के दूत हैं वा नहीं ? यदि हैं तो क्या बड़ी नींद में सोते हैं ? वा रोगी अथवा अन्य भूगोल में चले गये ? वा किसी अन्य धन्धे में लग गये ? वा अब ईसाइयों से रुष्ट हो गये ? अथवा मर गये ? विदित नहीं होता कि क्या हुआ अनुमान तो ऐसा होता है कि जो अब नहीं हैं नहीं देखते तो तब भी नहीं थे और न देखते होंगे किन्तु ये केवल मनमाने गपोड़े उड़ाये हैं ॥ ५४ ॥

समुएल की दूसरी पुस्तक

५५—और उसी रात ऐसा हुआ कि परमेश्वर का बचन यह कह के नातन को पहुंचा ॥ कि जा और मेरे सेवक दाजद से कह कि परमेश्वर यों कहता है मेरे निवास के लिये तू एक घर बनावे गा क्यों जब से इसराएल के सन्तान को मिश्र से निकाल लाया मैंने तो आज के दिन लों घर में वास न किया परन्तु तंबू में और डेरे में फिरा किया । ती० समुएल की दूसरी पु० प० ७ । आ० ४।५ । ६ ॥

समीचक-अब कुछ समझ न रहा कि ईसाइयों वा ईश्वर मनुष्यवत् देहधारी नहीं है । और उलहना देता है कि मैं ने बहुत परिश्रम किया ब्रधर उधर डोसता फिरा अब दाजद घर बना दे तो उस में आराम करूं, क्यों ईसाइयों को ऐसे ईश्वर और ऐसे पुस्तक को मानने में लज्जा नहीं आती ? परन्तु क्या करें विचारि फस ही गये अब निकलने के लिये बड़ा पुरुषार्थ करना उचित है ॥ ५५ ॥

राजाओं का पुस्तक

५६—और बाबुल के राजा नबूखद नजर के राज्य के उन्नीसवें वर्ष के पांचवें मास सातवीं तिथि में बाबुल के राजा का एक सेवक नबूसर अदान जो निज सेना का प्रधान अध्यक्ष था यरूसलम में आया और उस ने परमेश्वर का मन्दिर और राजा का शिवन और यरूसलम के सारे घर और हर एक बड़े घर को जला दिया और कसदियों की सारी सेना ने जो उस निज सेना के अध्यक्ष के साथ ही यरूसलम की भीतों को चारों ओर से टा दिया । ती० रा० प० २५ । आ० ८ । ९ । १० ॥

समीक्षक—क्या किया जाय ईसाइयों के ईश्वर ने तो अपने आराम के लिये दाजद आदि से घर बनवाया था उस में आराम करता होगा, परन्तु नवूसर अहान ने ईश्वर के घर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और ईश्वर वा उस के दूतों की सेना कुछ भी न कर सकी प्रथम तो इनका ईश्वर बड़ी लड़ाइयां मारता था और विजयी होता था परन्तु अब अपना घर जला तुड़वा बैठा न जाने चुप चाप क्यों बैठा रहा ? और न जाने उस के दूत किधर भाग गये ? ऐसे समय पर कोई भी काम न आया और ईश्वर का पराक्रम भी न जाने कहां उड़ गया ? यदि यह बात सच्ची ही तो जो २ विजय की बातें प्रथम लिखीं सो २ सब व्यर्थ ही गईं क्या मिश्र के लड़के लड़कियों के मारने में ही शूरवीर बसा था ? अब शूरवीरों के सामने चुप चाप ही बैठा ? यह तो ईसाइयों के ईश्वर ने अपनी निन्दा और अप्रतिष्ठा करा ली ऐसे ही हजारों इस पुस्तक में निकम्बी कहानियां भरो हैं ॥ ५६ ॥

जबूर दूसरा भाग

काल के समाचर की पहिली पुस्तक

५७—सी परमेश्वर मेरे ईश्वर ने इसराएल पर मरी भेजी और इसराएल में से सत्तर सहस्र पुरुष गिर गये । कान्न० दू० २ । प० २१ । आ० १४ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! इसराएल के ईसाइयों के ईश्वर की लीला जिस इसराएल कुल को बहुत से बर दिये थे और रात दिन जिन के पालन में डोलता था अब भट क्षीणित हो कर मरी डाल के सत्तर सहस्र मनुष्यों को मार डाला जो यह किसी कवि ने लिखा है सत्य है कि :-

क्षणो रुष्टः क्षणो तुष्टो रुष्टस्तुष्टः क्षणो क्षणो ।

अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयंकर ॥ १ ॥

जैसे कोई मनुष्य जण में प्रसन्न, जण में अप्रसन्न होता है अर्थात् जण २ में प्रसन्न अप्रसन्न होवे उस की प्रसन्नता भी भयदायक होती है वैसे लीला ईसाइयों के ईश्वर की है ॥ ५७ ॥

ऐयूब की पुस्तक

५८—और एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर के आगे ईश्वर के पुत्र आ खड़े हुए और शैतान भी उन के मध्य में परमेश्वर के आगे आ खड़ा हुआ । और परमेश्वर ने शैतान से कहा कि तू कहां से आता है तब शैतान ने उत्तर दे के परमेश्वर से कहा कि पृथिवी पर घूमते और इधर उधर से फिरते चला आता हूँ । तब परमेश्वर ने शैतान से पूछा कि तू ने मेरे दास ऐयूब को जाना है कि उस के

समान पृथिवी में कोई नहीं है वह सिद्ध और खरा जन ईश्वर से डरता और पाप से अलग रहता है और अब लो। अपनी सच्चाई को धर रक्खा है और तू ने मुझे उसे अकारण नाश करने को उभारा है। तब शैतान ने उत्तर दे के परमेश्वर से कहा कि चाम के लिये चाम हां जो मनुष्य का है सो अपने प्राण के लिये देगा। परन्तु अब अपना हाथ बढ़ा और उस के हाड मांस को छू तब वह निःसन्देह तुम्हें तेरे सामने त्यागे गा। तब परमेश्वर ने शैतान से कहा कि देख वह तेरे हाथ में है केवल उस के प्राण को बचा। तब शैतान परमेश्वर के आगे से चला गया और ऐयूब की शिर से तलवेलों बुरे फोड़ों से मारा। जबूर ऐयू० प० २। आ० १। २। ३। ४। ५। ६। ७॥

समीचक—अब देखिये! ईसाइयों के ईश्वर का सामर्थ्य कि शैतान उस के सामने उस के भक्तों को दुःख देता है न, शैतान को दण्ड, न अपने भक्तों को बचासकता है और न दूतों में से कोई उस का सामना कर सकता है। एक शैतान ने सब को भयभीत कर रक्खा है। और ईसाइयों का ईश्वर भी सर्वज्ञ नहीं है जो सर्वज्ञ होता तो ऐयूब को परीक्षा शैतान से क्यों कराता ? ॥ ५८ ॥

उपदेश की पुस्तक

५८—हां मेरे अन्तःकरण ने बुद्धि और ज्ञान बहुत देखा है और मैं ने बुद्धि और बौद्धिापन और मूर्खता जानने को मन लगाया मैंने जान लिया कि यह भी मन का झूझक है। क्योंकि अधिक बुद्धि में बड़ा शोक है और जो ज्ञान में बढ़ता है सो दुःख में बढ़ता है। ज० उ० प० १। आ० १६। १७। १८ ॥

समीचक—अब देखिये! जो बुद्धि और ज्ञान पर्यायवाची हैं उन को दो मानते हैं, और बुद्धिबुद्धि में शोक और दुःख मानना बिना अविद्वानों के ऐसा लेख कौन कर सकता है? इस लिये यह बाइबल ईश्वर की बनाई तो क्या किसी विद्वान् की भी बनाई नहीं है ॥ ५९ ॥

यह थोड़ा सा तीरत जबूर के विषय में लिखा, इस के आगे कुछ मत्तीरचित आदि इंजील के विषय में लिखा जाता है कि जिस को ईसाई लोग बहुत प्रमाणभूत मानते हैं जिस का नाम इब्नीन रक्खा है उस की परीक्षा थोड़ी सी लिखते हैं कि यह कैसी है।

मत्तीरचित इंजील

६०—यीशु ख्रीष्ट का जन्म इस रीति से हुआ उस की माता मरियम को दूसफ से संगनी हुई थी पर उन के इकट्टे होने के पहिले ही वह देख पड़ी कि पवित्र आत्मा से गर्भवती है देखो परमेश्वर के एक दूत ने स्वप्न में उसे दर्शन दे कहा

हे दाऊद के सन्तान यूसफ ! तू अपनी स्त्री मरियम को यहाँ लाने से मत डर क्यों-
कि उस को जो गर्भ रहा है सो पवित्र आत्मा से है ॥ इ० प० १ । आ० १८ । २० ॥

समीक्षक—इन बातों को कोई विद्वान् नहीं मान सकता कि जो प्रत्यक्षादि
प्रमाण और सृष्टिक्रम से सिद्ध हैं इन बातों का मानना मूर्ख मनुष्य जंगलियों
का काम है सख्य विद्वानों का नहीं भला जो परमेश्वर का नियम है उसको कोई
तोड़ सकता है ? जो परमेश्वर भी नियम को उलटा पलटा करे तो उस की
आज्ञा को कोई ग माने और वह भी सर्वज्ञ और निर्भ्रम है ऐसे तो जिस २ कुमा-
रिका के गर्भ रह जाय तब सब कोई ऐसे कह सकते हैं कि इस में गर्भ कारहना
ईश्वर की ओर से और भूँठा मूँठ कह दे कि परमेश्वर के दूत ने शुभ्र को स्वप्न
में कह दिया है कि यह गर्भ परमात्मा की ओर से है जैसा यह असंभव प्रपंच रचा
है वैसा ही सूर्य से कुत्ती का गर्भवती होना भी पुराणों में असंभव लिखा है ऐसी २
बातों को आख के अरुधे गाँठ के पूरे लोग मान कर भ्रमजाल में गिरते हैं यह
ऐसी बात हुई होगी किसी पुरुष के साथ समागम होने से गर्भवती मरियम हुई
होगी उस ने या किसी दूसरे ने ऐसी असंभव बात उड़ा दी होगी कि इस में गर्भ
ईश्वर की ओर से है ॥ ६० ॥

६१—तब आत्मा यीशु को जङ्गल में ले गया कि शैतान से उस की परीचा
की जाय वह चालीस दिन और चालीस रात उपवास करके पीछे भूखा हुआ तब
परीचा करने हारे ने कहा कि जो तू ईश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर
रोटियां बन जावें । इ० प० ४ । आ० १ । २ । ३ ॥

समीक्षक—इस से स्पष्ट सिद्ध होता है कि ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं क्योंकि
जो सर्वज्ञ होता तो उस की परीचा शैतान से क्यों कराता स्वयं जान लेता भला
किसी ईसाई को आज कल चालीस रात चालीस दिन भूखा रखें तो कभी बच
सके गा ? और इस से यह भी सिद्ध हुआ कि न वह ईश्वर का बेटा और न कुछ
उस में करामात अर्थात् सिद्धि थी नहीं तो शैतान के सामने पत्थर रोटियां क्यों
न बना देता ? और आप भूखा क्यों रहता ? और सिद्धान्त यह है कि जो पर-
मेश्वर ने पत्थर बनाये हैं उन को रोटि की कोई भी नहीं बना सकता और ईश्वर
भी पूर्वकृत नियमको उलटा नहीं कर सकता क्योंकि वह सर्वज्ञ और उस के सब
काम विना भूल चूक के हैं ॥ ६१ ॥

६२—उस ने उन से कहा मेरे पीछे आओ मैं तुम को मनुष्यों के मनुष्य बनाऊँ
गा वे तुरन्त जाहों को छोड़ के उस के पीछे हो लिये ॥ इ० प० ४ । आ० १६ ।
२० । २१ ॥

समीक्षक—विदित होता है कि इसी पाप अर्थात् जो तीरेत में दृश आज्ञायों
में लिखा है कि (सन्तान लोग अपने माता पिता की सेवा और मान्य करे

जिस से उन को उमर बढ़े सो) ईसा ने न अपने माता पिता को सेवा की और दूसरे को भी माता पिता की सेवा से छुड़ाये इसी अपराध से चिरंजीवी न रहा और यह भी विदित हुआ कि ईसा ने मनुष्यों के फसाने के लिये एक मत चलाया है कि जाल में मच्छी के समान मनुष्यों को खमत में फसा कर अपना प्रयोजन साधे जब ईसा ही ऐसा था तो आज काल के पादरी लोग अपने जाल में मनुष्यों को फसाने तो क्या आश्चर्य है? क्योंकि जैसे बड़ी २ और बहुत मच्छियों को जाल में फसाने वाले की प्रतिष्ठा और जीविका अच्छी होती है ऐसे ही जो बहुतों को अपने मत में फसा ले उस की अधिक प्रतिष्ठा और जीविका होती है। इसी से ये लोग जिन्होंने वेद और शास्त्रों को न पढ़ा न सुना उन विचार भोले मनुष्यों को अपने जाल में फसा के उस के मा बाप कुटुम्ब आदि से पृथक् कर देते हैं इस से सब विद्वान् आर्यों को उचित है कि स्वयं इन के भ्रमजाल से बच अन्य अपने भोले भाइयों के बचाने में तत्पर रहें ॥ ६२ ॥

६३--तब यीशु सारे गालील देश में उन की सभाओं में उपदेश करता हुआ और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हुआ और लोगों में हर एक रोग और हर एक व्याधि को चंगा करता हुआ फिरा किवा सब रोगियों को जो नाना प्रकार के रोगों और पीड़ाओं से दुःखी थे और भूतग्रस्तों और मृगी वाले और अर्धाङ्गियों को उस पास लाये और उस ने उन्हें चंगा किया ॥ इ० मत्ती० प० ४ । आ० २३ । २४ । २५ ॥

समीचक-जैसे आज काल पोपलीला निकालने मन्त्र पुरस्करण आशीर्वाद बीज और भस्म की चुटुकी देने से भूतों को निकालना रोगों को छुड़ाना सच्चा ही तो वह इज्जील की बात भी सच्ची होवे इस कारण भोले मनुष्यों को भ्रम में फसाने के लिये ये बातें हैं जो ईसाई लोग ईसा की बातों को मानते हैं तो यहां के देवी पोपों की बातें क्यों नहीं मानते ? क्योंकि वे बातें इन्हीं के सदृश हैं ॥ ६३ ॥

६४--धन्य वे जो मन में दौन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है क्योंकि मैं तुम से सच कहता हूँ कि जब लो आकाश और पृथिवी टल न जायें तब लो व्यवस्था से एक मात्रा अथवा एक धिन्दू बिना पूरा हुए नहीं टलेगा । इस लिये इन अतिकोटी आज्ञाओं में से एक को लोप कर और लोगों को वैसे ही सिखावे वह स्वर्ग के राज्य में सब से छोटा कहावे गा ॥ इ० मत्ती० प० ५ । आ० ३ । ४ । १८ । १९ ॥

समीचक-जो स्वर्ग एक है तो राजा भी एक होना चाहिये इस लिये जितने दौन हैं वे सब स्वर्ग को जायेंगे तो स्वर्ग में राज्य का अधिकार किस को होगा अर्थात् परस्पर लड़ाई भिड़ाई करेंगे और राज्यव्यवस्था खण्ड खण्ड हो जायगी ? और दौन के कहने से जो कंगले लो गे तब तो ठीक नहीं जो निरभिमानी लो गे

तो भी ठीक नहीं क्योंकि दीन और अभिमान का एकार्थ नहीं किन्तु जो मन में दीन होता है उस को सन्तोष कभी नहीं होता इस लिये यह बात ठीक नहीं। जब आकाश पृथिवी टल जायें तब व्यवस्था भी टल जायगी ऐसी अनित्य व्यवस्था मनुष्यों की होती है सर्वज्ञ ईश्वर की नहीं और यह एक प्रलोभन और भयमात्र दिया है कि जो इन आज्ञाओं को न माने गा वह स्वर्ग में सब से छोटा गिना जायगा ॥ ६४ ॥

६५—हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। अपने लिये पृथिवी पर धन का संचय मत करो ॥ इ० म० । प० ६ । आ० ११ । १८ ॥

समीक्षक—इस से विदित होता है कि जिस समय ईसा का जन्म हुआ है उस समय लोग जङ्गली और दरिद्र थे तथा ईसा भी वैसा ही दरिद्र था इसी से तो दिन भर की रोटी की प्राप्ति के लिये ईश्वर की प्रार्थना करता और गिबलाता है। जब ऐसा है तो ईसाई लोग धनसंचय क्यों करते हैं उन को चाहिये कि ईसा के वचन से विरुद्ध न चल कर सब दान पुण्य करके दीन हो जायें ॥ ६५ ॥

६६—हर एक जो सुभ से हे प्रभु २ कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करे गा। इ० म० । प० ७ । आ० २१ ॥

समीक्षक—अब विचारिये बड़े २ पादरी विशप साहेब और कथीन लोग जो यह ईसा का वचन सत्य है ऐसा समझें तो ईसा को प्रभु अर्थात् ईश्वर कभी न कहें यदि इस बात को न मानेंगे तो पाप से कभी नहीं बच सकेंगे ॥ ६६ ॥

६७—उस दिन में बहुतेरे सुभ से कहेंगे तब मैं उन से खोल के कहेंगे गा मैं ने तुम को कभी नहीं जाना है कुकर्म करने हारे सुभ से दूर होओ। इ० म० । प० ७ । आ० २२ । २३ ॥

समीक्षक—देखिये ईसा जंगली मनुष्यों को विश्वास कराने के लिये स्वर्ग में न्यायाधीश बनना चाहता था यह केवल भोले मनुष्यों को प्रलोभन देने की बात है ॥ ६७ ॥

६८—और देखो एक कोढ़ी ने आ उस को प्रणाम कर कहा है प्रभु जो आप चाहें तो सुभे शुद्ध कर सकते हैं यीशु ने हाथ बढ़ा उसे छू के कहा मैं तो चाहता हूँ शुद्ध हो जा और उस का कोढ़ तुरन्त शुद्ध हो गया ॥ इ० म० । प० ८ । आ० २३ ॥

समीक्षक—ये सब बातें भोले मनुष्यों के फसाने की हैं क्योंकि जब ईसाई लोग इन विद्या सृष्टिक्रम विरुद्ध बातों को सत्य मानते हैं तो शुक्राचार्य, धन्वन्तरि, कश्यप आदि की बात जो पुराण और भारत में अनेक दैत्यों की मरी हुई सेना को जिला दिई बृहस्पति के पुत्र कच को टुकड़ा २ कर जानवर और मच्छियों

समीचक—अब देखिये! क्या यह आज-काल के भूटे सिद्धों और इन्द्रजालि आदि के लयान छल की बात नहीं है उन रोटियों में अन्य रोटियां कहां से आ गईं ? यदि ईसा में ऐसी सिद्धियां हार्तीं तो आप भूखा हुआ गूलर के फल खाने की क्यों भटका करता था अपने लिये मिट्टी पानी और पत्थर आदि से मोहन भोग रोटियां क्यों न बना लीं ? ये सब बातें लड़कों के खेलघन की हैं जैसे कितने ही साधु वैरागी ऐसी छल की बातें करके भोले मनुष्यों को ठगते हैं वैसे ही ये भी हैं ॥७२॥

७२—और तब वह हर एक मनुष्य को उस के कार्य के अनुसार फल देगा इ० म० प० १६ । आ० २७ ॥

समीचक—जब कर्मानुसार फल दिया जायगा तो ईसाइयों का पाप क्षमा होने का उपदेश करना व्यर्थ है और वह सच्चा ही तो यह भूटा होवे यदि कोई कहे कि क्षमा करने के योग्य क्षमा किये जाते और क्षमा न करने योग्य क्षमा नहीं किये जाते हैं यह भी ठीक नहीं क्योंकि सब कर्मों के फल यथायोग्य देने ही से न्याय और पूरी दया होती है ॥ ७२ ॥

७४—हे अविश्वासी और हठीले लोगो मैं तुम से सत्य कहता हूं यदि तुम को राई के एक दाने के तुल्य विश्वास है तो तुम इस पहाड़ से जो कहेगे कि यहां से वहां चला जाय वह चला जायगा और कोई काम तुम से असाध्य नहीं होगा इ० म० प० १७ । आ० १७ । २० ॥

समीचक—अब जो ईसाई लोग उपदेश करते फिरते हैं कि—आओ हमारे मत में पाप क्षमा कराओ, सुक्ति पाओ आदि । वह सब मिथ्या है । क्योंकि जो ईसा में पाप छुड़ाने विश्वास न जमाने और पवित्र करने का सामर्थ्य होता तो अपने शिष्यों के आभाओं को निष्पाप विश्वासी पवित्र क्यों न कर देता ? जो ईसा के साथ २ घूमते थे जब उन्हीं को शुद्ध विश्वासी और कल्याण न कर सका तो वह मरे पर न जाने कहां है ? इस समय किसी को पवित्र नहीं कर सके गा जब ईसा के चले राई भर विश्वास से रहित थे और उन्हीं ने यह इन्जील पुस्तक बनाई है तब इस का प्रमाण नहीं हो सकता क्योंकि जो अविश्वासी अपवित्रात्मा अधर्मों मनुष्यों का लेख होता है उस पर विश्वास करना कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्यों का काम नहीं और इसी से यह भी सिद्ध हो सकता है कि जो ईसा का यह वचन सच्चा है तो किसी ईसाई में एक राई के दाने के समान विश्वास अर्थात् ईमान नहीं है जो कोई कहे कि हम में पूरा वा घोड़ा विश्वास है तो उस से कहना कि आप इस पहाड़ की मार्ग में से हटा दें यदि उन के हटाने से हट जाय तो भी पूरा विश्वास नहीं किन्तु एक राई के दाने के बराबर है और जो न हटा सके तो समझो एक छींटा भी विश्वास ईमान अर्थात् धर्म का ईसाइयों में

नहीं है यदि कोई कहे कि यहां अभिमान आदि दोषों का नाम पहाड़ है तो भी ठीक नहीं क्योंकि जो ऐसा ही तो सुरदे, अन्धे, कोढ़ी, भूतग्रस्तों को चक्का कहना भी आलस्य अज्ञानी विषयी और भ्रांतों को बोध करके सचेत कुशल किया होगा जो ऐसा मानें तो भी ठीक नहीं क्योंकि जो ऐसा होता तो स्वशिष्यों को ऐसा क्यों न कर सकता, इस लिये असम्भव बात कहना ईसा की अज्ञानता का प्रकाश करता है भला जो कुछ भी ईसा में विद्या होती तो ऐसी अटाटूट जंगली-पन की बात क्यों कह देता ? तथापि (निरस्तपादपे देश एरण्डोऽपि द्रुमायते) जैसे जिस देश में कोई भी वृक्ष न हो तो उस देश में एरण्ड का वृक्ष सब से बड़ा और अक्का गिना जाता है वैसे महाजंगली अविद्वानों के देश में ईसा का भी हीना ठीक था पर आज कल ईसा की क्या गणना हो सकती है ? ॥ ७४ ॥

७५-मैं तुम्हें सब कहता हूँ जो तुम मन न फिराओ और बालकों के समान न हो खाओ तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाओगे ॥ इ० म० प० १८ । आ० ३ ॥

समीचक-जब अपनी ही दृष्टि से मन का फिराना स्वर्ग का कारण और न फिराना नरक का कारण है तो कोई किसी का पाप पुण्य कभी नहीं ले सकता ऐसा सिद्ध होता है और बालक के समान होने के लेख से यह विदित होता है कि ईसा की बातें विद्या और सृष्टिक्रम से बहुतसी विरुद्ध थीं और यह भी-उस के मन में था कि लोग मेरी बातों को बालक के समान मान लें पूछें गाँछें कुँछें भी नहीं आँख मीच के मान लें बहुत से ईसाइयों की बालबुद्धिबत् चेष्टा है नहीं तो ऐसी युक्ति विद्या से विरुद्ध बातें क्यों मानते ? और यह भी सिद्ध हुआ जो ईसा आप विद्याहीन बालबुद्धि न होता तो अन्य को बालवत् बनने का उपदेश क्यों करता ? क्योंकि जो जैसा होता है वह दूसरे को भी अपने सदृश बनाना चाहता ही है ॥ ७५ ॥

७६-मैं तुम से सब कहता हूँ धनवानों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा फिर भी मैं तुम से कहता हूँ कि ईश्वर के राज्य में धनवान् के प्रवेश करने से ऊँट का सूई के नाके में से जाना सहज है । इ० म० प० १९ । आ० २३ । २४ ॥

समीचक-इस से यह सिद्ध होता है कि ईसा दरिद्र या धनवान् लोग उस की प्रतिष्ठा नहीं करते होंगे इस लिये यह लिखा होगा परन्तु यह बात सब नहीं क्योंकि धनाढ्यों और दरिद्रों में अच्छे बुरे होते हैं जो कोई अक्का काम करे वह अक्का और बुरा करे वह बुरा फल पाता है और इस से यह भी सिद्ध होता है कि ईसा ईश्वर का राज्य किसी एक देश में मानता था सर्वत्र नहीं जब ऐसा है तो वह ईश्वर ही नहीं जो ईश्वर है उस का राज्य सर्वत्र है पुनः उस में प्रवेश करे गा वा न करे गा यह कहना केवल अविद्या की बात है और इस से यह भी आया

कि जितने ईसाई धनाढ्य हैं क्या वे सब नरक ही में जायेंगे ? और दरिद्र सब स्वर्ग में जायेंगे ? भला तनिकसा विचार तो ईसामसीह करते कि जितनी सामग्री धनाढ्यों के पास होती है उतनी दरिद्रों के पास नहीं यदि धनाढ्य लोग विवेक से धर्म मार्ग में व्यय करें तो दरिद्र नीच गति में पड़े रहें और धनाढ्य उत्तम गति को प्राप्त हो सकते हैं ॥ ७६ ॥

७७-यीशू ने उन से कहा मैं तुम से सब कहता हूँ कि नई छष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपने ऐश्वर्य के सिंहासन पर बैठे गा तब तुम भी जो मेरे पीछे होलिये हो बाहर सिंहासनों पर बैठ के इस्राएल के बाहर कुलों का न्याय करो गे जिस किसी ने मेरे नाम के लिये घरों वा भाइयों वा बहिनों वा पिता वा माता वा स्त्री वा लड़कों वा भूमि को त्यागा है सो सो गुणा पावेगा और अनन्त जीवन का अधिकारी होगा ॥ इ० म० । प० १६ । आ० २८ । २६ ॥

समीचक—अब देखिये ! ईसा के भीतर की लीला कि मेरे जाल से मरे पीछे भी लोग न निकल जाय और जिस ने ३०) रूपये के लोभ से अपने गुरु को पकाड़ा मरवाया वैसे पापी भी इस के पास सिंहासन पर बैठें गे और इस्राएल के कुल का पक्षपात से न्याय ही न किया जायगा किन्तु उन के सब गुण माफ और अन्य कुलों का न्याय करें गे अनुमान होता है इसी से ईसाई लोग ईसाइयों का बहुत पक्षपात कर किसी गोरे ने काले को मार दिया हो तो भी बहुधा पक्षपात से निरपराधी कर छोड़ देते हैं ऐसा ही ईसा के स्वर्ग का भी न्याय होगा और इस से बड़ा दोष आता है क्योंकि एक छष्टि की आदि में मरा और एक (कयामत) की रात के निकट, एक तो आदि से अन्त तक आशा ही में पड़ा रहा कि कब न्याय होगा और दूसरे का उसी समय न्याय ही गया यह कितना बड़ा अन्याय है और जो नरक में जाय गा सो अनन्त काल तक नरक भोगे और स्वर्ग में जाय गा वह सदा स्वर्ग भोगे गा यह भी बड़ा अन्याय है क्योंकि अन्त वाले साधन और कर्मों का फल अन्तवाला होना चाहिये और तुल्य पाप वा पुण्य दो जीवों का भी नहीं हो सकता इस लिये तारतम्य से अधिक न्यून सुख दुःख वाले अनेक स्वर्ग और नरक हीं तभी सुख दुःख भोग सकते हैं सो ईसाइयों के पुस्तक में कहीं व्यवस्था नहीं इस लिये यह पुस्तक ईश्वरकृत वा ईसा ईश्वर का बेटा कभी नहीं हो सकती यह बड़े अनर्थ की बात है कि कादापि किसी के मा बाप सो ही नहीं हो सकते किन्तु एक को एक मा और एक ही बाप होता है अनुमान है कि सुसत्त्वानों ने जो एक को ७२ स्त्रियां बहिष्ठ में मिलती हैं लिखा है सो यहीं से लिया होगा ॥ ७७ ॥

७८-भोर को जब वहन घर को फिर जाता था तब उसको भूख लगी और मार्ग में एक गूलर का वृक्ष देख के वह उस पास आया परन्तु उस में और कुछ

न पाया केवल पक्षे और उस को कहा तुझ में फिर कभी फल न लगेगे इस पर गूजर का पेड़ तुरन्त सूख गया । इ० म० प० २१ । आ० १८ । १९ ॥

समीचक-सब पादरी लोग ईसाई कहते हैं कि यह बड़ा शान्त श्रमान्वित और क्रोधादि दोषरहित था परन्तु इस बात को देखने से ज्ञात होता है कि ईसा क्रोधी और ऋतु के ज्ञानरहित था और वह जंगली मनुष्यपन के स्वभावयुक्त वर्सता था भला जो जड़ पदार्थ है उस का क्या अपराध था कि उस को शाप दिया और वह सूख गया इस को शाप से तो न सूखा होगा किन्तु कोई वैसी ओषधी ढालने से सूख गया हो तो आश्चर्य नहीं ॥ ७८ ॥

७९-उन दिनों क्षीण के पीछे तुरन्त सूर्य अंधियारा हो जायगा और चांद्र अपनी ज्योति न देगा ताके आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की सेना हिय जायगी । इ० म० प० २४ । आ० २९ ॥

समीचक-वाह जो ईसा तारों को किस विद्या से गिर पड़ना आप ने जाना और आकाशकी सेना कौन सी है जो हिय जायगी? जो कभी ईसा थोड़ी भी विद्या पढ़ता तो अवश्य जान लेता कि ये तारे सब भूगोल हैं क्योंकर गिरेंगे इस से विदित होता है कि ईसा बड़ई के कुल में उत्पन्न हुआ था सदा लकड़े चौरना छीलना काटना और जोड़ना करता रहा होगा जब तरंग उठा कि मैं भी इस जंगली देश में पैगम्बर हो सकूंगा बातें करने लगा कितनी बातें उस के मुख से अच्छी भी निकलीं और बहुत सी बुरी, वहां के लोग जंगली थे मान बैठे जैसा आज कल यूरोपदेश उन्नतियुक्त है वैसा पूर्व होता तो इस की सिद्धाई कुछ भी न चलती अब कुछ विद्या हुए पश्चात् भी व्यवहार के पंच और हठ से इस पाल मत को न छोड़ कर सर्वथा सत्य वेदमार्ग की ओर नहीं झुकते यही इन में न्यूनता है ॥ ७९ ॥

८०-आकाश और पृथ्वि टल जायंगे परन्तु मेरी बातें कभी न टलेंगी ॥ इ० म० प० २४ । आ० ३५ ॥

समीचक-यह भी बात अविद्या और सूखता की है भला आकाश हिल कर कहां जायगा जब आकाश अतिसूख होने से नेत्र से देखता नहीं तो इस का हिलना कौन देख सकता है ? और अपने मुख से अपनी बड़ाई करना अच्छे मनुष्यों का काम नहीं ॥ ८० ॥

८१-तब वह उन से जो बाईं ओर हैं कहेगा हे स्थापित लोगो मेरे पास से उस अनन्त आग में जाओ जो शैतान और उस के दूतों के लिये तैयार की गई है । इ० म० प० २५ आ० ४१ ॥

समीचक-भला यह कितनी बड़ी पक्षपात की बात है जो अपने शिष्य हैं उन को स्वर्ग और जो दूसरे हैं उन को अनन्त आग में गिराना परन्तु जब आकाश ही न रहेगा लिखा तो अनन्त आग नरक बहिष्त कहां रहेगी ? जो शैतान और

उस के दूतों को ईश्वर न बनाता तो इतनी नरक की तैयारी क्यों करनी पड़ती ? और एक शैतान ही ईश्वर के भय से न डरा तो वह ईश्वर ही क्या है क्योंकि उसी का दूत ही कर बागी हो गया और ईश्वर उस को प्रथम ही पकड़ कर बंदीगृह में न डाल सका न मार सका पुनः उस को ईश्वरता क्या जिस ने ईसा को भी चालीस दिन दुःख दिया ? ईसा भी उस का कुछ न कर सका तो ईश्वर का बेटा होना व्यर्थ हुआ इस लिये ईसा ईश्वर का न बेटा और न बायबल का ईश्वर, ईश्वर ही सकता है ॥ ८१ ॥

८२-तब बारह शिष्यों में से एक यहूदाह इस करियोती नाम एक शिष्य प्रधान याजकों के पास गया और कहा जो मैं यीशु को आप लोगों के हाथ पकड़वाऊँ तो आप लोग मुझे क्या देंगे उन्हीं ने उसे तीस रुपये देने को ठहराया ॥ इ० म० प० २६ । आ० १४ । १५ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! ईसा की सब करामात और ईश्वरता यहाँ खुल गई क्योंकि जो उस का प्रधान शिष्य था वह भी उस के साक्षात् संग से पवित्रात्मा न हुआ तो औरों को वह मरे पीछे पवित्रात्मा क्या कर सकेगा ? और उस के विष्वासी लोग उस के भरोसे में कितने ठगाये जाते हैं क्योंकि जिस ने साक्षात् संबंध में शिष्य का कुछ कल्याण न किया वह मरे पीछे किसी का कल्याण क्या कर सकेगा ? ॥ ८२ ॥

८३-जब वे खाते थे तब यीशु ने रोटी ले के धन्यवाद किया और उसे तोड़ के शिष्यों को दिया और कहा लेओ खाओ यह मेरा देह है और उस ने कटोरा ले ले धन्यवाद माना और उन को दे के कहा तुम सब इस से पियो क्योंकि यह मेरा लोह अर्थात् नये नियम का है ॥ इ० म० प० २६ । आ० २६ । २७ । ८३ ॥

समीक्षक—भला यह ऐसी बात कोई भी सभ्य करे गा बिना अविद्वान् जंगली मनुष्य के, शिष्यों से खाने की चीज को अपने मांस और पीने की चीजों की लोह नहीं कह सकता और इसी बात को आज कल के ईसाई लोग प्रभुभोजन कहते हैं अर्थात् खाने पीने की चीजों में ईसा के मांस और लोह की भावना कर खाते पीते हैं यह कितनी दुरी बात है ? जिन्होंने अपने गुरु के मांस लोह की भी खाने पीने की भावना से न छोड़ा तो और को कैसे छोड़ सकते हैं ? ॥ ८३ ॥

८४-और वह पिता को और जब दे के दोनों पुत्रों को अपने संग ले गया और शोक करने और बहुत उदास होने लगा तब उस ने उन से कहा कि मेरा मन यहाँ लौ अतिउदास है कि मैं मरने पर हूँ और थोड़ा आगे बढ़ के वह सुझ के बल गिरा और प्रार्थना की है मेरे पिता जो हो सके तो यह कटोरा मेरे पास से टल जाय ॥ इ० म० प० ३६ । आ० ३७ । ३८ । ३९ ॥

समीक्षक—देखो ! जो वह केवल मनुष्य न होता ईश्वर का बेटा और त्रिका-लदर्शी और विद्वान् होता तो ऐसी अयोग्य चेष्टा न करता इस से स्पष्ट विदित

होता है कि यह प्रपंच ईसा ने अथवा उस के चेलों ने झूठ झूठ बनाया है कि वह ईश्वर का बेटा भूत भविष्यत् का वेत्ता और पाप चमा का कर्त्ता है इस से सम्भना चाहिये यह केवल साधारण सूधा सच्चा अविद्वान् था न विद्वान्, न योगी, न सिद्ध था ॥ ८४ ॥

८५-वह बोलता ही था कि देखो यहदाह जो बारह शिष्यों में से एक था आ पहुंचा और लोगों के प्रधान याजकों और प्राचीनों की ओर से बहुत लोग खड़ग और लाठियां लिये उस के संग यीशु के पकड़वाने हारे ने उन्हें यह पता दिया था जिस को मैं चुंबूं उस को पकड़ो और वह तुरन्त यीशु पास आ बोला हे गुरु प्रणाम और उस को चुंमा । तब उन्होंने ने यीशु पर हाथ डाल के उसे पकड़ा तब सब शिष्य उसे कौड़ के भागे अन्त में दो झूठे साक्षी आ के बोले इस ने कहा कि मैं ईश्वर का मन्दिर का सकता हूं उसे तीन दिन में फिर बना सकता हूं तब महायाजक खड़ा हो यीशु से कहा क्या तू झुंझ उत्तर नहीं देता ये लोग तेरे विरुद्ध क्या साक्षी देते हैं परन्तु यीशु चुप रहा इस पर महायाजक ने उस से कहा मैं तुम्हे जीवते ईश्वर की क्रिया देता हूं हम से कह तू ईश्वर का पुत्र खीष्ट है कि नहीं यीशु उस से बोला तू तो कह चुका तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ के कहा यह ईश्वर की निन्दा कर चुका है अब हमें साक्षियों का और क्या प्रयोजन देखो तुम ने अभी उस के मुख से ईश्वर की निन्दा सुनी है अब क्या विचार करते हो तब उन्होंने ने उत्तर दिया वह बध के योग्य है तब उन्होंने ने उस के मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे औरों ने थपड़े मार के कहा हे खीष्ट हम से भविष्यत् वाणी बाल किस ने तुम्हे मारा पितरस बाहर अंगने में बैठा था और एक दासी उस पास आके बोली तू भी यीशु गान्धीली के संग था उन्होंने ने सभों के सामने सुकर के कहा मैं नहीं जानता तू क्या कहती जब वह बाहर डेवढी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देख के जो लोग वहां थे उन से कहा यह भी यीशु नासरी के संग था । उस ने क्रिया खा के फिर सुकरा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता हूं तब वह धिक्कार दे कर देने और क्रिया खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता हूं ॥ इ० म० प० २६ । आ० ४७ । ४८ । ४९ । ५० । ६१ । ६२ । ६३ । ६४ । ६५ । ६६ । ६७ । ६८ । ६९ । ७० । ७१ । ७२ । ७४ ॥

समीक्षक-अब देख लीजिये कि जिस का इतना भी सामर्थ्य वा प्रताप नहीं था कि अपने चले को दृढ़ विश्वास करा सके और वे चले चाहे प्राण भी क्यों न जाते तो भी अपने गुरु को लाभ से न पकड़ाते न सुकरते न मिथ्याभाषण करते न झूठी क्रिया खाते और ईसा भी झुंझ करामाती नहीं था, जैसा, तौरत में लिखा है, कि लूत के घर पर पाहुनों को बहुत से मारने को चढ़ आये थे वहां ईश्वर

के दो दूत थे उन्हीं ने उन्हीं को अन्धा कर दिया यद्यपि यह भी बात असंभव है तथापि ईता में तो इतना भी सामर्थ्य न था और आज कल कितना भड़वा उस के नाम पर ईसाइयों ने बड़ा रक्खा है भला ऐसी दुर्दशा से मरने से आप स्वयं जूझ वा समाधि खड़ा अथवा किसी प्रकार से प्राण छोड़ता तो अच्छा था परन्तु वह बुद्धि विना विद्या के कहां से उपस्थित हो। वह ईसा यह भी कहता है कि ॥८५॥

८६-मैं अभी अपने पिता से विनती नहीं करता हूँ और वह मेरे पास स्वर्ग दूतों की बारह सेनाओं से अधिक पहुंचा न देगा ॥ इ० म० प० २६। आ० ५३॥

समीजक-धमनाता भी जाता अपनी और अपने पिता की बड़ाई भी करता जाता पर कुछ भी नहीं कर सकता देखा आश्चर्य की बात जब महायाजक ने पूछा था कि ये लोग तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं इस का उत्तर दे तो ईसा चुप रहा यह भी ईसा ने अच्छा न किया क्योंकि जो सच था वह वहां अवश्य कह देता तो भी अच्छा होता ऐसी बहुत सी अपने घमण्ड की बातें करनी उचित न थीं और जिन्होंने ईसा पर झूठ दोष लगा कर मारा उन को भी उचित न था क्योंकि ईसा का उस प्रकार का अपराध नहीं था जैसा उस के विषय में उन्हीं ने किया परन्तु वे भी तो जंगली थे न्याय की बातों को क्या समझें ? यदि ईसा झूठ मूठ ईश्वर का बेटा न बनता और वे उस के साथ ऐसी बुराई न वर्तते तो दोनों के लिये उत्तम काम था परन्तु इतनी विद्या धर्मात्मता और न्यायशीलता कहां से लावें ? ॥ ८६ ॥

८७-- यीशु अध्वज के आगे खड़ा हुआ और अध्वज ने उस से पूछा क्या तू यहूदियों का राजा है यीशु ने उस से कहा आप ही तो कहते हैं जब प्रधान-याजक और प्राचीन लोग उस पर दोष लगाते थे तब उस ने कुछ उत्तर नहीं दिया तब पिलाते ने उस से कहा क्या तू नहीं सुनता कि वे लोग तेरे विरुद्ध कितनी साक्षी देते हैं परन्तु उस ने एक बात का भी उस को उत्तर न दिया यहां ली कि अध्वज ने बहुत अचंभा किया पिलाते ने उन से कहा तो मैं यीशु से जो खीष्ट कहावता है क्या करूं सभी ने उस से कहा वह क्रूग पर चढ़ाया जावे और यीशु को कोड़े मार के क्रूग पर चढ़ा जाने को सीप दिया तब अध्वज के योधाओं ने यीशु को अध्वज भुवन में ले जाके सारी पलठन उस पास इकट्ठी की और उन्हीं ने उस का वस्त्र उतार के उसे लाल बागा पहिराया और कांटी का मुकुट गन्ध के उस के गिर पर रक्खा और उस के दहिमें हाथ पर नकट दिया और उस के आगे घुटने टेक के यह कह के उसे ठशा किया है यहूदियों के राजा प्रणाम और उन्हीं ने उस पर धूँका और उस नकट को ले उस के गिर पर मारा जब वे उस से ठशा कर चुके तब उस से वह बागा उतार के मसी का वस्त्र पहिरा के उसे क्रूग पर चढ़ाने को ले गये जब वे एक स्थान पर जो गल गया था अर्थात् खोपड़ी

का स्थान कहाता है पहुंचे तब उन्होंने ने सिरके में पित्त मिला के उसे पीने को दिया परन्तु उस ने चीख के पीना न चाहा तब उन्होंने ने उसे क्रूश पर चढ़ाया और उन्होंने ने उस का दोषपत्र उस के शिर के ऊपर लगाया तब दो डाकू एक दहिनी और और दूसरा बाँई और उस के संग क्रूश पर चढ़ाये गये जो लोग उधर से आते जाते थे उन्होंने ने अपने शिर हिला के और वह कह के उस की निन्दा की हे मन्दिर के ढाहने हारे अपने को बचा जो तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूश पर से उतर आ इसी रीति से प्रधान याजकों ने भी अध्यापकों और प्राचीनों के संगियों ने ठट्ठा कर कहा उस ने औरों को बचाया अपने बचा नहीं सकता है जो वह ब्रह्माएलका राजा है तो क्रूश पर से अब उतर आवे और हम उस का विश्वास करेंगे वह ईश्वर पर भरोसा रखता है यदि ईश्वर उस को चाहता है तो उस को अब बचावे क्योंकि उस ने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूँ जो डाकू उस के संग चढ़ाये गये उन्होंने ने भी इसी रीति से उन की निन्दा की दो प्रहर से तीसरे प्रहर लों सारे देश में अन्धकार हो गया तीसरे प्रहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा "एली एलीलामा सबक्तनीहू" अर्थात् हे मेरे ईश्वर हे मेरे ईश्वर तू ने क्यों सुभे त्यागा है जो लोग वहाँ खड़े थे उन में से कितनों ने यह सुन के कहा वह एलियाह को बुलाता है उन में से एक ने तुरन्त दौड़ के इस पंजरो के सिक्के में भिगावा और नल पर रख के उसे पीने को दिया तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से पुकार के प्राण त्यागा । ३० म० प० २७ । आ० ११ । १२ । १३ । १४ । २२ । २३ । २४ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० । ३१ । ३२ । ३४ । ३७ । ३८ । ३९ । ४० । ४१ । ४२ । ४३ । ४४ । ४५ । ४६ । ४७ । ४८ । ४९ । ५० ॥

समीचक-सर्वथा यीशु के साथ उन दुष्टों ने बुरा काम किया परन्तु यीशु का भी दोष है क्योंकि ईश्वर का न कोई पुत्र न वह किसी का बाप है क्योंकि जो वह किसी का बाप है तो किसी का श्वसुर श्याला संबन्धी आदि भी होवे और जब अध्यक्ष ने पूछा था तब जैसा सच था उत्तर देना था और यह ठीक है कि जो २ आश्चर्य कर्म प्रथम किये हुए सच होते तो अब भी क्रूश पर से उतर कर सब को अपने शिष्य बना लेता और जो वह ईश्वर का पुत्र होता तो ईश्वर भी उस को बचा लेता जो वह त्रिकालदर्शी होता तो सिक्के में पित्त मिले हुए को चीख के क्यों झोड़ता वह पहिले ही से जानता होता और जो वह करामाती होता तो पुकार २ के प्राण क्यों त्यागता? इस से जानना चाहिये कि चाहें कोई कितनी ही चतुराई करे परन्तु अन्त में सच-२ और झूठ ही जाता है इस से यह भी सिद्ध हुआ कि यीशु एक उस समय के जंगली मनुष्यों में से कुछ अच्छा था न वह करामाती, न ईश्वर का पुत्र और न विद्वान् था क्योंकि जो ऐसा होता तो ऐसा वह दुःख क्यों भोगता ? ॥ ८७ ॥

८८—और देखो बड़ा भूदन्तल हुआ कि परमेश्वर का एक दूत उतरा और आ के कावर के द्वार पर से पत्थर लुढ़का के उस पर बैठा वह यहाँ नहीं है जैसे उस ने कहा वैसे जी उठा है जब वे उस के शिष्यों को संदेश जाती थी देखो यीशु उन से आ मिला कहा कल्याण हो और उन्हीं ने निकट आ उस के पाँव पकड़ के उस को प्रणाम किया तब यीशु ने कहा मत डरो जा के मेरे भाइयों से कह दो वह गालील को जावे और वहाँ वे सुभे देखेंगे ख्यारह शिष्य गालील को उस पर-वत में गये जो यीशु ने उन्हें बताया था और उन्हीं ने उसे देख के उस को प्रमाण किया पर कितनों को सन्देह हुआ यीशु ने उन पास आ उन से कहा स्वर्ग में और पृथिवी पर समस्त अधिकार सुभ को दिया गया है और देखो मैं जगत् के अन्त लों सब दिन तुम्हारे संग हूँ । इ० । म० । प० २८ । आ० २ । ६ । ८ । १० । १६ । १७ । १८ । २० ॥

समीचक—यह बात भी मानने योग्य नहीं क्योंकि सृष्टिक्रम और विद्या-विरुद्ध है प्रथम ईश्वर के पास दूतों का होना उन को जहाँ तहाँ भेजना ऊपर से उतरना क्या तहसीलदारी कलेक्टरी के समान ईश्वर को बना दिया ? क्या उसी शरीर से स्वर्ग को गया और जी उठा ? क्योंकि उन स्त्रियों ने उन के पग पकड़ के प्रणाम किया तो क्या वही शरीर था ? और वह तीन दिनों सड़ क्यों न गया और अपने सुख से सब का अधिकारी बनना केवल दंभ की बात है शिष्यों से मिलना और उन से सब बातें करनी असंभव है क्योंकि जो ये बातें सच हों तो आज कल भी कोई क्यों नहीं जी उठते ? और उसी शरीर से स्वर्ग को क्यों नहीं जाते ? यह मत्तोरचित इंजील का विषय हो चुका अब मार्करचित इंजील के विषय में लिखा जाता है ॥ ८८ ॥

मार्करचित इंजील ।

८९—यह क्या बढ़ई नहीं । इ० मार्क प० ६ । आ० ३ ॥

समीचक—अरुल में वृक्षज बढ़ई था इस लिये ईसा भी बढ़ई था कितने ही वर्ष तक बढ़ई का काम करता था पचात् पैगंबर बनता २ ईश्वर का बेटा ही बन गया और जंगली लोगों ने बना लिया तभी बड़ी कारीगरी चलाई काट कूट फूट फाट करना उस का काम है ॥ ८९ ॥

लूकरचित इंजील ।

९०—यीशु ने उस से कहा तू सुभे उचाम क्यों कहता है कोई उचाम नहीं एक अर्थात् ईश्वर । लू० प० १८ । आ० १८ ॥

समीचक—जब ईसा ही एक अर्धतीय ईश्वर कहता है तो ईसाइयों ने पवि-ताका पिता और पुत्र तीन कहां से बना लिये ? ॥ ९० ॥

६१-तब उसे हेरोद के पास भेजा हेरोद यूथीशु को देख के अतिआनन्दित हुआ क्योंकि वह उस को बहुत दिन से देखने चाहता था इस लिये कि उस के विषय में बहुत सी बातें सुनी थीं और उस का कुछ आश्चर्य कर्म देखने को उस को आशा हुई उस ने उस से बहुत बातें पूछी परन्तु उस ने उसे कुछ उत्तर न दिया । लूक० प० २३ । आ० । ८ । ६ ॥

समीचक-यह बात मत्तोरचित में नहीं है इस लिये ये साची विगड़ गये क्योंकि साची एक से होने चाहिये और जो ईसा चतुर और करामाती होता तो (हेरोद को) उत्तर देता और करामात भी दिखलाता इस से विदित होता है कि ईसा में विद्या और करामात कुछ भी न थी ॥ ६१ ॥

योहनरचित सुसमाचार ।

६२-आदि में वचन था और वचन ईश्वर के संग था और वचन ईश्वर था । वह आदि में ईश्वर के संग था । सब कुछ उस के द्वारा सृजा गया और जो सृजा गया है कुछ भी उस बिना नहीं सृजा गया । उस में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों का उजियाला था । प० १ । आ० १ । २ । ३ । ४ ॥

समी०-आदि में वचन बिना वक्ता के नहीं हो सकता और जो वचन ईश्वर के संग था तो यह कहना व्यर्थ हुआ और वचन ईश्वर कभी नहीं हो सकता क्योंकि जब वह आदि में ईश्वर के संग था तो पूर्व वचन वा ईश्वर था यह नहीं घट सकता वचन के द्वारा सृष्टि कभी नहीं हो सकती जब तक उस का कारण न हो और वचन के बिना भी चुप चाप रह कर कर्ता सृष्टि कर सकता है जीवन किस में वा क्या था इस वचन से जीव अनादि मानो गे जो अनादि हैं तो आदम के नधूनों में श्वास फूंकना झूठा हुआ और क्या जीवन मनुष्यों ही का उजियाला है पश्चादि का नहीं ॥ ६२ ॥

६३-और विद्यारी के समय में जब शैतान शिमोन के पुत्र सिद्धदा इस्करियोती के मन में उसे पकड़वाने का मत डाल चुका था । यो० । प० १३ । आ० २ ॥

समी०-यह बात सच नहीं क्योंकि जब कोई ईसाइयों से पूछे गा कि शैतान सब को बहकाता है तो शैतान को कौन बहकाता है जो कहो शैतान आप से आप बहकाता है तो मनुष्य भी आप से आप बहक सकते हैं पुनः शैतान का क्या काम और यदि शैतान का बनाने और बहकाने वाला परमेश्वर है तो वही शैतान का शैतान ईसाइयों का ईश्वर ठहरा परमेश्वर ही ने सब को उस के द्वारा बहाकाया भला ऐसे काम ईश्वर के हो सकते हैं ? सच तो यही है कि यह पुस्तक ईसाइयों का और ईसा ईश्वर का बेटा जिन्होंने बनाये वे शैतान हैं तो हीं किन्तु न यह ईश्वरकत पुस्तक न इस में कहा ईश्वर और न ईसा ईश्वर का बेटा हो सकता है ॥ ६३ ॥

८४—तुम्हारा मन व्याकुल न होवे, ईश्वर पर विश्वास करो और सुभ्र पर विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं नहीं तो मैं तुम से कहता मैं तुम्हारे लिये स्थान तैयार करने जाता हूँ। और जो मैं जाके तुम्हारे लिये स्थान तैयार करूँ तो फिर आ के तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ तहाँ तुम भी रहो। यीशु ने उस से कहा मैं ही मार्ग श्री सत्य श्री जीवन हूँ। विना मेरे द्वारा से कोई पिता के पास नहीं पहुँचता है। जो तुम सुभ्र जानते तो मेरे पिता को भी जानते ॥ यो०। प० १४। आ० १। २। ३। ४। ६। ७ ॥

समी०—अब देखिये ये ईसा के वचन क्या पोपलीला से कमती हैं जो ऐसा प्रपञ्च न रचता तो उस के मत में कौन फसता क्या ईसा ने अपने पिता को ठेके में ले लिया है और जो वह ईसा के वश्य है तो पराधीन होने से वह ईश्वर ही नहीं क्योंकि ईश्वर किसी की सिफारिश नहीं चुनता क्या ईसा के पहिले कोई भी ईश्वर को नहीं प्राप्त हुआ होगा ऐसा स्थान आदि का प्रलोभन देता और जो अपने सुख से आप मार्ग सत्य और जीवन बनता है वह सब प्रकार से दंभी कहाता है इस से यह बात सत्य कभी नहीं हो सकती ॥ ८४ ॥

८५—मैं तुम से सच २ कहता हूँ जो सुभ्र पर विश्वास करे जो काम मैं करता हूँ उन्हें वह भी करेगा और इन से बड़े काम करेगा। यो०। प० १४। आ० १२ ॥

समी०—अब देखिये जो ईसाई लोग ईसा पर पूरा विश्वास रखते हैं वैसे ही सुर्दे जिलाने आदि काम क्यों नहीं कर सकते और जो विश्वास से भी आश्चर्य काम नहीं कर सकते तो ईसा ने भी आश्चर्य कर्म नहीं किये थे ऐसा निश्चित जानना चाहिये क्योंकि स्वयं ईसा ही कहता है कि तुम भी आश्चर्य काम करोगे तो भी इस समय ईसाई कोई एक भी नहीं कर सकता तो किस की हिये की आंख फूट गई हैं वह ईसा को सुर्दे जिलाने आदि का कामकर्ता मान लेवे ॥ ८५ ॥

८६—जो अद्वैत सत्य ईश्वर है। यो०। प० १७। आ० ३ ॥

समी०—जब अद्वैत एक ईश्वर है तो ईसाइयों का तीन कहना सर्वथा मिथ्या है ॥ ८६ ॥

इसी प्रकार बहुत ठिकाने अंजील में अन्यथा बातें भरी हैं ॥

योहन की प्रकाशित वाक्य ॥

अब योहन की अद्भुत बातें सुनो :-

८७—और अपने २ शिर पर सोने के मुकुट दिये हुए थे। और सात अग्नि दीपक सिंहासन के आगे जलते थे जो ईश्वर के सातों आत्मा हैं। और सिंहासन के आगे कांच का समुद्र है और सिंहासन के आस पास चार प्राणी हैं जो आगे और पीछे नेत्रों से भरे हैं। यो० प्र० प० ४। आ० ४। ५। ६ ॥

समी०—अब देखिये एक नगर के तुल्य ईसाइयों का स्वर्ग है। और इन का ईश्वर भी दीपक के समान अग्नि है। और सोने का मुकुटादि आभूषण धारण करना और आगे पीछे नेत्रों का होना असम्भावित है इन बातों को कौन मान सकता है? और वहां सिंहादि चार पशु लिखे हैं ॥ ६० ॥

६०—और मैंने सिंहासन पर बैठने चारों के दृष्टिने हाथ में एक पुस्तक देखा जो भीतर और पीठ पर लिखा हुआ था और सात क्वापों से उस पर क्वाप दी हुई थी। यह पुस्तक खोलने और उस को क्वापें तोड़ने के योग्य कौन है। और न स्वर्ग में न पृथिवी पर न पृथिवी के नीचे कोई वह पुस्तक खोलने अथवा उसे देखने सकता था। और मैं बहुत रोने लगा इस लिये कि पुस्तक खोलने और पढ़ने अथवा उसे देखने के योग्य कोई नहीं मिला। यो०। प्र०। पर्व ५। आ० १। २। ३। ४ ॥

समी०—अब देखिये ईसाइयों के स्वर्ग में सिंहासनों और मनुष्यों का ठाठ और पुस्तक कई क्वापों से बंध किया हुआ जिस को खोलने आदि कर्म करने वाला स्वर्ग और पृथिवी पर कोई नहीं मिला योहन का रोना और पश्चात् एक प्राचीन ने कहा कि वही ईसा खोलने वाला है प्रयोजन यह कि जिस का विवाह उस का गीत देखो! ईसा ही के ऊपर सब माहात्म्य भुकाये जाते हैं परन्तु ये बातें केवल कथनमात्र हैं ॥ ६० ॥

६६—और मैंने दृष्टि की और देखी सिंहासन के और चारों प्राणियों के बीच में और प्राचीनों के बीच में एक मेन्ना जैसा बंध किया हुआ खड़ा है? जिस के सात सींग और सात नेत्र हैं जो सारी पृथिवी में भेजे हुए ईश्वर के सातों आत्मा हैं। यो०। प्र०। प० ५। आ० ६ ॥

समी०—अब देखिये! इस योहन के स्वप्न का मनोव्यापार उस स्वर्ग के बीच में सब ईसाई और चार पशु तथा ईसा भी है और कोई नहीं यह बड़ी अद्भुत बात हुई कि यहां तो ईसा के दो नेत्र थे और सींग का नाम भी न था और स्वर्ग में जा के सात सींग और सात नेत्र वाला हुआ! और ये सातों ईश्वर के आत्मा ईसा के सींग और नेत्र बन गये थे! हाय! ऐसी बातों को ईसाइयों ने क्यों मान लिया? भला कुछ तो बुद्धि लाते ॥ ६६ ॥

१००—और जब उस ने पुस्तक लिया तब चारों प्राणी और चीनीसों प्राचीन मेन्ने के आगे गिर पड़े और हर एक के पास वीण थी और धूप से भरे हुए सोने के पिचाले जो पवित्र लोगों की प्रार्थनायें हैं। यो०। प्र०। प० ५। आ० ८ ॥

समी०—भला जब ईसा स्वर्ग में न होगा तब ये विचार धूप दीप नैवेद्य आर्ति आदि पूजा किस को करते होंगे? और यहां प्राटस्टेंट ईसाई लोग बुत्परस्ती (सूर्तिपूजा) को तो खण्डन करते हैं और इन का स्वर्ग बुत्परस्ती का घर बन रहा है ॥ १०० ॥

१०१-और जब मैंने छापों में से एक को खोला तब मैंने दृष्टि की चारों प्राणियों में से एक को जैसे मेव गर्जने के शब्द को यह कहते सुना कि आ और देख । और मैंने दृष्टि की और देखी एक खेत घोड़ा है और जो उस पर बैठा है उस पास धनुष है और उसे मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ और जय करने को निकला । और जब उस ने दूसरी छाप खोली । दूसरा घोड़ा जो लाल था निकला उस को यह दिया गया कि पृथिवी पर से मेल उठा देवे । और जब उस ने तीसरी छाप खोली देखी एक काला घोड़ा है । और जब उस ने चौथी छाप खोली और देखी एक पीलासा घोड़ा है और जो उस पर बैठा है उस का नाम मृत्यु है इत्यादि । यो० । प्र० । प० ६ । आ० १ । २ । ३ । ४ । ५ । ७ । ८ ॥

समी०—अब देखिये यह पुराणों से भी अधिक मिथ्या लीला है वा नहीं ? भला पुस्तकों के बन्धनों के छापों के भीतर घोड़ा सवार क्यों कर रह सके होंगे ? यह स्वप्न का बरड़ाना जिन्होंने इस को भी सत्य माना है उनमें अविद्या जितनी कहे उतनी ही थोड़ी है ॥ १०१ ॥

१०२-और वे बड़े शब्द से पुकारते थे कि हे स्वामी पवित्र और सत्य कबलों तू न्याय नहीं करता है और पृथिवी के निवासियों से हमारे लोह का पलटा नहीं लेता है । और हर एक को उजला बस्त्र दिया गया और उन से कहा गया कि कबलों तुम्हारे संगी दास भी और तुम्हारे भाई जो तुम्हारी नाई बध किये जाने पर हैं पूरे न हों तबलों और थोड़ी बेर विश्राम करो । यो० । प्र० । प० । ६ । आ० १० । ११ ॥

समी०—जो कोई ईसाई होंगे वे दौड़े सुपुर्द हो कर ऐसे न्याय कराने के लिये रोया करेंगे जो वेदमार्ग का स्वीकार करे गा उस के न्याय होने में कुछ भी देर न होगी ईसाइयों से पूछना चाहिए क्या ईश्वर की कचहरी आज कल बन्द है ? और न्याय का काम नहीं होता न्यायाधीश निकम्मे बैठे हैं ? तो कुछ भी ठीकर उत्तर न दे सकेंगे और ईश्वर को भी बहका कर और इन का ईश्वर बहक भी जाता है क्योंकि इन के कहने से भट इन के शत्रु से पलटा लेने लगता है और दंशिले स्वभाव वाले हैं कि मरे पीछे स्वैर लिया करते हैं शान्ति कुछ भी नहीं और जहां शान्ति नहीं वहां दुःख का क्या पारावार होगा ॥ १०२ ॥

१०३-और जैसे बड़ी बवार से हिलाए जाने पर गूलर के दूध से उस के कच्चे गूलर भड़ते हैं तैसे आकाश के तारे पृथिवी पर गिर पड़े । और आकाश पत्र की नाई जो लपेटा जाता है अलग हो गया ॥ यो० । प्र० । प० ६ । आ० १३ । १४ ॥

समीचक-अब देखिये योहन भविष्यत्वज्ञान ने जब विद्या नहीं है तभी तो ऐसी अग्रह बंध कथा गाई भला तारे सब भूगोल हैं एक पृथिवी पर कैसे गिर सकते हैं ? और सूर्यादि का आकर्षण उन को इधर उधर क्यों आने जाने देगा

और क्या आकाश को चटाई के समान समझता है ? यह आकाश साकार पदार्थ नहीं है जिस को कोई लपेटे वा इकट्ठा कर सके इस लिये योहन आदि सब जङ्गली मनुष्य थे उन को इन बातों की क्या खबर ! ॥ १०३ ॥

१०४—मैं ने उन की संख्या सुनी इस्त्राएल के संतानों के समस्त कुल में से एक लाख चवालीस सहस्र पर काप दी गई यिहूदा के कुल में से बारह सहस्र पर काप दी गई । यो० । प्र० प० ७ । आ० ४ । ५ ॥

समी०—क्या जो वायविल में ईश्वर लिखा है वह इस्त्राएल आदि कुलों का स्वामी है वा सब संसार का ? ऐसा न होता तो उन्हीं जंगलियों का साथ क्यों देता ? और उन्हीं का सहाय करता था दूसरे का नाम निशान भी नहीं लेता इस से वह ईश्वर नहीं और इस्त्राएल कुलादि के मनुष्यों पर काप लगाना अल्प-ज्ञता अथवा योहन की मिथ्या कल्पना है ॥ १०४ ॥

१०५—इस कारण वे ईश्वर के सिंहासन के आगे हैं और उस के मन्दिर में रात और दिन उस की सेवा करते हैं ॥ यो० । प्र० । प० ७ । आ० १५ ॥

समी०—क्या यह महावृत्परस्ती नहीं है ? अथवा उन का ईश्वर देहधारी मनुष्य-तुल्य एकदेशी नहीं है ? और ईसाइयों का ईश्वर रात में सोता भी नहीं है यदि सोता है तो रात में पूजा क्यों कर करते होंगे ? तथा उस की नींद भी उड़ जाती होगी और जो रात दिन जागता हीगा तो विचित्र वा अतिरोगी हीगा ॥ १०५ ॥

१०६—और दूसरा दूत आ के वेदी के निकट खड़ा हुआ जिस पास सोने की धूपदानी थी और उस को बहुत धूप दिया गया और धूप का धूँआ पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के संग दूत के हाथ में से ईश्वर के आगे चढ़ गया । और दूत ने वह धूपदानी ले के उस में वेदी की आग भर के उसे पृथिवी पर डाला और शब्द और गर्जन और बिजलियाँ और भूईं डोलें हुए । यो० । प्र० । प० ८ । आ० ३ । ४ । ५ ॥

समी०—अब देखिये स्वर्ग तक वेदी धूप दीप नैवेद्य तुरही के शब्द होते हैं क्या वैरागियों के मंदिर से ईसाइयों का स्वर्ग काम है ? कुछ धूम धाम अधिक ही है ॥ १०६ ॥

१०७—पहिले दूत ने तुरही फूँका और लोह से मिले हुए आले और आग हुए और वे पृथिवी पर डाले गए और पृथिवी की एक तिहाई जल गई । यो० । प्र० । प० ८ । आ० ७ ॥

समी०—वाह रे ईसाइयों के भविष्यत्वता ! ईश्वर, ईश्वर के दूत, तुरही का शब्द और प्रलय को लीला केवल लड़कों ही का खेल दीखता है ॥ १०७ ॥

१०८—और पाँचवे दूत ने तुरही फूँकी और मैंने एक तार को देखा जो स्वर्ग में से पृथिवी पर गिरा हुआ था और अथाह कुण्ड के कूप की कुञ्जी उस को दी गई । और उस ने अथाह कुण्ड का कूप खोला और कूप में से बड़ी सड़ी के धुँए

की नाईं धुंआ उठा। और उस धुंए में से टिट्टियां पृथिवी पर निकल गईं और जैसा पृथिवी के बीछुओं को अधिकार होता है तैसा उन्हें अधिकार दिया गया और उन से कहा गया कि उन मनुष्यों को जिन के माथे पर ईश्वर को छाप नहीं है पांच मास उन्हें पीड़ा दी जाय। यो०। प्र०। प०। ६। आ०। १। २। ३। ४। ५॥

समी०—क्या तुरही का शब्द सुन कर तारे उन्ही दूतों पर और उसी स्वर्ग में गिरे होंगे ? यहां तो नहीं गिरे भला वह कूप वा टिट्टियां भी प्रलय के लिये ईश्वर ने पाली होंगी और क्राप को देख बांच भी लेती होंगी कि क्राप वालों को मत काटो ? यह केवल भोले मनुष्यों को डरपा के ईसाई बना लेने का धोखा देना है कि जो तुम ईसाई न होगे तो तुम को टिट्टियां काटेंगी ऐसी बातें विश्वाहीन देश में चल सकती हैं आर्यावर्त में नहीं क्या वह प्रलय की बात हो सकती है ? ॥ १०८ ॥

१०८—और घुड़चढ़ों की सेनाओं की संख्या बीस करोड़ थी। यो० प्र० प० ६। आ० १६ ॥

समी०—भला इतने छोड़े स्वर्ग में कहां ठहरते कहां चरते और कहां रहते और कितनी लौट करते थे ? और उस का दुर्गंध भी स्वर्ग में कितना हुआ होगा ? वस ऐसे स्वर्ग, ऐसे ईश्वर और ऐसे मत के लिये हम सब आर्यों ने तिलांजली दे दी है ऐसा बखेड़ा ईसाइयों के गिर पर से भी सर्वशक्तिमान् की कृपा से दूर हो जाय तो बहुत अच्छा हो ॥ १०९ ॥

११०—और मैं ने दूसरे पराक्रमी दूत को स्वर्ग से उतरते देखा जो मेघ को ओढ़े था और उस के गिर पर मेघ धनुष, धा और उस का मुंह सूर्य की नाईं और उस के पांव आग के खम्भों के ऐसे थे। और उस ने अपना दहिना पाव समुद्र पर और बाया पृथिवी पर रक्खा। यो०। प्र०। प०। १०। आ०। १। २। ३ ॥

समी०—अब देखिये इन दूतों की कथा जो पुराणों वा भाटों की कथाओं से भी बढ़ कर हैं ॥ ११० ॥

१११—और लग्गी के समान एक नर्कट सुभे दिया गया और कहा गया कि उठ ईश्वर के मन्दिर को और वेदी और उस में के भजन करने हारों को नाप ॥ यो० प्र०। प० ११। आ० १ ॥

समी०—यहां तो क्या परन्तु ईसाइयों के तो स्वर्ग में भी मन्दिर बनाये और नापे जाते हैं अच्छा है उन का जैसा स्वर्ग है वैसी ही बातें हैं इस लिये यहां प्रभु-भोजन में ईश्वर के शरीरावयव मांस लोह की भावना करके खाते पीते हैं और गिर्जा में भी क्रूश आदि का आकार बनाना आदि भी बुतपरस्त्री है ॥ १११ ॥

११२—और स्वर्ग में ईश्वर का मन्दिर खोला गया और उस के नियम का सन्दूक उस के मन्दिर में दिखाई दिया ॥ यो०। प्र०। प० ११। आ० १६ ॥

समी०—स्वर्ग में जो मन्दिर है सो हर समय बन्द रहता होगा कभी २ खोला जाता होगा क्या परमेश्वर का भी कोई मन्दिर हो सक्ता है? जो वेदोक्त परमात्मा सर्वव्यापक है उस का कोई भी मन्दिर नहीं हो सकता । हां ईसाइयों का जो परमेश्वर आकार वाला है उस का चाहे स्वर्ग में हो चाहे भूमि में और जैसी लीला टं टन पूं पूं की यहाँ होती है वैसी ही ईसाइयों के स्वर्ग में भी । और नियम-संदूक भी कभी २ ईसाई लोग देखते हैंगे उस से न जाने क्या प्रयोजन सिद्ध करते हैंगे सच तो यह है कि ये सब बातें मनुष्यों को लुभाने की हैं ॥ ११२ ॥

११३—और एक बड़ा आश्चर्य स्वर्ग में दिखाई दिया अर्थात् एक स्त्री जो सूर्य पृथ्विने है और चान्द उस के पांश्रों तले है और उस के गिर पर बारह तारों का मुकुट है । और वह गर्भवती होके चिन्ताती है क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी है और वह जनने को पीड़ित है । और दूसरा आश्चर्य स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर है जिस के सात गिर और दस सींग हैं और उस के गिरों पर सात राजमुकुट हैं । और उस की पूंछ ने आकाश के तारों की एक तिहाई को खींच के उन्हें पृथिवी पर डाला । यो० प्र० प० । १२ । आ० १ । २ । ३ । ४ ॥

समीक्षक—अब देखिये लंबे चौड़े गपोड़े इन के स्वर्ग में भी बिचारी स्त्री चिन्ताती है उस का दुःख कोई नहीं सुनता न मिटा सकता है और उस अजगर की पूंछ कितनी बड़ी थी जिस ने तारों को एक तिहाई पृथिवी पर डाला भला पृथिवी तो छोटी है और तारे भी बड़े २ लोक हैं इस पृथिवी पर एक भी नहीं समा संकता किन्तु यहाँ यही अनुमान करना चाहिये कि ये तारों की तिहाई इस घात के लिखने वाले के घर पर गिरे होंगे और जिस अजगर की पूंछ इतनी बड़ी थी जिस से सब तारों की तिहाई लपेट कर भूमि पर गिरा दी वह अजगर भी उसी के घर में रहता होगा ॥ ११३ ॥

११४—और स्वर्ग में यह हुआ मीखायेल और उस के दूत अजगर से लड़े और अजगर और उस के दूत लड़े ॥ यो० । प्र० । प० १२ । आ० ७ ॥

समी०—जो कोई ईसाइयों के स्वर्ग में जाता होगा वह भी लड़ाई में दुःख पाता होगा ऐसे स्वर्ग को यहीं से आश छोड़ हाथ जोड़ बैठ रहो जहाँ शान्तिभंग और उपद्रव मचा रहे वह ईसाइयों के योग्य है ॥ ११४ ॥

११५—और वह बड़ा अजगर गिराया गया हां वह प्राचीन सांप जो दिया-बल और शैतान काहावता है जो सारे संसार का भरमाने हारा है ॥ यो० । प्र० । प० १२ । आ० ८ ॥

समीक्षक—क्या जब वह शैतान स्वर्ग में या तब लोगों को नहीं भरमाता था? और उस को जन्न भर बंदी में घिरा अथवा मार क्यों न डाला ? उस को पृथिवी पर क्यों डाल दिया ? जो सब संसार का भरमाने वाला शैतान है तो शैतान को

भरमाने वाला कौन है ? यदि शैतान स्वयं भर्मा है तो शैतान के बिना भरमने हारे भर्मे गे और जो उस को भरमाने हारा परमेश्वर है तो वह ईश्वर ही नहीं ठहरा । विदित तो यह होता है कि ईसाइयों का ईश्वर भी शैतान से डरता होगा क्योंकि जो शैतान से प्रबल है तो ईश्वर ने उस को अपराध करते समय ही दंड क्यों न दिया ? जगत् में शैतान का जितना राज्य है उस के सामने सहस्रांग भी ईसाइयों के ईश्वर का राज्य नहीं इसीलिये ईसाइयों का ईश्वर उसे हटा नहीं सकता होगा इस से यह सिद्ध हुआ कि जैसा इस समय के राज्याधिकारी ईसाई डाकू चोर आदि को शीघ्र दण्ड देते हैं वैसा भी ईसाइयों का ईश्वर नहीं, पुनः कौन ऐसा निर्वृद्धि मनुष्य है जो वैदिकमत को छोड़ कपोलकल्पित ईसाइयों का मत स्वीकार करे ? ॥ ११५ ॥

११६—हाय पृथिवी और समुद्र के निवासियो क्योंकि शैतान तुम पास उतरा है ॥ यो० । प्र० । प० । १२ । आ० । १२ ॥

समीक्षक—क्या वह ईश्वर वहीं का रचक और स्वामी है ? पृथिवी, मनुष्यादि प्राणियों का रचक और स्वामी नहीं है ? यदि भूमि का भी राजा है तो शैतान को क्यों न मार सका ? ईश्वर देखता रहता है और शैतान बंधकाता फिरता है तो भी उस को वर्जता नहीं विदित तो यह होता है कि एक अच्छा ईश्वर और एक समर्थ दुष्ट दूसरा ईश्वर ही रहा है ॥ ११६ ॥

११७—और ब्यालीस मास लों युद्ध करने का अधिकार उसे दिया गया । और उस ने ईश्वर के विरुद्ध निन्दा करने को अपना गुंह खोला कि उस के नाम की और उस के तंबू की और स्वर्ग में बास करने हारों को निन्दा करे । और उस को यह दिया गया कि पवित्र लोगों से युद्ध करे और उन पर जय करे और हर एक कुल और भाषा और देश पर उस को अधिकार दिया गया ॥ यो० । प्र० । प० । १३ । आ० । ५ । ६ । ७ ॥

समीक्षक—भला जो पृथिवी के लोगों को बहकाने के लिये शैतान और पशु आदि को भेजे और पवित्र मनुष्यों से युद्ध करावे वह काम हाकुर्मी के सर्दार के समान है वा नहीं ? ऐसा काम ईश्वर या ईश्वर के भक्तों का नहीं हो सकता ॥ ११७ ॥

११८—और मैं ने दृष्टि की और देखो मेम्ना सियोन पर्वत पर खड़ा है और उस के संग एक लाख चवालीस सहस्र थे जिन के माथे पर उस का नाम और उस के पिता का नाम लिखा है ॥ यो० । प० । प्र० । १४ । आ० । १ ॥

समीक्षक—अब देखिये जहां ईसा का बाप रहता था वहीं उसी सियोन पहाड़ पर उस का लड़का भी रहता था परन्तु एक लाख चवालीस सहस्र मनुष्यों को गणना क्यों कर की ? एक लाख चवालीस सहस्र ही स्वर्ग के वासी हुए गेप

करोड़ों ईसाइयों के शिर पर न मोहर लगी क्या ये सब नरक में गये ? ईसाइयों को चाहिये कि सियोन पर्वत जा के देखें कि ईसा का बाप और उन की सेना वहां है वा नहीं ? जो हैं तो यह लेख ठीक है नहीं तो मिथ्या, यदि कहीं से वहां आया तो कहां से आया ? जो कही स्वर्ग से तो क्या वे पची हैं कि इतनी बड़ी सेना और आप ऊपर नीचे उड़ कर आया जाया करें ? यदि वह आया जाया करता है तो एक जिले के न्यायाधीश के समान हुआ और वह एक दो वा तीन हो तो नहीं बन सके गा किन्तु न्यून से न्यून एक २ भूगोल में एक २ ईश्वर चाहिये क्योंकि एक दो तीन अनेक ब्रह्माण्डों का न्याय करने और सर्वत्र युगपत् घूमने में समर्थ कभी नहीं हो सकते ॥ ११८ ॥

११८-आत्मा कहता है हां कि वे अपने परिश्रम से विश्राम करें गे परन्तु उन के कार्य उन के संग हो लेते हैं ॥ यो० । प्र० । प० । १४ । आ० १३ ॥

समीचक-देखिये ईसाइयों का ईश्वर तो कहता है उन के कर्म उन के संग रहें गे अर्थात् कर्मानुसार फल सब को दिये जाय गे और ये लोग कहते हैं कि ईसा पापों को ले लेगा और क्षमा भी किये जाय गे यहां बुद्धिमान् विचारें कि ईश्वर का वचन सच्चा वा ईसाइयों का ? एक बात में दोनों तो सच्चे ही ही नहीं सकते इन में से एक झूठा अवश्य होगा हम को क्या चाहें ईसाइयों का ईश्वर झूठा हो वा ईसाई लोग ॥ ११८ ॥

१२०-और उसे ईश्वर के कोप के बड़े रस के कुण्ड में डाला । और रस के कुण्ड का रौन्दन नगर के बाहर किया गया और रस के कुण्ड में से घोड़ों की लगाम तक लोह एक सौ कोश तक बह निकला ॥ यो० । प्र० । प० १४ । आ० १८ । २० ॥

समी०-अब देखिये इन के गपोड़े पुराणों से भी बढ़ कर हैं वा नहीं ? ईसाइयों का ईश्वर कोप करते समय बहुत दुःखित हो जाता हो गा और जो उस के कोप के कुण्ड भरे हैं क्या उस का कोप जल है ? वा अन्य द्रवित पदार्थ है ? कि जिस से कुण्ड भरे हैं ? और सौ कोश तक रुधिर का बहना असंभव है क्योंकि रुधिर वायु लगने से भट जम जाता है पुनः क्यों कर बह सकता है ? इसलिये ऐसी बातें मिथ्या होती हैं ॥ १२० ॥

१२१-और देखा स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया ॥ यो० । प्र० । प० १५ । आ० १५ ॥

समी०-जो ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो साक्षियों का क्या काम ? क्योंकि वह स्वयं सब कुछ जानता होता इस से सर्वथा यही निश्चय होता है कि इन का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं क्योंकि मनुष्यवत् अल्पज्ञ है वह ईश्वरता का क्या काम

कर सकता है ? नहीं नहीं नहीं और इसी प्रकरण में दूतों की बड़ी २ असंभव बातें लिखी हैं उन को सत्य कोई नहीं मान सकता कहां तक लिखें इसी प्रकरण में सर्वथा ऐसी ही बातें भरी हैं ॥ १२१ ॥

१२२—और ईश्वर ने उस के कर्मों को क्षरण किया है । जैसा तुम्हें उस ने दिया है तैसा उस को भर देओ और उस के कर्मों के अनुसार दूगा उसे दे देओ । यो० प्र० प० १८ । आ० ५ । ६ ॥

समी०—देखो प्रत्यक्ष इसाइयों का ईश्वर अन्यायकारी है क्योंकि न्याय उसी को कहते हैं कि जिस ने जैसा वा जितना कर्म किया उस को वैसा और उतना ही फल देना उस से अधिक न्यून देना अन्याय है जो अन्यायकारी को उपासना करते हैं वे अन्यायकारी क्यों न हैं ॥ १२२ ॥

१२३—क्योंकि मेन्ने का विवाह आ पहुंचा है और उस को स्त्री ने अपने को तैयार किया है । यो० प्र० । प० १८ । आ० ७ ॥

समीचक—अब सुनिये ! इसाइयों के स्वर्ग में विवाह भी होते हैं । क्योंकि इसा का विवाह ईश्वर ने वहीं किया पूकना चाहिये कि उस के श्वशुर सासू शालादि कौन थे ? और लड़के वाले कितने हुए ? और वीर्य के नाश होने से बल बुद्धि पराक्रम आयु आदि के भी न्यून होने से अब तक इसा ने वहां शरीर त्याग किया होगा क्योंकि संयोगजन्य पदार्थ का वियोग अवश्य होता है अब तक इसा-इयों ने उस के विश्वास में धोखा खाया और न जाने कब तक धोखे में रहेंगे ॥ १२३ ॥

१२४—और उस ने अजगर को अर्थात् प्राचीन सांप को जो दियाबल और शैतान है पकड़ के उसे सहस्र वर्ष लों बांध रक्खा । और उस को अघाह कुण्ड में डाला और वन्द करके उसे छाप दी जिस ते वह जब लों सहस्र वर्ष पूरे न हैं तब लों फिर देशों के लोगों को न भरमावे । यो० । प्र० । प० २० । आ० २ । ३ ॥

समीचक—देखो मरूं मरूं करके शयतान को पकड़ा और सहस्र वर्ष तक बन्द किया फिर भी छूटे गा क्या फिर न भरमावे गा ? ऐसे दुष्ट को तो बन्दीगृह में ही रखना वा मारे बिना छोड़ना ही नहीं । परन्तु यह शयतान का होना इसाइयों का भ्रममात्र है वास्तव में कुछ भी नहीं केवल लोगों को डरा के अपने जाल में लाने का उपाय रचा है । जैसे किसी धूर्त ने किन्हीं भोले मनुष्यों से कहा कि चलो तुम को देवता का दर्शन कराऊं किसी एकान्त देश में ले जा के एक मनुष्य को चतुर्भुज बना कर रक्खा भाड़ी में खड़ा करके कहा कि आंख मीच लो जब मैं कहूं तब खोलना और फिर जब कहूं तभी मीच लो जो न मीचे गा वह अन्धा ही जाय गा वैसी इन मतवालों की बातें हैं कि जो हमारा मनुष्य न माने गा वह शयतान का बहकाया हुआ है जब वह सामने आया तब कहा

देखो ! और पुनः शीघ्र कहा कि मीच लो जब फिर भाड़ी में क्लिप गया तब कहा खोलो ! देखा नारायण को सब ने दर्शन किया वैसी लीला मज्जहविर्यो की है इस लिये इन की माया में किसी को न फसना चाहिये ॥ १२४ ॥

१२५—जिस के सम्मुख से पृथिवी और आकाश भाग गये और उन के लिये जगह न मिली । और मैंने क्या छोटे क्या बड़े सब मृतकों को ईश्वर के आगे खड़े देखा और पुस्तक खोले गये और दूसरा पुस्तक अर्थात् जीवन का पुस्तक खोला गया और पुस्तकों में लिखी हुई बातों से मृतकों का विचार उन के कर्मों के अनुसार किया गया । यो० । प्र० । प० २० । आ० ११ । १२ ॥

समीचक—यह देखो लड़कपन की बात भला पृथिवी और आकाश कैसे भाग सकेंगे ? और वे किस पर ठहरेंगे ? जिन के सामने से भगे । और उस का सिंहासन और वह कहां ठहरा और मुझे परमेश्वर के सामने खड़े किये गये तो परमेश्वर भी बैठा वा खड़ा होगा ? क्या यहां की कचहरी और दूकान के समान ईश्वर का व्यवहार है जो कि पुस्तक लेखानुसार होता है । और सब जीवों का हाल ईश्वर ने लिखा वा उस के गुमास्तों ने ? ऐसी २ बातों से अनौश्वर को ईश्वर और ईश्वर को अनौश्वर ईसाई आदि मत वालों ने बना दिया ॥ १२५ ॥

१२६—उन में से एक मेरे पास आया और मेरे संग बोला कि आ मैं दुल्हिन को अर्थात् मेन्ने की स्त्री को तुम्हे दिखाऊंगा ॥ यो० । प्र० । प० । २१ । आ० ६ ॥

समीचक—भला ईसा ने स्वर्ग में दुल्हिन अर्थात् स्त्री अच्छी पाई मौज करता होगा जो जो ईसाई वहां जाते होंगे उन को भी स्त्रियां मिलती होंगी और लड़के वाले होते होंगे और बहुत भीड़ के हो जाने से रोगोत्पत्ति हो कर मरते भी होंगे । ऐसे स्वर्ग को दूर से हाथ ही जोड़ना अच्छा है ॥ १२६ ॥

१२७—और उस ने उस नल से नगर को नापा कि साड़ सात सौ कोश का है उस की लम्बाई और चौड़ाई और जं चाई एक समान है । और उस ने उस की भीत को मनुष्य के अर्थात् दूत के नाप से नापा कि एक सौ चवालीस हाथ की है । और उस की भीत की जुड़ाई सूर्यकान्त की थी और नगर निर्मल सेाने का था जो निर्मल कांच के, समान था । और नगर के भीत की नवें हर एक बहुमूल्य पत्थर से संवारी हुई थीं पहिली नेव सूर्यकान्त की थी दूसरी नीलमणि की तीसरी लालड़ी की चौथी मरकत की । पांचवीं गोमेदक की छठवीं माणिक्य की सातवीं पीतमणि की आठवीं पेरोज की नवीं पुखराज की दसवीं लहसनिधे की एग्यारहवीं धूम्रकान्त की बारहवीं मर्तीप की । और बारह फाटक बारह मोती थे एक २ मोती से एक २ फाटक बना था और नगर की सड़क स्रच्छ कांच के ऐसे निर्मल सेाने की थी ॥ यो० । प्र० । प० २१ । आ० १६ । १७ । १८ । १९ । २० । २१ ॥

समीचक—सुगो ईसाइयों के स्वर्ग का वर्णन ! यदि ईसाई मरते जाते और जन्मते जाते हैं तो इतने बड़े शहर में कैसे समा सकेंगे ? क्योंकि उस में मनुष्यों का आगम होता है और उस से निकलने नहीं और जो यह बहुमूल्य रत्नों की बनी हुई नगरी मानी है और सब सोने की है इत्यादि लेख केवल भोले २ मनुष्यों को बहका कर फसाने की लीला है । भला लंबाई चौड़ाई तो उस नगर की लिखी सी हो सकती परन्तु ऊंचाई साढ़े सात सौ कोश क्यों कर हो सकती है यह सर्वथा मिथ्या कपोलकल्पना की बात है और इतने बड़े मोती कहां से आये होंगे ? इस लेख के लिखने वाले के घर के बड़े में से, यह गपोड़ा पुराण का भी बाप है ॥ १२७ ॥

१२८—और कोई अपवित्र वस्तु अथवा विनित कर्म करने हारा अथवा भ्रंश पर चलने हारा उस में किसी रीति से प्रवेश न करेगा । यो० । प्र० । प० २० । आ० २७ ॥

समी०—जो ऐसी बात है तो ईसाई लोग क्यों कहते हैं कि पापी लोग भी स्वर्ग में ईसाई होने से जा सकते हैं ? यह ठीक बात नहीं है यदि ऐसा है तो योहन्ना स्वप्ने की मिथ्या बातों का कहने हारा स्वर्ग में प्रवेश कभी न कर सका होगा और ईसा भी स्वर्ग में न गया होगा क्योंकि जब अकेला पापो स्वर्ग को प्राप्त नहीं हो सकता तो जो अनेक पापियों के पाप के भार से युक्त है वह क्यों-कर स्वर्गवासी हो सकता है ? ॥ १२८ ॥

१२९—और अब कोई आप न होगा और ईश्वर का और मेन्नी का सिंहासन उस में होगा और उस के दास उस की सेवा करेंगे । और उस का मुंह देखेंगे और उस का नाम उन के माथे पर होगा । और वहां रात न होगी और उन्हें दीपक का अथवा सूर्य की ज्योति का प्रयोजन नहीं क्योंकि परमेश्वर ईश्वर उन्हें ज्योति देगा वे सदा सर्वदा राज्य करेंगे । यो० । प्र० । प० २२ । आ० ३।४। ५ ॥

समी०—देखिये यही ईसाइयों का स्वर्गवास क्या ईश्वर और ईसा सिंहासन पर निरन्तर बैठे रहेंगे ? और उन के दास उन के सामने सदा मुंह देखा करेंगे ? अब यह तो कहिये तुम्हारे ईश्वर का मुंह यूरोपियन् के सट्टण गौरा वा अफ्रिका वालों के सट्टण काला अथवा अन्यदेश वालों के समान है ? यह तुम्हारा स्वर्ग भी बन्धन है क्योंकि जहां कोटाई बड़ाई है और उसी एक नगर में रहना अवश्य है तो वहां दुःख क्यों न होता होगा ? जो सुख वाला है वह ईश्वर सर्वत्र सर्वेश्वर कभी नहीं हो सकता ॥ १२९ ॥

१३०—देख में ग्रीष, आता हं और मेरा प्रतिफल मेरे साथ है जिसमें हर एक को जैसा उस का कार्य ठहरे गा वैसा फल देजंगा ॥ यो० । प्र० । प० २२ । आ० १२ ॥

समी०- जब यही बात है कि कर्मानुसार फल पाते हैं तो पापों की क्षमा कभी नहीं होती और जो क्षमा होती है तो इंजील की बातें झूठी यदि कोई कहे कि क्षमा करना भी इंजील में लिखा है तो पूर्वापर विरुद्ध अर्थात् "हल्फद-रोगी" हुई तो झूठ है इस का मानना छोड़ देओ । अब कहां तक लिखें इन की बायबल में लाखों बातें खण्डनीय हैं यह तो थोड़ासा चिन्हमात्र ईसाइयों की बायबल पुस्तक का दिख लाया है इतने ही से बुद्धिमान् लोग बहुत समझ लेंगे थोड़ीसी बातों को छोड़ शेष सब झूठ के संग से सत्य भी शक नहीं रहता वैसा ही बाइबल पुस्तक भी माननीय नहीं हो सकता किन्तु वह सत्य तो वेदों के स्वीकार में गृहीत होता ही है ॥ १३० ॥

इति श्रीमद्व्यानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्यार्थप्रकाशे
 सुभाषाविभूषिते कृश्चीनमतविषये त्रयोदशः
 समुद्भासः सम्पूर्णः ॥ १३ ॥

अनुभूमिका ॥ (४)

जो यह १४ चौदहवां समुदास मुसलमानों के मतविषय में लिखा है सो केवल कुरान के अभिप्राय से अन्य ग्रन्थ के मत से नहीं क्योंकि मुसलमान कुरान पर ही पूरा २ विश्वास रखते हैं यद्यपि फिरके होने के कारण किसी शब्द अर्थ आदि विषय में विरुद्ध बात है तथापि कुरान पर सब एकमत्य हैं जो कुरान अर्बी भाषा में है उस पर मौलवियों ने उर्दू में अर्थ लिखा है उस अर्थ का देवनागरी अक्षर और आर्यभाषान्तर कराके पश्चात् अर्बी के बड़े २ विद्वानों से शुद्ध कारवा के लिखा गया है यदि कोई कहे कि यह अर्थ ठीक नहीं है तो उस को उचित है कि मौलवी साहबों के तर्जुमाओं का पहिले खंडन करे पश्चात् इस विषय पर लिखे क्योंकि यह लेख केवल मनुष्यों की उन्नति और सत्याऽसत्य के निर्णय के लिये सब मतों के विषयों का छोड़ा २ ज्ञान होवे इस से मनुष्यों को परस्पर विचार करने का समय मिले और एक दूसरे के दोषों का खंडन कर गुणों का ग्रहण करें न किसी अन्य मत पर न इस मत पर झूठ झूठ बुराई वा भलाई लगाने का प्रयोजन है किन्तु जो २ भलाई है वही भलाई और जो बुराई है वही बुराई सब को विदित होवे न कोई किसी पर झूठ चला सके और न सत्य को रोक सके और सत्याऽसत्य विषय प्रकाशित किये पर भी जिस की इच्छा हो वह न माने वा माने किसी पर बलात्कार नहीं किया जाता और यही सज्जनों की रीति है कि अपने वा पराये दोषों को दोष और गुणों को गुण जान कर गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग करें और हठियों का हठ दुराग्रह न्यून करें कारावे क्योंकि पक्षपात से क्या २ अनर्थ जगत् में न हुए और न होते हैं सच तो यह है कि इस अनिश्चित क्षणभंग जीवन में पराई हानि करके लाभ से स्वयं रिक्त रहना और अन्य को रखना मनुष्यपन से वहिः है इस में जो कुछ विद्वत् लिखा गया हो उस को सज्जन लोग विदित करदेंगे तत्पश्चात् जो उचित होगा तो माना जाय गा क्योंकि यह लेख हठ, दुराग्रह, ईर्ष्या, द्वेष, वाद् विवाद और विरोध घटाने के लिये किया गया है न कि इन को बढ़ाने के अर्थ क्योंकि एक दूसरे की हानि करने से पृथक् रह परस्पर को लाभ पहुंचाना हमारा सुख्य कर्म है । अब यह १४ चौदहवे समुदास में मुसलमानों का मतविषय सब सज्जनों के सामने निवेदन करता हं विचार कर इष्ट का ग्रहण अनिष्ट का परित्याग कीजिये ॥

अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्वय्येण ॥

इत्यनुभूमिका

अथ चतुर्दशसमुह्लासारम्भः ॥

— ३ * ६ —

अथ यवनमतविषयं समीक्षिष्यामहे ॥

इस के आगे मुसलमानों के मतविषय में लिखेंगे ।

१—आरंभ साथ नाम अल्लाह के जमा करने वाला दयालु ॥ मंजिल १ । सिपारा १ । सूरत १ ।

समीक्षक—मुसलमान लोग ऐसा कहते हैं कि यह कुरान खुदा का कहा है परन्तु इस वचन से विदित होता है कि इस का बनाने वाला कोई दूसरा है क्योंकि जो परमेश्वर का बनाया होता तो “आरंभ साथ नाम अल्लाह के” ऐसा न कहता किन्तु “आरंभ वास्ते उपदेश मनुष्यों के” ऐसा कहता ! यदि मनुष्यों को शिक्षा करता है कि तुम ऐसा कहो तो भी ठीक नहीं क्योंकि इस से पाप का आरंभ भी खुदा के नाम से होकर उस का नाम भी दूषित ही जाय गा जो वचन जमा और दया करने हारा है तो उस ने अपनी सृष्टि में मनुष्यों के सुखार्थ अन्य, प्राणियों को मार, दाबण पीड़ा दिला कर मरवा के मांस खाने की आज्ञा क्यों दी ? क्या वे प्राणी अनपराधी और परमेश्वर के बनाये हुए नहीं हैं ? और यह भी कहना था कि “परमेश्वर के नाम पर अच्छी बातों का आरंभ” बुरी बातों का नहीं इस कथन में गोलमाल है, क्या चोरी, जारी, मिथ्याभाषणादि अधर्म का भी आरंभ परमेश्वर के नाम पर किया जाय ? इसी से देख लो कसाई आदि मुसलमान, गाय आदि के गले काटने में भी “बिस्मिल्लाह ” इस वचन को पढ़ते हैं जो यही इस का पूर्वाक्त अर्थ है तो बुराइयों का आरंभ भी परमेश्वर के नाम पर मुसलमान करते हैं और मुसलमानों का “खुदा” दयालु भी न रहे गा क्योंकि उस की दया उन पशुओं पर न रही ! और जो मुसलमान लोग इस का अर्थ नहीं जानते तो इस वचन का प्रगट होना अर्थ है यदि मुसलमान लोग इस का अर्थ और करते हैं तो सूधा अर्थ क्या है ? इत्यादि ॥ १ ॥

२—सब स्तुति परमेश्वर के वास्ते हैं जो परवरदिगार अर्थात् पालन करने हारा है सब संसार का । जमा करने वाला दयालु है ॥ मं० १ । सि० १ । सूरतलू फातिहा । आयत १ । २ ॥

समी०—जो कुरान का खुदा संसार का पालन करने हारा होता और सब पर जमा और दया करता होता तो अन्य मत वाले और पशु आदि को भी सुसलमानों के हाथ से मरवाने का हुक्म न देता । जो जमा करने हारा है तो क्या पापियों पर भी जमा करे गा ? और जो वैसा है तो आगे लिखें गे कि “काफिरों को क़तल करो” अर्थात् जो कुरान और पैगंबर को न मानें वे काफिर हैं ऐसा क्यों कहता ? इस लिये कुरान ईश्वरकृत नहीं दीखता ॥ २ ॥

३—मालिक दिन न्याय का ॥ तुम्ह ही को हम भक्ति करते हैं और तुम्ह ही से सहाय चाहते हैं ॥ दिखा हम को सीधा रास्ता । मं० १ । सि० १ । सू० १ । आ० ३ । ४ । ५ ॥

समी०—क्या खुदा नित्य न्याय नहीं करता ? किसी एक दिन न्याय करता है इस से तो अंधेर विदित होता है ! उसी को भक्ति करना और उसी से सहाय चाहना तो ठीक परन्तु क्या बुरी बात का भी सहाय चाहना ? और सूधा मार्ग एक सुसलमानों ही का है वा दूसरे का भी ? सूधे मार्ग को सुसलमान क्यों नहीं ग्रहण करते ? क्या सूधा रास्ता बुराई की ओर का तो नहीं चाहते ? यदि भलाई सब की एक है तो फिर सुसलमानों ही में विशेष कुछ न रहा और जो दूसरों की भलाई नहीं मानते तो पक्षपाती हैं ॥ ३ ॥

४—उन लोगों का रास्ता कि जिन पर तू ने निआमत की और उन का मार्ग मत दिखा कि जिन के ऊपर तू ने गुणव अर्थात् अत्यन्त क्रोध की दृष्टि की और न गुमराहों का मार्ग हम को दिखा । मं० १ । सि० १ । सू० १ । आ० ६ । ७ ॥

समी०—जब सुसलमान लोग पूर्व जन्म और पूर्व कृत पाप पुण्य नहीं मानते तो किन्हीं पर निआमत अर्थात् फ़ज़ल वा दया करने और किन्हीं पर न करने से खुदा पक्षपाती हो जाय गा, क्योंकि विना पाप पुण्य सुख दुःख देना केवल अन्याय की बात है और विना कारण किसी पर दया और किसी पर क्रोधदृष्टि करना भी उभाव से बहिः है । वह दया अथवा क्रोध नहीं कर सकता और जब उन के पूर्व संचित पुण्य पाप ही नहीं तो किसी पर दया और किसी पर क्रोध करना नहीं हो सकता । और इस सूरत की टिप्पण पर “यह सूरः अक्काह साहब ने मनुष्यों के सुख से कहलाई कि सदा इस प्रकार से कहा करें” जो यह बात है तो “अलिफ़, बे” आदि अक्षर भी खुदा ही ने पढ़ाये होंगे ? जो कहो कि विना अक्षर ज्ञान के इस सूरः को कैसे पढ़ सके क्या कांठ ही से बुलाये और बोलते गये ? जो ऐसा है तो सब कुरान ही कांठ से पढ़ाया होगा इस से ऐसा समझना चाहिये कि जिस पुस्तक में पक्षपात की बातें पाई जायें वह पुस्तक ईश्वरकृत नहीं हो

सकता, जैसा कि अरबी भाषा में उतारने से अरब वालों को इस का पढ़ना सुगम, अन्य भाषा बोलने वालों को कठिन होता है इसी से खुदा में पक्षपात आता है और जैसे परमेश्वर ने सृष्टिस्थ सब देशस्थ मनुष्यों पर न्यायदृष्टि से सब देश भाषाओं से विलक्षण संस्कृत भाषा कि जो सब देश वालों के लिये एक से परिश्रम से विदित होती है उसी में वेदों का प्रकाश किया है करता तो यह दोष नहीं होता ॥ ४ ॥

५-यह पुस्तक कि जिस में संदेह नहीं परहेजगारों को मार्ग दिखलाती है ॥ जो ईमान लाते हैं साथ गैब (परोक्ष) के गमाज पढ़ते, और उस वस्तु से जो हमने दी खर्च करते हैं ॥ और वे लोग जो उस किताब पर ईमान लाते हैं जो रखते हैं तेरी और वा तुझ से पहिले उतारी गई और विश्वास कयामत पर रखते हैं ॥ ये लोग अपने मालिक की शिखा पर हैं और वे ही छुटकारा पाने वाले हैं ॥ निश्चय, जो काफिर हुए और उन पर तेरा डराना न डराना समान है वे ईमान न लावेंगे ॥ अल्लाह ने उन के दिलों कानों पर मोहर कर दी और उन की आंखों पर पर्दा है और उन के वारते बड़ा अज्ञान है ॥ मं० १ । सि० १० । सू० २ । आ० १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ ॥

समी०—क्या अपने ही सुख से अपनी किताब की प्रशंसा करना खुदा की दंभ की बात नहीं ? जब (परहेजगार) अर्थात् धार्मिक लोग हैं वे तो स्वतः, सबे मार्ग में हैं और जो झूठे मार्ग पर हैं उन को यह कुरान मार्ग ही नहीं दिखला सकता फिर किस काम का रहा ? क्या पाप पुख्य और पुरुपार्थ के विना खुदा अपने ही खजाने से खर्च करने को देता है ? जो देता है तो सब को क्यों नहीं देता ? और सुसल्लान लोग परिश्रम क्यों करते हैं ? और जो बाइबल इञ्जील आदि पर विश्वास करना योग्य है तो सुसल्लान इञ्जील आदि पर ईमान जैसा कुरान पर है वैसा क्यों नहीं लाते ? और जो लाते हैं तो कुरान # का होना किस लिये ? जो कहें कि कुरान में अधिक बातें हैं तो पहिली किताब में लिखना खुदा भूल गया होगा ! और जो नहीं भूला तो कुरान का बनाना निष्प्रयोजन है । और हम देखते हैं तो बाइबल और कुरान की बातें कोई २ न मिलती हैंगी नहीं तो सब मिलती हैं एक ही पुस्तक जैसा कि वेद है क्यों न बनाया ? कयामत पर ही विश्वास रखना चाहिये अन्य पर नहीं ? ॥ ३ ॥ क्या ईसाई और सुसल्लान ही खुदा की शिखा पर हैं उन में कोई भी पापी नहीं है ? क्या जो ईसाई और सुसल्लान अधर्मी हैं वे भी छुटकारा पावें और दूसरे धर्मात्मा भी न पावें तो बड़े अन्याय और अंधेर की बात नहीं है ? ॥ ४ ॥ और क्या जो लोग सुसल्लानी मत

याकन में यह शब्द "कुरान" है परन्तु भाषा में लोगों के बोलने में कुरान आता है इस लिये ऐसा ही लिखा है ।

को न मानें उन्हीं को काफ़िर कहना यह एक तर्फी डिगरी नहीं है ? ॥ ५ ॥ जो परमेश्वर ही ने उन के अन्तःकरण और कानों पर मोहर लगाई और उसी से वे पाप करते हैं तो उन का कुछ भी दोष नहीं यह दोष खुदा ही का है फिर उन पर सुख दुःख वा पाप पुण्य नहीं हो सकता पुनः उन को सजा जजा क्यों करता है ? क्योंकि उन्हीं ने पाप वा पुण्य स्वतन्त्रता से नहीं किया ॥ ६ ॥ ५ ॥

६-उन के दिलों में रोग है अल्लाह ने उन को रोग बढ़ा दिया । मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ८ ॥

समी०-भला बिना अपराध खुदा ने उन को रोग बढ़ाया दया न आई उन विचारों को बड़ा दुःख हुआ होगा ! क्या यह शयतान से बढ़ कर शयतानपन का काम नहीं है ? किसी के मन पर मोहर लगाना, किसी को रोग बढ़ाना । यह खुदा का काम नहीं हो सकता, क्योंकि रोग का बढ़ना अपने पापों से है ॥ ६ ॥

७-जिस ने तुम्हारे वास्ते पृथिवी बिक्रीना और आसमान की छत को बनाया । मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० १२१ ॥

समी०-भला आसमान छत किसी की हो सकती है ? यह अविद्या की बात है आकाश को छत के समान मानना हांसी की बात है यदि किसी प्रकार की पृथिवी को आसमान मानते हैं तो उन के घर की बात है ॥ ७ ॥

८-जो तुम उस वस्तु से संदेह में हो जो हमने अपने पैगंबर के ऊपर उतारी तो उस कौसी एक सूरत ले आओ और साक्षियों अपने को पुकारो अल्लाह के बिना तुम सच्चे हो जो तुम ॥ और कभी न करो गे तो उस आग से डरो कि जिस का इन्धन मनुष्य है और काफ़िरों के वास्ते पत्थर तैयार किये गये हैं ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० २२ । २३ ॥

समी०-भला यह कोई बात है कि उस के सदृश कोई सूरत न बने । क्या अकबर बादशाह के समय में मौलवी फैजी ने बिना नुकते का कुरान नहीं बना लिया था ! वह कौनसी दोज़ख की आग है ? क्या इस आग से न डरना चाहिये ? इस का भी इन्धन जो कुछ पड़े सब है । जैसे कुरान में लिखा है कि काफ़िरों के वास्ते पत्थर तैयार किये गये हैं तो वैसे पुराणों में लिखा है कि खेच्छी के लिये घोर नरक बना है ! अब कहिये किस की बात सच्ची मानी जाय ? अपने २ वचन से दोनों खर्गामी और दूसरे के मत से दोनों नरकगामी होते हैं इस लिये इन सब का भगड़ा भंठा है किन्तु जो धार्मिक हैं वे सुन्न और जो पापी हैं वे सब मतों में दुःख पावें गे ॥ ८ ॥

८-और आनन्द का सन्देश दे कि उन लोगों को कि ईमान लाए और काम किए अच्छे यह कि उन के वास्ते विहित हैं जिन के नीचे से चलती हैं नहरे जब उस में से मेवों के भोजन दिये जावेंगे तब कहेंगे कि वह वो वस्तु हैं जो हम पहिले इस से दिये गये थे और उन के लिये पवित्र बीबियां सदैव वहां रहने वाली हैं । मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० २४ ॥

समी०—भला यह कुरान का बहिश्त संसार से कौन सी उत्तम बात वाला है ? क्योंकि जो पदार्थ संसार में हैं वे ही मुसलमानों के स्वर्ग में हैं । और इतना विशेष है कि यहां जैसे पुरुष जन्मते मरते और आते जाते हैं उसी प्रकार स्वर्ग में नहीं किन्तु यहां की स्त्रियां सदा नहीं रहतीं और वहां बीबियां अर्थात् उत्तम स्त्रियां सदा काल रहतीं हैं तो जब तक क़यामत की रात न आवेगी तब तक उन विचारियों के दिन कैसे कटते होंगे ? हां जो खुदा की उन पर कृपा होती होगी ! और खुदा ही के आश्रय समय काटती होंगी तो ठीक है ! क्योंकि यह मुसलमानों का स्वर्ग गोकुलिये गुसांइयों के गोलोक और मन्दिर के सदृश दीक्षता है क्योंकि वहां स्त्रियों का मान्य बहुत पुरुषों का नहीं, वैसे ही खुदा के घर में स्त्रियों का मान्य अधिक और उन पर खुदा का प्रेम भी बहुत है उन पुरुषों पर नहीं, क्योंकि बीबियों को खुदा ने विहित में सदा रक्खा और पुरुषों को नहीं, वे बीबियां बिना खुदा की मर्जी स्वर्ग में कैसे ठहर सकतीं ? जो यह बात ऐसी ही होती खुदा स्त्रियों में फस जाय । ॥ ८ ॥

१०-आदम को सारे नाम सिखाये फिर फ़रिश्तों के सामने करंके कहा जो तुम सच्चे हो मुझे उन के नाम बताओ ॥ कहा है आदम उन को उन के नाम बता दे तब उस ने बता दिये (तो खुदा ने फ़रिश्तों से) कहा कि क्या मैं ने तुम से नहीं कहा था कि निश्चय मैं पृथिवी और आसमान की छिपी वस्तुओं को और प्रगट छिपे कर्मों को जानता हूं । मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० २८ । ३१ ॥

समी०—भला ऐसे फ़रिश्तों को धोखा देकर अपनी बड़ाई करना खुदा का काम हो सकता है ? यह तो एक दंभ की बात है इस को कोई विद्वान् नहीं मान-सकता और न ऐसा अभिमान करता । क्या ऐसी बातों से ही खुदा अपनी सिद्धा-ई जमाना चाहता है ? हां जंगली लोगों में कोई कैसा ही पाखण्ड चला लेवे चल सकता है, सभ्य जनों में नहीं ॥ १० ॥

११--जब हम ने फ़रिश्तों से कहा कि बाबा आदम को दण्डवत् करो देखा सभी ने दण्डवत् किया परन्तु शयतान ने न माना और अभिमान किया क्योंकि वो भी एक काफ़िर था । मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ३२ ॥

समी०—इस से खुदा सर्वज्ञ नहीं अर्थात् भूत, भविष्यत् और वर्तमान की पूरी बातें नहीं जानता जो जानता ही तो शयतान को पैदा ही क्यों किया और खुदा में कुछ तेज भी नहीं है क्योंकि शयतान ने खुदा का हुक्म ही न माना और खुदा उस का कुछ भी न कर सका ! और देखिये एक शयतान काफिर ने खुदा का भी कूका छुड़ा दिया तो सुसल्लानों के कथनानुसार भिन्न जहां कहीं काफिर हैं वहां सुसल्लानों के खुदा और सुसल्लानों की क्या चल सकती है ? कभी २ खुदा भी किसी को रोग बढ़ा देता किसी को गुमराह कर देता है खुदा ने ये बातें शयतान से सीखी होंगी और शयतान ने खुदा से क्योंकि बिना खुदा के शयतान का उस्ताद और कोई नहीं हो सकता ॥ ११ ॥

१२—हम ने कहा कि ओ आदम तू और तेरी जोरू बहिश्त में रह कर आनन्द में जहां चाही खाओ परन्तु मत समीप जाओ उस हव्व के कि पापी हो जाओगे ॥ शयतान ने उन को डिगाया कि और उन को बहिश्त के आनन्द में खो दिया तब हमने कहा कि उतरो तुम्हारे में कोई परस्पर शत्रु हैं तुम्हारा ठिकाना पृथिवी है और एक समय तक लाभ है आदम अपने मासिक की कुछ बातें सीख कर पृथिवी पर आगया । मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ३३ । ३४ । ३५ ॥

समी०—अब देखिये खुदा की अल्पज्ञता अभी तो स्वर्ग में रहने का आगी-बाद दिया और पुनः थोड़ी देर में कहा कि निकलो जो भविष्यत् बातों को जानता होता तो वर ही क्यों देता ? और बहकाने वाले शयतान को दण्ड देने से असमर्थ भी दीख पड़ता है और वह हव्व किस के लिये उत्पन्न किया था ? क्या अपने लिये वा दूसरे के जो दूसरे के लिये तो क्यों रोका ? इस लिये ऐसी बातें न खुदा की और न उस के बनाये पुस्तक में हो सकती हैं आदम सादेब खुदा से कितनी बातें सीख आये ? और जब पृथिवी पर आदम सादेब आये तब किस प्रकार आये ? क्या वह बहिश्त पहाड़ पर है वा आकाश पर ? उस से कैसे उतर आये अथवा पक्षी के तुल्य आये अथवा जैसे ऊपर से पत्थर गिर पड़े ? इस में यह विदित होता है कि जब आदम सादेब मही से बनाये गये तो इन के स्वर्ग में भी मही होगी ? और जितने वहां और हैं वे भी वैसे ही फरिश्ते आदि हैंगे क्योंकि मही के शरीर बिना इन्द्रिय भाग नहीं हो सकता जब पार्थिव शरीर हैं तो मृत्यु भी अवश्य होना चाहिये यदि मृत्यु होता है तो वे वहां से कहां जाते हैं ? और मृत्यु नहीं होता तो उन का जन्म भी नहीं हुआ जब जन्म है तो मृत्यु अवश्य ही है यदि ऐसा है तो कुरान में लिखा है कि वीवियां सदैव बहिश्त में रहती हैं सो भूँठा हो जाय गा क्योंकि उन का भी मृत्यु अवश्य होगा जब ऐसा है तो बहिश्त में जाने वालों का भी मृत्यु अवश्य होगा ॥ १२ ॥

१३-उस दिन से डरो कि जब कोई जीव किसी जीव से भरोसा न रखे गा न उस की सिफारिश स्वीकार की जावे गी न उस से बदला लिया जावे गा और न वे सहाय पावे गे ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ४६ ॥

समी०--क्या वर्तमान दिनों में न डरे बुराई करने में सब दिन डरना चाहिये जब सिफारिश न मानी जावे गी तो फिर पैगम्बर की गवाही वा सिफारिश से खुदा स्वर्ग देगा यह बात क्यों कर सच हो सके गी ? क्या खुदा बहिष्त वालों ही का सहायक है दोषी वालों का नहीं ? यदि ऐसा है तो खुदा पक्षपाती है ॥ १२ ॥

१४-हम ने मूसा को किताब और मोज़िज़े दिये ॥ हम ने उन को कहा कि तुम निन्दित बन्दर हो जाओ यह एक भय दिया जो उन के सामने और पीछे थे उन को और शिष्या ईमानदारों को ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ५० ॥ ६१ ॥

समी०--जो मूसा को किताब दी तो कुरान का होना निरर्थक है और उस को आश्चर्यशक्ति दी यह वायबिल और कुरान में भी लिखा है परन्तु यह बात मानने योग्य नहीं क्योंकि जो ऐसा होता तो अब भी होता जो अब नहीं तो पहिले भी न था, जैसे स्वार्थी लोग आज कल भी अविद्वानों के सामने विद्वान् बन जाते हैं वैसे उस समय भी कपट किया होगा क्योंकि खुदा और उस के सेवक अब भी विद्यमान हैं पुनः इस समय खुदा आश्चर्यशक्ति क्यों नहीं देता ? और नहीं कर सकते जो मूसा को किताब दी थी तो पुनः कुरान का देना क्या आवश्यक था ? क्योंकि जो भलाई बुराई करने न करने का उपदेश सर्वत्र एकसा ही तो पुनः भिन्न २ पुस्तक करने से पुनरुक्त दोष होता है क्या मूसा जी आदि को दी हुई पुस्तक में खुदा भूल गया था ? जो खुदा ने निन्दित बन्दर हो जाना केवल भय देने के लिये कहा था तो उस का कहना मिथ्या हुआ वा झल किया जो ऐसी बातें करता और जिस में ऐसी बातें हैं वह न खुदा और न यह पुस्तक खुदा का बनाया हो सकता है ॥ १४ ॥

१५-इस तरह खुदा सुदों को जिलाता है और तुम को ॥ अपनी निशानियां दिखलाता है कि तुम समझो । मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ६० ॥

समी०--क्या सुदों को खुदा जिलाता था तो अब क्यों नहीं जिलाता ? क्या क़यामत की रात तक क़ब्रों में पड़े रहें गे ? आज कल दौडा सुपर्द हैं ? क्या इतनी ही ईश्वर की निशानियां हैं ? पृथिवी, सूर्य, चन्द्रादि निशानियां नहीं हैं ? क्या संसार में जो विविध रचना विशेष प्रत्यक्ष दीखती हैं ये निशानियां कम हैं ? १५ ॥

१६--वे सदैव काल बहिष्त अर्थात् वैकुण्ठ में वास करने वाले हैं । मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ७५ ॥

समी०—कोई भी जीव अनन्त पाप पुण्य करने का सामर्थ्य नहीं रखता इस लिये सदैव स्वर्ग नरक में नहीं रह सकते और जो खुदा ऐसा करे तो वह अन्यायकारी और अविद्वान् हो जावे कियामत की रात न्याय होगा तो मनुष्यों के पाप पुण्य बराबर होना उचित है जो कर्म अनन्त नहीं है उस का फल अनन्त कैसे हो सकता है ? और सृष्टि हुए सात आठ हजार वर्षों से इधर ही बतलाते हैं क्या इस के पूर्व खुदा निकम्मा बैठा था ? और कियामत के पीछे भी निकम्मा रहेगा ? ये बातें सब लड़कों के समान हैं क्योंकि परमेश्वर के काम सदैव वर्तमान रहते हैं और जितने जिस के पाप पुण्य हैं उतना ही उस को फल देता है इस लिये कुरान की यह बात सच्ची नहीं ॥ १६ ॥

१७—जब हमने तुम से प्रतिज्ञा कराई न वहाना लोह अपने आपस के और किसी अपने आपस को घरों से न निकालना फिर प्रतिज्ञा की तुमने इस के तुम ही साक्षी हो ॥ फिर तुम वे लोग हो कि अपने आपस को मार डालते हो एक फिरके के को आप में से घरों उन के से निकाल देते हो । मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ७७ । ७८ ॥

समी०—भला प्रतिज्ञा करानी और करनी अल्पश्रीं की बात है वा परमात्मा की ? जब परमेश्वर सर्वज्ञ है तो ऐसी कड़ाकूट संसारी मनुष्य के समान क्यों करेगा ? भला यह कौन सी भली बात है कि आपस का लोह न वहाना अपने मत वालों को घर से न निकालना अर्थात् दूसरे मत वालों का लोह वहाना और घर से निकाल देना ? यह मिथ्या मूर्खता और पक्षपात की बात है । क्या परमेश्वर प्रथम ही से नहीं जानता था कि ये प्रतिज्ञा से विरुद्ध करेंगे ? इस से विदित होता है कि मुसलमानों का खुदा भी ईसाइयों की बहुत सी उपमा रखता है और यह कुरान स्वतंत्र नहीं बन सकता क्योंकि इस में से थोड़ी सी बातों को छोड़ कर बाकी सब बातें बायबिल की हैं ॥ १७ ॥

१८—ये वे लोग हैं कि जिन्होंने आखुरत के बदले जिंदगी यहाँ की मोल लेसी उन से पाप कभी हलका न किया जावेगा और न उन को सहायता दी जावेगी ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ७९ ॥

समी०—भला ऐसी ईश्या हेष की बातें कभी ईश्वर की ओर से हो सकती हैं ? जिन लोगों के पाप हलके किये जायं गे वा जिन को सहायता दी जावेगी वे कौन हैं ? यदि वे पापी हैं और पापों का दण्ड दिये बिना हलके किये जावेंगे तो अन्याय होगा जो सज़ा दे कर हलके किये जावेंगे तो जिन का बयान इस आयत में है ये भी सज़ा पा के हलके हो सकते हैं । और दंड देकर भी इस के न किये जायं गे तो भी अन्याय होगा । जो पापों से हलके किये जाने वालों से

प्रयोजनधर्मात्माओं का है तो उन के पाप तो आप ही हलके हैं खुदा क्या करेगा? इस से यह लेख विद्वान् का नहीं। और वास्तव में धर्मात्माओं को सुख और अध-स्थियों को दुःख उन के कर्मों के अनुसार सदैव देना चाहिये ॥ १८ ॥

१८-निश्चय हमने सूसा को किताब दी और उस के पीछे हम पैगम्बर को लाये और मरियम के पुत्र ईसा को प्रकट मौजिजे अर्थात् देवी शक्ति और सामर्थ्य दिये उस के साथ रुहुल्कुदस * के जब तुम्हारे पास उस वस्तु सहित पैगम्बर आया कि जिस को तुम्हारा जो चाहता नहीं फिर तुमने अभिमान किया एक मत को झुठलाया और एक को मार डालते हो ॥ सं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ८० ॥

समी०-जब कुरान में साची है कि सूसा को किताब दी तो उस का मानना मुसलमानों को आवश्यक हुआ और जो २ उस पुस्तक में दोष हैं वे भी मुसल-मानों के मत में आ गिरे और "मौजिजे" अर्थात् देवी शक्ति की बातें सब अन्य-था हैं भोले भाले मनुष्यों को बहकाने के लिये झूठ गूँठ चला ली हैं क्योंकि सृष्टि-काम और विद्या से विकृष्ट सब बातें झूठी ही होती हैं जो उस समय "मौजिजे" थे तो इस समय क्यों नहीं? जो इस समय नहीं तो उस समय भी न थे इस में कुछ भी सन्देह नहीं ॥ १९ ॥

२०-और इस से पहिले काफिरों पर विजय चाहते थे जो कुछ पहिचाना था जब उन के पास वह आया भट काफिर हो गये काफिरों पर लानत है अल्लाह की । सं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ८२ ॥

समी०-क्या जैसे तुम अन्य मत वालों को काफिर कहते हो वैसे वे तुम को काफिर नहीं कहते हैं? और उन के मत के ईश्वर की ओर से धिक्कार देते हैं फिर कही कौन सब्दा और कौन झूठा? जो विचार कर देखते हैं तो सब मत वालों में झूठ पाया जाता है और जो सच है सो सब में एकसा है वे सब लड़ा-इयां मूर्खता की हैं ॥ २० ॥

२१-आनन्द का संदेसा ईमानदारों को अल्लाह, फरिस्तें पैगंबरीं जिबरईल और मीकाईल का जो शत्रु है अल्लाह भी ऐसे काफिरों का शत्रु है । सं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ८० ॥

समी०-जब मुसलमान कहते हैं कि (खुदा लागरीक) है फिर यह फौज की फौज (शरीक) कहां से कर दी? क्या जो औरों का शत्रु वह खुदा का भी शत्रु है? यदि ऐसा है तो ठीक नहीं क्योंकि ईश्वर किसी का शत्रु नहीं हो सकता ॥ २१ ॥

रुहुल्कुदस कहते हैं जबरईल की की कि हरदस मसीह के साथ रहता था ।

२२--और कहो कि जमा मांगते हैं हम जमा करेंगे तुम्हारे पाप और अधिक भलाई करने वालों के । मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ५४ ॥

समी०--भला यह खुदा का उपदेश सब को पापी बनाने वाला है वा नहीं? क्योंकि जब पाप जमा होने का आश्रय मनुष्यों को मिलता है तब पापीसे कोई भी नहीं डरता इस लिये ऐसा कहने वाला खुदा और यह खुदा का बनाया हुआ पुस्तका नहीं हो सकता क्योंकि वह न्यायकारी है अन्याय कभी नहीं करता और पापजमा करने में अन्यायकारी हो जाता है किन्तु यथा अपराध दण्ड ही देने में न्यायकारी हो सकता है ॥ २२ ॥

२३--जब सूसा ने अपनी कीम के लिये पानी मांगा हमने कहा कि अपना असा (दंड) पत्थर पर मार उस में से बारह चश्में वह निकले । मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ५६ ॥

समी०--अब देखिये इन असंभव बातों के तुल्य दूसरा कोई कहे गा ? एक पत्थर को शिला में दंडा मारने से बारह भरनों का निकलना सर्वथा असंभव है हां उस पत्थर को भीतर से पीला कर उस में पानी भर बारह छिद्र करने से संभव है अन्यथा नहीं ॥ २३ ॥

२४--और अल्लाह खास करता है जिसको चाहता है साध दया अपनी के ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ६७ ॥

समी०--क्या जो मुख्य और दया करने के योग्य न हो उस को भी प्रधान बनाता और उस पर दया करता है ? जो ऐसा है तो खुदा बड़ा गड़बड़िया है क्योंकि फिर अच्छा काम कौन करेगा? और बुरे कर्म को कौन छोड़े गा ? क्योंकि खुदा की प्रसन्नता पर निर्भर करते हैं कर्मफल पर नहीं इस से सब को अनास्था ही कर कर्मोंच्छेदप्रसंग होगा ॥ २४ ॥

२५--ऐसा न हो कि काफिर लोग ईर्ष्या करके तुम को ईमान से फेर दें क्योंकि उन में से ईमान वालों के बहुत से दोस्त हैं । मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० १०१ ॥

समी०--अब देखिये खुदा ही उन को चिताता है कि तुम्हारे ईमान को काफिर लोग न ढिगा दें क्या वह सर्वज्ञ नहीं है? ऐसी बातें खुदा की नहीं हो सकती हैं ॥ २५ ॥

२६--तुम जिधर मुंह करो उधर ही मुंह अल्लाह का है । मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० १०७ ॥

समी०--जो यह बात सच्ची है तो मुसलमान (क़िवले) की ओर मुंह क्यों करते हैं ? जो कहे हम को क़िवले की ओर मुंह करने का हुकम है तो यह भी

हुक़्त है कि चाहें जिधर की ओर मुख़्त करो, क्या एक बात सच्ची और दूसरी झूठी होगी ? और जो अल्लाह का मुख़्त है तो वह सब ओर ही नहीं सकता क्योंकि एक मुख़्त एक ओर रहेगा सब ओर क्यों कर रह सकेगा ? इस लिये यह संगत नहीं ॥ २६ ॥

२७-जो आसमान और भूमि का उत्पन्न करने वाला है जब वो कुछ करना चाहता है यह नहीं कि उस को करना पड़ता है किन्तु उसे कहता है कि हो जा बस हो जाता है । मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० १०८ ॥

समी -भला खुदा ने हुक़्त दिया कि हो जा तो हुक़्त किसने सुना ? और किस को सुनाया ? और कौन बन गया ? किस कारण से बनाया ? जब यह लिखते हैं कि सृष्टि के पूर्व सिवाय खुदा के कोई भी दूसरा वस्तु न था तो यह संसार कहां से आया ? बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता तो इतना बड़ा जगत् कारण के बिना कहां से हुआ ? यह बात केवल लड़कपन की है ॥ (पूर्वपक्षी) नहीं २ खुदा की इच्छा से । (उत्तर पक्षी) क्या तुम्हारी इच्छा से एक मक्खी की टांग भी बन जा सकती है ? जो कहते हो कि खुदा की इच्छा से यह सब कुछ जगत् बन गया । (पूर्व०) खुदा सर्वशक्तिमान् है इस लिये जो चाहे सो कर लेता है ॥ (उत्तर०) सर्वशक्तिमान् आ क्या अर्थ है (पूर्व०) जो चाहे सो कर सके । (उत्तर०) क्या खुदा दूसरा खुदा भी बना सकता है ? अपने आप मर सकता है ? मूर्ख रोगी और अज्ञानी भी बन सकता है ? (पूर्व०) ऐसा कभी नहीं बन सकता । (उत्तर०) इस लिये परमेश्वर अपने और दूसरों के गुण कर्म स्वभाव के विश्व कुछ भी नहीं कर सकता जैसे संसार में किसी वस्तु के बनने बनाने में तीन पदार्थ प्रथम अवश्य होते हैं:—एक बनाने वाला, जैसे कुम्हार, दूसरी घड़ा बनने वाली मिट्टी और तीसरा उस का साधन जिस से घड़ा बनाया जाता है जैसे कुम्हार मिट्टी और साधन से घड़ा बनाता है और बनने वाले घड़े के पूर्व कुम्हार मिट्टी और साधन होते हैं वैसे ही जगत् के बनने से पूर्व जगत् का कारण प्रकृति और उन के गुण, कर्म, स्वभाव अनादि हैं इस लिये यह कुरान की बात सर्वथा असंभव है ॥ २७ ॥

२८-जब हम ने लोगों के लिये कावे को पवित्र स्थान सुख देने वाला बनाया तुम नमाज़ के लिये इबराहीम के स्थान को पकड़ो ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ११७ ॥

समीचक-क्या कावे के पहिले पवित्र स्थान खुदा ने कोई भी न बनाया था ? जो बनाया था तो कावे के बनाने की कुछ आवश्यकता न थी, जो नहीं बनाया था तो विचार पूर्वोत्पत्तियों को पवित्र स्थान के बिना ही रखा था पहिले ईश्वर को पवित्र स्थान बनाने का स्मरण न रहा होगा ॥ २८ ॥

२८-वो कौन मनुष्य है जो इबराहीम के दीन से फिर जावे परन्तु जिस ने अपनी जान को मूर्ख बनाया और निश्चय हम ने दुनिया में उसी को पसन्द किया और निश्चय आख़रत में वो ही नैक है ॥ मं० १। सि० १। सू० २। आ० १२२ ॥

समीक्षक-यह कैसे संभव है कि इबराहीम के दीन को नहीं मानते वे सब मूर्ख हैं ? इबराहीम को ही खुदा ने पसन्द किया इस का क्या कारण है ? यदि धर्मात्मा होने के कारण से किया तो धर्मात्मा और भी बहुत हो सकते हैं ? यदि बिना धर्मात्मा होने के ही पसन्द किया तो अन्याय हुआ। हां यह तो ठीक है कि जो धर्मात्मा है वही ईश्वर को प्रिय होता है अधर्मी नहीं ॥ २८ ॥

२०-निश्चय हम तेरे सुख को आसमान में फिरता देखते हैं अवश्य हम तुम्हें उस क़िवले को फ़ीरे गे कि पसन्द करे उस को बस अपना सुख मस्जिदुल्हराम की ओर फ़ीर जहां कहीं तुम हो अपना सुख उस की ओर फ़ीर लो ॥ मं० १। सि० २। सू० २। आ० १३५ ॥

समीक्षक—क्या यह छोटी बुत्परस्ती है ? नहीं बड़ी। (पूर्वपक्षी) हम सुसलमान लोग बुत्परस्त नहीं हैं किन्तु बुत्शिकान अर्थात् मूर्खों को तोड़ने हारे, हैं क्योंकि हम क़िवले को खुदा नहीं समझते। (उत्तरपक्षी) जिन को तुम बुत्परस्त समझते हो वे भी उन २ मूर्खों को ईश्वर नहीं समझते किन्तु उन के सामने परमेश्वर की भक्ति करते हैं यदि बुतों के तोड़ने हारे हो तो उस मस्जिद क़िवले बड़े बुत् को क्यों न तोड़ा ? (पूर्व०) बाह जो हमारे तो क़िवले की ओर सुख फ़ीरने का क़ुरान में हुक्म है और इन को वेद में नहीं है फिर वे बुत्परस्त क्यों नहीं ? और हम क्यों ? क्योंकि हम को खुदा का हुक्म बजाना अव. य है। (उत्तर०) जैसे तुम्हारे लिये क़ुरान में हुक्म है वैसे इन के लिये पुराण में आज्ञा है जैसे तुम क़ुरान को खुदा का कलाम समझते हो वैसे पुराणी भी पुराणों को खुदा के अवतार व्यास जी का वचन समझते हैं, तुम में और इन में बुत्परस्ती का कुछ भिन्नभाव नहीं है प्रत्युत तुम बड़े बुत्परस्त और ये छोटे हैं क्योंकि जब तक कोई मनुष्य अपने घर में से प्रविष्ट हुई क़िवली को निकालने लगे तब तक उस के घर में जंट प्रविष्ट हो जाय वैसे ही सुहम्द साहेब ने छोटे बुत् को सुसलमानों के मत से निकाला परन्तु बड़े बुत् ! जो कि पहाड़ के सदृश मछी को मस्जिद है वह सब सुसलमानों के मत में प्रविष्ट करा दी क्या यह छोटी बुत्परस्ती है ? हां जी हम लोग वैदिक हैं वैसे ही तुम लोग भी वैदिक हो जाओ तो बुत्परस्ती आदि बुराइयों ने बच सकी अन्यथा नहीं तुम को जब तक अपनी बड़ी बुत्परस्ती को न गिनाल दो तब तक दूसरे छोटे बुत्परस्तों के मज़हब से लज्जित हो के निहत्तर रहना चाहिये और अपने को बुत्परस्ती से पृथक् करके पवित्र करना चाहिये ॥ ३० ॥

३१—जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे जाते हैं उन के लिये यह मत कही कि ये मृतक हैं किन्तु वे जीवित हैं ॥ अ० १ । सि० २ । सू० २ । आ० १४४ ॥

समीक्षक—भला ईश्वर के मार्ग में मरने मारने की क्या आवश्यकता है ? यह क्यों नहीं कहते हो कि यह बात अपने मतलब सिद्ध करने के लिये है कि यह लोभ देंगे तो लोग खूब लड़ेंगे, अपना विजय होगा, मारने से न डरेंगे, लूट मार करने से ऐश्वर्य प्राप्त होगा, पश्चात् विषयानन्द करेंगे इत्यादि स्वप्रयोजन के लिये यह विपरीत व्यवहार किया है ॥ ३१ ॥

३२—और यह कि अल्लाह कठोर दुःख देने वाला है ॥ शयतान के पीछे मत चलो निश्चय वो तुम्हारा प्रत्यक्ष शत्रु है ॥ उस के बिना और कुछ नहीं कि बुराई और निर्लज्जता की आज्ञा दे और यह कि तुम कही अल्लाह पर जो नहीं जानते । मं० १ । सि० २ । सू० २ । आ० १५१ । १५४ । १५५ ॥

समीक्षक—क्या कठोर दुःख देने वाला, दयालु खुदा पापियों, पुण्यात्माओं पर है अथवा मुसलमानों पर दयालु और अन्य पर दयाहीन है ? जो ऐसा है तो वह ईश्वर ही नहीं हो सकता । और पक्षपाती नहीं है तो जो मनुष्य कहीं धर्म करे गा उस पर ईश्वर दयालु और जो अधर्म करेगा उस पर दण्डदाता होगा, तो फिर बीच में मुहम्मद साहिब और कुरान को मानना आवश्यक न रहा । और जो सब को बुराई कराने वाला मनुष्यमात्र का शत्रु शयतान है उस को खुदा ने उत्पन्न ही क्यों किया ? क्या वह भविष्यत् की बात नहीं जानता था ? जो कही कि जानता था परन्तु परीक्षा के लिये बनाया तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि परीक्षा करना अल्पज्ञ का काम है सर्वज्ञ तो सब जीवों के अच्छे बुरे कर्मों को सदा से ठीक २ जानता है और शयतान सब को बहकाता है तो शयतान को किस ने बहकाया ? जो कही कि शयतान आप से आप बहकता है तो अन्य भी आप से आप बहक सकते हैं बीच में शयतान का क्या काम ? और जो खुदा ही ने शयतान को बहकाया तो खुदा शयतान का भी शयतान ठहरे गा ऐसी बात ईश्वर की नहीं हो सकती और जो कोई बहकाता है वह कुसंग तथा अविद्या से भ्रान्त होता है ॥ ३२ ॥

३३—तुम पर सुर्दार, लोह और गोशत सूअर का हराम है और अल्लाह के बिना जिस पर कुछ पुकारा जावे । मं० १ । सि० २ । सू० २ । आ० १५६ ॥

समी०—यहां विचारना चाहिये कि सुर्दा चाहे आप से आप मरे वा किसी के मारने से दोनों बराबर हैं हां इन में कुछ भेद भी है तथापि मृतकपन में कुछ भेद नहीं और जब एक सूअर का निषेध किया तो क्या मनुष्य का मांस खाना उचित है ? क्या यह बात अक्की हो सकती है कि परमेश्वर के नाम पर शत्रु

आदि को अत्यन्त दुःख दे के प्राणहत्या करनी ? इस से ईश्वर का नाम कलंकित हो जाता है ही ईश्वर ने बिना पूर्व जन्म के अपराध के मुसलमानों के हाथ से दासण दुःख क्यों दिलाया क्या उन पर दयालु नहीं है ? उन को पुत्रवत् नहीं मानता ? जिस वस्तु से अधिक उपकार होवे उन गाय आदि के मारने का निषेध न करना जानां हत्या करा कर खुदा जगत् का हानिकारक है हिंसारूप पाप से कलंकित भी हो जाता है ऐसी बातें खुदा और खुदा के पुस्तक की कभी नहीं हो सकतीं ॥ ३३ ॥

३४-रोज की रात तुम्हारे लिये हलाल की गई कि मदनोक्तव करना अपनी वीवियों से वे तुम्हारे वास्ते पर्दा हैं और तुम उन के लिये पर्दा ही अल्लाह ने जाना कि तुम चोरी करते हो अर्थात् व्यभिचार बस फिर अल्लाह ने जमा किया तुम को बस उन से मिली और दूँदी जो अल्लाह ने तुम्हारे लिये लिख दिया है अर्थात् सन्तान, खाओ पीयो यहाँ तक कि प्रगट हो तुम्हारे लिये काले तागे से सुपेद तागा वारात से जब दिन निकले । मं० १ । सि० २ । सू० २ । आ० १७२ ॥

समी०—यहाँ यह निश्चित होता है कि जब मुसलमानों का मत चला वा उस के पहिले किसी ने किसी पौराणिक को पूँछा होगा कि चान्द्रायण व्रत जो एक महीने भर का होता है उसकी विधि क्या ? वह शास्त्र विधि जो कि मध्याह्न में चन्द्र की कला घटने बढ़ने के अनुसार रातों को घटाना बढ़ान और मध्याह्न दिन में खाना लिखा है उस को न जान कर कहा होगा कि चन्द्रमा का दर्शन करके खाना उस को इन मुसलमान लोगों ने इस प्रकार का कर लिया परन्तु व्रत में स्त्रीसमागम का त्याग है वह एक बात खुदा ने बढ़ कर कहदी कि तुम स्त्रियों का भी समागम भले ही किया करो और रात में चाहे अनेक बार खाओ, भला यह व्रत क्या हुआ ? दिन को न खाया रात को खाते रहे यह सृष्टिक्रम से विपरीत है कि दिन में न खाना रात में खाना ॥ ३४ ॥

३५-अल्लाह के मार्ग में लड़ो उन से जो तुम से लड़ते हैं ॥ मार डालो तुम उन को जहाँ पाओ ॥ क़तल से कुफ़्र बुरा है ॥ यहाँ तक उन से लड़ो कि कुफ़्र न रहे और होवे दीन अल्लाह का ॥ उन्हीं ने जितनी जियादती करी तुम पर उतनी ही तुम उन के साथ करो । मं० १ । सि० २ । सू० २ । आ० । १७४ । १७५ । १७६ । १७८ । १७९ ॥

समीचक-जो कुरान में ऐसी बातें न होतीं तो मुसलमान लोग इतना बड़ा अपराध जो कि अन्य मत वालों पर किया है न करते और बिना अपराधियों को मारना उन पर बड़ा पाप है । जो मुसलमान के मत का ग्रहण न करना इंसान को कुफ़्र कहते हैं अर्थात् कुफ़्र से क़तल को मुसलमान लोग अच्छा मानते हैं

अर्थात् जो हमारे दीन को न माने गा उस को हम कतल करें जे सा करते ही आये मजहब पर लड़ते २ आप ही राज्य आदि से नष्ट हो गये और उनका मन अन्य मत वालों पर अतिकठोर रहता है क्या चोरी का बदला चोरो है ? कि जितना अपराध हमारा चोर आदि चोरी करें क्या हम भी चोरी करें ? यह सर्वथा अन्याय की बात है क्या कोई अज्ञानी हम को गालियां दे क्या हम भी उस को गाली दें ? यह बात न ईश्वर की न ईश्वर के भक्त विद्वान् की और न ईश्वरोक्त पुस्तक को ही सकती है यह तो केवल स्वार्थी ज्ञानरहित मनुष्य की है ॥ ३५ ॥

३६-अल्लाह भगड़े को मित्र नहीं रखता ॥ ऐ लोगो जो ईमान लाये हो इस्लाम में प्रवेश करो ॥ मं० १ । सि० २ । सू० २ । आ० १६० । १६३ ॥

समीचक-जो भगड़ा करने को खुदा मित्र नहीं समझता तो क्यों आप ही मुसलमानों को भगड़ा करने में प्रेरणा करता ? और भगड़ालू मुसलमानों से मित्रता क्यों करता है ? क्या मुसलमानों के मत में मिलने ही से खुदा राजी है तो वह मुसलमानों ही का पक्षपाती है सब संसार का ईश्वर नहीं इस से यहां यह विदित होता है कि न कुरान ईश्वरकृत और न इस में कहा हुआ ईश्वर हो सकता है ॥ ३६ ॥

३७-खुदा जिस को चाहे अनन्त रिजक देवे ॥ मं० १ । सि० २ । सू० २ । आ० १६७ ॥

समी०-क्या विना पाप पुण्य के खुदा ऐसे ही रिजक देता है ? फिर भलाई बुराई का करना एकसा ही हुआ क्योंकि सुख दुःख प्राप्त होना उस को इच्छा पर है इस से धर्म से विमुख हो कर मुसलमान लोग यथेष्टाचार करते हैं और कोई २ इस कुरानोक्त पर विश्वास न करके धर्मात्मा भी होते हैं ॥ ३७ ॥

३८-प्रश्न करते हैं तुम्ह से रजस्वला को कह वो अपवित्र हैं पृथक् रहो ऋतु समय में उन के समीप मत जाओ जब तक कि वे पवित्र न हों जब नहा लें उन के पास उस स्थान से जाओ खुदा ने आज्ञा दी ॥ तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिये खेतियां हैं वस जाओ जिस तरह चाही अपने खेत में ॥ तुम को अल्लाह लगव (वेकार, व्यर्थ) शपथ में नहीं पकड़ता ॥ मं० १ । सि० २ । सू० २ । आ० २०५ । २०६ । २०८ ॥

समी०-जो यह रजस्वला का स्पर्श संग न करना लिखा है वह अच्छी बात है परन्तु जो यह स्त्रियों को खेती के तुल्य लिखा और जैसा जिस तरह से चाही जाओ यह मनुष्यों को विषयी करने का कारण है । जो खुदा वेकारी शपथ पर नहीं पकड़ता तो सब भूँठ बोलेंगे शपथ तोड़ेंगे । इस से खुदा भूँठ का प्रवर्तक होगा ॥ ३८ ॥

सकता है? यह पक्षपात क्यों करता है? जो वीवियां बहिष्त में सदा रहती हैं वे यहां जन्म पा के वहां गई हैं या वहीं उत्पन्न हुई हैं? यदि यहां जन्म पा कर वहां गई हैं और जो क़यामत की रात से पहिले ही वहां वीवियों को बुला लिया तो उन के खाविन्दों को क्यों न बुला लिया? और क़यामत की रात में सब का न्याय होगा इस नियम को क्यों तोड़ा? यदि वहीं जन्मी हैं तो क़यामत तक वे क्यों कर निर्वाह करती हैं? जो उन के लिये पुरुष भी हैं तो यहां से बहिष्त में जाने वाले मुसलमानों को खुदा वीवियां कहां से दे गा? और जैसे वीवियां बहिष्त में सदा रहने वाली बनाईं वैसे पुरुषों को वहां सदा रहने वाले क्यों नहीं बनाया? इस लिये मुसलमानों का खुदा अन्यायकारी, वे समझ है ॥ ४६ ॥

४७—निश्चय अज्ञाह की ओर से दीन इसलाम है ॥ मं० १ । सि० ३ । सू० ३ । आ० १६ ॥

समी०—क्या अज्ञाह मुसलमानों ही का है औरों का नहीं? क्या तेरह सौ वर्षों के पूर्व ईश्वरीय मत था ही नहीं? इसी से यह क़ुरान ईश्वर का बनाया तो नहीं किन्तु किसी पक्षपाती का बनाया है ॥ ४७ ॥

४८—प्रत्येक जीव को पूरा दिया जावे गा जो कुछ उस ने कमाया और वे न अन्याय किये जायेंगे ॥ कह या अज्ञाह तू ही सुख का मालिक है जिस को चाहे देता है जिस को चाहे क्रीनता है जिस को चाहे प्रतिष्ठा देता है जिस को चाहे अप्रतिष्ठा देता है सब कुछ तेरे ही हाथ में है प्रत्येक वस्तु पर तू ही बलवान् है ॥ रात को दिन में और दिन को रात में पैठाता है और मृतक को जीवित से जीवित को मृतक से निकालता है और जिस को चाहे अनग्न अन्न देता है ॥ मुसलमानों को उचित है कि काफ़िरों को मित्र न बनायें सिवाय मुसलमानों के जो कोई यह करे वस वह अज्ञाह की ओर से नहीं ॥ कह जो तुम चाहते हो अज्ञाह को तो पक्ष करो मेरा अज्ञाह चाहे गा तुम को और तुम्हारे पाप जमा करे गा निश्चय कर्णामय है ॥ मं० १ । सि० ३ । सू० ३ । आ० २१ । २२ । २३ । २४ । २७ ॥

समी०—जब प्रत्येक जीव को कर्मों का पूरा २ फल दिया जाये गा तो जमा नहीं किया जाय गा, और जो जमा किया जायगा तो पूरा फल नहीं दिया जाय गा और अन्याय होगा! जब बिना उत्तम कर्मों के राज्य देगा तो भी अन्यायकारी हो जाय गा भला जीवित से मृतक और मृतक से जीवित कभी हो सकता है? क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था अद्वैत अमिथ है कभी बदल वदल नहीं हो सकती। अब देखिये पक्षपात की बातें कि जो मुसलमान के मक़हब में नहीं हैं उन को काफ़िर ठहराना उनमें अर्थों से भी मित्रता न रखने और मुसलमानों में दुष्टों से भी मित्रता रखने के लिये उपदेश करना ईश्वर को ईश्वरता से बहिः कर देता है। इस से यह क़ुरान, क़ुरान का खुदा और मुसलमान लोग केवल पक्षपात अविद्या के भरे हुए हैं

इसी लिये मुसलमान लोग अन्धर में हैं और देखिये मुहम्मद साहब की लीला कि जो तुम मेरा पक्ष करोगे तो खुदा तुम्हारा पक्ष करेगा और जो तुम पक्षपातरूप पाप करोगे उसकी क्षमा भी करेगा इससे सिद्ध होता है कि मुहम्मद साहब का अन्तःकरण शुद्ध नहीं था इसी लिये अपने मतलब सिद्ध करने के लिये मुहम्मद साहब ने कुरान बनाया वा बनवाया ऐसा विदित होता है ॥ ४८ ॥

४८—जिस समय कहा फरिश्तों ने कि ऐ मर्याम तुम्हको अल्लाह ने पसन्द किया और बचित्र किया ऊपर जगत् की स्त्रियों के ॥ मं० १। सि० ३। सू० ३। आ० ३५ ॥

समीक्षक—भसा जब आज कल खुदा के फरिश्ते और खुदा किसी से बातें करने को नहीं आते तो प्रथम कैसे आये होंगे ? जो कही कि पहिले के मनुष्य पुण्यात्मा थे अब नहीं तो यह बात मिथ्या है किन्तु जिस समय ईसाई और मुसलमानों का मत चला था उस समय उन देशों में जंगली और विद्याहीन मनुष्य अधिक थे इसी लिये ऐसे विद्याविरुद्ध मत चल गये अब विद्वान् अधिक हैं इसी लिये नहीं चल सकता किन्तु जो २ ऐसे प्रोक्त मजहब हैं वे भी अज्ञ होते जाते हैं वृद्धि को तो कथा ही क्या है ॥ ४८ ॥

५०—उसको कहता है कि ही वस ही जाता है ॥ काफ़िरी ने धोखा दिया, ईश्वर ने धोखा दिया ईश्वर बहुत मकर करने वाला है ॥ मं० १। सि० ३। सू० ३। आ० ३८। ४६ ॥

समीक्षक—जब मुसलमान लोग खुदा के सिवाय दूसरी चीज़ नहीं मानते तो खुदा ने किस से कहा ? और उस के कहने से कौन हो गया ? इसका उत्तर मुसलमानों सात अक्ष में भी नहीं दे सकेंगे क्योंकि विना उपादान कारण के कार्य कभी नहीं हो सकता विना कारण के कार्य कहना जानो अपने माबाप के विना मेरा शरीर ही गया ऐसी बात है । जो धोखा खाता अर्थात् छल और झंभ करता है वह ईश्वर तो कभी नहीं हो सकता किन्तु उत्तम मनुष्य भी ऐसा काम नहीं करता ॥ ५० ॥

५१—क्या तुम को बह बहुत न होगा कि अल्लाह तुम को तीन हजार फरिश्तों के साथ सहाय देवे ॥ मं० १। सि० ४। सू० ३। आ० ११० ॥

समीक्षक—जो मुसलमानों को तीन हजार फरिश्तों के साथ सहाय देता था तो अब मुसलमानों को बादशाही बहुतसी नष्ट हो गई और होती जाती है क्यों सहाय नहीं देता ? इसलिये यह बात केवल लोभ दे के मूर्खों को फसाने के लिये महा अन्याय की है ॥ ५१ ॥

५२—और काफ़िरी पर हम को सहाय कर ॥ अल्लाह तुम्हारा उत्तम सहायक और कारसाज़ है ॥ जो तुम अल्लाह के मार्ग में मारे जाओ वा मरजाओ अल्लाह को दया बहुत अच्छी है ॥ मं० १। सि० ४। सू० ३। आ० १३०। १३३। १४० ॥

समीचक—अब देखिये मुसलमानों की भूल कि जो अपने मत से भिन्न हैं उन के मारने के लिये खुदा की प्रार्थना करते हैं क्या परमेश्वर भोला है जो इन की बात मान लेवे ? यदि मुसलमानों का कारसाज़ अल्लाह ही है तो फिर मुसलमानों के कार्य नष्ट क्यों होते हैं ? और खुदा भी मुसलमानों के साथ मोह से फ़सा हुआ दीख पड़ता है जो ऐसा पचपाती खुदा है तो धर्मात्मा पुरुषों का उपासनीय कभी नहीं हो सकता ॥ ५२ ॥

५३—और अल्लाह तुम को परोचन नहीं करता परन्तु अपने पैगम्बरों से जिस को चाहे पसन्द करे वस अल्लाह और उस के रसूल के साथ ईमान लाओ ॥ मं० १ । सि० ४ । सू० ३ । आ० १५६ ॥

समीचक—जब मुसलमान लोग सिवाय खुदा के किसी के साथ ईमान नहीं लाते और न किसी को खुदा का साक्षी मानते हैं तो पैगम्बर साहेब को क्यों ईमान में खुदा के साथ शरीक किया ? अल्लाह ने पैगम्बर के साथ ईमान लाना लिखा इसी से पैगम्बर भी शरीक हो गया पुनः लागरीक कहना ठीक न हुआ यदि इस का अर्थ यह समझा जाय कि महुम्मद साहेब के पैगम्बर होने पर विश्वास लाना चाहिये तो यह प्रश्न होता है कि महुम्मद साहेब के होने की क्या आवश्यकता है ? यदि खुदा उन को पैगम्बर किये बिना अपना अभीष्ट कार्य नहीं कर सकता तो अवश्य असमर्थ हुआ ! ॥ ५३ ॥

५४—ऐ ईमान वाली संतोष करो परस्पर धामे रक्वो और लड़ाई में लगे रहो अल्लाह से डरो कि तुम कुटकारा पाओ । मं० १ । सि० ४ । सू० ३ । आ० १७८ ॥

समीचक—यह कुरान का खुदा और पैगम्बर दोनों लड़ाई बाण धे, जो लड़ाई की आज्ञा देता है वह शान्ति भंग करने वाला होता है क्या नाममात्र खुदा से डरने से कुटकारा पाया जाता है ? वा अधर्मयुक्त लड़ाई आदि से डरने से, जो प्रथम पक्ष है तो डरना न डरना बराबर, और जो द्वितीय पक्ष है तो ठीक है ॥ ५४ ॥

५५—ये अल्लाह की जहें हैं जो अल्लाह और उस के रसूल का कहा माने गा वह वहिश्त में पहुंचे गा जिन में नहरें चलती हैं और यही बड़ा प्रयोजन है ॥ जो अल्लाह की और उस के रसूल की आज्ञा भंग करे गा और उस की जहें से बाहर हो जाय गा वो सदैव रहने वाली आग में जलाया जावे गा और उस के सिये ख़राब करने वाला दुःख है । मं० १ । सि० ४ । सू० ४ । आ० १३ । १४ ॥

समीचक—खुदा ही ने मुहम्मद साहेब पैगम्बर को अपना शरीक कर लिया है और खुदा कुरान ही में लिखा है और देखो खुदा पैगम्बर साहेब के साथ कैसा फ़सा है कि जिस ने वहिश्त में रसूल का साक्षा कर दिया है । किसी एक बात में भी मुसलमानों का खुदा स्वतन्त्र नहीं तो लागरीक कहना व्यर्थ है ऐसी बातें ईश्वरोक्त पुस्तक में नहीं हो सकतीं ॥ ५५ ॥

५६—और एक त्रसरिण की बराबर भी अज्ञाह अन्याय नहीं करता और जो भलाई होवे उसका दुगुण करे गा उसको । मं० १ । सि० ५ । सू० ४ । आ० ३७ ॥

समी०—जो एक त्रसरिण भी खुदा अन्याय नहीं करता तो पुख को द्विगुण क्यों देता ? और- मुसलमानों का पक्षपात क्यों करता है ? वास्तव में द्विगुण वा न्यून फल कर्मों का देवे तो खुदा अन्यायी हो जावे ॥ ५६ ॥

५७—जब तेरे पास से बाहर निकलने हैं तो तेरे कहने के सिवाय (विपरीत) शोचते हैं अज्ञाह उन की सलाह को लिखता है ॥ अज्ञाह ने उन की कमाई बस्तु के कारण से उन को उलटा किया क्या तुम चाहते हो कि अज्ञाह के गुमराह किये हुए को मार्ग पर लावो वस जिसको अज्ञाह गुमराह करे उसको कदापि मार्ग न पावेगा ! मं० १ । सि० ५ । सू० ४ । आ० ८० । ८७ ॥

समी०—जो अज्ञाह बातों को लिख बहीखाता बनाता जाता है तो सर्वज्ञ नहीं ! जो सर्वज्ञ है तो लिखने का क्या काम ? और जो मुसलमान कहते हैं कि शयतान ही सब को बहकाने से दुष्ट हुआ है तो जब खुदा ही जीवों को गुमराह करता है तो खुदा और शयतान में क्या भेद रहा ? हां इतना भेद कह सकते हैं कि खुदा बड़ा शयतान वह छोटा शयतान क्योंकि मुसलमानों ही का कौल है कि जो बहकाता है वही शयतान है तो इस प्रतिज्ञा से खुदा को भी शयतान बना दिया ॥ ५७ ॥

५८—और अपने हाथों को न रोकें तो उनको पकड़ लो और जहां पाओ मार डालो ॥ मुसलमान को मुसलमान का मारना योग्य नहीं जो कोई अनजानों से मार डाले वस एक गर्दन मुसलमान का छोड़ना है और खून बहा उन लोग की और से हुई जो उस कोम से होवें तुम्हारे लिये दान कर देंगे जो दुश्मन की कोम से हैं ॥ और जो कोई मुसलमान को जान कर मार डाले वह सदैव काल दोषख में रहेगा उस पर अज्ञाह का क्रोध और लानत है । मं० १ । सि० ५ । सू० ४ । आ० ८० । ८१ । ८२ ॥

समीक्षक—अब देखिये महापक्षपात की बात है कि जो मुसलमान न हो उसको जहां पाओ मार डालो और मुसलमानों को न मारना भूल से मुसलमानों के मारने में प्रायश्चित्त और अन्य को मारने से बहिष्त मिले गा ऐसे उपदेश को कूप में डालना चाहिये ऐसे २ पुस्तक ऐसे २ पैगम्बर ऐसे २ खुदा और ऐसे २ मत से सिवाय हानि के लाभ कुछ भी नहीं ऐसों का न होना अच्छा और ऐसे प्रामादिक मतों से बुद्धिमानों को अलग रह कर वेदोक्त सब बातों को मानना चाहिये क्योंकि उस में असत्य किंचित्मात्र भी नहीं है और जो मुसलमान को मारे उसको दोषख मिले और दूसरे मत वाले कहते हैं कि मुसलमान को मारे तो स्वर्ग मिले अब कही इन दोनों मतों में से किसको मानें किसको छोड़ें किन्तु ऐसे

सूट्ट प्रकल्पित मनो को छोड़ कर वेदोक्त मत खीकार करने योग्य सब मनुष्यों के लिये है कि जिस में आर्य्य मार्ग अर्थात् श्रेष्ठ पुरुषों के मार्ग में चलना और दस्यु अर्थात् दुष्टों के मार्ग से अलग रहना लिखा है सर्वोत्तम है ॥ ५८ ॥

५८—और शिखा प्रकट होने के पीछे जिस ने रसूल से विरोध किया और मुसलमानों से विरुद्ध पद्य किया अवश्य हम उस को दोषग्रह में भेजेंगे । मं० १ । सि० ५ । सू० ४ । आ० ११२ ॥

समौच्चक—अब देखिये खुदा और रसूल की पक्षपात की बातें महुम्मद सारेब आदि समझते थे कि जो खुदा के नाम से ऐसी हम न लिखेंगे तो अपना मण्डूक न बढ़ेगा और पदार्थ न मिलेंगे आनन्द भोग न होगा इसी से विदित होता है कि वे अपने मंतलब करने में पूरे थे और अन्य के प्रयोजन विगाड़ने में, इस-से ये अनाम थे इन की बात का प्रमाण आस विद्वानों के सामने कभी नहीं हो सकता ॥ ५८ ॥

६०—जो अल्लाह फरिशीं कितारों रसूल और क्यामत के साथ कुफ्र करे निश्चय वह गुमराह है ॥ निश्चय जो लोग ईमान लाये फिर काफिर हुए फिर २ ईमान लाये पुनः फिर गये और कुफ्र में अधिक बढ़े अल्लाह उन को कभी क्षमा न करेगा और न मार्ग दिखलावे गा । मं० १ । सि० ५ । सू० ४ । आ० १२४ । १२५ ॥

समौच्चक—क्या अब भी खुदा लागरीक रह सकता है ? क्या लागरीक कहते जाना और उस के साथ बहुत से शरीक भी मानते जाना यह परस्पर विरुद्ध बात नहीं है ? क्या तीन बार क्षमा के पश्चात् खुदा क्षमा नहीं करता ? और तीन बार कुफ्र करने पर राप्ता दिखलाता है ? वा चौथी बार से आगे नहीं दिखलाता यदि चार २ बार भी कुफ्र सब लोग करें तो कुफ्र बहुत ही बढ़ जाये ॥ ६० ॥

६१—निश्चय अल्लाह बुरे लोगों और काफिरों को जमा करे गा दोषग्रह में ॥ निश्चय बुरे लोग धोखा देते हैं अल्लाह को और उन को वह धोखा देता है ॥ ये ईमान वाली मुसलमानों को छोड़ काफिरों को मित्र मत बनाओ । मं० १ । सि० ५ । सू० ४ । आ० १३८ । १४१ । १४३ ॥

समौच्चक—मुसलमानों के वहिश्त और अन्य लोगों के दोषग्रह में जाने का क्या प्रमाण ? वाह जो वाह ! जो बुरे लोगों के धोखे में आता और अन्य को धोखा देता है ऐसा खुदा हम से अलग रहे किन्तु जो धोखेवाण हैं उन से जा कर मेल करे और वे उस से मेल करे क्योंकि :—

(यादृशी शीतला देवी तादृशः खरवाहनः)

जैसे जो तैसा मिले तभी निर्वाह होता है जिस का खुदा धोखेवाण है उस के उपासक लोग धोखेवाण क्यों न हों ? क्या दुष्ट मुसलमान ही उस से मित्रता और अन्य श्रेष्ठ मुसलमान भिन्न से शत्रुता करना किसी को उचित हो सकती है ? ॥ ६१ ॥

६२--ऐ लोगो निश्चय तुम्हारे पास सत्य के साथ खुदा की ओर से पैगम्बर आया वस तुम उन पर ईमान लाओ ॥ अल्लाह मावूद अकेला है ॥ मं० १ । सि० ६ । सू० ४ । आ० १६० । १६८ ॥

समी०--क्या जब पैगम्बर पर ईमान लाना लिखा तो ईमान में पैगम्बर खुदा का शरीक अर्थात् साझी हुआ वा नहीं ? जब अल्लाह एकदेगी है व्यापक नहीं तभी तो उस के पास से पैगम्बर आते जाते हैं तो वह ईश्वर भी नहीं हो सकता । कहीं सर्वदेगी लिखते हैं कहीं एकदेगी इस से विदित होता है कि कुरान एक का बनाया नहीं किन्तु बहुनों ने बनाया है ॥ ६२ ॥

६३--तुम पर हराम किया गया सुर्दार, लोह, सूअर का मांस, जिस पर अल्लाह के विना कुछ और पड़ा जावे, गला घोटे, लाठी मारे, जपर से गिर पड़े सींग मारे और दरंद का खाया हुआ ॥ मं० २ । सि० ६ । सू० ५ । आ० ३ ॥

समी०--क्या इतने ही पदार्थ हराम हैं ? अन्य बहुत से पशु तथा तिर्यक् जीव कीड़ी आदि मुसलमानों को हलाल हैंगे ? इस वास्ते यह मनुष्यों की कल्पना है ईश्वर को नहीं इस से इस का प्रमाण भी नहीं ॥ ६३ ॥

६४--और अल्लाह को अच्छा उधार दो अवश्य मैं तुम्हारी बुराई दूर करूँगा और तुम्हें बहिश्ती में भेजूँगा ॥ मं० २ । सि० ६ । सू० ५ । आ० १० ॥

समी०--वाह जी ! मुसलमानों के खुदा के घर में कुछ भी धन विशेष नहीं रहा होगा जो विशेष होता तो उधार क्यों मांगता ? और उनको क्यों बहकाता कि तुम्हारी बुराई छुड़ा के तुम को स्वर्ग में भेजूँगा ? यहां विदित होता है कि खुदा के नाम से महुम्मद साहेब ने अपना मतलब साधा है ॥ ६४ ॥

६५--जिस को चाहता है क्षमा करता है जिस को चाहे दुःख देता है ॥ जो कुछ किसी को भी न दिया वह तुम्हें दिया ॥ मं० २ । सि० ६ । सू० ५ । आ० १६ । १८ ॥

समी०--जैसे शयतान जिसको चाहता पापों बनाता वैसे ही मुसलमानों का खुदा भी शयतान का काम करता है ? जो ऐसा है तो फिर बहिश्त और दोऊख में खुदा जावे क्योंकि यह पाप पुण्य करने वाला हुआ जीव पराधीन है जोसी सेना सेनापति के आधीन रचा करती और किसी को मारती है उस की भलाई बुराई सेनापति को होती है सेना पर नहीं ॥ ६५ ॥

६६--आज्ञा मानो अल्लाह की और आज्ञा मानो रसूल की ॥ मं० २ । सि० ७ । सू० ५ । आ० ८८ ॥

समी०--देखिये यह बात खुदा के शरीक होने को है, फिर खुदा को «लाशरीक» मानना व्यर्थ है ॥ ६६ ॥

६७--अल्लाह ने माफ़ किया जो हो चुका और जो कोई फिर करेगा अल्लाह उस से बदला लेगा ॥ मं० २ । सि० ७ । सू० ५ । आ० ८२ ॥

समी०—किये हुए पापों का क्षमा करना जानो पापों को करने की आज्ञा दे के बढ़ाना है। पाप क्षमा करने की बात जिस पुस्तक में हो वह न ईश्वर और न किसी विद्वान् का बनाया है किन्तु पापवर्द्धक है हाँ आगामी पाप छुड़ाने के लिये किसी से प्रार्थना और स्त्रयं छोड़ने के लिये पुरुषार्थ पश्चात्ताप करना उचित है परन्तु केवल पश्चात्ताप करता रहे छोड़े नहीं तो भी कुछ नहीं हो सकता ॥६०॥

६८—और उस मनुष्य से अधिक पापी कौन है जो अज्ञाह पर झूठ बान्ध लेता है और कहता है कि मेरी ओर वही को गई परन्तु वही उस की ओर नहीं की गई और जो कहता है कि मैं भी उतारूँ गा कि जैसे अज्ञाह उतारता है ॥ मं० २ । सि० ७ । सू० ६ । आ० ६४ ॥

समी०—इस बात से सिद्ध होता है कि जब महुम्मद साहेब कहते थे कि मेरे पास खुदा की ओर से आयते आती हैं तब किसी दूसरे ने भी महुम्मद साहेब के तुल्य लीला रची हो गी कि मेरे पास भी आयते उतरती हैं मुझ को भी पैगंबर मानी इस को हटाने और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये महुम्मद साहेब ने यह उपाय किया होगा ॥ ६८ ॥

६९—अवश्य हमने तुम को उत्पन्न किया फिर तुम्हारी सूरतें बनाईं फरिश्तां ने कहा कि आदम को सिजदा करो वस उन्हीं ने सिजदा किया परन्तु शयतान सिजदा करने वाली में से न हुआ ॥ कहा जब मैं ने तुम्हें आज्ञा दी फिर किस ने रोका कि तू ने सिजदा न किया कहा मैं उस से अच्छा हूँ तू ने मुझ को आज्ञा से और उस को मिट्टी से उत्पन्न किया ॥ कहा वस उस में से उतर यह तेरे योग्य नहीं है कि तू उस में अभिमान करे ॥ कहा उस दिन तक ढील दे कि कबरी में से उठाये जावे ॥ कहा निश्चय तू ढील दिये गयीं से है ॥ कहा वस इस की वासम है कि तू ने मुझ को गुमराह किया अवश्य मैं उन के लिये तेरे सीधे मार्ग पर बैठूँ गा ॥ और प्रायः तू उन को धन्यवाद करने वाला न पावे गा ॥ कहा उस से दुर्दशा के साथ निकल अवश्य जो कोई उन में से तेरा पक्ष करेगा तुम सब से दोज़ख को भरूँगा ॥ मं० २ । सि० ८ । सू० ७ । आ० १० । ११ । १२ । १३ । १४ । १५ । १६ । १७ ॥

समी०—अब ध्यान दे कर सुनो खुदा और शयतान के झगड़े को एक फरिश्ता जैसा कि चपरासी हो, या वह भी खुदा से न दवा और खुदा उस के आत्मा को पवित्र भी न कर सका, फिर ऐसे वारी को जो पापी बना कर गदर करने वाला था उस को खुदा ने छोड़ दिया। खुदा की यह वही भूल है। शयतान तो सब को बहकाने वाला और खुदा शयतान को बहकाने वाला होने से यह सिद्ध होता है कि शयतान का भी शयतान खुदा है क्योंकि शयतान प्रत्यक्ष कहता है कि तू ने मुझे गुमराह किया इस से खुदा में पवित्रता भी नहीं पाई जाती और सब

बुराईयों का चलाने वाला मूलकारण खुदा हुआ। ऐसा खुदा मुसलमानों ही का हो सकता है अन्य श्रेष्ठ विद्वानों का नहीं और फरिश्तों से मनुष्यवत् वास्तालाप करने से देहधारी, अल्पज्ञ, न्यायरहित, मुसलमानों का खुदा है इसी से विद्वान् लोग इसलाम के मज़हब को प्रसन्न नहीं करते ॥ ६६ ॥

००-निश्चय तुम्हारा मालिक अल्लाह है जिस ने आसमानों और पृथिवी को छः दिन में उत्पन्न किया फिर करार पकड़ा अर्श पर ॥ दीनता से अपने मालिक को पुकारो ॥ मं० २ । सि० ८ । सू० ७ । आ० ५१ । ५४ ॥

समी०-भला जो छः दिन में जगत् को बनावे (अर्श) अर्थात् जपर के आकाश में सिंहासन पर आराम करे वह ईश्वर सर्वशक्तिमान् और व्यापक कभी हो सकता है ? इस के न होने से वह खुदा भी नहीं कहासकता। क्या तुम्हारा खुदा बधिर है जो पुकारने से सुनता है ? ये सब बातें अनीश्वरकृत हैं इस से कुरान ईश्वरकृत नहीं हो सकता यदि छः दिनों में जगत् बनाया सातवें दिन अर्श पर आराम किया तो धक्का भी गया होगा और अब तक सोता है वा जागा है ? यदि जागता है तो अब कुछ काम करता है वा निकम्मा सैल सपटा और ऐश करता फिरता है ॥ ७० ॥

०१-मत फिरो पृथिवी पर भगड़ा करते ॥ मं० २ । सि० ८ । सू० ७ । आ० ७१ ॥

समी०-यह बात तो अच्छी है परन्तु इस से विपरीत दूसरे स्थानों में जिहाद करना और काफिरों को मारना भी लिखा है अब कही पूर्वापर विरुद्ध नहीं है ? इस से यह विदित होता है कि जब महुम्मद साहब निर्बल हुए हींगे तब उन्होंने यह उपाय रचा होगा और जब सबल हुए हींगे तब भगड़ा मचाया होगा इसी से ये बातें परस्पर विरुद्ध होने से दोनों सत्य नहीं हैं ॥ ७१ ॥

०२-बस एक ही बार अपना असा डाल दिया और वह अर्जगर था प्रत्यक्ष । मं० २ । सि० ८ । सू० ७ । आ० १०५ ॥

समी०-अब इस के लिखने से विदित होता है कि ऐसी झूठी बातों को खुदा और महुम्मद साहब भी मामते थे जो ऐसा है तो ये दोनों विद्वान् नहीं थे क्योंकि जैसे आंख से देखने और कान से सुनने को अन्यथा कोई नहीं कर सकता इसी से ये इन्द्रजाल की बातें हैं ॥ ७२ ॥

०३-बस हम ने उस पर मेह का तूफान भेजा टीढ़ी चिचड़ी और मेढ़क और लोह ॥ बस उन से हमने बदला लिया और उन को डुबो दिया दरियाव में और हमने बनी इसराईल को दरियाव से पार उतार दिया ॥ निश्चय वह दीन झूठा है कि जिस में हैं आर उन का कार्य भी झूठा है । मं० २ । सि० ८ । सू० ७ । आ० ११० । ११३ । १३० । १३८ ॥

समी०—अब देखिये जीसा कोई पाखंडी किसी को डरपा कि हम तुम्ह पर सर्पों को मारने के लिये भेजेंगे ऐसी यह भी बात है। भला जो ऐसा पक्षपाती कि एक जाति को डुवा दे और दूसरे को पार उतारे वह अधर्मी खुदा क्यों नहीं ? जो दूसरे मतों को कि जिस में हजारों झोड़ों मनुष्य हैं। झूठा बतलावे और अपने को सच्चा उस से परे झूठा दूसरा मत कौन हो सकता है ? क्योंकि किसी मत में सब मनुष्य बुरे और भले नहीं हो सकते यह प्रकृतकी डिगरी करना महा-सूखी का मत है क्या तौरत-जवूर का दीन जो कि उन का था झूठा हो गया ? वा उन का कोई अन्य मज़हब था कि जिस को झूठा कहा और जो वह अन्य मज़हब था तो कौन सा था कहा कि जिस का नाम कुरान में हो ॥ ७३ ॥

७४—बस तुम्ह को प्रलवत्ता देख सकेगा जब प्रकाश किया उस के मालिक ने पहाड़ को और उस को परमाणु २ किया गिर पड़ा सूसा बेहोश। सं० २। सि० ६। सू० ७। आ० १४२ ॥

समी०—जो देखने में आता है वह व्यापक नहीं हो सकता और ऐसे चमत्कार करता फिरता था तो खुदा इस समय ऐसा चमत्कार किसी को क्यों नहीं दिख लाता ? सर्वथा विरुद्ध होने से यह बात मानने योग्य नहीं ॥ ७४ ॥

७५—और अपने मालिक को दीगता डर से मन में याद कर धीमी आवाज़ से सुबह की और शाम की। सं० २। सि० ६। सू० ७। आ० २०४ ॥

समी०—कहाँ २ कुरान में लिखा है कि बड़ी आवाज़ से अपने मालिक को पुकार और कहीं २ धीरे २ ईश्वर का स्मरण कर अब कहिये कौन सी बात सही ? और कौन सी झूठी ? जो एक दूसरी बात से विरोध करती है वह बात प्रमत्त गीत के समान होती है यदि कोई बात भ्रम से दिख निकल जाय उस को मान ले तो कुछ चिन्ता नहीं ॥ ७५ ॥

७६—प्रश्न करते हैं तुम्ह को सूटों से कुछ लूटें वान्ते अज़ाह के और रसूल के और हरी अज़ाह से ॥ सं० २। सि० ६। सू० ८। आ० १ ॥

समी०—जो लूट मचाये, हाकू के काम करें करावे और खुदा तथा पैगम्बर और ईमानदार भी बने यह बड़े आश्चर्य की बात है और अज़ाह का हर बत साते और हांकादि बुरे काम भी करते जायें और "उत्तम मत हमारा है" कहते लज्जा भी नहीं। हठ छोड़ के सत्य वेदमत का ग्रहण न करें इस से अधिक कोई बुराई दूसरी होगी ? ॥ ७६ ॥

७७—और काटे गड़ काफ़िरों की ॥ मैं तुम को सहाय साध सहस्र दूंगा फ़िरतों के पीछे २ आने वाले ॥ अवश्य मैं काफ़िरों के दिलों में मय डालूंगा बस मारे ऊपर गर्दनों के मारो उन में से प्रत्येक घोर (संधि) पर। सं० २। सि० ६। सू० ८। आ० ७। ६। १२ ॥

समी०—वाह जी वाह ! कौसा खुदा और कैसे पैगम्बर दयाहीन जो सुस-
ख्खानी मत से भिन्न काफिरों की जड़ काटवावे और खुदा आज्ञा देवे उन की गर्दन
मारो और हाथ पैर के जोड़ों को काटने का सहाय और सन्मति देवे ऐसा खुदा
लंकेय से क्या कुछ काम है ? यह सब प्रपंच कुरान के कर्ता का है खुदा का नहीं,
यदि खुदा का हो तो ऐसा खुदा हम से दूर और हम उस से दूर रहें ॥ ७७ ॥

७८—अल्लाह सुसल्लानों के साथ है ॥ ऐ लोगो जो ईमान लाये हो पुकारना
स्वीकार करो वास्ते अल्लाह के और वास्ते रसूल के ॥ ऐ लोगो जो ईमान लाये हो
मत चोरी करो अल्लाह की रसूल को और मत चोरो करो अमानत अपनी को ॥
और मकर करता था अल्लाह और अल्लाह भला मकर करने वालों का है । मं०
२ । सि० ६ । सू० ८ । आ० १६ । २४ । २७ । ३० ॥

समी०—क्या अल्लाह सुसल्लानों का पक्षपाती है ? जो ऐसा है तो अधर्म करता
है । नहीं तो ईश्वर सब सृष्टि भर का है । क्या खुदा बिना पुकारे नहीं सुन सकता ?
बधिर है ? और उस के साथ रसूल को शरीक करना बहुत बुरी बात नहीं है ?
अल्लाह का कौन सा खजाना भरा है जो चोरी कांगा ? क्या रसूल और अपने
अमानत को चोरी छोड़ कर अन्य सब की चोरी किया करे ? ऐसा उपदेश अवि-
द्वान् और अधर्मियों का हो सकता है । भला जो मकर करता और जो मकर करने
वालों का संगी है वह खुदा कपटो छली और अधर्मी क्यों नहीं ? इस लिये यह
कुरान खुदा का बनाया हुआ नहीं है किसी कपटो छली का बनाया होगा, नहीं
तो ऐसी अन्यथा बातें लिखित क्यों होतीं ? ॥ ७८ ॥

७९—और लड़ो उन से यहां तक कि न रहे फितना अर्थात् बल काफिरों
का और होवे दौन तमाम वास्ते अल्लाह के ॥ और जानो तुम यह कि जो कुछ
तुम लूटो किसी वस्तु से निश्चय वास्ते अल्लाह के है पांचवा हिस्सा उस का और
वास्ते रसूल के ॥ मं० २ । सि० ६ । सू० ८ । आ० ३६ । ४१ ॥

समीचक—ऐसे अन्याय से लड़ने लड़ाने वाला सुसल्लानों के खुदा से भिन्न
शान्ति भंग कर्ता दूसरा कौन होगा ? अग देखिये यह मजहब कि अल्लाह और
रसूल के वास्ते सब जगत् को लूटना लुटवाना लुटेरों का काम नहीं है ? और
लूट के माल में खुदा का हिस्सेदार बनना जानो डालू बनना है और ऐसे लुटेरों
का पक्षपाती बनना खुदा अपनी खुदाई में बड़ा लगाता है । बड़े आयुर्व्यं की
बात है कि ऐसा पुस्तक ऐसा खुदा और ऐसा पैगम्बर संसार में ऐसी उपाधि और
शान्ति भंग करने मनुष्यों को दुःख देने के लिये कहां से आया ? जो ऐसे २ मत
जगत् में प्रचलित न होते तो सब जगत् आनन्द में बना रहता ॥ ७९ ॥

८०—और कभी देखे जब काफिरों को परिश्रम कइय करते हैं मारते हैं खुद
उन के और पीठें उन की और कहते चखो आज्ञा जलने का ॥ हम ने उन के पाप

से उन को मारा और हम ने फिराओन की कीम को डुबा दिया ॥ और तैयारी करो वास्ती उन के जो कुछ तुम कर सको ॥ मं० २। सि० ८। सू० ८। आ० ५०। ५४ ५८ ॥

समीचक—क्यों जी आज कल रुस ने रुम आदि और इङ्ग्लैण्ड ने मित्र की दुर्दशा कर डाली फिरिगे कहां सो गये ? और अपने सेवकों के शत्रुओं को खुदा पूर्व मारता डुवाता था यह बात सच्ची हो तो आज कल भी ऐसा करें जिस से ऐसा नहीं होता इस लिये यह बात मानने योग्य नहीं । अब देखिये यह कैसी बुरी आज्ञा है कि जो कुछ तुम कर सको वह भिन्न मत वालों के लिये दुःखदायक कर्म करो ऐसी आज्ञा विद्वान् और धार्मिक दयालु की नहीं हो सकती फिर लिखते हैं कि खुदा दयालु और न्यायकारी है ऐसी बातों से मुसलमानों के खुदा से न्याय और दयादि सद्गुण दूर बतते हैं ॥ ८० ॥

८१—ऐ नबी किफायत है तुम्ह को अज्ञाह और उन को जिन्होंने मुसलमानों से तेरा पक्ष किया ॥ ऐ नबी रग्वत अर्थात् चाह चस्कादे मुसलमानों को ऊपर लड़ाई के जो हों तुम में से २० आदमी सन्तोष करने वाले तो पराजय करें दो सौ का ॥ बस खाओ उस वस्तु से कि लूटा है तुम ने हलाल पवित्र और डरो अज्ञाह से वह क्षमा करने वाला दयालु है ॥ मं० २। सि० १०। सू० ८। आ० ६३। ६४। ६८ ॥

समीचक—भला यह कौनसी न्याय विद्वत्ता और धर्म की बात है कि जो अपमा पक्ष करें और चाहें अन्याय भी करें उसी का पक्ष और लाभ पहुंचाये ? और जो प्रजा में शान्ति भंग करके लड़ाई करे करावे और लूट मार के पदार्थों को हलाल बत लावे और फिर उसी का नाम क्षमावान् दयालु लिखे यह बात खुदा की तो क्या किन्तु किसी भले आदमी को भी नहीं हो सकती ऐसी २ बातों से कुरान ईश्वर वाक्य कभी नहीं हो सकता ॥ ८१ ॥

८२—सदा रहेंगे बीच उस के अज्ञाह समीप है उस के पुण्य बढ़ा ॥ ऐ लोगो जो ईमान लाये हो मत पकड़ो बापों अपने को और भाइयों अपने को मित्र जो दोस्त रखें सुफ्र को ऊपर ईमान के ॥ फिर उतारो अज्ञाह ने तसबी अपनी ऊपर रसूल अपने के और ऊपर मुसलमानों के और उतारे लगकर नहीं देखा तुम ने उन को और अज्ञाव किया उन लोगों को और यही सजा है काफिरों को ॥ फिर फिर आवेगा अज्ञाह पीछे उस के ऊपर ॥ और लड़ाई करो उन लोगों से जो ईमान नहीं लाते ॥ मं० २। सि० १०। सू० ८। आ० २१। २२। २५। २६। २८।

समी०—भला जो बहिश्त वालों के समीप अज्ञाह रहता है तो सर्वव्यापक क्यों कर हो सकता है ? जो सर्वव्यापक नहीं तो सृष्टिकर्ता और न्यायधीन नहीं हो सकता । और अपने मा.वाप भाई और मित्र की दुर्दशा केवल अन्याय की बात है हां जो वे बुरा उपदेश करें, न मानना परन्तु उन की सेवा सदा

करना चाहिये । जो पहिले खुदा सुसलमानों पर सन्तोषी था और उन के सहाय के लिये लश्कर उतारता था सच हो तो अब ऐसा क्यों नहीं करता ? और जो प्रथम काफिरों की दण्ड देता और पुनः उस के ऊपर आता था तो अब कहां गया ? क्या बिना लड़ाई के ईमान खुदा नहीं बना सकता ? ऐसे खुदा को हमारी ओर से सदा तिलांजली है खुदा क्या है एक खिलाड़ी है ? ॥ ८२ ॥

८३-और हम बाट देखने वाले हैं वास्ती तुम्हारे यह कि पहुंचावे तुम को अल्लाह अज़ाब अपने पास से वा हमारे हाथों से । मं० २ । सि० १० । सू० ६ । आ० ५२ ॥

समी०-क्या, सुसलमान ही ईश्वर की पुलिस बन गये हैं कि अपने हाथ वा सुसलमानों के हाथ से अन्य किसी मत वालों को पकड़ा देता है ? क्या दूसरे कौड़ों मनुष्य ईश्वर को अप्रिय हैं ? सुसलमानों में पापी भी प्रिय हैं ? यदि ऐसा है तो अन्धेर नगरी गवरगण्ड राजा कीसी व्यवस्था दीखती है आश्चर्य है कि जो बुद्धिमान सुसलमान हैं वे भी इस निर्मूल अयुक्त मत को मानते हैं ॥ ८३ ॥

८४-प्रतिज्ञा की है अल्लाह ने ईमान वालों से और ईमान वालियों से बहिश्तें चलतो हैं नीचे उन के से नहरें सदैव रहने वाली बोक उस के और घर पवित्र बहिश्तों अदन के और प्रसन्नता अल्लाह की ओर बढ़ी है और यह कि वह है मुराद पाना बड़ा ॥ बस ठट्ठा करते हैं उन से ठट्ठा किया अल्लाह ने उन से । मं० २ । सि० १० । सू० ६ । आ० ७२ । ८० ॥

समी०-यह खुदा के नाम से स्त्री पुरुषों को अपने मतलब के लिये लोभ देना है क्योंकि जो ऐसा प्रलोभन देते तो कोई महुम्मद साहेब के जाल में न फसता ऐसे ही अन्य मत वाले भी किया करते हैं । मनुष्य लोग तो आपस में ठट्ठा किया ही करते हैं परन्तु खुदा को किसी से ठट्ठा करना उचित नहीं है यह कुरान क्या है बड़ा खेल है ॥ ८४ ॥

८५-परन्तु रसूल और जो लोग कि साथ उस के ईमान लाये जिहाद किया उन्हें ने साथ धन अपने के तथा जान, अपनी के और इन्हीं लोगों के लिये भलाई है ॥ और मोहर रखी अल्लाह ने ऊपर दिलों उन के के बस वे नहीं जानते । मं० २ । सि० १० । सू० ६ । आ० ८६ । ८२ ॥

समी०-अब देखिये मतलबसिंधु की बात कि वे ही भले हैं जो महुम्मद साहेब के साथ ईमान लाये और जो नहीं लाये वे दुरे हैं ! क्या यह बात पक्षपात और अविद्या से भरी हुई नहीं है ? जब खुदा ने मोहर ही लगा दी तो उन का अपराध पाप करने में कोई भी नहीं किन्तु खुदा ही का अपराध है क्योंकि उन विचारों को भलाई से दिलों पर मोहर लगा के रोक दिये यह कितना बड़ा अन्याय है !!! ॥ ८५ ॥

८६—ले माल उन के से खैरात कि पवित्र करे तू उन को अर्थात् बाहरी और शुद्ध करे तू उन को साथ उस के अर्थात् गुप्त में ॥ निश्चय अल्लाह ने मौल ली है मुसलमानों से जाने उन को और माल उन के बदले कि वास्ते उन के वरिष्ठ है लड़े गे बीच मार्ग अल्लाह के बस मारे गे और मर जावें गे ॥ मं० २ । सि० ११ । सू० ६ । आ० १०२ । ११० ॥

समी०—वाह जी वाह ! महम्मद साहेब आप ने तो गोकुलिये गुसाइयों की बराबरी कर ली क्योंकि उन का माल लेना और उन को पवित्र करना यही बात तो गुसाइयों की है । वाह खुदा जी ! आपने अच्छी सौदागरी लगाई कि मुसलमानों के हाथ से अन्य गरीबों के प्राण लेना ही लाभ समझा और उन अनार्थी को मरवा कर उन निर्दयों मनुष्यों को स्वर्ग देने से दया और न्याय से मुसलमानों का खुदा हाथ धो बैठा और अपनी खुदाई में बड़ा लगा के बुद्धिमान् धार्मिकों में घृणित हो गया ॥ ८६ ॥

८७—ऐ लोगो जो ईमान लाये हो लड़ो उन लोगों से कि पास तुम्हारे हैं काफिरों से और चाहिये कि पावें बीच तुम्हारे दृढ़ता ॥ क्या नहीं देखते यह कि वे बलाओं में डाले जाते हैं हर वर्ष के एक बार वा दो बार फिर वे नहीं तोबाः करते और न वे शिष्टा पकड़ते हैं ॥ मं० २ । सि० ११ । सू० ६ । आ० १२२ ॥ १२५ ॥

समीचक—देखिये ये भी एक विश्वासघात की बातें खुदा मुसलमानों को सिखलाता है कि चाहें पडोसी हों वा किसी के नौकर हों जब अवसर पावें तभी लड़ाई वा घात करें ऐसी बातें मुसलमानों से बहुत बन गई हैं इसी कुरान के लेख से अब तो मुसलमान समझ के इन कुरानीक बुराइयों को छोड़ दें तो बहुत अच्छा है ॥ ८७ ॥

८८—निश्चय परवरदिगार तुम्हारा अल्लाह है जिसने पैदा किया आसमानों और पृथिवी को बीच छः दिन के फिर करार पकड़ा ऊपर अर्ग के तद्वीर करता है काम की ॥ मं० ३ । सि० ११ । सू० १० । आ० ३ ॥

समीचक—आसमान आकाश एक और बिना बना अनादि है उस का बनाना लिखने से निश्चय हुआ कि वह कुरानकर्ता पदार्थविद्या को नहीं जानता था । क्या परमेश्वर के सामने छः दिन तक बनाना पड़ता है? तो जो "हाँ में" हुकम से और हो गया" जब कुरान में ऐसा लिखा है फिर छः दिन कभी नहीं लग सकेंगे इस से छः दिन लगना झूठ है जो वह व्यापक होता तो ऊपर आकाश के क्यों टहरता ? और जब काम की तद्वीर करता है तो टीक तुम्हारा खुदा मनुष्य के समान है क्योंकि जो सर्वज्ञ है वह बैठा २ क्या तद्वीर करेगा ? इस से विदित होता है कि ईश्वर को न जानने वाले धंगली लोगों ने यह पुस्तक बनाया होगा ॥ ८८ ॥

८९—शिष्टा और दया वास्ते मुसलमानों के । मं० ३ । सि० ११ । सू० १० । आ० ३५ ॥

समी०—क्या यह खुदा मुसलमानों ही का है ? दूसरों का नहीं ? और पक्षपाती है । जो मुसलमानों ही पर दया करे अन्य मनुष्यों पर नहीं यदि मुसलमान ईमानदारों को कहते हैं तो उन के लिये शिवा की आवश्यकता ही नहीं और मुसलमानों से भिन्नो को उपदेश नहीं करता तो खुदा की विद्या ही व्यर्थ है ॥ ५८ ॥

८०—परीक्षा लेवे तुम को कौन तुम में से अच्छा है कर्मों में जो कहे तु अवश्य उठाये जाओगे तुम पीछे मृत्यु के । मं० ३ । सि० ११ । सू० ११ । आ० ७ ॥

समी०—जब कर्मों की परीक्षा करता है तो सर्वज्ञ ही नहीं और जो मृत्यु पीछे उठाता है तो दीड़ा सुपर्द रखता है और अपने नियम जो कि मरे हुए न जीवें उस को तोड़ता है यह खुदा को बड़ा लगना है ॥ ६० ॥

८१—और कहा गया ऐ पृथिवी अपना पानी निगलजा और ऐ आसमान बस कर और पानी सूख गया ॥ और ऐ कौम यह है निसानी जंटनी अल्लाह की वास्ते तुम्हारे बस छोड़ दो उस को बीच पृथिवी अल्लाह के खाती फिरे । मं० ३ । सि० ११ । सू० ११ । आ० ४३ । ६३ ॥

समी०—क्या लड़कपन की बात है ! पृथिवी और आकाश कभी बात सुन सकते हैं ? वाह जो वाह ! खुदा के जंटनी भी है तो जंट भी होगा ? तो चाथी, घोड़े, गधे आदि भी होंगे ? और खुदा का जंटनी से खेत खिलाना क्या अच्छी बात है ? क्या जंटनी पर चढ़ता भी है जो ऐसी बातें हैं तो नबाबी की सी घसड़ फसड़ खुदा के घर में भी हुई ॥ ६१ ॥

८२—और सदैव रहने वाले बीच उस के जब तक कि रहें आसमान और पृथिवी ॥ और जो लोग सुभागी हुए बस बहिश्त के सदा रहने वाले हैं जब तक रहें आसमान और पृथिवी ॥ मं० ३ । सि० १२ । सू० ११ । आ० १०५ । १०६ ॥

समीक्षक—जब दीजख और बहिश्त में कयामत के पश्चात् सब लोग जायेंगे फिर आसमान और पृथिवी किस लिये रहेगी ? और जब दीजख और बहिश्त के रहने की आसमान पृथिवी के रहने तक अवधि हुई तो सदा रहेंगे बहिश्त वा दीजख में यह बात झूठी हुई ऐसा कथन अविद्वानों का होता है ईश्वर वा विद्वानों का नहीं ॥ ६२ ॥

८३—जब यूसूफ ने अपने बाप से कहा कि ऐ बाप मेरे मैंने एक स्वप्न में देखा ॥ मं० ३ । सि० १२ । सू० १२ । आ० ४ से ५८ तक ॥

समीक्षक—इस प्रकार में पिता पुत्र का संवादरूप किस्सा कहानी भरी है इस गिये कुरान ईश्वर का बनाया नहीं किसी मनुष्य ने मनुष्यों का इतिहास लिख दिया है ॥ ६३ ॥

८४—अज्ञाह वह है कि जिस ने खड़ा किया आसमान को बिना खंभे के देखते हो तुम उस को फिर ठहरा ऊपर अर्श के आशा वर्तने वाला किया सूरज और चांद को ॥ और वही है जिसने बिक्रया पृथिवी को ॥ उतारा आसमान से पानी बस बड़े नाले साथ अन्दाज अपने के ॥ अज्ञाह खोलता है भोजन का वास्ते जिस को चाहे और तंग करता है ॥ मं० ३। सि० १३। सू० १३। आ० २। ३। १७। २६ ॥

समौच्चक—सुसलमानों का खुदा पदार्थविद्या कुक भी नहीं जानता था जो जानता तो गुरुत्व न होने से आसमान को खंभे लगाने की कथा कहानी कुक भी न लिखता । यदि खुदा अर्शरूप एक स्थान में रहता है तो वह सर्वगक्तिमान् और सर्वव्यापक नहीं हो सकता । और जो खुदा मेवविद्या जानता तो आकाश से पानी उतारा लिखा पुनः यह क्यों न लिखा कि पृथिवी से पानी ऊपर चढ़ाया इस से निश्चय हुआ कि कुरान का बनाने वाला मेवकी विद्या को भी नहीं जानता था । और जो बिना अच्छे बुरे कामों के सुख दुःख देता है तो पक्षपाती अन्यायकारी निरक्षर भट्ट है ॥ ८४ ॥

८५—कह निश्चय अज्ञाह गुमराह करता है जिस को चाहता है और मार्ग दिखलाता है तर्फ अपनी उस मनुष्य को रजू करता है । मं० ३। सि० १३। सू० १३। आ० २७ ॥

समी०—जब अज्ञाह गुमराह करता है तो खुदा और शयतान में क्या भेद हुआ ? जब कि शयतान दूसरों को गुमराह अर्थात् बहकाने से बुरा कहता है तो खुदा भी वैसा ही काम करने से बुरा शयतान क्यों नहीं ? और बहकाने के पाप से दोखी क्यों नहीं होना चाहिये ? ॥ ८५ ॥

८६—इसी प्रकार उतारा हमने इस कुरान को अर्वा जो पक्ष करेगा तू उन की इक्का का पीछे इस के आई तेरे पास विद्या से । बस सिवाय इस के नहीं कि ऊपर तेरे पैगाम पहुंचाना है और ऊपर हमारे है हिसाब केना । मं० ३। सि० १३। सू० १३। आ० ३७। ४० ॥

समौच्चक—कुरान किधर की ओर से उतारा ? क्या खुदा ऊपर रहता है ? जो यह बात सच है तो वह एकदेशी होने से ईश्वर ही नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर सब ठिकाने एकरस व्यापक है पैगाम पहुंचाना हल्कारे का काम है और हल्कारे की आवश्यकता उसी की होती है जो मनुष्यवत् एकदेशी हो और हिसाब लेना देना भी मनुष्य का काम है ईश्वर का नहीं क्योंकि यह सर्वज्ञ है यह नियय होता है कि किसी अप्पन्न मनुष्य का बनाया कुरान है ॥ ८६ ॥

८७—और किया सूर्य चन्द्र को सदैव फिरने वाले ॥ निश्चय आदमी अवगम अन्याय और पाप करने वाला है ॥ मं० ३। सि० १३। सू० १४। आ० ३३। ३४ ॥

समीक्षक—क्या चन्द्र सूर्य सदा फिरते और पृथिवी नहीं फिरती ? जो पृथिवी नहीं फिर तो कई वर्षों का दिन रात होवे । और जो मनुष्य निश्चय अन्याय और पाप करने वाला है तो कुरान से गिना करना व्यर्थ है क्योंकि जिन का स्वभाव पाप ही करने का है तो उन में पुण्यात्मा कभी न होगा और संसार में पुण्यात्मा और पापात्मा सदा देखते हैं इस लिये ऐसी बात ईश्वरकृत पुस्तक की नहीं हो सकती ॥ ६७ ॥

६८—वस ठीक करूँ मैं उस को और फूँक दूँ बीच उस के रूह अपनी से वस गिर पड़ो वास्ती उस के सिजदा करते हुए ॥ कहाँ ये सब मेरे इस कारण कि गुमराह किया तू ने मुझ को अवश्य जीनत हूँगा मैं वास्ती उन के बीच पृथिवी के और गुमराह करूँगा ॥ मं० ३ । सि० १४ । सू० १५ । आ० २६ । ३६ से ४६ तक ॥

समी०—जो खुदा ने अपनी रूह आदम साहब में डाली तो वह भी खुदा हुआ और जो वह खुदा न था तो सिजदा अर्थात् नमस्कारादि भक्ति करने में अपना शरीक क्यों किया ? जब शयतान को गुमराह करने वाला खुदा ही है तो भी वह शयतान का भी शयतान बड़ा भाई गुरू क्यों नहीं ? क्योंकि तुम लोग वहकाने वाले को शयतान मानते हो तो खुदा ने भी शयतान को वहकाया और प्रत्यक्ष शयतान ने कहा कि मैं वहकाऊँ गाँ फिर भी उस को दण्ड दे वार कौद क्यों न किया ? और मार क्यों न डाला ? ॥ ६८ ॥

६९—और निश्चय भेजे हम ने बीच हर उम्मत के पैगम्बर ॥ जब चाहते हैं हम उसको यह कहते हैं हम उस को हो वस हो जाती है मं० ३ । सि० १४ । सू० १६ । आ० २५ । ३६ ॥

समी०—जो सब कौमों पर पैगम्बर भेजे हैं तो सब लोग जो कि पैगम्बर की राय पर चलते हैं वे का फिर क्यों ? क्या दूसरे पैगम्बर का मान्य नहीं । सिवाय तुम्हारे पैगम्बर के ? यह सर्वथा पक्षपात की बात है जो सब देश में पैगम्बर भेजे तो आर्यावर्ष में कौनसा भेजा इस लिये यह बात मानने योग्य नहीं जब खुदा चाहता है और कहता है कि पृथिवी हो जा वह जड़ कभी नहीं सुन सकती खुदा का हुक्म क्यों कार बन सके गा ? और सिवाय खुदा के दूसरी चीज़ नहीं मानते तो सुना किस ने ? और हो कौन सा गया ? ये सब अविद्या की बातें हैं ऐसी बातों को अनजान लोग मान लेते हैं ॥ ६९ ॥

१००—और नियत करते हैं वास्ती अल्लाह के बेटियाँ पवित्रता है उस को और वास्ती उन के है जो कुछ चाहें ॥ कसम अल्लाह की अवश्य भेजे हम ने पैगम्बर ॥ मं० ३ । सि० १४ । सू० १६ । आ० ५६ । ६२ ॥

समी०—अल्लाह बेटियों से क्या करे गा ? बेटियाँ तो किसौ मनुष्य को चाहिये क्यों बेटे नियत नहीं किये जाते ? और बेटियाँ नियत कौ जाती हैं इस का क्या

कारण है? बताइये? कसम खाता भूठों का काम है खुदा की बात नहीं क्योंकि बड़धा संसार में ऐसा देखने में आता है कि जो भूठा होता है नहीं कसम खाता है सच्चा सौगन्ध क्यों खावे? ॥ १०० ॥

१०१—ये लोग वे हैं कि मोहर रखी अशाह ने ऊपर दिलों उन के और कारों उन के और आंखों उन की के और ये लोग वे हैं देखवर ॥ और पूरा दिया जावे गा हर जीव को जो कुछ किया है और वे अन्याय न किये जायेंगे ॥ सं० १ । सि० १४ । सू० १६ । आ० ११५ । ११८ ॥

समी०—जब खुदा ही ने मोहर लगा दी तो वे विचारे बिना अपराध मारे गये? क्योंकि उन को पराधीन कर दिया यह कितना बड़ा अपराध है? और फिर कहते हैं कि जिस ने जितना किया है उतना ही उस को दिया जाय गा न्यूनाधिक नहीं, भला उन्हें ने स्वतन्त्रता से पाप किये ही नहीं किन्तु खुदा के करार ने से किये पुनः उन का अपराध ही न हुआ उन को फल न मिलना चाहिये इस का फल खुदा को मिलना उचित है और जो पूरा दिया जाता है तो जमा किस बात की जाती है और जो जमा की जाती है तो न्याय उड़ जाता है ऐसा गड़बड़ाध्याय ईश्वर का कभी नहीं हो सकता किन्तु निर्बुद्धि होकरों का होता है ॥ १०१ ॥

१०२—और किया हम ने दोज़ख को वास्ते काफ़िरो के घेर ने वाला स्थान ॥ और हर आदमी को लगा दिया हम ने उस को अमलनामा उस का बीच गर्दन उस की के और निकालेंगे हम वास्ते उस के दिन क़यामत के एक किताब कि देखे गा उस को खुला हुआ ॥ और बहुत मारे हमने कुरनून से पीछे नूह के ॥ सं० ४ । सि० १५ । सू० १७ । आ० ७ । १२ । १६ ॥

समी०—यदि काफ़िर वे ही हैं कि जो कुरान पैग़म्बर और कुरान के कहे खुदा सातवें आसमान और नमाज आदि को न मानें और उन्हीं के लिये दोज़ख जाये तो यह बात केवल पचपात की ठहरे क्योंकि कुरान ही के मानने वाले सब अच्छे और अन्य के मानने वाले सब बुरे कभी हो सकते हैं? यह बड़ी लड़कपन की बात है कि प्रत्येक की गर्दन में कर्म पुस्तक, हम तो किसी एक को भी गर्दन में नहीं देखते । यदि इस का प्रयोजन कर्मों का फल देना है तो फिर मनुष्यों के दिलों, नेत्रों आदि पर मोहर रखना और पापों का जमा करना क्या खेल मथाया है क़यामत को रात को कितान निकालेंगे खुदा तो आज कल यह किताब फट्टा है? क्या साहकार को वही समान लिखता रहता है? यहाँ यह विचारणा चाहिये कि जो पूर्व जन्म नहीं तो जीवों के कर्म ही नहीं हो सकते तो फिर कर्म की रखा क्या लिखी? और जो बिना कर्म के लिखा तो उन पर अन्याय किया

क्योंकि बिना अच्छे बुरे कर्मों के उन को दुःख सुख क्यों दिया? जो कहो कि खुदा की मरजी, तो भी उस ने अन्याय किया अन्याय उसी को कहते हैं कि बिना बुरे भले कर्म किये दुःखसुखरूप फल न्यूनधिक देना और उस समय खुदा ही किताब वांचे गा वा कोई सरिश्तेदार सुनावेगा जो खुदा ही ने दीर्घ काल सम्बन्धी जीवों को बिना अपराध मारा तो वह अन्यायकारी हो गया जो अन्यायकारी होता है वह खुदा ही नहीं हो सकता ॥ १०२ ॥

१०१-और दिया हमने समून्द को जंटनी प्रमाण ॥ और वहका जिस को वहका सके ॥ जिस दिन बुलावे गे हम सब लोगों को साथ पेशवाओं उन के के वस जो कोई दिया गया अमलनामा उस का बीच दहिने हाथ उस के के । मं० ४ । सि० १५ । सू० १७ । आ० ५७ । ६२ । ६६ ॥

समी०-वाह जी जितनी खुदा को साध्य निशानी हैं उन में से एक जंटनी भी खुदा के होमे में प्रमाण अथवा परीक्षा में साधक है यदि खुदा ने शयतान को वहकाने का हुक्म दिया तो खुदा ही शयतान का सरदार और सब पाप कराने वाला ठहरा ऐसे को खुदा कहना केवल काम समझ की बात है । जब कयामत की अर्थात् प्रलय ही में न्याय करने कराने के लिये पैगम्बर और उन के उपदेश मानने वालों को खुदा बुलावे गा तो जब तक प्रलय न होगा तब तक सब दौड़ा सुपुर्द रहेंगे और दौड़ा सुपुर्द सब को दुःखदायक है जब तक न्याय न किया जाय । इस लिये शीघ्र न्याय करना न्यायाधीश का उत्तम काम है यह तो पोपां वाई का न्याय ठहरा जैसे कोई न्यायाधीश कहें कि जब तक पचास वर्ष तक के चोर और साहकार इकट्ठे न हों तब तक उन को दंड वा प्रतिष्ठा न करनी चाहिये वैसा ही यह हुआ कि एक तो पचास वर्ष तक दौड़ा सुपुर्द रहा और एक आज ही पकड़ा गया ऐसा न्याय का काम नहीं हो सकता न्याय तो वेद और मनुस्मृति देखो जिस में चणमात्र भी बिलम्ब नहीं होता और अपने २ कर्मानुसार दंड वा प्रतिष्ठा सदा पाते रहते हैं दूसरा पैगम्बरों को गवाही के तुल्य रखने से ईश्वर को सर्वज्ञता की हानि है भला ऐसा पुस्तक ईश्वरकृत और ऐसे पुस्तक का उपदेश करने वाला ईश्वर कभी हो सकता है ? कभी नहीं ॥ १०३ ॥

१०४-ये लोग वास्ते उन के हैं वाग हमेशह रहने के, चरती हैं नीचे उन के से नहरें गहिना पहिराये जावें गे बीच उस के वांगन खाने के से और पोशाक पहिने गे वस्त्र हरित लाही की से और ताफते की से तकिये किये हुए बीच उस के ऊपर तखती के अच्छा है पुख और अच्छी है वहिश्त लाभ उठाने को । मं० ४ । सि० १५ । सू० १८ । आ० ३० ॥

समी०-वाह जी वाह ! क्या कुरान का खर्ग है जिस में वाग, गलने, कपड़े, गद्दी, तकिये आनन्द के लिये हैं भला कोई बुद्धिमान् यहाँ विचार करे तो यहाँ

से वहां मुसलमानों के बहिष्त में अधिक कुफ्र भी नहीं है सिवाय अन्याय के वह यह कि कर्म उन के अन्त वाले और फल उन का अनन्त और जो मीठा नित्य खावे तो थोड़े दिन में विष के समान प्रतीत होता है जब सदा वे सुख भोगेंगे तो उन को सुख ही दुःखरूप हो जायगा इस लिये महाकल्प पर्यन्त मुक्ति सुख भोग के पुनर्जन्म पाना ही सत्य सिद्धान्त है ॥ १०४ ॥

१०५—और यह वस्तियाँ हैं कि मारा हम ने उन को जब अन्याय किया उन्होंने ने और हम ने उन के मारने की प्रतिज्ञा स्थापन की । मं० ४ । सि० १५ । सू० १८ । आ० ५७ ॥

समी—भला सब वस्ती भर पापी भी हो सकती है ? और पोछे से प्रतिज्ञा करने से ईश्वर सर्वज्ञ नहीं रहता क्योंकि जब उन का अन्याय देखा तो प्रतिज्ञा की पछिले नहीं जानता था इस से दयाहीन भी ठहरा ॥ १०५ ॥

१०६—और वह जो लड़का बस ये मा बाप उस के ईमान वाले बस डरे हम यह कि पकड़े उन को सरकसी में और कुफ्र में ॥ यहाँ तक कि पहुँचा जगह डूबने सूख को पाया उस को डूबता था बीच चरमें कीचड़ के ॥ कहा उनने ऐ जुलकरनैन निश्चय याजूज माजूज फिसाद करने वाले हैं बीच पृथिवी के ॥ मं० ४ । सि० १६ । सू० १८ । आ० ७८ । ८४ । ९२ ॥

समी—भला यह खुदा की कितनी बेसमझ है ! शंका से डरा कि लड़कों के मा बाप कहीं मेरे मार्ग से बहका कर उलटे न कर दिये जावें यह कभी ईश्वर की बात नहीं हो सकती । अब आगे की अविद्या की बात देखिये कि इस किताब का बनाने वाला सूर्य को एक भील में रात्रि को डूबा जानता है फिर प्रातःकाल निकलता है भला सूर्य तो पृथिवी से बहुत बड़ा है वह नदी वा भील वा समुद्र में कैसे डूब सकेगा ? इस से यह विदित हुआ कि कुरान के बनाने वाले को भूगोलखगोल की विद्या नहीं थी जो होती तो ऐसी विद्यायिक्त बात क्यों लिख देते ? और इस पुस्तक के मानने वालों को भी विद्या नहीं है जो होती तो ऐसी मिथ्या बातों से युक्त पुस्तक को क्यों मानते ? अब देखिये खुदा का अन्याय आप ही पृथिवी का बनाने वाला राजा न्यायाधीश है और याजूज माजूज को पृथिवी में फसाद भी करने देता है यह ईश्वरता की बात से विग्रह है इस से ऐसी पुस्तक को जंगली लोग माना करते हैं विद्वान् नहीं ॥ १०६ ॥

१०७—और याद करो बीच किताब के मर्यम को जब सा पड़ी लोगो अपने से मकान पूर्वी में ॥ बस पड़ा उन से इधर पर्दा बस भला हमने कुछ अपनी को अर्धात्फरिगा बस सूरत पकड़ो वास्ते उस के आदमी पुट की ॥ कहने लगे निगय मैं शरण पकड़ती हूँ रश्मान की तुझ से जो है तू परछेणगर ॥ कहने लगा

सिवाय इसके नहीं कि मैं भेजा हुआ हूँ मालिक तेरे के से तो कि दे जाज' मैं तुम्ह को लड़का पवित्र ॥ कहा कैसे होगा वास्ती मेरे लड़का नहीं हाथ लगाया सुभ को आदमी ने नहीं मैं बुरा काम करने वाली ॥ वस गर्भित हो गई साथ उस के और जा पड़ी साथ उस के मकान दूर अर्थात् जंगल में ॥ मं० ४ । सि० १६ । सू० १८ । आ० १५ । १६ । १७ । १८ । १९ । २१ ॥

समी०—अब बुद्धिमान् विचार लें कि फरिश्ते सब खुदा की रूह हैं तो खुदा से अलग पदार्थ नहीं हो सकते दूसरा यह अन्याय कि वह मर्यम कुमारी के लड़का होना किसी का संग करना नहीं चाहती थी परन्तु खुदा के हुक्म से फरिश्ते ने उस को गर्भवती किया यह न्याय से विरुद्ध बात है । यहाँ अन्य भी असभ्यता की बातें बहुत लिखी हैं उन को लिखना उचित नहीं समझा ॥ १०७ ॥

१०८—क्या नहीं देखा तू ने यह कि भेजा हम ने शयतानों को ऊपर काफिरों के बहकाने हैं उन को बहकाने कर ॥ मं० ४ । सि० १६ । सू० १८ । आ० ८१ ।

समी०—जब खुदा ही शयतानों को बहकाने के लिये भेजता है तो बहकाने वाली का कुछ दोष नहीं हो सकता और न उन को दण्ड हो सकता और न शयतानों को क्योंकि यह खुदा के हुक्म से सब होता है इस का फल खुदा को होगा चाहिये जो सच्चा न्यायकारी है तो उस का फल दोज़ाब आप ही भोगे और जो न्याय को छोड़ के अन्याय को करे तो अन्यायकारी हुआ अन्यायकारी ही पापी कहाता है ॥ १०८ ॥

१०९—और निश्चय क्षमा करने वाला हूँ वास्ती उस मनुष्य के तोबाः को और ईमान लाया कर्म किये अच्छे फिर मार्ग पाया ॥ मं० ४ । सि० १६ । सू० २० । आ० ७८ ॥

समी०—जो तोबाः से पाप क्षमा करने की बात कुरान में है यह सब की पापी कराने वाली है क्योंकि पापियों को इस से पाप करने का साहस बहुत बढ़ जाता है इस से यह पुस्तक और इस का बनाने वाला पापियों को पाप कराने में हीसला बढ़ाने वाले हैं इस से यह पुस्तक परमेश्वरकृत और इस में कहा हुआ परमेश्वर भी नहीं हो सकता ॥ १०९ ॥

११०—और किये हमने बीच पृथिवी के पहाड़ ऐसा न हो कि हिल जावे । मं० ४ । सि० १७ । सू० २१ । आ० ३० ॥

समी०—यदि कुरान का बनाने वाला पृथिवी का घूमना आदि जानता तो यह बात कभी नहीं कहता कि पहाड़ों के धरने से पृथिवी नहीं हिलती शंका हुई कि जो पहाड़ नहीं धरता तो हिल जाती इतने कहने पर भी भूकंप में क्यों टिग जाती है ॥ ११० ॥

१११—और जिन्ना ही हृद ने उस औरत को और रक्षा की उस ने अपने गुह्य अंगों की बस फूंक दिया हृदने बीच उस के रह अपनी को । मं० ४ । सि० १७ । सू० २१ । आ० ८८ ॥

समीक्षक—ऐसी अरखील बातें खुदा की पुस्तक में खुदा की क्या और सभ्य मद्दुह्य को भी नहीं होतीं, जब कि मनुष्यों में ऐसी बातों का लिखना अर्थात् नहीं तो परमेश्वर के सामने क्यों कर अच्छा हो सकता है ? ऐसी बातों से इुरान दूषित होता है यदि अच्छी बात होती तो अतिप्रशंसा होती जैसी वेदों की ॥ १११ ॥

११२—क्या नहीं देखा तू ने कि अज्ञाह को सिजदा करते हैं जो कोई बीच आसमानों और पृथिवी के हैं सूर्य और चन्द्र तारे और पहाड़ वृक्ष और जानवर ॥ पहिनाये जावे गे बीच उस के कंगन सेने से और मोती और पहिनावा उन का बीच उस के रेशमी है ॥ और पवित्र रख घर मेरे को वास्ते गिर्द फिरने वालों के और खड़े रहने वालों के ॥ फिर चाहिये कि दूर करे मैल अपने और पूरी करे भेटे अपनी और चारों ओर फिर घर कदीम के ॥ तो कि नाम अज्ञाह का याद करे ॥ मं० ४ । सि० १७ । सू० २२ । आ० १६ । २३ । २५ । २८ । ३३ ॥

समीक्षक—भला जो जड़ वस्तु है परमेश्वर को जान ही नहीं सक फिरते ये उस की भक्ति क्यों कर कर सकते हैं ? इस से यह पुस्तक ईश्वरकृत तो कभी नहीं हो सकता किन्तु किसी भ्रांत का बनाया हुआ दीखता है वाह । बड़ा अच्छा स्वर्ग है जहां सेने मोती के गहने और रेशमी कपड़े पहिरने को मिले यह बहिमत यहाँ के राजाओं के घर से अधिक नहीं दीख पड़ता ! और जब परमेश्वर का घर है तो वह उसी घर में रहता भी होगा फिर बुत्परस्ती क्यों न हुई ? और दूसरे बुत्परस्ती का खण्डन क्यों करते हैं ? जब खुदा भेंट लेता अपने घर की परिक्रमा करने की आज्ञा देता है और पशुओं को मरवा के खिलाता है तो वह खुदा मन्दिर वाले और भैरव, दुर्गा के सट्टग हुआ और महाबुत्परस्ती का चलाने वाला हुआ क्योंकि सूक्तियों से मसेजिद बड़ा बुत् है इस से खुदा और सुसल्मान बड़े बुत्परस्त पुरानी तथा जैनी छोटे बुत्परस्त हैं ॥ ११२ ॥

११३—फिर निचय तुम दिन कयामत के उठाये जाओ गे ॥ मं० ४ । सि० १८ । सू० २३ । आ० १६ ॥

समीक्षक—कयामत तक सुर्दे कब्र में रहें गे या किसी अन्य जगह ? जो वहीं में रहें गे तो सड़े हुए दुर्गन्धरूप शरीर में रह कर पुखावा भी दुःख भोग करें गे ? यह स्वाध आन्वाय है और दुर्गन्ध अधिक ही कर रोगोत्पत्ति करने से खुदा और नुसखान पापभागी होंगे ॥ ११३ ॥

११४—उस दिन की गवाही देंगे ऊपर उन के शवानें उन की और हाथ उन के और पांव उन के साथ उस वस्तु के कि धे करते ॥ अज्ञाह नुर है आसमानों

का और पृथिवी का नूर उस के कि मानिन्द ताक की है बीच उस के दीप हो और दीप बीच कंदील शीशों के है वह कंदील माने कि तारा है चमकता रोगन किया जाना है दीपक ह्व सुवारिक जैतून के से न पूर्व की ओर है न पश्चिम की समीप है तेल उस का रोगन हो जावे जो न लगे ऊपर रोगनी के मार्ग दिखाता है अल्लाह नूर अपने के जिस को चाहता है । मं० ४ । सि० १८ । सू० २४ । आ० २३ । २४ ॥

समोच्चक—हाथ पग आदि जड़ होने से गवाही कभी नहीं दे सकते यह बात सृष्टिक्रम से विरुद्ध होने से मिथ्या है क्या खुदा आगी विभुली है ? जैसा कि दृष्टान्त देते हैं ऐसा दृष्टान्त ईश्वर में नहीं घट सकता हा किसी साकार वस्तु में घट सकता है ॥ ११४ ॥

११५—और अल्लाह ने उत्पन्न किया हर जानवर को पानी से बस कोई उन में से वह है कि जो चलता है पेट अपने के ॥ और जो कोई आज्ञा पालन करे अल्लाह की रखल उस के की ॥ कह आज्ञा पालन करे खुदा की रखल उस के की ॥ और आज्ञा पालन करो रखल की तो कि दया किये जाओ । मं० ४ । सि० १८ । सू० २४ । आ० ४४ । ५१ । ५३ । ५५ ॥

समोच्चक—यह कौनसी फ़िलासफ़ी है कि जिन जानवरों के शरीर में सब तत्व दौखते हैं और कहना कि केवल पानी से उत्पन्न किया ? यह केवल अविद्या की बात है जब अल्लाह के साथ पैगंबर की आज्ञा पालन करना होता है तो खुदा का शरीर ही गया वा नहीं ? यदि ऐसा है तो क्यों खुदा को लाशरीर कुरान में लिखा अं र कहते हो ? ॥ ११५ ॥

११६—और जिस दिन की फट जावे गा आसमान साथ बदली के और उतारे जावे गे फरिश्ते ॥ बस मत कहा मान काफ़िरों का और भगड़ा कर उस से साथ भगड़ा बड़ा ॥ और बदल हालता है अल्लाह बुराइयों उन की को भला-दुरियों से ॥ और जो कोई तोबाः करे और कर्म करे अच्छे बस मिश्रय आता है तरफ अल्लाह को । मं० ४ । सि० १८ । सू० २५ । आ० २४ । ४८ । ६७ । ६८ ॥

समोच्चक—यह बात कभी सच नहीं हो सकती है कि आकाश बदली के साथ फट जावे । यदि आकाश कोई सूर्तिमान् पदार्थ ही तो फट सकता है । यह सुसलमानों का कुरान शांतिभंग कर गदर भगड़ा मचाने वाला है इसी-लिये धार्मिक विद्वान् लोग इस को नहीं मानते । यह भी अच्छा न्याय है कि की पाप और पुण्य का बदला बदला हो जाय क्या यह तिल और उड़द की सी बात जो पलटा हो जावे तोबाः करने से छूटे और ईश्वर मिले तो कोई भी पाप करने से न डरे इस लिये ये सब बातें विद्या से विरुद्ध हैं ॥ ११६ ॥

११७—वही जो हम ने तर्फ सूसा को यह कि ले चल रात को वही मेरे को निश्चय तुम पीछा किये जाओगे ॥ वस भेजे लोग फिरोन ने बीच नगरी के जमा करने वाले ॥ और वह पुरुष कि जिस ने पैदा किया मुझ को वस वही मार्ग दिखलाता है ॥ और वह जो खिलाता है मुझ को पिलाता है मुझ को ॥ और वह पुरुष की आगा रहता हूं मैं यह कि जमा करे वास्ते मेरा अपराध मेरा दिन कयामत के ॥ सं० ५।सि० १८।सू० २६।आ० ५०।५१।७६।७७।८० ॥

समी०—जब खुदा ने सूसा की ओर वही भेजी पुनः दाजद ईसा और महु-अद साहेब की ओर किताब क्यों भेजी ? क्योंकि परमेश्वर की बात सदा एक सी और वे भूल जाती है और उस के पोछे कुरान तक पुस्तकों का भेजना पहिली पुस्तक को अपूर्ण भूलयुक्त माना जायगा यदि ये तीन पुस्तक सच्चे हैं तो यह कुरान झूठा होगा चारों का जो कि परस्पर प्रायः विरोध रखते हैं उन का सर्वथा सत्य होना नहीं हो सकता यदि खुदा ने रुह अर्थात् जीव पैदा किये हैं तो वे मर भी जायेंगे अर्थात् उन का कभी नाश कभी अभाव भी होगा जो परमेश्वर ही मनुष्यादि प्राणियों को खिलाता पिलाता है तो किसी को रोग होना न चाहिये और सब को तुल्य भोजन देना चाहिये पक्षपात से एक को उत्तम और दूसरे को निकट जैसा कि राजा और कंगरे को थोड़ा निकट भोजन मिलता है न होना चाहिये जब परमेश्वर ही खिलाते पिलाते और पथ्य कराने वाला है तो रोग ही न होना चाहिये परन्तु मुसलमान आदि को भी रोग होते हैं यदि खुदा ही रोग छुड़ा कर आराम करने वाला है तो मुसलमानों के शरीरों में रोग न रहना चाहिये यदि रहता है तो खुदा पूरा वैद्य नहीं है यदि पूरा वैद्य है तो मुसलमानों के शरीर में रोग क्यों रहते हैं । यदि वही मारता और जिलाता है तो उसी खुदा को पाप पुण्य लगता होगा यदि जन्म जन्मान्तर के कर्मात्तुमार व्यवस्था करता है तो उस का कुछ भी अपराध नहीं यदि वह पाप जमा और न्याय कयामत की रात में करता है तो खुदा पाप बढ़ाने वाला ही कर पापयुक्त होगा यदि जमा नहीं करता तो यह कुरान की बात झूठी होने से बच नहीं सकता है ॥ ११७ ॥

११८—नहीं तू आदमी मानन्द हमारी वस ले आ कुछ निगानी जो है तू सच्चों से ॥ कहा यह जंटनी है वास्ते उस के पानी पीना है एक बार । सं० ५।सि० १८।सू० २६।आ० १५०।१५१ ॥

समी०—भला इस बात की कोई मान सकता है कि पत्थर से जंटनी निकले ये लोग जंगली ये कि जिन्होंने इस बात की मान लिया और जंटनी को निगानी देने केवल जंगली व्यवहार है ईश्वरकृत नहीं यदि यह किताब ईश्वरकृत होती तो ऐसी व्यर्थ बातें इस में न होती ॥ ११८ ॥

११८-ए मूसा बात यह है कि निश्चय मैं अज्ञाह हूँ गालिय ॥ और डाल दे असा अपना बस जब कि देखा उस को हिलता था मानो कि वह सांप है ए मूसा मत डर निश्चय नहीं डरते समीप मेरे पैगम्बर ॥ अज्ञाह नहीं कोई मावूद परन्तु वह मालिक अर्थ बड़े का ॥ यह कि मत सरकशी करो ऊपर मेरे और चले आओ मेरे पास सुसलमान हो कर । मं० ५ । सि० १८ । सू० २७ । आ० ८ । १० । २६ । २१ ॥

समी०-और भी देखिये अपने सुख आप अज्ञाह बड़ा ज़मर्दस्त बनता है अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना श्रेष्ठ पुरुष का भी काम नहीं, तो खुदा का क्यों कर हो सकता है ? तभी तो इन्द्रजाल का लटका दिखला जंगली मनुष्यों को बश कर आप जंगलख खुदा बन बैठा । ऐसी बात ईश्वर के पुस्तक में कभी नहीं हो सकती यदि वह बड़े अर्थ अर्थात् सातवें आसमान का मालिक है तो वह एकदेशी होने से ईश्वर नहीं हो सकता है यदि सरकशी करगा बुरा है तो खुदा और महम्मद साहेब ने अपनी सति से पुस्तक क्यों भर दिए ? मुहम्मद साहेब ने अनेकों को मारे इस से सरकशी हुई वा नहीं ? । यह कुरान पुनरुक्त और पूर्वा-पर विरुद्ध बातों से भरा हुआ है ॥ ११८ ॥

१२०-और देखिगा तू पहाड़ों को अनुमान करता है तू उन को जमे हुए और वे चले जाते हैं मानिन्द चलने बादलों की कारीगरी अज्ञाह कि जिस ने दृढ़ किया हर वस्तु को निश्चय वह खवर्दार है उस वस्तु के कि करते हो । मं० ५ । सि० २० । सू० २७ । आ० ८८ ॥

समी०-वहलों के समान पहाड़ का चलना कुरान बनाने वाशों के देश में होता होगा अन्यत्र नहीं और खुदा की खवर्दारी अथतान वागी को न पकड़ने और न दंड देने से ही विदित होती है कि जिस ने एक वागी को भी अथ तक न पकड़ पाया न दंड दिया इस से अधिक असावधानी क्या होगी ! ॥ १२० ॥

१२१-बस मुझे मारा उस को मूसा ने बस पूरी की आयु उस की ॥ कहा ऐ रब मेरे निश्चय मैंने अन्याय किया जान अपनी को बस क्षमा कर मुझ को बस क्षमा कर दिया उस को निश्चय वह क्षमा करने यात्ता दयालु है ॥ और मालिक तेरा उत्पन्न करता है जो कुछ चाहता है और पसन्द करता है । मं० ५ । सि० २० । सू० २८ । आ० १४ । १५ । ६६ ॥

समी०-अब अन्ध भी देखिये मुसलमान और ईसाइयों के पैगम्बर और खुदा कि मूसा पैगम्बर मनुष्य की हत्या किया करे और खुदा क्षमा किया करे ये दोनों अन्यायकारी हैं वा नहीं ? ॥ क्या अपनी इच्छा ही से जैसा चाहता है वैसी उत्पत्ति करता है ? क्या उस ने अपनी इच्छा ही से एक को राजा दूसरे को कंगाल अ

एक को विद्वान् और दूसरे को मूर्खान्द्रि किया है ? यदि ऐसा है तो न कुरान सत्य और न अन्यायकारी होने से यह खुदा ही हो सकता है ॥ १२१ ॥

१२२-और आज्ञा ही हम ने मनुष्य को साथ या बाप के भलाई करना जो अगड़ना करे तुझ से देनें यह कि शरीक लावे तू साथ मेरे उस वस्तु को कि नहीं वाली तेरे साथ उस के ज्ञान वस मत कहा मान उन देनें का तर्क मेरी है ॥ और इवम्य भेजा हम ने नूह को तर्क कौम उस के कि वस रहा बीच उन के हज़ार वर्ष परन्तु पचास वर्ष कम ॥ मं० ५। सि० २०। २१। सू० २६। आ० ०। १३ ॥

समी०-माता पिता की सेवा करना तो अच्छा ही है जो खुदा के साथ शरीक करने के लिये कहे तो उन का कहा न मानना यह भी ठीक है परन्तु यदि माता पिता मिथ्याभाषणादि करने की आज्ञा देवे तो क्या मान लेना चाहिये ? इस लिये वह बात आधी अच्छी और आधी बुरी है । क्या नूह आदि पैगम्बरों ही को खुदा संसार में भेजता है तो अन्य जीवों को कौन भेजता है ? यदि सब को वही भेजता है तो सभी पैगम्बर क्यों नहीं ? और प्रथम मनुष्यों को हज़ार वर्ष की आयु होती थी तो अब क्यों नहीं होती ? इस लिये यह बात ठीक नहीं ॥ १२२ ॥

१२३-अज्ञान पहिली बार करता है उत्पत्ति फिर दूसरी बार करे गा उस को फिर उसी की ओर फेर जाओगे ॥ और जिन दिन वर्षा अर्थात् खड़ी होगी दयावत निराग होंगे पापी ॥ वस जो लोग कि ईमान लाये और काम किये अच्छे वस वे बीच दाग के सिंगार किये जायेंगे ॥ और जो भेज दे हम एकदाय वस देखें उस जेती को पीली हुई ॥ इसी प्रकार मोहर रफता है अज्ञान ऊपर दिखीं उन लोगों के कि नहीं जानते ॥ मं० ५। सि० २१। सू० ३०। आ० १०। ११। १४। ५०। ५८।

समी०-यदि अज्ञान दो बार उत्पत्ति करता है तोसरी बार नहीं तो उत्पत्ति की आदि और दूसरी बार के अन्त में निकम्मा बैठा रहता होगा ? और एक तरफ दो बार उत्पत्ति के पश्चात् उस का नामर्थ निकम्मा और व्यर्थ हो जायगा यदि न्याय करने के दिन पापी लोग निराग हों तो अच्छी बात है परन्तु इस का प्रयोजन यह तो कहीं नहीं है कि तुमलमानों के सिवाय सब पापी समझ कर निराग किये जाय ? क्योंकि कुरान में कई स्थानों में पापियों से औरों का ही प्रयोजन है । यदि बगोबे में रहना और अज्ञान पहिराना ही तुमलमानों का धर्म है तो इस संसार के तुम दुःख और वहां माली और सुनार भी ही भेजना खुदा ही माली और सुनार आदि का काम करता होगा यदि किसी को काम महना मिलता होगा तो चोरी भी होती होगी और बहिष्क से चोरी करने वालों को दोषण में भी लागता होगा, यदि ऐसा होता होगा तो सदा परिश्रम में रहेगे यह बात झूठ ही जायगी जो किसानों की सिंगी पर भी खुदा की इटि है ॥

यह विद्या खेती करने के अनुभव ही से होती है और यदि माना जाय कि खुदा ने अपनी विद्या से सब बात जान ली है तो ऐसा भय देना अपना घमंड प्रसिद्ध करना है यदि अज्ञाह ने जीवां के दिलों पर मोहर लगा पाप कराया तो उस पाप का भागो वही होवे जीव नहीं हो सकते जैसे जय पराजय सेनाधीश का होता है वैसे ये सब पाप खुदा ही को प्राप्त होंगे ॥ १२३ ॥

१२४—ये आयते हैं किताब हिकमत वाले की ॥ उत्पन्न किया आसमानों को बिना सूतून अर्थात् खंभे के देखते हो तुम उस को और हालें बीच पृथिवी को पछाड़ ऐसा न हो कि हिल जावे ॥ क्या नहीं देखा तू ने यह कि अज्ञाह प्रवेश कराता है रात को बीच दिन के और प्रवेश कराता है दिन को बीच रात के ॥ क्या नहीं देखा कि किश्रिया चलती हैं बीच दर्या के साथ निशामती अज्ञाह के तो कि दिखलावे तुम को निशानियां अपनी ॥ मं० ५ । सि० २१ । सू० ३१ ॥ आ० १ । ८ । २८ । ३० ॥

समी०—वाह जी वाह ! हिकमत वाली किताब ! कि जिस में सर्वथा विद्या से विश्व आकाश की उत्पत्ति और उस में खंभे लगा ने की शंका और पृथिवी को स्थिर रखने के लिये पछाड़ रखना थोड़ी सी विद्या वाला भी ऐसा लेख कभी नहीं करता और न मानता और हिकमत देखो कि जहां दिन है वहां रात नहीं और जहां रात है वहां दिन नहीं उस को एक दूसरे में प्रवेश कराया लिखता है यह बड़े अविद्वानों की बात है इस लिये यह कुरान विद्या की पुस्तक नहीं हो सकती । क्या यह विद्याविश्व बात नहीं है कि नौका जलमध्य और क्रिया कौशलादि से चलती हैं वा खुदा को क्षपा से यदि लोहे वा पत्थरों की नौका बना कर समुद्र में चलावे तो खुदा को निशानी डूब जाय वा नहीं ? इस लिये यह पुस्तक न विद्वान् और न ईश्वर का बनाया हुआ हो सकता है ॥ १२४ ॥

१२५—तदबीर करता है काम को आसमान से तर्फ पृथिवी को फिर चढ़ जाता है तर्फ उस को बीच एक दिन के कि है अधि उस को सहस्र वर्ष उन वर्षों से कि गिनते हो तुम ॥ यह है जानने वाला सब का और प्रत्यक्ष का याखिद दयालू ॥ फिर पुष्ट किया उस को और फंका बीच रह अपनी से ॥ यह कबज करे गा तुम को फरिशा मौत का वह जो नियत किया गया है साथ तुम्हारे ॥ और जो चाहते हम अवश्य देते हम हर एक जीव को शिखा उस को परन्तु सिद्ध हुई बात भेरी और से कि अवश्य भरीं गा जो दोऊख जिनां और आदमियों से इकट्ठे ॥ मं० ५ । सि० २१ । सू० ३२ । आ० ४ । ५ । ७ । ८ । ११ ॥

समीपक—अब ठीक सिद्ध हो गया कि सुसखानों का खुदा जलमध्यवत् एकदेशी है क्योंकि जो व्यापक होता तो एकदेश से प्रवृत्त करना और उतरना चढ़ना नहीं हो सकता यदि खुदा फरिशा को भेजता है तो भी आप एकदेशी ही

गया। आप आस्मान पर टंगा बैठा है। और फरिश्तों को दौड़ाता है। यदि फरिश्ते रिखत ले कर कोई मामला विगाड़ दें वा किसी मुर्दे को छोड़ जाय तो खुदा को क्या मालूम हो सकता है? मालूम तो उस को हो कि जो सर्वश तथा सर्वव्यापक हो तो है ही नहीं। होता तो फरिश्तों के भेजने तथा कई लोगों की कई प्रकार से परीक्षा देने का क्या काम था? और एक हजार वर्षों में तथा आने जाने प्रबन्ध करने से सर्वशक्तिमान् भी नहीं! यदि मौत का फरिश्ता है तो उस फरिश्ते का मारने वाला कौनसा मृत्यु है? यदि वह नित्य है तो अमरपन में खुदा के बराबर शरीक हुआ एक फरिश्ता एक समय में दोषग्र भरने के लिये जीवों की शिक्षा नहीं कर सकता और उन को विना पाप किये अपनी मर्ज़ों से दोषग्र भर के उन को दुःख दे कर तमाशा देखता है तो वह खुदा पापी अन्यायकारी और दयाहीन है ऐसी बातें जिस पुस्तक में हैं न वह विद्वान् और ईश्वरकृत और जो दयान्यायहीन है वह ईश्वर भी कभी नहीं हो सकता ॥ १२५ ॥

१२६—कह कि कभी न लाभ देगा भागना तुम को जो भागो तुम मृत्यु या कृतल से ॥ ऐ वीवियो नबी की जो कोई आवे तुम में से निर्लज्जता प्रत्यक्ष के दुगुणा किया जावेगा वास्ते उस के अज्ञाव और है यह ऊपर अज्ञाव के सहल ॥ मं० ५। सि० २१। सू० ३३। आ० १६। ३० ॥

समीक्षक—यह महम्मद साहेब ने इस लिये लिखा लिखवाया होगा कि लड़ाई में कोई न भागे हमारा विजय होवे मरने से भी न डरे ऐश्वर्य बड़े मजहब बढ़ा लेवे। और यदि वीवी निर्लज्जता से न आवे तो क्या पैगम्बर साहेब निर्लज्ज हो कर आवे? वीवियों पर अज्ञाव हो और पैगम्बर साहेब पर अज्ञाव न होवे यह किस घर का न्याय है ॥ १२६ ॥

१२७—और अटकी रही बीच घरों अपने के आज्ञा पालन करो अज्ञाव और रसूल की सिवाय इस के नहीं ॥ बस जब अदा कर ली जेदने हाजित उसे थ्याह दिया हमने तुम्ह से उस को तौकि न होवे ऊपर ईमाग वालों के तंगी बीच वीवियों से लेपालकों उन के के जब अदा कर लें उन से हाजिर और है आज्ञा खुदा की को गई ॥ नहीं है ऊपर नबी के कुछ तंगी बोध उस वस्तु के ॥ नहीं है महम्मद बाप किसी मर्दों का ॥ और हलाल की स्त्री ईमान वाली जो देवे बिना मिहर के जान अपनी वास्ती नबी के ॥ दील देवे तू जिस को चाहे उन में से और जगह देवे तर्फ अपनी जिस को चाहे नहीं पाप ऊपर तेरे ॥ ऐ लोगो जो ईमान लाये हो मत प्रवेश करो घरों में पैगम्बर के ॥ मं० ५। सि० २२। सू० ३३। आ० ३३। ३०। ३८। ४०। ४०। ४८। ५० ॥

समीक्षक—यह बड़े अन्याय की बात है कि श्री घर में कैद के समान रहे और पुरुष खुले रहें क्या श्रियों का चित्त शून्य वायु, शून्य देग में भ्रमण करना, अटि के

अनेक पदार्थ देखना नहीं चाहता होगा ? इसी अपराध से मुसलमानों को लड़के विशेष कर सयलानो और विषयी होते हैं अक्काह और रसूल को एक अविरोध आज्ञा है वा भिन्न विरोध ? यदि एक है तो दोनों की आज्ञा पालन करो कहना व्यर्थ है और जो भिन्न २ विरोध है तो एक सच्ची और दूसरी झूठी ? एक खुदा दूसरा शयतान हो जायगा । और शरीक भी होगा ? वाह कुरान का खुदा और पैगम्बर तथा कुरान को जिस को दूसरे का मतलब नष्ट कर अपना मतलब सिद्ध करना इष्ट हो ऐसी लीला अवश्य रचता है इस से यह भी सिद्ध हुआ कि महुम्मद साहेब बड़े विषयो थे यदि न होते तो (लेपालक) बेटे की स्त्री को जो पुत्र को स्त्री थी अपनी स्त्री क्यों कर लेने ? और फिर ऐसी बातें करने वाले का खुदा भी पक्षपाती बना और अन्याय को न्याय ठहराया । मनुष्यों में जो जंगली भी होगा वह भी बेटे की स्त्री को छोड़ता है और यह कितनी बड़ी अन्याय की बात है कि नबी को विषयासक्ति की लीला करने में कुछ भी अटकाव नहीं होना । यदि नबी किसी का बाप न था तो ज़ैद (लेपालक) बेटा किस का था ? और क्यों लिखा ? यह उसी मतलब की बात है कि जिस से बेटे की स्त्री को भी घर में डालने से पैगम्बर साहेब न बचे अन्य से क्यों कर बचे होंगे ? ऐसी चतुराई से भी बुरी बात में निन्दा होना कभी नहीं छूट सकता क्या जो कोई पराई स्त्री भी नबी से प्रसन्न हो कर निवाह करना चाहे तो भी हनाल है ? और यह महा अधर्म की बात है कि नबी जिस स्त्री को चाहे छोड़ देवे और महुम्मद साहेब की स्त्री लोग यदि पैगम्बर अपराधी भी हैं तो कभी न छोड़ सके ! ॥ जैसे पैगम्बर के घरों में अन्य कोई व्यभिचार दृष्टि से प्रवेश न करें तो वैसे पैगम्बर साहेब भी किसी के घर में प्रवेश न करें क्या नबी जिस किसी के घर में चाहे निशङ्क प्रवेश करें ? और माननीय भी रहें ? भला कौन ऐसा हृदय का अन्धा है कि जो इस कुरान को ईश्वरकृत और महुम्मद साहेब को पैगम्बर और कुरानोक्त ईश्वर को परमेश्वर मान सके बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसे युक्तिशून्य धर्मविरोध बातों से युक्त इस मत को अर्बदेशनिवासी आदि मनुष्यों ने मान लिया ! ॥ १२७ ॥

१२८-नहीं योग्य वाक्ते तुम्हारे यह कि दुःख दो रसूल को यह कि लिकाह करो वीकियों उस की को पीछे उस के कभी निश्चय यह है समीप अक्काह के बड़ा पाप ॥ निश्चय जो लोग कि दुःख देते हैं अक्काह को और रसूल उस के को लानत की है उन को अक्काह ने ॥ और वे लोग कि दुःख देते हैं मुसलमानों को और मुसलमान औरतों को बिना इस के बुरा किया है उन्हें ने बस निश्चय उठाया उन्हें ने वोहतान अर्थात् भूट और प्रत्यक्ष पाप ॥ लानत मारे जहाँ पाये जावे पकड़े जावे कतल किये जावे खूब मारा जाना ॥ ऐ रब हमारे दे उन को दिगुणा अजाब से और खान से बड़ी लानत कर । सं० ५ । सि० २२ । सू० ३३ । आ० ५० । ५४ । ५५ । ५८ । ६५ ॥

समी०—वाह क्या खुदा अपनी खुदाई को धर्म के साथ दिखला रहा है ? जैसे रसूल को दुःख देने का निषेध करना तो ठीक है परन्तु दूसरे को दुःख देने में रसूल को भी रोकना योग्य था तो क्यों न रोका ? क्या किसी के दुःख देने से अज्ञाह भी दुःखी हो जाता है यदि ऐसा है तो यह ईश्वर ही नहीं हो सकता। क्या अज्ञाह और रसूल को दुःख देने का निषेध करने से यह नहीं सिद्ध होता कि अज्ञाह और रसूल जिस को चाहे दुःख दें ? अन्य सब को दुःख देना चाहिये ? जैसा सुसखानों और सुसखमानों को शत्रियों को दुःख देना बुरा है तो इन से अन्य मनुष्यों को दुःख देना भी अवश्य बुरा है ॥ जो ऐसा न माने तो उस की यह बात भी पक्षपात की है वाह ग़दर मचाने वाले खुदा और नबी जैसे वे निर्दयी संसार में हैं वैसे और बहुत छोड़े होंगे जैसा यह कि अन्य लोग जहाँ पाये जायें मारे जायें पकड़े जायें लिखा है वैसी ही सुसखानों पर कोई आज्ञा देवे तो सुसखानों को यह बात बुरी लगेगी या नहीं ? वाह क्या हिंसक पैगम्बर आदि हैं कि जो परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने से दूसरों को दुःख देने के लिये प्रार्थना करना लिखा है यह भी पक्षपात मतलब सिन्धुपन और महा अधर्म की बात है इसी से अब तक भी सुसखान लोगों में से बहुत से ग़ठ लोग ऐसा ही कर्म करने में नहीं डरते यह ठीक है कि शिष्टा के बिना मनुष्य पशु के समान रहता है ॥१२॥

१२६—और अज्ञाह यह पुरष है कि भजता है हवाश्री को बस उठाती हैं वादलों को बस हाँक लेते हैं तर्क ग़हर खुरदे की बस जीपित किया हम ने साथ उस के पृथिवी को पोछे सत्य उस को के इसी प्रकार कवरी में से निकलना है ॥ जिस ने उतारा बाच घर सदा रहने के दया अपनी में नहीं लगती हम को बोध उस के महमत और नहीं लगती बोध उस के मादगी ॥ मं० ५ । सि० २२ । सू० ३५ । आ० ८ । ३५ ॥

समी०—वाह का फ़िलासफी खुदा की है भजता है वायु को वह उठाता फिरता है बड़ों को और खुदा उस से मुर्दा को जिलाता फिरता है यह बात ईश्वर सत्यन्धी कभी नहीं हो सकती क्योंकि ईश्वर का काम निरन्तर एकसा होता रहता है ॥ जो घर होंगे वे बिना बनायट के नहीं हो सकते और जो बनायट का है वह सदा नहीं रह सकता जिस के शरीर है वह परिश्रम के बिना दुःखी होता और शरीर वाला रोगी हुए बिना कभी नहीं बचता जो एक क्षी से समा-गम करता है वह बिना रोग के नहीं बचता तो जो बहुत शत्रियों से विप्रयोग करता है उस को क्या ही दुर्दगा होती होगी ? इस लिये सुसखानों का रहना महत्व में भी सुखदायक रुदा नहीं हो सकता ॥ १२६ ॥

१३०—इसम है इतान दृष्ट की निश्चय तू भेजे छुर्वा सेह ॥ उस पर मार्ग सीध के उतारा है कालिब दयावान् ने। मं० ५ । सि० २३ । सू० ३६ । आ० १ । ३६ ॥

समी०—अब देखिये यह कुरान खुदा का बनाया होना तो वह इस की से गन्ध क्यों खाता ? यदि नबी खुदा का भेजा होता तो (लेपात्तक) घेटे की स्त्री पर मोहित क्यों होता ? यह कथनमात्र है कि कुरान के मानने वाले सीधे मार्ग पर हैं क्योंकि सीधा मार्ग वही होता है जिस में सत्य मानना, सत्य बोलना, सत्य करना, पक्षपात रहित न्याय धर्म का आचरण करना आदि हैं और इस से विपरीत का त्याग करना सो न कुरान में न सुसखानों में और न इन के खुदा में ऐसा स्वभाव है यदि सब पर प्रबल पैगम्बर, महुशद साहेब होते तो सब से अधिक विश्वासान और शुभ गुणयुक्त क्यों न होते ? इस लिये जैसी कूजड़ी अपने बरों को खटा नहीं बतलाती वैसी यह बात भी है ॥ ११० ॥

१३१—और फाँका जावेगा बीच सूर के बस जागहाँ वह कबरीं में से मालिक अपने को दौड़ेगे ॥ और गवाही देंगे पाँव उन के साध उस वस्तु के कामते थे ॥ सिवाय इस के नहीं कि आज्ञा उस की जब चाहे उत्पन्न करना किसी वस्तु का यह कि कहता वास्ते उस के कि हो जा बस हो जाता है । मं० ५ । सि० २२ । सू० ३६ । आ० । ४८ । ६१ । ७८ ॥

समी०—अब सुनिये जटपटांग बातें पग कभी गवाही दे सकते हैं ? खुदा के सिवाय उस समय कौन था जिस को आज्ञा दी ? किस ने सुनी ? और कौन बन गया ? यदि न थी तो यह बात झूठी और जो थी तो यह बात जो सिवाय खुदा के कुछ चीज नहीं थी और खुदा ने सब कुछ बना दिया वह झूठी ॥ १३१ ॥

१३२—फिराया जावे ना उस के ऊपर पियाला शराब छुड़का ॥ रुपैद मजा देने वाली वास्ते पीने वालों के ॥ समीप उन के बैठी हीं गी नीचे आँख रखने वालीयां सुन्दर आँखियां वालीयां ॥ मानें कि ये अंडे हैं छिपाये हुए ॥ क्या बस हम नहीं मरेंगे ॥ और अबरय लूत निश्चय पैगम्बरों से था ॥ जब कि सुक्ति दी हम ने उस को और लोगोँ उस के को सब को ॥ परन्तु एक बुढ़िया पीछे रहने वालों में है ॥ फिर मारा हमने औरों को ॥ मं० ६ । सि० २३ । सू० ३७ । आ० ४३ । ४४ । ४६ । ४७ । ५६ । १२६ । १२७ । १२८ । १२९ ॥

समी०—क्यों जी यहाँ तो सुसखान लोग शराब को बुरा बतलाते हैं परन्तु इन के स्वर्ग में तो नदियाँ की नदियाँ बहती हैं ? इतना अच्छा है कि यहाँ तो किसो प्रकार मद्य पीना छुड़ाया परन्तु यहाँ के बन्दने वहाँ उन के स्वर्ग में बड़ी खराबी है ! मारे स्त्रियों के वहाँ किसी का चित्त स्थिर नहीं रहता होगा ! और बड़े रोग भी होते होंगे ! यदि शरीर वाले होंगे तो अबरय मरेंगे और जो शरीर वाले न होंगे तो भोग विलास ही न कर सकेंगे । फिर उन को स्वर्ग में जाना व्यर्थ है ॥ यदि लूत को पैगम्बर मानते हो तो जो बाइबल में लिखा है कि उस से उस को लड़कियों ने समागम करके दो लड़के पैदा किये इस बात

को भी मानते हो वा नहीं ? जो मानते हो तो ऐसे को पैग़म्बर मानना व्यर्थ है और जो ऐसे और ऐसे के सङ्घों को खुदा बुक्ति देता है तो वह खुदा भी यैसा ही है, क्योंकि बुद्धियाँ को कहानी कहने वाला और पक्षपात से दूसरों को मारने वाला खुदा कभी नहीं हो सकता ऐसा खुदा सुसल्लानों ही के घर में रह सकता है अन्यत्र नहीं ॥ १३२ ॥

१३३—बहिष्ते हैं सदा रहने की खुले हुए हैं दर उन के वास्ते उन के ॥ तक्रिये किये हुए बीच उन के मंगारों के बीच इस के मेवे और पीने की वस्तु ॥ और समीप होंगी उन के नीचे रखने बालियाँ दृष्टि और दूसरों से समायु ॥ वस सिजदा किया फरिशाँ ने सब ने ॥ परन्तु शयतान ने न माना अभिमान किया और था काफ़िरी से ॥ ऐ शयतान किस वस्तु ने रोका तुम्ह को यह कि सिजदा करे वास्ते उस वस्तु के कि बनाया मैंने साथ दो नूँ हाथ अपने के क्या अभिमान किया तू ने वा था बड़े अधिकार वालों से ॥ कहा कि मैं अच्छा हूँ उस वस्तु से उत्पन्न किया तू ने मुझ को आग से उस को मट्टी से ॥ कहा वस निकल इन आसमानों में से वस नियय तू चलाया गया है ॥ नियय ऊपर तेरे लानत है मेरी दिन जज़ा तक ॥ कहा ऐ मालिक मेरे डील दे उस दिन तक कि उठाये जावेंगे सुर्दे ॥ कहा कि वस नियय तू डील दिये गयों से है ॥ उस दिन समय ज्ञात तक ॥ कहा कि वस कसम है प्रतिष्ठा तेरी कि अवश्य गुमराह करूँगा उन को मैं प्रकट्टे ॥ मं० ६ । सि० २३ । सू० ३८ । आ० ४३ । ४४ । ४५ । ६३ । ६४ । ६५ । ६६ । ६७ । ६८ । ६९ । ७० । ७१ । ६२ ॥

समी०—यदि यहाँ जैसे कि कुरान में वाग़ वग़ीचे नहीं मकानादि लिखे हैं जैसे हैं तो वे न सदा से थे न सदा रह सकते हैं क्योंकि जो संयोग से पदार्थ होता है वह संयोग के पूर्व न था अवश्य भावी वियोग के अन्त में न रहे गा, जब वह बहिस्त ही न रहेगा तो उस में रहने वाले सदा क्यों कर रह सकते हैं ? क्योंकि लिखा है कि गादी तक्रिये मेवे और पीने के पदार्थ यहाँ मिलेंगे इस से यह सिद्ध होता है कि जिस समय मुसलमानों का मशहब चला उस समय अर्धदेश विज्ञेप धनाय न था इसी लिये महुम्मद साहेब ने तक्रिये आदि को कथा सुना कर ग़ुरोवों को अपने मत में फसा लिया और जहाँ शियाँ हैं वहाँ निरन्तर सुन्न कहां ? वे स्त्रियाँ वहाँ कहां से आई हैं ? अथवा बहिष्ता की रहने वाली हैं यदि आई हैं तो जावेंगी और जो वहीं की रहने वाली हैं तो कबामत के पूर्व क्या करती थीं ? क्या निकली अपनी उमर को बहा रही थीं ? अब देखिये खुदा का तेज कि जिस का हुक्म अन्य सब फरिशाँ ने माना और आदम साहेब को नमस्कार किया और शयतान ने न माना खुदा ने शयतान से पूछा कहां कि मैं ने उस को अपने दोनों हाथों से बनाया तू अभिमान मत कर इस से सिद्ध होता है

कि कुरान का खुदा दो हाथ वाला मनुष्य था इस लिये वह व्यापक वा सर्वशक्तिमान् कभी नहीं हो सकता और शयतान ने सत्य कहा कि मैं आदम से उत्तम हूँ इस पर खुदा ने गुस्सा क्यों किया ? क्या आसमान ही में खुदा का घर है ! पृथिवी में नहीं ? तो कावे को खुदा का घर प्रथम क्यों लिखा ? भला परमेश्वर अपने में से वा सृष्टि में से अलग कैसे निकाल सकता है ? और वह सृष्टि सब परमेश्वर की है इस से विदित हुआ कि कुरान का खुदा बहिष्त का जिम्मेदार वा खुदा ने उस को लानत धिक्कार दिया और कैद कर लिया और शयतान ने कहा कि हे मालिक ! मुझ को क्यामत तक छोड़ दे खुदा ने खुगामद से क्यामत के दिन तक छोड़ दिया जब शयतान छूटा तो खुदा से कहता है कि अब मैं खूब बहकाजंगा और गदर मचाऊंगा तब खुदाने कहा कि जितने को तू बहकावे गा मैं उन को दोऊख में डाल दूंगा और तुझ को भी । अब सज्जन लोगो ! विचारिये कि शयतान को बहकाने वाला खुदा है वा आप से वह बहका ? यदि खुदा ने बहकाया तो वह शयतान का शयतान ठहरा यदि शयतान स्वयं बहका तो अन्य जीव भी स्वयं बहकेंगे शयतान की जरूरत नहीं और जिस से इस शयतान बागी को खुदा ने खुला छोड़ दिया इस से विदित हुआ कि वह भी शयतान का शरीक अधर्म कराने में हुआ यदि स्वयं चोरी करा के दंड देवे तो उस के अन्याय का कुछ भी पारावार नहीं ॥ १३३ ॥

१३४—अज्ञाह क्षमा करता है पाप सारे निषय वह है क्षमा करने वाला दयालु ॥ और पृथिवी सारी सृष्टी में है उस को दिन क्यामत के और आसमान लपेटे हुए हैं बीच दाहने हाथ उस के के ॥ और क्षमक जावेगी पृथिवी साथ प्रकाश मा लिक अपने के और रखे जावेगे कर्मपत्र और लाया जावेगा पैगम्बरों को और गवाहीं को और फैसल किया जावेगा । मं० ६ । सि० २४ । सू० ३८ । आ० ५४ । ६८ । ७०-॥

समी०—यदि समग्र पापों को खुदा क्षमा करता है तो जानो सब संसार को पापी बनाता है और दयाहीन है क्योंकि एक दुष्ट पर दया और क्षमा करने से वह अधिक दुष्टता करे गा और अन्य बहुत धर्मात्माओं को दुःख पहुंचावे गा यदि किञ्चित् भी अपराध क्षमा किया जावे तो अपराध ही अपराध जगत् में छा जावे । क्या परमेश्वर अग्निवत् प्रकाश वाला है ? और कर्मपत्र कहाँ जमा रहते हैं ? और कौन लिखता है ? यदि पैगम्बरों और गवाहीं के भरो से खुदा न्याय करता है तो वह असर्वज्ञ और असमर्थ है, यदि वह अन्याय नहीं करता न्याय ही करता है तो कर्मों के अनुसार करता होगा वे कर्म पूर्वापर वर्तमान जन्मों के हो सकते हैं तो फिर क्षमा करता, दिलों पर ताला लगाता, और शिक्षा न करना, शयतान से बहकवाना, दौड़ा सुपुर्द रखना केवल अन्याय है ॥ १३४ ॥

१३५—उतारना किताब का अल्लाह गालिब जानने वाले की और से है ।
 चमा करने वाला पापों का और खीकार करने वाला तीबाः का । मं० ६ । सि०
 २४ । सू० ४० । आ० १ । २ ॥

समी०—यह बात इस लिये है कि भोले लोग अल्लाह के नाम से इस पुस्तक
 को मान लें कि जिस में थोड़ासा सत्य छोड़ असत्य भरा है और वह सत्य भी
 असत्य के साथ मिला धार विगड़ासा है इसीलिये कुरान और कुरान का खुदा
 और इस को मानने वाले पाप बढ़ाने हारे और पाप करने कराने वाले हैं ।
 क्योंकि पाप का चमा करना अत्यन्त अधर्म है किन्तु इसी से सुसम्मान लोग
 पाप और उपद्रव करने में काम डरने हैं ॥ १३५ ॥

१३६—बस नियत किया उस को साथ आसमान बीच दो दिन के और डाल
 दिया बीच हमने उस के काम उस का ॥ यहाँ तक कि जब जायेंगे उस के पास
 साची दूगे ऊपर उन के कान उन के और आंखें उन की और चमड़े उन के उन
 के कर्म से ॥ और कहेंगे वास्ते चमड़े अपने के क्यों साची दीतूने ऊपर हमारे कहें
 गे कि बुलाया है हम को अल्लाह ने जिस ने बुलाया हर यस्तू को ॥ अवग्य जिलाने
 वाला है मुर्दाँ को ॥ मं० ६ । सि० २४ । सू० ४१ । आ० १२ । २० । २१ । २६ ॥

समीचक—वाह जी वाह सुसम्मानो ! तुम्हारा खुदा जिस को तुम सर्वशक्ति-
 मान् मानते हो वह सात आसमानों को दो दिन में बना सका ? वस्तुतः जो
 सर्वशक्तिमान् है वह क्षणमात्र में सब को बना सकता है । भला कान, आंख और
 चमड़े को ईश्वर ने जड़ बनाया है वे साची कैसे दे सकेंगे ? यदि साची दिलावे
 तो उस ने प्रथम जड़ क्यों बनाये ? और अपना पूर्वापर नियम बिगड़ क्यों किया ?
 एक इस से भी बड़ कर मिथ्या बात यह कि जब जीवों पर साची दी तब वे
 जीव अपने २ चमड़े से पूँछने लगे कि तू ने हमारे पर साची क्यों दी ? चमड़ा
 बोले गा कि खुदा ने दिलायी मैं क्या करूं भला यह बात कभी हो सकती है ?
 जैसे कोई कहें कि बन्ध्या के पुत्र का सुख मैं ने देखा यदि पुत्र दे तो बन्ध्या
 क्यों ? जो बन्ध्या है तो उस के पुत्र ही होना असंभव है इसी प्रकार को यह भी
 मिथ्या बात है । यदि वह मुर्दाँ को जिलाता है तो प्रथम मारा ही क्यों ? का
 आप भी मुर्दाँ हो सकता है वा नहीं ? यदि नहीं हो सकता तो मुर्देपन को उरा
 क्यों समझता है ? और कवामत की रात तक अतक जीव किस सुसम्मान के
 घर में रहेंगे ? और खुदा ने विना अपराध क्यों दीड़ासपुर्द रक्वा ? शीघ्र गाय
 क्यों न किया ? ऐसी २ बातों से ईश्वरता में बड़ा लगता है ॥ १३६ ॥

१३७—वास्ते उस के कृत्वियां हैं आसमानों की और पृथिवी की खोसता है
 भोजन जिस के वास्ते चाहता है और तंग करता है । उत्पन्न करता है जो कुछ
 चाहता है और देता है जिस को चाहे बैठियां और देता है जिस को चाहे बैठे ।

वा मिला देता है उन को बेटे और बेटियाँ का देता है जिस को चाहे बांभ ॥
और नहीं है शक्ति किसी आदमी को कि बात करे उस से अज्ञाह परन्तु जी में
बाल ने कर वा पौछे परदे * के से वा भेजे फरिश्ते पैगाम लाने वाला ॥ मं० ६ ।
सि० २५ । सू० ४२ । आ० १० । ४७ । ४८ । ४९ ॥

समी०—खुदा के पास कुंजियों का भण्डार भरा होगा ! क्योंकि सब ठिकाने
के ताले खोलने होते होंगे ! यह लड़कपन की बात है क्या जिस को चाहता
है उस को बिना पुण्य कर्म के ऐश्वर्य देता और तंग करता है ? यदि ऐसा है
तो वह बड़ा अन्यायकारी है अब देखिये कुरान बनाने वाले की चतुराई कि
जिस से स्त्रीजन भी मोहित हो के फसें यदि जो कुछ चाहता है उत्पन्न करता
है तो दूसरे खुदा को भी उत्पन्न कर सकता है वा नहीं ? यदि नहीं कर सकता
तो सर्वशक्तिमत्ता यहां पर अटक गई भला मनुष्यों को तो जिस को चाहे बेटे
बेटियाँ खुदा देता है परन्तु सुरगे, मच्छी, सूअर आदि जिन के बहुत बेटा बेटियाँ
होती हैं कौन देता है ? और स्त्री पुरुष के समागम बिना क्यों नहीं देता ?
किसी को अपनी इच्छा से बांभ रख के दुःख क्यों देता है ? । वाह क्या खुदा
तेजस्वी है कि उस के सामने कोई बात ही नहीं कर सकता ! परन्तु उस ने
पहिले कहा है कि परदा डाल के बात कर सकता है वा फरिश्ते लोग खुदा से बात
करते हैं अथवा पैगम्बर, जो ऐसी बात है तो फरिश्ते और पैगम्बर खूब अपना मत-
लब करते होंगे ! यदि कोई कहे खुदा सर्वज्ञ सर्वव्यापक है तो परदे से बात करना
अथवा डाँक के तुल्य खबर मंगा के जानना लिखना व्यर्थ है और जो ऐसा है तो
वह खुदा ही नहीं किन्तु कोई चालाक मनुष्य होगा इसलिये यह कुरान ईश्वर-
कृत कभी नहीं हो सकता ॥ १३० ॥

१३८—और जब आया ईसा साथ प्रमाण प्रत्यक्ष के ॥ मं० ६ । सि० २५ ।
सू० ४३ । आ० ६२ ॥

समी०—यदि ईसा भी भेजा हुआ खुदा का है तो उस के उपदेश से विरुद्ध
कुरान खुदा ने क्यों बनाया ? और कुरान से विरुद्ध अंजील है इसीलिये ये किताबें
ईश्वरकृत नहीं हैं ॥ १३८ ॥

• इस आयत के भाष्य "तफसीर हुसैनी" में लिखा है कि महुम्मद साहिब ही परदी में थे और खुदा
की आज्ञा सुनी । एक परदा जरी का या दूसरा श्वेत मोतियों का और दीनी परदी के बीच में सत्तर वर्ष
चलने योग्य मार्ग था ! बुद्धिमान् लोग इस बात को विचारें कि यह खुदा है वा परदे की अट बात करने
वाली स्त्री ? इन लोगों ने तो ईश्वर ही को दर्दशा कर डाली । कहां वेद तथा उपनिषदादि सदस्यों ने प्रति-
पादित यह परमात्मा और कहां कुरानीक परदे की अट से बात करने वाला खुदा । सब तो यह है कि
परब के अधिष्ठान् लोग ये उत्तम बात खाते किस के घर से ? ॥

१३८—पकड़ी उस को बस घसीटा उस को बीचों बीच दीवार के ॥ इसी प्रकार रहेंगे और विश्राह देंगे उन को साथ गोरियों अच्छी आँख बालियों के ॥ मं० ६ । सि० २५ । सू० ४४ । आ० ४४ । ५१ ॥

समी०—वाह क्या खुदा न्यायकारी हो कर प्राणियों को पकड़ाता और घसीटवाता है जब मुसलमानों का खुदा ही ऐसा है तो उस को उपासक मुसलमान अनाथ निर्बलों को पकड़ें घसीटें तो इस में क्या आश्चर्य है ? और वह हमारी मनुष्यों के समान विवाह भी कराता है जानो कि मुसलमानों का पुरोहित ही है ॥ १३८ ॥

१४०—बस जब तुम मिलो उन लोगों से कि काफिर हुए बस मारी गर्दन उन को यहाँ तक कि जब चूर कर दो उन को बस हड़ करी कैद करना ॥ और बहुत बस्तियाँ हैं कि वे बहुत कठिन थी शक्ति में बस्ती तेरी से जिस ने निकाल दिया तुम्ह को मारा हमने उस को बस न कोई हुआ सहाय देने वाला उन का ॥ तारीफ उस बहिष्कार की कि प्रतिज्ञा किये गये हैं परहेजगार बीच उस के नहरें हैं विन विगड़े पानी की और नहरें हैं दूध की कि नहीं बदला मजा उन का और नहरें हैं शराब की मजा देने वाली पीने वालों को शहद साफ किये गये की और वास्ते उन के बीच उस के मेवे हैं प्रत्येक प्रकार से दान मालिक उन के से ॥ मं० ६ । सि० २६ । सू० ४७ । आ० ४ । १३ । १५ ॥

समी०—इसी से यह कुरान, खुदा और मुसलमान गदर मचाने, सब को दुःख देने और अपना मतलब साधने वाले दयाहीन हैं । जैसा यहाँ लिखा है वैसा ही दूसरा कोई दूसरे मत वाला मुसलमानों पर करे तो मुसलमानों को वैसा ही दुःख जैसा कि अन्य को देते हैं हो वा नहीं ? और खुदा बड़ा पचपानी है कि जिनो ने महुम्मद साहेब को निकाल दिया उन को खुदा ने मारा भला जिस में शह पानी, दूध, मद्य और शहत की नहरें हैं वह संसार से अधिक हो सकता है ? और दूध की नहरें कभी हो सकती हैं ? क्योंकि वह थोड़े समय में विगड़ जाता है इसी लिये बुझिमान् लोग कुरान के मत को नहीं मानते ॥ १४० ॥

१४१—जब कि हिलाई जावे गी पृथिवी हिलावे जाने कर ॥ और उड़ाए जावे गे पहाड़ उड़ाये जाने कर ॥ इस ही जावे गे भुगुगे टुकड़े २ ॥ बस साहब दाहनी और बाले क्या हैं साहब दाहनी और के ॥ और बाले और बाले क्या हैं बाले और के ॥ ऊपर पलंग सेने के तारों से बुने हुए हैं ॥ तकिये किये हुए हैं ऊपर उन के आमने सामने ॥ और किये गे ऊपर उन के लहके मटा रहने वाले ॥ साथ आबलों के और आताषों के ॥ और प्यालों के शराब साफ से ॥ नहीं माया दुखाये जावे गे उस से और न बिस्व बोले गे ॥ और मेवे उस किये से

कि पसंद करे ॥ और गोशत जानवर पक्षियों के उस किसम से कि पसंद करे ॥ और वास्ते उन के औरतें हैं अच्छी आखों वालीं ॥ मानन्द मोतियों छिपाये हुआ की ॥ और बिक्रीने बड़े ॥ निश्चय हम ने उत्पन्न किया है औरतों को एक प्रकार का उत्पन्न करना है ॥ बस किया है हम ने उन को कुमारी ॥ सुहाग वालियां बराबर अवस्था वालियां ॥ बस भरने वाले हो उस से पेटों को ॥ बस कसम खाता हूं मैं साथ गिरने तारों के । मं० ७ । सि० २७ । सू० ५६ । आ० ४ । ५ । ६ । ८ । ९ । १५ । १६ । १७ । १८ । १९ । २० । २१ । २२ । २३ । २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । ५४ । ७५ ॥

समी०—अब देखिये कुरान बनाने वाले की लीला को भला पृथिवी तो हिलती ही रहती है उस समय भी हिलती रहेगी इस से यह सिद्ध होता है कि कुरान बनाने वाला पृथिवी को स्थिर जानता था भला पहाड़ों को क्या पक्षीवत् उड़ा देगा ? यदि भुनगे हो जावेंगे तो भी चूल्ह शरीरधारी रहेंगे तो फिर उन का दूसरा जन्म क्यों नहीं ? बाह जो जो खुदा शरीरधारी न होता तो उस के दाहिने ओर और बाईं ओर कैसे खड़े हो सकते ? जब वहां पलंग सोने के तारों से बुने हुए हैं तो बड़ई सुनार भी वहां रहते हैंगे और खटमल काटते होंगे जो उन को रात्री में सोने भी नहीं देते होंगे क्या वे तकिये लगा कर निकरमे बहिष्त में बैठे ही रहते हैं ? वा कुक काम किया करते हैं ? यदि बैठे ही रहते होंगे तो उन को अन्नपचन न होने से वे रोगी हो कर शीघ्र मर भी जाते होंगे ? और जो काम किया करते होंगे तो जैसे मिहनत मजदूरी यहां करते हैं वैसे ही वहां परिश्रम कारके निर्वाह करते होंगे फिर यहां से वहां बहिष्त में विशेष क्या है ? कुक भी नहीं यदि वहां लड़के सदा रहते हैं तो उन के मा बाप भी रहते होंगे और सासू श्वशुर भी रहते होंगे तब तो बड़ा भारी शहर बसता होगा फिर मलमूत्रादि के बढ़ने से रोग भी बहुत से होते होंगे क्योंकि जब मेवे खावेंगे गिलासों में पानी पीवेंगे और प्यालों से मद्य पीवेंगे न उन का सिर दूखेगा और न कोई विरह बोलेगा या यथेष्ट मेवा खावेंगे और जानवरों तथा पक्षियों के मांस भी खावेंगे तो अनेक प्रकार के दुःख पक्षी, जानवर वहां होंगे हत्या होगी और हाड़ जहां तहां विखरे रहेंगे और कसाबियों की दुकानें भी होंगी । बाह क्या कहना इन के बहिष्त को प्रशंसा कि वह अरबदेश से भी बढ़ कर दोखती है ! ! और जो मद्य मांस पी खा के उन्मत्त होते हैं इसीलिये अच्छी २ स्त्रियां और लौंडे भी वहां अवश्य रहने चाहिये नहीं तो ऐसे नशवानों के शिर में गरमी चढ़ के प्रमत्त हो जावें । अवश्य बहुत स्त्री पुरुषों के बैठने सोने के लिये बिक्रीने बड़े २ चाहिये जब खुदा कुमारियों को बहिष्त में उत्पन्न करता है तभी तो कुमारे लड़के को भी उत्पन्न करता है भला कुमारियों का तो विवाह जो यहां से उम्मेदवार हो कर

गये हैं उन के साथ खुदा ने लिखा पर उन सदा रहने वाले सड़कों का किन्हीं कुमारियों के साथ विवाह न लिखा क्या वे भी उन्हीं उम्मेदवारों के साथ कुमारो-यत् देदिये जायं गे ? इस की व्यवस्था कुकभौ न लिखी यहाँ खुदा में बड़ी भूल की हुई ! यदि बराबर अवस्था वाली सुहागिन स्त्रियां पतियों को पा के बहिष्कार में रहती हैं तो ठीक नहीं हुआ क्योंकि स्त्रियों से पुरुष का आयु दूना ठाई गुना चाहिये यह तो मुसलमानों के बहिष्कार की कथा है । और नरक वाले सिंहीड़ अर्थात् थोहर के वृत्ती को खा के पेट भरें गे तो कण्टक वृक्ष भी दोजख में होंगे तो कांटे भी लगते हों गे और गर्म पानी पीवें गे इत्यादि दुःख दोजख में पावें गे । कसम का खाना प्रायः झूठे का काम है सच्ची का नहीं यदि खुदा ही कसम खाता है तो वह भी झूठ से अलग नहीं हो सकता ॥ १४१ ॥

१४२—निघय अज्ञाह मित रखता है उन लोगों को कि लड़ते हैं बीच मार्ग उस के के ॥ मं० ७ । सि० ८ । सू० ६१ । आ० ४ ॥

समी०—वाह ठीक है ऐसी २ बातों का उपदेश करके विचार अवदेशवासियों को सब से लड़ा के शत्रु बना कर परस्पर दुःख दिलाया और मजहब का भंडा खड़ा करके लड़ाई फैलावे ऐसे को कोई बुद्धिमान ईश्वर कभी नहीं मान सकते जो जाति में विरोध बढ़ावे वही सब को दुःखदाता होता है ॥ १४२ ॥

१४३—ए नबी कहीं हराम करता है उस वस्तु को कि हलाल किया है खुदा ने तेरे लिये चाहता है तू प्रसन्नता बीबियों अपनी की और अज्ञाह चमा करने वाला दयालू है ॥ जल्दी है मालिक उस का जो वह तुम को छोड़ देते तो यह कि उस को तुम से अच्छी मुसलमान और ईमान वालियां बीबियां बदल दे सेवा करने वालियां तीबाः करने वालियां भक्ति करने वालियां रोगा रखने वालियां पुरुष देखी हुई और दिन देखी हुई ॥ मं० ७ । सि० २८ । सू० ६६ । आ० १५ ॥

समीक्षक—ध्यान दे कर देखना चाहिये कि खुदा क्या हुआ महमूद साहेब के घर का भीतरी और बाहरी प्रबन्ध करने वाला भृत्य ठहरा ! ! प्रथम आयत पर दो कहानियां हैं एक तो यह है कि महमूद साहेब को शहत का सबत प्रिय था । उन को कई बीबियां थीं उन में से एक के घर पीने में देर लगी तो दूसरियों को असह्य प्रतीत हुआ उन के कहने सुनने के पोछे महमूद साहेब सीगन्द गाः गए कि हम न पीवें गे ॥ दूसरी यह कि उन की कई बीबियों में से एक की बारी थी उस के यहाँ रात्री को गए तो वह नहीं अपने बाप के यहाँ गई थी । महमूद साहेब ने एक लौड़ी अर्थात् दासी को बुला कर पवित्र किया । जब बीबी को इस की खबर मिली तो असन्न हो गई तब महमूद साहेब ने सीगन्द गाई कि मैं ऐमा न करूंगा । और बीबी से भी कह दिया कि तुम किसी से वह बात मत

कहना बीबी ने स्वीकार किया कि न कहूँगी। फिर उन्होंने दूसरी बीबी से जा कहा इस पर यह आयत खुदा ने उतारी जिस वस्तु को हमने तेरे पर हलाल किया उस को तू हराम क्यों करता है ? बुद्धिमान् लोग विचारें कि भला कहीं खुदा भी किसी के घर का निमटेरा करता फिरता है ? और महुम्मद साहेब के तो आचरण इन बातों से प्रगट ही हैं क्योंकि जो अनेक स्त्रियों को रखे वह ईश्वर का भक्त वा पैगम्बर कैसे हो सके ? और जो एक स्त्री का पक्षपात से अपमान करे और दूसरी का मान्य करे वह पक्षपाती हो कर अधर्मी क्यों नहीं ? और जो बहु-तसी स्त्रियों से भी सन्तुष्ट न हो कर बाँदियों के साथ फंसे उस को लज्जा भय और धर्म कहां से रहे ? किसी ने कहा है कि :—

कामातुराणां न भयं न लज्जा ॥

जो कामी मनुष्य हैं उन को अधर्म से भय वा लज्जा नहीं होती और इन का खुदा भी महुम्मद साहेब की स्त्रियों और पैगम्बर के भगड़े का फैसला करने में जानी सरपच्च बना है अब बुद्धिमान् लोग विचार लें कि यह कुरान विद्वान् वा ईश्वरकृत है वा किसी अविद्वान् मतलबसिन्धु का बनाया ? स्पष्ट विदित हो जायगा, और दूसरी आयत से प्रतीत होता है कि महुम्मद साहेब से उन की कोई बीबी अप्रसन्न हो गई होगी उस पर खुदा ने यह आयत उतार कर उस को धमकाया होगा कि यदि तू गड़ बड़ करेगी और महुम्मद साहेब तुम्हें छोड़ देगे तो उन को उन का खुदा तुम्हें से अच्छी बीबियां देगा कि जो पुरुष से न मिली हों। जिस मनुष्य को तनिक सी बुद्धि है वह विचार ले सकता है कि ये खुदा खुदा के काम हैं वा अपने प्रयोजन सिद्धि के, ऐसी २ बातों से ठीक सिद्ध है कि खुदा कोई नहीं कहता था, केवल देश काल देख कर अपने प्रयोजन के सिद्ध होने के लिए खुदा की तर्फ से महुम्मद साहेब कह देते थे। जो लोग खुदा ही की तर्फ लगाते हैं उन को हम क्या, सब बुद्धिमान् यही कहेंगे कि खुदा क्या ठहरा मानो महुम्मद साहेब के लिये बीबियां लाने वाला नाई ठहरा !!! ॥ १४३ ॥

१४४—ऐ नबी भगड़ा कर काफ़िरी और गुप्त शत्रुओं से और सख्ती कर ऊपर उन के ॥ सं० ७ । सि० २८ । सू० ६६ ॥ आ० ८ ॥

समी०—देखिये मुसलमानों के खुदा की लीला अन्य मत वालों से लड़ने के लिये पैगम्बर और मुसलमानों को उचकाता है इसीलिये मुसलमान लोग उपद्रव करने में प्रवृत्त रहते हैं परमात्मा मुसलमानों पर कृपादृष्टि करे जिस से वे लोग उपद्रव करना छोड़ के सब से मित्रता से बसे ॥ १४४ ॥

१४५—फट जावे गा आसमान वस वह उस दिन सुप्त होगा ॥ और फरिस्ते होंगे ऊपर किनारी उसके के और उठावेगे तख्त मालिक तेरे का ऊपर अपने

उस दिन आठ जन ॥ उस दिन सामने लाये जाओगे तुम न क्षिपी रहेंगी कोई बात क्षिपी हुई ॥ वस जो कोई दिया गया कर्मपत्र अपना बीच दाहिने हाथ अपने के वस कहेगा ली पट्टी कर्मपत्र मेरा ॥ और जो कोई दिया गया कर्मपत्र बीच बांये हाथ अपने के वस कहेगा हाथ न दिया गया होता मैं कर्मपत्र अपना ॥ मं० ७ । सि० । २६ । सू० । ६६ । आ० । १६ । १७ । १८ । १९ । २५ ॥

समी०—वाह क्या फिलासफी और न्याय की बात है भला आकाश भी कभी फट सकता है ? क्या वह बस्र के समान है जो फट जावे ? यदि ऊपर के लोक को आसमान कहते हैं तो यह बात विद्या से विरुद्ध है ॥ अब कुरान का खुदा शरीरधारी होने में कुछ संदिग्ध न रहा क्योंकि तख्त पर बैठना आठ कहारों से उठवाना बिना मूर्तिमान् के कुछ भी नहीं हो सकता ? और सामने वा पीछे भी आना जाना मूर्तिमान् ही का हो सकता है जब वह मूर्तिमान् है तो एकदेशी होने से सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान् नहीं हो सकता और सब जीवों के सब कर्मों को कभी नहीं जान सकता यह बड़े आश्चर्य की बात है कि पुण्यात्माओं के दाहिने हाथ में पत्र देना, बचवाना, बहिष्त में भेजना और पापात्माओं के बांये हाथ में देना कर्मपत्र का, नरक में भेजना, कर्मपत्र बांच के न्याय करना भला यह व्यवहार सर्वज्ञ का हो सकता है ? कदापि नहीं यह सब लीला लड़केपन की है ॥ १४५ ॥

१४६—चढ़ते हैं फरिश्ते और रुह तर्फ उस को वह अज्ञाव होगा बीच उस दिन के कि है परिणाम उस का पचास हजार वर्ष ॥ जब कि निकलेंगे कब्रों में से दौड़ते हुए मानो कि वह बुनें के स्थानों की ओर दौड़ते हैं ॥ मं० ७ । सि० २६ । सू० ७० । आ० ४ । ४२ ॥

समी०—यदि पचास हजार वर्ष दिन का परिमाण है तो पचास हजार वर्ष की रात्रि क्यों नहीं ? यदि उतनी बड़ी रात्रि नहीं है तो उतना बड़ा दिन कभी नहीं हो सकता ? क्या पचास हजार वर्षों तक खुदा फरिश्त और कर्मपत्र वाले खड़े वा बैठे अथवा जागते ही रहेंगे ? यदि ऐसा है तो सब रोगी हो कर पुनः मर ही जायेंगे ॥ क्या कब्रों से निकल कर खुदा की कचहरी की ओर दौड़ेंगे ? उन के पास सम्पन्न कब्रों में क्यों कर पहुंचेंगे ? और उन विचारों को जो कि पुण्यात्मा वा पापात्मा हैं इतने समय तक सभी को कब्रों में दौरे सुपुर्द कंद क्यों रखा ? और आज काल खुदा की कचहरी बंद होगी और खुदा तथा फरिश्ते निकलें बैठें होंगे ? अथवा क्या काम करते होंगे? अपने स्थानों में दंटे उधर उधर घूमते, सोते, नाच तमागा देखते वा ऐश आराम करते होंगे ऐसा अंधेर किसी के राज्य में न होगा ऐसी २ बातों को सिवाय अंग्रियों के दूसरा कौन माने गा ॥ १४६ ॥

१४७—नियत्र उत्पन्न किया तुम को कई प्रकार से ॥ क्या नहीं देखा तुम ने कैसे उत्पन्न किया अज्ञाह ने सात आसमानों को ऊपर तले ॥ और किया चांद को बीच उस के प्रकाशक और किया सूर्य को दीपक । मं० ७ । सि० २६ । सू० ७१ । आ० १४ । १५ । १६ ॥

समीक्षक—यदि जीवों को खुदा ने उत्पन्न किया है तो वे नित्य अमर कभी नहीं रह सकते ? फिर बहिष्म में सदा क्यों कर रह सकेंगे ? जो उत्पन्न होता है ? वह वस्तु अव्यय नष्ट हो जाता है आसमान को ऊपर तले कैसे बना सकता है क्योंकि वह निराकार और विभु पदार्थ है, यदि दूसरी चीज़ का नाम आकाश रखते हो तो भी उस का आकाश नाम रखना व्यर्थ है यदि ऊपर तले आसमानों को बनाया है तो उन सब के बीच में चांद सूर्य कभी नहीं रह सकते जो बीच में रक्खा जाय तो एक ऊपर और एक नीचे का पदार्थ प्रकाशित है दूसरे से ले कर सब में अन्धकार रहना चाहिये ऐसा नहीं दीखता इस लिये यह बात सर्वथा मिथ्या है ॥ १४७ ॥

१४८—यह कि मसजिदें वास्ते अज्ञाह के हैं वस मत पुकारो साथ अज्ञाह के किसी को । मं० ७ । सि० २६ । सू० ७२ । आ० १८ ॥

समीक्षक—यदि यह बात सत्य है तो मुसल्मान लोग "लाइ लाहा इक्षिताः महुम्बदरसूलतनाः" इस कलमे में खुदा के साथी महुम्बद साहिव को क्यों पुकारते हैं ? यह बात कुरान से विरुद्ध है और जो विरुद्ध नहीं करते तो इस कुरान की बात को झूठ करते हैं । जब मसजिदें खुदा के घर हैं तो मुसल्मान महावुत्परस्त हुए, क्योंकि जैसे पुरानो जैनी छोटी सी मूर्ति को ईश्वर का घर मानने से वुत्परस्त ठहरते हैं ये लोग क्यों नहीं ? ॥ १४८ ॥

१४९—इकड़ा किया जावे गा सूर्य और चांद । मं० ७ । सि० २६ । सू० ७५ । आ० २० ॥

समीक्षक—भला सूर्य चांद कभी इकट्ठे हो सकते हैं ? देखिये यह कितनी बेसमझ की बात है और सूर्य चन्द्र ही के इकट्ठे करने में क्या प्रयोजन था ? अन्य सब लोकों को इकट्ठे न करने में क्या युक्ति है ? ऐसी २ असंभव बातें परमेश्वरकृत कभी हो सकती हैं ? विना अविद्वानों के अन्य किसी विद्वान् की भोनहीं होती ॥ १४९ ॥

१५०—और फिरेंगे ऊपर उन के लड़के सदा रहने वाले जब देखेगा तू उन को अनुमान करे गा तू उन को मोती बिखरे हुए ॥ और पहनाये जावे गे कांगन चांदी के और पिलावे गा उन को रव उन का शराब पवित्र । मं० ७ । सि० २६ । सू० ७६ । आ० १९ । २१ ॥

समीक्षक—क्यों जो मोती के वर्ण से लड़के किस लिये वहां रक्खे जाते हैं ? क्या जवान लोग सेवा वा स्त्री जन उन को दम नहीं कर सकतीं ? क्या आचर्य

है कि जो यह महा बुरा कर्म लड़कों के साथ दुष्ट जन करने हैं उस का मूल यही सुरान का वचन हो ! और वहिष्ठ में खामी सेवक भाव होने से खामी को जानकर और सेवक को परिश्रम होने से दुःख तथा पक्षपात क्यों है ? और जब खुदा ही सब पिलावे गा तो वह भी उन का सेवकवत् ठहरे गा फिर खुदा को वड़ा क्यों कर रह सकेगी ? और वहां वहिष्ठ में स्त्री पुरुष का समागम और गर्भस्थित और लड़के वात भी होते हैं वा नहीं ? यदि नहीं होते तो उन का विषय सेवन करना व्यर्थ हुआ और जो होते हैं तो वे जीव कहां से आये ? और बिना खुदा की सेवा के वहिष्ठ में क्यों जन्मे ? यदि जन्मे तो उन को बिना ईमान लाने और खुदा की भक्ति करने से वहिष्ठ सुफल मिल गया किन्हीं विचारों को ईमान लाने और किन्हीं को बिना धर्म के सुख मिल जाय इस से दूसरा बड़ा अन्याय कौन-सा होगा ? ॥ १५० ॥

१५१—बदला दिये जावेंगे कर्मानुसार ॥ और प्याले हैं भरे हुए ॥ जिस दिन खुड़े होंगे रुह और फरिश्तेसक बांध कर । मं० ७ । सि० ३० । सू० ७८ । आ० २६ । ३४ । ३८ ॥

समीक्षक—यदि कर्मानुसार फल दिया जाता तो सदा वहिष्ठ में रहने वाले हरे फरिश्ते और मोती के सदृश लड़कों को कौन कर्म के अनुसार सदा के लिये वहिष्ठ मिला ? ॥ जब प्याले भर २ गराब पीये गे तो मस्त हो कर क्यों न लड़े गे ? रुह नाम वहां एक फरिश्ते का है जो सब फरिश्तों से बड़ा है । क्या खुदा रुह तथा अन्य फरिश्तों को पंक्तिबद्ध खुड़े करके पलटन बांधे गा ? क्या पलटन से सब जीवों को सजा दिलावे गा ? और खुदा उस समय खड़ा होगा वा बैठा ? यदि कयामत तक खुदा अपनी सब पलटन एकत्र करके शयतान को पकड़ ले तो उस का राज्य निष्कांटक हो जाय इत का नाम खुदाई है ॥ १५१ ॥

१५२—जब कि सूर्य लपेटा जावे ॥ और जब कि तारे गदले हो जावें ॥ और जब कि पहाड़ चलाये जावें ॥ और जब आसमान की खाल उतारी जावे ॥ मं० ७ । सि० ३० । सू० ८२ । आ० १ । २ । ३ । ११ ॥

समीक्षक—यह यही वेसमझ की बात है कि गोल सूर्य लोक लपेटा जावे गा ? और तारे गदले क्यों कर हो सकें गे ? और पहाड़ जड़ होने से कैसे चलें गे ? और आकाश की क्या पश समझा कि उस की खाल निकाली जावेगी ? यह यही ही वेसमझ और अंगलीपन की बात है ॥ १५२ ॥

१५३—और जब कि आसमान फट जावे ॥ और जब तारे भड़ जावें ॥ और जब दर्जी चोरे जावें ॥ और जब कवरें जिला कर छठारे जावें ॥ मं० ७ । सि० ३० । सू० ८२ । आ० १ । २ । ३ । ४ ॥

समी०—वाह जी कुरान के बनाने वाले फ़िलासफ़र आकाश को क्यों कर फाड़ सके गा ? और तारों को कैसे भाड़ सके गा ? और दर्या क्या लकड़ी है जो चीर डाले गा ? और कब्रों क्या सुरदे हैं जो जिला सके गा ? ये सब बातें लड़कों के सटंग हैं ॥ १५३ ॥

१५४—कसम है आसमान बुर्जा वाले की ॥ किन्तु वह कुरान है वड़ा बीच लौह महफूज के ॥ मं० ७ । सि० ३० । सू० ८५ । आ० १ । २१ ॥

समी०—इस कुरान के बनाने वाले ने भूगोल खगोल कुछ भी नहीं पढ़ा था नहीं तो आकाश को किले के समान बुर्जा वाला क्यों कहता ? यदि मेषादि राशियों को बुर्ज कहता है तो अन्य बुर्ज क्यों नहीं ? इस खिये ये बुर्ज नहीं हैं किन्तु सब तारे लोक हैं ॥ क्या वह कुरान खुदा के पास है ? यदि वह कुरान उस का किया है तो वह भी विद्या और युक्ति से विश्व अविद्या से अधिक भरा होगा ॥ १५४ ॥

१५५—निश्चय वे मकर करते हैं एक मकर ॥ और मैं भी मकर करता हूँ एक मकर । मं० ७ । सि० ३० । सू० ८६ । आ० १५ । १६ ।

समी०—मकर कहते हैं ठगपन को क्या खुदा भी ठग है ? और क्या चोरी का जवाब चोरी और भूठ का जवाब भूठ है ? क्या कोई चोर भले आदमी के घर में चोरी करे तो क्या भले आदमी को चाहिये कि उस के घर में जा के चोरी करे ? वाह ! वाह !! जी कुरान के बनाने वाले ॥ १५५ ॥

१५६—और जब आवे गा मालिकतेरा और फरिश्ते पंक्ति बांध के ॥ और लाया जावे गा उस दिन दीजख को । मं० ७ । सि० ३० । सू० ८८ । आ० २१ । २२ ॥

समी०—कहो जी जैसे कोटपाल वा सेनाध्यक्ष अपनी सेना को ले कर पंक्ति बांध फिरा करे वैसा ही इन का खुदा है ? क्या दीजख को घड़ा सा समझा है कि जिस को उठा के जहाँ चाहे वहाँ ले जावे यदि इतना छोटा है तो असंख्य कैदी उस में कैसे समा सकेंगे ? ॥ १५६ ॥

१५७—वस कहा था वास्ते उन के पैगम्बर खुदा के ने रचा करो जंटनी खुदा की को और पानी पिलाना उस के को ॥ वस भूठनाया उस को वस पांव काटे उस के वस मरो डाली ऊपर उन के रज उन के ने । मं० ७ । सि० ३० । सू० ८९ । आ० १३ । १४ ॥

समी०—क्या खुदा भी जंटनी पर चढ़ के शैल किया करता है ? नहीं तो किस लिपे रखी ? और बिना क्यामत के अपना नियम तोड़ उन पर मरो रोग क्यों डाला ? यदि डाला तो उन को दंड किया फिर क्यामत की रात में न्याय और उस रातकाहीना भूठ समझा जायगा ? इस जंटनी के लोख से यह अनुमान

हे कि जो यह महा बुरा काम लड़कों के साथ दुष्ट जन करने है उस का मूल यही सुरान का वचन ही ! और वहिष्ठ में खामी सेवक भाव होने से खामी को खानन्द और सेवक को परिश्रम होने से दुःख तथा पक्षपात क्यों है ? और जब खुदा ही मद्य पिलावे गा तो वह भी उन का सेवकवत् ठहरे गा फिर खुदा की वधाई क्यों बार रह सकेगी ? और वहां वहिष्ठ में स्त्री पुरुष का समागम और गर्भधित और लड़के जन्म भी होते हैं वा नहीं ? यदि नहीं होते तो उन का विषय सेवन करना ध्यर्थ हुआ और जो होते हैं तो वे जीव कहां से आये ? और बिना खुदा की सेवा के वहिष्ठ में क्यों जन्मे ? यदि जन्मे तो उन को बिना ईमाग लाने और खुदा की भक्ति करने से वहिष्ठ सुफल मिल गया किहीं विचारों को ईमान लाने और किहीं को बिना धर्म के सुख मिल जाय इस से दूसरा बड़ा अन्याय यौन-सा होगा ? ॥ १५० ॥

१५१—बदला दिये जावेगे कर्मानुसार ॥ और प्याले हैं भरे हुए ॥ जिस दिन खड़े होंगे रुह और फरिष्तेसक बांध कर । मं० ७ । सि० ३० । सू० ७८ । आ० २६ । ३४ । ३८ ॥

समीक्षक—यदि कर्मानुसार फल दिया जाता तो सदा वहिष्ठ में रहने वाले हरे फरिष्ते और मोती के सदृश लड़कों को कौन काम के अनुसार सदा के लिये वहिष्ठ मिला ? ॥ जब प्याले भर २ शराब पीये गे तो मन्दा हो कर क्यों न लड़े गे ? रुह नाम यहाँ एक फरिष्ते का है जो सब फरिष्ते से बड़ा है । क्या खुदा रुह तथा अन्य फरिष्ते को पंक्तिबद्ध खड़े करके पलटन बांधे गा ? क्या पलटन से सब जीवों को सजा दिलावे गा ? और खुदा उस समय खड़ा होगा वा बैठा ? यदि क्यामत तक खुदा अपनी सब पलटन एकत्र करके शयतान को पकड़ ले तो उस का राज्य निश्कांटक ही जाय इस का नाम खुदाई है ॥ १५१ ॥

१५२—जब कि सूर्य लपेटा जावे ॥ और जब कि तारे गदने ही जावे ॥ और जब कि पहाड़ चलाने जावे ॥ और जब आसमान की खाल उतारी जावे ॥ मं० ७ । सि० ३० । सू० ८१ । आ० १ । २ । ३ । ११ ॥

समीक्षक—यह बड़ी बेसमझ की बात है कि गोल सूर्य लोके लपेटा जावे गा ? और तारे गदने क्यों कर ही सके गे ? और पहाड़ जड़ होने से कैसे चले गे ? और आकाश को क्या पशु समझा कि उस को खाल निकाली जावेगी ? यह बड़ी ही बेसमझ और अंगलीपन की बात है ॥ १५२ ॥

१५३—और जब कि आसमान फट जावे ॥ और जब तारे भड़ जावे ॥ और जब दर्वा चोरे जावे ॥ और जब कवरे जितना कर उठाई जावे ॥ मं० ७ । सि० ३० । सू० ८१ । आ० १ । २ । ३ । ४ ॥

समी०-वाह जी कुरान के बनाने वाले फिलासफर आकाश को क्यों कर फाड़ सके गा ? और तारों को कैसे भाड़ सके गा ? और हर्षा क्या लकड़ी है जो चौर डाले गा ? और कबरे क्या मुश्दे हैं जो जिला सके गा ? ये सब बातें लड़कों के सङ्ग हैं ॥ १५३ ॥

१५४-कसम है आसमान बुर्जा वाले की ॥ किन्तु वह कुरान है बड़ा बीच लौह महफूजे के ॥ मं० ७ । सि० ३० । सू० ८५ । आ० १ । २१ ॥

समी०-इस कुरान के बनाने वाले ने भूगोल खगोल कुछ भी नहीं पढ़ा था नहीं तो आकाश को किले के समान बुर्जा वाला क्यों कहता ? यदि मेषादि राशियों को बुर्ज कहता है तो अन्य बुर्ज क्यों नहीं ? इस लिये ये बुर्ज नहीं हैं किन्तु सब तार लोक हैं ॥ क्या वह कुरान खुदा के पास है ? यदि यह कुरान उस का किया है तो वह भी विद्या और युक्ति से विरुद्ध अविद्या से अधिक भरा होगा ॥ १५४ ॥

१५५-निश्चय वे मकर करते हैं एक मकर ॥ और मैं भी मकर करता हूँ एक मकर । मं० ७ । सि० ३० । सू० ८६ । आ० १५ । १६ ।

समी०-मकर कहते हैं ठगपन को क्या खुदा भी ठग है ? और क्या चोरी का जबाब चोरी और झूठ का जबाब झूठ है ? क्या कोई चोर भले आदमी के घर में चोरी करे तो क्या भले आदमी को चाहिये कि उस के घर में जा के चोरी करे ? वाह ! वाह !! जी कुरान के बनाने वाले ॥ १५५ ॥

१५६-और जब आवे गा मालिक तेरा और फरिश्ते पंक्ति बांध के ॥ और लाया जावे गा उस दिन दोख को । मं० ७ । सि० ३० । सू० ८८ । आ० २१ । २२ ॥

समी०-कहो जी जैसे कोटपाल वा सेनाध्यक्ष अपनी सेना को ले कर पंक्ति बांध फिरा करे वैसा ही इन का खुदा है ? क्या दोख को घड़ा सा समझा है कि जिस को उठा के जहां चाहे वहां ले जावे यदि इतना छोटा है तो असंख्य कैदी उस में कैसे समा सकेंगे ? ॥ १५६ ॥

१५७-बस कहा था वास्ते उन के पैगम्बर खुदा के ने रचा करो जंटनी खुदा की को और पायी पिलाना उस के को ॥ बस झूठनाया उस को बस पांव काटे उस के बस मरो डाली ऊपर उन के रव उन के ने । मं० ७ । सि० ३० । सू० ८९ । आ० १३ । १४ ॥

समी०-क्या खुदा भी जंटनी पर चढ़ के शैल किया करता है ? नहीं तो जिस लिये रखी ? और बिना कयामत के अपना नियम तोड़ उन पर मरो रोग क्यों डाला ? यदि डाला तो उन को दंड किया फिर कयामत की रात में न्याय और उस रात का होना झूठ समझा जायगा ? इस जंटनी के लेख से यह अनुमान

होता है कि अरबदेश में जंट जंटनी के सिवाय दूसरी सवारी कम होती है इस से सिद्ध होता है कि किसी अरबदेशी ने कुरान बनाया है ॥ १५७ ॥

१५८-यों जो न रुकें गा अवश्य घसीटेंगे हम साथवालों माथे के ॥ वह माथा कि झूठा है और अपराधी ॥ हम बुलावेंगे फरिश्ते दोऊखु के को । मं० ७ । सि० ३० । सू० ८६ । आ० १५ । १६ । १८ ॥

समी०-इस नीच चपरासियों के काम घसीटने से भी खुदा न बचा । भला माथा भी कभी झूठा और अपराधी हो सकता है ? सिवाय जीव के, भला यह कभी खुदा हो सकता है कि जैसे जेलखाने के दरोगा को बुलावा भेजे ? ॥ १५८ ॥

१५९-निश्चय उतारा हमने कुरान को बीच रात क़दर के ॥ और क्या जाने तू क्या है रात क़दर की ॥ उतरते हैं फरिश्ते और पवित्रात्मा बीच उस के साथ आज्ञा मालिक अपने के वास्ते हर काम के । मं० ७ । सि० ३० । सू० ८७ । आ० १ । २ । ४ ॥

समी०-यदि एक ही रात में कुरान उतारा तो वह आवत अर्थात् उस समय में उतरी और धीरे २ उतारा यह बात सत्य क्यों कर हो सकेगी ? और रात्री अन्धेरी है इस में क्या पूछना है हम लिख आये हैं ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो सकता और यहां लिखते हैं कि फरिश्ते और पवित्रात्मा खुदा के हुका से संसार का प्रबन्ध करने के लिये आते हैं इस से स्पष्ट हुआ कि खुदा मनुष्यवत् एकदेशी है अब तक देखा था कि खुदा फरिश्ते और पैग़म्बर तीन की कथा है अब एक पवित्रात्मा चौथा निकल पड़ा ! अब न जाने यह चौथा पवित्रात्मा क्या है ? यह तो ईसाइयों के मत अर्थात् पिता पुत्र और पवित्रात्मा तीन के मानने से चौथा भी बढ़ गया यदि कहो कि हम इन तीनों को खुदा नहीं मानते ऐसा भी हो परन्तु जब पवित्रात्मा पृथक् है तो खुदा फरिश्ते और पैग़म्बर को पवित्रात्मा कहना चाहिये वा नहीं ? यदि पवित्रात्मा हैं तो एक ही का नाम पवित्रात्मा क्यों ? और घोड़े आदि जानवर रात दिन और कुरान आदि के खुदा कसमें खाता है कसमें खाना भले लोगों का काम नहीं ॥ १५९ ॥

अब इस कुरान के विषय को शिखर के बुद्धिमानों के सन्मुख स्थापित करता हूं कि यह पुस्तक कैसा है ? सुझ से पूछो तो यह किताब न ईग्वर न विद्वान् की बनाई और न विद्या की हो सकती है यह तो बहुत थोड़ासा दीप प्रकट किया इस लिये कि लोग धोखे में पड़ कर अपना जस व्यर्थ न गमायें जो कुछ इस में थोड़ासा मत्व है वह वेदादि विद्या पुस्तकों के अनुकूल होने से जैसे मुझ को याद है वैसे अन्य भी मनुष्यों के हठ और पक्षपातरहित विद्वानों और बुद्धिमानों को याद है इस के बिना जो कुछ इस में है वह सब अविद्या भ्रम ज्ञान और मनुष्य के

आमा को पशवत् बना कर शान्ति भंग करा के उपद्रव मचा मनुष्यों में विद्रोह फैला परस्पर दुःखोन्नति करने वाला विषय है । और पुनरुक्त दोष का तो कुरान जानी भंडार ही है परमात्मा सब मनुष्यों पर कृपा करे कि सब से सब प्रीति परस्पर मेल और एक दूसरे को सुख की उन्नति करने में प्रवृत्त हीं जैसे मैं अपना वा दूसरे मतमतान्तरों का दोष पक्षपात रहित ही कर प्रकाशित करता हूँ इसी प्रकार यदि सब विद्वान् लोग करेंतो कठिनता है कि परस्पर का विरोध छूट मेल ही कर आनन्द में एक मत ही के सत्य की प्राप्ति सिद्ध ही, यह थोड़ा सा कुरान के विषय में लिखा इस को बुद्धिमान् धार्मिक लोग ग्रंथकार के अभिप्राय को समझ लाभ लेंगे यदि कहीं भ्रम से अन्यथा लिखा गया हो तो उस को शुद्ध कर लेंगे ॥

अब एक बात यह शेष है कि बहुत से सुसज्जान ऐसा कहा करते और लिखा वा छपवाया करते हैं कि हमारे मजहब की बात अथर्ववेद में लिखी है इस का यह उत्तर है कि अथर्ववेद में इस बात का नाम निशान भी नहीं है (प्रश्न . क्या तम ने सब अथर्ववेद देखा है ? यदि देखा है तो अलोपनिषद् देखो यह साक्षात् उस में लिखी है फिर क्यों कहते हो कि अथर्ववेद में मुसज्जानों का नाम निशान भी नहीं ॥

अथाऽऽलोपनिषदं व्याख्यास्यामः ॥

अस्माह्नां इल्ले मित्रावरुणा दिव्यानि धत्ते ॥ इल्ले वरुणो राजा पुनर्ददुः ॥ हयामित्रो इह्नां इल्ले इह्नां वरुणो मित्रस्ते-जस्कामः ॥ १ ॥ होवारमिन्द्रो होतारमिन्द्र महासुरिन्द्राः ॥ अह्लोज्येष्ठं श्रेष्ठं परमं पूर्णं ब्रह्माणं अह्लाम् ॥२॥ अह्लोरसूलमहामदरकवरस्य अह्लो अह्लाम् ॥३॥ आदह्लाबूकमेककम् ॥ अह्लाबूक निखातकम् ॥४॥ अह्लो यज्ञेन हुतहुत्वा ॥ अह्ला-सूर्य चन्द्र सर्व नक्षत्राः ॥ ५ ॥ अह्ला ऋषीणां सर्व दिव्या इन्द्राय पूर्वं माया परममन्तरिक्षाः ॥ ६ ॥ अह्लः पृथिव्या अन्तरिक्षं विश्वरूपम् ॥ ७ ॥ इह्नां कवर इह्नां कवर इह्नां इल्लेति इल्लहाः ॥ ८ ॥ ओम् अह्लाइल्लहा अनादि स्वरूपाय अथर्वणा श्यामा हुं हीं जनानपशुनसिद्धान जलचरान अदृष्टं कुरु कुरु फट ॥ ९ ॥ असुर संहारिणी हुं हीं अह्लो-रसूल महामदरकवरस्य अह्लो अह्लाम इल्लेति इल्लहाः ॥१०॥

इत्यह्लोपनिषत् समाप्ता ॥

जो इस में प्रत्यक्ष महम्मद साहब रचल लिखा है इस से सिद्ध होता है कि सुसद्धानों का मत वेदसूक्तक है (उत्तर) यदि तुम ने अथर्ववेद न देखा हो तो हमारे पास आशु आदि से पूर्ति तक देखो अथवा जिस किसी अथर्ववेदी के पास योसकांद्युक्त मन्त्रसंहिता अथर्ववेद को देख ली कहीं तुम्हारे पैगम्बर साहब का नाम वा मत का निगान न देखो गे और जो यह अप्पनिपट्ट है वह न अथर्ववेद में न उस के गोपथब्राह्मण वा किसी शाखा में है यह तो अकथरगाह के समय में अनुमान है कि किसी ने बनाई है इस का बनाने वाला कुछ अर्वा और कुछ संस्कृत भी पढ़ा हुआ दोखता है क्योंकि इस में भरवी और संस्कृत के पद लिखे हुए दोखते हैं देखो (अस्मानां इक्षे मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्ते) इत्यादि में जो कि दश अक्ष में लिखा है जैसे इस में (अस्मानां और इक्षे) अर्वा और (मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्ते) यह संस्कृत पद लिखे हैं वैसे ही सर्वत्र देशने में आने से किसी संस्कृत और अर्वा के पढ़े हुए ने बनाई है यदि इस का अर्थ देखा जाता है तो यह कदमि अयुक्त वेद और व्याकरण रीति से विरुद्ध है जैसे यह उपनिपट्ट बनाई है वैसे बहुत सी उपनिपट्टें मतमतान्तर वाले पक्षपालियों ने बना ली हैं जैसे कि खरोषोपनिपट्ट, नसिंहतापनी, रामतापनी, गोपाणतापनी, बहुत सी बना ली हैं । (प्रश्न) आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा अब तुम कहते हो हम तुम्हारी बात कैसे मानें ? (उत्तर) तुम्हारे मानने वा न मानने से हमारी बात झूठ नहीं हो सकती है जिसप्रकार से मैं ने इस को अयुक्त ठहराई है उसी प्रकार से जब तुम अथर्ववेद गोपथ वा इस को शाखाओं से प्राचीन लिखित पुस्तकों में जैसा का तैसा खोज दिखलाओ और अर्थसंगति से भी शुद्ध करो तब तो सप्रमाण हो सकती है । (प्रश्न) देखो हमारा मत कैसा अच्छा है कि जिस में सब प्रकार का सुख और अन्त में सुक्ति होती है । (उत्तर) ऐसे ही अपने २ मत वाले सब कहते हैं कि हमारा ही मत अच्छा है बाकी सब बुरे बिना हमारे मत के दूसरे मत में सुक्ति नहीं हो सकती अब हम तुम्हारी बात को सधो माने वा उन को ? हम तो वही मानते हैं कि सत्यभाषण अहिंसा दया आदि एभ गुण सब मतों में अच्छे हैं और बाकी याद, विवाद, ईर्ष्या, द्वेष, मिथ्याभाषणादि अर्ग सब मतों में बुरे हैं यदि तुम को सत्यमत ग्रहण की इच्छा हो तो वैदिकमत को ग्रहण करो ।

इस के आगे सत्यसत्याऽमन्तश्च काप्रकाश संक्षेप से लिखा जायगा ।

इति श्रीमह्वानन्द मरम्यतो स्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविभूषिते यथनमतविषये चतुर्दशः

समुद्गमः संपूर्णः ॥ १४ ॥

स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाशः ॥

— ❀ श्रीः ❀ —

सर्वतन्त्र सिद्धान्त अर्थात् साम्राज्य सार्वजनिकधर्म जिस को सदा से सब मानते आये मानते हैं और मानेंगे भी इसी लिये उस को सनातन नित्य धर्म कहते हैं कि जिस का विरोधी कोई भी न हो सके, यदि अविद्यायुक्त जन अथवा किसी मत वाले के भ्रमाये हुए जन जिस को अन्यथा जानें वा मानें उस का स्वीकार कोई भी बुद्धिमान् नहीं करते किन्तु जिस को आम अर्थात् सत्यमानी, सत्यवादी, परोपकारक, पक्षपातरहित विद्वान् मानते हैं वही सब को मन्तव्य और जिस को नहीं मानते वह अमन्तव्य होने से प्रमाण के योग्य नहीं होता। अब जो वेदादिसत्यशास्त्र और ब्रह्मा से ले कर जैमिनिमुनिपर्यन्तों के माने हुए ईश्वरादि पदार्थ हैं जिन को कि मैं भी मानता हूँ सब सज्जन महाशयों के सामने प्रकाशित करता हूँ मैं अपना मन्तव्य उसी को जानता हूँ कि जो तीन काल में सब को एकसा मानने योग्य है मेरा कोई नवीन कल्पना वा मतमतान्तर चलाने का लेशमात्र भी अभिप्राय नहीं है किन्तु जो सत्य है उस को मानना, मनवाना और जो असत्य है उस को छोड़ना और छुड़वाना मुझ को अभीष्ट है यदि मैं पक्षपात करता तो आर्यावर्त में प्रचरित मतों में से किसी एक मत का आग्रही होता किन्तु जो २ आर्यावर्त वा अन्धदेशों में अधर्मयुक्त चाल चलन है उस का स्वीकार और जो धर्मयुक्त बातें हैं उन का त्याग नहीं करता, न करना चाहता हूँ क्योंकि ऐसा करना मनुष्य धर्म से बहिः है। मनुष्य उसी को कहना कि मननशील हो कर स्वात्मवत् अन्धों के सुख दुःख और हानि लाभ को समझे अन्यायकारी बलवान् से भी म डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे इतना ही नहीं किन्तु अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं कि चाहे वे महाअनाथ निर्बल और गुणरहित क्यों न हों उन की रक्षा, उन्नति, प्रियाचरण और अधर्मों चाहे चक्रवर्ती सनाथ, महाबलवान् और गुणवान् भी हो तथापि उस का नाश, अवनति और अप्रियाचरण सदा किया करे अर्थात् जहाँ तक हो सके वहाँ तक अन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सर्वथा किया करे इस काम में चाहे उस को कितना ही दाहण दुःख प्राप्त हो चाहे प्राण भी भले ही जावे परन्तु इस मनुष्यपनरूप धर्म से पृथक् कभी न होवे इस में श्रीमान् महाराज भर्तृहरि जी आदि ने प्रलोक कहे हैं उन का लिखना उपयुक्त समझ कर लिखता हूँ :-

निन्दन्तु नीतिनिपुणा, यदि वा स्तुवन्तु

लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।

अथैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा

न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः॥१॥ भर्तृहरिः

न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्

धर्मं त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः ।

धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये

जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः॥ २ ॥ महाभारते ।

एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः ।

शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्वि गच्छति ॥३॥ मनुः ।

सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः ।

येनाक्रमन्त्यृपयो ह्यासकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्॥४॥

नहि सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातकं परम् ।

नहि सत्यात्परं ज्ञानं तस्मात् सत्यं समाचरेत् ॥ ५ ॥ उ० नि०

इन्ही महागणों के श्लोकों के अभिप्राय के अनुकूल सब को निश्चय रखना-योग्य है । अब मैं जिन २ पदार्थों को जैसा २ मानता हूँ उन २ का वर्णन संक्षेप से यहाँ करता हूँ कि जिन का विषय व्याख्यान इस ग्रन्थ में अपने २ प्रकरण में कर दिया है इन में से:—

१—प्रथम "इश्वर" कि जिस के ब्रह्म, परमात्मादि नाम हैं जो सधिदान-न्दादिलक्षणयुक्त है जिस के गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हैं जो सर्वज्ञ, निर्वाकार, सर्वव्यापक, अलम्बा, अनन्त, सर्वगतिमान्, दयानु, न्यायकारी, सब सृष्टि का कर्ता, धर्ता, हर्ता, सब जीवों को कर्मानुसार सत्य न्याय से फल दाता आदि लक्षणयुक्त है उसी को परमेश्वर मानता हूँ ।

२—द्वितीय "वेदा" (विद्याधर्मयुक्त इश्वरप्रणीत संहिता मन्त्रभाग) को निर्भ्रान्त सतःप्रमाण मानता हूँ वे स्वयं प्रमाणरूप हैं कि जिन का प्रमाण होने में किसी अन्य ग्रन्थ की अपेक्षा नहीं जैसे सूर्य वा पृथ्वी अपने स्वरूप के स्वतः

प्रकाशक और पृथिव्यादि के भी प्रकाशक होते हैं वैसे चारों वेद हैं और चारों वेदों के ब्राह्मण, ऋः अङ्ग, छः उपाङ्ग, चार उपवेद और ११२७ (ग्यारह सौ सत्ताईस) वेदों की शाखा जो कि वेदों के व्याख्यानरूप ब्रह्मादि महर्षियों के बनाये ग्रन्थ हैं उन को परतः प्रमाण अर्थात् वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण और जो इन में वेद-विरुद्ध बचन हैं उन का अप्रमाण करता है ॥

३—जो पक्षपात रहित, न्यायाचरण सत्यभाषणादियुक्त ईश्वराज्ञा वेदों से अविरोध है उस को “धर्म” और जो पक्षपात रहित अन्यायाचरण मिथ्याभाषणादि ईश्वराज्ञा भंग वेदविरुद्ध है उस को “अधर्म” मानता है ॥

४—जो इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख और ज्ञानादि गुणयुक्त अल्पज्ञ नित्य है उसी को “जीव” मानता है ॥

५—जीव और ईश्वर स्वरूप और वैधर्म्य से भिन्न और व्याप्य व्यापक और साधर्म्य से अभिन्न हैं अर्थात् जैसे आकाश से सूर्तिमान् द्रव्य कभी भिन्न न था न है न होगा और न कभी एक था, न है न होगा इसी प्रकार परमेश्वर और जीव को व्याप्य व्यापक उपास्य उपासक और पिता पुत्र आदि सम्बन्ध युक्त मानता है ॥

६—“अनादि पदार्थ” तीन हैं एक ईश्वर, द्वितीय जीव, तीसरा प्रकृति अर्थात् जगत् का कारण इन्हीं को नित्य भी कहते हैं जो नित्य पदार्थ हैं उन के गुणकर्म स्वभाव भी नित्य हैं ॥

७—“प्रवाह से अनादि” जो संयोग से द्रव्य गुण कर्म उत्पन्न होते हैं वे वियोग के पश्चात् नहीं रहते परन्तु जिस से प्रथम संयोग होता है वह सामर्थ्य उन में अनादि है और उस से पुनरपि संयोग होगा तथा वियोग भी, इन तीनों को प्रवाह से अनादि मानता है ॥

८—“सृष्टि” उस को कहते हैं जो पृथक् द्रव्यों का ज्ञान युक्ति पूर्वक मेल हो कर नाना रूप बनना ॥

९—“सृष्टि का प्रयोजन” यही है कि जिस में ईश्वर की सृष्टि निमित्त गुण कर्म स्वभाव का साफल्य होना जैसे किसी ने किसी से पूछा कि नेत्र किस लिये हैं ? उस ने कहा देखने के लिये वैसे ही सृष्टि करने के ईश्वर के सामर्थ्य की उफ-लता सृष्टि करने में है और जीवों के कर्मों का यथावत् भोग करना आदि भी ॥

१०—“सृष्टि सकर्तृक” है इस का कर्ता पूर्वोक्त ईश्वर है क्यों कि सृष्टि की रचना देखने और जड़ पदार्थ में अपने आप यथायोग्य बीजादिसंस्वरूप बनने का सामर्थ्य न होने से सृष्टि का “कर्ता” श्रवण है ॥

११—“बन्ध” सनिमित्तक अर्थात् अविद्या निमित्त से है जो २ पाप कर्म ईश्वर-भित्रीपासना अज्ञानादि सब दुःख फल करने वाले हैं प्रसी लिये यह “बन्ध” है कि जिस की ब्रह्मा नहीं और भोगना पड़ता है ॥

१२—“मुक्ति” अर्थात् सर्व दुःखों से छूट कर बन्धरहित सर्वव्यापक ईश्वर और उस की सृष्टि में स्वेच्छा से विचरना नियत समय पर्यन्त मुक्ति के आनन्द को भोग के पुनः संसार में आना ॥

१३—“मुक्ति के साधन” ईश्वरोपासना अर्थात् योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान, ब्रह्म-चर्य से विद्याप्राप्ति, आम विद्वानों का संग, सत्यविद्या, सुविचार और पुण्यार्थ आदि हैं ॥

१४—“अर्थ” वह है कि जो धर्म ही से प्राप्त किया जाय और जो अधर्म से सिद्ध होता है उस को अनर्थ कहते हैं ॥

१५—“काम” वह है कि जो धर्म और अर्थ से प्राप्त किया जाय ॥

१६—“वर्णाश्रम” गुण कर्मों की योग्यता से मानता है ॥

१७—“राजा” उसी को कहते हैं जो शुभगुण कर्म स्वभाव से प्रकाशमान् पञ्च-पातरहित न्यायधर्म का सेवी प्रजाओं में पितृवत् वर्त्त और उन को पुत्रवत् मान के उन की उन्नति और सुख बढ़ाने में सदा यत्न किया करे ॥

१८—“प्रजा” उस को कहते हैं कि जो पवित्रगुण कर्म स्वभाव को धारण कर-के पञ्चपात रहित न्याय धर्म के सेवन से राजा और प्रजा की उन्नति चाहती हुई राजविद्वोहरहित राजा के साथ पुत्रवत् वर्त्त ॥

१९—जो सदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य का ग्रहण कर अन्यायकारियों को छटावे और न्यायकारियों को बढ़ावे अपने आत्मा के समान सब का सुख चाहे सो “न्यायकारी” है उस को मैं भी ठीक मानता हूँ ॥

२०—“देव” विद्वानों को और अविद्वानों को “असुर” पात्रियों को “राजस” अनाचारियों को “पिशाच” मानता हूँ ॥

२१—उन्हीं विद्वानों, माता, पिता, आचार्य, अतिथि, न्यायकारी, राजा और धर्मात्मा जन, पतिव्रता स्त्री, और स्त्रीव्रत पति का सत्कार करना “देवपूजा” कहा-ती है इस से विपरीत अदेव पूजा इन की मूर्तियों को पूज्य और इतर पायाआदि बड़ मूर्तियों को सर्वथा अपूज्य समझता हूँ ॥

२२—“गिचा” जिस से विद्या, सभ्यता, धर्माकता, जितेन्द्रियतादि की बढ़ती होये और अविद्यादि दोष छूटें उस को गिचा कहते हैं ॥

२३-“पुराण” जो ब्रह्मादि के वनाये ऐतरेयादि ब्राह्मण पुस्तक हैं उन्हीं को पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा और नाराशंसी नाम से मानता हूँ अन्य भागवतादि को नहीं ॥

२४-“तीर्थ” जिस से दुःखसागर से पार उतरें कि जो सत्यभाषण, विद्या, सत्संग, यमादि, योगाभ्यास, पुरुषार्थ, विद्यादानादि शुभ कर्म है उसी को तीर्थ समझता हूँ इतर जलखलादि को नहीं ॥

२५-“पुरुषार्थ प्रारब्ध से बड़ा” इस लिये है कि जिस से संचित प्रारब्ध बनते जिस के सुधरने से सब सुधरते और जिस के विगड़ने से सब विगड़ते हैं इसी से प्रारब्ध की अपेक्षा पुरुषार्थ बड़ा है ॥

२६-“मनुष्य” को सब से यथायोग्य स्वाभावत् सुख, दुःख, हानि, लाभ में वर्तना श्रेष्ठ अन्यथा वर्तना दुरा समझता हूँ ॥

२७-“संस्कार” उस को कहते हैं कि जिस से शरीर मन और आत्मा उत्तम होवे वह निषेकादि श्मशानान्त सोलह प्रकार का है इस को कर्तव्य समझता हूँ और दाह के पश्चात् मृतक के लिये कुछ भी न करना चाहिये ॥

२८-“यज्ञ” उस को कहते हैं कि जिस में विद्वानों का सत्कार यथायोग्य शिल्प अर्थात् रसायन जो कि पदार्थविद्या उस से उपयोग और विद्यादि शुभ गुणों का दान अग्निहोत्रादि जिन से वायु वृष्टि जल ओषधी की पवित्रता करके सब जीवों को सुख पहुंचाना है, उस को उत्तम समझता हूँ ॥

२९-जैसे “आर्य्य” श्रेष्ठ और “दस्यु” दुष्ट मनुष्यों को कहते हैं वैसे ही मैं भी मानता हूँ ॥

३०-“आर्यावर्त” देश इस भूमिका नाम इस लिये है कि इस में आदि रुष्टि से आर्य्य लोग निवास करते हैं परन्तु इस की अवधि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचल, पश्चिम में अटक और पूर्व में ब्रह्मपुत्रा नदी है इन चारों के बीच में जितना देश है उस को “आर्यावर्त” कहते और जो इन में सदा रहते हैं उन को भी आर्य्य कहते हैं ॥

३१-जो सङ्गोपाङ्ग भेदविद्याओं का अध्यापक सत्याचार का ग्रहण और मिथ्या-चार का त्याग करावे वह “आचार्य्य” कहाता है ॥

३२-“शिष्य” उस को कहते हैं कि जो सत्यशिक्षा और विद्या को ग्रहण करने योग्य धर्मात्मा विद्या ग्रहण की इच्छा और आचार्य्य का प्रिय करने वाला है ॥

३३-“गुरु” माता पिता और जो सत्य का ग्रहण करावे और असत्य को झुड़ावे वह भी “गुरु” कहाता है ॥

३४—“पुरोहित” जो यजमान का हितकारी सत्योपदेष्टा होवे ॥

३५—“उपाध्याय” जो वेदों का एकदेश वा ज्ञानों को पढ़ाता हो ॥

३६—“श्रिष्टाचार” जो धर्माचरणपूर्वक ब्रह्मचर्य से विद्याग्रहण कर प्रत्यक्षादि प्रमाणां से सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना है यही श्रिष्टाचार और जो इस को करता है वह श्रिष्ट कहता है ॥

३७—प्रत्यक्षादि “आठ प्रमाणां” को भी मानता हं ॥

३८—“श्राम” जो यथार्थवक्ता, धर्मात्मा, सब के सुख के लिये प्रयत्न करता है उसी को “श्राम” कहता हं ॥

३९—“परीक्षा” पांच प्रकार की है इस में से प्रथम जो ईश्वर उस के गुण कर्म स्वभाव और वेदविद्या दूसरी प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण तीसरी सृष्टिकर्म चौथी श्रामों का व्यवहार और पांचवीं अपने आत्मा को पवित्रता विद्या इन पांच परीक्षाओं से सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना चाहिये ॥

४०—“परोपकार” जिस से सब मनुष्यों के दुराचार दुःख छूटे अष्टाचार और सुख बढ़े उस के करने को परोपकार कहता हं ॥

४१—“स्वतन्त्र” “परतन्त्र” जीव अपने कामों में स्वतन्त्र और कर्मफल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र वैसे ही ईश्वर अपने सत्याचार आदि काम करने में स्वतन्त्र है ॥

४२—“स्वर्ग” नाम सुख विनियम भोग और उस की सामग्री की प्राप्ति का है ॥

४३—“नरक” जो दुःखविनियम भोग और उस की सामग्री की प्राप्ति होना है ॥

४४—“जन्म” जो शरीरधारण कर प्रगट होना सो पूर्व पर और मध्य भेद से तीनों प्रकार का मानता हं ॥

४५—शरीर के संयोग का नाम “जन्म” और विनियममात्र को मृत्यु कहते हैं ॥

४६—“विवाह” जो नियमपूर्वक प्रसिद्धि से अपनी इच्छा करके पाणिग्रहण करना वह “विवाह” कहता है ॥

४७—“निधोग” विवाह के पश्चात् पति के मर जाने आदि विनियम में अथवा नष्टकत्वादि स्थिर रोगों में स्त्री, वा आपत्काल में पुनव स्वर्ण वा अपने से उत्तम वर्ण स्त्री वा पुनव के साथ सन्तानोत्पत्ति करना ॥

४८—“सृति” गुणकोर्तन अथवा और ज्ञान होना इस का फल प्रीति आदि होती है ॥

४६—“प्रार्थना” अपने सामर्थ्य के उपरान्त ईश्वर के सम्बन्ध से जो विज्ञान आदि प्राप्त होते हैं उन के लिये ईश्वर से याचना करना और इस का फल निर-भिमान आदि होता है ॥

५०—“उपासना” जैसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं वैसे अपने करना ईश्वर को सर्वव्यापक अपने को व्याप्य जान के ईश्वर के समीप हम और हमारे समीप ईश्वर है ऐसा निश्चय योगाभ्यास से साक्षात् करना उपासना कहती है इस का फल ज्ञान की उन्नति आदि है ॥

५१—“सगुणनिर्गुणस्वुतिप्रार्थनोपासना” जो २ गुण परमेश्वर में हैं उन से युक्त और जो २ गुण नहीं हैं उन से पृथक् मान कर प्रशंसा करना सगुणनिर्गुण स्वुति शुभ गुणों के ग्रहण की ईश्वर से इच्छा और दोष कुड़ाने के लिये परमात्मा का सहाय चाहना सगुणनिर्गुण प्रार्थना और सब गुणों से सहित सब दोषों से रहित परमेश्वर को मान कर अपने आत्मा को उस के और उस की आज्ञा के अर्पण कर देना सगुणनिर्गुणोपासना कहती है ॥

ये संक्षेप से स्वसिद्धान्त दिखला दिये हैं इन की विशेष व्याख्या इसी “सत्यार्थ-प्रकाश” के प्रकरण २ में है तथा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका आदि ग्रन्थों में भी लिखी है अर्थात् जो २ बात सब के सामने माननीय है उस को मानता अर्थात् जैसे सत्य बोलना सब के सामने अच्छा और मिथ्या बोलना बुरा है ऐसे सिद्धान्तों को स्वीकार करता हूँ और जो मतमतान्तर के परस्पर विरुद्ध भगड़े हैं उन को मैं प्रसन्न नहीं करता क्योंकि इन्हीं मत वालों ने अपने मतों का प्रचार कर मनुष्यों को फसा के परस्पर शत्रु बना दिये हैं इस बात को काट सर्व सत्य का प्रचार कर सब को ऐक्यमत में करा द्वेष कुड़ा परस्पर में दृढ़ प्रीतियुक्त करा के सब से सब को सुख लाभ पहुंचाने के लिये मेरा प्रयत्न और अभिप्राय है सर्वशक्तिमान् परमात्मा की कृपा सहाय और आप जनों की सहायभूति से “यह सिद्धान्त सर्वत्र भूगोल में शीघ्र प्रदृष्ट हो जावे” जिस से सब लोग सहज से धर्मार्थ काम मोक्ष की सिद्धि करके सदा उन्नत और आनन्दित होते रहें यही मेरा सुख प्रयोजन है ॥

अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्ध्येषु ॥

ओम् शन्नो मित्रः शं वरुणः । शन्नो भवत्वय्यमा ॥ शन्न
इन्द्रो बृहस्पतिः । शन्नो विष्णुरुक्रमः ॥ नमो ब्रह्मणे । नमस्ते
वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिषम् ।

ऋतमवादिपम् । सत्यमवादिपम् । तन्मामावीत् । तद्वृत्कारमा-
वीत् । आवीन्माम् । आवीद्वृत्कारम् । ओ३म् शान्तिः शान्तिः
शान्तिः ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्याणां परमविदुषां
श्रीविरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण श्रीम-
द्व्यानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचितः स्वम-
न्तव्यामन्तव्यसिद्धान्तसमन्वितः सुप्र-
माणयुक्तः सुभाषाविभूषितः
सत्यार्थप्रकाशोऽयं ग्रन्थः
सम्पूर्तिमगमत् ॥

अथ सत्यार्थप्रकाशस्य शुद्धाऽशुद्धपत्रम् ॥

पृष्ठे पंक्तौ	अशुद्धम्	शुद्धम्	पृष्ठे पंक्तौ	अशुद्धम्	शुद्धम्
५ ४	वृहद्वाचना- सूत्र	वृहद्दचना- सूत्र	७१ २७	द्वैतलोकाद्वे	द्वैतलोकाद्वे
५ ८	स्तन	स्तवन	७२ ४	स्मृतिर्ये मे एवं प्रकृतं	स्मृतिर्ये मे मनुस्मृति को
८ २७	ऐसाही	तो ऐसाही		ति प्रसिद्धी	प्रसिद्ध प्रसोक
१० २०	मङ्गलमय	मङ्गलमय		स्वोदप्रसिद्ध	शौर अग्न्य सव
१० २३	सवकाल	सवका काल		अग्न्य सव	स्मृति,
१० २६	पालनानि	पालनानि पूर्णानि		स्मृति	
१८ १६	यो रक्षित	यो रक्षति	८८ २४	अत्रियः	अत्रियाणात्
१८ २३	यच्चिकित्थयति	यःकेतयति	१०७ १	श्रेयः	श्रेयः
१९ २३	पूर्वेषामपि	स पूर्वेषामपि	११३ ५	साचेदक्षतयो- निः०१७८०	साचेदक्षतयो- निः०१७९॥
२२ ६	शब्द निवृ	शब्द सिद्ध	११८ १७	कक्षाद् द्वि- तीयो	कक्षाद् द्वि- तीयो
२२ १६	द्वयोर्भावो द्विता हाभ्या- मितं द्वीतं वा सैव	द्वयोर्भावो द्विभ्यामितं सा द्विता द्वीतं वा सैव	११९ २६	त्रींशु	त्रींशु
२८ १७	प्रसूता स्त्री	प्रसूता स्त्री	१२० २३	आत्मा मे पुत्र १ मासि	आत्मासि पुत्र मा मृग्याः
२८ ३१	वे संस्कारं	वे (त्रींशामी जीने)संस्कारं	१२७ २५	सांन्यस्यो- गायतया	संन्यासयो- गायतयः
३६ ६	सृष्ट	सृष्टु	१४० ४	उर्वेध्याय	उर्वेध्याय
३६ १६	इन्द्रियों	इन्द्रियों	१४४ ५	निदान्	निदान्
३६ २८	"वाह्याभ्य- न्तराक्षेपी,"	"वाह्याभ्य- न्तराक्षेपी,"	१४६ १७	(धनुर्दुर्गम्)	(धनुर्दुर्गम्)
५१ ४	३	२	१५१ २६	उधर	उधर
५१ २१	भूत्यै न प्रम- दितव्यम् । साध्याय- प्रवचनाभ्यां	साध्याय प्रवचनाभ्यां	१५२ ४	जो घायल हुएहीउनको	जो घायल हुएहीउनको श्रीवधादि विधिपूर्वका करे

पृष्ठे	पंक्तौ	अशुद्धम्	शुद्धम्	पृष्ठे	पंक्तौ	अशुद्धम्	शुद्धम्
३२७	२६	इतिहासपु- राणम् पंचमं वेदानां वेदः ॥ छन्दोग्य० प्र० ७ । खं० १	इतिहास- पुराणः पं- चमो वेदानां वेदः ॥	४५०	२६	नागकितने	नागकैतने
३३५	७	अक्रूर जी आकार सोये होंगे ॥	अक्रूर जी आकर सोये होंगे ॥	४५१	८	एकस्थूलमुनि ने ११ वर्षतक	एकस्थूलमुनि ने १२ वर्षतक
३३६	५	बोधयन्तीति हि प्राहुः	बोधयन्ती- ति हि प्राहुः	४५२	५	तप्यभि इनि दिष्ट ससि- रविणो	तप्यभि इनि दिठ ससि- रविणो
३५३	२०	अव	अवे	४५३	१	यंती	पंती
३७४	२०	खाने और जातिभेद- तोडने से	खाने पीने और जाति- भेद तोडने से	४५४	२६	वहां से ४ दिशा और ३ उपदिशा में	वहां से ४ दिशा और ४ उपदिशा में
३८३	११	गई	आगई	४५६	६	गुलजीयाण लरक बटवि- रकंभी ।	गुलजीयाण लरक बटवि- रकंभी ।
३९०	२१	२७ ७ २६	२७ ७ १६	४५६	२१	दोद	दोदो
३९२	२	राज आधी- नसे	राजा आधी सेन	४७६	३१	टाकू के स- मान निर्दयी होकर	डाकू के समा- न निर्दयी होकर
३९२	३	विलावसेलन	विलावलसेन	५७३	२७	फट	फट
४०२	१४	क्षणिक	क्षणिक	५७५	६	सत्यवादी,	सत्यवादी, सत्यकारी,
४१६	५	सामर्थ्य	समर्थ	५७५	१०	जिनको कि में भी मान- ता हूं	जिनको कि में मानता हूं
४२०	२	अकर्त	अकर्तक	५७७	७	और जो पक्ष- पात रहित	और जोपक्ष- पात सहित
४२१	२७	नैमित्तिककी	नैमित्तिकी				
४३६	२४	अगूरु	अगुरु				
४४४	२७	हां हांव तक	हां जबतक				

